



# बृहद् हिंदी ग्रंथ-सूची

(हिंदी वाङ्मय के ग्रंथों तथा ग्रंथकारों की विस्तृत नामावली)

संपादक

यशपाल महाजन तथा कृष्णा महाजन



भारतीय ग्रन्थ निकेतन  
दिल्ली-६



महाजन, यशपाल तथा कृष्णा महाजन  
बृहद् हिंदी ग्रन्थ-सूची प्रथम संस्करण  
दिल्ली, भारतीय ग्रन्थ निकेतन, १९६५.

पृ. २८, ५८४. २५ सेमी.

हिंदी वाङ्मय के ग्रन्थो तथा ग्रन्थकारो की विस्तृत नामावली

१ आख्या. २ हिंदी वाङ्मय.

३ महाजन, यशपाल, १९३२- ४. महाजन, कृष्णा, १९३३-

O15 54 [1]

a14,3152<sup>1</sup>N65

भा ग्रं नि. ८

K65

5556/03

प्रथम संस्करण : २६ जनवरी, १९६५

मूल्य ३६ रुपये मात्र

(ः) यशपाल महाजन तथा कृष्णा महाजन

प्रकाशक भारतीय ग्रन्थ निकेतन, १३३ लाजपतराय मार्केट, दिल्ली-६

मुद्रक रामस्वरूप शर्मा, राष्ट्र भारती प्रेस, दरियागज, दिल्ली-६

माननीय  
श्री मुरारिलाल नागर  
को  
सादर और सस्नेह  
समर्पित



## भूमिका

इस ग्रंथ-सूची को अपने पाठको के समक्ष प्रस्तुत करते हुए हमें प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। हिन्दी-साहित्य में यह अपने ढंग की पहली और अनूठी पुस्तक है, जिसमें यह प्रयत्न किया गया है कि हिन्दी वाङ्मय के समस्त ग्रंथो तथा ग्रंथकारो की विस्तृत जानकारी मिल सके। सामान्यतः पुरानी पुस्तके लुप्त होती रहती है और नवीन रचनाओ का प्रादुर्भाव होता रहता है, परन्तु जो सदर्थ-ग्रंथ बन जाता है उसका स्थायी महत्त्व रहता है और वह एक सग्रहणीय वस्तु बन जाती है।

ग्रंथालयी ही नहीं अपितु प्रत्येक विद्वान्, शिक्षा-शास्त्री, पुस्तक-विक्रेता तथा प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति यह जानना चाहता है कि

अमुक लेखक-की कौन-कौन-सी पुस्तके उपलब्ध है ?

अमुक पुस्तक का लेखक, अनुवादक अथवा संपादक कौन है ?

अमुक पुस्तक का प्रकाशक कौन है ?

अमुक-पुस्तक का विषय क्या है ?

अमुक पुस्तक का मूल्य क्या है ?

इस सूची में यथासम्भव हर प्रकार की जानकारी देने का प्रयत्न किया गया है।

ग्रंथ-सूची-जैसे सदर्थ-कोषो के निर्माण और उसके सकलन-संपादन में बड़े धैर्य एवं लगन की आवश्यकता पड़ती है। हमने यथासम्भव हिन्दी के सभी प्रकाशको की उपलब्ध सूचियों को एकत्र करके इसका निर्माण किया है। फिर भी कुछ प्रकाशक ऐसे हैं, जिन्होंने हमारे बार-बार अनुरोध करने पर भी अपनी पुस्तक-सूची नहीं भेजी और इस तरह सूची में उनकी पुस्तके नहीं आ पाईं। इस ग्रंथ को तैयार करने में जो कठिनाइया आई हैं, वे अनेक प्रकार की हैं। कई एक सूचियों में लेखक का पूरा नाम नहीं था। एक लेखक का नाम विभिन्न सूचियों में विभिन्न प्रकार से दिया हुआ था। अनेक स्थानों में तो एक ही पुस्तक का कई प्रकाशको की सूचियों में समावेश पाया गया। कुछ प्रकाशको की सूचियों में प्रचारित साहित्य भी था। आदि-आदि। इन सब बातों के होते हुए भी हमने इसे सब प्रकार से त्रुटि-रहित बनाने का प्रयत्न किया है। इन्हीं अनिवार्य तथा अपरिहार्य विवशताओ के कारण इसके प्रकाशन में अनुमान से कुछ अधिक विलव हो गया, जिसके लिए हम क्षमा-प्रार्थी हैं।

भारतीय लेखको के नामों को किस प्रकार क्रमबद्ध किया जाये, हमारे सामने यह भी एक जटिल समस्या थी। उदाहरणतः सिंह, स्वामी, शास्त्री, आचार्य आदि कही-कही तो कुल-नाम जैसे प्रतीत हुए और कही उपाधि-सूचक लगे। हमने इस बात का भरसक प्रयत्न किया है कि लेखको का उल्लेख उनके कुल-नाम से ही किया जाय और यथासम्भव उपनाम से निर्देशी सलेख (Cross reference) दिया जाय। इसकी प्रामाणिकता के लिए कितने ही व्यक्तियों एवं संस्थाओ से पूछ-ताछ की गई। इस कार्य में हमने अपना आदर्श 'राष्ट्रीय ग्रंथ-सूची' (Indian National Bibliography) को ही माना है।

हम नहीं कह सकते कि प्रस्तुत ग्रंथ को सर्वांगपूर्ण बनाने में हमें कहां तक सफलता मिली है। हमें तो केवल इसी बात का सन्तोष है कि जितनी सतर्कता इस काम में बरतनी चाहिए, उतनी बरती गई है। आशा है कि भविष्य में विद्वानों के दिशा-निर्देशन तथा प्रकाशको के सहयोग से यह कार्य और भी पूर्ण और शुद्धतर हो सकेगा। पूरी चेष्टा करने पर भी यदि इसमें मुद्रण आदि की अशुद्धियां रह गई हों तो उसके लिए प्रेमी पाठक हमें उदारतापूर्वक

क्षमा करेंगे। विद्वान् पाठको से अनुरोध है कि वे इन त्रुटियों की ओर हमारा ध्यान दिलाये, जिससे उनका सुधार कर भविष्य में इसे और भी सुंदर तथा उपयोगी बना सके।

हम उन सभी प्रकाशकों को हृदय से धन्यवाद देते हैं जिन्होंने इस सूची के निर्माण में अपना अनन्य सहयोग दिया। वास्तव में यदि उनका सक्रिय योगदान न मिलता तो हमारा यह अनुष्ठान इस रूप में न आ पाता। हमें आशा ही नहीं, प्रत्युत पूर्ण विश्वास है कि भविष्य में भी वे अपने नवीन तथा बहुमूल्य प्रकाशनों की जानकारी यथा समय देते रहा करेंगे जिससे इस ग्रंथ के आगामी परिशिष्टों (Supplements) में उन रचनाओं का समावेश हो सके।

श्रद्धेय श्री मुरारिलाल नागर के हम विशेष रूप से आभारी हैं जिनके कुशल निर्देशन से इस सूची का निर्माण हुआ है। श्री डी आर कालिया, निर्देशक, दिल्ली पब्लिक लायब्रेरी, का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें उत्साहित किया है। सर्वश्री आर एस गोयल (जोधपुर विश्वविद्यालय पुस्तकालय), राधाकृष्ण शर्मा, दर्शनलाल बजाज तथा जवाहरलाल मेहरा (दिल्ली पब्लिक लायब्रेरी), जगबहादुर खन्ना (दिल्ली विश्वविद्यालय पुस्तकालय), सत्यव्रत गुप्त 'कुशल' तथा कुमारी एस सीता राव (यू एस लायब्रेरी ऑफ कांग्रेस, नई दिल्ली), कुमारी सरला गुप्ता, पुरुषोत्तमकुमार तथा अनेक साथियों के हम आभारी हैं जिन्होंने इस कार्य को पूरा करने के लिए हमें हर प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की और सहयोग दिया।

जिन पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकों तथा वाचनलयों आदि से सामग्री-सकलन में सहायता मिली, हम उनके भी अनुगृहीत हैं। राष्ट्रभारती प्रेस ने हमारे इस कार्य में महत्वपूर्ण सहयोग दिया, जिसके लिए हम उसके सौम्य-मूर्ति सचालक श्री रामस्वरूप शर्मा तथा उनके कार्यकर्ताओं के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हैं।

यदि इस व्यवहारोपयोगी सदर्भ-ग्रंथ से पाठकों को कुछ भी लाभ मिल सका, तो हम अपना परिश्रम सार्थक समझेंगे।

दिल्ली, २६ जनवरी, १९६५

य. पा. म.

कृ. म.

## इस ग्रंथ-सूची का उपयोग कैसे किया जाय

इस ग्रंथ-सूची में ५३० प्रकाशकों की लगभग २४,००० पुस्तकों का विवरण है। इस के दो विभाग हैं :  
(१) लेखक-निर्देशी (२) ग्रंथ-निर्देशी।

लेखक-निर्देशी विभाग में लेखक-क्रम से व्यवस्था है। लेखक, ग्रंथ का नाम, प्रकाशक, मूल्य तथा विषय। ग्रंथ-निर्देशी विभाग में ग्रंथ-शीर्षक से अनुक्रम है। ग्रंथ का नाम, लेखक, प्रकाशक तथा मूल्य। साथ ही अनेक तरह के निर्देशी सलेख (Cross references) भी हैं (जैसे—सुमन. दे. क्षेमचंद्र 'सुमन', शास्त्री, चतुरसेन. दे. चतुरसेन, आचार्य) और यथासम्भव लेखकों की जन्म-तिथियाँ भी दी गई हैं।

स्थायित्व तथा एकरूपता लाने के लिए निम्नलिखित प्रणाली अपनाई गई है, जिससे पुस्तकों को शीघ्रता से ढूँढा जा सके—

१. प्रत्येक विभाग में पुस्तकों को हिंदी अक्षर-क्रम के अनुसार रखा गया है। 'पंचम वर्ण' के स्थान पर प्रायः सर्वत्र 'अनुस्वार' का प्रयोग किया गया है। जैसे—'पन्त' का 'पत', 'हिन्दी' का 'हिंदी'। यह इसलिए आवश्यक था कि सूची के क्रम को सुगमता तथा स्पष्टता से निभाया जा सके। संख्याएं इस प्रकार से दी गई हैं जैसे वे शब्दों में लिखी गई हों। जैसे—

अट्ठाइस दिन की कहानी

अठारह वर्ष बाद

अठारहवीं शती के ब्रजभाषा काव्य में प्रेमभक्ति

१८५७

अठारह सौ सत्तावन

१८५७ का स्वतंत्रता संग्राम

२. लेखक-निर्देशी में लेखकों को वंश-नाम या कुल-नाम से रखा गया है। जैसे—वाजपेयी, भगवतीप्रसाद, शुक्ल, शत्रुघ्नलाल, और यथासम्भव उपनाम से निर्देशी सलेख दिये गये हैं। जैसे—अशक दे. उपेन्द्रनाथ 'अशक'; कमलेश दे. शर्मा, पद्मसिंह 'कमलेश', हरिऔध. दे. उपाध्याय, अयोध्यासिंह 'हरिऔध'।
३. लेखक-निर्देशी में, यदि एक लेखक ने एक से अधिक पुस्तकें लिखी हैं तो उस लेखक का नाम एक बार दे कर उसकी अन्य कृतियाँ नीचे दे दी गई हैं। जैसे—

गुरुदत्त, १८६४- अतिम यात्रा. भा. सा. सदन १००

अवतरण. भा. सा. सदन एव सा. सदन, दे. ६००. उ

आवरण. भा. सा. सदन ५००. उ.

.....

४. जब दो लेखकों अथवा संपादकों ने एक पुस्तक लिखी है तो पहले लेखक के नीचे पुस्तक की पूरी जानकारी दी गई है तथा दूसरे लेखक अथवा संपादक से पहले के लिए निर्देशी सलेख (Cross reference) दे दिया गया है। किसी पुस्तक को दो से अधिक लेखकों अथवा संपादकों ने लिखा है तो पहले लेखक के आगे 'तथा अन्य' जोड़ दिया गया है।

- ५ ग्रथ-निर्देशी में यदि केवल पुस्तक का नाम तथा लेखक ही हो, तो पूरी जानकारी के लिए लेखक-निर्देशी देखें।
- ६ ग्रथ-निर्देशी में ग्रथ-शीर्षक का पहला शब्द यदि ऊपर आ चुका है, तो उसे पुनः न देकर उसके स्थान पर '—' का प्रयोग किया गया है। जैसे—  
 नेहरू और नई पीढ़ी शर्मा, हरिदत्त सहगल ४२५  
 —का देश ओमीलाल 'इलाहाबादी'. विद्या भवन, इ २५०  
 —का व्यक्तित्व चट्टोपाध्याय, वसंतकुमार. सहगल. ४.००
- ७ ग्रथ-निर्देशी में जब एक पुस्तक को एक से अधिक लेखकों ने लिखा है तो एक लेखक को देकर आगे '...' दे दिया गया है। जैसे—बूढ़े बच्चे तिवारी, रामचंद्र आत्माराम १५०। सहलेखकों की जानकारी के लिए आप लेखक-निर्देशी देखें।
- ८ लेखक और ग्रथ-निर्देशी दोनों विभागों में एक लेखक के ग्रथ को यदि कई प्रकाशकों ने प्रकाशित किया है तो लेखक और उसके ग्रथ को बार-बार न देकर '— —' से सूचित किया गया है। जैसे—कृष्णचंद्र. एक गधे की वापसी. राजपाल ३०० उ, — —हिंदू पा १००
९. पुस्तकों का मूल्य प्रकाशक-सूची के अनुसार है।
- १० यदि किसी पुस्तक का मूल्य नहीं दिया गया है तो कृपया प्रकाशक से पत्र-व्यवहार करें।
- ११ प्रकाशकों को अधिकतर संक्षिप्त रूप में दिया गया है, जिसकी विस्तृत जानकारी (पते सहित) पृष्ठ संख्या १३ पर दी गई है।
- १२ यदि एक पुस्तक को एक प्रकाशक ने प्रकाशित किया है तथा दूसरा उसकी बिक्री करता है, तो जिस सूची से हमें जानकारी मिली है, उसी का नाम दिया गया है।
- १३ जहाँ प्रकाशकों की सूचियों में हमें पुस्तकों का विषय भी मिल गया है, वहाँ विषय को भी संक्षिप्त रूप में दे दिया गया है। जैसे—'उ' से 'उपन्यास', 'ना' से 'नाटक', 'क' से 'कहानी', 'का' से 'काव्य', 'जी' से 'जीवनी', आदि। (पूरी जानकारी के लिए पृष्ठ संख्या ११ देखें)। जिन पुस्तकों के शीर्षक से उनका विषय स्वतः स्पष्ट है वहाँ विषय नहीं दिया गया है। जैसे—'अर्थशास्त्र का सिद्धांत', 'प्रारंभिक रसायन' आदि।
- १४ इस सूची में प्रायः पचहत्तर पैसे से कम का कथा-साहित्य नहीं दिया गया है।
- १५ सूची में अक्टूबर १९६४ तक की उपलब्ध पुस्तकें ली गई हैं।

## संकेत-सूची

अनु.	-	अनुवादक
अर्थ.	-	अर्थशास्त्र
आ.	-	आलोचना, समालोचना
इति.	-	इतिहास
उ.	-	उपन्यास
ए.	-	एकाकी
क.	-	कहानी
कथा.	-	कथा साहित्य
का.	-	काव्य, कविता, शायरी
काम.	-	काम-विज्ञान
ख.	-	खड
चि.	-	चिकित्सा
जी.	-	जीवनी, जीवन-चरित्र
टीका.	-	टीकाकार
दर्शन.	-	दर्शन शास्त्र
दे.	-	देखिये
धर्म.	-	धर्म, धार्मिक
ना.	-	नाटक, प्रहसन
नि.	-	निवध

पत्र.	-	पत्रकारिता
परि.	-	परिर्वाहित
पा.	-	पाकेट
प्र.	-	प्रत्येक
वप्र.	-	वालपोयोगी, प्रोटोपयोगी
भा.	-	भाग
भू.	-	भूगोल
या.	-	यात्रा
लोक.	-	लोक-कथा
वि.	-	विज्ञान
व्या.	-	व्याख्याकार
शोध.	-	शोध-ग्रथ, शोध-प्रवध
स.	-	सस्करण
सग्रा.	-	संग्रहकर्ता
सपा.	-	संपादक
सशो.	-	सशोधित
संस्म.	-	सस्मरण
सा.	-	साहित्य
हा.	-	हास्य, व्यंग्य-विनोद









अवध	अवध पब्लिशिंग हाउस	लखनऊ
अशोक पा	अशोक पाकेट बुक्स	४/३६, रूपनगर, दिल्ली-६, वितरक एन डी सहगल एड सस, दरीवा कला, दिल्ली
अशोक पु म	अशोक पुस्तक मंदिर	१६३, महात्मा गांधी मार्ग, कलकत्ता-७, शाखा ज्ञानवापी, वाराणसी-१
अशोक प्र	अशोक प्रकाशन	नई सडक, दिल्ली-६
अशोक प्र , म	अशोक प्रकाशन	मानिक चौक, मथुरा
अशोक प्र गृह	अशोक प्रकाशन गृह	२०-ए, रामनगर, नई दिल्ली-१
अशोक प्रे	अशोक प्रेस	पटना-६
असम	असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति	गुवाहाटी, असम
आगरा बुक	आगरा बुक स्टोर	रावतपारा, आगरा, शाखाए हास्पिटल रोड, आगरा, पुरानी मडी, अजमेर, ७२ लीडर रोड, इलाहाबाद २ नाथ मार्केट, दिल्ली, मैस्टन रोड, कानपुर, गुडन रोड, लखनऊ, तहसील के पास, मेरठ सिटी, महाल, नागपुर, गोविंद मित्रा रोड, पटना, नीची बाग, वाराणसी
आचार्य बुक	आचार्य बुक डिपो	बरोदा
आचार्य भास्करानंद	आचार्य भास्करानंद लोहनी	४०, कैसरबाग, लखनऊ-१
आज्ञाद	आज्ञाद किताब महल	लोयर बाजार, शिमला
आत्माराम	आत्माराम एड सस	काश्मीरी गेट, दिल्ली-६, शाखाए हौज खास, नई दिल्ली, माई हीरा गेट, जालधर, विश्वविद्यालय क्षेत्र, चडीगढ, चौडा रास्ता, जयपुर, महानगर, लखनऊ
आथेन्टिक	आथेन्टिक ट्रासलेटरस	गौशाला रोड, पटियाला
आदर्श पु भ	आदर्श पुस्तक भंडार	५८, अपर चितपुर रोड, कलकत्ता-७, डी ५३/८६ लक्सा रोड, गुरुबाग, वाराणसी
आदर्श पु म	आदर्श पुस्तक मंदिर एव जासूस महल	इलाहाबाद-३
आदर्श सा	आदर्श साहित्य सघ	चूरु (राजस्थान), प्रकाशन विभाग ३१ बड़तल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता-७, शाखा : हीरालाल रामकुमार, पो सैथिया, वीरभूम (प बगाल)
आदर्श हि	आदर्श हिंदी पुस्तकालय	४१६, अहियापुर, इलाहाबाद
आधुनिक पु	आधुनिक पुस्तक भवन	३०/३१, कलाकार स्ट्रीट, कलकत्ता-७
आधुनिक सा	आधुनिक साहित्य प्रकाशन	२/१४, तेजा चौक, व्यावर, राजस्थान
आनंद पु., को	आनंद पुस्तक भवन	पो कोठी, जिला सतना, म प्र
आनंद पु, वा	आनंद पुस्तक भवन	औसानगज, वाराणसी-१
आनंद प्र	आनंद प्रकाशन	१३५-ई, कृष्णनगर, इलाहाबाद-३
आरोग्य	आरोग्य मंदिर	आम बाजार, पो आरोग्य मंदिर, गोरखपुर
आर्ट्स	आर्ट्स एड लैटर्स	५७, दरियागज, दिल्ली-६
आर्मी	आर्मी एजुकेशनल स्टोर्ज	रामजस रोड, करौलबाग, नई दिल्ली-५
आर्य बुक	आर्य बुक डिपो	३०, नाई वाला, करौलबाग, नई दिल्ली-५



कला भा	कला-भारती	कृष्ण गली (सराय सैयद अली) मुजफ्फरपुर (बिहार)
कला म	कला मंदिर	नई सडक, दिल्ली-६
कल्पवृक्ष	कल्पवृक्ष कार्यालय	उज्जैन (मध्यभारत)
कल्याणदास	कल्याणदास एड ब्रदर्स	ज्ञानवापी, वाराणसी-१
कल्याणमल	कल्याणमल एड सन्स	त्रिपोलिया बाजार, जयपुर
कालेज	कालेज बुक स्टोर्स	गांधी रोड, खुरजा सिटी
काशी पु	काशी पुस्तक भंडार	चौक, वाराणसी
काशी हिंदू	काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रकाशन	वाराणसी-५, वितरक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बुक डिपो, वाराणसी-५
कि घर, का	किताब घर	८७/२५६, आचार्यनगर, कानपुर
कि घर, ल	किताब घर	हाईकोर्ट रोड, लखर, ग्वालियर, वितरक साहित्य प्रकाशन मंदिर, लखर, पुस्तक गृह, पाटणकर बाजार, लखर
कि महल	किताब महल [होलसेल डिविजन] प्रा लि	५६-ए, जीरो रोड, इलाहाबाद, शाखाए . १२ डी यूनिवर्सिटी रोड, इलाहाबाद, २८ फेज बाजार, दिल्ली, २३५ हार्नबी रोड, बवई, ४६ कार्नवालिस स्ट्रीट, कलकत्ता, एजेन्सिया अटल भवन चौडा रास्ता, जयपुर, अशोक राजपथ, पटना
किताबिस्तान	किताबिस्तान	१७-ए, कमला नेहरू रोड, इलाहाबाद
किशोर पब्लि	किशोर पब्लिशिंग हाउस	परैड, कानपुर
किशोर प्र	किशोर-प्रकाशन	सिकन्दरा (कानपुर), शाखा १६६, लक्ष्मण गज, भासी (हरिहर नारायण चौबे हाउस), तलेयापुरा, ललितपुर (यू पी)
कीर्ति	कीर्ति वासना प्रकाशन	सोलन (हिमाचल प्रदेश)
कुमार सन्ज	कुमार सन्ज	अजमेर
कृष्णा ब्र	कृष्णा ब्रदर्स	५१४/४६४, सुभाष नगर, इलाहाबाद-२
कृष्णा होमियो	कृष्णा होमियो क्लिनिक	५२२, योजना भवन, नई दिल्ली
केद्रीय	केद्रीय मन्त्रिवालय हिंदी परिपद्	मेरठ (उ प्र)
केदारनाथ	केदारनाथ रामनाथ	प्रीतनगर, जि अमृतसर (पंजाब)
कोहिली	कोहिली पब्लिशर्स	दारागज, इलाहाबाद
कौशावी	कौशावी प्रकाशन	लखनऊ
गगा	गगा पुस्तकमाला कार्यालय	सिटी स्टेशन रोड, आगरा
गगाप्रसाद	गगाप्रसाद एड सस	१, कटरा रोड, इलाहाबाद
गर्ग ब्र	गर्ग ब्रदर्स	सन्निधि, राजघाट, नई दिल्ली-१
गांधी हिंदु	गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा	मेनरोड, गुलवर्गा
गायत्री	गायत्री प्रकाशन	डालीगज, लखनऊ
गिदन	गिदन साहित्य मंदिर	४७६२, जवाहर नगर, दिल्ली-६
गिरिधर	गिरिधर प्रकाशन	गोरखपुर, निजी दूकाने ३०, वासतल्ला गली, कलकत्ता, २६०६ नई सडक, दिल्ली, अशोक,
गीता	गीता प्रेस	



ज्ञान मडल प्र  
ज्ञान-मंदिर  
ज्ञानालोक  
ज्ञानोदय

ज्ञान मडल प्रकाशन  
ज्ञान-मंदिर  
ज्ञानालोक प्रकाशन  
ज्ञानोदय प्रकाशन

टी सीताराम

टी सीताराम शास्त्री एड सस

डी वी तारापोरेवाला

डी वी तारापोरेवाला सन्ज एड क प्रा लि

तरुण

तरुण प्रकाशन

तारा

तारा पब्लिकेशस

तलक

तिलक ब्रदर्स

तुलसी

तुलसी साहित्य सदन

त्रिवेणी

त्रिवेणी प्रकाशन

दक्षिणायन

दक्षिणायन

दत्तवधु

दत्त वधु प्रा लि

दरभगा

दरभगा प्रेस क (प्रा) लि

दास

दास ब्रदर्स

दि पु स

दिल्ली पुस्तक सदन

दि प्रे

दिल्ली प्रेस

दि लायन्नेरी

दिल्ली लायन्नेरी बोर्ड

दि विश्व

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिशा

दिशा साहित्य प्रकाशन

दीपक पब्लि

दीपक पब्लिशर्स

दीपक प्र

दीपक प्रकाशन

देशमुख

देशमुख आणि कपनी

देहाती

देहाती पुस्तक भंडार

धारा

धारा प्रकाशन

नद ब्र

नदकिशोर एड ब्रदर्स

नद स

नदकिशोर एड सस

नया सा प्र

नया साहित्य प्रकाशन

नव कमल

नव कमल प्रकाशन

नवचेतना

नवचेतना प्रकाशन

नवजीवन

नवजीवन प्रकाशन मंदिर

नव-ज्योति प्र

नव-ज्योति प्रकाशन

नव-ज्योति प्रे

नव-ज्योति प्रेस

सैट्रल लायन्नेरी के पास, लखर, ग्वालियर  
भानपुरा (म प्र)

१३७, प्रकाशवीथी, ड्योडी आगामीर, लखनऊ  
बेकापुर, मुगेर (बिहार)

थगल बाजार, पो. इम्फाल मणिपुर

२१०, डा दादाभाई नौरोजी रोड, फोर्ट, बवई-१

१२-ए, बेली रोड, इलाहाबाद-२

कमच्छा, वाराणसी

५६८, नारायण पैठ, पूना-२

महात्मा गांधी मार्ग, इंदौर

दे असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति

४७४, छोटी बसकी (दारागज), इलाहाबाद-६

६२-ए, डाक्टन रोड, बोलाराम (आंध्र प्रदेश)

महात्मा गांधी मार्ग, अजमेर, शाखा जाखन देवी,  
दरभगा (बिहार) [अल्मोडा

निकलसन रोड, अवाला कैट

बगलो रोड, दिल्ली, चौडा रास्ता, जयपुर, गोविंद

मित्र रोड, पटना

वितरक दिल्ली बुक कपनी, एम-१२, कनाट सरकस,  
नई दिल्ली-१

श्यामा प्रसाद मुकर्जी मार्ग, दिल्ली-६

(हिंदी विभाग), दिल्ली

५७-डी, सेक्टर २१-डी, चंडीगढ

माई हीरा गेट, जालधर सिटी

११४, पान दरीबा, इलाहाबाद-३

७३६, बुधवार, पूना-२

चावडी बाजार, दिल्ली-६

१०६, लूकरगज, इलाहाबाद

पो बा ११२, बासफाटक, वाराणसी-१

पो बा १७, चौक, वाराणसी-१

२-डी मिंटो रोड, इलाहाबाद

वसेडी (भरतपुर)

गुहन रोड, अमीनाबाद, लखनऊ

अहमदाबाद-१४, शाखा नवजीवन ट्रस्ट, यू एस.

कम्प्यूनिकेशस थियेटर बिल्डिंग, रूम न १, कनाट

४००, मानपाडा, आगरा [सरकस, नई दिल्ली

पानदरीबा, लखनऊ, वितरक हिंदी विश्व-भारती,

लखनऊ, अवध पब्लिशिंग हाउस, लखनऊ,

प्रकाशन गृह, लखनऊ





प्र गृह	प्रकाशन गृह	लखनऊ
प्र प्रसारन	प्रकाशन प्रसारन	१/६० नामधर निवाम, आजाद मार्ग, कपासन (राजस्थान)
प्र विभाग	प्रकाशन विभाग	(विजनेस मैनेजर) सूचना और प्रसारण मंत्रालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली-६
प्रकाशगृह	प्रकाशगृह	४२, बलरामपुर हाउस, इलाहाबाद-२
प्रकाश पा	प्रकाश पाकेट बुक्स	प्रकाशकुटीर, डयोढी आगामीर, लखनऊ
प्रकाश बुक	प्रकाश बुक डिपो	बडा बाजार, बरेली (उ प्र )
प्रगति प्रकाशन	प्रगति प्रकाशन	३५८, मडी सईदखा, आगरा
प्रगतिशील	प्रगतिशील प्रकाशन	१६७६, कटरा खुशाल राय, किनारी बाजार, दिल्ली-६
प्रचा पा.	प्रचारक पाकेट बुक्स	पो बा न ७०, पिशाचमोचन, वाराणसी-१
प्रताप	प्रताप प्रकाशन	१००/८८, ८९, प्रेमनगर, दयालबाग, आगरा
प्रतिमा	प्रतिमा प्रकाशन	१३५, जय प्रकाश नारायण मार्ग, जबलपुर
प्रत्यूष	प्रत्यूष प्रकाशन	रामबाग, कानपुर
प्रदीप	प्रदीप प्रकाशन	४७३, मानपाडा, आगरा
प्रबुद्ध	प्रबुद्ध भारती प्रकाशन	२/८६, टोपो का मुहल्ला, जीवाजीगज, लश्कर (ग्वालियर)
प्रभात पब्लि	प्रभात पब्लिशिंग हाउस	नयागाव, लखनऊ
प्रभात प्र	प्रभात प्रकाशन	२०५, चावडी बाजार, दिल्ली-६
प्रयाग	प्रयाग-महिला-विद्यापीठ	१०६, हिवेट रोड, प्रयाग
प्रवाल	प्रवाल प्रकाशन	सोहबतियाबाग, इलाहाबाद-६
प्रवीर	प्रवीर प्रकाशन	४०/६८, परेड, कानपुर
प्रार्थना	प्रार्थना पुस्तक गृह प्रीमियर पब्लिशिंग कंपनी	किल्ला मडी, बटाला (जिला गुरदासपुर) दे एस चाद
प्रेमकुमारी	प्रेमकुमारी ठाकुर	१२, रामानिवास, विधान सभा मार्ग, लखनऊ
प्रेम प्र.	प्रेम प्रकाशन	३०१४, चर्खेवालान, दिल्ली-६
प्रेमी प्र	प्रेमी प्रकाशन	२२४/४९, प्रेमी कुटीर, पजाबी टोला, राजा बाजार के निकट, लखनऊ-३
फीरोजाबाद	फीरोजाबाद परिचय प्रकाशन समिति	शारदा सदन, फीरोजाबाद
फ्रैंक	फ्रैंक ब्रादर्स एंड कंपनी	चादनी चौक, दिल्ली-६
वगीय	वगीय हिंदी परिषद	१५, बकिम चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता-१२
ववई प्र	ववई प्रकाशन प्रा लि	कमानी चैबर्स निकल रोड, बेलार्ड इस्टेट, बबई-१
ववई हि	ववई हिंदी-विद्यापीठ	आनंद नगर, फारजेट स्ट्रीट, बबई-२६
वसल	वसल एंड कंपनी	के १६, नवीन शाहदरा, पो बा १२८९, दिल्ली-३२
वनारस मकॅन्टाइल	वनारस मकॅन्टाइल क वनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बुक डिपो	पोस्ट वाक्स ९२८, कलकत्ता-१
वाल कल्याण	वाल कल्याण समिति	दे काशी हिंदू विश्वविद्यालय प्रकाशन
वाल सदन	वाल सदन	हरिद्वार (उ प्र )
वि	विहार ग्रंथ कुटीर	४९/१६, पटेल नगर ईस्ट, नई दिल्ली-१२
	विहार राष्ट्रभाषा परिषद्	खजाची रोड, पटना-४ पटना-३



भानखडे	भातखडे संगीत विद्यापीठ	लखनऊ
भारतजीवन	भारतजीवन प्रेस	वितरक लहरी बुक डिपो
भारतेदु भवन	भारतेदु भवन	ई-वन, ६०, चडीगढ-३, अन्य प्राप्ति स्थान विश्व- भारती प्रकाशन, ६६७८/२२ वी, चडीगढ बिलासपुर (म प्र )
भारतेदु सा समि	भारतेदु साहित्य समिति	६८, रामबाग, इलाहाबाद
भालोटिया	भालोटिया बुक एजेसी	नया बाजार, मथुरा
भृगु ज्योतिष	भृगु ज्योतिष पुस्तकालय	४ बाई का वाग, इलाहाबाद
भृगु-त्रधु	भृगु-त्रधु कार्यालय	१ गोलपुरी बाजार, जमशेदपुर वितरक लेखक- मडल, जमशेदपुर
भोजपुरी साहित्य परिषद्	भोजपुरी साहित्य परिषद्	ललवानी प्रेस के सामने, भोपाल (म प्र )
भोपाल	भोपाल साहित्य सदन	राजमहल दरवाजे के पास, बडौदा-१
म स यूनि	म स यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन्स सेल्स युनिट	गोविंद राजियो का रास्ता, जयपुर
मगल	मगल प्रकाशन	वी-१८, डबल स्टोरी, रमेशनगर, नई दिल्ली-१५, वितरक माडर्न पब्लिकेशन्स, सिविल लाईन, लुधियाना
मजीत	मजीत पब्लिशर्स	चौपटिया रोड, चौक, लखनऊ
मजु	मजु प्रकाशन	१६६, सोहवतिया वाग, इलाहाबाद-६
मजुल	मजुल साहित्य सदन	जामिया नगर, नई दिल्ली-२५
मक्तबा	मक्तबा जामिया लि	खजाची रोड, पटना-४
मगध	मगध राजधानी प्रकाशन	दे असम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति
मध्यप्रदेश शासन	मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिषद्	भाषा-सचालनालय, सदर मजिल, भोपाल (म प्र )
मनोरमा	मनोरमा प्रकाशन गृह	टी-८४, जगपुरा लेन, नई दिल्ली
मनोविज्ञान	मनोविज्ञान प्रकाशन	५६/२३, गोविंदपुरा, वाराणसी-१
मयूर	मयूर प्रकाशन	भासी
महामना	महामना प्रकाशन मंदिर	७०५, महामना मालवीय नगर, इलाहाबाद
मातृ-भाषा	मातृ-भाषा-मंदिर	२५६, मालवीय नगर, इलाहाबाद
मानकचद	मानकचद बुक डिपो	सत्तीदरवाजा, उज्जैन, शाखा कमल प्रकाशन, खजूरी बाजार, इंदौर
मानवधर्म	मानवधर्म कार्यालय	पीपल महादेव, दिल्ली-६
मानस-मुक्ता	मानस-मुक्ता कार्यालय	रवीशकर वार्ड, सागर (म प्र )
मानस सघ	मानस सघ	पो रामवन, सतना (म प्र )
मानसरोवर सा	मानसरोवर साहित्य निकेतन	मुरादाबाद
मालवीय	मालवीय प्रकाशन	नजीराबाद, लखनऊ
मित्र	मित्र प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड	मुट्ठीगज, इलाहाबाद
मिलन-मंदिर	मिलन-मंदिर	२०, अमरतल्ला स्ट्रीट, कलकत्ता
मिश्र-त्रधु	मिश्र-त्रधु कार्यालय	जबलपुर
मिश्रा पु भ	मिश्रा पुस्तक भंडार	१६५/१, महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता-७
मीनन	मीतल प्रकाशन मंदिर	चूडी वाली गली, मथुरा
मेडिकल	मेडिकल पुस्तक भवन	अशोक भवन, गोला दीनानाथ, बनारस



रानी	रानी प्रकाशन
राम-कला	राम-कला प्रकाशन
रामचंद्र	रामचंद्र एड क.
रामप्रसाद	रामप्रसाद एड सस
रामलोचन	रामलाल कपूर ट्रस्ट
रामा प्र	रामलोचन प्रकाशन
रामा बुक	रामा प्रकाशन
राय	रामा बुक डिपो
रावत	राय एड कपनी
राष्ट्र पु भ.	रावत मीनालय
राष्ट्र पु. म.	राष्ट्रभाषा पुस्तक भंडार
राष्ट्र प्रचा , इ	राष्ट्रभाषा प्रकाशन मंदिर
राष्ट्र प्रचा समि	राष्ट्रभाषा प्रचारक
राष्ट्रीय प्र. मडल	राष्ट्रभाषा प्रचार मडल
राष्ट्रीय प्र मंदिर	राष्ट्रभाषा प्रचार समिति
राष्ट्रीय प्रेस	राष्ट्रीय प्रकाशन मडल
राष्ट्रीय सा स	राष्ट्रीय प्रकाशन मंदिर
रीगल	राष्ट्रीय प्रेस
रूपकमल	राष्ट्रीय साहित्य सदन
रूपसी	रीगल बुक डिपो
रूपा	रूपकमल प्रकाशन
लक्ष्मी ना	रूपसी प्रकाशन
ललित	रूपा एड कपनी
लहरी	लक्ष्मी नारायण अग्रवाल
लायल	ललित प्रकाशन
लेखक-मडल	लहरी बुक डिपो
लोक चेतना	लायल बुक डिपो
लोकप्रिय	लेखक-मडल
लोकभारती	लोक चेतना प्रकाशन
वर्मा	लोकप्रिय प्रकाशन
वाणी-वितान	लोकभारती प्रकाशन
वानुदेव	वर्मा ब्रह्म
द्विन्य	वाणी-वितान प्रकाशन
	वानुदेव प्रकाशन
	विजय प्रकाशन
	विजयकृष्ण लखनपाल एड क
	विद्या प्रकाशन भवन

ए-३/२० कृष्णनगर, दिल्ली-३१  
 खत्रियान स्ट्रीट, विजनौर (उ प्र )  
 १, असारी रोड, दरियागज, दिल्ली-६  
 अस्पताल रोड, आगरा, प्रमुख वितरक : मांडर्न बुक  
 डिपो, अस्पताल रोड, आगरा, सुभाष मार्केट,  
 बरेली, बुलानाला, वाराणसी, हमीदिया रोड,  
 भोपाल, प्रकाश प्रकाशन, २३ दरियागज, दिल्ली  
 वितरक भारतीय प्राच्य-विद्या प्रतिष्ठान  
 २३, असारी रोड, पो वा १००६, दिल्ली-५  
 नजीराबाद, लखनऊ  
 स्टेशन रोड, मुरादाबाद  
 १०, नेताजी सुभाष मार्ग, दरियागज, दिल्ली-६  
 रानीखेत, जि अल्मोड़ा (उ प्र )  
 बाका बजार, कटक-२  
 गायघाट, वाराणसी  
 इलाहाबाद  
 १८६२ चादनी चौक, दिल्ली-६ दे हिंदिया प्रकाशन  
 हिंदीनगर, वर्धा (महाराष्ट्र)  
 मछुआ टोली, पटना-४  
 अमीनाबाद, लखनऊ  
 राची वितरक पुस्तक भवन, राची  
 गुइन रोड, अमीनाबाद, लखनऊ  
 नई सडक, दिल्ली  
 १५, यू बी बगलो रोड, दिल्ली-६  
 इलाहाबाद-३  
 १५, बकिम चटर्जी स्ट्रीट, कलकत्ता-१२  
 अस्पताल रोड आगरा  
 पत्थरगली, वाराणसी  
 पो वा ३६, रामकटोरा रोड, वाराणसी  
 पाटनकर बाजार, लखर, ग्वालियर  
 जमशेदपुर को-ऑपरेटिव कालेज, जमशेदपुर  
 १८४, शहीद-स्मारक-पथ, जबलपुर  
 ३७, दरियागज, दिल्ली  
 १५-ए, महात्मा गांधी मार्ग, इलाहाबाद-१  
 २१, न्यू सैट्रल मार्केट, नई दिल्ली  
 ब्रह्मलाल, वाराणसी-१  
 मिनर्वा बुक डिपो, माडल टाउन, दिल्ली-६  
 विजय सदन, हनुमान का रास्ता, जयपुर  
 विद्या विहार, ४, बलवीर ऐवेन्यू, देहरादून  
 ६१/१५, रामजस रोड, करौल बाग, नई दिल्ली-५



श्री भा दिगवर	श्री भारतवर्षीय दिगवर जैन सघ	चौरासी, मथुरा
श्री भा भारती	श्री भारत भारती प्रा लि	जैन स्ट्रीट, १ अनसारी रोड, नया दरियागज, दिल्ली-६
श्रीरामकृष्ण	श्रीरामकृष्ण आश्रम	धन्तौली, नागपुर-१
श्रीराम मेहरा	श्रीराम मेहरा एड क	अस्पताल रोड, आगरा
	श्री राजराजेश्वरी साहित्य-मंदिर	पटना-६ दे अशोक प्रेस, पटना-६
श्री रामायण प्रेस	श्री रामायण प्रेस	फरुखाबाद
श्री विष्णु	श्री विष्णु आर्ट प्रेस	ऋषि कुटी, इलाहाबाद-३
श्रीश	श्रीश प्रकाशन	३, आनंद कुज, अलवर (राजस्थान)
श्री सरस्व	श्री सरस्वती बुक डिपो	चारकमान, हैदराबाद-२
सक्राति	सक्राति प्रकाशन	३७, दरियागज, दिल्ली-६
सगीत	सगीत कार्यालय	हाथरस
सध्या	सध्या प्रकाशन	१२४१, मालीवाडा, दिल्ली-६
सस्कृति	सस्कृति संस्थान	स्वाजा कुतुब, बरेली (उ प्र)
सन्मार्ग	सन्मार्ग प्रकाशन	१६ यू बी बग्लो रोड, जवाहर नगर, दिल्ली-६
समाज	समाज कल्याण समिति	प्रसादीलाल रोड, मुरादाबाद
सरदार	सरदार वल्लभभाई विद्यापीठ	वल्लभ विद्यानगर, जि खेरा
सरल	सरल प्रकाशन गृह	हरदोई (उ प्र)
सरस्व पु स	सरस्वती पुस्तक सदन	मोती कटरा, आगरा
सरस्व प्र	सरस्वती प्रकाशन	भोपाल प्रधान कार्यालय मथुरा; शाखा . ४५ दरिया- गज, दिल्ली
		६, बी (बी) बेली रोड, इलाहाबाद
सरस्व प्र म	सरस्वती प्रकाशन मंदिर	५, सरदार पटेल मार्ग, पो बा २४, इलाहाबाद
सरस्व प्रे	सरस्वती प्रेस	मसूरी (उ प्र), प्रधान वितरण केंद्र ७ यू ए
सरस्व स	सरस्वनी सदन	जवाहर नगर, दिल्ली-६
		रामनगर दुर्ग, वाराणसी, वितरक : मानस मिलन, नेपाली खपडा, वाराणसी
सर्व-सुलभ	सर्व-सुलभ-साहित्य सदन	अश्वत्थामापुर, पो असोथर, जि फतेहपुर (उ प्र)
सर्वोदय	सर्वोदय प्रकाशन	११८, चावडी बाजार, दिल्ली-६
सर्वोदय सा	सर्वोदय साहित्य प्रकाशन	गोलघर, वाराणसी
सस्ता	सस्ता साहित्य मंडल	कनाट सरकस, नई दिल्ली
सहगल	एन डी सहगल एड सज	दरीबा कला, दिल्ली-६
सहयोग	सहयोग प्रकाशन	४३३१ आर्यपुरा, सब्जी मंडी, दिल्ली-६
सहयोगी	सहयोगी प्रकाशन	गाजियाबाद
सांस्कृतिक	सांस्कृतिक प्रकाशन मंदिर	रश्मि त्रिवेदी, ब्लाक न ५, लल्लुभाई पार्क, अघेरी, बवई-५८
		रवींद्र भवन, ३५ फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-१
सा अकादमी	साहित्य अकादमी	ज्ञानवापी, वाराणसी-१
सा केन्द्र	साहित्य केन्द्र	श्रद्धानंद पार्क, गिलिस बाजार, कानपुर
सा नि, का	साहित्य निकेतन	बरेली
सा नि व	साहित्य निकेतन	मालीवाडा, दिल्ली-६
सा प्र	साहित्य प्रकाशन	





हस	हस प्रकाशन	६३, जीरो रोड, इलाहाबाद
हर्ष	हर्ष प्रकाशन	दयाल वास, पहाडी धीरज, दिल्ली-६
हि ग्र र	हिंदी ग्रंथ रत्नाकर प्रा लि	हीराबाग, बबई-४, शाखा . ब्रजभवन, दयानंद रोड, २१ दरियागज, दिल्ली-६
हि. पु ए	हिंदी पुस्तक एजेसी	२०३, महात्मा गांधी रोड, कलकत्ता-७, ज्ञानवापी, वाराणसी-१ बाकीपुर, पटना-४
हि प्र म	हिंदी प्रकाशन मंदिर	८८, जीरो रोड, इलाहाबाद
हि प्रचा पु	हिंदी प्रचारक पुस्तकालय	पो बा ७०, सी २१/३०, पिशाचमोचन, वाराणसी-१
हि प्रचा म	हिंदी प्रचारक मंडल	श्रीराम मार्ग, अमीनाबाद, लखनऊ
हि प्रचा स	हिंदी प्रचार सभा	हिंदी भवन, नामपल्ली स्टेशन रोड, हैदराबाद
हि भवन	हिंदी भवन	माई हीरा गेट, जालधर शहर, ३७०, रानी मंडी, इलाहाबाद-३
हि समाचारपत्र	हिंदी समाचारपत्र सयाहलय	कसरत्ता रोड, हैदराबाद दक्खन-२
हि. समि.	हिंदी समिति (उ. प्र शासन)	सूचना-विभाग, प्रदर्शनी भवन, बनारसी बाग, लखनऊ
हि सा कु	हिंदी साहित्य कुटीर	हाथी गली, वाराणसी-१
हि सा केंद्र	हिंदी साहित्य केंद्र	२६/८, शक्ति नगर, दिल्ली-६
हि सा परि	हिंदी साहित्य परिषद	प्रयाग वितरक एस चाद
हि सा परि, म	हिंदी साहित्य परिषद	मथुरा
हि सा भ	हिंदी साहित्य भंडार	अमीनाबाद, लखनऊ
हि सा म	हिंदी साहित्य मंदिर	ब्रह्मपुरी, अजमेर
हि सा म, जो	हिंदी साहित्य मंदिर	गहलोट निवास, मेडती दरवाजा, जोधपुर
हि सा स	हिंदी साहित्य सप्ताह	१३, यू बी बगलो रोड, दिल्ली-६, शाखा खजाची रोड, पटना-४
हि सा सम्मे	हिंदी साहित्य सम्मेलन	प्रयाग
हि सा सृजन	हिंदी-साहित्य-सृजन-परिषद्	चौक, जौनपुर (उ प्र )
हि साहित्यालय	हिंदी साहित्यालय	रमा निवास, एटा (दमोह) म प्र
हिद पा	हिंद पाकेट बुक्स प्रा लि	जी टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली-३२
हिदिया	हिदिया प्रकाशन	१८६२, चादनी चौक, दिल्ली-६
हिदु एकेडेमी	हिंदुस्तानी एकेडेमी	इलाहाबाद
हिदु टाइम्स	हिंदुस्तानी टाइम्स प्रेस	नई दिल्ली-१
हिदु प्रचा सभा	हिंदुस्तानी प्रचार सभा	वितरक गांधी हिंदुस्तानी साहित्य सभा सन्धि, राजघाट, नई दिल्ली-१
हिमालय	हिमालय एजेसी	कनखल (उ प्र )
हेमकुट	हेमकुट प्रेस	ई १/१५ पटेल रोड, नई दिल्ली-१२

# बृहद् हिंदी ग्रंथ-सूची

अ

अकिमचंद्र रुचि-सुचि परिमल १.५० वप्र.  
 अचल. कथा-कौमुदी लोक चेतना ३००  
 प्राथमिकता रा बेनीमाधव ३.००. का  
 अचल दे. राममूर्ति 'अचल'  
 अचल दे शुक्ल, रामेश्वर 'अचल'  
 अजनीकुमार सिंह भूगोल की वाते भा १ अशोक प्रे ० ६२  
 अजनीनदनशरण, महात्मा, सपा मानस-पीयूष गीता ख  
 १-३ बालकाड भा १ ७५०, भा २ ६५०; भा ३.  
 १० ५०; ख ४ अयोध्याकाड ११००, ख ५ अरण्य  
 तथा किष्किधाकाड ७००, ख ६ सुदर तथा लका-  
 काड ११००; ख ७. उत्तरकाड ८५०  
 अजारिया, नरेद्र दे गिरिराजकिशोर  
 अत्रोपोव, प सोवियत सघ की खनिज सपदा पीपुल्स ०.३७  
 अवण्ठ, गदाधरप्रसाद जिला-दर्पण सिरीज ग्रथमाला  
 ०.७५ (प्र)  
 विहार की भाषा तथा बोलिया ग्रथमाला ० ७५  
 विहार के दर्शनीय स्थान ग्रथमाला ३५०  
 विहार-दर्पण ग्रथमाला ७००  
 हमारा विहार ग्रथमाला २५०  
 अवाप्रसाद 'सुमन' कृपक-जीवन सबधी ब्रजभाषा गव्दावली.  
 हिंदु एकेडेमी ख १ १२५०, ख २ २०००  
 वाङ्मयी भा प्र मंदिर २००  
 हिंदी भाषा और उसका व्याकरणिक विवेचन सरस्व पु स  
 अविनायकसिंह इंद्रसेना भा भ २५०  
 अविनायकसिंह आदर्श विभूतिया गयाप्रसाद ० ७५  
 अवेदकर, भीमराव अछूत कौन और कैसे देहाती ४००  
 अकबर विनोद और व्यंग सपा पारसनाथसिंह भा भ. ४००  
 अकबर इलाहावारी जीवनी और सकलन राजपाल १५०  
 स्वर्गीय संगीत पजावी पु २५०, — — स्टार (पा) १.००  
 अकेला. दे सोमनाथ 'अकेला'  
 अकोलवर, वी. वी नमाज मनोविज्ञान विश्वविद्यालय  
 अक्षतर चादिल रूप अघेरे गमा ३ ६५  
 अखिल. गांधी वी गुजती चावाज. ज्ञानपीठ ० ७५

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी आजादी का वारहवा वर्ष अ  
 भा कांग्रेस अगस्त ५८—अगस्त ५९ ३००, तेरहवा वर्ष  
 ३००, चौदहवा वर्ष ५००; पंद्रहवा व ५००  
 कांग्रेस सविधान अ भा कांग्रेस ० २५  
 कांग्रेस सविधान की धाराओं के अतर्गत नियम अ भा  
 कांग्रेस ० २५  
 चुनाव घोषणा-पत्र—१९६२ अ भा कांग्रेस ० १०  
 युवक कांग्रेस सूचना पुस्तक अ भा कांग्रेस ० ७५  
 विवाह सबंध-विच्छेद तथा उत्तराधिकार अ भा कांग्रेस  
 ० १२  
 सेवादल मैनुअल अ भा कांग्रेस न १ ० ३७, न ३  
 ० ३७, न ५ ० ७५, न ७ ० ७५, न ८. ० ५०  
 अखिल भारतीय हिंदी प्रकाशक सघ प्रकाशन व पुस्तक-व्यवसाय  
 अ भा हि २००  
 स्मारिका अ भा हि २००  
 अखिलन नारी हिंद पा १०० उ  
 अखिलविनय राजा राममोहन राय विश्वेश्वरानंद. ०-७५  
 जी  
 अखिलेशकुमार सयुक्त राज्य अमेरिका का आर्थिक विकास  
 मोतीलाल २००  
 अखतर दे जमनादास 'अखतर'  
 अखतर दे श्यामलाल अखतर  
 अखतर-उल-ईमान जीवनी और सकलन राजपाल १५०  
 अखतर शीरानी जीवनी और सकलन राजपाल १.५०  
 अखतरहुसेन रायपुरी. आग और आसू. राजकमल. २ ५० क.  
 अग्निहोत्री, सपा. साहित्य पुष्प एलाइड. ५.५०  
 अग्निहोत्री, अवधविहारी ब्रह्मशोथ विमर्ग मेडिकल ३००  
 अग्निहोत्री, जानदेव नेफा की एक शाम उमेश २ ५० ना.  
 अग्निहोत्री, ताराचरण महाराष्ट्र केगरी शिवाजी रामप्रसाद  
 ० ६४  
 अग्निहोत्री, प्रभुदयाल पतजलिकालीन भारत वि राष्ट्र. ११ ५०  
 हमारा सविधान मिश्र-त्रयु १ ६२  
 अग्निहोत्री, रमेशचंद्र. वनस्पति शास्त्र मिश्र वधु भा. १.  
 ४००, भा २. ३.००  
 अग्निहोत्री, राजीवलोचन गकारि विक्रमादित्य. छात्रहितकारी.  
 २.००. उ

अग्निहोत्री, लक्ष्मीदेवी गृह विज्ञान भा १ २००, भा २ १५०  
 अग्निहोत्री, श्रीचंद्र धुआ और लपटे नेशनल ३०० उ  
 अग्निहोत्री, श्रीनारायण हिंदी उपन्यास का शास्त्रीय  
 विवेचन सरस्व पु स ८५०  
 अग्रवाल रूस का आर्थिक विकास कि महल ५००  
 अग्रवाल तथा कुल बाजार समाचारो का सरल अध्ययन  
 रामप्रसाद २००  
 अग्रवाल तथा गुप्ता आधुनिक कृषि गर्ग ब्र १५०  
 अग्रवाल तथा चदापुरी दोहरे लेखे के मूल सिद्धात नद स  
 ७५०  
 अग्रवाल तथा त्रिपाठी बुक कीपिक का प्रारम्भिक ज्ञान नद  
 स ३२५  
 अग्रवाल तथा अन्य आधुनिक कृषि शिक्षण गर्ग ब्र १५०  
 बुक-कीपिंग परिचय हि प्रचा पु २७५  
 अग्रवाल, अ द्रव्य वैकिग के सरल सिद्धात कि महल  
 २५०  
 अग्रवाल, अमरनाथ प्रारम्भिक अर्थशास्त्र स १९६३ फ्रैंक  
 ६२५  
 भारत की आर्थिक समस्याए रणजीत ६५०  
 अग्रवाल, अमरनारायण, १९१७- अर्थशास्त्र और विहार के  
 किसान कि महल १५०  
 अर्थशास्त्र का परिचय कि महल ७००  
 अर्थशास्त्र के सिद्धात एक परिचय कि महल ५००  
 अर्थशास्त्र प्रवेशिका कि महल १७५  
 वटेशुर की घुडिया कि महल ०७५ वप्र  
 बुक कीपिंग का परिचय कि महल ३१७  
 भारत के जोपरण का नया शस्त्र यू के सी सी रामप्रसाद  
 ०९४  
 भारतीय अर्थशास्त्र: एक परिचय कि महल ४००  
 वाणिज्य अर्थशास्त्र कि महल ५५०  
 व्यापारिक पद्धति और यत्र कि महल भा १ ४००, भा  
 २ ३७५  
 व्यापारिक रीतिया, कार्यालय प्रणाली तथा सहकारिता कि  
 महल १५०  
 ससार, भारत तथा विहार का वाणिज्य भूगोल कि महल  
 १५०  
 अग्रवाल, आर एन बुद्धि प्रकृति, सिद्धात एव मापन विनोद  
 ३००  
 मनोविज्ञान और शिक्षा मे मापन तथा मूल्याकन विनोद  
 ११००  
 व्यक्तित्व, प्रकृति एव मापन विनोद २५०  
 सरल प्रयोगात्मक मनोविज्ञान सिद्धात तथा प्रयोग लक्ष्मी  
 ना ५००  
 अग्रवाल, आर एस नेत्र सुधार देहाती ५००  
 हमारी आखे देहाती ५००  
 अग्रवाल, आर के तथा पी सी त्रिपाठी व्यापार पद्धति  
 कृष्णा ब्र ३७५

अग्रवाल, आर के तथा यस सी हाडा हाई स्कूल वैकिग  
 किशोर पव्लि १००  
 अग्रवाल, आर पी प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की सरल रूपरेखा  
 (प्रश्नोत्तर) गयाप्रसाद २००  
 शिक्षा मनोविज्ञान एव सांख्यिकी की सरल रूपरेखा  
 (प्रश्नोत्तर) गयाप्रसाद ३००  
 अग्रवाल, आर सी बाजार समाचार एव पत्र-व्यवहार सा  
 भवन, आ २५०  
 भारत के आधुनिक सविधान का तुलनात्मक अध्ययन एस  
 चाद ४००  
 भारतीय सविधान का विकास तथा राष्ट्रीय आंदोलन एस  
 चाद १२५०  
 तथा अन्य सामाजिक अध्ययन एस चाद भा १ ४५०,  
 भा २ २००  
 अग्रवाल, आर सी दे सेठी, आर आर  
 अग्रवाल, आशा घर की दात आर्य बुक ०७५  
 अग्रवाल, उपा मिलिद-गोत्मानद-गोत्मानद, एक अध्ययन  
 लायल १५०  
 अग्रवाल, उपा तथा कामिनी काछल हरिऔध, रत्नाकर और  
 प्रसाद की काव्य साधना गयाप्रसाद २५०  
 अग्रवाल, ऋषिलाल हिंदी-सकेत-लिपि श्री विष्णु ४५०,  
 कुजी २२५  
 हिंदी-सकेत-लिपि वाक्यांश कोप श्री विष्णु २८१  
 हिंदी-सकेत-लिपि सार श्री विष्णु २८१  
 अग्रवाल, ए सी पशु-पालन दास ५००  
 अग्रवाल, एम एल केंद्रीय विक्री-कर अधिनियम, १९५६ सा  
 भवन, आ ३००  
 परिव्यय लेखाकन सा भवन, आ ६८७  
 राजस्थान विक्री-कर अधिनियम १९५४ सा भवन, आ  
 ३१२  
 अग्रवाल, एम एस सरल पशु चिकित्सा भाग्योदय २५०  
 अग्रवाल, एस एन दे वकोरे, ग वि  
 अग्रवाल, एस डी बच्चो की सरल होमियोपैथिक चिकित्सा  
 ज्ञान भारती २५०  
 अग्रवाल, एस डी दे वैश्य, जी डी  
 अग्रवाल, एस सी नवीन हाईस्कूल रसायन शास्त्र लक्ष्मी ना  
 २७५  
 अग्रवाल, ओमप्रकाश हिंदी गीतिकाव्य सा रत्न भ ३५०  
 अग्रवाल, कन्हैयालाल दे पाडेय, सुधाकर  
 अग्रवाल, कृष्णकुमार आधुनिक उद्यान विज्ञान भा पव्लि  
 १०००  
 एग्रोनोमी गाइड (प्रश्नोत्तर) भा पव्लि ५००  
 अग्रवाल, कृष्णमोहन इतिहास प्रश्नोत्तरी रीगल १७५  
 भूगोल प्रश्नोत्तरी रीगल १२५  
 अग्रवाल, कृष्णस्वरूप विनय पत्रिका प्रश्नोत्तरी सरस्व पु  
 स १५०  
 अग्रवाल, के एल हाई स्कूल विजनेस मेथड और करसर्पोंडेस  
 रा वेनीमाधव. १००

- अग्रवाल, के एल दे रस्तोगी, जे पी  
अग्रवाल, के के औद्योगिक सगठन कि महल २५०  
अग्रवाल, के डी भारतीय सामाजिक व्यवस्था एस चाद  
३००  
माध्यमिक समाजशास्त्र एस चाद ३००  
अग्रवाल, गयाप्रसाद हिंदी टकरण कला श्री विष्णु २५०  
अग्रवाल, गोपालदास भारत के राष्ट्रीय महापुरुष अग्रवाल पु  
सरल कृषि और पशुपालन अग्रवाल पु  
अग्रवाल, चंद्रकुमार छतीसगढ की लोक-कथाए आत्माराम  
१.५०  
अग्रवाल, जनार्दन स्वरूप, १९१७- काव्य रत्नाकर रा वेनी-  
माधव २००  
हिंदी में निबंध साहित्य सा भवन, इ १२५  
अग्रवाल, जे के व्यावहारिक वृहत् लेखा-कर्म रा वेनीप्रसाद  
१०००  
—तथा सी एम दूवे वृहत् लेखा-कार्य रा वेनीप्रसाद भा  
१ ५००, भा २ ७००  
अग्रवाल, ज्ञानचंद्र तथा र क अग्रवाल व्यापार सगठन कि  
घर, का ५००  
अग्रवाल, डी एन श्रम अर्थशास्त्र किशोर पब्लि १०००  
अग्रवाल, तारकनाथ कबीर परिचय वगीय ०६२  
अग्रवाल, धीरेन्द्र कीटाणु और सामान्य रोग आत्माराम २००  
अग्रवाल, नरोत्तमदास, सपा काव्य-कुज रा वेनीप्रसाद ०८७  
काव्य प्रवेश रा वेनीप्रसाद १२५  
गद्य रत्नावली रा वेनीप्रसाद १५०  
गल्प सुमन रा वेनीप्रसाद २००  
अग्रवाल, पद्मा मनोविज्ञान और शिक्षा मनोविज्ञान  
३५०  
मनोविश्लेषण और मानसिक क्रियाए मनोविज्ञान ४५०  
विकृतमनोविज्ञान मनोविज्ञान ६००  
व्यावहारिक मनोविज्ञान मनोविज्ञान ५००  
हमारा व्यक्तित्व मनोविज्ञान ०७५  
अग्रवाल, पी एन क्रिकेट सहगल १७५  
खेले कैसे ? सहगल ५२५  
हाकी, फुटबॉल सहगल १५०  
अग्रवाल पी सी भारत का भूगोल गयाप्रसाद ३००  
अग्रवाल, पुरुषोत्तमदास साहित्यिक निबंध सरस्व प्र म  
६००  
अग्रवाल, पृथ्वीकुमार अमृत के घड़े राजकमल १००  
अग्रवाल, पृथ्वीनारायण सरल अर्थशास्त्र (प्रश्नोत्तर) हि सा  
भा २००  
अग्रवाल, प्रभा हमारा स्वातंत्र्य सघर्ष गयाप्रसाद १५०  
अग्रवाल, प्रह्लाददास ऐतिहासिक कहानिया, रा वेनीप्रसाद  
२५०  
प्रतिनिधि एकाकी रा वेनीमाधव १२५  
हमारा इतिहास रा वेनीप्रसाद भा १ २००, भा २  
२५०  
अग्रवाल, प्रेम आचार्य महावीरप्रसाद वाजपेई मुरेद्र. ०३७

- अग्रवाल, प्रेमनारायण प्रयासी भारतीयों की समस्याये मान-  
सरोवर सा १००  
अग्रवाल, विदु मोहल्ले की बुआ राजकमल (पा) १००  
अग्रवाल, वी के तथा एम एस गौतम माध्यमिक भौतिकी  
२ भाग सा भवन, या ७०० (प्र)  
अग्रवाल, वेनीप्रसाद नवीन आविष्कार रा वेनीप्रसाद ०७५  
बप्र  
—सपा सक्षिप्त विधि शब्द कोष (अंग्रेजी-हिंदी) रा वेनी-  
प्रसाद ५००  
अग्रवाल, ब्रजराजकिशोर आकिक भौतिकी. रतन ४५०  
अग्रवाल, भारतभूषण ओ अग्रस्तुत मन राजकमल ४००  
का  
और खाई बढ़ती गई भा ज्ञानपीठ २५० ना  
कागज के फूल भा ज्ञानपीठ २०० का  
डा नगेद्र के श्रेष्ठ निबन्ध राजपाल ५००  
लौटती लहरो की बामुरी राजपाल ३०० उ  
अग्रवाल, मथुराप्रसाद हिंदी साहित्य का इतिहास कल्याणमल  
२००  
अग्रवाल, महावीरप्रसाद कुछ आत्मकथाए रा वेनीमाधव  
१२५  
साहित्यिक सस्मरण रा वेनीप्रसाद १२५  
हिंदी गद्य सचय रा वेनीमाधव १७५  
—सपा काव्य कुसुमाकर रा वेनीप्रसाद. २००  
गद्य के रूप रा वेनीप्रसाद २५०  
अग्रवाल, महावीरप्रसाद दे सथानम्, के  
अग्रवाल, महेशचंद्र दोभिल हृदय दीपक प्र ३०० उ  
अग्रवाल, मुकटबिहारीलाल दे रावत, एम एस  
अग्रवाल, मुन्नालाल तथा लक्ष्मीनारायण गुप्त आधुनिक कृषि  
गर्ग ब्र १५०  
अग्रवाल, मुरलीधर, सपा मानस-मुक्ता. १२ ख मानस-मुक्ता  
ख १-४ ६६०  
अग्रवाल, युगल गुलशन एक कलिया दो आदर्श पु म. १५०  
उ  
पत्थर प्यार करते हैं पुष्पी १०० उ  
लोफर पुष्पी ०७५ उ  
लोफर सुरेद्र २५० उ  
वासना भरी वाहे आदर्श पु म १०० उ  
वासना भरे आचल पुष्पी ०७५ उ, — सुरेद्र २००.  
अग्रवाल, र क दे अग्रवाल, ज्ञानचंद्र  
अग्रवाल, रघुवीरशरण काव्य लक्षण सगो स २ आगरा बुक  
१७५  
अग्रवाल, रमेशचंद्र आधुनिक आर्थिक एव वाणिज्य निबंध  
स २ रतन ४५०  
औद्योगिक सगठन आगरा बुक ६२५  
माध्यमिक रेखा गणित रामप्रसाद २५०  
व्यावसायिक सगठन एव प्रशासन स २ आगरा बुक  
१०००  
अग्रवाल, राजाराम मीना हि प्रचा पु २०० उ.

अग्रवाल, रामदुलारी अलकार छद् परिचायिका सुरेद्र ० ३७  
 अग्रवाल, रामनारायण बुद्धि प्रकृति सिद्धांत एव मापन विनोद  
 ५ ००  
 मनोविज्ञान और शिक्षा मे मापन एव मूल्यांकन विनोद  
 ११ ००  
 व्यक्तित्व प्रकृति एव मापन विनोद ५ ००  
 अग्रवाल, रामनारायण, १९२३- उत्तर प्रदेश राजहस १ ७५  
 कवि-नाट्यम् एस चाद ४ ०० ना  
 ब्रजभूमि की कहानिया विनोद १ ५०  
 सूरदास विनोद २ ०० ना  
 अग्रवाल, रामनारायण दे गोविन्ददास, सेठ  
 अग्रवाल, रामरतन तर्कशास्त्र कि महल ३ ००  
 अग्रवाल, रामानंद हमारा राष्ट्रीय आंदोलन तथा सवैधानिक  
 विकास मैट्रोपोलिटन ७ ००  
 अग्रवाल, रौनकीराम नवीन खेलो की पुस्तक इ प्रे २.५०  
 शारीरिक शिक्षण २ भा इ प्रे २ ५० (प्र)  
 अग्रवाल, लक्ष्मीनारायण मूल गणित यग मैन ४.००  
 अग्रवाल, वासुदेवशरण, १९१४- उरु-ज्योति भा. प्राच्य  
 ३ ००  
 कला और मस्कृति सा भवन, इ ५ ००  
 कल्पवृक्ष सस्ता २ ५०. नि  
 कादवरी, एक सास्कृतिक अध्ययन चौखवा १३.७५  
 पाणिनि कालीन भारतवर्ष चौखवा १५ ००  
 पृथ्वी पुत्र रामप्रसाद ५ ००  
 भारत की मौलिक एकता भा भ ४ ००  
 भारत सावित्री सस्ता ५ ००  
 मार्कण्डेय पुराण हिंदु एकेडेमी ८.५०  
 मेघदूत (मूल सहित) राजकमल ४ ५०  
 वेद विद्या रामप्रसाद ५ ०० नि  
 हर्षचरित बि राष्ट्र ६ ५०  
 —तथा भोतीचन्द्र, सपा देशोपदेश हि ग्र र  
 शृंगार हाट हि ग्र र २२ ००  
 —तथा अन्य, सपा राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त 'अभिनदन  
 ग्रथ. हि प्रचा पु ३० ००  
 अग्रवाल, वासुदेवशरण दे टाल, आर टी  
 अग्रवाल, वासुदेवशरण दे मुकूर्जी, राधाकुमुद  
 अग्रवाल, वासुदेवशरण तथा दौलतराम जुयाल दे. सूरदास  
 अग्रवाल, विनोदकुमार प्रवेशिका गाइड सशो स ४ १९६३.  
 विनोद ५ ००  
 'सूर सग्रह' की टीका विनोद १ ७५  
 अग्रवाल, विमला दे. गुप्ता, एल एन  
 अग्रवाल, विमला दे त्रिवेदी, आर के  
 अग्रवाल, विमला दे मित्तल, एस सी  
 अग्रवाल, विमलादेवी तथा रमेशचंद्र माथुर विश्व सभ्यता की  
 सक्षिप्त भाकी नद स ७ ००  
 अग्रवाल, शकृतला सपूत राजहम २ ०० क  
 अग्रवाल, शशि जजीरे टूटी कि महल १ ५० वप्र.  
 बड़ो की कहानी कि महल ० ७५ वप्र.

बड़ो की बड़ाई कि महल. १.५० वप्र  
 हिंदी कृष्ण भक्तिकाव्य पर पुराणो का प्रभाव हिंदु एकेडेमी  
 ६ ००  
 अग्रवाल, शांति जयघोष प्रगति प्र १.०० का  
 —सपा, कविता निकुज रा वेनीप्रसाद १ ७५  
 अग्रवाल, शांतिप्रसाद सस्कृत साहित्य का इतिहास (प्रश्नोत्तर)  
 प्रकाश बुक ३ ५०  
 अग्रवाल, शिवप्रसाद प्रवध पीयूष स ७ आगरा बुक ३ ५०  
 प्रवध प्रसून स ५. आगरा बुक २ ५०  
 अग्रवाल, श्रीकृष्ण देश के कर्णधार कृष्णा ब्र ० ९५ जी  
 अग्रवाल, श्रीनारायण अर्थशास्त्र का सरल ज्ञान रा वेनी-  
 माधव २ ००  
 अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत स ३ रा वेनीमाधव ७ ००  
 द्रव्य तथा वैकिग रा वेनीमाधव २ ००.  
 भारत का आर्थिक तथा वाणिज्य भूगोल कि महल २ ५०  
 —तथा अन्य अर्थशास्त्र की पृष्ठ भूमि रा वेनीमाधव ८.००  
 अग्रवाल, श्रीमन्नारायण सेगाव का सत गगा १ ५०  
 अग्रवाल, श्रीराम टीका गद्य प्रभा गयाप्रसाद १ ५०  
 अग्रवाल, सगमलाल परमाणु विखडन हि प्रचा पु. १.५०  
 अग्रवाल, सत्यनारायण दे अछल, मनोरजन  
 अग्रवाल, सत्यप्रकाश एक डर पाच निडर आत्माराम २.५०  
 वप्र.  
 अग्रवाल, सविता इंडोनेशिया की लोक-कथाए आत्माराम  
 १ ५०  
 अग्रवाल, सुनीता तथा सतोष ज्योति पुज रामप्रसाद १.५०.  
 जी  
 अग्रवाल, सुमित्रादेवी परख कर देखिए अग्रवाल पु  
 व्यजन वाटिका अग्रवाल पु  
 अग्रवाल, सुरेद्रकिशोर छोड गये वालम सुरेद्र २ ००. उ.  
 अग्रवाल, सूर्यनारायण मा नेशनल १ २५ ना  
 अग्रवाल, स्वर्णलता नव-वधू शिवलाल २ ५०  
 साहित्य दिग्दर्शन, कृष्णा ब्र ४ ५०  
 हिंदी भाषा और नागरी लिपि कि महल ० ७५  
 अग्रवाल, हसराम भारतीय सस्कृति विज्ञान और कला एस.  
 चाद २ ५०  
 सस्कृति साहित्य का सक्षिप्त इतिहास श्री भा भारती ४.००  
 साहित्य प्रवेश सा सगम, लु ३ ७५  
 सुखी किसान नेशनल भा १ ० ७५, भा २ ० ६५  
 हमारी विभूतिया श्री भा भारती २ २५ जी  
 हमारी सभ्यता और विज्ञान-कला एस चाद २ ५०  
 हिंदी साहित्य की परंपरा ओरिएण्टल ८ ००  
 अग्रवाल, हरिश्चकर, सपा नीलदेवी नाटक (भारतेदु हरिश्चंद्र)  
 रा वेनीप्रसाद ० २५  
 अग्रवाल, हरीश खनिज और चट्टान की कहानी आत्माराम  
 १ ५०  
 चाद की यात्रा और राकेट कि महल ० ७५. वप्र  
 भारत के महान वैज्ञानिक आत्माराम २.५०  
 अचल दे. राय, विध्याचल 'अचल'

अचल, ए. पी बाल मनोविज्ञान की रूपरेखा. मोतीलाल. ५.००  
 अच्युतानन्द सरस्वती, स्वामी, सप्ता व्याख्यान माला गोविन्द-  
 राम २.५०  
 अजगर बनारसी महुवर चिनगारी २५० उ  
 अजमल अजमली. दे. मीर  
 अजमेरी, मुशी गोकुलदास सा सदन, चि ०.४०  
 मधुकरशाह सा. सदन, चि ०.४०  
 हेमला सत्ता सा सदन, चि ०.५०  
 —अनु चित्रागदा सा सदन, चि. ० ७५  
 अजयकुमार. महाजन का पजा. गगा १.५०  
 अजर्यासिंह बेस माध्यमिक प्रायोगिक रसायन शास्त्र कृष्णा ब्र  
 ३.००  
 अजान दे चतुर्वेदी 'अजान'  
 अजायब चित्रकार बुद्ध की कहानी सा सगम, लु ० ६२ वप्र  
 युग जीत सा सगम, लु ० ७५. वप्र  
 अजित. आनवान के रखवारे सस्ता ०.४०. वप्र  
 वीरवल की वाते. सस्ता ० ४० वप्र.  
 अजितकुमार अकित होने दो भा ज्ञानपीठ.  
 ४.००  
 अकेले कठ की पुकार. राजकमल. ३ ०० का  
 सत्यार्थ दर्पण श्री भा दिगबर २ ००  
 —तथा विश्वनाथ त्रिपाठी, सपा कविताए १९६३ नेशनल  
 ४ ००  
 अजितकुमार 'सरल' जिदगी के मोड. गगा. ३.०० उ  
 प्रतिकार गगा ३ ०० उ  
 अजितकुमार ऋषि 'सरल'. समय का देवता सा नि., व  
 ५ ००. उ.  
 अजित पुष्कल कछुवे का नगर भ्रमण. साहित्यवाणी. १.५०  
 वप्र.  
 नयी धरती नये लोग. प्रवाल. ३ ००. उ.  
 अजीत अहमद हवस शमा २ ५० उ.  
 अज्ञात. अमृत कन्या गगा ५ ००. उ  
 कैदी और जजीरे मजु ३ ५० उ  
 गुसाई गुस्वानी नेशनल.  
 भास-नाटकावली हिं प्रचा पु १ ००  
 महल और खडहर प्रकाश पा १ ००  
 यह वस्ती है गहीदो की. मजु ३ ५०. उ  
 सत्य हरिश्चन्द्र. हिं प्रचा पु. १ ०० ना.  
 अज्ञात दे. वहोरे, रवीन्द्रनाथ 'अज्ञात'  
 अज्ञेय दे. वात्स्यायन, सच्चिदानन्द हीरानन्द 'अज्ञेय'  
 अटल. दे. देवदत्त 'अटल'  
 अटल दे योगेश अटल  
 अट्टावलकर, श्रीराम श्री यशवतरावजी चव्हाण व्यक्ति और  
 विचार विद्या विकास १ ५०  
 अडविवापि राजू नारायण राव एस चाद. ६ ००, सक्षिप्त.  
 ४.००  
 अण्णासाहव मेरा जीवन-विकास अ. भा. सर्व. ० ५०  
 अतहर परवेज़. नकली चाद. कि महल. १ ५०. वप्र.

अतुलप्रसादसिंह. कृषि-विज्ञान. कला-नि ३.७५  
 अत्रिदेव. क्लिनिकस मेडीसिन. २ भा. मोतीलाल. २५.००  
 परिवार-नियोजन. हिं. प्रचा. पु ३ ००  
 सुश्रुत सहीता सपूर्ण स. ३ मोतीलाल. १५ ००  
 अत्रिदेव विद्यालकार. आयुर्वेद का इतिहास. हिं सा सम्मे.  
 ३.५०  
 आयुर्वेद का बृहत इतिहास हिं समि ११ २५  
 प्राचीन भारत के प्रसाधन. भा ज्ञानपीठ. ३.५०  
 भैषज्य कल्पना. हिं. सा सम्मे १.७५  
 रसशास्त्र हिं सा सम्मे ७.००  
 संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद भा ज्ञानपीठ ३ ००  
 अत्रे, आचार्य. विवाह का बधन रणजीत. २ ५०. ना.  
 अदध अनुपम मजिल कहा ? नारायण प्र. २ ५० उ.  
 अदम जीवनी और सकलन राजपाल १.५०  
 अदावाल, सुबोध. भारतीय शिक्षा सिद्धात. गर्ग ब्र ८ ००  
 सामान्य शिक्षा सिद्धात गर्ग ब्र ३ ७५  
 स्वप्नलोक का रहस्योद्घाटन. गर्ग ब्र. १.२५  
 अदीब दे पूनम अदीब.  
 अद्वैतानन्द सरस्वती. श्री शकराचार्य वाक्यसुधा. भा. १. मिश्र-  
 वधु १ ००  
 अधिकारी, महावीर अपने आपको पहचानिये. सहगल, ३.००  
 कोशी. हिं. ग्र. र. २.५०. क.  
 जीवन के मोड. आत्माराम. ३ ०० क  
 प्रसाद—जीवन, कला और कृतित्व. आत्माराम. ८ ००  
 भारत का चित्रमय इतिहास आत्माराम. ७.००  
 मजिल से आगे हिं ग्र. र ८ ००. उ.  
 —अनु कोलवस. राजपाल. २ ०० जी  
 अधिर दे कौशिक, राधेश्याम 'अधिर'  
 अनत हिंदी साहित्य के सहस्र वर्ष सा साधना. ६.००  
 अनत, अ अ. अंतराष्ट्रीय एकता. आर्य बुक २ ५०  
 आपका बालक क्या बनेगा ? कि महल. २ ००  
 एक फूस तीन रंग ओरिएटल बु १ ५० वप्र.  
 खाद और उसकी उपयोगिता देहाती ५.००  
 पशु रोग देहाती ५ ००  
 फलो की उपज देहाती ५ ००  
 फूल वाटिका (फूल पौधे, फुलवारिया) देहाती. ५.००  
 वच्चे कव क्या सीखते हैं सहगल ३ ७५  
 वच्चो का विकास और उनकी शिक्षा मगध २.००  
 वानर और उनकी जातिया नवयुग प्र १ ५० वप्र  
 बालक घर के अदर और बाहर कि महल. २ ५०  
 बालक बुद्धिमान कैसे बने ? कि महल २.५०  
 भारत सजग है लोकप्रिय ३ ००  
 भारतीय बालको की शिक्षा समस्याए कि. महल. १.७५  
 राष्ट्रीय एकता आर्य बुक. २.५०  
 शिक्षा सिद्धात की रूपरेखा नवयुग प्र. ३.५०  
 शिक्षा सिद्धात, प्रग्नोत्तरी नवयुग प्र. ३.५०  
 समुद्री जीव-जंतु. नवयुग प्र वप्र.  
 सांस्कृतिक एकता. आर्य बुक १.५०

अग्रवाल, रामदुलारी अलकार छद्म परिचायिका सुरेद्र ० ३७  
 अग्रवाल, रामनारायण बुद्धि प्रकृति सिद्धांत एव मापन विनोद  
 ५ ००  
 मनोविज्ञान और शिक्षा में मापन एव मूल्यांकन विनोद  
 ११ ००  
 व्यक्तित्व प्रकृति एव मापन विनोद ५ ००  
 अग्रवाल, रामनारायण, १९२३- उत्तर प्रदेश राजहंस १ ७५  
 कवि-नाट्यम् एस चौद ४ ०० ना  
 वज्रभूमि की कहानिया विनोद १५०  
 सूरदास विनोद २ ०० ना  
 अग्रवाल, रामनारायण दे गोविंददास, सेठ  
 अग्रवाल, रामरतन तर्कशास्त्र कि महल ३ ००  
 अग्रवाल, रामानंद हमारा राष्ट्रीय आंदोलन तथा सवैधानिक  
 विकास मैट्रोपोलिटन ७ ००  
 अग्रवाल, रौनकीराम नवीन खेलो की पुस्तक इ प्रे २.५०  
 गारौरिक शिक्षण २ भा इ प्रे २ ५० (प्र)  
 अग्रवाल, लक्ष्मीनारायण मूल गणित यग मैन ४ ००  
 अग्रवाल, वासुदेवशरण, १९१४- उरु-ज्योति भा प्राच्य  
 ३ ००  
 कला और मस्कृति सा भवन, इ ५ ००  
 कल्पवृक्ष सस्ता २ ५० नि  
 कादवरी, एक सास्कृतिक अध्ययन चौखवा १३.७५  
 पाणिनि कालीन भारतवर्ष चौखवा १५ ००  
 पृथ्वी पुत्र रामप्रसाद ५ ००  
 भारत की मौलिक एकता भा भ ४ ००  
 भारत सावित्री सस्ता ५ ००  
 मार्कण्डेय पुराण हिंदु एकेडेमी ८ ५०  
 मेघदूत (मूल सहित) राजकमल ४ ५०  
 वेद विद्या रामप्रसाद ५ ०० नि  
 हर्षचरित वि राष्ट्र ९ ५०  
 —तथा मोतीचन्द्र, सपा देगोपदेश हिं अ र  
 शृंगार हाट हिं अ र २२ ००  
 —तथा अन्य, सपा राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त 'अभिनदन  
 गथ हिं प्रचा पु ३० ००  
 अग्रवाल, वासुदेवशरण दे टाल, आर टी  
 अग्रवाल, वासुदेवशरण दे मुकजी, राधाकुमुद  
 अग्रवाल, वासुदेवशरण तथा दौलतराम जुयाल टे. सूरदास  
 अग्रवाल, विनोदकुमार प्रवेशिका गाइड सरो स ४ १९६३.  
 विनोद ५ ००  
 'सूर सग्रह' की टीका विनोद १ ७५  
 अग्रवाल विमला दे गुप्ता, एल एन  
 अग्रवाल, विमला दे त्रिवेदी, आर के  
 अग्रवाल, विमला दे मित्तल, एस सी  
 अग्रवाल, विमलादेवी तथा रमेशचंद्र माथुर विरव सभ्यता की  
 नक्षिप्त भाकी नद स ७ ००  
 अग्रवाल, जकृतला सपूत राजहंस २ ०० क  
 अग्रवाल, राशि जजीरे टूटी कि महल १ ५० वप्र.  
 बडो की कहानी कि महल ० ७५ वप्र.

बडो की बडाई कि महल १ ५० वप्र  
 हिंदी कृष्ण भक्तिकाव्य पर पुराणो का प्रभाव हिंदु एकेडेमी  
 ६ ००  
 अग्रवाल, शांति जयधोप प्रगति प्र १ ०० का  
 —सपा कविता निकुज रा वेनीप्रसाद १ ७५  
 अग्रवाल, शांतिप्रसाद. सस्कृत साहित्य का इतिहास (प्रश्नोत्तर)  
 प्रकाश बुक ३ ५०  
 अग्रवाल, शिवप्रसाद प्रवध पीयूष स ७ आगरा बुक ३.५०  
 प्रवध प्रसून स ५ आगरा बुक २ ५०  
 अग्रवाल, श्रीकृष्ण देग के कर्णधार कृष्णा व्र ० ९५ जी  
 अग्रवाल, श्रीनारायण अर्थशास्त्र का सरल ज्ञान रा वेनी-  
 माधव २ ००  
 अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत स ३ रा वेनीमाधव ७ ००  
 द्रव्य तथा वैकिग रा वेनीमाधव २ ००.  
 भारत का आर्थिक तथा वाणिज्य भूगोल कि महल २ ५०  
 —तथा अन्य अर्थशास्त्र की पृष्ठ भूमि रा वेनीमाधव ८ ००  
 अग्रवाल, श्रीमन्नारायण सेगाव का सत. गगा १ ५०  
 अग्रवाल, श्रीराम टीका गद्य प्रभा गयाप्रसाद १ ५०  
 अग्रवाल, सगमलाल परमाणु विखडन हिं प्रचा पु १ ५०  
 अग्रवाल, सत्यनारायण दे त्रैछल, मनोरजन  
 अग्रवाल, सत्यप्रकाश एक डर पाच निडर. आत्माराम २ ५०  
 वप्र.  
 अग्रवाल, सविता डडोनेशिया की लोक-कथाए आत्माराम  
 १ ५०  
 अग्रवाल, सुनीता तथा सतोप ज्योति पुज. रामप्रसाद १.५०.  
 जी  
 अग्रवाल, सुमित्रादेवी परख कर देखिए अग्रवाल पु  
 व्यजन वाटिका अग्रवाल पु  
 अग्रवाल, सुरेद्रकिशोर छोड गये वालम सुरेद्र २ ०० उ  
 अग्रवाल, सूर्यनारायण मा नेशनल १ २५ ना  
 अग्रवाल, स्वर्णलता नव-वधू शिवलाल २ ५०  
 साहित्य दिग्दर्शन, कृष्णा व्र ४ ५०  
 हिंदी भाषा और नागरी लिपि कि महल ० ७५  
 अग्रवाल, हसराम भारतीय सस्कृति विज्ञान और कला. एस  
 चाद २ ५०  
 सस्कृति साहित्य का सक्षिप्त इतिहास श्री भा भारती ४ ००  
 साहित्य प्रवेग सा सगम, लु ३ ७५  
 सुखी किसान नेशनल भा १ ० ७५, भा २ ० ६५  
 हमारी विभूतिया. श्री भा भारती २ २५ जी  
 हमारी सभ्यता और विज्ञान-कला एस चाद २ ५०  
 हिंदी साहित्य की परपरा ओरिएण्टल ८ ००  
 अग्रवाल, हरिश्चकर, सपा नीलदेवी नाटक (भारतेडु हरिश्चंद्र)  
 रा वेनीप्रसाद ० २५  
 अग्रवाल, हरीश खनिज और चट्टान की कहानी आत्माराम  
 १ ५०  
 चाद की यात्रा और राकेट कि महल ०.७५. वप्र  
 भारत के महान वैज्ञानिक आत्माराम २ ५०  
 अचल दे. राय, विध्याचल 'अचल'

अचल, ए. पी. वाल मनोविज्ञान की रूपरेखा. मोतीलाल. ५.००  
अच्युतानन्द सरस्वती, स्वामी, सग्रा व्याख्यान माला गोविन्द-  
राम २.५०

अजगर बनारसी महुवर चिनगारी २५० उ  
अजमल अजमली. दे. मीर.

अजमेरी, मुग्गी गोकुलदास. सा सदन, चि ०.४०

मधुकरशाह सा. सदन, चि ०.४०

हेमला सत्ता सा सदन, चि ०.५०

—अनु चित्रागदा सा. सदन, चि. ०.७५

अजयकुमार महाजन का पजा गगा १.५०

अजर्यासिंह वेस माध्यमिक प्रायोगिक रसायन शास्त्र कृष्णा ब्र  
३.००

अजान. दे. चतुर्वेदी 'अजान'

अजायब चित्रकार. बुद्ध की कहानी सा सगम, लु ० ६२ वप्र  
युग जीत सा. सगम, लु ०.७५ वप्र.

अजित आनवान के रखवारे सस्ता. ० ४० वप्र.

वीरवल की वाते. सस्ता ० ४०. वप्र.

अजितकुमार अकित होने दो भा ज्ञानपीठ.

४.००

अकेले कठ की पुकार. राजकमल. ३ ००. का

सत्यार्थ दर्पण श्री भा दिगवर. २ ००

—तथा विश्वनाथ त्रिपाठी, सपा कविताए १९६३ नेशनल.

४ ००

अजितकुमार 'सरल' जिदगी के मोड. गगा. ३.०० उ

प्रतिकार गगा. ३ ०० उ

अजितकुमार ऋषि 'सरल' समय का देवता. सा नि., व

५.००. उ.

अजित पुष्कल. कछुवे का नगर भ्रमण. साहित्यवाणी १.५०  
वप्र

नयी धरती नये लोग. प्रवाल. ३ ००. उ.

अजीत अहमद. हवस शमा २ ५० उ.

अज्ञात. अमृत कन्या गगा ५ ००. उ.

कैदी और जजीरे मजु ३ ५० उ

गुसाई गुस्वानी नेशनल.

भाम-नाटकावली हि प्रचा पु. १.००

महल और खडहर प्रकाश पा. १ ००

यह बरनी है गहीदो की. मजु ३ ५०. उ

सत्य हर्षिचंद्र हि प्रचा पु. १ ०० ना.

अज्ञात दे बहोरे, नवीन्द्रनाथ 'अज्ञात'

अज्ञेय दे. वाल्म्यायन, मन्त्रिदानन्द हीरानन्द 'अज्ञेय'

अटल दे. देवदन 'अटल'

अटल दे योगेश अटल.

अटलवनवर श्रीगम. श्री गशदतगवजी चव्हाण व्यक्ति और

विचार दिशा दिवान. १ ५०

अटलविद्यापि गजू नारायण गव एस. चाद. ६.००. तक्षिप्त.

५.००

अटलानाहव मेग जीवन-विज्ञान अ. भा. मर्च ०.५०

अतर परपेज. नफली चाद. कि महल. १.५०. वप्र.

अतुलप्रसादसिंह. कृषि-विज्ञान. कला-नि ३.७५

अत्रिदेव. क्लिनिकस मेडीसिन. २ भा. मोतीलाल. २५.००

परिवार-नियोजन. हि प्रचा. पु ३.००

सुश्रुत सहीता सपूर्ण स. ३. मोतीलाल. १५ ००

अत्रिदेव विद्यालकार आयुर्वेद का इतिहास. हि. सा सम्मे.  
३.५०

आयुर्वेद का वृहत इतिहास हि. समि ११ २५

प्राचीन भारत के प्रसाधन भा ज्ञानपीठ. ३.५०

भैषज्य कल्पना. हि सा सम्मे. १ ७५

रसशास्त्र हि. सा सम्मे ७.००

संस्कृत साहित्य मे आयुर्वेद भा ज्ञानपीठ. ३ ००

अत्रे, आचार्य. विवाह का बधन. रणजीत. २ ५० ना.

अदध अनुपम. मजिल कहा ? नारायण प्र. २ ५० उ.

अदम जीवनी और सकलन राजपाल. १.५०

अदावाल, सुबोध. भारतीय शिक्षा सिद्धात. गर्ग ब्र. ८ ००

सामान्य शिक्षा सिद्धात गर्ग ब्र ३ ७५

स्वप्नलोक का रहस्योद्घाटन गर्ग ब्र. १.२५

अदीब. दे पूनम अदीब.

अद्वैतानन्द सरस्वती. श्री शकराचार्य वाक्यसुधा. भा. १. मिश्र-  
वधु. १ ००

अधिकारी, महावीर अपने आपको पहचानिये. सहगल. ३.००  
कोशी. हि. ग्र. र. २.५०. क.

जीवन के मोड. आत्मराम ३.०० क

प्रसाद—जीवन, कला और कृतित्व आत्मराम. ८ ००

भारत का चित्रमय इतिहास आत्मराम. ७.००

मजिल से आगे हि. ग्र. र ८.००. उ.

—अनु. कोलवस. राजपाल. २.०० जी

अधिर दे. कौणिक, राधेश्याम 'अधिर'

अनत. हिंदी साहित्य के सहस्र वर्ष. सा साधना. ६.००

अनत, अ. अ. अतराष्ट्रीय एकता आर्य बुक २.५०

आपका बालक क्या बनेगा ? कि. महल. २ ००

एक फूस तीन रंग ओरिएटल बु १ ५० वप्र.

खाद और उसकी उपयोगिता देहाती. ५.००

पशु रोग. देहाती ५ ००

फलो की उपज देहाती ५ ००

फूल वाटिका (फूल पौधे, फुलवारिया) देहाती. ५.००

वच्चे कब क्या सीखने है सहगल. ३ ७५

वच्चो का विकास और उनकी शिक्षा. मगध. २.००

वानर और उनकी जातिया नवयुग प्र. १ ५०. वप्र

बालक घर के अंदर और बाहर. कि महल. २ ५०

बालक बुद्धिमान कैसे बने ? कि महल २.५०

भारत सजग है लोकप्रिय ३ ००

भारतीय बालको की शिक्षा नमस्याए. कि. महल. १.७५

राष्ट्रीय एकता. आर्य बुक २.५०

शिक्षा सिद्धात की रूपरेखा नवयुग प्र ३.५०

शिक्षा सिद्धात, प्रश्नोत्तरी. नवयुग प्र. ३.५०

समुद्री जीव-जंतु. नवयुग प्र वप्र.

सांस्कृतिक एकता. आर्य बुक १.५०



नामाजिक एकता आर्य बुक २५०  
 साह्य की कहानिया छात्रहितकारी १००  
 हिंदी साहित्य के सितारे शिक्षण १५०  
 अनंत अ अ दे बालकृष्ण  
 अनंत कवि च्चु भागत नस्ता ०४० वप्र  
 अनंत बहादुर सिंह सम्राट अगोक हि ना सृजन २००  
 ना  
 अनंतदीर्घ दे भट्ट अकलक  
 अनताचार्य चद्रापीडकथा रा वेनीमाधव १००  
 सस्कृत-त्रोधिनी रा वेनीमाधव १००  
 अनताचार्य दे वाराभट्ट  
 अनताचार्य वी नाटक कथा संग्रह रा वेनीप्रसाद १२५  
 नस्कृत सरल प्रबंध-प्रकाश रा वेनीप्रसाद १००  
 अनन्यान, वगताग पहाडी पगडडिया पीपुल्स ०५० क  
 अनविन, सर स्टेनले पुस्तक-प्रकाशन जानमडल सक्षिप्त  
 अनु ६००  
 अनामिल दे प्रेमकृष्ण 'अनामिल'  
 अनिल दे देगपाडे, ए आर 'अनिल'  
 अनिल तथा अमर सती मावित्री भा प्र मंदिर १५० का  
 अनिलकुमार आओ वच्चो नाटक खेले ३ भा लोक चेतना  
 २५० वप्र  
 कारखाना दि पु स २०० ना  
 गहो का निर्णय हिदिया ०७५ ना  
 जली खिचडी दि पु स १७५ ना  
 पालकी दि पु स १५० ना  
 महामाया हिदिया ०५० ना  
 विलपवी दि पु स २०० ना  
 अनुज शास्त्री पुस्तकालय प्रक्रिया दि पु स ६५०  
 नमाज शिक्षा और पुस्तकालय दि पु स १२५  
 अन्नपूर्णानंद १८६५-१९६० मंगल मोद आनंद पु वा  
 ०५० क  
 मंगल रहू चोला आनंद पु, वा २५० उ  
 मन-मयर रा वेनीप्रसाद ४०० क  
 महाकवि च्चु आनंद पु, वा ०५० उ  
 मिनिगजी आन्मागम १५० क  
 मेरी हजामत आनंद पु वा एद हि प्रचा पु २५०.  
 क  
 अन्ना दीदी आकाश के अचरज राजहन ०२५ वप्र  
 धरती के अचरज राजहन २०५ वप्र  
 अपूर्वानंद न्दामी मा नादा श्रीगामकृष्ण ५५०  
 — मया धर्म-प्रमग मे न्दामी चिवानंद श्रीरामकृष्ण  
 ५००  
 अप्पगम हि साधारण विज्ञान पजाठी पब्लि ७००  
 अटुल कलाम गजाद मानाना डनानियत मौत के दरवाजे  
 पत्र अनु. सैयद कागिम अली रा वेनीप्रसाद १००  
 अंगत नर धार्मिक मतभेद. अनु नैयद जहूरुलहमन हागिनी  
 आन्मागम ०००  
 रे खातिर अनु मदनलाल जैन सा अकादमी ६.००

अबुलफजल मिर्जा दे लेसिंग  
 अवोध दे रसूस अहमद 'अवोध'  
 अबुदुल रज्जाक युद्ध और प्रेम प्रचा पा १०० उ  
 विज्ञान की कहानी पानी की जवानी सर्वोदय सा ०७५  
 विज्ञान की कहानी मिट्टी की जवानी सर्वोदय ना ०७५  
 विज्ञान की कहानी, सूरज की जवानी सर्वोदय सा ०७५  
 विज्ञान की कहानी, हवा की जवानी सर्वोदय ना ०७५  
 अबुदुलरहमान इन्ने खलदून इन्ने खलदून का मुकद्दमा या विश्व-  
 इतिहास की प्रस्तावना अनु सैयद अहतर अब्बास रिजवी  
 हि समि १०००  
 अब्बास, रवाजा अहमद दे अहमद अब्बास, रवाजा  
 अब्बासी, नूरनवी १००१ गेर अगोक पा १००  
 — — सहगल २५०  
 उर्दू की सर्वश्रेष्ठ गजले सहगल  
 जफर की गजले सहगल २५०  
 दीवान-ए-गालिव अगोक पा १२५ का  
 ५०० खाइया अगोक पा १००  
 फैज की गजले सहगल २५०  
 — तथा नूर नकवी आज की नज्मे अशोक पा १००  
 अब्बासी, नूरनवी दे मुगनी अमरोहवी  
 अभयकुमार कल कौन देगा दास ३७५  
 काल पाशक पर विजय दास ०६५  
 अभय कुमार यौधेय, १९२३- डूवते तारे सन्मार्ग १७५ ना  
 सत्कारो के बंधन सन्मार्ग ५५० उ  
 सावन हसाये भादो रूलाये सुभाष ६००  
 सुबह के देवता इ पब्लि ५५० उ  
 अभयदेव, आचार्य तरंगित हृदय श्रीअरविद २००  
 प्राणदायक व्यायाम श्रीअरविद ०७५  
 मन नहीं टिकता क्या करे? श्रीअरविद ०१६  
 वैदिक उपदेशमाला श्रीअरविद १२५  
 वैदिक विनय ३ भा श्रीअरविद ३५० (प्र)  
 अभयनदि, आचार्य जनेन्द्र महावृत्ति सपा शशुनाथ त्रिपाठी  
 भा जानपीठ १५००  
 अभागा जलता इन्सान कन्हैयालाल २५० उ  
 वावरा कन्हैयालाल २०० उ  
 अभिराम विजया इ प्रे १०० का  
 अमन दे गोपीनाथ 'अमन'  
 अमर, महाकवि अमरुगतकम् अनु कमलेशदत्त त्रिपाठी मित्र  
 १०००  
 अमरकात, १९२५- कटीली राह के फूल राजकमल ४००  
 उ  
 गाम सेविका लोकभारती ४५० उ  
 जिंदगी और जोक नया सा प्र ३०० क  
 देश के लोग धारा ३०० क  
 पराई डाल का पछी प्रगतिशील ३७५ उ  
 सूत्रा पना पीपुल्स ५०० उ, — — हिद पा १००  
 अमरनदी भारत का नविधान बुकलेड ४२५  
 अमरनाथ, चदसखी का काव्य. ज्ञानालोक. २००

युगपुरुष. ज्ञानालोक. ०.७५  
 विचार अभ्ययन अनुभूति ज्ञानालोक. ३ ००  
 साहित्य परिचय लेखक और कवि. ज्ञानालोक.  
 साहित्य मूल्यांकन. ज्ञानालोक. ३ ५०  
 हिंदी गद्यकार ज्ञानालोक ० ७५  
 हिंदी गद्यकाव्य और उसकी प्रगति ज्ञानालोक ६ ००  
 —सपा उन्नीस सौ इकसठ एक सिंहावलोकन ज्ञानालोक.  
 १ ५०  
 डा० रागेय राघव साहित्यकार एव व्यक्ति ज्ञानालोक  
 निराला स्मृति ग्रंथ ज्ञानालोक २ ५०  
 राजर्षि टडन-स्मृति-ग्रंथ ज्ञानालोक २ ५०.  
 सचयन ज्ञानालोक १ ५०  
 अमरपाल पुस्तिका पालन की भारतीय पद्धति कि महल  
 १ ५०  
 अमरबहादुरसिंह भाषा शास्त्र प्रवेशिका रा वेनीप्रसाद  
 सरल माध्यमिक भूगोल कि महल ३ ७५  
 अमरबहादुरसिंह दे दुवे, रामनाथ  
 अमरबहादुरसिंह 'अमरेश', १९२६- आचार्य द्विवेदी गाव मे  
 हि प्रचा पु ३ ५०  
 उठो विकास देवता गगा १ ५०  
 कहरानामा, मसलानामा (मलिक मुहम्मद जायसी कृत) हिंदु  
 एकेडेमी २ ५०  
 प्रवीनराय गगा ३ ५० उ  
 राजकलन गगा ६ ५० उ  
 राना वेनीमाधव गगा ५ ०० उ, — — प्रभात पब्लि  
 विकास के तीन चरण गगा १ २५ [१ ५०  
 हिना के हाथ प्रचा पा १ ०० उ,  
 अमरसिंह दे लेखराम  
 अमरेश दे अमरबहादुरसिंह 'अमरेश'  
 अमानत इद्र-सभा भारतजीवन ० २५ का  
 अमीरअली 'मीर', सैयद मातृभाषा की महत्ता हि सा सम्मे  
 ० २५ नि  
 अमीरचंद्र विद्यालकार प्रारंभिक रसायन हि सा सम्मे  
 १ ५०  
 अमीरसिंह, सपा रसखान और घनानंद ना प्र सभा ३ ००  
 अमृतराय, १९२१- इतिहास हस २ ५० क  
 कठघरे हस २ ०० क  
 कस्वे का एक दिन हस २ ५० क  
 गीली मिट्टी हस ३ ०० क  
 जीवन के पहलू हस २ ०० क  
 नागफनी का देश हस १ ५० उ  
 नूतन आलोक हस २ ५०  
 बीज स २ हस ६ ०० उ  
 भोर से पहले हस २ ०० क  
 लाल धरती हस २ ५० क  
 साहित्य मे सयुक्त मोर्चा हस १ ७५  
 सुबह के रंग हस २ ०० सस्म  
 हाथी के दात. हस. २ ५०. उ.

—सपा प्रेमचंद स्मृति हस ६.००  
 अमृतराय दे फास्ट, हावर्ड  
 अमृतराय दे राव, वालकृष्ण  
 अमृता प्रीतम. १९१६- अतिम पत्र हिंदिया ३ ०० कथा  
 अतीत की परछाईया राजपाल ३ ५० सस्म  
 अशू आत्माराम ३ ०० उ, — — हिंद पा १ ००  
 एक थी अनीता राजपाल २ २५ उ  
 एक लडकी एक जाम राजकमल (पा) १ ०० क  
 एक सवाल हिंद पा १ ०० उ  
 कसक हिंद पा १ ०० उ  
 काला गुलाब राजकमल ४ ०० उ  
 घोसला यूनिवर्सिटी ४ ०० उ  
 चिडियाघर सा सगम, लु १ ५० वप्र  
 डाक्टर देव हिंद पा १ ०० उ  
 नीना हिंद पा १ ०० उ  
 बंद दरवाजा राजपाल २ ० उ, — — हिंद पा १ ००  
 रग का पत्ता राजपाल ३ ०० उ  
 हीरे की कनी हिंद पा १ ०० क  
 —तथा अन्य त्रिकोण प्रगतिशील १ ० ००  
 —सपा सर्वश्रेष्ठ पंजाबी साहित्य भा १ कहानिया, भा  
 २ कविताये प्रगतिशील ४ ०० (प्र)  
 अमृता प्रीतम दे वीरसिंह, भाई  
 अमूलचंद्र पशुओ का घरेलू तथा डॉक्टरी इलाज देहाती  
 ६ ००  
 अयाचित दे हनुमच्छास्त्री 'अयाचित'  
 अय्यर, के वी शातला अनु हिरण्मय ज्ञानपीठ ७ ०० उ  
 अय्यर, रामनाथ दक्षिण-भारत की लोक-कथाए गगा १.५०  
 रायर अप्पा की कहानिया गगा १ ५० वप्र  
 अय्यर, रामस्वामी हमारा कानून सस्ता ५ ००  
 अय्यर, विश्वनाथ दे भासी, तोपिल  
 अरविंद दे घोष, अरविंद  
 अरविंद दे द्विवेदी, रामवचन 'अरविंद'  
 अरविंद भारती भारतीय कला की रूपरेखा रा वेनीप्रसाद  
 १ २५  
 अरस्तु काव्यशास्त्र सपा सीताराम चतुर्वेदी सा सेवक १ ००  
 अरस्तू की राजनीति अनु भोलानाथ गर्मा हि समि ८ ००  
 अरुण अगारो के दूत अवध २ ५० उ  
 अदालत, वकालत, हजामत आत्माराम १ २५ हा  
 अमृत और विप आत्माराम २ ५० क  
 कट्टोल गगा ३ ०० हा  
 खेल तमाशे अवध ४ ०० वप्र  
 गप्पो का खजाना आत्माराम १ ००  
 डाक्टर के डक आत्माराम १ २५ वप्र  
 नवाव लटकन गगा ३ ०० हा  
 नहले पर दहला आत्माराम. १ २५ हा.  
 पिनकी परिहास आत्माराम १ २५ हा  
 फक्कड की फाइल आत्माराम ६ ०० हा  
 वदर से युद्ध. भा. सा. प्र. ०.५०. वप्र.

बुलबुला, तूफान, विस्फोट आत्माराम ४०० उ  
 भूत भाग गया आत्माराम १०० वप्र  
 भोर की किरणें आत्माराम २२५ उ  
 मजाक और मजा आत्माराम १२५ वप्र  
 मनुष्य कैसे पैदा हुआ भा सा प्र १५० वप्र  
 महापुरुषों के छीटे आत्माराम १२५  
 महापुरुषों के सस्मरण आत्माराम ३५०  
 मृत्यु में जीवन आत्माराम १०० क  
 रेलगाड़ी के डिव्वे आत्माराम २०० ए  
 विश्व के महान् प्रेम-प्रसंग अवध १०००  
 सचित्र गृह-विनोद आत्माराम ८००  
 सचित्र व्यंग्य-विनोद आत्माराम ७००  
 साहित्य में सत्य तथा तथ्य आत्माराम ३००  
 सैक्सो की लड़ाई आत्माराम १२५ हा  
 हसो वच्चो भा सा प्र ०७५  
 हास-परिहास आत्माराम ३००  
 हास्य का व्यापार आत्माराम १२५  
 —अनु एण्टन चैखव आत्माराम १५० क  
 मैक्सिम गोर्की आत्माराम ३०० क  
 अरुणा दे वाइल्ड, आस्कर  
 अरुणा दे विश्वभर 'अरुणा'  
 अरुणा दे शर्मा, सरनामसिंह 'अरुणा'  
 अरुणा दे सुरेन्द्र कुमार अरुणा  
 अरुणेश दे रामवीर 'अरुणेश'  
 अरोडा, दीवानचद गति विज्ञान का सफल अध्ययन स ४  
 केदारनाथ २१२  
 चलन-कलन का सरल अध्ययन सुरेश ०७५  
 ठोस ज्योमिति का सरल अध्ययन सुरेश १००  
 त्रिकोणमिति का सफल अध्ययन स ६ केदारनाथ ५५०  
 नियामक ज्योमिति का सरल अध्ययन सुरेश २७५  
 बीजगणित का सफल अध्ययन स ५ केदारनाथ २५०  
 स्थिति-विज्ञान का सफल अध्ययन स ४ केदारनाथ २५०  
 —तथा अन्य त्रिकोणमिति केदारनाथ ३२५  
 अरोडा, देवदत्त चर्म बनाने के सिद्धांत हिंदु एकेडेमी ६००  
 अरोडा, नारायणप्रसाद क्यों और कैसे? गंगा ०७५ वप्र  
 अरोडा, रामलाल सरल विज्ञान प्रश्नोत्तरी गयाप्रसाद  
 २००  
 अरोडा, शर्ले एल फिर क्या करोगे राम लोकप्रिय २५०  
 वप्र  
 अरोडा, शिवनाथ १९३५- सूर-परिचय रामा बुक १५०  
 अरोरा, ओमप्रकाश आचल की आग गारदा म ५०० उ  
 आग के आम् रभा ५५० उ  
 अरोरा, जी के आधुनिक चीन अवध १२५  
 अर्गल, आर आधुनिक सविधान परि स २ १९६३  
 लक्ष्मी ना ८००  
 समाज शास्त्र परि स ३ १९६२ लक्ष्मी ना  
 अर्गल, राजेश्वर तथा सरला अर्गल राजनीति दर्शन के नव-  
 गयाप्रसाद ८००

अर्गल, राजेश्वरप्रसाद नागरिक जीवन की रूपरेखा मिश्र-बधु  
 १५०  
 नागरिक शास्त्र की रूपरेखा. मिश्र-बधु १५०  
 भारतीय शासन की रूपरेखा मिश्र-बधु १५०  
 अर्गल, सरला तथा राजेश्वर अर्गल राजदर्शन के नवरत्न.  
 लायल ५००  
 अर्जुनकुमार 'अशात' अमरलक्ष्मी अशोक प्रे ०७५ का  
 अर्जुनदेव शास्त्री तथा हरनामदेव शास्त्री आदर्श संस्कृत व्याक-  
 रण तथा अनुवाद विधि साहनी ३७५  
 व्याकरण आदि नवीन आदर्श हिन्दी व्याकरण तथा रचना  
 विधि साहनी ३००  
 अर्जुनसिंह मुकुल-गुच्छ कला-नि २०० क  
 अटल, हन्स जैमिनीयोपनिषद्-ब्राह्मण रूपा रामदेव विश्वे-  
 श्वरानंद ५००  
 अर्नालकर, बाबूराव भूत महल का वदी चिनगारी २५०  
 शाही कमरवद अनु आर सर्वटे आनंद पु, वा ३०० उ  
 अर्श मलसियानी दे बालमुकुद अर्श मलसियानी  
 अलख दे दयाभानु 'अलख'  
 अलतेकर, अनंत सदाशिव गुप्तकालीन मुद्राएँ वि राष्ट्र ६५०  
 प्राचीन भारतीय शासन पद्धति भा भ ८००  
 प्राचीन भारतीय शिक्षण-पद्धति नद ब्र एव नद स ५००  
 अलबर्ट कृष्ण अली आदि अनादि इत्यादि अभिज्ञान २००  
 क  
 ऊटपटाग अशोक प्रे १७५ शब्द चित्र  
 कल्कि पुराण हास्य अभिज्ञान २००  
 अलाउल पद्मावत सपा सत्येद्रनाथ घोषाल क मु हि  
 ७००  
 अलास्कर सर्दी, जुकाम, खासी छात्रहितकारी ०७५  
 अलिद हिंदी के कवि ज्ञानालोक १००  
 अलिद दे वाजपेयी, चंद्रभाल 'अलिद'  
 अली आदिलशाह काव्य-संग्रह सपा श्रीराम शर्मा तथा मुव-  
 रिजुद्दीन रफत क मु हि ४५०  
 अल्लाफ हुसैन मुसद्दमे हाली अनु नरेद्र राम-कला ३००  
 का  
 अल्सेकर, रैसमस सर्दी-जुकाम-खासी स ५ आरोग्य १००  
 अवतरे, साहित्य शास्त्रीय समाधान, कल्याणदास ६००  
 अवतरे, शंकरदेव विद्योत्तमा नद ब्र एव नद स १५० का  
 हिन्दी साहित्य में काव्यरूपों का प्रयोग राजपाल १२००  
 अवधनदन तमिल साहित्य और संस्कृति सस्ता ३५०  
 महर्षि अगस्त्य सस्ता ०४० वप्र  
 अवधनारायण विमाता पु भ ४०० उ, — —रामलोचन  
 (पा) १००  
 अवधेश, आर वी शिशुगान एस चाद १२५ वप्र  
 अवधेशकुमार परिव्यय लेखा सशो स २ आगरा बुक  
 ३७५  
 अवधेशनारायणसिंह दे दत्त, विभूतिभूषण  
 अवधेश प्रसाद भारत का आर्थिक तथा वाणिज्य भूगोल मोती-  
 लाल. ४००

अवनींद्रकुमार विद्यालकार. पंद्रह वर्ष मे हमारी प्रगति. सस्ता  
० ७५  
सामुदायिक योजना सस्ता ० ३०  
सिचार्ड और बिजली सस्ता. ०.३०  
हमारी प्रगति. सस्ता वप्र  
—सपा भारत ज्ञान कोश हिंद पा २ ५०  
विश्वज्ञान कोश. हिंद पा. २ ००  
अवस्थी, एस. डी आठ कहानिया. हि पु ए १ ५०  
अवस्थी, ओम, १६३८- प्रेमचंद के नारी-पात्र नेशनल.  
५.००  
अवस्थी, केदारनाथ सुमनाजली हि. पु ए २ ०० का.  
अवस्थी, जगमोहननाथ. अमर बापू न्यू लिट. १.२५  
पश्चाताप. न्यू लिट. ०.७५ ना  
रक्त का बदला न्यू लिट १.५०. उ  
सती वेश्या. न्यू लिट ४ ७५ उ.  
अवस्थी, देवीरत्न 'करील' देवार्चन सा. रत्न भ ५०० का  
अवस्थी, देवीशकर. अठारहवी शती के ब्रजभाषा काव्य मे प्रेमा-  
भक्ति. हि अ र  
आलोचना और आलोचना सा. नि, का. ४ ००. नि.  
—तथा अजितकुमार कविताए-सकलन सा नि, का. २.७५  
—सपा कहानी विविधा राजकमल ३ ००  
अवस्थी, नंदकुमार कुरान पर एक दृष्टि. श्री प्रभाकर. ०.३१  
—अनु कृतिवास रामायण. श्री प्रभाकर. ६.००  
अवस्थी, बी. डी ग्रह और नक्षत्र. राजकमल. १ २५. वप्र.  
सूर्य और चंद्रग्रहण राजकमल १.२५ वप्र.  
अवस्थी, भगवानदास अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत. हिंदु. एकेडेमी.  
३.००  
पृथ्वी की कहानी. भा. सा प्र. १.००. वप्र.  
अवस्थी, म न तथा द स. पाडेय. भौतिक विज्ञान (प्रायो-  
गिक) स ३. कि. घर, का. ४.००  
अवस्थी, मणिलाल 'रसिक'. अभिमान भरी. आदर्श पु. म.  
१ ५०. उ  
आचल का दीप. आदर्श पु. म १ ००. उ.  
काश आदर्श पु. म १ ०० उ.  
किसी से न कहना आदर्श पु. म १.०० उ.  
टीस. पु. म १.००. उ.  
बाह पसारे प्यार पुकारे. आदर्श पु म १.०० उ  
अवस्थी, मोहनलाल 'मोहन' महारथी इ प्रे. १.२५. का.  
अवस्थी, रमेशचंद्र अतरिक्ष यात्री से भेट. भालोटिया क.  
तरगिणी भालोटिया २ ००. का  
अवस्थी, राजेद्र. एक परदेशी के नाम बबई प्र १.२०. उ  
छोटी बडी लहर बबई प्र २ ५० उ  
धरती लहराई लोकप्रिय. १ ५६  
मकडी के जाले हि प्रचा पु. २ ५० क.  
सोया हुआ आदमी हिंद पा १.००. उ  
हमारे आदिवासी बबई प्र २.५०  
अवस्थी, राजेद्र 'तृषित' १६२६- गंगा की लहरे. एस. चाद  
३.५०. क.

जगल के फल. राजपाल. ४.००. उ.  
नया तीरथ. राजपाल १.००. वप्र.  
पाप के परे राजपाल. २ ५०. उ.  
बादलो के आर-पार प्रचा पा. १.००  
महुआ आम के जगल. बबई प्र. २ ५०. क  
यूगोस्लेविया. बबई प्र. २ ५० या.  
वन्य-जातियो की लोक-कथाए आत्माराम. १ ५०  
सूरज किरण की छाव राजपाल ३.००. उ.  
अवस्थी, लक्ष्मीनारायण. तवाखू व पान से सावधान स्वरूप.  
० ३७  
दही, मही तथा छाछ. स्वरूप. ०.३७  
दूध स्वरूप. ०.३७  
भाग, गाजा छोडो. स्वरूप. ०.५०  
अवस्थी, लीला. दूब के फूल हिंदिया. ३ ००. कथा.  
दो राहे. हि. प्रचा. पु २.००. उ.  
नीला लिफाफा. कल्याणमल ०.७५. ए  
बिखरे काटे प्रचा पा १.०० उ.  
भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेता हि. प्रचा पु. १.२५  
मगू भैया. सस्ता. ०.४०. वप्र.  
रेवा प्राणण. एस. चाद २ ५०. ना  
अवस्थी, शभुदेवी युग सदेश. न्यू लिट ०.३७. का  
अवस्थी, सद्गुरुशरण तुलसी के चार दल इ प्रे भा. १.  
३.००, भा २. २ ७५  
नाटक और नायक ६ भा इ प्रे. १.२५ (प्र.)  
पडोस की कहानिया अवध. ३ ५०  
बुद्धि तरंग सा नि., का. २.५० नि.  
अमिक पथिक. स २ रा. वेनीप्रसाद २.००. उ.  
मभली महारानी इ प्रे १ ७५ ना.  
मुद्रिका. विश्वविद्यालय. १.०० ना.  
विचार तरंग इ. प्रे. ३.५०.  
विचार-विमर्ष स. २. रा. वेनीप्रसाद. १.५०. नि.  
साहित्य-तरंग. इ. प्रे. ५.००.  
अवस्थी, हरिकृष्ण, सपा. उत्तरकाड. हि. सा. भ. १.७५.  
अविचल. अछूत कौन. दास. १.२५.  
लाल टोपी दास. १.५०.  
अविनाश काटा भी महक उठे. रामप्रसाद. २.५० क.  
अविनाशचंद्र. दे. विरागी.  
अशात दे. अर्जुनकुमार 'अशात'  
अशात. दे. रामेश्वर अशात  
अशोक आप भला जग भला. सस्ता. ०.४०. वप्र.  
कथाकुज. २ भा. भा. प्र. मडल. ०.७५. वप्र.  
कबीर के बोल. सस्ता. ०.४०. वप्र.  
गाधीजी का विद्यार्थी-जीवन सस्ता. ०.४०. वप्र.  
गाधीजी का सत्तार-प्रवेद. सस्ता. ०.४०. वप्र.  
गाधीजी के आचम. २ भा. सस्ता. ०.४० (२.)  
जादू का मुन्ना. गंगा. १.००. वप्र.  
तुलसी-मानव-मोती. सस्ता ०.४०. वप्र.  
वस्ती के तार. रा. वेनीप्रसाद. ०.५०. वप्र.

नवलखा हार नागरी प्र वप्र  
 सच्चा तीरथ सस्ता ०४० वप्र  
 सोने की मछलिया कला-नि १७५ वप्र  
 अशोक दे वैष्णव, यमुनादत्त 'अशोक'  
 अशोक दे सुदरलाल 'अशोक'  
 अशोककुमार नवीन बाल कहानिया. आदर्श पु भ १००  
 प्रारम्भिक आचार शास्त्र मौतीलाल ५००  
 अशोककुमार वेदालकार बाल हास्य लोक-कथाए आत्माराम  
 १.२५  
 अशोककुमार सिंह उद्धवशतक-परिशीलन आत्माराम २००  
 काव्य के वाद ओरिएण्टल २००  
 काव्य-संप्रदाय ओरिएण्टल ३००  
 काव्य-संप्रदाय और वाद ओरिएण्टल ४५०  
 अशोक वेदालकार कोष्ठबद्धता गंगा १२५  
 अश्क दे उपेद्रनाथ अश्क  
 अश्वघोष बुद्ध-चरित सस्ता ०.४० वप्र  
 बुद्धचरितम् सपा रामकृष्ण शुक्ल रा वेनीमाधव ०७५  
 सौदरनद सस्ता ०४० वप्र  
 अष्ठाना, पद्माकर व्यावसायिक सगठन सा भवन, आ  
 ७५० से १२५०  
 अष्ठाना, रामचंद्रलाल दे दीपनारायणसिंह  
 अष्ठाना, सत्यदेवनारायण सुभाषचंद्र बोस राष्ट्रीय सा स  
 ०५० वप्र  
 अमलम, एम हीर राभा अशोक पा १०० उ  
 अस्थाना, गिरीश धूलभरे चेहरे सरस्व प्रे २०० उ  
 अस्थाना, घनश्याम भोर के सपने विनोद १५० का  
 अस्थाना, वी एन राजस्व की सरल व्याख्या गर्ग ब्र  
 २७५  
 अहमद अब्बास, स्वाजा, १९१४- अधेरा उजाला हिंद पा  
 १०० उ  
 अवध की शाम. नीलाभ ३२५ क  
 आधा इसान नीलाभ २५० उ  
 इन्कलाव राजपाल ६०० उ  
 कहते हे जिसको इश्क राजकमल (पा) १०० क  
 काला सूरज सफेद साये नीलाभ उ  
 चार दिल चार राहे नीलाभ ३२५ उ  
 चिराग तले आत्माराम २५० क  
 पेरिम की एक शाम नीलाभ ३५० क  
 प्यार की पुकार हिंद पा १०० उ  
 मेरा बेटा मेरा दुश्मन नीलाभ ३७५ क  
 लाल और पीला नीलाभ ३७५ क  
 मलमा और ममदर नीलाभ क  
 नितारो मे आगे राजकमल (पा) १०० जी  
 अहमद वशीर, अनु हिंदी मे सपूर्ण कुरान श्री प्रभाकर.  
 ८००  
 अहमद नलीम दाते जिममे सुगंध फूलो की भा ज्ञानपीठ  
 ३००  
 १९९९ संगीत पारिजात भाष्य कलिद संगीत ४००

## आ

आइत्मातोव, चगीज जमीला पीपुल्स ०३७ उ  
 आइन्स्टाइन, ऐलवर्ट आपेक्षित का अभिप्राय अनु भवालकर  
 और सेठी हि समि ४००  
 आगाशे, वी स नवीन स्कूल रेखागणित रा वेनीप्रसाद भा  
 १२४१, भा २ १४९  
 —तथा एम एस आगाशे नवीन स्कूल वीजगणित रा  
 वेनीप्रसाद भा १ १९०, भा २ १४९, भा ३  
 २३२  
 आगाहश्र काश्मीरी दिल की प्यास कल्याणदास १५० ना  
 भक्त सूरदास देहाती ०-७५ ना  
 भीष्म प्रतिज्ञा देहाती २०० ना  
 आगा हैदर हुसेन अक्षरोका आरभ राजकमल २०० वप्र  
 आचार बालको का पालन-पोषण अनु माधव उपाध्याय  
 सस्ता २५०  
 आचार्य, केशवदेव आत्मसमर्पण योग श्रीअरविद ०७५  
 गीता-नवनीत २ भा श्रीअरविद ३५० (प्र)  
 सत्य का रहस्य श्रीअरविद ४५०  
 आचार्य, गुणवत अलख निरजन चौधरी, ४५०  
 जय कच्छ चौधरी ४५०  
 आचार्य, गुणवतराय कृष्णाजी नायक वोरा ४०० उ  
 बुक्काराय वोरा ५५० उ  
 महामात्य माधव वोरा ५०० उ  
 रायरेखा वोरा ५०० उ  
 राय हरिहर वोरा ३५० उ  
 आचार्य, पद्मनारायण सफल एकाकी नद स १५०  
 —सपा चुने फूल ना प्र सभा २५० का  
 आचार्य, पद्मनारायण दे मिश्र, केशवप्रसाद  
 आचार्य, पद्मनारायण दे रामकृष्णदास  
 आचार्य, प्रसन्नकुमार भारतीय सस्कृति एव सभ्यता हि सा  
 सम्मे ५००  
 आचार्य, रामकृष्ण ब्रह्मसूत्र और वैष्णव भाष्य विनोद १२५  
 ब्रह्मसूत्रो के वैष्णव भाष्यो का तुलनात्मक अध्ययन विनोद  
 १०००  
 भटक सुक्तरत्नाकर विनोद ६००  
 आजाद दे अबुल कलाम आजाद, मौलाना  
 आजाद दे जगन्नाथ 'आजाद'  
 आठले, वासुदेव मगल-पथ लोक-चेतना ५०० उ  
 आत्मानद, १९१३- योगासन स २ आरोग्य २००  
 आत्माराम तथा भीमसेन सस्कार चंद्रिका सशो स आर्य सा  
 आत्माराम, जैनाचार्य जैन धर्म विषयक प्रश्नोत्तर सपा  
 हीरालाल श्री आत्मानद ०७५  
 आत्माराम अमृतसरी महर्षि दयानंद से पूर्व का भारत  
 गोविंदराम २००  
 आत्माराम वेहकी अच्छा किया या बुरा सस्ता ०४०  
 आत्रेय, आचार्य बाबू बबई प्र २०० ना.

आत्रेय, ति न सुतांजलि अ भा सर्व ०२०  
 आत्रेय, भीखनलाल, १८६७- योगवासिष्ठ और उसके  
 सिद्धांत तारा १०००  
 आत्रेय, शांतिप्रकाश भारतीय तर्क-शास्त्र तारा ५००  
 मनोविज्ञान एवं शिक्षा में सांख्यिकी तारा ३५०  
 योग मनोविज्ञान तारा  
 आदर्श पुष्पनगर कल्याणदास ५०० का  
 आदर्श दे ब्रजभूषणसिंह 'आदर्श'  
 आदर्शकुमारी गरीब घर अमीर इरादे नवयुग पु भ ३५०  
 उ  
 गिरिधर की कुडलिया सस्ता ०.४० वप्र  
 पुण्य की जड़ हरी सस्ता १५० वप्र  
 प्रेम और बलिदान नवयुग पु भ २०० उ  
 हमारे मुस्लिम सत सस्ता ०४० वप्र  
 आदर्शकुमारी यशपाल ब्रज की लोक-कथाएँ आत्माराम.  
 १५०  
 आदित्यनारायण हिंदी व्याकरण ज्ञान हि प्रचा पु भा  
 १०७८, भा २०६७  
 आदित्यनारायण सिंह शिशु विनय माला हि प्रचा. पु १२५  
 आदिल दे शर्मा, ओमप्रकाश 'आदिल' [वप्र  
 आदिल रशीद, १६२०- आखरी सलाम सुरेद्र ५५० उ  
 इश्क पर जोर नहीं पजाबी पु ४०० उ  
 एक लडकी, एक समस्या सहगल ३७५ उ.  
 काली घटा हि प्रचा पु ४५०  
 चौपाल शमा ३.००. उ  
 डूबते साये शमा ५५० उ  
 तारो की छाव सहगल ४०० उ  
 दर्दे दिल पजाबी पु २५० उ  
 दर्दे दिल स्टार (पा) १००  
 देवता सुरेद्र (पा) १०० उ  
 दो फूल शमा ३६५ उ  
 परछाई पजाबी पु २२५ उ  
 परछाई स्टार (पा) १०० उ  
 प्रेम की विजय सा प्र २५० उ  
 बहार आने तक रूपकमल ३५० उ  
 मछेरन पजाबी पु २२५ उ  
 मछेरन स्टार (पा) १००  
 मीर साहब नवयुग प्र ४५० उ  
 राही मजिल और रास्ता अशोक पा १०० उ  
 राही मजिल और रास्ता सहगल २५० उ  
 रूप स्टार (पा) २०० उ  
 रेखा पजाबी पु २२५ उ  
 रेखा स्टार (पा) १००  
 सगम अर्चना प्र (पा) १००  
 सपनों का मीत रूपकमल २५०  
 समय के पख नवयुग प्र ५०० उ  
 स्वर्ग का फूल अर्चना प्र (पा) १०० उ  
 आनंद अमर सदेश. औरिएटल. ०.७५. वप्र.

कुरुक्षेत्र हिमालय. बंसल. २.५०  
 चीन की कहानिया. सा. सगम, लु भा. १-२. १२५ (प्र.),  
 भा. ३-५. १.०० (प्र.) वप्र  
 राजेद्र प्रसाद सा सगम, लु. ०.६२ वप्र  
 हितोपदेश राजपाल. २२५  
 आनंद दे दिनेश्वरलाल 'आनंद'  
 आनंद दे. दीक्षित, जगदीश 'आनंद'  
 आनंद. दे रामप्रसादसिंह 'आनंद'  
 आनंद दे रायचौधरी, डी के 'आनंद'  
 आनंद दे वर्मा, भगवतदयाल 'आनंद'  
 आनंद, आचार्य. दे मल्ल, विजयशंकर  
 आनंद, जगमोहनलाल, अनु. लीक पर आनंद प्र १.५०. क.  
 आनंद, धर्मप्रकाश कच्चे धागे नीलाभ. ३७५. क.  
 आनंद, मुल्कराज अछूत राजकमल. (पा.) १.००. उ.  
 इसान की कहानी. राजकमल. ३.००. वप्र  
 कुली भा. भ. ६००. उ  
 गाव. राजपाल. ५००. उ.  
 दो पत्ती एक कली राजकमल. (पा.) १५०. उ.  
 बुढिया की गाय राजकमल ५५० उ.  
 मरने से पहले हिंद पा १००. उ.  
 शहीद हिंद. पा १०० उ.  
 सडक प्रगतिशील ३०० उ.  
 सात समुद्र पार राजपाल ६००. उ  
 सात साल राजपाल ४००. उ.  
 हिंदुस्तान की कहानी राजकमल २५० वप्र  
 —तथा अन्य चार श्रेष्ठ पुस्तके प्रगतिशील १०००  
 आनंद, रघुनाथ, सपा शिक्षा दर्शन और प्रयोग भागलपुर  
 बुक ६५०  
 आनंद, राजकुमार आधुनिक कहानिया गिरिधर. ३००  
 धर्मवीर गिरिधर ०५० ना  
 रसीली कहानिया गिरिधर २५०  
 —सपा अर्चना गिरिधर ३०० क  
 प्रेम गीत गिरिधर ३००  
 आनंद, रामप्रसाद सिंह प्रतीक्षा नद स १५०  
 आनंद, रामलुभाया 'दिलशाद' पजाबी रामायण  
 विश्वेश्वरानंद १०००  
 आनंद, सत्यपाल आदमी और पत्थर दीपक पन्डि. क  
 पेटर वावरी सा सगम, लु ३०० क  
 महापुरुषो की बाललीला सा सगम, लु १.५०. वप्र.  
 युग की आवाज सा सगम, लु ४३७ क  
 हमारे नेता सा सगम, लु २०० वप्र.  
 हाजी बाबा इस्फहानी सा सगम, लु. १.५० वप्र.  
 आनंद, सुरेद्र आ अब नौट चर्चे आनंद प्र २.५० उ  
 घडी घटा स २ आनंद प्र. १.५० क.  
 यह लोग आनंद प्र ३.६० उ.  
 आनंद, सुरेद्र दे. ब्रह्म, ज्ञान ग्टाटन  
 आनंदकुमार अमर सदेश कहानिया. आत्माराम. १५०. वप्र.  
 अमर कथाएँ. नवयुग. १.२५

आत्मविकास राजपाल ५.००  
 आदर्श क्याए राजपाल १२५  
 आपका व्यक्तित्व सहगल ४००  
 आपका शरीर हिंद पा १००  
 इतना तो जानिए सस्ता  
 इनकी भी कहानी है हिं प्र म १५० क  
 इनसे क्या सीखे एस चाद १०० वप्र  
 कहा, कौन और कितना हिं प्र म ०७५  
 काम की कहानिया आत्माराम १५० वप्र  
 क्या-क्यों, कैसे हिं प्र म ०७५  
 चोर पकडा गया राजपाल ०७५ वप्र  
 जातक कथाए राजपाल १२५  
 नई पुरानी कहानिया एस चाद १५० वप्र  
 नीति कथाए राजपाल १२५  
 नीति-प्रमोद आत्माराम २०० वप्र  
 बहुत दिनों की बात है आत्माराम १५० वप्र  
 वीमा का प्रारम्भिक सिद्धांत नाँवल्डी ३५०, ६५०  
 वीरवल की कहानिया राजपाल ०७५ वप्र  
 बुद्धि-विनोद आत्माराम २०० वप्र  
 भारतीय कथाए राजपाल १२५  
 मनुष्य का विराट् रूप राजपाल ४५०  
 मनोरंजक कथाए राजपाल १२५  
 महापुरुषों की कथाए राजपाल १२५  
 लोक कथाए राजपाल १२५  
 वाल्मीकि रामायण राजपाल ३००  
 व्यापार संचालन और बाजार सूचनाए. नाँवल्डी भा १  
 ३५७, भा २ ४५०  
 शिक्षाप्रद कथाए राजपाल १२५  
 सदाचार की कथाए राजपाल १२५  
 सरम कहानिया आत्माराम १५० वप्र,  
 सीख की कहानिया आत्माराम १५० वप्र  
 सुभाषित प्रचा पा १००  
 सूक्ति-रत्नावली सस्ता १५०  
 सूक्तूभ की कहानिया राजपाल ०७५ वप्र  
 —सपा अमत की वूदे सस्ता १००  
 आनंदकृष्ण नागफाम ज्ञानोदय २०० ना  
 आनंदकृष्ण दे रायकृष्णदास.  
 आनंदप्रकाश तथा सत्यप्रकाश नागरिक शास्त्र प्रदीप यग  
 मैन भा १ २१०, भा २ १८७  
 प्रारम्भिक नागरिक शास्त्र यग मैन भा १ ४००, भा २.  
 ५७५  
 आनंदप्रकाश सिंह जर्मनी की कहानी बवई प्र २५० या  
 आनंदराव, डी एल राष्ट्रीय झंडा तथा उनका प्रयोग न्यू  
 लिट ०५०  
 —तथा रावेर्याम विद्यार्थी समाज सेवा नद ब्र १५०  
 आनंदराव, डी एल दे वर्मा, जी बालचंद्र  
 आनंदवर्धनाचार्य ध्वन्यालोक अनु राममागर त्रिपाठी मोती-  
 ५६.००

आनंदस्वरूप उत्तररामचरित मोतीलाल ६००  
 फिटिंग शाप प्रैक्टिस देहाती ७५०  
 मशीनशाप प्रैक्टिस देहाती १५००  
 आनंदस्वरूप दे भवभूति  
 आनंदस्वरूप, स्वामी मीरा सुधा-सिधु सा सस्थान १३००  
 आनंदस्वामी आनन्द गायत्री कथा गोविंदराम ०७०  
 आनंद भगवत् कथा सत्यनारायण व्रत कथा गोविंदराम  
 ०.६२  
 उपनिषदों का सदेश गोविंदराम १२५  
 एक ही रास्ता गोविंदराम ०८०  
 घोर घने जंगल में गोविंदराम  
 जाग ए मानव देहाती १००  
 तत्त्वज्ञान गोविंदराम ३००  
 दयानंद वचनामृत आर्य सा ०३७  
 प्रभुदर्शन परि स ५ गोविंदराम २५०  
 प्रभुभक्ति गोविंदराम १५०  
 भक्त और भगवान गोविंदराम १००  
 भगवान शंकर और दयानंद गोविंदराम ०५०  
 मानव जीवन गाथा या जीवन गीत गोविंदराम १००  
 आनंदप्रसाद भाकी सा भवन, ड १०० का  
 आन्द्र जीद सकरा द्वार अनु सुशीलादेवी सरस्व स २५०  
 आन्द्रिनोव, बोरिस हिन्दी रुसी बोलचाल नव सा प्र ५००  
 आण्टे, एच एन कौन ध्यान देता है ? अनु श्रीनिवास कोचर  
 सा अकादमी ७०० उ  
 आण्टे, वामन शिवाराम संस्कृत अनुवाद दर्शिका अनु ओकार-  
 नाथ मिश्र रा वेनीमाधव ४००  
 संस्कृत निवध-पथ-प्रदर्शक अनु रामकृष्ण शुक्ल रा वेनी-  
 प्रसाद ४००  
 आण्टे, वी एस स्टूडेन्ट्स इंगलिश-संस्कृत डिक्शनरी मोती-  
 लाल ४००  
 स्टूडेन्ट्स संस्कृत-इंगलिश डिक्शनरी मोतीलाल ६००  
 आण्टे, हरिनारायण, १८६४-१९१९ उषाकाल हि पु ए  
 ८०० उ  
 कौन ध्यान देता है ? एस चाद ७०० उ  
 चाणक्य और चंद्रगुप्त राजपाल ४०० उ  
 महाराष्ट्र प्रगात सा माधना ३५० उ  
 आविद दे कृष्णागोपाल 'आविद'  
 आविद हुसैन भारत की राष्ट्रीय संस्कृति सा सदन, चि  
 ३५०  
 आर्वी, वजीरहसन रामानुजन पीपल्स १५० वप्र  
 आयगर, के आर श्रीमाताजी श्रीअरविद ३०० जी  
 आर जी मल्लयुद्ध देहाती १२५  
 आरजू सुरीली वासुरी अनु नरेद्र राम-कला ३०० का  
 आरसीप्रसाद ठडी छाया दरभंगा ३००  
 द्वंद्व समास प्रभात पब्लि २०० का  
 आरसीप्रसाद सिंह कलापी अथमाला २०० का  
 आराधक दे शर्मा, फतहचंद्र आराधक  
 आरिगपूडि दे रमेश चौधरी, ए. 'आरिगपूडि'

- आरिफ. दे ओमप्रकाश 'आरिफ'  
 आर्य दे. ओमप्रकाश आर्य  
 आर्य दे देवेद्र 'आर्य'  
 आर्य दे. मेदीलाल आर्य  
 आर्य दे वेदज्ञ आर्य  
 आर्य दे सरयूप्रसाद आर्य  
 आर्य मुनि उपनिषद्-आर्य-भाष्य गोविंदराम  
 मीमांसा दर्शन देहाती ६००  
 आर्वेल, जॉर्ज १९८४ राजपाल ३०० उ  
 आले अहमद सरूर एवरेस्ट की कहानी मक्तवा ०५०.  
 आलोक आलोक आरोह पारिजात २.५० का.  
 आलोक. दे. वासुदेवनारायण 'आलोक'  
 आल्बर्टसो तीन फरिश्ते नेशनल २००  
 आवारा दे प्यारेलाल 'आवारा'  
 आशधर जिनसहस्रनाम सपा हीरालाल शास्त्री भा ज्ञान-  
 पीठ. ४००  
 आशानद पचरत्न आधुनिक चिकित्सा विज्ञान २ भा मोती-  
 लाल २०००  
 व्याधि विज्ञान. २ भा मोतीलाल १९००.  
 आशाराम तथा श्रीवास्तव राजनीति विज्ञान बुकलेड १०००  
 आशीर्वादम्, ए. डी राजनीति शास्त्र २ भा अपर. ६२५  
 (प्र),  
 आस्टिन, जेन में हारी. बवई प्र. ३.७५.

## इ

- इगरसोल, कर्नल धर्म के नाम पर. हिं. ग्र. र १.५०  
 स्वतंत्र-चिंतन हिं. ग्र. र १.५०  
 इंडियन प्रेस हिंदी राष्ट्रभाषा कोश. इ प्रे १४००  
 इंदरजीत सिंह 'तुलसी' बर्फ बनी अगारे. आर्टस. ७००  
 इंदिरा टूटा आइना. पुष्पी. ०७५  
 डॉक्टर वार्ड. पुष्पी १.०० उ  
 लदन की लडकिया पुष्पी १००. उ  
 —रूपा कीलर पुष्पी. १०० उ.  
 इंदिरादेवी तथा दिलीपकुमार राय श्रुताजलि श्रीअरविद  
 ५०० का.  
 इंदिरा 'नूपुर' एक साभ, एक मीत चंद्रलोक. २५०. का  
 नया बसेरा चंद्रलोक २५०. ए  
 वह कौन थी? चंद्रलोक. ३५. उ.  
 शैव्या के आसू चंद्रलोक ३.००. क.  
 सपने, मान और हठ. चंद्रलोक ३.००. उ.  
 इंदीवर प्यार बाटते चलो बोरा २५०. गीत  
 इंदु परिहार उच्चतर माध्यमिक सामाजिक अध्ययन मिश्र-  
 बंधु भा. १ १-३७, भा २. २५०, भा ३. १२५.  
 इंदुप्रकाश तथा कृपाशकर त्रिवेदी माध्यमिक प्रायोगिक कृषि  
 भौतिकी केदारनाथ. ४.५०  
 इंदुवाली. मन रो दिया. अजय. ३.५०. क.

- इंदुभूषण. प्रारंभिक भूगोल-संज्ञा बुकलेड. ५५०  
 इंदुमती उखड़े विरने संस्व. प्र. ३०० क  
 भारतीय संस्कृति की परंपरा (प्रश्नोत्तर) मालवीय. ४.५०  
 इंदुशेखर, अनु अभिज्ञान शाकुंतल आत्माराम ३०० ना.  
 इंदूरकर, गंगाधर दे हर्ष  
 इंदु सरल संस्कृत व्याकरण. स ३ हि भवन २००  
 सुबोध संस्कृत व्याकरण. स १४ हि भवन. ३.००  
 इंदु दे. गणेशदत्त 'इंदु'  
 इंदु. दे मिश्र, राजेन्द्रनाथ 'इंदु'  
 इंदु दे. शर्मा, गणेशदत्त 'इंदु'  
 इंदु. दे शर्मा, देवेद्र 'इंदु'  
 इंदुकुमार 'विद्यार्थी'. कथाकार वृंदावनलाल वर्मा सूर्य प्र  
 २००  
 इंदुचंद्र शास्त्री भारत की आर्य-भाषाएँ श्री भा भारती.  
 ५.००  
 भारतीय आर्य भाषाएँ—ऐतिहासिक विवेचन. श्री भा.  
 भारती ५.००  
 महाभारत के सूक्ति-रत्न सस्ता २.५०  
 मानव और धर्म सस्ता ३००  
 लोकतंत्र का लक्ष्य सस्ता ४५०  
 इंदुपालसिंह संस्कृत नाटक समीक्षा. सा. नि., का ४६२  
 साहित्यिक निबंध निधि. सरस्व पु स. १२५  
 इंदुपालसिंह 'इंदु'. हिंदी-साहित्य-चिंतन. विनोद ६००  
 इंदु विद्यावाचस्पति, १८८६-१९६० अपराधि कौन? राजपाल.  
 ५.००. उ.  
 उत्तररामचरित. राजपाल. २.००.  
 किरातार्जुनीय राजपाल. २.५०.  
 गांधी गीता. राजहंस २००  
 जीवन-ज्योति राजपाल ३००. जी  
 पत्रकारिता के अनुभव नेशनल. २.५० सस्म.  
 भारत का सचित्र सविधान आत्माराम २.००  
 भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय और अस्त आत्माराम.  
 ७५०  
 भारतीय संस्कृति का प्रवाह एस चाद ५.००  
 भारतीय स्वाधीनता-संग्राम का इतिहास. सस्ता ५५०  
 मुगल साम्राज्य का क्षय और उसके कारण. हिं. ग्र र  
 ७५०  
 मैं इनका ऋणी हूँ सस्ता २२५ सस्म  
 रघुवश राजपाल ३००  
 लोकमान्य तिलक और उनका युग सस्ता ४५० सस्म.  
 ससार के महान् युग-प्रवर्तक. आत्माराम. ३००  
 हमारे कर्मयोगी राष्ट्रपति आत्माराम. ०७५  
 इंदुसिंह खेती-बाड़ी की पाठ पुस्तक सा सगम, लु ५००  
 इंदुसिंह 'भूकप' क्रिकेट कैसे खेले जिज्ञासा २००. बप्र.  
 बालीबाल कैसे खेले. जिज्ञासा २०० बप्र  
 बैडमिंटन कैसे खेले जिज्ञासा २०० बप्र.  
 फुटबाल कैसे खेले जिज्ञासा. २.००. बप्र.  
 हाकी कैसे खेले. जिज्ञासा. २.००. बप्र.



इंद्रसेनसिंह कृषि शिक्षण नद व एव नद. स २२५  
 इंद्रसेनसिंह 'भादुक' दो लाडले ओरिएटल ०७५ वप्र  
 नन्हा कवि नवयुग प्र ०७५ वप्र  
 नवाव और खराव ओरिएटल ०७५ वप्र  
 परिवार के गन्तु मनोरमा २२५ ना  
 मोल का दूध ओरिएटल ०७५ वप्र  
 वीरो का वचन ओरिएटल  
 श्रमदान ओरिएटल १५० वप्र  
 इंद्रादेवी तथा दिलीपकुमार राय सुधाजली कि महल ३५०  
 का  
 इशा अल्ला खा रानी केतकी की कहानी सपा श्यामसुंदरदास  
 ना प्र सभा ०५०  
 इकवाल (मुहम्मद इकवाल) १८७५-१९३८ इकवाल की  
 शायरी सपा प्रकाश पंडित हिंद पा १००  
 कविश्री माला उर्दू राष्ट्र प्रचा समि २००  
 जीवनी और सकलन राजपाल १५०  
 इकवाल अहमद लायलपुरी तथा के सी माथुर देहलवी  
 तर्जुमा कुरान गरीफ रतन एड क ८००  
 इकवालनारायण नागरिक जीवन ३ भा गयाप्रसाद  
 २००  
 हमारा सविधान तथा नागरिक जीवन सशो स ५ शिवलाल  
 ५००  
 — तथा आर सी पाडेय भारतीय इतिहास दिग्दर्शन रतन  
 ५००  
 इन्सन जनशत्रु ओरिएटल २७५ ना  
 देश-भर का दुश्मन अनु राजानाथ पाडेय मुशीराम २००  
 ना  
 समाज के स्तभ अनु सीताचरण दीक्षित आत्माराम २५०  
 ना  
 इन्सन, हेनरिक खिलौना घर अनु विश्वमोहनकुमार सिंह  
 ग्रथमाला १२५ ना  
 इमत्याज गली 'ताज' चाचा छक्कन हस १५० क  
 इलाचंद्र शास्त्री मानव और धर्म सस्ता ३००  
 इग्नियट तथा डासन बावर और हुमायू कि महल ३००  
 इति  
 इंगरत रहमानी साहिल शमा ४५० उ  
 इम्सर, देवेद्र उर्दू की श्रेष्ठ गजले सा प्र २५०  
 चिंतन और साहित्य सा प्र २५०  
 इम्माक असियोव पृथ्वी भी घडी है कि महल  
 इहरिट, अर्नाल्ड ग्राहार चिकित्सा आरोग्य १५०

१५

ईटन, जीनेर जार्ज वॉरिंगटन एम चाद १००. वप्र

ईश' दे लक्ष्मीनारायणसिंह 'ईश'

१२ इंग्लैंड से पत्र स २ वसल. १००

ईशकुमार 'ईश' श्रमदान अनिल प्र म ०८०  
 सुमगला शारदा म २५० का  
 ईशदत्त शास्त्री 'श्रीश' कालिदास ग्रथमाला १०० का  
 ईश्वरचंद्र भारत का सक्षिप्त इतिहास केदारनाथ २२५ से  
 ६००  
 ईश्वरचंद्र विद्यासागर तथा शारदाप्रसाद विद्याभूषण सस्कृत  
 व्याकरण की उपक्रमणिका स ११ रा वेनीमाधव  
 ०८७  
 ईश्वरीप्रसाद भगवान गौतम बुद्ध गगा ०७५ जी  
 भारत के ऐतिहासिक मानचित्र रा वेनीमाधव ४००  
 मध्यकालीन भारत का सक्षिप्त इतिहास इ प्र ८००  
 मध्ययुग का इतिहास इ प्रे १०००  
 ईश्वरीप्रसाद तथा सूवेदार अर्वाचीन भारत का इतिहास  
 इ प्रे १२००  
 ईसप ग्रीस की राजकुमारी श्यामलाल २०० उ

उ

उग्र दे शर्मा, पाडेय वेचन 'उग्र'  
 उत्पल देवाचार्य शिवस्तोत्रावली अनु राजानंद लक्ष्मण  
 चौखवा १०००  
 उदय दे उपाध्याय, उदयरज 'उदय'  
 उदयन मुर्गा और मोती सा सगम, लु १०० वप्र  
 उदयप्रकाश सिंह नवयुग विश्व शांति ०५० का  
 श्रीमद बाल भगवद्गीता विश्व शांति १५० का  
 श्रीमद् भागवत विश्व शांति ५०० का  
 सदउपदेश विश्व शांति १५० का  
 उदयभानु सिंह, १९१७- तुलसी-दर्शन-मीमांसा हि सा  
 भ १८००  
 साहित्य-चिंतामणि रीगल ८००  
 हिंदी के स्वीकृत शोध-प्रबंध नेशनल १५००  
 —सपा जीवन और साहित्य श्रीराम मेहरा १७५  
 उदयरज सिंह अधूरी नारी अशोक प्रे २७५ उ  
 नवतारा अशोक प्रे १२५ क  
 भागते किनारे अशोक प्रे ४०० उ  
 भूदानी सोनिया अशोक प्रे ४००  
 रोहिणी अशोक प्रे १२५ उ  
 उदयवीर शास्त्री साख्यदर्शन का इतिहास विरजानंद ३०.००  
 साख्यदर्शन भाष्य भा प्राच्य ८००  
 साख्यदर्शन विद्योदयभाष्य विरजानंद ८००  
 साख्यशास्त्र का इतिहास भा प्राच्य ३०००  
 साख्य सिद्धांत भा प्राच्य एव विरजानंद १६००  
 साहस-सजीवनी मुशीराम २००  
 —सग्रा सत्यार्थप्रकाश-विषय निर्देशिका विरजानंद  
 २५०  
 उदयशंकर शास्त्री ज्ञानदीपक ना प्र. सभा.

उदयशंकर शास्त्री दे दयाल.  
 उदयशंकर शास्त्री दे. नजीर.  
 उद्गीथाचार्य. ऋग्वेदभाष्य विश्वेश्वरानन्द. ४.००  
 उन्मेष दे. काशीप्रसाद 'उन्मेष'  
 उपाध्याय. प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तिया. अगोक पु. म  
 १.५०  
 उपाध्याय, अविवादत हिंदू धर्म और आचार काशी हिंदू  
 ३७५  
 उपाध्याय, अखिलेशचंद्र, सपा. गल्प-सचय हि सा सम्मे  
 १.५०. (अप्रा.)  
 उपाध्याय, अखिलेशचंद्र तथा भगवतीलाल. सक्षिप्त हिंदी  
 व्याकरण, रस और अलंकार हि प्रचा पु १ २५  
 उपाध्याय, अखिलेश्वर गल्पगुच्छ २ भा हि पु. ए. १ ७२.  
 क  
 उपाध्याय, अयोध्यासिंह 'हरिऔध', १८६९-१९४५ आधुनिक  
 कवि हि. सा सम्मे. २५०  
 कल्पलता गगा ३००. का.  
 खेल-तमाशा हि प्रचा पु १ २५ वप्र  
 चरित्र प्रकाश रा वेनीमाधव १.००  
 चाद सितारे हि प्रचा पु. १ २५ वप्र.  
 चुभते चौपदे स २ हि सा कु २.००  
 चौखे चौपदे हि. सा कु. २ ७५ मुहावरे  
 ठेठ हिंदी का ठाठ हि सा कु ० ९४. उ  
 पद्य प्रमोद कल्याणदास ५०० का  
 पवित्र पर्व रा. वेनीमाधव ०.३२ वप्र  
 पारिजात हि सा कु ५.०० का.  
 प्रियप्रवास सशो स. ११ हि सा कु ३५० का.  
 वच्चो के भाव-गीत गगा १०० वप्र  
 बाल-कवितावली हि सा. कु १ २५  
 बोलचाल हि सा कु ६ २५  
 रसकलस स ३ हि सा कु ४५०  
 रस—साहित्य और समीक्षाए हि. प्रचा. पु. ४.००  
 वदेही-वनवास हि सा कु ३५०. का.  
 सदर्भ-सर्वस्व ग्रथमाला. २ २५  
 स्वर्गीय संगीत. विद्या म, वा १.२५  
 स्वर्गीय संगीत नद. स १ २५  
 'हरिऔध' सत्सई हि सा. कु. १.०० का  
 हिंदी भाषा और साहित्य का विकास कि. महल. १०००  
 —सपा. कवीर वचनावला ना प्र सभा ३००  
 उपाध्याय, अवध चित्रकला हि सा. सम्मे १००  
 नवीन अकगणित ३ भा रा वेनीप्रसाद. ३५०  
 नवीन पिंगल. सा भवन, इ १५०  
 रोम का इतिहास रा. वेनीप्रसाद १५०  
 विद्या-सुंदर-भारतेडु हरिश्चंद्र रा. वेनीमाधव. ०.२५ ना.  
 सापेक्षवाद. हि सा सम्मे १.५०  
 हिंदी-साहित्य. रा. वेनीप्रसाद ०.३७  
 —सपा. सत्यहरिश्चंद्र नाटक. हि. सा. सम्मे. १.००.  
 (अप्रा.)

उपाध्याय, उदयरज 'उदय' शीलजा. लोक चेतना. १.५०. का  
 उपाध्याय, एन. एम. हिंदी शिक्षण विधि. कुमारसज ५.७५  
 उपाध्याय, कन्हैयालाल. नूतन संस्कृत व्याकरण और रचना.  
 श्रीराम मेहरा. १.५०  
 उपाध्याय, कपिलदेव. अर्थशास्त्र के सिद्धांत तथा विश्लेषण.  
 लक्ष्मी ना. १०००  
 उपाध्याय, कमलाकर. उच्च माध्यमिक नागरिक शास्त्र. सपा.  
 कमलकृष्ण द्विवेदी मिश्र-बधु भा १. १६०, भा. २  
 २.५०, भा. ३ २००  
 उपाध्याय, कृष्णकुमार. विदेशो मे सहकारिता. कि. महल.  
 १ ७५  
 उपाध्याय, कृष्णदेव भोजपुरी और उसका साहित्य राज-  
 कमल २ २५  
 भोजपुरी लोक-साहित्य का अध्ययन. हि. प्रचा. पु १०००  
 लोक-साहित्य की भूमिका सा भवन, इ ७५०  
 —सपा भोजपुरी लोकगीत हि सा सम्मे भा १ ६००,  
 भा २. ११००  
 उपाध्याय, कृष्णदेव. दे जिदल, शंकरदयाल.  
 उपाध्याय, कृष्णमोहन लाल किला आनंद पु, वा १.००.  
 वप्र  
 वह सपेरा था आनंद पु, वा. १००. वप्र  
 उपाध्याय, केशवदेव. नवीन दर्शन (बालकृष्ण शर्मा नवीन)  
 बगीय ३.२५ आ  
 उपाध्याय, गंगाप्रसाद, १८८१- धर्मराज युधिष्ठिर नद ब्र.  
 एव नद स १.००. वप्र.  
 महात्मा गौतमबुद्ध नद ब्र एव नद स. १.५०. वप्र  
 विवाह और विवाहित जीवन अनु. रघुनाथ प्रसाद पाठक  
 गोविंदराम. २ ५०  
 —अनु ऐतरेय ब्राह्मण हि सा. सम्मे ५.००  
 उपाध्याय, गयाप्रसाद. रस अलंकार पिंगल. सरस्व. पु स. १.७५  
 सर्वोदय के आधार सरस्व. पु स. १५०  
 उपाध्याय, चंद्रमौली. किरण-गांधारी. आशा पब्लि. एव जुही-कुज  
 ३.००. का.  
 उपाध्याय, चितामणि काव्य वल्लरी मानकचद २.००  
 गद्य-पथ. मानकचद. नि  
 मालवी एक भाषा शास्त्रीय अध्ययन मगल. ३.००  
 मालवी लोकगीत. एक विवेचनात्मक अध्ययन. मगल. १६.००  
 लोकायन. मगल ४.००  
 उपाध्याय, तारकेश्वर पथपर. अ. भा विक्रम ३.०० का.  
 उपाध्याय, तेजराम प्राचीन भारतीय इतिहास. स्टुडेंट्स स्टोर्स.  
 ३.००  
 भारत पर चीनी आक्रमण जयहिंद. १ ५०  
 विश्व का सुबोध इतिहास स्टुडेंट्स स्टोर्स ३ ५०  
 विश्व राजनीति मे भारत स्टुडेंट्स स्टोर्स  
 सक्षिप्त भारतीय इतिहास. स्टुडेंट्स स्टोर्स. ३.००  
 सयुक्त राष्ट्र सघ और विश्व-शांति लोक चेतना.  
 उपाध्याय, दिनेशनारायण. हमारी नाट्य-परंपरा.  
 माधव. १.००

उपाध्याय, दिनेशनारायण दे उपाध्याय, प्रभाकरेश्वरप्रसाद  
 उपाध्याय, देवनाथ आकाश की भाकी कि महल १००  
 भाषण और बोल-चाल की कला कि महल २५०  
 रसायन प्रवेग कि महल २२५  
 उपाध्याय, देवराज आधुनिक हिंदी कथा-साहित्य और मनो-  
 विज्ञान सा भवन, इ १२००  
 कथा के तत्त्व ग्रथमाला ५२५ आ  
 वचन के दो दिन मगल ४८० सस्म  
 विचार के प्रवाह मगल ५०० नि  
 साहित्य की रेखा भा प्र मंदिर, आ १५०  
 साहित्य तथा साहित्यकार मगल ५००  
 उपाध्याय, देवराज दे फ्रेक, लियन हार्ड  
 उपाध्याय देवेद्रप्रताप रसखान आनंद पु, वा ५००  
 आ  
 उपाध्याय, नगेद्रनाथ तात्रिक बौद्ध साधना और साहित्य ना  
 प्र सभा ५००  
 उपाध्याय, नर्मदेश्वर सिद्धांत-समर ड प्रे ४०० का  
 उपाध्याय, प्रभाकरेश्वरप्रसाद तथा दिनेशनारायण उपाध्याय,  
 सपा प्रेमघन-सर्वस्व हि सा सम्मे भा १ ६००,  
 भा २ १०००  
 उपाध्याय, बलदेव, १८६६- आचार्य सायण और माधव  
 हि सा सम्मे ६००  
 आर्य-संस्कृति के आधार-ग्रथ नद स ८००  
 ज्ञान की गरिमा सस्ता २२५ क  
 बौद्ध दर्शन-मीमांसा स २ चौखवा ६००  
 भागवत संप्रदाय ना प्र सभा ७५०  
 भारतीय दर्शन-सार सस्ता ५५०  
 भारतीय वाङ्मय मे श्रीगथा वि राष्ट्र १०५०  
 भारतीय साहित्यशास्त्र स ३ नद स १५००  
 भारतीय साहित्य-शास्त्र भा १-२ नद स १८००  
 महाकवि भास एक अध्ययन चौखवा ४००  
 श्री शंकराचार्य हिंदु एकेडेमी ७५० जी  
 संस्कृत आलोचना हि समि ४००  
 उपाध्याय, बालकृष्ण, सपा एवरेष्ट ग्रथमाला २५०  
 उपाध्याय, वासुदेव मगव की पद्मिनी आदर्श पु भ  
 उ  
 उपाध्याय, बृहस्पति दे गौड, राजेद्रसिंह  
 उपाध्याय, बृहस्पति दे भट्ट, नानाभाई  
 उपाध्याय, भगवतशरण, १९१०- अंग्रेजी साहित्य की रूप-  
 रेखा राजपाल २५०  
 इतिहास साक्षी हे भा ज्ञानपीठ ३००  
 कमीटी पर रीगल २००  
 कादवरी राजपाल ३००  
 कालिदासका भारत २ भा स २ भा ज्ञानपीठ ८००  
 कालिदासके मुभाषित भा ज्ञानपीठ ५००  
 कितना गुदर देग हमारा राजपाल १२५  
 कुछ फीचर कुछ एकाकी भा ज्ञानपीठ ३५०  
 न के छीटे हस. २.५० आ.

गंगा-गोदावरी ग्रथमाला १०० वप्र  
 चंद्रगुप्त चारुकाय नेशनल १२५  
 ठूठा आम भा ज्ञानपीठ २०० नि  
 तीन द्वार सिधु घहराय रे बटोहिया ग्रथमाला १०० वप्र  
 बुद्ध वैभव नेशनल २००  
 वृजियो के पीछे कि महल ३०० (अप्रा) इति  
 भारत की कहानी राजपाल १२५  
 भारत की कहानी साहनी भा १ १२५, भा २.  
 १५० वप्र  
 भारतीय इतिहास के आलोक स्तभ कि महल ५००  
 भारतीय चित्रकला की कहानी राजपाल १२५  
 भारतीय नगरो की कहानी राजपाल १२५  
 भारतीय नदियो की कहानी राजपाल ०७५  
 भारतीय भवनो की कहानी राजपाल १२५  
 भारतीय मूर्तिकला की कहानी राजपाल १२५  
 भारतीय संगीत की कहानी राजपाल १२५  
 भारतीय संस्कृति की कहानी राजपाल १२५  
 भारतीय संस्कृति के विस्तार की कहानी राजपाल ०७५  
 भारतीय साहित्यो की कहानी राजपाल १२५  
 मंदिर और भवन हस ०५० वप्र  
 मूरत और चित्र हस ०५० वप्र  
 मैने देखा कि महल ५०० इति  
 यह सोने का देश हस ०५० वप्र  
 विजयी भारत छात्रहितकारी ०६२  
 विलासिनी ग्रथमाला १२५ क  
 विश्व-साहित्य की रूपरेखा राजपाल १२००  
 संगीत और नृत्य हस ०५० वप्र  
 ससार को एशिया की देन हस ०७५ वप्र  
 सभ्य मानव का इतिहास कि महल ३००  
 सवेरा नद ब्र एव नद स १५०  
 सांस्कृतिक निबध भा ज्ञानपीठ ३००  
 सांस्कृतिक वैभव मानकचद २००  
 सागरकी लहरोपर भा ज्ञानपीठ ४०० या  
 साम्राज्यो का उत्थान और पतन कि महल २५०  
 साहित्य और कला आत्माराम ६००  
 स्वप्नवासवदत्ता राजपाल २००  
 हमारे पडौसी राजपाल १२५  
 हमारे पहाड ग्रथमाला १०० वप्र  
 हमारे युग नेता हस ०७५ वप्र  
 हमारे संस्कृत कवि हस ०७५ वप्र  
 हमारे हिंदी कवि हस ०७५ वप्र  
 उपाध्याय, भगवतीस्वरूप अधूरे सपन सूर्य प्र २५० उ.  
 छोटे जीजाजी सूर्य प्र १०० उ  
 मा ने पुकारा है सूर्य प्र १०० का.  
 उपाध्याय, भरतसिंह गौतम बुद्ध सस्ता ०४० वप्र  
 ध्यान-संप्रदाय नेशनल १०००  
 पालि साहित्य का इतिहास हि सा सम्मे १०००  
 बुद्धकालीन भारतीय भूगोल. हि. सा. सम्मे. १२.००



अधिकार का रक्षक नीलाभ ०७५ ए  
अलग-अलग रास्ते नीलाभ ३०० ना  
अश्क की श्रेष्ठ कहानिया राजकमल (पा) १००  
अश्क की सर्वश्रेष्ठ कहानिया नीलाभ ३००  
आइने के सामने तथा अन्य सस्मरण नीलाभ  
आदि मार्ग नीलाभ ५०० ना  
उर्दू काव्य की एक नयी धारा हिंदु एकेडेमी २५०  
उर्दू की बेहतरीन गजले नीलाभ ३००  
उर्दू की बेहतरीन नज़्मे नीलाभ ३००  
उर्दू के बेहतरीन एकाकी नीलाभ ३००  
उर्दू के बेहतरीन सस्मरण नीलाभ ३००  
उर्दू के बेहतरीन हास्य व्यंग नीलाभ ३००  
कहानी लेखिका और जेहलम के सात पुल नीलाभ ३५०

क  
काकडा तेली नीलाभ १०० वप्र  
काले साहब नीलाभ ३५० क  
कैद और उडान नीलाभ ३०० ना  
क्षितिज के पार नीलाभ ३५० ना  
गर्म राख नीलाभ १००० उ  
गिरती दीवारे नीलाभ ११०० उ  
गोखरू नीलाभ १०० वप्र  
चरवाहे नीलाभ ३२५ ए  
चादनी रात और अजगर नीलाभ ३२५ का  
चेतन नीलाभ ६७५, सक्षिप्त ३५० उ  
छठा बेटा नीलाभ २२५ ना  
छीटे नीलाभ ५०० क  
जय-पराजय नीलाभ ३५० ना  
जुदाई की शाम का गीत नीलाभ ३७५ क  
जोक नीलाभ १०० ए  
ज्यादा अपनी कम परायी नीलाभ ५०० सस्म  
डाची नीलाभ १०० वप्र  
तौलिए राजकमल (पा) १०० ना  
दीप जलेगा नीलाभ ३५० का  
देवताओं की छाया में नीलाभ ३०० ए  
नये रग-एकाकी नीलाभ ३२५ ए  
पक्का गाना नीलाभ ३२५ ए  
पत्थर-अलपत्थर नीलाभ ४२५ उ  
पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ नीलाभ ३७५ ए  
पलग नीलाभ ३७५ क  
पिंजरा नीलाभ ३५० क.  
पैतरे नीलाभ नीलाभ ३२५ ना  
प्रतिनिधि एकाकी नीलाभ ३००  
बड़ी-बड़ी आखे नीलाभ ४०० उ  
बड़ी-बड़ी आखे हिंद पा १०० उ  
बग्गद की बेटा नीलाभ ३२५ का  
बर्फ का दर्द हिंद पा १०० उ  
बायो न नाव इन ठाव नीलाभ  
10 की बात हिंद पा १०० ना

वैगन का पौदा नीलाभ ३२५ क  
भवर नीलाभ २२५ ना  
मटो मेरा दुश्मन नीलाभ ५००. सस्म  
मा नीलाभ १०० वप्र  
मोती नीलाभ १०० वप्र  
ये आदमी ये चूहे नीलाभ ३००. उ  
रग साज नीलाभ ३५० उ  
रेखाए और चित्र नीलाभ ४००  
लक्ष्मी का स्वागत नीलाभ १०० ए  
वासना के स्वर हिंद पा १०० उ  
शहर में घूमता आईना नीलाभ १०.०० उ  
सघर्ष का सत्य नीलाभ ४०० उ  
सडको पे ढले साये नीलाभ ५०० का  
सत्तर श्रेष्ठ कहानिया नीलाभ १५०० क  
साहब को जुकाम है नीलाभ ४०० ए.  
सितारो के खेल नीलाभ ४०० उ  
स्वर्ग की भूलक नीलाभ २०० ना  
हिंदी कहानिया और फैशन नीलाभ ४०० आ.  
हिंदी नाटक और रगमच नीलाभ  
—तथा कौशल्या 'अश्क' शिकायते और शिकायते नीलाभ  
—तथा गुप्त हिज एक्सलेसी नीलाभ ३०० उ  
—अनु लवे दिन की यात्रा रात में नीलाभ ३७५ ना  
उपेन्द्रनाथ, सपा अब्बास की सर्वश्रेष्ठ कहानिया नीलाभ.  
अहमद नदीम कासमी की सर्वश्रेष्ठ कहानिया नीलाभ  
इस्मत की सर्वश्रेष्ठ कहानिया नीलाभ  
उर्दू की बेहतरीन कहानिया नीलाभ ३००  
कृष्णचंद्र की सर्वश्रेष्ठ कहानिया नीलाभ  
वलवतसिंह की सर्वश्रेष्ठ कहानिया नीलाभ  
वेदी की सर्वश्रेष्ठ कहानिया नीलाभ  
मटो की सर्वश्रेष्ठ कहानिया नीलाभ  
महेन्द्रनाथ की सर्वश्रेष्ठ कहानिया नीलाभ  
सकेत नीलाभ १५००  
उपेन्द्र महारथी वेरा-शिल्प वि राष्ट्र ११०० कला.  
उप्रेति, कुदनलाल, १९३५- चंद्रगुप्त रतन ३००  
सुमित्रानंदन पत और उनका आधुनिक कवि प्रभात प्र.  
४००  
उप्रेति, मुरारीलाल विद्यापति (प्रश्नोत्तर) विनोद २५०  
'विद्यापति का अमर काव्य' की टीका विनोद १५०  
हिंदी में प्रत्यय विचार विनोद १५००  
उमरावसिंह शिक्षण विधिया गयाप्रसाद ४००  
सामुदायिक सगठन रा बेनीमाधव ३००  
उमाकांत गुप्तजी की काव्यसाधना नेशनल ८.००  
नर्तकी बोरा ५५० उ  
मानव-ज्योति नेशनल २०० वप्र  
मैथिलीकरण गुप्त कवि और भारतीय सस्कृति के आख्याता  
नेशनल १५००  
उमाकांत दे गर्मा, गोविंदराम  
उमादत्त मानस गंगा विश्वेश्वरानंद. २००

उमादेवी आर्लिगन हि प्रचा पु १५० उ.  
 उमानाथ बली अभिनव दर्पणम् भातखडे ३००  
 —सपा नाट्यशास्त्र हिदी अनुवाद सहित ख १. भातखडे  
 ६००  
 उमाप्रसाद. नृत्य कला सा भवन, आ ४००  
 उमाशकर अयोध्या प्रसाद कृतित्व विश्लेषण कला भा  
 ३००  
 अयोध्या प्रसाद व्यक्तित्व विश्लेषण कला भा २००  
 उमाशकर, १९२८- आकाश तले धरती पर उमेश.  
 ३५० उ  
 कावेरी के किनारे सहगल ४७५ उ  
 गढमडल की रानी. उमेश. २०० बप्र  
 चित्तौडगढ की रानी उमेश २००. बप्र  
 जब भारत जागा. वोरा ३५० उ  
 तारो से पूछिये उमेश ५५० उ  
 देश नही भूलेगा हिंद पा १०० उ  
 नाना फडनवीस हि प्रचा पु ४.०० जी  
 नीर भर आये बदरा भा ग्र. नि ४.०० उ  
 बाजीराव पेशवा उमेश २०० बप्र  
 भुवन विजयम् स २ भा. ग्र नि ६००. उ.  
 साइस की कहानिया किताबिस्तान ३.५५  
 उमाशकर ऋषि, व्या सर्वदर्शन सग्रह. चौखवा २५००  
 उमाशकर बहादुर चद्रहास. ज्ञानपीठ १.२५ बप्र.  
 नाभाग राष्ट्रीय प्र मडल १२५. उ.  
 नाभाग. राष्ट्रीय सा स १२५ उ  
 उमाशकर शास्त्री भाषा-शिक्षण-विधि हि. प्रचा पु २००  
 बृहद् शिक्षा सिद्धात हि प्रचा पु ३००  
 सक्षिप्त शिक्षा सिद्धात हि प्रचा पु १००  
 उमाशकर सिंह निराला का निरालापन सा साधना ५००  
 सस्म  
 मैं पतिवरता हू सा साधना २०० हा.  
 सूपनखा की चिट्ठी, लक्ष्मण के नाम पुष्पी ०७५ उ.  
 सूपनखा की चिट्ठी, लक्ष्मण के नाम सुरेद्र २०० उ  
 सोहागदान पुष्पी ०७५ उ  
 उमाशकर सिंह बलिया महाकवि निराला आदर्श पु म २५०  
 उमाशकर सिंह 'बलियावी' समाज के खडहर सुरेद्र २०० उ  
 सोहागदान सुरेद्र २०० उ  
 उमेश हर घर किला हर गाव राजधानी प्रभात पब्लि.  
 १२५ ना  
 उमेश दे वाजपेयी, उमाशकर 'उमेश'  
 उम्मीद दे कृष्णचद्र उम्मीद  
 उर्मिल दे कपूर, मस्तराम 'उर्मिल'  
 उर्मिलाकुमारी आदर्श महापुरुष हि सा स ०७५ बप्र  
 तीन साहसी यात्री हि सा स ०७५ बप्र  
 बोलने वाली गुफा हि सा स १०० बप्र  
 समय की सूक्त हि सा स ०७५ बप्र  
 सरल अनुवाद-विधि हि सा केद्र १.००  
 साहस का फल हि सा स ०.७५. बप्र.

सोना और यमुना हि सा स ०७५ बप्र  
 उर्मिलारानी उर्मिला कशीदाकारी देहाती १२५  
 उषा अपटूडेट टेलरिंग फैशन बुक देहाती ६००  
 अपटूडेट फैशनबुक देहाती ६००  
 उषा कटिंग कला देहाती ८२५  
 कालिदास : शाकुतलम् गयाप्रसाद  
 फिर वसत आया दि. प्रे ३०० क.  
 उषादेवी उषा कशीदाकारी देहाती ३००  
 उषा प्रियवदा जिन्दगी और गुलाब के फूल भा ज्ञानपीठ.  
 २५० क.

पचपन खभे लाल दीवारे राजकमल ३५०, (पा) १००. उ.  
 उषारानी आधुनिक दुसूती कढाई शिक्षा देहाती ३००  
 उस्पेस्काया येलेना नगर का प्रथम शिशु पीपुल्स ०.१६. क.

## ऊ

ऊपित्स, अद्रेयस कार्य और कारण पीपुल्स. ०.७५ क.

## ऋ

ऋषि दे उमाशकर ऋषि  
 ऋषि दे वीर राजेद्र ऋषि.  
 ऋषि दे शकुतलादेवी ऋषि  
 ऋषिकुमार घर का वैद्य छोटा देहाती १२५  
 नवीन बृहद् पाक विज्ञान देहाती ३००  
 पुरुष गुप्त रोग चिकित्सा देहाती १२५  
 बाल रोग चिकित्सा देहाती १२५  
 बृहद् बूटी प्रचार देहाती २५०  
 भर्तृहरि शतक देहाती १००  
 स्त्री रोग चिकित्सा देहाती. १२५  
 ऋषिकुमारी लहरे और प्रवाह प्रचा पा १००  
 ऋषिकेश विश्व-परिचय पारिजात ३००  
 ऋषिकेश नारायण आधुनिक बहीखाता नद स ७.००  
 ऋषिगोपाल हिदी का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन भा. सस्कृत.  
 ६५०  
 ऋषिराम घर बैठे सैर जरमनी नीलाभ ०६२ बप्र.  
 घर बैठे सैर लदन नीलाभ ०६२ बप्र  
 ऋषीश्वर, सी एल तथा अन्य बीजगणित केदारनाथ ३.५०

## ए

एंगेल्स, फ्रेडरिक परिवार, व्यक्तिगत सपत्ति और राजसत्ता  
 की उत्पत्ति पीपुल्स २००  
 मार्क्स की पूजा पीपुल्स ३००  
 एंगेल्स, फ्रेडरिक दे मार्क्स, कार्ल.

एंडरसन जगली हसो की पाति सुभाष १२५ उ  
 एडसन, आर उत्तरी ध्रुव के नीचे सर्वप्रथम आत्माराम  
 २५०  
 एडसन, मेरियन मेरे प्रभु, कैसा प्रभात आत्माराम २००  
 जी  
 एडसन, विलियम आर तथा क्ले व्लेयर जूनियर उत्तरी ध्रुव  
 बर्फ की दुनिया आत्माराम ५५० भ्रमण  
 एडसन, हेस देवदूत रामा प्र १२५ वप्र  
 नाइटिंगेल अनु सरला वहन सर्वोदय सा ०७५ वप्र  
 बदसूरत वतख अनु सरला वहन सर्वोदय सा ०७५ वप्र  
 एड्रेव, लियोनिद हमदर्दी सस्ता ०४० ना  
 एक्सनर, एम जे विवाह और काम विज्ञान रणजीत २५०  
 एजाज अहमद, सैयद जलवायु विज्ञान कि महल ५००  
 एजाज हुसेन उर्दू साहित्य का इतिहास राजकमल ६००  
 एजाज हुसेन, सैयद दे मीर अम्मन  
 एडमन, इरविन दर्शन के उपयोग भा भ ४५०  
 एडलर हमारे जीवन का अर्थ ६ भा राजकमल १२५  
 (प्र)  
 एडर, वोरिस मेरे पशु-मित्र पीपुल्स ०६६ वप्र  
 एन्क्रूमा अफ्रीका जागा सस्ता ३५०  
 एपिक्टेटस आत्मोपदेश सग्रा नरेन्द्रनारायणसिंह सस्ता  
 १००  
 एप्स्टीन, एडना सयुक्त राष्ट्र प्रवेशिका आत्माराम २७५  
 एवर्ले बेजामिन फ्रेकलिन एस चाद १०० वप्र  
 एवेल, इर्मनगाड आधुनिक औपधि आविष्कार इ प्रे २५०  
 एलहस, देवकीनदन सारियकी सिद्धांत कि महल ६७५  
 एलिस, हैवलाक यौन-मनोविज्ञान राजपाल १०००  
 एलेन, जेम्स आत्महितैषी बने कल्याणदास ०६२  
 आप सफल कैसे हो ? सुबोध प्र २२५  
 उन्नति का मार्ग चौधरी १५०  
 गौरवशाली जीवन छात्रहितकारी ०७५  
 जाकी रही भावना जैसी कल्याणदास ०६२  
 जागो कल्याणदास ४५०  
 जीवन मुक्ति कल्याणदास १००  
 जेम्स एलेन की डायरी या दैनिक ध्यान छात्रहितकारी  
 २००  
 जैसे चाहो वैसे बन जाओ नेशनल १०० वप्र  
 दिव्य लोक मे कि महल १५० दर्शन  
 नर मे नारायण छात्रहितकारी १७५  
 परमानंद पथ कल्याणदास ०३७  
 भाग्य पर विजय छात्रहितकारी ०७५  
 भिक्षाणी मे भगवान् गंगा ३००  
 मनुष्य ही अपने भाग्य का निर्माता है छात्रहितकारी  
 ०६२  
 मोक्ष मार्ग कल्याणदान ०७५  
 विचारो का प्रभाव छात्रहितकारी ०५०  
 विजय के आठ स्तभ छात्रहितकारी १२५  
 साति की ओर चौधरी १००

सफलता के आठ साधन हिंद पा १००  
 सफलता के सात साधन चौधरी २००  
 हमारा जीवन सफल कैसे हो चौधरी १५०  
 एलेन, लिलि मन की अपार शक्ति छात्रहितकारी ०६२  
 मौन की वाटिका मे छात्रहितकारी ०५०  
 हमारे मानसिक शिशु छात्रहितकारी ०५०  
 एसिमोव, आइजक अतराल की लहरे नेशनल ५०० उ  
 एहर्नवुर्ग, इलिया महासमर कि महल ५०० उ

ए

एल्वाग, ओले धरती का देवता एस चाद १५०

ओ

ओकार चौधरी जी पर ताला ठुक गया नवयुग ग्र कु १७५  
 हा  
 ओकारनाथ 'दिनकर', १९१४- अतिम सम्राट ओरिएटल  
 २७५ ना  
 पवनजय एजूकेशनल पब्लि २०० ना  
 मयूर फिर नाच उठे कि महल २५० ए  
 सप्तरग कि महल २०० ना  
 ओकार बावरा चमकते सितारे हिं प्रचा पु १५० जी  
 ओकार शरद, १९२६- कच्ची नौद न्यू लिट १२५ क  
 कापर करौ सिगार राजरजना २०० क  
 खून खराबी न्यू लिट १२५ उ  
 गुलिबर की कहानिया २ भा राजकमल १७५ (प्र)  
 जाने-अनजाने राजरजना २०० ना  
 दादा अशोक प्रे ३००, उ  
 दादा राजरजना ३००, (पा) १५० उ  
 देश, काल, पात्र राजरजना ४०० सस्म  
 नारी-रत्न राजरजना २०० जी  
 भारतरत्न राजरजना २५० जी  
 लका महाराजिन न्यू लिट ३०० क  
 — अनु पेरिस सुदरी विद्या भवन, इ २५०  
 देवदास (गरतचंद्र चटर्जी) राजरजना २०० ना  
 देश, काल, पात्र राजरजना ४००  
 ओकारशरद दे परशुराम  
 ओकारेश्वर दयाल 'नीरद' खुशहाली की ओर मनोरमा  
 ०८० वप्र  
 खेत लहलहाये रे हिं सा स ०७५ वप्र  
 ओकली, ई एस अग्रेजी भापा की शिक्षा इ प्रे २००  
 ओकले तथा गैरोला हिमालय की लोक कथाए कि महल  
 ४००  
 ओभा, काश्मीरीलाल दे साधना प्रतापी (काश्मीरीलाल  
 ओभा)

श्रीभा, गोपेशकुमार विवाह और प्रेम स ३ हि प्रचा म  
३५०  
श्रीभा, गौरीशंकर हीराचंद प्राचीन भारतीय लिपिमाला  
मुशीराम ७५००  
मध्यकालीन भारतीय सरकृति स ३ हिदु एकेडेमी ३००  
—तथा केशव मिश्र नागरी अक्षर और अक्षर हि सा सम्मे  
०३७  
श्रीभा, चंद्रपाल, १९३०- वाल एकाकी कि महल ०७५ ए.  
ये खट्टे मीठे बेर कि महल ०७० ए.  
श्रीभा, चंद्रमुखी 'सुधा' वदना इ प्रे २०० का  
श्रीभा, जगदीशचंद्र दे सरिन  
श्रीभा, जगदीश 'सुंदर' क्रांति के बीज रामप्रसाद १२५ क  
श्रीभा, दशरथ, १९०९- आदर्श आलोचना एस चाद २५०  
कलापूर्ण एकाकी राजपाल ४००  
काव्य-संग्रह आत्मराम २००  
नाट्य-समीक्षा नेशनल ५००  
बाल-नाटक-माला इ प्रे भा १०५६, भा २०६२,  
भा ३०६९, भा ०७८  
भारतमाता के पुजारी इ प्रे १७५ जी  
समीक्षा शास्त्र राजपाल ६००  
हिंदी नाटक उद्भव और विकास राजपाल १२००  
—सपा रास और रासान्वयी काव्य ना प्र सभा २०००  
श्रीभा, दशरथ दे माथुर, जगदीशचंद्र  
श्रीभा, प्रफुल्लचंद्र 'मुक्त' अभिनय भारती ज्ञानपीठ  
०७५ वप्र  
आहुति और अन्य कहानिया ग्रथमाला ०७५ वप्र  
उत्सर्ग ग्रथमाला १२५ वप्र  
तलाक ज्ञान प्र ४०० उ  
दक्षिणापथ ग्रथमाला १००  
पुरुषसिंह तथा अन्य कहानिया ग्रथमाला ०७५ वप्र  
प्रतिनिधि कहानिया भा १ अभिज्ञान २००  
महाभारत ग्रथमाला १००  
महाराष्ट्र ग्रथमाला १००  
मौत की जिदगी ज्ञानपीठ १२५ वप्र  
रामायण ग्रथमाला १००  
सिख-जाति ग्रथमाला १००  
सुबह का भूला ज्ञानपीठ १७५ वप्र  
—सपा मानस-मजरी स ३ रा वेनीमाधव ०५०  
श्रीभा, फनिद्रनाथ भारत का नया इतिहास पु भ, रा  
भा १ ३७५, भा २ ४७५  
श्रीभा, बकटलाल, सपा हिंदी समाचारपत्र निर्देशिका १९५६  
हि समाचारपत्र ४००  
हिंदी समाचारपत्र सूची भा १ १८२६-१९२५ हि  
समाचारपत्र १२५  
श्रीभा, बी एन नीतिशास्त्र की रूपरेखा मोतीलाल ४५०  
श्रीभा, भालचंद्र आख अभिज्ञान २००. उ  
इच्छा शक्ति भा पु म १७५ क  
ईश्वर पैदा हुए अभिज्ञान २०० क

धरती तुम्हारी है अभिज्ञान २५० वप्र  
बच्चो का रग-मच अभिज्ञान १५० वप्र  
महापुरुषो की कहानिया पु भ, रा भा ३ ०८७,  
भा ४ १०० वप्र  
रवाधीनता के अग्रदूत अभिज्ञान ११२  
हम नाटक खेलेगे ४ भा अभिज्ञान १८७ (प्र) ना  
श्रीभा, मधुसूदन बहसिदास व्या गिन्धर शर्मा चतुर्वेदी  
काशी हिदू १२००  
श्रीभा, राजवल्लभ बदलते दृश्य हि भवन ६०० सस्म  
महावली हनुमान सा भवन, इ १२५ वप्र  
श्रीभा, रामेश्वरप्रसाद व्रतोत्सव विधान रा वेनीप्रसाद ०९४  
वप्र  
श्रीभा, सत्यदेव, सपा नई पौध लेखक-मडल १५० क  
श्रीभा, सन्हैयालाल, १९१८- अर्थान्तर अशोक पु म ६००  
उ  
धर्म के नाम पर आत्मराम १००० उ  
मकड़ी का जाला राजपाल ८०० उ  
श्रीदेकर, सरोज दे सूर्यवली सिंह  
श्रीसेनास्क रोम्यो, जूलियट और अधेरा राजकमल.  
५०० उ  
श्रीमप्रकाश अवर चरखा सर्वोदय ०५०  
अगरवत्ती सर्वोदय ०५०  
अनजाने देश मे राजहस १५० वप्र.  
आसू और मुरकाने पंजाबी पु २००  
आकाश की वाते मस्ता ०४० वप्र  
आठ कहानिया यूनिवर्सिटी २५०  
आदमी की कहानी सर्वोदय १५०  
आलोचना की ओर एस चाद ४००  
आलोचना के द्वार पर एस चाद ४५०  
और सुबह होने तक कन्हैयालाल. ३०० उ  
ईट सर्वोदय ०५०  
एक नही सौ प्यार कन्हैयालाल २५० उ  
कपडा छपाई सर्वोदय ०७५  
कली जो मुरभा गई कन्हैयालाल २२५ उ  
क्या तुम जागते हो ? गंगा ०७५  
गद्य-भारती एस चाद २५०  
गलीचा, दरी और निवाड सर्वोदय ०७५  
गाव का चमडा सर्वोदय ०६२  
गाव का धर्म—गाव के उद्योग सर्वोदय ०७५  
गुड और खाडसारी सर्वोदय ०६२  
गोबर गैस और हड्डी का खाद सर्वोदय ०७५  
घरेलू दियासलाई सर्वोदय ०७५  
चीनी मिट्टी का उद्योग सर्वोदय ०६२  
जीवन के विकास की कहानी सर्वोदय १५०  
ढलते आसू कन्हैयालाल ३५० उ  
तेल घानी, मगनदीप और मगन चूल्हा सर्वोदय ०७५  
देहात का तेल सर्वोदय. ०७५  
देहात का मकान सर्वोदय ०६२



धरती की कहानी सस्ता ०४० वप्र  
 धरती माता की अनोखी कहानी सर्वोदय १५०  
 नीम का तेल सर्वोदय ०६२  
 पतन का अंत पुष्पी १०० उ, — सुरेद्र २५०  
 परमाणु की कहानी सर्वोदय १५०  
 पैसिल का घरेलू उद्योग सर्वोदय ०५०  
 पीधो की रामकहानी सर्वोदय १५०  
 वडई सर्वोदय १००  
 बाल, रस्मी, रेगो का उद्योग सर्वोदय ०७५  
 बाल (त्रिसल्स) सर्वोदय ०६२  
 बेकरार कन्हैयालाल ३७५ उ  
 ब्रह्मांड की कहानी सर्वोदय १५०  
 भारतीय एकता की कहानी लोकप्रिय २७५  
 भावना और समीक्षा भा प्र मंदिर ४००  
 रेजम सर्वोदय ०७५  
 रेजम की कहानी सर्वोदय ०६२  
 लाख सर्वोदय ०६२  
 लाख की कहानी सर्वोदय ०६२  
 वैज्ञानिक विभूतिया आर्य बुक २००  
 शहद सर्वोदय ०६२  
 सागर की कहानी सर्वोदय १५०  
 सागर की सैर सस्ता ०४० वप्र  
 सावुन सर्वोदय ०५०  
 साहित्य भारती एस चाद २००  
 मुनसान राहे कन्हैयालाल ३०० उ  
 सुपारी सर्वोदय ०६२  
 सूखी टहनिया कन्हैयालाल ६००  
 सूरज और उसके प्रकाश की कहानी सर्वोदय १५०  
 सौदा कन्हैयालाल २५० उ  
 हमारी मागे पुष्पी १२५ उ, — सुरेद्र ३००  
 हमारे शरीर की कहानी सर्वोदय १५०  
 हवा और मौसम की कहानी सर्वोदय १५०  
 हाथ करघा सर्वोदय ०७५  
 हाथ कागज सर्वोदय ०६२  
 हिंदी अलंकार-साहित्य एस चाद ६००  
 हिंदी काव्य और उसका सौंदर्य एस चाद ८००  
 हिंदी गद्य का विकास और साहित्य औरिएटल २५०  
 हिंदी में प्रकाशन राजकमल १००  
 —सपा साहित्य-सघ राजकमल २५०  
 श्रीमप्रकाश 'आरिफ' सतियो का मार्ग यूनिवर्सिटी १५०  
 श्रीमप्रकाश आर्य गेलीनियो पीपुल्स १५० वप्र  
 न्यूटन पीपुल्स १५० वप्र  
 श्रीमप्रकाश 'तरुण' हिंदी साहित्य का सरल अध्ययन सशो  
 म ५ नूर्य प्र ३००  
 श्रीमप्रकाश 'दीपक' मानवी भा पु म २५० उ  
 श्रीमानद, स्वामी पातजलयोग-प्रदीप गीता ६००  
 श्रीमतीतात 'उत्तहावादी' अनुगधा राष्ट्र प्रचा, इ २५०  
 अपना देश अपने दुश्मन राष्ट्र प्रचा, इ १२५

अमिता राष्ट्र प्रचा, इ २७५  
 एक थी सुनीता राष्ट्र प्रचा, इ ४०० उ  
 कर्मक्षेत्र विद्या भवन, इ  
 तीन चम्मच गगाजल राष्ट्र प्रचा, इ ४५० उ  
 तुम उद्धार करो हम प्यार करे विद्या भवन, इ ३००  
 धर्मपत्नी राष्ट्र प्रचा, इ ४२५  
 नेहरू का देश विद्या भवन, इ २५०  
 भारत में दुर्दशा राष्ट्र प्रचा, इ २७५  
 भारतीय नारी और समाज विद्या भवन, इ २५०  
 माता के हत्यारे ३ भा विद्या भवन, इ ५०० (प्र)  
 मुखिया विद्या भवन, इ ५००  
 रानी बहू राष्ट्र प्रचा, इ ४५० उ  
 वोट किसे दे ? विद्या भवन, इ २५०  
 शहीद राष्ट्र प्रचा, इ. २७५  
 शेनी राष्ट्र प्रचा, इ. ५२५  
 हम भी कुछ कम नहीं विद्या भवन, इ २७५  
 ओस्त्रोव्स्की, नि अग्नि-दीक्षा पीपुल्स ५०० उ  
 जय जीवन पीपुल्स ११२

## श्री

श्रीदीच्य, एस एल तथा ए एल गाधी नागरिक प्रशासन और  
 नागरिक जीवन गयाप्रसाद ६००  
 नागरिक शास्त्र के सिद्धांत गयाप्रसाद ५००  
 प्रारंभिक नागरिक शास्त्र गयाप्रसाद ६५०  
 हमारा सविधान गयाप्रसाद ६००  
 श्रीदीच्य, एस एल तथा पी डी शर्मा राजनीति में वाद  
 पापुलर ७००

## क

कचनकुमार कोचिंग क्लास कन्हैयालाल ०५० ना  
 कचनकुमार दे राय, सुकुमार  
 कटक, प्रेमा काम और कामिनी बोरा ६०० उ  
 कवल दे जसवतसिंह कवल  
 कसरानी शिल्पकला शिक्षा देहाती ४००  
 कक्कड, महाराज नारायण निर्भर कृष्णा ब्र १५० का  
 कक्कड, माधवप्रसाद प्रारंभिक वाणिज्य अकगणित नद ब्र एव  
 नद स ४००  
 कक्कड, राजकिशोर हिंदी आलोचना साहित्य का विकास एस  
 चाद  
 कटरहा, दौलतराम सरल हाई स्कूल अकगणित मिश्र-बधु  
 ४००  
 कटारा, कुसुम महाभारत की आठ नारिया भा प्र मंदिर  
 रामायण की आठ नारिया भा प्र मंदिर ०७५ [१२५  
 व्यजन-वीथिका प्रचा पा १००

कटियार दे बहुगुणा, सुरेंद्रदत्त.  
 कटियार, तिलकसिंह भारत का आंतरिक एव वैदेशिक  
 व्यापार कि महल ४५०  
 —तथा के सी गुप्ता भारत का आर्थिक भूगोल आगरा  
 बुक. ६२५  
 कतील शिफार्ड जीवनी और सकलन राजपाल १५०  
 कत्याल, मोहन अजी मैने कहा रूपकमल २०० क  
 कथूरिया, जी एल काष्ठकला विज्ञान गुरदास २५०  
 कनल, एस पी बच्चो के खेल-खिलौने आत्माराम १००.  
 बालक का भाव-विकास आत्माराम ५५०  
 बालक की समस्याएँ आत्माराम २००  
 माता माटेसरी के विचार और विधि आत्माराम ७५०  
 कनैडी, जान इच्छा-शक्ति रूपकमल १५०  
 कन्नोमल, लाला. भारत के धुरेधर कवि इ प्रे ०५० जी  
 कन्फ्यूशियस सफल जीवन का रहस्य आधुनिक सा १२५  
 कन्सल, बी बी भारत का आर्थिक विकास स ४ आगरा  
 बुक ५५०  
 कन्सल, भारतभूषण मुद्रा, बैंकिंग तथा विदेशी विनिमय सशो  
 स ४ केदारनाथ ५२५  
 मुद्रा, बैंकिंग, विदेशी विनिमय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय  
 आय तथा राजस्व केदारनाथ ६५०  
 व्यापारिक सन्निधिम कि महल ५००  
 —तथा चद्रशेखर शर्मा मुद्रा, विनिमय तथा बैंकिंग का सरल  
 अध्ययन आगरा बुक ३७५  
 कन्हैया आद्योर्मि अभिज्ञान ३०० का  
 कन्हैया, कुवर वीरो की कहानिया हि ग्र र १०० बप्र  
 कन्हैयाजू, कुवर हिंदुओं के व्रत और त्योहार हि प्र म ३००  
 कन्हैयालाल जापान की लोक-कथाएँ गंगा १५० बप्र  
 कन्हैयालाल, आचार्य सस्कृत प्रवेशिका एस चाद. १००  
 कन्हैयालाल शास्त्री दे सक्सेना, शभूदयाल  
 कन्हैयासिंह पाठ-सपादन के सिद्धांत महामना १२.००  
 कपाली शास्त्री आह्निक स्तव श्रीअरविद १.००  
 भारतीस्तव श्रीअरविद १००  
 कपिल उजले-काले बेला २०० उ  
 उसासे रूपसी १५० उ  
 नन्हे-मुन्ने आत्माराम १५० बप्र.  
 भरे पूरे घर रूपसी २०० उ  
 मैं इनसे मिला था ज्ञानपीठ  
 कपिलदेव सस्कृत व्याकरण मे गणपाठ की परंपरा और  
 आचार्य पाणिनि भा प्राच्य ८००  
 कपितादेव सिंह ब्रजभाषा और उसके साहित्य की भूमिका  
 विनोद २५०  
 ब्रजभाषा बनाम खड़ीबोली विनोद १०००  
 कपिलदेव सिंह 'सुहृद' रजनी हि पु ए १६२ का  
 कपूर भौगोलिक शब्दकोष और परिभाषाएँ कि महल १०००  
 साहित्य विवेचना कि महल १५०  
 कपूर, अनूपचंद भारतीय गणराज्य का शासन एस चाद  
 राजनीति विज्ञान के सिद्धांत. एस. चाद. १२.५० [६००

विश्व के प्रमुख सविधान-एस-चाद-१३५०  
 ससार की चार प्रमुख शासन प्रणालियाँ एस चाद ८००  
 कपूर, अमरनाथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भा भवन. ३००  
 एशिया का भूगोल एस चाद ६००  
 भारत एक भौगोलिक अध्ययन एस चाद ११००  
 मुद्रा, बैंकिंग परिचय भा भवन ६००  
 कपूर, अमरनाथ दे गुप्ता, ए दास  
 कपूर, अमरनाथ दे भकुनी, पूरनसिंह  
 कपूर, अमरनाथ दे भारद्वाज, ओमप्रकाश  
 कपूर, ए एल रामराज्य देहाती १५० ना  
 कपूर, एच सी आइस प्लाट (बर्फ मशीन) देहाती ४५०  
 स्टीम इंजीनियर्स गाइड देहाती १०००  
 स्टीम ब्वायलर्स और इंजन देहाती ८२५  
 हैडबुक स्टीम इंजीनियर देहाती १८००  
 कपूर, एस सी दे सेनगुप्त, एस सी  
 कपूर, ओ बी एल पार्श्वत्य दर्शन-दर्पण रतन ५५०  
 कपूर, कन्हैयालाल नरम गरम हिद पा १००  
 कपूर, कालिदास गाधीजी और भावी ससार राजकमल  
 (पा) १००  
 नवीन भारतीय ऐतिहासिक एटलस इ प्रे २५०  
 बाबा की बातें रामा प्र १५० बप्र  
 भारतीय अतीत की बातें रामा प्र २००  
 भारतीय सभ्यता का विकास रामा प्र २००  
 मुर्दरिस की रामकहानी इ प्रे ३०० जी  
 शिक्षा-समीक्षा इ. प्रे १००  
 सयुक्त राज्य परिचय आत्माराम ३००  
 कपूर, गुरुबख्शसिंह भारतीय इतिहास की रूपरेखा २ भा  
 एस चाद ५०० (प्र)  
 मध्यकालीन भारत का सुबोध इतिहास एस चाद १२००  
 कपूर, चमनलाल हमारा दैनिक जीवन एस चाद १५०  
 अर्थशास्त्र.  
 कपूर, पद्म एकादशी श्रीराम मेहरा २००  
 कपूर, बदरीनाथ बेसिक हिंदी हि प्रचा पु ३००  
 कपूर, बिशन आगरा दर्शन शिवलाल २००  
 कपूर, बैजनाथ मेरी केदार-बदरी यात्रा छात्रहितकारी १००  
 कपूर, मस्तराम 'उर्मिल'. किशोर जीवन की कहानिया ३ भा  
 हि ग्र र १२५ (प्र)  
 स्पर्धा हि ग्र र १०० बप्र  
 कपूर, यदुनदन धर्म-निरपेक्ष प्राचीन भारत की प्रजातन्त्रात्मक  
 परंपराएँ लक्ष्मी ना ५५०  
 हसता कौन रोता कौन बसल २५० उ  
 कपूर, यदुनदन दे गहराना, जी के  
 कपूर, रमेशचंद्र परमाणु विखडन हि समि ६००  
 कपूर, रामदयाल प्रसूति-तत्र गंगा ५७५  
 रोगी परिचर्या हि पु ए २२५  
 कपूर, रामप्रकाश टूटा हुआ आदमी राजपाल ४०० उ  
 टूटी हुई लड़की हि प्रचा पु (पा) १.००  
 प्लेटफार्म. नद. ब्र. एव नद स. २.५०

वच्चो के प्यारे ब्रापू नद ब्र एव नद स ० ७५ वप्र  
मिस्र-मसूरी हिंद पा १०० उ  
राष्ट्र-पिता बापू नद ब्र ० ६४ वप्र  
हरमिगार के फूल नद स २२१  
हिंदी के सात युगात्कारि उपन्यास नद व एव नद स  
४००

कपूर, ग्रामजी सुखद-निद्रा रूपकमल १२५  
कपूर, शुभकार विद्यापति-पदावली गगा १५००  
कपूर, श्याम अपना विकास आप कीजिए त्रार्य वुक १५०  
कपूर, श्याम दे गुप्त, सत्यपाल  
कपूर, श्यामनारायण आचार्य जगदीशचंद्र वरु सा नि, का  
२००

आचार्य प्रफुल्लचंद्र राय सा नि, का २०० जी  
एवरेस्ट विजेता गेरपा तेनमिह सा नि, का ० ७५ जी  
चंद्रजेखर वेकट रमन सा नि का २००  
जीवट की कहानिया हि ग र २२५ वप्र  
डा मेघनाथ साहा महान गणितज्ञ रामानुजन् और डा  
गरुेशप्रसाद सा नि, का २००  
भारतीय वैज्ञानिक सा नि, का ७००  
महान गणितज्ञ रामानुजन् और डा गरुेशप्रसाद ना नि,  
का २००

विज्ञानाचार्य जगदीशचंद्र वसु सा नि, का २०० जी  
सावुन विज्ञान सा नि, का ६००  
कपूर, श्यामबिहारीलाल सामान्य अकगणित रा वेनीप्रसाद  
२१२

सामान्य बीजगणित रा वेनीप्रसाद २१६  
कवीर कवीर की साखी तथा बोल देहाती ० ३७  
कवीरदाम शब्दावली देहाती ० ५०  
कवीर-दोहावली देहानी ० ५०  
कवीर-पदावली प्रभात प्र २५० का  
कवीर भजनमाला देहाती प्र १५०  
कवीर भजनावली देहाती ० ७५  
गथावली टीका पुष्पपालसिंह अगोक प्र १२५०  
गथावली सपा श्यामसुन्दरनाम ना प्र मभा ५००  
कमरुन्निमा वेगम तथा कमलिनी कुमारी मिन्हा डोमेस्टिक  
माइस पु भ १५०  
कमल दे कमलादेवी 'कमल'  
कमल दे श्रीचंद्र, मुनिश्री 'कमल'  
कमलदेव नारायण घर कैसे चले प्रभात प्र २००  
कमलनारायण कहानी दुसुम (पहाड़ी) गाडड हि सा भ  
१५०

नागरिक शिक्षा और भारतीय शासन (प्रश्नोत्तर) हि सा  
भ २२५

कमलामोहन टोन रेनानगिन काशी हिंदू २००  
कमलानिह लमावम कविश्री-माला मणिपुरी राष्ट्र प्रचा  
समि

कमला त्रिवेणीशंकर नयमाल नद स २००  
कमलादेवी मातृ-शिशु-विज्ञान प्रभात प्र १००

— साधना म १२५

हिंदी के प्रमुख कहानीकार आगरा वुक ० ४४  
कमलादेवी 'कमल' अनमोल मणिगया नवयुग ग्र कु १ ७५  
कमलारतनम् अक्षर गीत सस्ता २०० वप्र  
कमलेश कमलेश-कगीदाकारी देहाती २५०

कालिदास नया सा प्र १५० वप्र  
निबंध नवनीत हि पु ए भा १ १ ६२, भा  
२ ३ ३५

वाणभट्ट नया सा प्र १५० वप्र  
बाल-पंचतंत्र नया सा प्र १५०

वीर बालक आदर्श पु भ १२५

सुंदर कशीदाकारी देहाती १२५

हिंदी-गुजराती शिक्षा विनोद १५०

हिंदी साहित्य का सरल इतिहास स २ प्रदीप १५०

सपा साहित्यिक निबंध प्रबुद्ध ५००

— तथा गोपाल द्वे उच्चतर माध्यमिक पथ प्रदर्शिका हि  
पु ए ३००

कमलेश दे गौड, गिरिजामोहन 'कमलेश'

कमलेश दे भा, कमलनारायण 'कमलेश'

कमलेश दे शर्मा, पद्मसिंह 'कमलेश'

कमलेश्वर, १९३२- अधूरी आवाज आत्माराम १५०  
ना

एक सड़क सत्तावन गलिया प्रचा पा १०० उ

कमलेश्वर के बाल नाटक २ भा आत्माराम १५०

(प्र)

खोई हुई दिगाए भा ज्ञानपीठ २५० क

डाक बगला राजकमल ३५० उ

— राजकमल (पा) १००

तीसरा आदमी हिंद पा १०० उ

फणीश्वरनाथ 'रेणु' की कहानिया राजपाल २५०

फाहियान की भारत यात्रा सस्ता ० ४० वप्र

वदनाम गली स्टार (पा) १००

मोहन राकेग की कहानिया राजपाल २५०

लौटे हुए मुसाफिर हिंद पा १०० उ

कमलेश्वर दे दुप्यत

कमार, अ इगलैंड का आर्थिक और सामाजिक इतिहास  
मोतीलाल ३७५

करन, म प मानव भूगोल के सिद्धांत स ३ कि घर, का  
१२५०

करपात्री श्रीभगवत तत्त्व इ प्रे ३००

करपात्री, स्वामी मार्क्सवाद और रामराज्य गीता ४००

करील दे अक्मथी, देवीरत्न 'करील'

कल्याणकर, बनारसीदास सिद्धार्थ-बुद्ध एस चाद २०० ना

कश्यप इसानियत फिर भी जीवित है आत्माराम ३००

उ

करेली, मेरी प्रतिशोध भा २ हि पु ए २५० उ

शैतान की शैतानी हि पु ए ४०० उ

करोल, ग्लैडिस एच आज और कल पजावी पु उ.

कविविद्व, बर्डी अतिम निर्णय. अनु रामगोपालसिंह चौहान  
लहरी १५०. उ  
कर्मशील, के एस अंतर्राष्ट्रीय सबध मोतीलाल ७५०  
कर्मनिद ईश्वर मीमासा श्री भा दिगबर ५००  
भारत का आदि सम्राट श्री भा दिगबर १००  
कर्मनिद, स्वामी वैदिक ऋषिवाद श्री भा दिगबर ०३७  
कलक्टरसिंह 'केसरी', १९०९- आम-महुआ पु भ. १.२५.  
वप्र  
कदव पु भ ४२५ का  
मराली पु भ ५०० का  
कलार्थी, मुकुल गुजराती-हिंदी कोष वोरा २००  
कलार्थी, मुकुलभाई बडे आदमियो की बाते अनु अबाशकर  
नागर गुजरात १००  
बा और बापू नवजीवन १५०  
बोधक कहानिया अनु अबाशकर नागर गुजरात ०८५  
भक्तराज अनु मणिभाई पटेल गुजरात १००  
रविद्र जीवन प्रसंग. वोरा २००  
सबकी बोली छोटी किताब वोरा ०३५  
हिंदी रचना बोध वोरा २५०  
हिंदी विज्ञान विहार वोरा भा १ ११२, भा २ १२५,  
भा ३ १२५  
कलिद, भाष्य दे अहोबल  
कलीम उर्फी सायकी. सुरेद्र (पा) १०० उ  
कल्पतरु भोपडी से महल पु भ १००, — —रामलोचन.  
(पा.) १००  
कल्पनाथ सिंह हिमालय की हुकार रामा प्र. १५०. ना  
कल्याणसिंह प्रकृति सौदर्य हि पु ए २२५  
कल्बर, रानी चार पत्तिया अनु दयाव्रत स्टार २५० उ  
कवठेकर, श्रीदत्त रघुनाथ रेगम की गाठे सरस्व प्रे १५०  
उ  
कवि. दे. त्रिपाठी विश्वनाथ 'कवि'  
कविता, एस, सपा. बढते चरण. भा भा प्र. १००  
कवीद्र 'मजुल' अनु वृहत्कथा मजरी कि महल  
कवीद्र 'माहोर' अश्रुमाल रा बेनीमाधव. ०.६२. का.  
कवुले, तिरुपति वकट तथा काट्टूरि वेकटेश्वर राव. कविश्री-  
माला तेलुगु राष्ट्र प्रचा समि २००  
कश्मीरीलाल जाकिर सिदूर की राख. वोरा ३०० उ  
कश्यप, कुमार छोटा आदमी सहगल ३.७५. उ  
कश्यप, जगदीश पालि महा व्याकरण. मोतीलाल. १०.००  
पारचात्य तर्कशास्त्र काशी हिंदू. भा १ ६००, भा २.  
५५०  
कश्यप, वीरेद्र पाच बडे. नवयुग प्र २०० ना  
कसूलस, डी. जी आर्थिक प्रगति को कुजी आत्मराम  
१.००  
कस्तूरिया, सत्यनारायण सस्कृत साहित्य का नवीन इतिहास  
आर्य बुक. २५०  
सम्राट् चंद्रगुप्त. हि. प्रचा. पु ४०० जी.  
सम्राट् हर्षवर्द्धन. हि. प्रचा. पु ४.००. जी.

काकर, नवलकिशोर. सरल शिवराज विजय कल्याणमल.

१.२५

काकरिया, धर्मद्रकुमार धातुओ की कहानी. राजकमल २.००  
काकरिया, धर्मद्रकुमार. दे. दयास्वरूप.  
काग, कुलवीर सिंह. पूर्वी समीक्षा के सिद्धात बिशन चद. ६००  
काचनमाला देवी. शनि की दिशा इ. प्रे. २०० उ.  
काडी, विलियम. थोरो. एस चाद १००. बप्र.  
कात. कुवरसिंह नाटक. आदर्ग पु भ २५०  
कात. दे कुशवाहा 'कात'  
कात. दे. रमाकात 'कात'  
कात. दे. रामरतन कात.  
कात. दे सिन्हां, एम एम. 'कात'  
कातऋषि. आधुनिक कृषि यत्र किसानी औजार. देहाती.

१.२५

किचन गार्डन देहाती १.७५  
तबाकू की खेती देहाती ०५०  
पपीते की खेती देहाती १५०  
कातप्रसाद. करघे की पुकार राष्ट्र. प्र म २.२५ का  
काता जो भी कुछ देखती हू. नवहिंद २०० का  
काति, मिथिलेश, १९२९- पुस्तकालय विज्ञान, निर्गम पद्ध-  
तिया. चैतन्य. १.५०  
कातिमोहन दे. बक, पर्ल एस.  
कातिसागर, मुनि. खडहरो का वैभव स. २. भा. ज्ञानपीठ.  
६.००  
खोज की पगडडिया स २ भा ज्ञानपीठ ४.००  
काक. दे. तेजनारायण काक.  
काक. दे. शर्मा, रमाशकर 'काक'  
काका हाथरसी काका की कचहरी सगीत २००. हा  
दुलती सगीत २.००. हा  
पिल्ला. सगीत २.०० हा  
म्याऊ सगीत २००. हा  
काकोडकर अनोखी शर्त चिनगारी १.५०  
रजनी चिनगारी. १५०  
काकोडकर, चद्रकात. कीर्ति-मदिर आनद पु, वा ३२५ उ.  
मुक्तनारी अनु आर आर. सर्वटे. आनद पु, वा २.२५ उ.  
काक्स, डानल्ड अतरिक्ष स्टेशन आत्मराम ४००  
काटजू, कैलाशनाथ कुछ स्मरणीय मुकदमे ज्ञानमडल  
८०० सस्म  
मै भूल नहीं सकता. सस्ता २.५०. जी  
काटवे, ह ने. अध्यात्म ज्योतिष विचार. नागपुर प्र. १०.००  
गुरु-विचार नागपुर प्र २५०  
चद्र-विचार. नागपुर प्र २.००  
बुध-विचार नागपुर प्र. २.००  
मंगल-विचार नागपुर प्र. २.५०  
रवि-विचार. नागपुर प्र २.००  
राहुकेतु-विचार. नागपुर प्र. ३.५०  
शनि-विचार. नागपुर प्र. २.५०  
शुक्र-विचार. नागपुर प्र. २.५०

काठिया दादाजी गुरु-शिष्य सवाद इ प्रे १ ७५  
 काणे जी ह्वी शरीर-विज्ञान और आरोग्य-शास्त्र महत्त्व के  
 प्रश्नोत्तर मिश्र-त्रयु २.००  
 कातिल बनारसी दोस्तों की गायरी ज्ञानमड एव भा प्र  
 मडल. २ ५० का  
 कादरी शरीर विज्ञान. कि महल भा १ ० ५०; भा २-३  
 ० ७५ (प्र)  
 कादरी, मुहम्मद अलगरअली कला विज्ञान ३ भा कि महल  
 १ ०० (प्र.)  
 चित्रकला का इतिहास. रामप्रसाद २ ००  
 धातु कला दर्शन ३ भा. कि महल १ ०० (प्र)  
 पुस्तक कला दर्शन. ३ भा कि महल ० ७५ (प्र)  
 मिट्टी का काम रामप्रसाद १ ५०  
 मूर्तिकला का इतिहास रामप्रसाद २ ५०  
 मेमोरी ड्राइंग २ भा कि महल ० ७५ (प्र)  
 कानडे, एम ह्वी नवीन माध्यमिक सामाजिक अध्ययन मिश्र-  
 त्रयु भा १-२ २ २५ (प्र.) भा ३ १ ३७  
 —टीका रत्न राशि प्रभा मिश्र-त्रयु. १ १२  
 कानडे, श्रीपाद विष्णु. उच्चतर माध्यमिक भौतिक शास्त्र  
 मिश्र-त्रयु. भा १-२ ३ ०० (प्र) भा ३ ३ ५०  
 नवीन सामान्य ज्ञान मिश्र-त्रयु. भा १ ४ ००, भा २ ?  
 कानूनगो, के आर दाराशिकोह गयाप्रसाद ८ ००  
 इति.  
 कानेट, जेम्स बी आधुनिक विज्ञान और आधुनिक मानव अनु  
 रहवर आत्माराम २ २५  
 विज्ञान और व्यावहारिक ज्ञान आत्माराम ७ ५०  
 कानेटकर, वनत वेवसी हिंदू पा १ ०० उ  
 कानोडिया, नतोष ओ आकाशी अपोलो २ ५० का  
 कान्हू महर्षि गुरावती नवयुग १ कु १ २५  
 कापडिया, कुदनिका तथा नीरज मया गुजराती की प्रतिनिधि  
 कहानिया आत्माराम.  
 कापडिया, के एम भारत में विवाह एव परिवार अनु  
 हरिकृष्ण रावत मोतीलाल १ ० ००  
 कामताप्रसाद छत्रपति गिवाजी ना साधना ०.७५  
 पृथ्वीराज चौहान सा साधना ० ७५  
 प्रारम्भिक अर्थशास्त्र नाँवली ५ ००  
 वीर बालाए ना साधना ० ७५  
 महाराणा प्रताप सा साधना ० ७५  
 वाणिज्य विधि की त्परेखा नाँवली १ ० २५  
 वाणिज्य विधि की नकलित समस्याए नाँवली १ ००  
 वीर दुर्गादान ना साधना ० ७५  
 कामताप्रसाद दे पाडेय, बी एन  
 कामताप्रसाद 'गुरु' अत्याक्षरी मिश्र-त्रयु १ ०० वप्र  
 देशोद्धार. मिश्र-त्रयु १ ४४ वप्र.  
 पद्य-मुष्पावली मिश्र-त्रयु १ ००  
 पद्य-समुच्चय इ प्रे १ ००. का  
 भारतीय गिटाचार रा वेनीमाधव. १.००  
 सुदर्शन. रा वेनीमाधव. ० ६२. ना

हिंदी व्याकरण ना प्रा. सभा ६ ००; सक्षिप्त २ ५०,  
 मध्य १.५०, प्रथम. ० ५०  
 कामताप्रसाद, सिंह 'काम' आत्मा की कथाए. पारिजात  
 २ २५  
 चात-पात की दुनिया पारिजात १ ०० कथा  
 कृपक कथा पारिजात ० २५ का  
 धूमकड की डायरी. पारिजात २ २५ या  
 जगल पारिजात ० ६२ वप्र  
 ज्ञान की दुनिया पारिजात १ ५० वप्र  
 धरती धन पारिजात १ ५ ००  
 नाविक के तीर पारिजात १ ०० कथा  
 पठान का वच्चा पारिजात २ ०० क  
 पिजडे का पछी पारिजात २ ५० कथा  
 पुरानी दुनिया पारिजात २ २५ कथा  
 भुलते भागते क्षण पारिजात ३ ०० कथा.  
 मैं छोटीनागपुर में हूँ पारिजात २ ५०. या  
 याद जेप रह गई पारिजात १ ५० कथा  
 सयानी सलाह पारिजात १ ५० वप्र  
 सुनहरी सीख पारिजात १ २५. वप्र  
 कामरा आर के जननरुआ और लोक स्वास्थ्य रामा बुक  
 = ५०  
 कामराफ, मेनुअल एवाहम लिंकन एस चाद १ ०० वप्र  
 कामाक्षि राव ए सी दे गोनबुद्ध, राजा  
 कामिनी कामिनी कशीदाकारी देहाती ४.५०  
 कामू, आल्वेयर. अजनवी राजकमल. ३ ००. उ, (पा)  
 १ ०० उ  
 पतन राजकमल २ २५ उ; (पा) १ ००.  
 प्लेग राजकमल ७ ००, उ, (पा) २ ००  
 कायगो, कत्सुओ. जापान के वच्चो के साथ राजकमल २.००  
 कारत, एन के धरती की ओर. अनु. बाबूराम कुमठेकर  
 राष्ट्र प्रचा समि ५ ०० उ.  
 कार दो विश्व-युद्धों के बीच अंतर्राष्ट्रीय संवध अनु राजमल  
 जैन लक्ष्मी ना ६ ५०  
 कारिली मेरी पाप का प्रतिकार गंगा ४ ५० उ  
 कार्टर, डायसन पाप और विज्ञान पीपुल्ल. ३.५०  
 कारिणिक अनंत श्रीधर, १६२४- काश्मीर प्रिसेस. रामप्रसाद  
 ६ २५  
 कार्तिक कुमार 'विकल' हडोल्फ, आइकमैन सुरेद्र. २ ००  
 उ  
 कार्नहॉल्टर. आर्थर डब्ल्यू अध्ययन कैसे करे राजकमल  
 १ २५  
 कालरा सुजीला कटाई शिक्षा देहाती ३ २५  
 कालवर्ट, जेम्स उत्तरी ध्रुव की सतह आत्माराम २.००  
 काला श्रीचरण तथा विष्णुदत्त मिश्र वेसिक शिक्षा के बीस  
 वर्ष रा वेनीमाधव १ ००  
 काला, सतीशचंद्र मोहनजोदड़ो ना प्र सभा ३ ७५. पुरा-  
 तत्व  
 सिंधु सभ्यता. हिंदू एकेडेमी. ५.००

कालिकाप्रसाद तथा अन्य, सपा बृहत् हिंदी कोश स २. ज्ञान-  
मडल लेदरक्लाथ २५ ००. चमड़े की जिल्द ३२ ००  
कालिदास. अभिज्ञान शाकुतल अनु. शरण सहगल १ २५,  
— —रूपा राधाकृष्ण ज्ञानपीठ १ ७५  
अभिज्ञानशाकुतलम् (चतुर्थ अंक) सपा आर. भट्ट रा.  
बेनीप्रसाद १ ००  
कुमारसभवम् रा. बेनीप्रसाद सर्ग १ १ ००, सर्ग ५  
१ ७५  
कुमारसभव. सस्ता ० ४०, — —अनु शरण सहगल.  
१ २५  
ग्रथावली सपा सीताराम चतुर्वेदी स ३ अ भा विक्रम  
२० ००; — — भा. प्र मंदिर  
नलोदय सस्ता ० ४०; — —अनु शरण. सहगल १ २५  
मालविकाग्निमित्र सस्ता ० ४०; — — अनु शरण  
सहगल १ २५  
मेघदूत अनु नागार्जुन राष्ट्रीय प्र मडल एव राष्ट्रीय सा  
स ३ ००, — —सस्ता ० ४०, — —अनु शरण  
सहगल १ २५, — —हिंद पा १ ००  
मेघदूतम् रा बेनीप्रसाद पूर्वमेघ २ ००, उत्तरमेघ १ ७५  
रघुवश सस्ता ० ४०, — — अनु शरण सहगल  
१ २५  
रघुवशम् रा बेनीप्रसाद सर्ग १, ४, ५, ६, १३ १ ५० (प्र)  
सर्ग २ १ ७५, सर्ग १४ सपा तारिणीश भा १ ५०  
विक्रमोर्वशी सस्ता ० ४०, — —अनु शरण सहगल  
१.२५  
शकुतला सस्ता ० ४०, — —अनु राजा लक्ष्मणसिंह सा  
रत्न भ १ ५०, — —अनु बलदेव शास्त्री श्री भा  
भारती २ ००, — —हिंद पा १ ००  
शकुतला नाटक अनु राजा लक्ष्मणसिंह विनोद एव हि  
सा सम्मे १ ५०  
कालिनिन, म इ कम्यूनिस्ट शिक्षा के बारे मे. पीपुल्स ० ७५  
कॉलिन्स तथा ड्रीवर प्रयोगात्मक मनोविज्ञान गयाप्रसाद  
कालिया, रवींद्र, सपा हाशिये दीपक पब्लि ० ७५ व्यग्य  
कालीचरण अचार बनाना देहाती ० ५०  
अपटूडेट इक मास्टर. देहाती २ ५०  
अमूल्य औद्योगिक रहस्य देहाती ० ५०  
इलेक्ट्रोप्लेटिंग देहाती ० ५०  
औद्योगिक नुस्खे देहाती ० ५०  
कन्फैक्शनरी उद्योग देहाती ० ५०  
कर्माशियल पोलट्री देहाती ४ ००  
कास्मेटिक्स इडस्ट्री देहाती ६ ००  
कुकरी बुक (अग्रेजी खाने) देहाती ४ ००  
केसीन व प्लास्टिक निर्माण देहाती ० ५०  
खरगोश पालन देहाती ० ५०  
गाइड आफ काटेज इडस्ट्रीज देहाती ६ ००  
गौ पालन देहाती ० ५०  
ग्रामो मे चलाए जा सकनेवाले कम सरमाया वाले उद्योग  
देहाती ०.५०

घरेलू प्रिंटिंग प्रेस देहाती ० ५०  
चमड़े की रगाई छपाई देहाती ० ५०  
चाक बत्ती स्लेट पैसिल बनाना देहाती २ ५०  
छोटे-छोटे उद्योग धंधे देहाती ० ५०  
जादू के खेल देहाती ० ५०  
ठडी क्रिया से साबुन बनाना देहाती ० ५०  
डाक व्यापार पद्धति देहाती ० ५०  
डेरी फार्म का व्यापार देहाती ३ ५०  
दर्पण निर्माण कला देहाती ० ५०  
दातो का डाक्टर (टूथपेस्ट व पाउडर) देहाती  
२ ५०  
धातुओं को रसायनो द्वारा रगना देहाती ० ५०  
धूप अगरबत्ती हवन सामग्री देहाती २ ५०  
नेल पालिश देहाती २ ५०  
पाकिट इडस्ट्रियल फार्मूला बुक देहाती १ २५  
पैसिले बनाना देहाती ० ५०  
पोलट्री फार्मिंग देहाती ४ ००  
पोलट्री सरजन देहाती ४ ००  
प्लंबिंग और सेनीटेशन देहाती ६ ००  
प्लास्टिक इडस्ट्री देहाती ४ ५०  
फर्नीचर पालिश देहाती २ ५०  
फल व सब्जी परिरक्षण उद्योग देहाती १० ५०  
फाउंड्री वर्क (धातुओं की ढलाई) देहाती ४ ५०  
फिनायल साजी देहाती २ ५०  
फेस क्रीम तथा फेस पाउडर देहाती २ ५०  
बत्तख पालना देहाती ० ५०  
बिक्री बढ़ाने के उपाय देहाती २ ५०  
ब्लैकस्मिथी (लोहार का काम) देहाती ४ ५०  
भारतीय तेल उद्योग देहाती ० ५०  
भोजन द्वारा चिकित्सा देहाती ० ५०  
मधुमक्खी पालन देहाती २ ५०  
मशीन बुड वर्किंग देहाती ६ ००  
मशीनशाप ट्रेनिंग मैनुअल देहाती १० ००  
माडर्न कास्टमेटिक इडस्ट्री देहाती ६ ००  
मिलिंग मशीन देहाती ४ ५०  
मुह देखने के शीशे बनाना देहाती २ ५०  
मुर्गी पालन देहाती १ २५  
मैटल पालिश देहाती २ ५०  
मैनुफैक्चर ऑफ शू पालिश देहाती ० ५०  
मोमवत्ती का व्यापार देहाती २ ५०  
योरुप अमेरिका के फारमूले देहाती ० ५०  
रबड के गुच्वारे बनाना देहाती १ २५  
रबड लेटैक्स इडस्ट्री देहाती ४ ५०  
रबर की मोहरे बनाना देहाती २ ५०  
लाख के प्लास्टिक बनाना देहाती ० ५०  
लाभदायक नुस्खे तरकीबे व हुनर देहाती ० ५०  
लिखने की स्याही बनाना देहाती ० ५०  
लेथ वर्क (खराद गाइड) देहाती ७ ५०

- वारनिश बनाना देहाती ०५०  
 वार्निश एड पेंट इडस्ट्री देहाती ७५०  
 व्यावहारिक चर्मकला देहाती ०५०  
 सेपटी माचिस बनाना देहाती ०५०  
 सीदर्य प्रमाधनो के फारमूले देहाती ०५०  
 स्टार्च डैक्स्ट्रीन स्टार्च प्रोडक्स देहाती ०५०  
 स्टेन्सिल काटना और छपाई देहाती ०५०  
 स्माल स्केल इडस्ट्रीज देहाती १२००  
 हस्तकला मे प्लास्टिक्स देहाती १२५  
 हस्त निर्मित कागज देहाती ०५०  
 हेयर फिवसर बनाना देहाती ०५०  
 हैडबुक आफ् पोल्ट्री फार्मिंग देहाती १२००  
 कालूराम आधुनिक ससार का सक्षिप्त इतिहास कि महल २५०  
 काले काले स्मालर सस्कृत ग्रामर रा वेनीप्रसाद. ३५०  
 काले हायर सस्कृत ग्रामर अनु कपिलदेव द्विवेदी रा वेनीप्रसाद ६००  
 काले, जी वी स्वास्थ्य प्रदीप गयाप्रसाद ०७५  
 काले, मनोहर आधुनिक हिंदी मराठी मे काव्यशास्त्रीय अध्य-  
 यन हि अ र २१००  
 काले, मनोहर दे वारलिंगे, सुरेद्र  
 कालेलकर, काका, १८८५- आश्रम सहिता गाधी हिंदु २५० सस्म  
 उडते फूल वीरा २०० नि  
 उत्तर की दीवारे नवजीवन ०८७  
 उस पार के पडोसी नवजीवन ३५०  
 कैद की आजादी यानी श्रुत्तर की दीवारे हिंदु प्रचा सभा ०८७  
 गाधीजी की अध्यात्म साधना गाधी हिंदु ०२५  
 गीता-रत्न-प्रभा नवजीवन ३००  
 जीवन का काव्य नवजीवन २००  
 जीवन-लीला नवजीवन ३००  
 जीवन-विहार वीरा २०० नि  
 जीवन-साहित्य सस्ता २५० नि  
 दो आम गाधी हिंदु ०३७ ना  
 धर्मोदय नवजीवन १२५  
 नमकके प्रभावसे नवजीवन १५०  
 नागरी आल्फावेट गाधी हिंदु १००  
 नागरी वर्ण-लिपि बोध हिंदु प्रचा सभा ०३७  
 वजाज जी का पत्र-व्यवहार अ भा सर्व १२५  
 वापू की भाकिया नवजीवन १००  
 वापू के पत्र अ भा सर्व १२५  
 सूर्योदय का देश नवजीवन २५०  
 स्मरण-यात्रा नवजीवन ३५०  
 हिंदी के जनपद सत मोतीलाल २०००  
 हिंदुस्तानी की नीति हिंदु प्रचा सभा ००६  
 हिंदुस्तानी के प्रचारक गाधीजी हिंदु प्रचा सभा ०.२५  
 की यात्रा नवजीवन २००

- सपा नक्षत्र-माला गाधी हिंदु. ०२०  
 वापू के पत्र सस्ता १२५  
 सद्बोधशतकम् गाधी हिंदु २००  
 स्मरणजलि सस्ता १५०  
 —तथा अन्य, सपा हिंदी के जनपद सत मोतीलाल २०००  
 कालेलकर, काका दे भर्तृहरि  
 काल्वर, ऐनी चार पत्तिया पजाबी पु २५० उ, — —  
 स्टार (पा) १००  
 कावागुची, यात्री इकाई तिब्बत मे तीन वर्ष हिं पु ए ३.५०  
 काविश, सी एल गेनू शमा १०० उ  
 काव्यतीर्थ दे शर्मा, जीवानंद 'काव्यतीर्थ'  
 काशीगिर बनारसी परमहंस लावनी ब्रह्मज्ञान व्यामलाल २००  
 काशीप्रसाद 'उन्मेप मैं गद्दा नही बनूगा सा भवन, इ १५० वप्र  
 काशीराम दे जुतशी, मनोहरलाल  
 —तथा चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा, सपा तुलसी सग्रह रा वेनीप्रसाद ०६२  
 काशीराम शास्त्री, सपा सप्तपर्ण हिं सा भ ३०० ए  
 काश्यप आदि भारत ज्ञानमडल १२००  
 काश्यप, अर्जुन स्वास्थ्य प्रकाश रा वेनीप्रसाद १५०  
 काश्यप, रामेश्वरसिंह नीलकंठ निराला राष्ट्रीय प्र मडल २०० का  
 लोहासिंह राष्ट्रीय प्र मडल ३०० ना  
 स्वर्णरेखा ग्रथमाला १०० वप्र  
 काश्यप, सोमदत्त महाकवि प्रसाद एक विवेचन भा सस्कृत २५०  
 वृ दावनलाल वर्मा एक विवेचन भा सस्कृत २५०  
 कासलीवाल, कस्तूरचंद, सपा प्रशस्ति सग्रह जैन सा ६००  
 राजस्थान के जैन शास्त्र भडारो की ग्रथ सूची जैन सा भा १५००, भा २ ८००, भा ३ ७००, भा ४ १५००  
 कासिम अली सैयद नवीन सतति शास्त्र हिं पु ए ३००  
 निर्माण १०० हिं सा भ १०० ना  
 बाल एकाकी नद ब्र १२५  
 शातिदूत अमर बापू हिं प्रचा पु २२५ जी  
 कासिम अली, सैयद दे अबुल कलाम आजाद, मौलाना कासिमी अहमद 'नदीम' जीवनी और सकलन राजपाल १५०  
 मेरा देश सा भवन, इ २००  
 किंग, क्लेरेस विकास कार्यों मे जन सहयोग अनु नारायण चतुर्वेदी नेशनल ४५०  
 किचलू, के एल गरिगत शिक्षा के सिद्धांत तथा शिक्षण प्रणाली नद ब्र एव नद स २००  
 किचलू, रामप्रसाद आधुनिक निबध स १९६३ राज किशोर ४००  
 हिंदी आलेखन राज किशोर १५०  
 हिंदी सक्षिप्त लेखन. राज किशोर. २००

—सपा. हिंदी गद्य मजरी रा. वेनीप्रसाद १.५०  
 किरण इटरमीडिएट स्मृति-चित्रण आत्माराम. १.२५  
 भारतीय लोकतंत्र. साहनी ०.५० वप्र.  
 यह मुह और ममूर की दान रामप्रसाद. १.२५. वप्र  
 सोने का नीवू राजकमल १ २५ वप्र  
 किरोडीमल सत किरोडीमल के बोल देहाती ०.५०  
 किशोर आधुनिक हिंदी महाकाव्यो का गिल्प-विधान. सरस्व पु  
 स १६००  
 किशोरदास कृष्णदास, स्वामी श्रीमद्भगवत गीता (केवल भाषा)  
 व्यामलाल २.००  
 कीथ सस्कृत साहित्य का इतिहास. अनु मगलदेव गास्त्री  
 मोतीलाल २५ ००  
 कीथ, आर्थर वेरीडील वैदिक धर्म एव दर्शन अनु सूर्यकांत  
 भा १ मोतीलाल २५ ००  
 कीथ, ए वी. लौकिक सस्कृत साहित्य अनु चारुचंद्र गास्त्री  
 चौखवा  
 कीथ, ए वी दे मैकडौनेल, ए ए  
 कुज अलकापुरी. आईना सामने रहे मगध १ ०० वप्र.  
 कुदकुद, आचार्य समयसार. अनु ए चक्रवर्ती भा ज्ञानपीठ  
 ८ ००  
 कुभट, जे आर व्यवहारिक अकेक्षण आगरा बुक ४ ००  
 कुभट, जे आर दे भडारी, के सी  
 —तथा एच एन पुरोहित भारत का आर्थिक भूगोल एव  
 आर्थिक विकास गयाप्रसाद ६ ००  
 भारत का आर्थिक विकास गयाप्रसाद ६ ००  
 भारतीय अर्थशास्त्र गयाप्रसाद ६ ००  
 कुभाराम आर्य तथा गुप्त पचायती राज सपा रमेशचंद्र दत्त  
 वधु १ ३७  
 कुवरनारायण चक्रव्यूह राजकमल ३ ५० का.  
 परिवेश हम तुम भा भ ३ ०० का  
 कुकरेती इसाफ के मालिक सा नि, व १ ०० क  
 कुटिलेग चकाचक हि प्रचा पु १ ५० हा.  
 ठडी सडक हि. प्रचा. पु १.५० हा  
 कुट्टनपिल्ले. तुलनात्मक व्याकरण हिंदी मलयालम. कि. महल.  
 ०.७५  
 कुट्टनपिल्ले, एन. पी प्रवध प्रदीप हि प्रचा पु ३ ००  
 सरल हिंदी व्याकरण एव रचना. हि प्रचा पु १ १२  
 कुट्टिचातन नव रग सरस्व प्रे ३ ००  
 कुप्रिन. कुप्रिन की कहानिया. अनु निर्मलवर्मा. पीपुल्स  
 ६ ५०  
 यामा राजरजना. (पा) २ ०० उ  
 कुप्रिन, एलेक्जेंडर गदी गलिया पुष्पी. ०.७५, — सुरेद्र.  
 ५.०० उ  
 गदी दन्ती गदे लोग अनु. प्यारेलाल 'आवारा'. वेला.  
 ३.०० उ  
 गांधीवालो का वटरा. सुरेद्र ५.००. उ  
 यामा ३ भा. अनु जैनेंद्र कुमार. पूर्वोदय २.५० (प्र)  
 उ.

कुमठेकर. पुरंदरदास के भजन. सस्ता ३.५०  
 कुमठेकर, वावूराम दे. कारत, एस. के  
 कुमार कौन किसका. भा ग्रथमाला. ३ ०० उ  
 कुलसते फूल भा ग्रथमाला १ ५० उ  
 कुमार तथा श्रीवास्तव सामान्य ज्ञान तथा विज्ञान नद व्र एवं  
 नद स ३.००  
 कुमार, के दे जिडल, शकरलाल.  
 कुमार, के दे शर्मा, आर के  
 कुमार विमल नई कविता, नई आलोचना और कला भा.  
 भवन २ ००  
 कुमारप्पा, जे सी, १८६२-१९५६ जनता की आजादी अ  
 भा सर्व १ ५०  
 वर्तमान आर्थिक स्थिति अ भा सर्व. २.००  
 हिंदुस्तान और ब्रिटेन का आर्थिक लेनदेन नवजीवन ०.५०  
 कुमारप्पा, जो काँ गांधी अर्थ-विचार अ भा. सर्व १ ००  
 गाव आन्दोलन क्यो ? अ भा. सर्व २.५०  
 ग्राम सुधार की एक योजना. अ. भा. सर्व ० ७५  
 श्रम मीमासा. अ. भा सर्व ० ७५  
 सीखचो के भीतर अ भा सर्व ० ५०  
 स्थायी समाज व्यवस्था. अ. भा. सर्व २.५०  
 स्त्रिया और ग्रामोद्योग अ भा सर्व ० २५  
 कुमारप्पा, भारतन् गराववदी क्यो ? नवजीवन ० ६२  
 कुमारिया, आर आर नवीन अध्यापक यूनिवर्सिटी २.००  
 नया जीवन. यूनिवर्सिटी ३ ००  
 प्रारंभिक शिक्षा मनोविज्ञान यूनिवर्सिटी. २ ००  
 भारतीय बच्चा और माता-पिता यूनिवर्सिटी. २ ५०  
 कुमारेद्र, के पक और पकज दि पु स ४ ०० उ  
 कुमावत, वी के. दे खान, आई. ए  
 कुमुद विद्यालकार काव्य कादंबरी दीपिका रीगल ४ ५०  
 तथागत रीगल ३ ५०  
 साहित्य परिचय रीगल १ ५०  
 —तथा जयवगी भा विद्यापति पदावली स २ रीगल १० ००  
 —तथा अन्य निवध रत्नाकर रीगल ५ ५०  
 कुरैगी, जमीला सरगम प्रवाल २ ७५ ए  
 कुलकर्णी तथा भिक्करे, सपा नागरी-लिपि मे उर्दू-हिंदी-मराठी  
 (त्रैभाषिक) शब्दकोष अनाथ ० ५०  
 कुलकर्णी, म तु समर्थ-जीवन-दर्शन नेशनल ४ ००  
 कुलदीप भासी की रानी रतन ० ७५ आ  
 कुलदीप दे जर्मा अविचाचरण  
 कुलदीप नारायणमिह रचनात्मक दिवध ना भवन, इ ३ ५०  
 कुलदीपमिह वालभारती अगोक् पु म ० ८८ वप्र  
 कुलवीरमिह वैसिक गणित शिक्षण पत्रावली पठिन ५ ००  
 —तथा त्रिनोचनसिह वैसिक विद्या के निद्रात यूनिवर्सिटी  
 ३ ७५  
 कुलभूषण, १९२१- अनेक देग एक इमान नेशनल ६ ००  
 या  
 तेल की कहानी सन्ता. ० ४० वप्र.  
 पगडडी और परछाइया. कि. महल ३.००. क.



मुन्नु के मित्र हिं प्रचा पु १२५ वप्र  
 सपनी का टुकड़ा वोरा २५० क  
 सुलेमान का खजाना वोरा १५० वप्र  
 कुलश्रेष्ठ, आर एस निगम वित्त सा भवन आ  
 कुलश्रेष्ठ, एन एल ग्रेट ब्रिटेन का आर्थिक विकास रामप्रसाद  
 ४००  
 भारत मे सहकारी खेती रामप्रसाद ०६०  
 भारतवर्ष का आर्थिक विकास (१८००-१९४७) लक्ष्मी ना  
 ५००  
 सोवियत सघ का आर्थिक विकास (१९१७-१९४७) लक्ष्मी  
 ना  
 कुलश्रेष्ठ, ओमप्रकाश आलोचना के द्वार पर एस चाद  
 ४५० नि  
 कुलश्रेष्ठ, क प एशिया का भूगोल स ३ कि घर, का  
 १५००  
 भारत, लका तथा पाकिस्तान कि घर, का ३७५  
 योरोप का भूगोल स २ कि घर, का २०००  
 कुलश्रेष्ठ, कमल कैसे समझे, किसको समझे कृष्णा ब्र ३००  
 आ  
 धरती उपजाऊ है कृष्णा ब्र १५० जी  
 हिंदी प्रेमाख्यानक काव्य सा भवन, इ ७००  
 कुलश्रेष्ठ, के के राजनीति विज्ञान के सिद्धांत २ भा विनोद  
 ६०० (प्र)  
 कुलश्रेष्ठ, गिरीशचंद्र सामाजिक विगठन और अपराधशास्त्र  
 प्रकाश बुक  
 कुलश्रेष्ठ, जगदीशसहाय सगीत किशोर सगीत १५०  
 सगीत शास्त्र सगीत १००  
 कलश्रेष्ठ, जी सी दे मुकर्जी, आर एन  
 कुलश्रेष्ठ, वी एल उच्चतर माध्यमिक भौतिकी आगरा बुक  
 भा १ ५००, भा २ ६००  
 माध्यमिक कृषि भौतिकी तथा जलवायु अध्ययन सशो स २  
 आगरा बुक ८५०  
 माध्यमिक प्रयोगात्मक भौतिकी स ८ आगरा बुक ४००  
 माध्यमिक भौतिकी सशो स १२ २ भा आगरा बुक  
 ७०० (प्र)  
 कुलश्रेष्ठ, महेंद्र कवि शकरदेव विश्वेश्वरानंद ०५०  
 योगी अरविद विश्वेश्वरानंद ०७५ जी  
 स्वामी नित्यानंद, जीवन और कार्य विश्वेश्वरानंद २५०  
 कुलश्रेष्ठ, रमेशचंद्र हिंदी मदाकिनी विनोद २००  
 कुलश्रेष्ठ, हरिस्वरूप अभिनव शवच्छेद विज्ञान मेडिकल  
 १५००  
 कुवेपुजी दे वेद्रे द रा  
 कुशवाहा दे लक्ष्मीनारायण 'कुशवाहा'  
 कुशवाहा, जयत अमानन चिनगारी ३५० उ  
 कुशवाहा, डी एम तथा जी एन कुशवाहा भारतीय अर्थ-  
 नाम्न एक सरल अध्ययन राजकमल ३००  
 कुशवाहा, त्रिलोक कात गठी चिनगारी २२५ क  
 कुशवाहा, नारायणी पराये बस मे चिनगारी. २५०

कुशवाहा, यशोदादेवी चिता चिनगारी १.५०. उ  
 कुशवाहा, राजेद्र जहरवाद विनोद २००. क  
 कुशवाहा, विमल दो पहर का चाद पुष्पी १०० उ, —  
 सुरेद्र २५०  
 कुशवाहा, श्रीतेज नारायण अलकार (पद्य मे) एम एल बुक  
 १००  
 कुशवाहा 'कात' (कामताप्रसाद), १९१८- अकेला चौधरी  
 ३००  
 आहुति चौधरी ३७५  
 इशारा चौधरी ३००  
 डडते उडते चिनगारी ३००  
 उसके साजन गुल्लूप्रसाद एव चिनगारी २५० उ  
 काला भूत गुल्लूप्रसाद १००  
 ककुम चौधरी ३२५  
 कैसे कहू गुल्लूप्रसाद एव चिनगारी ०.७५  
 खून का प्यासा गुल्लूप्रसाद ५००  
 गोल निशान गुल्लूप्रसाद एव चिनगारी ४०० उ  
 चूडिया चौधरी ५००  
 जजीर चिनगारी ३५० उ  
 जलन चौधरी ३००  
 जवानी के दिन गुल्लूप्रसाद एव चिनगारी २५०. उ.  
 दानव देश गुल्लूप्रसाद एव चिनगारी ४०० उ  
 नागिन गुल्लूप्रसाद एव चिनगारी ४०० उ  
 निर्मोही चौधरी ४२५  
 नीलम चौधरी ६००  
 पपिहरा चिनगारी ४५० उ  
 परदेसी चिनगारी ५५० उ  
 पराजिता चिनगारी २५० क  
 पागल चौधरी ३००  
 पारस चिनगारी ४०० उ  
 बसेरा चौधरी ३००  
 भवरा चौधरी ३५०  
 मजिल चौधरी ४२५  
 मदभरे नयना गुल्लूप्रसाद एव चिनगारी ४५० उ  
 रक्त मंदिर गुल्लूप्रसाद एव चिनगारी १५० उ  
 लवग चौधरी ४५०  
 लाल किले की ओर चिनगारी ४५० उ  
 लाल रेखा चिनगारी ४०० उ  
 विद्रोही सुभाष गुल्लूप्रसाद एव चिनगारी ५५० उ  
 शवनम गुल्लूप्रसाद २५०  
 हमारी गलिया गुल्लूप्रसाद एव चिनगारी ३५० उ  
 कुसनूरकर, चद्रकात रेशम की गुडिया गायत्री २००  
 क  
 कुसुम दे देवीप्रसाद कुसुम  
 कुसुम दे शातिस्वरूप 'कुसुम'  
 कुसुम, आचार्य कामायनी समीक्षा अशोक प्र २५०  
 रस, छंद, अलकार अशोक प्र १५०  
 कुसुम देवी कुसुम कढाई कला देहाती १२५

कूपर, एलाइस सिसिलिया अमेरिका के दस आधुनिक महापुरुष.

एस चाद २०० बप्र

कृत्यानद, स्वामी टोटका-विज्ञान ग्रथमाला. २.५०

कृपलानी, आचार्य अहिसक क्रांति. साधना सदन ०.६२

गाधी-मार्ग साधना सदन. २५०

कृपलानी, कृष्णा. रवींद्र प्रतिभा. शिवलाल. १५० बप्र.

कृपलानी, जे बी वर्ग सघर्ष अ. भा. सर्व ०.६२

कृपाराम हिततरंगिणी भारतजीवन ०.३७. का

कृपाशकर राष्ट्र निर्माता तिलक कि महल ३.००. जी

कृपाशकर सिंह. हिंदी रेखाचित्र. विनोद ५००

कृश्नचंदर अन्नदाता. राजपाल ३.०० क.

अमन की उगलिया. नवयुग प्र ३०० क.

उडाने सहगल ३५०. क

उलटा वृक्ष राजपाल. ३००. उ

एक खत एक खुशबू सहगल ३.२५. क

एक गधा नेफा में राजपाल ३५०. उ

एक गधे की आत्मकथा हिंद पा १००. उ.

एक गधे की वापसी राजपाल. ३००. उ ; — — हिंद पा.

१.००

एक लडकी और हजार दीवाने वोरा ३००. उ.

एक वायलिन समदर के किनारे. राजकमल. ४००; (पा.)

१.५०. उ.

कबूतर के खत हि ग्र. र. ३.०० क

कश्मीर की कहानिया. कि. महल. २७५, — — राजपाल.

३.००

काच के टुकडे. हिंद पा १.०० उ.

काला सूरज. राजपाल. २५०. क.

कृश्नचंदर की श्रेष्ठ कहानिया. राजकमल (पा) १००

खट्टे अनार मीठे अनार वोरा ३००. क.

खरगोश का सपना बबई प्र. १५०. बप्र.

गद्दार. हिंद पा १.००. उ

गरजन की एक शाम राजपाल. ३.०० क.

घूघट में गोरी जले. राजपाल २००. क

चादी का घाव राजपाल. ४५०. उ

चालाक खरगोश. बबई प्र १५०. बप्र

जगल का राजा. हि ग्र. र १५०. बप्र.

जबक का किला. हि. ग्र र. १.५० बप्र.

जब खेत जागे बबई प्र. ३.०० उ.

तूफान की कलिया. राजपाल ६.००. उ.

दरवाजे खोल दो. हिंद पा १०० उ.

दूर देश की कहानिया राजपाल १५० बप्र

धरती से सोना कि. महल. ०७५ बप्र.

नए गुलाम. नेशनल ३.००. ए.

नाग और शबनम हि ग्र. र. ३.००

पराजय. राजपाल. ४.५० उ

पाताल नगरी. हि ग्र. र १५०

पानी का पेड नेशनल ३००. क.

पूरे चाद की रात. राजपाल. ३.००. क.

प्यास. हिंद पा. १००. उ.

प्यासी धरती प्यासे लोग लोकभारती. ४.५०. उ

फूल और पत्थर राजकमल ३०० क.

फूल की तनहाई लोकभारती. ३.०० क.

फूलदान वोरा ३००. क.

बहादुर बलराज किशोर उपन्यास सीरीज. ८ भा. हि ग्र.

र १६० (प्र) बप्र

बर्फ के फूल प्रगतिशील ३०० उ.

बादल छट गये सहगल ३००. उ

बावन पत्ते वोरा ५.५० उ.

भूमि-दान नेशनल. ३०० क.

मछली-जाल आत्माराम ३५० क.

मेरी यादों के चिनार राजपाल ३०० उ.

मेरे दोस्त का बेटा. आत्माराम. ३.०० क

मोतियों की भील हि ग्र र १.५०

मौत की मौत बबई प्र ०६० बप्र

युक्लिप्टिस की डाली नेशनल २२५ क.

रैत का महल नेशनल ४.०० उ

सपनों का कैदी हिंद पा १०० उ

सयाना मूरख बबई प्र १२५ बप्र

सराय के बाहर राजपाल ३०० ना

सितारों से आगे राजपाल २.५०. उ

सीमा राजपाल ३०० क

सोने की सड़कची बबई प्र १२५. बप्र

हम वहशी है हस २०० क.

—तथा अन्य चार श्रेष्ठ उपन्यास प्रगतिशील ७००

स्वतंत्रता के बाद की सर्वश्रेष्ठ पचास कहानिया प्रगतिशील

१०००

—सपा स्वतंत्रता के बाद की सर्वश्रेष्ठ उर्दू कहानिया प्रगति-

शील ४००

—तथा अन्य, सपा स्वतंत्रता के बाद का सर्वश्रेष्ठ उर्दू साहित्य

प्रगतिशील १०००

कृश्नचंदर यह भी दे कृष्णाचंद्र

कृष्णा दे शर्मा, ओकारप्रसाद 'कृष्णा'

कृष्णाकिकर सिंह चीन का भाग सा भवन, इ ८००

कृष्णाकुमार नीति-शास्त्र २ भा गर्ग व ४.०० (प्र)

प्रियप्रवास समीक्षा अशोक प्र २००

—सपा स्वामी सियाराम के सद्गुपदेश. अ भा सर्व १००

कृष्णाकुमार सिंह पत्थर की देवी. नद व एव नद स

२५०

कृष्णाकुमारी भारत की विदुषी नारिया गगा २०० जी

कृष्णाकुमारी देवी अभागी बहनों की आत्म-कहानी आदर्श

हि २५०

कृष्णागोपाल शक्ति और इजन आत्माराम. २००

कृष्णागोपाल 'आविद' घायल पंजाबी पु ४५० उ.

दो तिल दो आखे अशोक पा १०० उ, — — सहगल.

२.५०

साधना. अशोक पा. १००. उ.

कृष्णाचंद्र अगारे सुभाष २५० उ  
 आदर्श हिंदी निबंध नाँवल्दी  
 गीत और पत्थर स्टार (पा) १००  
 —अनु प्रगति के बढ़ते चरण आत्मराम ३७५  
 —सपा साहित्य सगम अनुपम ३००  
 कृष्णाचंद्र यह भी दे कृष्णचंद्र  
 कृष्णाचंद्र उम्मीद तथा अन्य हिंदी प्रबोधनी सूर्य प्र ४४०  
 कृष्णाचंद्र उम्मीद दे वासुदेव शास्त्री  
 कृष्णाचंद्र विद्यालकार, १९०४- अन्न समस्या का हल सस्ता  
 ०३०  
 आज के निबंध एस चाद  
 आविष्कारक और आविष्कार हि भवन वप्र  
 भारतीय-संस्कृति सूर्य प्र १५०  
 अमरा और साहस की कहानिया स ३ हि भवन १५०  
 वप्र  
 व्याकरण प्रवेश एस चाद ०३७  
 सरल रचना विधि शारदा म भा १ ०७५, भा २  
 १२५  
 साहसी-मानव एस चाद ३०० वप्र  
 सुमन-सचय एस चाद २००  
 हिंदी व्याकरण शारदा म २००  
 कृष्णाचंद्र विद्यालकार दे गुप्त, सुरेशचंद्र  
 कृष्णाचंद्र शास्त्री सूरदास—आलोचनात्मक अध्ययन सूर्य प्र  
 १२०  
 कृष्णादेव चंद्रगुप्त समीक्षा अशोक प्र २५०  
 कृष्णाणदन पीयूष दर्द की मीनार वि ग्रथ ३.५० का  
 पारिजात-हरण सा प्र २५०  
 कृष्णाणदन प्रसाद खेल-पद्धति स ४ तरुण ०८७  
 गर्ल-गाइडिंग स ३ २ भा तरुण २७५ (प्र)  
 दौड़-कूद-प्रक्षेप स ३ तरुण १२५  
 बुलबुल या वीरवाला स ३ २ भा तरुण १५० (प्र)  
 समाज-स्वास्थ्य और दुर्घटनाएँ स ३ तरुण १२५  
 स्कार्फटिंग गाइडिंग की उत्पत्ति और प्रसार स ३ तरुण  
 ०७५  
 —सपा स्काउट-गाइड के गाने और निनाद स ५ तरुण  
 १२५  
 कृष्णावहादुर चंद्रमा की यात्रा रा वेनीप्रसाद १००  
 वप्र  
 नवीनतम आविष्कार रा वेनीप्रसाद १०० वप्र  
 सरल भौतिक विज्ञान स २ रा वेनीप्रसाद ३५०  
 हमारा विश्व रा वेनीप्रसाद १५० वप्र  
 —तथा अन्य अकार्बनिक रसायन की रूपरेखा स २ रा  
 वेनीप्रसाद ७००  
 कृष्णावहादुर दे टडन मत्तप्रसाद  
 कृष्णावहादुर चंद्रा उजाला कि महल १७५ ना  
 सरहद कि महल २०० ना  
 कृष्णा 'मजदूर' पगली अग्रवाल प्रि ०७५ उ  
 के फूल इ पब्लि ५०० उ

कृष्णामुरारीलाल तुलसी दोहावली सार सा भवन इ  
 १०० का  
 शिक्षा सिद्धांत एव बाल मनोविज्ञान (प्रश्नोत्तर) गयाप्रसाद  
 २००  
 कृष्णामूर्ति, आर चोर की प्रेमिका आत्मराम ४५० उ  
 कृष्णामोहन देश के अमूल्य रत्न गंगा ५०० जी  
 भारतीय दसूती कढ़ाई देहाती २५०  
 लेडीज दसूती कढ़ाई देहाती २५०  
 कृष्णामोहन 'मधुकर', १९३४- कसौटी के चित्र कला-भा  
 २५० क  
 कृष्णाराव, अ न कित्तूर की रानी सस्ता २०० उ  
 कृष्णाराव, ए एन सध्या राग नेशनल ३५० उ  
 कृष्णाराव, एम वी तथा जी विश्वेश्वरय्या कौटिल्यीय अर्थ-  
 शास्त्र का सर्वेक्षण रतन ७००  
 कृष्णालाल आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास हिं. सा.  
 परिपद ६००  
 चिंतामणि विवेचन अशोक प्र २५०  
 कृष्णालाल 'हस' निमाडी और उसका साहित्य हिंदु एकेडेमी  
 ८००  
 निमाडी की लोक-कथाएँ २ भा आत्मराम १२५ (प्र)  
 साहित्यिक निबंध हि प्रचा पु ५७५  
 सूरदर्शन रा वेनीमाधव ५००  
 कृष्णा 'विकल' सिडरेला रामप्रसाद १०० वप्र  
 कृष्णासिंह, कुवर अरमानो की दुनिया सा सेवक ३५०  
 कृष्णासुखिया, कुअर हिंदी भाषा की ध्वनिया तथा उनकी  
 शिक्षा रा वेनीमाधव २५०  
 कृष्णादेवी कृष्णा कढ़ाई कला देहाती ३००  
 कौआ काना ज्ञानपीठ ०७५ वप्र  
 कृष्णाणदन आधुनिक टिपिकल मोटर गाइड देहाती ४५०  
 निबंध सौरभ अशोक प्र १५०  
 मोटर प्रश्नोत्तर देहाती ६००  
 स्कूटर और आटो साइकिल गाइड देहाती ४५०  
 —सपा गुलेरी ग्रथ ना प्र सभा २००  
 कृष्णाणदन, स्वामी अय्यात्म दर्शन विश्वेश्वरानंद ४००  
 आत्म-तत्त्व प्रकाश विश्वेश्वरानंद १५०  
 आत्म-पथ विश्वेश्वरानंद २००  
 आत्मानुभूति विश्वेश्वरानंद २००  
 आनंद मार्ग विश्वेश्वरानंद २००  
 उठो स ३ आरोग्य १२५  
 कर्म और योग विश्वेश्वरानंद २५०  
 धर्म की आवश्यकता विश्वेश्वरानंद १००  
 ब्रह्मविद्या विश्वेश्वरानंद ६००  
 कृष्णाणदनप्रसाद सिंह अतीत की ओर मगध १.२५. ना.  
 अबला मगध २५० ना  
 क्रांति मगध १५० ना  
 जागृति मगध १०० ना  
 कृष्णा रविकमल भटकते राही पुष्पी १५०. उ, —  
 सुरेद्र ३५०. उ

- कृष्णा हठीसिंह. कोई शिकायत नहीं सस्ता. १५०  
 बापू की कहानी बबई प्र. २२५ जी  
 केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद् आवेदन प्रारूप. केंद्रीय ० १५  
 कार्यालय सहायिका केंद्रीय ३००  
 कार्यालयों के हिंदी नाम केंद्रीय ० २५  
 गजट अधिसूचनाओं के नमूने. केंद्रीय ० १५  
 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों सबंधी मसौदे केंद्रीय. ०.५०  
 नेमी कार्यालय टिप्पणियाँ केंद्रीय. ०.४०  
 राजसंपत्ति. केंद्रीय ०.७५  
 लोक-निर्माण केंद्रीय ०.७५  
 सामान्य प्रशासन केंद्रीय ०.५०  
 केंद्रीय मेडम नेन्सी शिक्षा परिचय. गयाप्रसाद ६००  
 केंडिया, बैजनाथ अस्फुट कलिया हि पु ए. १५०. क  
 ग्रामीण आदर्श हि. पु ए १.५०. उ  
 छूत-अछूत. हि पु. ए १७५ उ.  
 दूर्वादल हि पु. ए १०० क  
 महिला मडल हि पु. ए. १.५०  
 व्यंग चित्रावली हि पु ए. २२५  
 समाज के हृदय की बातें. हि पु ए १५० क  
 केदारनाथ गृहस्थाश्रम की दीक्षा नवजीवन ० २५  
 महिलाओं से नवजीवन ०.३५  
 विचार-दर्शन. २ भा नवजीवन. १५० (प्र.)  
 विद्यार्थी-मित्रों से नवजीवन ० ३५  
 विवेक और साधना. नवजीवन. ४००  
 सयम और ब्रह्मचर्य नवजीवन ० २५  
 सच्चे सुख का मार्ग नवजीवन ०.३०  
 समय का सदुपयोग नवजीवन ० ३०  
 सुसवाद नवजीवन ० ५६  
 केदारनाथ प्रसाद. आधुनिक अर्थशास्त्र. पु. भ १०००  
 आर्थिक अध्ययन. पु. भ ४००  
 नागरिक शास्त्र—नागरिक और राज्य पु. भ. ६००  
 बिहार के साधन कृषि और उद्योग रा वेनीप्रसाद ६.००  
 मुद्राशास्त्र और बैंकशास्त्र पु. भ ६००  
 व्यावसायिक संगठन पु. भ ६००  
 सार्वजनिक अर्थ पु. भ. ५००  
 सार्वजनिक अर्थशास्त्र और आर्थिक पुनर्निर्माण ग्रथमाला  
 ८००  
 केदारनाथ शास्त्री भारत की सांस्कृतिक परंपरा आत्माराम  
 ३००  
 सिंधु-सभ्यता का आदि-केन्द्र हड़प्पा आत्माराम. ८००  
 सिंधु-सभ्यता-समीक्षा आत्माराम. ५००  
 केदारनाथ सिंह अभी, बिल्कुल अभी नया सा प्र. ३५०  
 का  
 आहार और आहार-सुधार. गंगा. १५०  
 कल्पना और छायावाद हंस ३००  
 केनेडी, जान इच्छा-शक्ति कैसे बढ़ाये ? सुबोध प्र २२५  
 चिंता राजकमल १२५  
 साहस के धनी. वीरा २.५० बप्र.

- केनेडी, राबर्ट एफ सच्चे दोस्त और बहादुर दुश्मन आत्माराम  
 ४५०  
 केलकर, आर एस तीन मूर्ति, रामलोचन (पा) १.००. उ.  
 केलकर, इंदुमति लोहिया सिद्धांत और कर्म नवहिंद.  
 १००० जी  
 केलकर, नरसिंह चितामणि मराठे और अंग्रेज. आदर्श हि.  
 १०००  
 हास्य रस सशो स २ सा रत्न-माला १५०  
 केलर हेलर मेरी जीवन कहानी वीरा २००  
 केला, आर एन तथा एल एन गुप्त सुगम बीजगणित.  
 स ३ भा भा प्र २००  
 केला, ओमप्रकाश अर्थशास्त्र का सरल अध्ययन. भा. प्र.  
 १७५  
 नागरिक शास्त्र के सिद्धांत भा प्र ३५०  
 भारत का भूगोल भा प्र २७५  
 भारत का सरल आर्थिक भूगोल भा प्र १७५  
 भारतीय अर्थशास्त्र का विवेचन भा प्र १०००  
 भारतीय संविधान और नागरिक जीवन भा प्र ४५०  
 रस अलंकार और छंद का संक्षिप्त परिचय भा. प्र. ०.५०  
 विश्व का भूगोल भा प्र २५०  
 सरल नागरिक शास्त्र और भारतीय शासन भा प्र. १.७५  
 —तथा किशोरीलाल गर्ग नवीन कृषि विज्ञान भा प्र. ख  
 १ २००, ख २ १५०  
 —तथा नारायण श्रीवास्तव अर्थशास्त्र के सिद्धांत. भा. प्र.  
 ५००  
 राजस्व के सिद्धांत और भारतीय राजस्व भा. प्र २.००  
 —तथा प्रभाकर ठाकुर उत्तम निबंध कैसे लिखें. भा. प्र १.२५  
 भारतवर्ष का सरल इतिहास भा प्र ५००  
 केला, ओमप्रकाश दे ठाकुर, प्रभाकर  
 केला, भगवानदास. कौटिल्य की शासन-पद्धति हि. सा. सम्मे.  
 २००  
 भारतीय राज्य शासन स. ५ रा वेनीप्रसाद. १२५  
 राजस्व हिंदु एकेडेमी १७५  
 सरल नागरिक शास्त्र हि सा सम्मे. ५००  
 केला, भगवानदास दे दुबे, दयाशंकर  
 केले तथा दुबे. नागरिक शास्त्र के सिद्धांत. एस. चाद. ३००  
 केले, एस एल भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास.  
 गुरदास. ६००  
 केवल दे शक्तिपाल केवल  
 केवलराम मास भक्षण की भ्रांति नव सा प्र. ५.५०  
 केशर कसक चौधरी २५०  
 कुशवाहा कांत सुभाष ६००. सस्म  
 वहती गंगा रूपसी (पा.) १००  
 बाजीराव मस्तानी चौधरी. ५००  
 बुद्धार्चन सुभाष १७५ उ  
 केशर यह भी दे ज्वालाप्रसाद 'केशर'  
 केशरी, कवि. आम महुआ पु. भ २००  
 केशव. कवि प्रिया अनु. लक्ष्मीनिधि मातृ-भाषा. ४.५०

केशव कौमुदी (रामचद्रिका) सपा भगवानदीन 'दीन' रा  
वेनीमाधव पूर्वार्द्ध ३००, उत्तरार्द्ध २५०  
केशव पचरत्न सपा भगवानदीन 'दीन' रा वेनीमाधव  
ग्रथावली सपा विश्वनाथप्रसाद मिश्र हिंदु एकेडेमी  
ख १ ५००, ख २ ५००, ख ३ ८०० का  
रसिक प्रिया अनु लक्ष्मीनिधि मातृ-भापा ४००  
रामचद्रिका सपा भगवानदीन 'दीन' ना प्र सभा ३००  
विज्ञान गीता अनु श्यामसुंदर द्विवेदी मातृ-भापा ३००  
वीरसिंह देव चरित्र अनु श्यामसुंदर द्विवेदी मातृ-भापा  
४५०  
केशवदेव, पी कैरली भा ३ अशोक प्र गृह क  
नाली से अनु सुधाशु चतुर्वेदी नेशनल २५० उ  
केशवन नायर, पी के दक्षिण भारत मे हिंदी प्रचार  
आन्दोलन का समीक्षात्मक इतिहास हि सा भ १०००  
केशव पद्माकर भारत के जागते उद्योग कल्याणदास एव  
वि ग्र कु ३००  
केशवप्रसाद सिंह राजनीतिशास्त्र के मूल सिद्धांत अर्चना प्र,  
आ  
केशवमिश्र हिंदी तर्कभाषा व्या विश्वेश्वर सिद्धांत शिरो-  
मणि चौखवा ६००  
केशवमिश्र दे ओम्भा, गौरीशकर हीराचद  
केशवसागर आग की कहानी राजपाल १०० वप्र  
आवाज राजपाल १२५ वप्र  
पानी राजपाल १२५ वप्र  
हवा की वाते राजपाल १७५ वप्र  
—अनु वे सफल कैसे हुए हि पा १००  
केशवसुत तथा यगवश कविश्री-माला मराठी राष्ट्र प्रचा  
समि २००  
केसरसूरि गृहस्थ के दैनिक कर्तव्य अनु ब्रह्मचारी शकर-  
दास श्री आत्मानंद ०५०  
केसरी दे कलक्टरसिंह 'केसरी'  
केसरीकुमार सुदामा चरित, मूल और मूल्याकन मोतीलाल  
१२५  
—सपा गद्य भारती वि ग्र कु ४०० नि  
—तथा यमुना वर्मा, सपा बिखरे मोती रा वेनीप्रसाद १५०  
केसरीकुमार दे शर्मा, नलिनविलोचन  
कैन्डल वीसवी सदी मे अमरीकन शिक्षा गर्ग ब्र ३५०  
कैफ दे सरस्वती सरन 'कैफ'  
कैरव दे भा, बुद्धिनाथ 'कैरव'  
कैरोल, ग्लैडिम आज और कल स्टार (पा) १००  
कैरौल, लुई आश्चर्य लोक मे एलिस राजकमल (पा) १००  
वप्र  
कैलर, हैलेन अध्यापिका ऐन सलिवा मेसी इ प्रे २५० जी  
कैलाश कल्पित चारुचित्रा पुष्पी २०० उ, — सुरेद्र  
५००  
साहित्य के नाथी रा वेनीप्रसाद २००  
साहित्य साधिकाये न्यू लिट  
कैलाशचंद्र जैनधर्म श्री भा दिगवर ४००

तत्त्वार्थसूत्र श्री भा दिगवर. २५०  
भगवान ऋषभदेव श्री भा दिगवर १२५  
—सपा उपासकाध्ययन भा ज्ञानपीठ  
कैलाशनाथ ईश्वर और धर्म—विज्ञान की कसौटी पर प्रगति-  
शील  
नव सतसई-सार इ प्रे २७५ का  
—तथा सक्सेना समाजशास्त्र के मूल सिद्धांत २ भा कि  
महल ४५० (प्र)  
कैलाशनाथ प्रियदर्शी हाई स्कूल रचना प्रबोध रा वेनीप्रसाद.  
१००  
कैलाशप्रकाश गण-लतिका हि सा स १७५  
प्रेमचन्द-पूर्व हिंदी उपन्यास हि सा स १२५०  
कैलाशप्रकाश दे मदनमोहन  
कैलाशप्रसाद.सिंह हिंदी व्याकरण चद्रिका दि पु स  
२००  
कैलाशसिंह काव्य सुधा रा वेनीमाधव १२५  
गद्य प्रदीप रा वेनीमाधव १२५  
हिंदी मजरी रा वेनीमाधव २५०  
कैलाशसिंह 'कौशल' भ्रम और भ्राति ग्रथ भ १०० ना.  
कैलेड, विलियम काठक गृह्यसूत्र विश्वेश्वरानंद १०००  
कोदिया दे जैन, विमलकुमार कोदिया  
कोएस्लर, आर्थर योगी और लाल आखे एस चाद ३००  
कोकचा, हरनारायण अजातशत्रु एक अध्ययन (प्रश्नोत्तर)  
रीगल २५०  
कोकर आधुनिक राजनीतिक चिंतन अनु यादवेदु तथा मेहता.  
लक्ष्मी ना १२००  
कोकर, नवलकिशोर संस्कृत व्याकरण प्रवेश कल्याणमल.  
१२५  
कोकिल दे विद्यापति 'कोकिल'  
कोचर, श्रीनिवास दे आप्टे, एच एन  
कोछड, हरिवश अपभ्रंश-साहित्य एस चाद १०००  
कोटपाल, आर एल प्राणि विज्ञान परिचय स ५ भा. भा  
प्र १८७  
—तथा एस के राय कृषि जीव विज्ञान भा भा प्र  
४००  
कोठारी, एम एल तथा आर एस पटेल निगम वित्त. किशोर  
पब्लि १०००  
कोठारी, लक्ष्मण कागज और धागो के खेल. शकुन १.६०.  
कोठिया, दरबारीलाल दे सेन, नरेद्र  
कोतमिरे हिंदी गद्य के साहित्य रूपो का विकास कि महल.  
८५०  
कोमल दे गौड, पुरुषोत्तमदास 'कोमल'  
कोमल तथा शकर अद्भुत ससार की अनोखी घटनाए नव-  
चेतना १०० वप्र  
वापू के सपनों का भारत नवचेतना १०० वप्र  
भारत की आदर्श महिलाये नवचेतना १७५ वप्र  
कोरोलेन्को अधा सगीतज्ञ पीपुल्स ०८१ उ  
कोर्निटसर, बेला आइज़नहौवर एस. चाद १.००. वप्र.

नेल, विमला निबंधकार रामचंद्र गुप्ता और चिंतामणि.  
सरस्व पु. स २.२५  
नेलते, वि. भि. मराठी संतो का सामाजिक कार्य. हि. प्र. र.  
१.५०  
नेहली तथा गुप्ता ऐतिहासिक एटलस इ. प्रे २५०  
—तथा होडा. भौतिक विज्ञान. कि. महल. १२०० (अप्राप्य)  
—अनु. छोटा भाई दास ०.७५  
नेहली, तेजासिंह. ग्राम सेवक कोहली. ४.५०  
सरपंच. कोहली. ३.५०  
नेहली, द्रोणवीर कथक राजकमल १.४०. वप्र.  
मोर के पैर. राजकमल. १ २५. वप्र.  
लोक कथाए. राजकमल १ २५ वप्र.  
नेहली, द्रोणवीर. दे. चान तइन-यी.  
नेहली, द्रोणवीर दे. गिड, क्रिस्टॉफ वॉन.  
नेहली, सीताराम. महाराजा रणजीतसिंह. हिंदू. एकेडेमी.  
६५०. इति.  
नेहली, सीताराम दे गरोगदान  
नेहन, पलोरी सामान्य मनोविज्ञान. मोतीलाल. ३.००  
नेच्छड़, सतवत स्कूल प्रवच सा. सगम, लु. ४.४०  
नेटिय कांटिल्य अर्थशास्त्र. देहाती १०००  
नेतुक बनारसी (निवमूर्ति निव), १९२३- कलम की कमाई  
आनंद पु वा २५० नि  
कलम-कुल्हाडा आनंद पु, वा २५० नि  
नेल, गोपालकृष्ण अवध की लोक-कथाए भा १. आत्माराम  
१ २५  
दिनकर सृष्टि दृष्टि सहयोगी १०००  
निपाद और गवरी सस्ता ०.४० वप्र.  
निर्जा गालिव ०.४० वप्र  
नेल, गोपालकृष्ण. दे चौहान, निवदानसिंह  
नेल, गोपालकृष्ण दे भट्ट, सोमदेव  
नेल, नरेंद्रनाथ भारत और अंतर्राष्ट्रीय श्रम-संस्था राजकमल.  
३ २५  
समुक्त राष्ट्र-परिवार राजकमल १ ००  
नेल, पी एन दे चौधरी. एम एम  
नेल, गभूनाथ गणित प्रकाश ६ भा गयाप्रसाद ३ ७५  
नेल, प्यामनु दर सरल विज्ञान रा वेनीप्रसाद २ २५  
नेल दे कैलाससिंह 'कौशल  
नेल, रामकृष्ण. कमनीय किनौर कुमार सन्ज ३ २५  
नगना नन्मार्ग प्र २५० उ  
पथ के राती नन्मार्ग प्र २५० उ.  
नारु दामन कुमार सन्ज २ ७५ ना  
ने नाने के राते राजकमल (पा) १ ०० उ  
नेल रामकृष्ण शिवर का भजन और दूसरी कहानिया.  
आत्माराम. २ ०० वप्र  
नेल कि मे हिंदी गंगा २ ००  
नेल पी नेज और दूसरी कहानिया आत्माराम २ ००. वप्र.  
नेल पी लडाई और दूसरी कहानिया आत्माराम २ ००.  
वप्र.

महापुरुषों के दर्शन. नारदीय ३ २५ उ.  
लोभ का फल और दूसरी कहानिया आत्माराम. २.००.  
वप्र  
शरीर और उसकी रक्षा सर्वोदय ० ५०  
शिष्टाचार यूनिवर्सिटी. २ ००  
श्रीकृष्ण यूनिवर्सिटी २ ५०  
नन्नी बहादुरी और दूसरी कहानिया. आत्माराम. २ ००  
वप्र.  
साप और बदर की लडाई और दूसरी कहानिया आत्माराम  
२ ००. वप्र.  
नाहस की कहानिया. आत्माराम २.००. वप्र.  
साहस की विजय. यूनिवर्सिटी २ ५०  
कौशल, गकृतला. लोक प्रवासन (प्रश्नोत्तर) सगो स. २.  
मालवीय. ४ ७५  
कौशल्या अस्क अस्क : एक रंगीन व्यक्तित्व नीलाभ.  
१० ००. सस्म  
रोली रगे पत्र नीलाभ २.००  
—तथा उपेन्द्रनाथ अस्क दो धारा. नीलाभ ३ ५० क.  
कौशल्या अस्क दे. उपेन्द्रनाथ अस्क  
कौशावी. धर्मानंद, १८७६-१९४७ पार्ष्वनाथ का चातुर्याम  
धर्म. हि प्र र १ २५  
भगवान् बुद्ध राजकमल ५ ००  
भारतीय संस्कृति और अहिंसा हि य. र २.५०  
कौशिक सहस्र रसदर्पण श्यामलाल २ ५०  
कौशिक दे. गर्मा, विन्वभरनाथ 'कौशिक'  
कौशिक, आदित्येश्वर. अगोक वाल हिंदी शब्दकोश. हि सा  
स. ३.७५  
कौशिक, ऋषि जैमिनि 'वस्या', १९१९- जर्जर हथौडे आत्मा-  
राम ६.००. उ  
माखनलाल चतुर्वेदी भा जानपीठ ६ ०० जी  
कौशिक, राधेव्याम 'अधीर', १९४०- चपा के फूल कल्याण-  
मल १ २५ वप्र  
हिंदी के आचलिक उपन्यास मंगल ३ ००  
कौशिक, निवकुमार वैशाली की वनक पुत्री आत्माराम  
६ ५० उ  
कामल्यायन, भदत आनंद, १९०५- द्युआटून का चन. छात्र-  
हितकारी. ० ७५  
तथागत कि महल १.५० आ  
बुद्ध और उनके अनुचर छात्रहितकारी १ २५  
जातक हि. ना नन्मे भा १, ३ १० ०० (प्र) : भा २,  
४ ५ ८-०० (प्र) भा ६ ११ ००  
बहानेवाजी नीलाभ ३ २५ हा.  
भगवद्गीता की बुद्धिवादी प्रतीक्षा हन्. ५ ००  
महापुरुष पठित आत्माराम ३ ०० क  
नेल का टिप्ट आत्माराम २ १०. जी.  
—अट्ट पञ्चीन्या भद्र भा भं ६ ०० उ.  
महापुरुष हि ना नन्मे. ५ ५०  
—तथा सत्य गगरो हि ना नन्मे १.२५

क्राछल, कामिनी तथा जी पी शर्मा पद्य पुष्पाजलि प्रकाश  
गयाप्रसाद ५५०  
क्राछल, कामिनी दे अग्रवाल, ऊषा  
क्राछल, मनोरजन तथा सत्यनारायण अग्रवाल भारत उठ रहा  
है गयाप्रसाद १५० भूगोल  
क्राइमोव, यूरी नीव के पत्थर प्रभात प्र. ५०० उ  
क्रास्नोगोस्कासा, एल स्कूल से पूर्व बच्चो का लालन-पालन.  
राजकमल ३००  
क्रिश्चियन ब्रदर्स हिंदी ग्रामर एलाइड ४५०  
क्रुष्काया, न क शिक्षा पीपुल्स ०६४  
क्रो तथा क्रो निदर्शन एक परिचय एस चाद  
माध्यमिक स्कूलो मे शिक्षा एस चाद. ६००  
शिक्षा निदर्शन एस चाद १२००  
क्रोपाटकिन, प्रिंस क्राति की भावना सस्ता. २५०  
नवयुवको से दो वाते सस्ता ०५०  
रोटी का सवाल सस्ता ३००  
सघर्ष नहीं, सहयोग सस्ता २००  
क्लाइड सुदूर पूर्व एस चाद इति  
क्लार्क, ब्लेक दे फ्रैंक, मारिस  
क्षत्रिय, के वी खलगा खुकुरी और फिरगी. सा सदन, दे.  
३५० उ  
क्षमाराव सस्कृति गद्य-मजरी रतन २५०  
सत्याग्रह गीता रतन. ४००  
क्षितीश्वर सिंह भारत का इतिहास हिं प्रचा. पु. ८.००  
क्षीरज दे सुधीर 'क्षीरज'  
क्षेम छायावाद की काव्य साधना सा सेवक. ४.५०  
छायावाद के गौरव चिह्न. हिं प्रचा पु ६००  
क्षेमचंद्र 'सुमन' अष्टदल एस चाद १५० ए.  
एकाकी—सगम एस चाद १२५  
गल्प-माधुरी. श्री भा भारती ३२५ क.  
जीवन ज्योति बसल २५०. जी  
जीवन-स्मृतिया आत्माराम ३०० जी  
जैसा हमने देखा एस चाद १५० सस्म.  
नीर-क्षीर राजहस २५० ना  
नीरज राजपाल २०० जी  
रामावतार त्यागी राजपाल २०० जी  
मरल गद्य एम चाद २००  
—तथा परशुराम मनोरजक कहानिया श्री भा. भारती  
५००  
—तथा मल्लिक साहित्य-विवेचन आत्माराम ७००  
साहित्य-विवेचन के सिद्धांत आत्माराम ३५०  
—मपा आधुनिक हिंदी कवियत्रियों के प्रेमगीत राजपाल  
७००  
चीन को चुनौती राजपाल २००, (पा.) १.०० का.  
मानसरोवर राजकमल १.७५  
हिंदी के सर्वश्रेष्ठ प्रेमगीत राजपाल २००, (पा)  
१००  
—'सुमन' दे लक्ष्मीकांत 'मुक्त'

क्षेमचंद्र 'सुमन' दे विजयेद्र स्नातक  
क्षेमेद्र रामायण मजरी—सुदर काड. सा नि., का २.००-

## ख

खडेलवाल, गणपतराय श्रीमती मजरी देहाती ०७५ ना.  
खडेलवाल, दयाप्रसाद पदार्थ और शक्ति श्रीराम मेहरा  
३१२  
पदार्थ, शक्ति और विश्व श्रीराम मेहरा २५०-  
प्रारंभिक भौतिकी श्रीराम मेहरा ३५०  
खडेलवाल, दयाप्रसाद. दे वीचिंग, आर  
खडेलवाल, दामोदरदास वापू की बात सा सदन, चि-  
१००  
खडेलवाल, रामकुमार हिंदी काव्य और प्रयोगवाद. विनोद  
२.००  
खडेलवाल, रामेश्वरलाल 'तरुण', १९१९- आधुनिक-हिंदी  
कविता मे प्रेम और सौंदर्य नेशनल १२५०  
कविता मे प्रकृति चित्रण नेशनल ४००  
हिमाचला भा सा प्र २५० का  
खडेलवाल, रामेश्वरलाल दे विजयेद्र स्नातक  
खडेलवाल, श्याम तथा के शकरराव प्राथमिक सामान्य विज्ञान.  
भा ४ श्री सरस्वती १००  
—तथा श्रीनिवास मूर्ति प्राथमिक सामान्य विज्ञान भा. ३.  
श्री सरस्वती ०८०  
खडेलवाल, श्याम दे शकरराव, के  
खडगावत, नाथूराम तैमूर का लकड दादा नवयुग प्र. कु.  
०५० बप्र  
खत्री, एस पी अग्नेजी साहित्य का इतिहास हिं सा सम्मे  
३००  
आलोचना इतिहास तथा-सिद्धांत राजकमल ६००  
नाटक की परख सा भवन, इ ५०० आ  
साहित्य परिचय हिं प्रचा पु ३००  
सितारो की वारात हिं प्रचा पु १.२५ बप्र.  
—तथा शिवदानसिंह चौहान आलोचना इतिहास तथा अध्-  
यन स २ राजकमल १०००  
खत्री, दुर्गाप्रसाद आकृति विज्ञान लहरी १००  
कलक-कालिमा लहरी १०० उ  
काला-चोर लहरी ३०० उ.  
प्रतिशोध लहरी १५० उ.  
वलदान लहरी १०० उ  
माया लहरी ४०० उ  
रक्त-मडल २ ख लहरी. ८००. उ  
रोहतासमठ २ ख लहरी विशिष्ट स ८००. उ  
लाल पजा प्रचा पा १.०० उ, —लहरी.  
३.००  
ससार-चक्र लहरी १००. उ.  
साकेत. लहरी ३०० उ

सागर-सम्राट्. लहरी. ३.०० उ.  
 सुफेद-शैतान २ ख लहरी ८०० उ.  
 सुवर्ण-रेखा लहरी. ३००. उ  
 स्वर्ण-पुरी लहरी ३०० उ  
 खत्री, देवकीनदन चद्रकाता. लहरी. विशिष्ट स-२.००; राज.  
 स २.५०, — —रामलोचन (पा) १०० उ  
 चद्रकाता सतति. ६ ख लहरी विशिष्ट स. १८.००, — —  
 रामलोचन (पा) १०० उ  
 भूतनाथ ७ ख लहरी विशिष्ट स २५००,  
 एक ख. ३६० उ., — —रामलोचन (पा) १००. उ  
 खत्री, देवीप्रसाद मनुष्य शरीर की श्रेष्ठता छात्रहितकारी.  
 ०.५०  
 खत्री, बिदाप्रसाद. गुरुपद-शिक्षण. न्यू लिट २०० स्काउट.  
 खत्री, श्यामसुंदर रेणु ज्ञानमंडल. ५.००. का  
 खन्ना, एम एल गति विज्ञान एस. चाद २.००  
 चलन कलन. एस. चाद. १.२५  
 त्रिकोणमिति. एस चाद. २००  
 नियामक ज्यामिति एस चाद. २.००  
 बीज गणित एस. चाद. २००  
 स्थिति विज्ञान एस चाद २५०  
 खन्ना, के. पी सिंह, सपा सरल हिंदी. रा. वेनीप्रसाद.  
 २.५०-  
 खन्ना, गोपाललाल. काव्यकला. इ. प्रे. २.००  
 काव्य-कलाप. इ प्रे. १.००.  
 हिंदी का सरल भाषा-विज्ञान. ना प्र. सभा. ३.००  
 हिंदी रचना की शिक्षा. भा प्र मंदिर २००  
 हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास इ प्रे २.००  
 खन्ना, नारायणदास, सपा. भूषण-ग्रथावली. गगा. ८.००  
 खन्ना, बृजेद्र बालू के टीले हि. प्रचा. पु. ५०० उ  
 खन्ना, वेदपाल हिंदी-नाटक-साहित्य का आलोचनात्मक अध्य-  
 यन श्री भा. भारती. १२००  
 खन्ना, शैल तथा अन्य भोजन बनाना सीखो. आत्माराम.  
 ३००  
 खन्ना हरिश्चंद्र. अमर वेल. नेशनल ३०० ना.  
 रेडियो-नाटक आत्माराम ६.५०  
 खमानीसिंह 'धनगर' बदलती दुनिया नवीनतम  
 खरले, इरमैन गौड वेजमिन फ्रेकलिन एस. चाद १५०. वप्र  
 खरावगी, धर्मचंद युरोप मे सात मास हिं पु ए ३००  
 खरे तथा श्रीवास्तव चुवकत्व एव विद्युत्त्व आत्माराम  
 खरे, इद्रवहादुर विजन के फूल लोक चेतना ३००  
 खरे, गणेश. प्रसाद के प्रगीत नद स ६००  
 खरे, दिनेश अंतर्राष्ट्रीय संगठन का इतिहास दि पु स ७००  
 रक्त सगम. आत्माराम ३.०० ए.  
 सामाजिक विचार धाराएं दि पु स १०००  
 खरे, नर्मदाप्रसाद कथा कलश गयाप्रसाद १५०  
 काव्य मजरी रा वेनीमाधव १७५  
 ज्योति गगा लोक चेतना १५० गीत  
 \*\*\*तो स्वराज्य हो गया. गयाप्रसाद १.५०. क

नीराजना न्यू लिट. १७५ क.  
 रत्नराशि गयाप्रसाद १५० जी.  
 रोटियो की वर्षा लोक चेतना २०० क.  
 स्वर पाथेय रा वेनीमाधव २५० का.  
 खरे, नर्मदाप्रसाद दे जहूरबख्श.  
 खरे, नर्मदाप्रसाद दे बख्शी, पद्मलाल पुन्नालाल  
 खरे, नानकशरण तथा विष्णुकमार गगल प्रायोगिक भौतिकी  
 की मौखिक प्रश्नोत्तरी आत्माराम ३००  
 खरे, पी एन ग्रामीण समाजशास्त्र गयाप्रसाद ५००  
 नगरीय समाजशास्त्र गयाप्रसाद ५००  
 खरे, पुरुषोत्तम सृजन के पीडित क्षणों मे लोक चेतना १५०  
 का  
 खरे, वी डी. दे पवार, वी ए  
 खरे, हरप्रसाद दे श्रीप्रकाश.  
 खलील जिब्रान, १८८३-१९३१. अगुआ और बनपशे का फूल  
 राजहस ३.००  
 आसू और मुसकान सस्ता. १००  
 आसू और मुस्कराहट सहगल २७५  
 उसने कहा रूपकमल २००  
 घाटी की परिया हिं सा स ३१२  
 जीवन दर्शन राजपाल १५०  
 जीवन सदेश सस्ता १२५  
 धरती के देवता सस्ता १००  
 पागल सहगल १५० क  
 यात्री राजपाल. २०० क  
 रेत और भाग. राजपाल २००  
 विद्रोही आत्माएं. नवयुग प्र. २.५०. क, — —वोरा.  
 २.७५  
 सुवह के बादल नवयुग प्र १५० क.  
 खा, ए ए नागरिकशास्त्र का अध्ययन सुरेश ४५०  
 समाजशास्त्र का सरल अध्ययन सुरेश ४.५०  
 खांडेकर, वि स आसू देशमुख. ६००  
 उत्का देशमुख ६००  
 कलिका. देशमुख ६००  
 कल्पलता देशमुख ५००  
 कौचवध देशमुख ६.००  
 चादनी देशमुख ७००  
 भूलसी मजरी देशमुख. ५००  
 दो ध्रुव देशमुख ६००  
 दो मन देशमुख ६००  
 पहला प्रेम देशमुख ४५०  
 प्रीति की खोज देशमुख ५००  
 ययाति देशमुख १०.००  
 रूपहले बादल देशमुख ५.००  
 सध्या दीप देशमुख ६००  
 सुख की खोज देशमुख. ४.५०  
 सूना मंदिर देशमुख ४.५०  
 हरा चपा देशमुख ६००



- खाडिलकर कीचक वध् मध्यप्रदेश शासन १४० ना  
खाडिलकर, रा र आधुनिक पत्रकार कला. ज्ञानमडल  
४००  
गणित चमत्कार ज्ञानमडल ४००  
वदलते रूस मे ज्ञानमडल ३५० या  
रेडियो ना प्र सभा १००  
खान, आई ए तथा वी के कुमावत औद्योगिक सन्नियम सा.  
भवन, आ ५६२  
खान, ए एच कृपि तथा उद्यान शिक्षण रा वेनीमाधव १००  
खानावदोश दे तिलक खानावदोश  
खामोश दे रामलाल 'खामोश'  
खारैड, महतावचद, सपा रघुनाथ रूपक गीतारो. ना प्र सभा  
२५०  
खुराना, लक्ष्मीचद तुलसी रत्नावली श्री भा भारती १.५०  
का  
खुल्लर, मदनमोहन कला रूप और प्रेम सा. सदन, दे १५०  
क  
खुशदिल भूगोल शिक्षण रामा बुक २००  
खुशदिल, एम आकाश गंगा समाज १००. का  
गाव के खडहर समाज २०० क  
नया इसान समाज १५० का  
युग दीपक समाज १०० का  
ये आवारा कुत्ते समाज ३०० नि  
शिक्षा निबधमाला समाज २२५  
समाज उत्थान भा १ समाज ३५०  
सूरज का वेटा समाज २०० का  
खुशवतसिंह पाकिस्तान मेल अनु प्राणनाथ सेठ वसल ५००  
उ.  
खेमका, प्रह्लादराय छद अलकार सिद्धि कृष्णा व ०५०  
खेमका, मदनलाल मीर कासिम ज्ञानोदय २५० उ  
खोमला, रोगन अर्थशास्त्र के सिद्धात यनिर्वसिटी ४१०  
आधुनिक आर्थिक सिद्धात यूनिर्वसिटी ७५०  
प्री-यूनिर्वसिटी अर्थशास्त्र यूनिर्वसिटी ७००  
भारत की अर्थव्यवस्था यूनिर्वसिटी २५०  
भारतीय कृपि व उद्योग की समस्याए यूनिर्वसिटी २५०
- ग**
- गगराडे, एम एल आधुनिक अकगणित लक्ष्मी ना ५००  
गगराडे, पी नी तथा एस डी वाजपेयी प्रारभिक स्थिति  
विज्ञान तथा गति विज्ञान लक्ष्मी ना ३००  
नमतत त्रिकोणमिति लक्ष्मी ना ३५०  
गगल, विष्णुकुमार दे खरे, नानकगरण  
गगवार, आर वी सरल वनस्पति विज्ञान रतन २५०  
गगवार, आर वी दे शेरी, चद्रमोहन  
गगुवाल तथा माथुर मरल अक प्रकाश. स १०. कल्याणमन  
१०४०, भा २०६०

- गगाधर, मधुकर फिर से कहा पारिजात २५० उ  
मोती वाले हाथ राजकमल ३०० उ  
सुबह होने तक पारिजात ३०० उ  
गगाप्रसाद कृषि-मित्र गगा १२५  
गरुड पुराण की आलोचना आर्य सा ०५०  
धर्म की आदि स्रोत सशो स ५ आर्य सा २००  
वाल-निबध-माला इ प्रे १००  
मेरी आत्म-कथा आर्य सा २००  
वैदिक धर्म और विकास आर्य सा १००  
गगाशरण 'प्रेम' खट्टी मीठी लोरिया स. २ राष्ट्रीय प्र  
मदिर १०० वप्र  
गगासहाय 'प्रेमी' नवीन वाल व्याकरण रामप्रसाद ०.५०  
गगासिंह अपूर्व प्रतिकार स ३ नेचर ०७५ इति  
गगेशोपाध्याय केवलावयी प्रकरण मोतीलाल ४००  
गगोपाध्याय, उपेद्रनाथ सत्याग्रही इ प्रे १५०. उ.  
गधर्व आत्मविश्वासी बनो सहगल ३५०  
गधे, न ग भारतीय इतिहास के रत्न मानकचद. भा १  
०३७, भा २ ०६२ वप्र  
गभीर अलकार चार्ट हिं सा स ०३७  
गभीर, आई आर हायर सेकेडरी रसायन शास्त्र सशो.  
स २ केदारनाथ ७००  
गभीरानंद, स्वामी श्रीमा सारदादेवी श्रीरामकृष्ण (अद्वैत  
आश्रम, ५ दिही एन्टैली रोड, कलकत्ता-१४) ६५०  
गजाधरप्रसाद तथा मदनमोहन शर्मा प्रायोगिक भौतिक शास्त्र  
केदारनाथ ४००  
गजानन महादेव महाजनो की कहानिया इ प्रे १५० वप्र  
गजानन शास्त्री हितोपदेश सुहृद गयाप्रसाद २००  
गट्टी, सुगनचद दे भागीरथमल  
गढहोक, सुमित्रा पूनम का चाद रूपकमल ३७५ उ  
गणपतराय दे सत, गोकलचद्र  
गणपतलाल सावुन शिक्षा देहाती २५०  
गणेशदत्त दे रस्तोगी, जगदीशशरण  
गणेशदत्त 'इद्र' अक्षर शास्त्र प्रभात पब्लि ३००  
अभिनय के चित्र मानकचद ०८७ वप्र  
अभिनय चतुर्दशी पु भ ३५०  
वाल रगमच मानकचद ०८७ वप्र  
योगसन गोविंदराम १००  
रगमच के खेल मानकचद ०८७ वप्र  
गणेशदास फतेहनामा गुरु खालसा जी का रूपा सीताराम  
कोहली विश्वेश्वरानंद ३६०  
गणेशन, एस एन हिंदी उपन्यास साहित्य का अध्ययन  
राजपाल १२००  
गणेशप्रसाद सिंह हमारी शिक्षा हि प्रचा पु ६५०  
गणेशमुनि शास्त्री आधुनिक विज्ञान और अहिंसा आत्माराम  
३५०  
गणेश शास्त्री डा राजेद्र प्रसाद ग्रथ भ. ०७५ जी.  
गदाधरेसिंह कादवरी इ प्रे ०७५ उ,  
गर्ग दे शर्मा, गिरधारीलाल 'गर्ग'

—तथा मुरारी. पाच एकाकी. विनोद. १००  
 गर्ग, आर पी सजीवनी कृष्णा ब्र २५० आ  
 गर्ग, एम. एल. भारतीय कला का सक्षिप्त इतिहास. गुप्ता ब्रा  
 १.५०  
 गर्ग, कमलादेवी तुलसी परिचय बगीय ० ६२  
 प्रेमचंद प्रतिभा बगीय. २.००  
 बिहारी-वैभव आत्माराम १.२५  
 गर्ग, कातानाथ आधुनिक व्यापार कि महल. ५ ७५  
 इटरमीजियट बैकिंग कि महल ५००  
 द्रव्य, करसी, विनिमय कि महल ३००  
 बैकिंग सिद्धांत और प्रयोग कि महल ३५०  
 वारिण्य शब्द कोष कि महल १५०  
 सरल बैकिंग कि. महल ३००  
 सरल व्यापारिक पद्धति कि महल १५०  
 गर्ग, किशोर अकल बहादुर स ३ रानी १५०  
 अचरज लोक स ४ रानी १.५०. बप्र  
 अद्भुत कुर्सी. स ३ रानी १.५० बप्र  
 एक सत्य अनेक रूप. स २ रानी. २५० सस्कृति.  
 कठपुतला स. ४ रानी १५० बप्र  
 गुलाब और अगूठी स ४ रानी १५० बप्र  
 चालाक खरगोश. स. ३ रानी १.५०. बप्र  
 छोटे-बड़े जानवर. स. २ रानी ३.००  
 छौना स. ४ रानी. १५०. बप्र.  
 जलबालक. स. २. रानी. १.५०. बप्र.  
 जादू का देश. स. २. रानी. १.५०. बप्र.  
 निम्मी स. ४. रानी १.५० बप्र.  
 प्रेरी के मैदानो मे. स. ३ रानी. २.५०. बप्र.  
 बगुलाशाह. स ३. रानी १.५०. बप्र  
 बनबिलाव. स. ४. रानी. १.५०. बप्र  
 ब्राजील के वनो मे. स. ३ रानी. २५० बप्र  
 भेडिया—बालक स ४ रानी. १.५०. बप्र  
 मीनू. स. ३ रानी. १.५०. बप्र.  
 रग-बिरगी चिडिया. स ३. रानी २.५०  
 लोमडी सयानी. स. २ रानी १५०. बप्र  
 श्यामू. स ४. रानी. १५०. बप्र.  
 ससार के चिडियाघर मे. स. ३. रानी २.५०. बप्र  
 साहसी दिप. स ४. रानी. १.५०. बप्र.  
 सोनिया और सात बौने. स. २ रानी १.५०. बप्र.  
 स्वर्ण नदी का राजा स. ५ रानी. १५०. बप्र.  
 हिमरानी स. ४. रानी. १.५० बप्र.  
 गर्ग, किशोरीलाल दे. केला, ओमप्रकाश  
 गर्ग, के. एन तथा एस सी मीतल व्यवसाय प्रणाली. गया-  
 प्रसाद. २.२५  
 गर्ग, जगदीशशरण एग्रीकल्चर इजिनियरिंग कि. महल. ४००  
 गर्ग, जे एस कृषि इजीनियरिंग. भा. पब्लि. १०.००  
 कृषि प्रसार एव सामुदायिक विकास. गयाप्रसाद. १२.५०  
 गर्ग, डी. सी तथा हजारीसिंह. सामान्य ज्ञान हिं. प्रचा. पु.  
 ३.००

गर्ग, दमयती. लेखन-कला रीगल. ४.००  
 गर्ग, निर्मल. कोठी के धान. अनुपम. १.००. बप्र  
 गर्ग, पदमचंद. सेवासदन आलोक. लक्ष्मी ना. १.५०  
 गर्ग, पन्नालाल. विधाता की भूल कि. महल २.००. क  
 गर्ग, पी. एन माध्यमिक सरल रसायन शास्त्र प्रश्नोत्तरी  
 (कार्बनिक) गयाप्रसाद. ३००  
 —तथा एस. एन. महरोत्रा माध्यमिक सरल रसायन शास्त्र  
 प्रश्नोत्तरी (भौतिक तथा अकार्बनिक) गयाप्रसाद. ३.००  
 गर्ग, प्रभूलाल, सपा. ताल-अक. सगीत ४००  
 सगीत सागर. स ७ सगीत. ६.००  
 गर्ग, माखनलाल गुप्त शाही दृश्य ना प्र. सभा. ३.००. जी  
 गर्ग, यतेंद्रकुमार नीति कथाए भा. प्र मंदिर ०.६२  
 गर्ग, लक्ष्मीनारायण. आवाज सुरीली कैसे करे. सगीत. ३.००  
 कथक नृत्य. सगीत ८.००  
 भारत के लोकनृत्य. सगीत. ५.००  
 सिने सगीत. भा १. सगीत. ४००  
 हमारे सगीत रत्न सगीत. १५.००  
 —सपा. आसावरी थॉट अक. सगीत २.५०  
 काफी थॉट अक. सगीत २५०  
 खमाज थॉट अक. सगीत. २.५०  
 तोडी थॉट अक सगीत २५०  
 पूर्वी थॉट अक. सगीत. २.५०  
 फिल्म सगीत. भा. २६. सगीत ४.००  
 भातखडे स्मृति अक सगीत १.००  
 भैरवी थॉट अक. सगीत. २५०  
 मारवा थॉट अक. २५०  
 सगीत निबधावली भा. १. सगीत. २.००  
 'सगीत' रजतजयती अक. सगीत ५.००  
 सहगल सगीत. सगीत. २.५०  
 सूर सगीत २ भा सगीत. १.५० (प्र)  
 हरिदास-अक. सगीत. १००  
 गर्ग, लक्ष्मीनारायण दे शारगदेव, आचार्य.  
 गर्ग, लक्ष्मीनारायण दे. सक्सेना, महेशनारायण.  
 गर्ग, सुरेशचंद्र. भारतीय बाल-चित्राकन. सर्वोदय सा ३.००  
 शिल्प-निरूपण. सर्वोदय सा. २.५०  
 गर्ग, सूर्यभान. आकिक भौतिक विज्ञान. एस चाद. ३.५०  
 गर्ग, सूर्यभान. दे. शीतलाप्रसाद  
 गर्ग, हरीराम भिक्षा ज्ञान मडल प्र. १.२५. ना.  
 गर्ग, लक्ष्मणनारायण प्रजातत्र ग्रथमाला. २००  
 गवर्धन सिंह, मेजर. गोरी. नेशनल. ३००. उ  
 गहमरी दे महावीरप्रसाद गहमरी.  
 गहराना, जी. के. तथा यदुनदन कपूर. राज विज्ञान परिचय.  
 भा. प्र मंदिर. ६.५०  
 गहलोत, जगदीशसिंह, १९०३-१९५८. अमर काव्य. स. ३.  
 हिं सा म, जो ४.००  
 ऐतिहासिक तिथि पत्रक भा. १ हिं. सा. म, जो. २५.००  
 कोटा राज्य का इतिहास. हिं. सा. म, जो. ५.००  
 बदी राज्य का इतिहास. हिं. सा. म., जो ४.००

मारवाड राज्य का इतिहास स २ हि सा. म, जो ५००  
 मेवाड राज्य का केंद्रीय शक्तियों से संबंध हि. सा म, जो  
 २००  
 राजपूताने का इतिहास ५ भा हि सा म, जो भा १  
 १५००, भा २ १०००  
 राजस्थानी कृषि कहावते स ५ हि सा म, जो २००  
 राजस्थानी लोक गीत स २ हि सा म, जो ५००  
 राजस्थानी वार्तालाप हि सा म, जो २००  
 राजिया के सोरठे स ३ हि सा म, जो ०५०  
 सिरोही राज्य का इतिहास हि सा म, जो ३००  
 गहलौत, रणवीरसिंह दे गहलौत, सुखवीरसिंह  
 गहलौत, सुखवीरसिंह नामांतरण हि सा म, जो १५०  
 भारतीय इतिहास में काल गणना हि सा म, जो  
 ४००  
 राजस्थान भूमिसुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम हि  
 सा म, जो २५०  
 राजस्थान में भूमिसुधार कानून हि सा म, जो ०५०  
 —तथा जी आर परिहार प्राचीन भारत के सांस्कृतिक केंद्र  
 हि सा म, जो ५००  
 —तथा दाऊलाल सेहीवाल राजस्थान में जागीरदारी उन्मूलन.  
 हि सा म, जो ५००  
 —तथा रणवीरसिंह गहलौत प्रशासन व विधि शब्दावली.  
 हि सा म., जो ५००  
 गांधी आजादिय हिंदू अ भा सर्व ०८०  
 गांधी, ए एल नागरिक शास्त्र प्रवेशिका कृष्णा ब्र पार्ट १.  
 २७५, पार्ट २ २८७  
 गांधी, ए एल दे औदित्य, एस एल  
 गांधी, कृष्णादास कताई गणित अ भा सर्व भा १. १००  
 भा २-४. ०७५ (प्र)  
 ग्रामोदय खादी सघ अ भा सर्व ०२५  
 घरेलू कताई की आम गिनतिया अ भा सर्व ०७५  
 घरेलू कताई की आम बातें अ भा सर्व १२५  
 गांधी, देवदास वा, वापू और भाई सस्ता ०५०  
 गांधी, प्रभुदास खादी द्वारा ग्राम-विकास सस्ता ०७५  
 जीवन-प्रभात सस्ता ५००  
 गांधी, मनुवहन अतिम भाकी अ भा सर्व १५०  
 एकला चलो रे नवजीवन २००  
 कलकत्ते का चमत्कार नवजीवन १००  
 वा और वापू की शीतल छाया में नवजीवन २५०  
 वापू और वा की अतिम भाकी नवजीवन ०८०  
 वापू की गृह माधुरी अ भा सर्व ०३०  
 वापू की ये बातें २ भा नवजीवन ०७५ (प्र)  
 वापू के जीवन-प्रसंग नवजीवन ०५०  
 वापू के जीवन में प्रेम और श्रद्धा अ भा सर्व ०३० वप्र  
 वापू के सस्मरण शिवलाल ०५०  
 वापू—मेरी मा नवजीवन ०६२  
 बिहारकी कौमी आगमें नवजीवन ३००  
 महात्मा दे गांधी, मोहनदास करमचंद.

गांधी, मोहनदास करमचंद, १८६९-१९४८ अग्रर. में डिक्टेटर  
 होता सस्ता ०३०  
 अछूत-समस्या गंगा एव प्रभात पब्लि २००  
 अनासक्तियोग सस्ता ०७५  
 अनीति की राह पर सस्ता १००  
 अमृतवाणी साधना सदन १५०  
 अस्पृश्यता नवजीवन ०२०  
 अहिंसक समाजवाद की ओर नवजीवन १००  
 अहिंसा सा साधना २००  
 अहिंसा का पहला प्रयोग नवजीवन १५०  
 आज का विचार २ भा सस्ता ०७४  
 आत्मकथा अ भा सर्व २००, सक्षिप्त ०७५, —  
 सस्ता सपूर्ण ४००, सक्षिप्त १००  
 आत्मसंयम प्रभात प्र २००, — सस्ता ३००,  
 — सा साधना २००  
 आरोग्य की कुजी आरोग्य एव नवजीवन ०४४  
 आरोग्य साधन हि पु ए ०८८  
 आर्थिक और औद्योगिक जीवन उसकी समस्याएँ और हल.  
 नवजीवन ४००  
 आश्रम-जीवन नवजीवन ०७५  
 आश्रमवासियों से सस्ता ०४०  
 ईसा—मेरी नजरमें नवजीवन ०३५  
 एक सत्यवीर की कथा सस्ता ०२५  
 कगाली ऐसे दूर होगी सस्ता ०३०  
 कताई यज्ञ है सस्ता ०३०  
 कांग्रेस और उसका भविष्य नवजीवन ०४०  
 कुदरती उपचार नवजीवन ०८०  
 खादी क्यों और कैसे? नवजीवन २००  
 खादी पहनो सस्ता ०३०  
 खुराक की कमी और खेती नवजीवन २५०  
 गांधीजी भा १ अहिंसा भा २ श्रद्धाजलिया. भा ३.  
 अहिंसा हि प्रचा पु १५० (प्र)  
 गांधीजी की सक्षिप्त आत्म-कथा नवजीवन ०६०  
 गांधी भजनमाला देहाती ०५०  
 गांधी मीमांसा प्रभात प्र १५०  
 गांधीवाद की विवेचना हि प्रचा पु १५०  
 गांधी विचाररत्न सस्ता ३५०  
 गांधी-विचार-सार नवजीवन ०५०  
 गांधी-शिक्षा सस्ता भा १ ०२५, भा. २ ०३०; भा  
 ३ ०३७  
 गावों की मदद में नवजीवन ०४०  
 गीता और विश्व धर्म स २ हि प्रचा म १२५  
 गीता का संदेश नवजीवन ०३०  
 गीताबोध नवजीवन ०५०, — सस्ता ०५०  
 गीता-माता सस्ता ४००  
 गोखले—मेरे राजनीतिक गुरु नवजीवन ०५०  
 गोसेवा नवजीवन १५०  
 ग्राम-सेवा सस्ता ०३७

ग्राम-सेवा यों करे. सस्ता ० ३०  
 ग्रामोद्योग नवजीवन ० ३०  
 जीवन-कथा प्रभात प्र ० ७५  
 त्याग का सदेश नवजीवन ० ३५  
 दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास सस्ता ३ ५०  
 दरिद्रनारायण पु भ २००  
 दिल्ली-डायरी नवजीवन ३००  
 देश-सेवको के सस्मरण सस्ता १ २५  
 धर्म और नीति स २. हिं प्रचा म ० ५०  
 धर्म-नीति. सस्ता २००  
 नई तालीम की ओर नवजीवन १.००  
 नीति-धर्म सस्ता ०.३७  
 नीति धर्म अथवा धर्म नीति आदर्श पु म ० २५  
 पचायत राज. नवजीवन ० ३०  
 पद्रह अगस्त के बाद सस्ता २००  
 पुण्य-स्मृतिया छात्रहितकारी १००  
 प्रजातंत्र सच्चा और झूठा नवजीवन १००  
 प्रार्थना का महत्त्व पु भ १ ७५  
 प्रार्थना-प्रवचन. सस्ता भा. १ ३००; भा २. २५०  
 बापू की कलम से नवजीवन २५०  
 बापू की सीख सस्ता ० ५०  
 बापू के पत्र—१ आश्रम की बहिनोको नवजीवन. १ २५  
 बापू के पत्र—२ सरदार वल्लभभाई के नाम नवजीवन  
 ३००  
 बापू के पत्र—३ कुसुमबहन देसाई के नाम नवजीवन.  
 १.२५  
 बापू के पत्र—४. मणिबहन पटेल के नाम नवजीवन १ ५०  
 बापू के पत्र—५. कुमारी प्रेमाबहन कटक के नाम नवजीवन  
 ४.००  
 बापू के पत्र—६ बीबी अमनुस्सलाम के नाम. नवजीवन  
 ३.००  
 बापू के पत्र मीरा के नाम नवजीवन ३.००  
 बालपोथी नवजीवन. ०.३०  
 बुनियादी शिक्षा नवजीवन १ ५०  
 ब्रह्मचर्य (बडी) सपा श्रीचंद रामपुरिया. जैन श्वेतावर  
 १ २५  
 ब्रह्मचर्य सस्ता. भा १. १ ००, भा.२ ०.७५  
 ब्रह्मचर्य के अनुभव देहाती. ० ७५  
 ब्रह्मचर्य के नियम हिं प्रचा. म ०.२५  
 भारत की खुराक की समस्या. नवजीवन. १ ५०  
 भारत के नये राज्य नवजीवन ० ३५  
 भारतीय विद्यार्थियों को सदेश नवजीवन ० ५०  
 भाषावार प्रात. नवजीवन. ०.२५  
 मंगल प्रभात अ भा सर्व ० २५; — —नवजीवन. ०.३७;  
 — —सस्ता. ०.३७  
 महिलाओं से सा. साधना. ५ ००  
 मेरा जीवन. मातृ-भाषा. १.२५  
 मेरा धर्म. नवजीवन. २.००

मेरा प्रारंभिक जीवन. रा बेनीमाधवे. १ २५  
 मेरा राम मातृ-भाषा. १.५०  
 मेरा समाजवाद नवजीवन ० ४०  
 मेरी अग्नि परीक्षा मातृ-भाषा. १.५०  
 मेरी राय. अ. भा. सर्व २ ५०  
 मेरे जेल के अनुभव (दक्षिण अफ्रीका) नवजीवन. ०.७५  
 मेरे सपनों का भारत. नवजीवन. २.५०  
 मेरे समकालीन. सस्ता. ५.००  
 मोहन-माला नवजीवन. १.२५  
 यरवडा के अनुभव. नवजीवन. १.००  
 रचनात्मक कार्यक्रम नवजीवन. ०.३७  
 रामनाथ. नवजीवन ० ५०  
 राम नाम की महिमा स. ५. हि. सा. म. १.००  
 राष्ट्रभाषा हिंदुस्तानी नवजीवन. १.५०  
 वर्ग-व्यवस्था. नवजीवन. १.५०  
 विद्यार्थियों से नवजीवन. २.००, — —सा साधना. ५ ००  
 विद्यार्थी क्या करे. मातृ-भाषा १ ५०  
 विवाह समस्या स्त्री जीवन. मातृ-भाषा. १.५०  
 विश्वशांति का अहिंसक मार्ग नवजीवन. ० ४०  
 शराब बंदी करे सस्ता ०.३०  
 शराबबंदी होनी ही चाहिये. नवजीवन. ० २५  
 शरीर-श्रम नवजीवन. ०.२५  
 शाकाहार का नैतिक आधार. नवजीवन ०.२५  
 शिक्षा ऐसी हो सस्ता ० ३०  
 शिक्षा का आदर्श प्रभात प्र २.००  
 शिक्षा का माध्यम. नवजीवन. ०.२५  
 शिक्षा की समस्या नवजीवन २ ५०  
 शिक्षा में अहिंसक क्रांति. अ भा सर्व १.००  
 सतति-नियमन सही मार्ग और गलत मार्ग. नवजीवन. ०.४०  
 सपूर्ण गांधी वागमय. नवजीवन एव प्र विभाग. भा. १-२.  
 साधारण ३ ००, सजिल्द ५.५० (प्र.); भा. ३-१०.  
 ७ ५० (प्र.)  
 सयम और सतति-नियमन. नवजीवन. ३.००  
 सयम बनाम भोग. मातृ-भाषा १.५०  
 सरक्षकता का सिद्धांत. नवजीवन. ० ३०  
 सचित्र हरिजन समस्या. मातृ-भाषा १.५०  
 सच्ची शिक्षा. नवजीवन २.००  
 सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा नवजीवन. ३.००  
 सत्य ही ईश्वर है नवजीवन. ० ८०.  
 सत्याग्रह आश्रम का इतिहास नवजीवन. ० ८०  
 सफाई की दीक्षा. गांधी हिंदु ० ५०  
 समाज में स्त्रियों का स्थान और कार्य. नवजीवन ०.२५  
 समाज सेवा. सा. साधना. १ ००  
 सर्वोदय. नवजीवन २.००, — —सस्ता ० ३७  
 सर्वोदय (रस्किन के 'अन्टू दिस लास्ट' के आधार पर) नव-  
 सर्वोदय का सिद्धांत. नवजीवन. ०.६२ [जीवन. ०.३५  
 सहकारी खेती नवजीवन. ०.२०  
 साम्यवाद और साम्यवादी. नवजीवन. ०.२०

सुवर्णदान नवजीवन ० ४०  
 स्वराज्य में अछूत कोई नहीं सस्ता ० ३०  
 स्वास्थ्य-साधन सा साधना २ ००  
 स्वेच्छा से स्वीकार की हुई गरीबी नवजीवन ० ३५  
 स्त्रियाँ और उनकी समस्याएँ नवजीवन १ ००  
 स्त्रियाँ यह करे. सस्ता ० ३०  
 स्त्रियों की समस्याएँ साधना सदन १ ५०  
 हडतालें नवजीवन ० ३०  
 हमारा राष्ट्रीय झंडा मातृ-भाषा  
 हमारी मांग सस्ता १ ००  
 हमारी शिक्षा का आदर्श सा साधना २ ००  
 हमारी शिक्षा की समस्याएँ सा साधना २ ००  
 हमारे गाँवों का पुनर्निर्माण नवजीवन १ ५०  
 हरिजन-बधु ग्रथमाला ० ६२ वप्र  
 हरिजन सेवकों के लिए नवजीवन ० ३७  
 हिंद स्वराज्य नवजावन ० ७०, — — सस्ता ० ७५  
 हृदय-मथन के पाँच दिन सस्ता ० ३०  
 गांधी, सुभद्रा भूदान-पौथी अ भा सर्व ० २५  
 हमारे युग का भस्मासुर अणुबम अ भा सर्व ० ५०  
 गांधी, हरकिशनदास आसन चिकित्सा हिं अ र ४ ००  
 आहार चिकित्सा हिं अ र  
 दापत्य रहस्य कि महल ५ ००  
 गागरिन, यूरी सुदूर अंतरिक्ष के पथ पर अनु महाव्रत विद्या-  
 लकार हर्ष ४ ००  
 गाडगिल, काका एक हजार वर्ष बाद रणजीत ३ ००  
 गाडगिल, नरहर विष्णु, १८६६- आधुनिक राज्य तथा  
 स्वतंत्रता एस चाद ७ ००  
 फुरसत के क्षण सस्ता नि  
 सभा-शास्त्र आत्माराम ६ ००  
 स्मृति-शेष आत्माराम ३ ०० जी  
 गाडगिल, नारायण द आख-मिचौनी एस. चाद ४ ५०  
 उ  
 गावा, सुमित्रादेवी. शकृतला की नई कशीदाकारी ३ भा.  
 राजपाल १ ५० (प्र)  
 गार्गी, परितोप गार्गी के बाल नाटक आत्माराम १ ५०  
 छलावा आत्माराम ३ ०० ना  
 छाया आत्माराम २ ०० ना  
 मोहिनी आत्माराम १ ५० ना  
 गार्गी, परितोप दे सतोप  
 गार्गी, सतोप सूम का घडा आत्माराम १ ०० वप्र  
 गार्गी, सतोप दे मोपामा  
 गार्नर राज्य-विज्ञान और शासन अनु बी एन मेहता लक्ष्मी  
 ना १६ ००  
 गार्सा द तासी हिंदुई साहित्य का इतिहास अनु लक्ष्मीसागर  
 वाष्णोय हिंदु एकेडेमी ७ ००  
 गालवीय, मोमदत्त आइये सयुक्ताधर पढे आत्माराम ३.५०  
 आइये हिंदी पढे आत्माराम २ ५०  
 आइये हिंदी सीखें आत्माराम ६ ००

गालिव (मिर्जा असादुल्ला खान) १७६७-१८६६. गालिव  
 के खत राजरजना  
 जीवनी और सकलन राजपाल १ ५०  
 दीवान-ए-गालिव राजपाल. २ ००, — — हिंद पा १ ००  
 का  
 गाल्सवर्दी सेव का वक्ष गगा २ २५. उ.  
 हडताल तथा धोखाधडी अनु प्रेमचंद तथा ललिताप्रसाद  
 सुकुल हिंदु एकेडेमी २ २५ ना  
 गिन्सबर्ग समाज का मनोविज्ञान अपर ५.७५  
 गिरधर कविराय गिरधर की कुडलिया देहाती. ० ७५  
 गिरधर गोपाल अग्निमा न्यू लिट. २ ७५ का  
 गिरधारीदान आदर्श अध्यापक नवयुग ग्र कु २ ००  
 पचो की माया नवयुग ग्र कु ३ ००  
 गिरधारीसिंह जागती जोता नवयुग ग्र कु ३ ००  
 गिरि, दीनदयाल अन्योक्ति कल्पद्रुम नद व्र ० ३७, — —  
 ना प्र सभा ० ७५, — — टीका लाला भगवानदीन  
 तथा मोहनवल्लभ पत स ३ रा वेनीप्रसाद २ ०० का  
 दृष्टांत-तरंगिणी लाला भगवानदीन 'दीन' तथा आदित्य  
 प्रसाद सिंह रा वेनीप्रसाद ० ५० का  
 गिरि, बलजीत पावरलूम गाइड देहाती ५.००  
 गिरिजाशंकर दुष्ट-दमन लहरी ३ ०० उ.  
 गिरिधरगोपाल चादनी के खडहर सा भवन, इ. ३ ००.  
 उ  
 गिरिधरदास, बाबू भारती भूषण वगीय १ २५  
 गिरिराज बच्चो के निराला त्रिवेणी. १.०० वप्र.  
 गिरिराजकिशोर नीम के फल कि महल २ ५० क  
 — तथा अवाशकर नागर, अंतर भाषा पाठावली गजरात  
 भा १ ० ६२, भा २ ० ८७, भा ३. १ ००, भा ४.  
 १ २५, भा ५ १ ३१, भा ६. १ ३१  
 भूल-सुधार गूजरात. ० ७५  
 — तथा अवाशकर नागर, सपा गद्य संग्रह गूजरात. २ ५०  
 प्राचीन हिंदी कविता गूजरात १ ००  
 — तथा नरेद्र अजारिया, सपा हिंदी कहानी-संग्रह गूजरात.  
 भा १ ० २५, भा २ ० ५६, भा ३ ० ६२  
 — तथा नानुभाई वारोट, सपा आधुनिक हिंदी कविता.  
 गूजरात १ ००  
 हिंदी पाठावली गूजरात भा १ ५६, भा २ १ २५,  
 भा ३ १ ५०  
 गिरिराजप्रसाद राजस्व के सिद्धांत रामप्रसाद ७ ५०  
 गिरिराजशरण 'गिरीश' रीगल निबंध माला रीगल १ ५०  
 गिरीश गुप्तजी की काव्य धारा छात्रहितकारी ४ ००  
 गिरीश दे गिरिराजशरण 'गिरीश'  
 गिरीश दे शुक्ल, गिरिजादत्त 'गिरीश'  
 गिरीशनाथ करामाती सितार गगा ० ७५ वप्र.  
 शरीर और स्वास्थ्य गगा २ ००  
 गिल, रत्नसिंह परमाणु शक्ति नेशनल १ ५०  
 गीतालाल प्रेमचंद का नारी-चित्रण हिं सा स २ ० ००  
 गुजन गोधूलि हिं भवन. ०.५० का.



मनु की वेदिया भा पु म २५० उ  
 ये जाने अनजाने राजपाल २२५ उ  
 गुप्त, छैलविहारी, १९२०- आया द्वार तिहारे रामप्रसाद.  
 २५० रूपक  
 नये कदम नई राह रामप्रसाद २५० रूपक  
 बजी वासुरी धीरे-धीरे रामप्रसाद २०० रूपक  
 गुप्त, जगदीश, १९२४- नई कविता कि महल भा १-३  
 २०० (प्र), भा ४ ३००, भा ५-६ ४०० (प्र)  
 गुप्त, जगदीश नाव के पाव विश्वविद्यालय २५० का  
 प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला नेशनल  
 भारतीय कला के पदचिह्न नेशनल ५००  
 शब्द-दश भा भ ३०० का  
 हिंदी रीति काव्य संग्रह सा भवन, इ १०००  
 हिमविद्ध भा ज्ञानपीठ  
 गुप्त, जगदीशप्रसाद गुजराती और ब्रजभाषा का तुलनात्मक  
 अध्ययन हिं सा परिषद ८००  
 गुप्त, जगराम तथा देवनारायण गोयल गणनात्मक रसायन  
 शास्त्र रतन २५०  
 गुप्त, जी पी राजस्व के सिद्धांत एव भारतीय वित्त व्यवस्था  
 स ४ रामप्रसाद ७५०  
 गुप्त, जीवनलाल, रूपा गोरा साहित्यवाणी २७५ ना  
 गुप्त, ज्वालाप्रसाद सुबोध गणित नवयुग ग्रं कु ६००  
 गुप्त, डी सी अंतर्राष्ट्रीय सवध भा १ १९१९-१९४५,  
 भा २ १९४६-१९६० मैट्रोपोलिटन १२०० (प्र)  
 गुप्त, तनसुखराम जीवन के कुछ क्षणों में सूर्य प्र १५०  
 जी  
 दिन बीत गया सूर्य प्र १०० उ  
 प्रबध-पराग सूर्य प्र १२०  
 भारतीय-महापुरुष भा १ सूर्य प्र ३०० जी.  
 मौत भी भुक गई सूर्य प्र १०० क  
 गुप्त, त्रिलोकचंद कहानियों की कुजी रीगल १००  
 गुप्त, दामोदर कुट्टनीमत काव्यम् अनु जगन्नाथ पाठक मित्र  
 ७५०  
 गुप्त, दामोदरदास तुलसीदास हिं सा स २५० आ  
 सूर और उनका भ्रमरगीत हिं सा स ७५०  
 सूरदास हिं सा स २५० आ  
 —सपा सूरदास और उनका भ्रमरगीत हिं सा स १२५०  
 गुप्त, दीनदयालु अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय २ भा हिं  
 सा सम्मे २०००  
 —सपा सूरप्रभा हिं सा भ १५०  
 गुप्त, दीपनारायण प्रसाद हमारी माध्यमिक शिक्षा २ भा  
 कला नि ६५० (प्र)  
 गुप्त, नगेंद्रनाथ ब्रजनाथ का विवाह इ प्रे २२५ उ  
 गुप्त, नरोत्तमलाल समाज और राजनीति गगा ३००  
 गुप्त, नर्मदाप्रसाद आल्हा नेशनल ५०० उ  
 गुप्त, नलिनीकांत नारी नये युग में श्रीअरविंद २५०  
 पूर्णयोग श्रीअरविंद १५०  
 की और श्रीअरविंद ०५०

गुप्त, परमलाल रामचरितमानस और साकेत नेशनल  
 ५००  
 गुप्त, परमेश्वरीप्रसाद गाय का आर्थिक मूल्यांकन सस्ता  
 ०७५  
 चारादाना सस्ता ०२५  
 पशुओं का इलाज सस्ता ०७५  
 भारत के गाय-वैल सस्ता २२५  
 हमारे गाय-वैल सस्ता २००  
 गुप्त परमेश्वरीलाल पुरातत्व परिचय कि महल  
 १५०  
 प्रकृति और विज्ञान ग्रथमाला १००  
 प्रसाद के नाटक हिं प्रचा पु ४५०  
 भारतीय शासन परिचय हिं प ए २७५  
 मौलाना दाऊद कृत चदायन हिं ग्र र २०००  
 हमारे देश के सिक्के विश्वविद्यालय १५०  
 गुप्त, परमेश्वरीलाल दे मजूमदार, रमेशचंद्र  
 गुप्त, परमेश्वरीलाल दे दाऊद  
 गुप्त, प्रकाशचंद नया हिंदी साहित्य एक भूमिका सरस्व प्रे  
 २५०  
 विशाख राजकमल १५० उ  
 हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा कि महल २५०  
 गुप्त, प्रकाशचंद्र दे राहुल साकृत्यायन  
 गुप्त, प्रेमस्वरूप रस गगाधर का शास्त्रीय अध्ययन भा प्र  
 मंदिर १२००  
 गुप्त, बच्चीलाल विश्व भारती मयूर १५० का  
 गुप्त, बजरगवली दे वद्योपाध्याय, राखालदास  
 गुप्त, बदरीप्रसाद ऐश महल हिं पु ए २७५ उ  
 गुप्त, बद्रीप्रसाद दे शर्मा, डी आर  
 गुप्त, बलभद्रप्रसाद 'रसिक' काव्यकुज की कोकिलाए नद ब  
 एव नद स २०० का  
 गल्प गगन की तारिकाए नद ब्र एव नद स २००  
 गुप्त, वैजनाथ जीवन आग और आसू रगजीत ५०० उ  
 गुप्त, ब्रजमोहन जय पराजय कि महल २५० क  
 स्वप्न और सत्य भा भ ३५० क  
 गुप्त, ब्रह्मदेव कृषि-यत्र-शास्त्र आत्माराम २००  
 भूमि और खाद दि पु स २५०  
 गुप्त, ब्रह्मानंद तथा नरेश वेदी गरमी की कहानी सस्ता  
 १५० वि  
 ध्वनि की लहरे सस्ता १५० वि  
 प्रकाश की बाते सस्ता १५० वि  
 गुप्त, भगवानदास महाराज छत्रसाल बुदेला शिवलाल  
 १२५०  
 गुप्त, भैरवप्रसाद आशा धारा ५०० उ  
 कालिदी धारा ५०० उ  
 गगा मैया राजकमल २०० उ  
 जजीरे और नया आदमी हस ५०० उ  
 देशभक्त धारा उ  
 धरती धारा १२५० उ

बडे सरकार हिंद पा १.०० उ  
 बलिदान की कहानिया धारा २५०  
 भारत की आधुनिक श्रेष्ठ कहानिया वोरा. ४.००  
 मजिल हिंद पा १०० क  
 मशाल नीलाभ ३५० क  
 महफिल नीलाभ ४०० क  
 रभा धारा उ  
 शोले धारा ५५० उ, — — नीलाभ ३.००;  
 — — हिंद पा १००.  
 सत्ती मैया का चौरा नीलाभ १२०० उ  
 सपने का अत नीलाभ ३५० क  
 हवा धारा उ  
 हवेली वोरा ४०० उ  
 —सपा अफसर, बीविया और मेरे दोस्त की कहानी धारा  
 क.  
 मित्रो और अन्य कहानिया धारा २५०  
 हिंदी की आधुनिक श्रेष्ठ कहानिया धारा  
 गुप्त, भैरवप्रसाद दे गोर्की, मैक्सिम.  
 गुप्त, मजूरानी रसोई शिक्षा देहाती ०७५  
 सिलाई कटाई गाइड देहाती १५०  
 गुप्त, मदनमोहन भारत नये सविधान तक मक्तवा ३००  
 गुप्त, मनमोहन एक क्रांतिकारी के सस्मरण इ प्रे २७५  
 होनहार बालक इ प्रे १५० वप्र  
 गुप्त, मन्मथनाथ, १९०८- अघेर नगरी आत्माराम ३००  
 उ  
 अपराजित. राजपाल ५-००. उ  
 अशफाक, लाहिडी कि महल. ०.४०. वप्र.  
 आखे राजपाल २५० क  
 आदमी का जन्म आत्माराम १२५. वि  
 आपसी फूट जहर है और मेल अमृत आर्य बुक. ०७५  
 उलभन राजपाल. ४०० उ  
 कूडे करकट की खाद साहनी ०५० वप्र.  
 घरे के अदर. पजावी पु २५० उ, — — स्टार (पा)  
 १००  
 चद्रशेखर आजाद कि महल ०४०. वप्र  
 जययात्रा चौधरी १७५  
 जागरण राजपाल ३.५० उ  
 जाल हिंद पा १०० उ  
 जिच्च चौधरी १७५  
 ज्वालामुखी. हिंद पा १०० उ.  
 त्याग और बलिदान आत्माराम १२५ वप्र  
 दिशाहीन हिंद पा १०० उ.  
 दुश्चरित्र राजकमल (पा) १००. उ  
 देख कबीरा रोया राजपाल ३०० उ  
 दो कैचुल एक साप. चौधरी. ५.५०  
 दो दुनिया साहनी ५५०. उ.  
 प्रगतिवाद की रूपरेखा आत्माराम ७००  
 प्रतिक्रिया राजपाल. ५.००. उ.

प्रेमचंद : व्यक्ति और साहित्यकार. सरस्व. प्रे. १२.००  
 फास की लोक-कथाए आत्माराम. १.५०  
 बगला के आधुनिक कवि. कि महल. १.५०  
 बगला साहित्य दर्शन सस्ता. ४००  
 बगल राजहस १७५  
 बगल की लोक-कथाए आत्माराम. १५०  
 बलि का बकरा. चौधरी. १७५  
 बहता पानी सा भवन, इ ३२५. उ.  
 बारूद और बुरादा चौधरी ५००  
 भारत मे सशस्त्र क्रांति चेष्टा का रोमाचकारी इतिहास.  
 भा. १. छात्रहितकारी. ४.५०  
 भारतीय क्रांतिकारी आन्दोलन का इतिहास. आत्माराम.  
 १०.००  
 महिलाओ की जानकारी छात्रहितकारी. ४००  
 यौन-जीवन. सरस्व प्रे १५.००  
 रगमच राजपाल ७.०० उ  
 रामधारीसिंह दिनकर राजपाल. २.०० जी.  
 रामप्रसाद विस्मिल. कि महल ०.४० वप्र.  
 राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास सशो. स. २ शिवलाल.  
 रैन अघेरी राजपाल ६०० उ [१२.५०  
 शरदचंद्र. कि. महल ३००. (अप्राप्य)  
 शरत्चंद्र व्यक्ति और साहित्यकार नेशनल ६००  
 शहीद खुदीराम बोस कि महल ०.४० वप्र  
 शहीद यतींद्र मुकर्जी कि महल. ०४० वप्र  
 सतान निग्रह, क्यो और कैसे छात्रहितकारी ३००  
 सच और भूठ हिंद पा १०० उ  
 सरदार भगत सिंह कि महल ०४० वप्र.  
 सागर-सगम राजपाल ५.००. उ  
 साहित्यकला-समीक्षा. साहनी ६००  
 सुधार. कि महल १५० उ, — — चौधरी. ३.००  
 सेक्स का स्वभाव आत्माराम ३०० काम  
 सोने का बकरा राजहस १५० वप्र.  
 हमारा देश. उदयाचल १५० वप्र  
 होटल डी ताज एस चाद २२५. उ.  
 गुप्त, महीपाल दे रामकुमार  
 गुप्त, माताप्रसाद अर्द्ध-कथा हि सा परिषद. १.००  
 तुलसीदास हि सा परिषद. ८००  
 बीसलदेव रासो हि सा परिषद ५.००  
 रासो साहित्य विमर्श सा. भवन, इ ५००  
 —सपा कवितावली हि सा सम्मे १२५  
 छिताई वार्ता ना प्र सभा ८०० का  
 जायसी ग्रथावली हिंदु एकेडेमी १२०० का  
 तुलसी-ग्रथावली २ ख हिंदु एकेडेमी १५००  
 तुलसी-सग्रह हि सा सम्मे १२५  
 पदमावत भा भ १२०० का  
 पार्वती-मगत हि सा सम्मे ०५०  
 मधुमालती (मभन कृत) मित्र. २०००  
 श्रीरामचरितमानस. हिंदु एकेडेमी १.२५. का.



गुप्त, माताप्रसाद दे रोड, महाकवि  
 गुप्त, मानकचंद चर्मकला शिक्षण विनोद १२५  
 गुप्त, माया भारत के प्रकाश स्तंभ शिवलाल २००  
 गुप्त, मिथिलेशकुमारी नारी और शिशु भाग्योदय २५०  
 नृत्य शिक्षा भाग्योदय २५०  
 पाक भारती भाग्योदय २५०  
 वुनाई शिक्षा भाग्योदय २५०  
 संगीत शिक्षा भाग्योदय २५०  
 सिलाई शिक्षा भाग्योदय २५०  
 —सग्रा ग्रन्टूडेड कशीदाकारी भाग्योदय ३००  
 आधुनिक कशीदाकारी भाग्योदय ३००  
 ऊपा कशीदाकारी भाग्योदय १००  
 रजनी कशीदाकारी भाग्योदय १००  
 रेखा कशीदाकारी भाग्योदय १००  
 शकुतला कशीदाकारी भाग्योदय १००  
 सरला कशीदाकारी भाग्योदय, १००  
 गुप्त, मुन्नूलाल 'सूर्य' तीरे नजर की चोट पुष्पी ०७५ उ,  
 —सुरेद्र २००  
 सातवीं शादी पुष्पी ०७५ उ, —सुरेद्र २५०  
 गुप्त, मैथिलीशरण, १८८६- अजलि और अर्ध सा सदन,  
 चि ०७५ का  
 अजित सा सदन, चि १५० का  
 अनघ सा सदन, चि १२५ का  
 अर्जन और विसर्जन सा सदन, चि ०४० का  
 उच्छ्वास सा सदन, चि २५० का  
 कावा और कर्बला सा सदन, चि १२५ का  
 किसान सा सदन, चि ०५० का  
 कुणाल-गीत सा सदन, चि १५० का  
 गुरुकुल सा सदन, चि ३०० का  
 गुरु तेगवहादुर सा सदन, चि ०५० का  
 चंद्रहास सा सदन, चि १५० का  
 जयद्रथ-वध सा सदन, चि १०० का  
 जयभारत सा सदन, चि ७५० का  
 भ्रकार सा सदन चि १५० का  
 तिलोत्तमा मा सदन, चि १५० का  
 त्रिपथगा सा सदन, चि २०० का  
 द्वापर मा सदन, चि ३०० का  
 नहुप सा सदन, चि ०८० का  
 पचवटी मा सदन, चि ०७५ का  
 पत्रावली मा सदन, चि ०४० का  
 पृथिवीपुत्र मा सदन, चि ०७५ का  
 प्रदक्षिणा मा सदन, चि ०७५ का  
 भारत-भारती मा सदन, चि २०० का  
 भूमि-भाग मा सदन, चि ०२५ का  
 यगोधरा सा सदन, चि ३०० का  
 युद्ध मा सदन, चि ०७५ का  
 मे भग ना सदन, चि ०३८ का  
 सा सदन, चि १२५ का

राजा-प्रजा सा सदन, चि ०७५ का  
 लीला सा सदन, चि २०० नाट्यगीति  
 वक-सहार सा सदन, चि ०५० का  
 वन-वैभव सा सदन, चि ०५० का  
 विकट भट सा सदन, चि ०२५ का  
 विश्व-वेदना सा सदन, चि ०५० का  
 विष्णुप्रिया सा सदन, चि २५० का  
 वैतालिक सा सदन, चि ०४० का  
 शकुतला सा सदन, चि ०५० का  
 शक्ति सा सदन, चि ०४० का  
 साकेत सा सदन, चि ६०० का  
 सिद्धराज सा सदन, चि १२५ का  
 सैरध्री सा सदन, चि ०५० का  
 हिंदू सा सदन, चि २५० का  
 हिडिवा सा सदन, चि ०७५ का  
 —अनु पलासी का युद्ध सा सदन, चि ३००  
 मेघनाद-वध सा सदन, चि ६००  
 खाइयात उमर खय्याम सा सदन, चि १००  
 विरहिणी-व्रजागना सा सदन, चि ०४०  
 वीरागना सा सदन, चि २००  
 वृत्र-सहार सा सदन, चि ५०० का  
 स्वप्नवासवदत्ता सा सदन, चि १००  
 गुप्त, मोतीलाल आदर्श हिंदी गद्य एस चाद २५०  
 गुप्त, मोतीलाल दे जोशी, भालचंद्र  
 गुप्त, मोहन दे त्यागी, भीमसेन  
 गुप्त, योगेन्द्रनाथ अरव के बहू इ प्रे २७५ उ  
 दिग्विजयी इ प्रे २७५ वप्र  
 महीम डकैत इ प्रे ३०० उ  
 रत्नमाला अनजान देग मे २ भा इ प्रे ०५० (प्र)  
 वप्र  
 सुंदरवन की चिट्ठी अनु ललीप्रसाद पाडेय इ प्रे १५०.  
 वप्र  
 गुप्त, योगेश चारुलता ज्ञान प्र २५० उ  
 छविनाथ रूपकमल ७००  
 डूबने से पहले रूपकमल २५०  
 तीसरा क्षण दि पु स २५० उ  
 दर्द की तस्वीर सुभाष २५० उ  
 गुप्त, रघुवीरशरण आधुनिक वाणिज्य प्रणाली २ भा  
 स १९६३ फ्रैंक ३५० (प्र)  
 गुप्त, रघुराज भारत मे सामाजिक कल्याण तथा सुरक्षा  
 सशो स ३ किशोर पब्लि ११००  
 भारत समाज कल्याण और सुरक्षा कि महल १०००  
 गुप्त, रघुराज दे गर्मा, के एन  
 गुप्त, रघुवर्ग उमर खय्याम की खाइया किताबिस्तान ३००  
 गुप्त, रघुवरदयाल अर्थशास्त्र के सिद्धांत यग मैन ७२५  
 —तथा अमरनाथ सक्सेना प्रारंभिक बहीखाता यग मैन  
 ३५०  
 गुप्त, रजनीकांत. भारतीय वीरता. हि पु ए २.७५. जी.

गुप्त, रमाशंकर, सग्रा सूक्तसागर हि. समि १०.००  
 गुप्त, रमेशचंद्र कामायनी की भाषा अशोक प्र ७५०  
 गवन समीक्षा अशोक प्र २५०  
 गुप्त, राकेश. दे मल्ल, विजयशंकर  
 गुप्त, राजनारायण नागरिक शास्त्र के सिद्धांत कि महल.  
 ४५०  
 भारतीय सविधान तथा नागरिक जीवन कि महल ४५०  
 गुप्त, राजेन्द्र माध्यमिक साहित्य सौरभ एस चाद २२५  
 गुप्त, राजेश खूनी पजा देहाती १२५ उ  
 गिरती इन्सानियत देहाती ३५० उ.  
 चंचल आखे देहाती ३५०. उ  
 जलता निशान देहाती १२५ उ  
 डबल मुक्का देहाती १२५ उ  
 द्वष की आग देहाती ३५० उ  
 फूल मे काटा. देहाती. १२५. उ  
 बर्लिन मेल देहाती १२५ उ  
 ब्राजील का हीरा देहाती १.२५ उ  
 महाराणा प्रताप. देहाती. १५० वप्र  
 मेवाड गौरवगाथा देहाती २.५० वप्र.  
 शैतान की खोपडी देहाती १२५ उ.  
 समाज की आखे देहाती ३५० उ  
 साधना कि महल. १२५ उ  
 सौदागर की वेटी देहाती १२५ उ  
 हिंदू राष्ट्र के चार महापुरुष देहाती ३०० वप्र.  
 गुप्त, राजेश्वरदास कृषि-विज्ञान राजकमल ७.००  
 गुप्त, राधाकृष्ण रुपया कमाने की मशीन हि पु ए २५०  
 गुप्त, राम हाईस्कूल व्यापारिक शिक्षा गुप्ता ब्रा २००  
 गुप्त, रामगुलाम. दे भटनागर कालीशंकर  
 गुप्त, रामगुलाम. दे सभरवाल, हृदयनारायण  
 गुप्त, रामचंद्र गांधी दर्शन सरस्व पु. स २५०  
 नवभारत अर्थशास्त्र एस. चाद ५२५  
 पत की काव्यकला और जीवन-दर्शन सरस्व पु स. ३.२५  
 महादेवी साहित्यकला और जीवन-दर्शन सरस्व पु. स  
 ३.५०  
 गुप्त, रामचरण तथा अन्य प्रोग्रेसिव स्कूल अर्थमेटिक. गुप्ता  
 ब्रा. २१२  
 गुप्त, रामदीन प्रेमचंद और गांधीवाद हि सा. स १३५०  
 गुप्त, रामप्रकाश पगडडी अर्चना प्र. (पा) १००  
 —तथा पी. एस चौहान अर्थशास्त्र का परिचय. यग मैन  
 ३००  
 गुप्त, रामबाबू. भारतीय समाज और सस्थाए (प्रश्नोत्तर)  
 किंगोर पब्लि ६५०  
 समाज कल्याण और सुरक्षा किंगोर पब्लि  
 समाजशास्त्र की रूपरेखा (प्रश्नोत्तर). २ भा किंगोर  
 पब्लि. ४.५० (प्र)  
 गुप्त, रामविलास बाजार समीक्षा स २ भा. भा प्र २.००  
 गुप्त, रामगण तथा ओ पी जिंदल. भारत का आर्थिक एव  
 वाणिज्य भूगोल (प्रश्नोत्तर) गयाप्रसाद २.००

सरल आर्थिक एव वाणिज्य भूगोल (प्रश्नोत्तर). गया-  
 प्रसाद. ६००  
 —तथा अन्य सरल अर्थशास्त्र (प्रश्नोत्तर) गयाप्रसाद  
 ६००  
 गुप्त, रामस्वरूप हिंदी हिलोर भा. प्र मंदिर १५०  
 गुप्त, रामेश्वर मानव की कहानी २ भा स ४ श्री भा  
 भारती १६.००  
 हमारी सस्कृति श्री भा भारती ५००  
 गुप्त, रामेश्वरप्रसाद तथा उमापति मिश्र भारत मे अंग्रेजी-  
 शिक्षण की समस्याये. लक्ष्मी ना ४५०  
 गुप्त, रामेश्वरप्रसाद. दे जायसवाल, सीताराम.  
 गुप्त, राय राजेश्वरदास कृषि-विज्ञान राजकमल ७००  
 गुप्त, लक्ष्मीनारायण आधुनिक कृषि शिक्षण. गर्ग ब्र १३०  
 आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान. गर्ग ब्र २.३०  
 आधुनिक शिक्षा-सिद्धांत और आधुनिक शिक्षण सिद्धांत ग  
 ब्र २.६०  
 आधुनिक स्वास्थ्य, सामुदायिक तथा पाठशाला प्रबंध. गर्ग  
 ब्र २३०  
 आयकर विधान तथा खाता कि महल ३.००  
 भाषा शिक्षा की रूपरेखा गर्ग ब्र २.५०  
 शिक्षा-विज्ञान गर्ग ब्र ७५०, ७६०  
 हिंदी साहित्य को आर्यसमाज की देन हि सा भ १२००  
 गुप्त, लक्ष्मीनारायण दे अग्रवाल, मुन्नालाल  
 गुप्त, लीलाधर पाश्चात्य साहित्यालोचन के सिद्धांत हिंदु  
 एकेडेमी ६००  
 गुप्त, लीलावती हिंदी गद्य गौरव रा वेनीमाधव १.५०  
 गुप्त, विंध्याचलप्रसाद आग और आसू. चिनगारी १.००  
 उलटा-उस्तुरा. चिनगारी २५०  
 एक था जादूगर ग्रंथ भ ०५० वप्र  
 कल्लू का काका ज्ञानपीठ. ०७५ वप्र  
 गाव के देवता साधना म २५० उ  
 चंपारण और नसि के धव्वे ग्रंथ भ २.०० जी  
 तूफान के तिनके चिनगारी १५०  
 देश हमारा धरती अपनी बि ग्र कु २.५०  
 नया जमाना नया रग. साधना म. ३२५ उ  
 नीली साडी चिनगारी १५०  
 पकौडी साह जिंदावाद साधना म २५० उ  
 पाचो घी मे सुभाष २५० उ.  
 पीपल के पत्ते ज्ञानपीठ ०७५ वप्र  
 पीपलनाथ और मिर्चा ग्रंथ भ ०५० वप्र  
 बोटलानद सुभाष. १७५  
 भीगी आखे पु भ २०० उ  
 राह का पत्थर ज्ञानपीठ २७५ उ  
 लोटा राम साधना म २५० उ  
 गमा जलती रही सुभाष ३०० उ  
 सिकंदर जब चला ज्ञानपीठ १०० वप्र.  
 सीमा और उडान ग्रंथ भ २५० उ  
 हमारे साथी ग्रंथ भ ०.७५ वप्र.

- हिमालय की आग सुभाष ३००  
 गुप्त, विजयकुमार एक गोली तीन शिकार फ्रैंक १७५  
 मुर्दा जी उठा आत्माराम १०० ना  
 साथी फ्रैंक ०७५  
 गुप्त, विद्यानाथ हिंदी कविता मे राष्ट्रीय भावना एस चाद.  
 गुप्त, विश्वनाथ, अनु बहादुरी का भूत सस्ता १५० वप्र  
 गुप्त, वीरेन्द्रकुमार, १९२८- सुभद्रा-परिणय आत्माराम  
 २५० ना  
 हड्डियो का दान नेशनल १५० वप्र  
 गुप्त, वेदपाल तथा देवीदयाल शास्त्री साइस हिंदी प्रबोधिनी  
 सूर्य प्र ३००  
 गुप्त, शशिभूषणदास उपमा कालिदासस्य नेशनल ३००  
 श्रीराधा का क्रम विकास हि प्रचा पु ८०० आ  
 गुप्त, शांतिस्वरूप महादेवी और उनकी दीपशिखा अशोक प्र  
 ४५०  
 गुप्त, शिवदयाल एलोपैथिक मेटेरिया मेडिका स २ मेडिकल  
 १२००  
 एलोपैथिक सफल औपधिया स २ मेडिकल ३५०  
 तात्कालिक चिकित्सा स २ रा वेनीप्रसाद १२५  
 धात्री-विज्ञान मेडिकल २५०  
 मल-मूत्र, रक्तादि परीक्षा स ३ मेडिकल ३००  
 सचित्र नेत्र-रोग विज्ञान (एलोपैथिक) मेडिकल ८००  
 सामान्य शल्य-विज्ञान मेडिकल १२००  
 गुप्त, शिवस्वरूप उद्धवशातक अनुशीलन नवयुग पु भ  
 २५०  
 कवीर साहित्य समीक्षा नवयुग पु भ ४२५  
 प्रिय प्रवास विवेचन नवयुग पु भ १७५  
 यशोधरा परिशीलन नवयुग पु भ २००  
 विनय पत्रिका अनुशीलन नवयुग पु भ १५०  
 गुप्त, शोभालाल गाव के उद्योग धर्मे सस्ता ०३०  
 ग्रामोद्योग सस्ता १००  
 राजस्थान राजहस १७५  
 गुप्त, श्याममोहन आधुनिक काव्य सग्रह की टीका रीगल  
 २५०  
 गुप्त, श्यामलाल राजस्थान के पाच निर्माता एस चाद २५०  
 जी  
 गुप्त, श्रीराम आधुनिक वाणिज्य शिक्षा २ भा गुप्ता ब्रा  
 ३.२५ (प्र)  
 गुप्त, सत्यपाल तथा श्याम कपूर अभिनव पर्यायवाची कोश  
 आर्य बुक ६५०  
 गुप्त, सर्वाधार हिंदी साहित्य का इतिहास कृष्णा ब्र २५०  
 गुप्त, सियारामशरण १८६५- अतिम-आकाक्षा सा सदन,  
 चि २०० उ  
 अनाथ सा सदन, चि ०४० का  
 अमृतपुत्र सा सदन, चि १५० का  
 आत्मोत्सर्ग सा सदन, चि ०८० का  
 आर्द्रा. सा. सदन, चि १५० का  
 . . सा सदन, चि २५० गीतिनाट्य.

- गीता-सवाद सा. सदन, चि १००  
 - गोद सा सदन, चि १२५ उ  
 जयहिंद सा सदन, चि ०२५ का.  
 भूठ-सच सा सदन, चि २०० नि  
 दुर्वादल सा सदन, चि १०० का  
 दैनिकी सा सदन, चि ०८० का  
 नकुल सा सदन, चि २५० का  
 नारी सा सदन, चि २५० उ  
 नोआखाली मे सा सदन, चि ०५० का  
 पाथेय सा सदन, चि २०० का  
 पुण्य-पर्व सा सदन, चि १५० ना  
 वापू सा सदन, चि १०० का  
 बुद्ध-वचन सा सदन, चि २५०  
 मानुषी सा सदन, चि १०० क  
 मृण्मयी सा सदन, चि २५० का  
 मौर्य-विजय सा सदन, चि ०४० का.  
 विषाद सा सदन, चि ०४० का  
 हमारी प्रार्थना सा सदन, चि ००५ का  
 गुप्त, सीताराम 'विनोद' महावीर दल शिक्षावली २ भा न्यू  
 लिट १०० स्काउट  
 गुप्त, सुखपाल भाषा निबध तथा रचना आर्य बुक १२५  
 सरल वाक्य रचना आर्य बुक ०८०  
 गुप्त, सुरेशचंद्र आदर्श मुहावरे लोकोक्तिया यग मैत्र १५०  
 आधुनिक हिंदी-कवियों के काव्य-सिद्धांत हि सा स २५००  
 कामायनी समीक्षा हि सा स १५०  
 देवयानी हि सा केद्र १०० उ  
 महादेवी और उनका 'आधुनिक कवि' हि सा स ७५०  
 मुद्राराक्षस हि सा स २००  
 सरल साहित्यिक निबध एस चाद  
 —तथा कृष्णचंद्र विद्यालकार आधुनिक हिंदी निबध एस.  
 चाद ४५० नि  
 गुप्त, सुरेशचंद्र दे भटनागर, कालकाप्रसाद  
 गुप्त, सुरेशचंद्र दे भारतभूषण 'सरोज'  
 गुप्त, सुरेशप्रसाद विदेशी लोक कथाएं ग्रथ भ १००  
 हमारा बिहार ज्ञानपीठ १२५ वप्र  
 गुप्त, सुशीलकुमार इटरमीडियेट त्रिकोणमिति एस चाद  
 ३५०  
 गुप्त, सोमनाथ, १९०५- आलोचना उसके सिद्धांत श्री  
 भा भारती २५०  
 उपन्यासकार वृदावनलाल वर्मा श्री भा भारती ३००  
 कवियों का विवेचनात्मक-अध्ययन २ भा. श्री भा भारती.  
 ६००  
 काव्य-सरिता एस चाद १५०  
 गद्य मजूषा एस चाद २५०  
 गद्य-समुच्चय एस चाद ३००  
 पूर्व भारतेन्दु नाटक साहित्य हि भवन ५००  
 माला आत्माराम ०७५ का  
 हिंदी नाटक साहित्य का इतिहास. स. ४. हि. भवन ६.००

- सपा. निवध-प्रदीप मुशीराम २०० नि.  
 गुप्त, हरगोविंद अर्चन. गृहपति ०६२. श्रद्धाजलि  
 गाव का मेहदड किसान आत्माराम १५०  
 गाव के गीत गृहपति १६२  
 बुदेलखड की लोक-कथाए. आत्माराम. १२५  
 लक्ष्मी. स. २. गृहपति ३.००. सस्कृति  
 गुप्त, हरप्रसाद. दे वैश्य, जे. डी.  
 गुप्त, हरिकृष्णदास 'हरि' पढो और बनो. नेशनल ०७५.  
 वप्र.  
 बदला. नेशनल ०८०. वप्र.  
 गुप्त, हरिश्चंद्र चलराशि कलन. हि सा सम्मे ४.००  
 गुप्त, हरिहरप्रसाद ग्रामोद्योग और उनकी शब्दावली राज-  
 कमल. ६००  
 गुप्त. यह भी दे गुप्ता  
 गुप्तनार्थसिंह खाद विज्ञान. ना प्र सभा १५०  
 गुप्तबधु. अनल प्रकाश सर्व-सुलभ. का  
 आजाद पार्क सर्व-सुलभ. का.  
 पिता की खोज मे. सर्व-सुलभ. का  
 भागीरथी. सर्व-सुलभ ०७५ का.  
 भायप. सर्व-सुलभ. १.२५. ना  
 मिट्टी से रुपया. सर्व-सुलभ  
 सावित्री सर्व-सुलभ. १००. ना.  
 हवाई घोडा. सर्व-सुलभ २०० वप्र.  
 गुप्ता. भारतीय ग्रामीण एव नागरिक व्यवस्था. रस्तोगी  
 ६००  
 समाजशास्त्र प्रश्नोत्तरी दत्तबधु ४००  
 —तथा चतुर्वेदी पारश्चात्य राजदर्शन का इतिहास कि महल  
 ११०० (अप्राप्य)  
 —तथा भट्ट प्रश्नोत्तर प्रायोगिक भौतिकी मोतीलाल ३२५  
 —तथा अन्य पुस्त-पालन तथा लेखा-कर्म के सिद्धात हि  
 प्रचा पु ७००  
 गुप्ता, अमृतलाल भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास पजावी  
 पब्लि ५००  
 —तथा हरमदरसिंह नागरिक शास्त्र की जान पहचान.  
 यूनिवर्सिटी ३.६०  
 गुप्ता, आई. सी तथा अन्य अकेक्षण अध्ययन किगोर पब्लि  
 ५००  
 गुप्ता, आर ए. भारत का आर्थिक विकास रस्तोगी ५५०  
 गुप्ता, आर डी. सामान्य मनोविज्ञान श्रीराम मेहरा ४५०  
 गुप्ता, आर सी तथा अन्य नवीन आदर्श बीजगणित नद  
 ब्र. २.००  
 गुप्ता, आशा. खडी बोली काव्य मे अभिव्यजना नेशनल  
 १६००  
 गुप्ता, उपेन्द्रनाथदास दर्जी हि पु ए २५०  
 सुई गिल्प शिक्षा हि पु ए १५०  
 गुप्ता, ए. एल तथा के के वर्मा. राजनीति शास्त्र के मूल  
 सिद्धात यूनिवर्सिटी १०.००  
 गुप्ता, ए के शिक्षा मनोविज्ञान के मूल तत्व रस्तोगी ६.५०

- गुप्ता, ए दास तथा अमरनाथ कपूर. आधुनिक आर्थिक व  
 वाणिज्य भूगोल एस चाद ७००  
 भारत व पाकिस्तान का आर्थिक व वाणिज्य भूगोल एस.  
 चाद ७५०  
 भूगोल के भौतिक सिद्धात एस चाद ७५०  
 गुप्ता, एम एल प्रारम्भिक कार्बनिक रसायन यग मैन ३.७५  
 प्रारम्भिक रसायनशास्त्र एस चाद २५०  
 गुप्ता, एम पी दे जैन, केशवदास.  
 गुप्ता, एल एन यूरोप का इतिहास (१६४८-१६६०) लायल.  
 ४५०  
 यूरोप का इतिहास (प्रश्नोत्तर). गयाप्रसाद ४.५०  
 विश्व इतिहास की भूलक (प्रश्नोत्तर) गयाप्रसाद. ४.००  
 विश्व इतिहास की भूलक (प्राचीन इतिहास की भूलक)  
 लायल. ४००  
 विश्व इतिहास की रूपरेखा गयाप्रसाद ३५०  
 हायर सेकंड्री ज्यामिति. यग मैन ३७५  
 —तथा विमला अग्रवाल इंग्लैंड का इतिहास (१४८५-  
 १६३६) (प्रश्नोत्तर). गयाप्रसाद ३.५०  
 गुप्ता, एस आर अकेक्षण के सिद्धात रतन. ६.२५  
 गुप्ता, एस. एस, सपा मराठी की प्रतिनिधि हास्य कहानिया.  
 आत्माराम  
 गुप्ता, एस के निर्देशांक ज्यामिति एस चाद. ४२५  
 गुप्ता, ओ पी चीन का सविधान. केदारनाथ १००  
 जापान का सविधान केदारनाथ १००  
 प्रमुख देशो की शासन-प्रणालिया केदारनाथ. ५५०  
 फ्रांस का सविधान केदारनाथ ४५०  
 भारतीय राष्ट्रीयता का विकास तथा भारतीय सविधान  
 केदारनाथ ६५०  
 भारतीय सविधान का इतिहास केदारनाथ ७.००  
 भारतीय सविधान की महत्वपूर्ण सस्थाओ का विकास.  
 केदारनाथ २००  
 विश्व की प्रमुख शासन प्रणालिया केदारनाथ. ७५० से  
 ८००  
 विश्व के महत्वपूर्ण प्राचीन तथा मध्यकालीन राजनीतिक  
 विचारक केदारनाथ ५००  
 सरल राजनीतिशास्त्र सशो स २ केदानाथ भा १ ५००  
 से ७००, भा २ ४०० से ४५०  
 गुप्ता, ओमप्रकाश नेहरू विश्वगाति की खोज मे सहगल.  
 ४५०  
 गुप्ता, ओमप्रकाश दे टडन, हरद्वारीलाल  
 गुप्ता, कमला प्राचीन भारत का इतिहास एव उसकी सस्कृति  
 फ्रँक ६७५  
 गुप्ता, कमलेश बालिका गृह विज्ञान गुप्ता प्र. भा १. ०८६;  
 भा ३ १४०  
 हमारा घर गुप्ता प्र भा १. ०.७७; भा २. ०.६५; भा.  
 ३ १३६  
 गुप्ता, कालीचरण इलेक्ट्रोप्लेटिंग देहाती ४५०  
 मशीन बुड वर्किंग देहाती. ६००

मशीन शाप ट्रेनिंग देहाती १०००  
 माडर्न लाडी व ड्राइक्लीनिंग देहाती ४५०  
 गुप्ता, किरणकुमारी गृह शिल्प सा रत्न भा १ १००,  
 भा २ १२५, भा ३ १२५  
 तुलसी सौरभ सा नि, का २००  
 पुरस्कार विनोद १५० क  
 भारतीय रत्न इ प्रे १०० जी  
 हिंदी काव्य मे प्रकृति-चित्रण हि सा सम्मे १०००  
 गुप्ता, के सी दातो का डाक्टर देहाती २५०  
 गुप्ता, के सी दे कटिहार, तिलकसिंह  
 गुप्ता, गार्गी रामकाव्य की परंपरा मे 'रामचंद्रिका' का  
 विशिष्ट अध्ययन एस चाद  
 गुप्ता, गिरधारीलाल तथा ए पी सक्सेना प्रायोगिक भौतिक  
 विज्ञान एस चाद २००  
 गुप्ता, चंद्रभान सस्कृतामृतम् गयाप्रसाद १५०  
 गुप्ता, छविरानी अचार, चटनी, मुरब्बा बहार देहाती  
 २५०  
 गुप्ता, जी आर खिलौनो का व्यापार भा कला १७५  
 मोमवत्ती शिक्षा भा कला १५०  
 शिल्प कला भंडार भा कला भा १ ४००, भा २ ८००  
 गुप्ता, जी पी उच्चतर बीजगणित यगमैन ३७५  
 गुप्ता, जीवनलाल गोरा (मच रूपांतर) साहित्यद्वारा  
 २७५ ना  
 गुप्ता, जे पी भू परिचय विनोद ३००  
 —तथा सी पी गुप्ता वैकिंग के प्रारंभिक सिद्धांत कृष्णा  
 ब्रा ३००  
 गुप्ता, देवकरण राजस्थान परिचय रा वेनीमाधव ०६२  
 गुप्ता, पी डी राजनीतिशास्त्र के सिद्धांत कि महल ५००  
 सरल नागरिक शास्त्र और भारतीय-शासन गुप्ता ब्रा १७५  
 —तथा जी एल शर्मा माडर्न भारतवर्ष का इतिहास गुप्ता  
 ब्रा ३००  
 गुप्ता, पी सी निर्देशांक ज्यामिति का सरल अध्ययन  
 केदारनाथ २७५  
 हाई स्कूल ज्यामिति एस चाद २००  
 हाई स्कूल ज्यामिति के हल एस चाद २००  
 हाई स्कूल बीजगणित एस चाद २५०  
 गुप्ता, विशनस्वरूप दे माहेश्वरी, एल एन  
 गुप्ता, वी एन औद्योगिक सगठन एव प्रवध सा भवन, आ  
 ८००  
 राजस्व-सिद्धांत एव नीति लक्ष्मी ना ४५०  
 गुप्ता, वी एन दे शर्मा, एस पी  
 गुप्ता, वैजनाथ आविष्कारको की कहानिया इ पब्लि ०७५  
 वप्र  
 उन्नति की ओर २ भा दास ०५० (प्र)  
 कुछ करने योग्य बातें दास ०५६  
 तीन बातें. दास ०६२  
 वीरता की कहानिया इ पब्लि ०७५ वप्र  
 ११२ कहानिया इ पब्लि ०७५ वप्र

शिष्टाचार की बातें इ पब्लि ०७५ वप्र  
 साहस की कहानिया इ पब्लि ०७५ वप्र  
 स्वास्थ्य की बातें इ पब्लि ०७५ वप्र  
 गुप्ता, मजू टेलर मास्टर देहाती ०८७  
 सिलाई कटाई गाइड देहाती १५०  
 गुप्ता, महीपाल तथा रामकुमार आधुनिक रसायन शास्त्र  
 स ६ भा भा प्र ३००  
 गुप्ता, मिथलेश हिंदी रचना रश्मि स २ गुप्ता प्र ४२५  
 गुप्ता, मुकदीलाल नवीन भौतिक विज्ञान लक्ष्मी ना भा १  
 ६००, भा २ ४५०, भा १ ५२५, भा २ ८००  
 वैज्ञानिक रहस्य लक्ष्मी ना १८१  
 गुप्ता, रमेश फिल्मी अप्सरायें रगभूमि ३००  
 गुप्ता, राजनारायण राजनीतिशास्त्र के सिद्धांत कि महल  
 ५००  
 गुप्ता, राजेश तरकारी साग-भाजी की खेती देहाती ३५०  
 फलों की खेती (फलदार बागवानी) देहाती ३७५  
 गुप्ता, रामचंद्र दे श्रीवास्तव, एल पी  
 गुप्ता, रामस्वरूप ज्यामितीय ड्राइंग केदारनाथ २५०  
 गुप्ता, रामेश्वरदयाल, सपा हिंदी साहित्य मजरी एजुकेशनल  
 पब्लि २००  
 गुप्ता, रामेश्वरदास व्यावहारिक मनोविज्ञान कि महल ६००  
 गुप्ता, रूपराम अकेक्षण के सिद्धांत स ३ आगरा बुक ६२५  
 आयकर विधान स ७ आगरा बुक ५००  
 प्रारंभिक कंपनी सन्नियम आगरा बुक २५०  
 माध्यमिक वहीखाता स १५ आगरा बुक ७५०  
 व्यापार सगठन स ४ आगरा बुक १०००  
 व्यापारिक सन्नियम आगरा बुक ६२५  
 व्यापारिक सन्नियम (प्रश्नोत्तर) आगरा बुक २००  
 —तथा विद्यासरन गुप्ता उच्चतर माध्यमिक वहीखाता  
 आगरा बुक ६००  
 गुप्ता, लक्ष्मीनारायण विश्व इतिहास की रूपरेखा (केवल  
 आधुनिक खंड) लायल ३००  
 गुप्ता, विद्यासरन दे गुप्ता, रूपराम.  
 गुप्ता, विमला पाडवप्रिया पाचाली भा सा सदन (पा)  
 १०० उ  
 गुप्ता, शशिप्रभा मुन्ने की परेशानी नेशनल १५०  
 गुप्ता, शांति बालएकादशी आत्माराम १२५ वप्र  
 गुप्ता, शांतिस्वरूप आर्थिक विचारों का इतिहास प्रकाश  
 बुक १०००  
 गुप्ता, श्याममनोहरलाल दे शर्मा, एस जी  
 गुप्ता, सी पी दे गुप्ता, जे पी  
 गुप्ता, सुगंध खून के छीटे चिनगारी २५० उ  
 समुद्र के गर्भ में चिनगारी २५० उ  
 गुप्ता, सुरेन्द्रचंद्र दे मोहनलाल  
 गुप्ता, सोमनाथ साहित्य प्रबोध एस चाद १५०  
 गुप्ता, हरिराम भारतीय इतिहास एस चाद ६००  
 गुप्ता, हुकमचंद शर्वत विज्ञान देहाती २५०  
 गुप्ता यह भी दे गुप्त

गुरुदत्तसिंह साग पात उत्पादन सा. सगम, लु २.००  
गुरुदासराम, राजजी महाराज प्रीतम की खोज मे कि महल  
२००

गुरुवर्षसिंह वेनट की लडाई तथा मुठभेड युद्ध आर्मी १००  
राइफल से निशानाबाजी स २. आर्मी १५०  
लाइट मशीन गन-ब्रेन आर्मी ०७५  
हथियारो की सिखलाई तथा अच्छी निशानाबाजी आर्मी  
५.५०

गुरुवर्षसिंह अनव्याही मा. सा सगम, लु १२५ उ  
गुरुवर्षसिंह गर्म मसाले की कहानी पजावी पब्लि १००  
वप्र

गुरुमुखनिहालसिंह भारत का वैधानिक एव राष्ट्रीय विकास  
आत्माराम. १०००

महानगर तथा उनका प्रशासन कि महल १७५  
गुरुमुखसिंह मुसाफिर एक नया पैसा विद्या प्र भवन ३७५  
क

गुरु. दे कामताप्रसाद गुरु.

गुरु, एल वी आदर्श गृह विज्ञान नद. ब्र. २५०

गर्भस्थ शिशु की कहानी. मेडिकल २००

गुरुचरण बुनियादी-गिक्षा सर्वोदय सा ०.७५

गुरुदयालुसिंह अको का जादू गगा १२५

गुरुदेवशरण. उच्चतर माध्यमिक अर्थशास्त्र गयाप्रसाद  
५००

प्रारंभिक अर्थशास्त्र गयाप्रसाद ३५०

गुरुदत्त, १८६४- अतिम यात्रा भा सा सदन १००

अवतरण भा सा सदन एव सा सदन, दे ६०० उ.

आवरण भा सा सदन ५०० उ

इतिहास मे भारतीय परंपराए औरिएटल एव भा सा सदन  
८००

उमडती घटाए औरिएटल ६०० उ.

एक और अनेक भा सा सदन ६०० उ

कला भा सा सदन ६०० उ

गगा की धारा भा सा सदन. भा १ ६.०० उ

गुठन भा. सा सदन ६००, (पा) २०० उ

गृह सदन. पजावी पु ५५० उ, — — स्टार (पा)  
२००

चचरीक भा सा सदन ३००, (पा) १००. उ

छलना भा सा सदन ६०० उ

जन प्रवाह भा सा सदन ८०० उ

जमाना बदल गया भा सा सदन भा १ ६००, भा २  
६००; भा ३ १००० उ

जात न पूछे कोय भा सा सदन २५० उ, — — स्टार  
(पा) १.००

जीवन उवार भा सा सदन ७०० उ

तब और अब राजपाल. ५०० उ

मानता के नये रूप. भा. सा सदन. ६०० उ

सिन्धुजय. भा सा सदन. ६०० उ

देश तो हत्या भा सा सदन. ६.००; (पा) २००. उ

दो भद्र पुरुष भा सा सदन ३.००, (पा) १००. उ.

द्रष्टा भा सा सदन ५००, (पा) २०० उ

धरती और धन भा सा सदन ६००, (पा) २.००. उ.

धर्म, संस्कृति और राज्य भा सा सदन ८००

नगर परिमोहन औरिएटल ६०० उ.

निर्मल पजावी पु एव भा सा सदन. ३००. उ, — —  
स्टार (पा) १००

निष्णात पजावी पु ३०० उ.

न्यायाधिकरण भा सा सदन ७०० उ

पकज प्रचा पा १०० उ, — — भा सा सदन.  
३००

पत्रलता भा सा सदन. ७०० उ

परिभव भा सा सदन ३०० उ

परिमल स्टार (पा) १०० उ

परिवर्तन. भा सा सदन २५० उ, — — हिंद पा.  
१००

पाणिग्रहण भा सा सदन ६००. उ; — — स्टार.  
(पा) २००

पुण्यमित्र भा सा सदन ३७५, (पा) १५०. उ.

प्रगतिशील अर्चना प्र (पा.) १००. उ, — — भा. सा.  
सदन २५०

प्रवचना राजपाल ५०० उ

प्रवृत्ति भा सा सदन. ५.७५, (पा) २००. उ.

वनवासी भा सा सदन. ३०० उ.

वहती रेता भा सा सदन ५००. उ

विखरे चित्र. भा. सा सदन ३.५०

वीती बात. भा. सा सदन ३००, (पा) १.००. उ.

भगवान भरोसे औरिएटल ६०० उ

भग्नाश उमेश ७२५ उ

भाग्य का सवल पजावी पु ३०० उ, — — स्टार.  
(पा) १००

भाग्य रेखा उमेश ३०० उ., — — भा. सा सदन.  
(पा) १००

भावुकता का मूल्य भा सा सदन ६००, (पा) २००.  
उ

भूल भा सा सदन ३०० उ, — — हिंद पा १.००.  
उ

मनीषा भा सा सदन (पा) १.०० उ, — — सा.  
सदन. दे. ३.००

ममता भा सा सदन. ३०० उ, — — हिंद पा. १००

मानव भा सा सदन ५००; (पा.) २०० उ

मायाजाल औरिएटल ५०० उ

मेरी पसंद भा सा सदन २५० ना

मैं न मानू. भा सा सदन. ३०० उ., — — हिंद पा.  
१००

यह क्यों है औरिएटल. ४०० उ

गुह और जाति. २ भा भा सा सदन एव राजधानी.  
६०० (प्र) उ

लुहकते पत्थर ओरिएटल. ३००. उ  
 वनवासी हिंद पा १.०० उ  
 वाम मार्ग भा सा सदन ७०० उ  
 विकार भा सा. सदन २.५०, (पा.) १.०० उ  
 विद्वत् छाया भा सा सदन. ५.०० उ  
 विक्रमादित्य साहसिक भा सा सदन ६००. उ  
 विडवना भा सा सदन ६०० उ  
 विद्यादान उमेज ३.०० उ, — — भा सा सदन. (पा)  
 १००

विनाशाय च दुष्कृतान् सा सदन, दे. उ.  
 विलोम गति. भा सा सदन. ६०० उ  
 विवेक ओरिएटल ६०० उ  
 विष्वास भा सा. सदन ३००, (पा) १०० उ.  
 विश्वासघात (जन्त) भा सा सदन ६०० उ  
 सभवामि युगे-युगे सा सदन दे २००. उ  
 सस्खलन. भा सा सदन. ६.००, (पा) २०० उ  
 सफलता के चरण. ओरिएटल ६०० उ.  
 सभ्यता की ओर उमेज ३००. उ., — — भा. सा सदन.  
 (पा) १००

सहस्राबाहु ओरिएटल ६०० उ  
 मुमति ओरिएटल एव भा सा सदन ३०० उ — —  
 भा. सा सदन (पा) १००  
 स्नेह का मूल्य. भा सा सदन २.५०, (पा) १००. उ.  
 गुरुप्रसाद सरल चिकित्सा विज्ञान देहाती ३२५  
 गुरुभक्तसिंह भक्त, १८६३- कुमुम कुज ना. साधना.  
 १०० का

दो फूल ना. साधना २०० का  
 सरस मुमन इ प्रे ०.५० का — — सा साधना. १.२५  
 गुरुराम विहारद बाल-विनास गंगा ०.७५ वप्र.  
 गुरुवचनसिंह युग और देवता नवयुग प्र २७५ क.  
 वन-पासी प्रचा पा १००  
 गुरुशरण जननी जन्म भूमि सा सगम, ग्वा १२५  
 पचायती राज को जानिअरे अ भा. सर्व ०.७५  
 पचायती राज्य क्यों और कैसे ? सा. नगम, ग्वा १५०  
 भारत-रत्न नवोदय ना १७५ वप्र  
 गुरु, अरविंद कहा आ गए ? आत्माराम २००. वप्र.  
 जापान की लोक-कथाए भा २. आत्माराम १.५०  
 नीली दाटी. रीगल ०.७५  
 मरभक्त मैट्रोपोलिटन ११०० उ  
 गुरु, नाचीरानी, १६२३- अनार नहवादी मैट्रोपोलिटन  
 ०.७५

कला-दर्शन साहनी २०००  
 महादेवी वर्मा आत्माराम ६.५०  
 विश्व की महान् महिलाए मैट्रोपोलिटन ५.००  
 वैचारिकी आत्माराम १०.०० आ.  
 सुमिनानदन पत. आत्माराम ६५०  
 के आलोचक आत्माराम ८००  
 प्रेमचंद और गोर्की राजकमल ६.०० आ.

गुलाब कच-देवयानी पारिजात २.०० ना.  
 गांधी भारती. पारिजात. १५० का  
 भूल पारिजात. २.२५ ना.  
 गुलाब कवि वृहद् व्यंग्य चंद्रिका भारतजीवन. ०.५०  
 का  
 गुलाबराय १८८८-१९६३ अध्ययन और आत्वाद. आत्म  
 राम ७५०  
 अभिनव भारत के प्रकाश स्तभ लक्ष्मी ना. १.२५  
 आत्म निर्माण. गयाप्रसाद २.००  
 आलोचना कुसुमाजली. रूपकमल ४५०; — — श्री भा  
 भारती ४००  
 एकादशी गयाप्रसाद २००. क.  
 कथा कुसुमाजली. गयाप्रसाद. २००  
 काव्य के रूप आत्माराम. ५.००  
 कुछ उथले कुछ गहरे गिवलाल ५.००. नि.  
 गद्य-प्रभा गयाप्रसाद. १.५०  
 गांधीय मार्ग गयाप्रसाद. २००  
 जीवन पथ. गयाप्रसाद २.००  
 जीवन रश्मिया गिवलाल ५.००. नि.  
 तर्कशास्त्र ३ भा ना. प्र सभा प्राप्य भा २ ३००  
 निवधमाला. न ७ हि भवन १७५  
 पाञ्चात्य दर्शनो का इतिहास ना प्र सभा. ४००  
 प्रवच प्रभाकर स ११ हि भवन. ५८०  
 फिर निराशा क्यों ? गंगा १५०  
 भारतीय सस्कृति की रूपरेखा सगो स कि घर, ग्वा ४००  
 मन की दाते आत्माराम ३५०  
 मेरी असफलताए ना रत्न भ ३००  
 मेरे निवध गयाप्रसाद ५००  
 रहस्यवाद और हिंदी कविता सरस्व. पु. स ४००  
 राष्ट्रीयता गयाप्रसाद ५००  
 विद्यार्थी जीवन गयाप्रसाद १.५०  
 सत्य और स्वतंत्रता के उपासक लक्ष्मी ना. १७५  
 सांस्कृतिक जीवन गयाप्रसाद २.००  
 साहित्य-समीक्षा आत्माराम २००  
 सिद्धांत और अध्ययन आत्माराम ६.५०  
 हिंदी काव्य विमर्श आत्माराम ४००  
 हिंदी गद्य का विकास और प्रमुख शैलीकार शिवलाल २५०  
 हिंदी नाट्य विमर्श श्री भा भारती. ३००.  
 हिंदी लोकोक्तिया और मुहावरे एत चाद १७५  
 हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास सरस्व पु स. १२५  
 हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास स. २८ सा रत्न भ  
 ३.५०

— तथा विजयेन्द्र स्नातक आलोचक रामचंद्र शुक्ल आत्माराम  
 ८.००

— नया प्रसादजी की कला स ४ सा. रत्न भ ५००  
 भाषा भूषण. सा. रत्न भ १.००  
 गुलाबराय दे तुलसीदास गोस्वामी  
 गुलाबराय. दे. द्विवेदी, गणेशप्रसाद.

गुलाबराय दे त्यागी, भारतभूषण.  
 गुलाबराय दे भारतेदु हरिश्चन्द्र.  
 गुलाम अब्बास. मुहव्वत सोती है रूपसी. १५०. उ.  
 गुलाम अहमद 'फुरक्त' मुसकराहटे आत्मराम २००  
 गुलेरी दे शर्मा, चन्द्रधर 'गुलेरी'  
 गूच. इंग्लैंड का राजदर्शन कि महल ४००  
 यूरोप का आधुनिक इतिहास एस चाद १२५०  
 गूच, जी पी हमारे युग का इतिहास गयाप्रसाद (१८८५-  
 १९१४) ५००, (१८७०-१९५६) ८००  
 गुजरात विद्यापीठ गुजराती-हिंदी-कोश गुजरात ८००  
 हिंदी-गुजराती कोश. गुजरात ६००  
 गेयर, जी आर जाति-विज्ञान का आधार अनु. विनोदचन्द्र  
 मिश्र हि समि ७००  
 गेरेट मनोविज्ञान एलाइड ७००  
 गैद, डी. एन तथा आर पी शर्मा आधुनिक विश्व की प्रमुख  
 शासन प्रणालिया सशो स. ६ रतन ७००  
 आस्ट्रेलिया का सविधान रतन ०७५  
 कनाडा का सविधान रतन ०७५  
 ग्रेट ब्रिटेन का सविधान रतन २५०  
 चीन गणराज्य और जापान का सविधान रतन २००  
 फ्रांस का सविधान रतन १५०  
 भारत का सविधान रतन १२५  
 भारतीय जनतंत्र और शिक्षालय व्यवस्था रतन. ६००  
 रूस का सविधान रतन १५०  
 शैक्षिक एव माध्यमिक शिक्षालय व्यवस्था स २ रामप्रसाद  
 ६५०  
 सयुक्त राज्य अमेरिका का सविधान रतन २५०  
 स्विटजरलैंड का सविधान रतन १५०  
 गैटेल राजनीतिक चिंतन का इतिहास अनु सत्यनारायण  
 दुवे लक्ष्मी ना १५००  
 गैदर, अर्कादी चूक और गेक पीपुल्स १२५ वप्र  
 नीला प्याला पीपुल्स १२५ वप्र  
 गैरोला, वाचस्पति अक्षर अमर रहे चौखवा ५००  
 कौटिल्य का अर्थशास्त्र (भाषा) १०००  
 भवभूति नया सा प्र १५० वप्र  
 भारतीय चित्रकला मित्र ५०००  
 भारतीय दर्शन लोकभारती १०००  
 भारतीय धर्म व्यवस्था लोकभारती ४००  
 लोकगीत संग्रह न्यू लिट ०२५  
 संस्कृत साहित्य का इतिहास चौखवा २०००, सक्षिप्त  
 ८००  
 हमारी योजनाए और प्रगति बोरा २२५  
 गैलब्रेथ, जॉन कैनेथ आर्थिक विकास का साक्षेप चित्रण  
 आत्मराम २००  
 उदारता की घड़ी अनु रामस्वरूप शास्त्री आत्मराम  
 ४००  
 समृद्ध समाज. अनु हरिप्रतापसिंह आत्मराम ६००  
 गोधलेकर, दि ज. दे. फणसीकर, चि रा.

गोकुल. दे राधामोहन गोकुल  
 गोकुलचंद्र शास्त्री. राम-कथा मजरी रा वेनीमाधव १.२५  
 गोगोल शाह बादशाह यूनिवर्सिटी ३.५० उ  
 गोडवाले, ना. ब मराठी साहित्य का इतिहास. गयाप्रसाद.  
 ३.००  
 गोनबुद्ध, राजा रगनाथ रामायण. अनु ए. सी कामाक्षि राव.  
 बि राष्ट्र. ६५०  
 गोपाल इतिहास के विखरे पन्ने साहनी ०५० वप्र  
 ईशोपनिषद स २ वसल ०६० वप्र  
 तीतर पंडित साहनी ०७५ वप्र  
 पशुओ की देख-भाल साहनी ०५० वप्र  
 पशुरक्षा साहनी ०५० वप्र  
 मूल रामायण साहनी ०७५ वप्र  
 गोपालकृष्ण प्रणय-बंधन पुष्पी १२५ उ; — —सुरेद्र.  
 ३५०  
 गोपालचंद्र 'देव' सरजा शिवाजी एस चाद १.५०  
 गोपालचंद्र शास्त्री डालिम कुमार नद ब्र एव नद. स  
 १०० वप्र  
 सगति इ प्रे १५० उ  
 गोपालदास तथा कमलाकर तिवारी दे दत्त, रमेशचंद्र  
 गोपालदास 'नीरज', १९२६- आसावरी. आत्मराम: २.५०.  
 का.  
 गीत भी अगीत भी राजपाल २०० का.  
 दर्द दिया है आत्मराम ३०० का.  
 दो गीत आत्मराम १५० का  
 नदी किनारे आत्मराम १५० का  
 नीरज की पाती विनोद २५० का, — —हिंद पा १००  
 प्राण-गीत आत्मराम ३०० का  
 बादर बरस गयो आत्मराम ३०० का  
 मुक्तकी आत्मराम १५० का  
 लहर पृकारे आत्मराम ३०० का  
 सुमित्रानदन पत कला, काव्य और दर्शन आत्मराम ३००  
 हिंदी के सर्वश्रेष्ठ विरहगीत स्टार (पा) १००  
 हिंदी रुबाइया हिंद पा १००  
 —सपा. लिख-लिख भेजत पाती आत्मराम २०० का  
 हिंदी की प्रतिनिधि प्रेम-कविताए आत्मराम  
 हिंदी के श्रृ गार गीत हिंद पा १००  
 गोपालदास 'नीरज' यह भी दे नीरज  
 गोपालनाथ 'दया', अनु सती कृष्णकी हि सा. सम्मे ०५०  
 उ  
 गोपालनारायण. देशी वही खाता सरस्व प्रे १५०  
 गोपालराम गहमरी ठनठन गोपाल कि महल २५०  
 गोपालशरण सिंह, ठाकुर, १८९१- आधुनिक कवि हि सा  
 सम्मे १५०  
 ग्रामिका इ प्रे ३०० का  
 जगदालोक इ प्रे ४०० का  
 ज्योतिष्मती इ प्रे २५० का  
 प्रेमाजलि इ प्रे ४०० का



मानवी इ प्रे २५० का  
 विश्वगीत इ प्रे १७५ का  
 सचिता इ प्रे ३०० का  
 सुमना इ प्रे २०० का  
 गोपान ग्रास्त्री भारतीय-संस्कृति हिं सा सम्मे १५०  
 गोपाल ग्रास्त्री 'दर्शन केसरी' पाणिनीय नाटकम् चौखवा  
 २००  
 संस्कृत-शिक्षक सा सेवक १००  
 गोपाल खेरन्, सपा, १९३६- ससार की तेरह श्रेष्ठ कहा-  
 निया उमेश ३००  
 गोपालसिंह १०१ सामूहिक खेल कृष्ण ब्र-१२५  
 गोपालसिंह 'नेपाली', १९११-१९६३ उमग ज्ञान प्र ३००  
 का  
 नवीन पु भ ३०० का, — —रामलोचन (पा) १००  
 पछी गगा, राष्ट्रीय प्र मडल एव राष्ट्रीय सा स १०० का  
 रागिनी गगा, राष्ट्रीय प्र मडल एव राष्ट्रीय सा स  
 १०० का  
 गोपीकृष्ण गोपेश तुम्हारे लिए सा भवन, इ ४०० का  
 —अनु पूजीपति सा भवन, इ २०० क  
 गोपीनाथ 'अमन' उर्दू और उसका साहित्य राजकमल २२५  
 गोपीनाथ कविराज तान्त्रिक वाङ्मय मे शाक्तदृष्टि वि राष्ट्र  
 ७५०  
 भारतीय संस्कृति और साधना वि राष्ट्र ११५०  
 —तथा विश्वनाथप्रसाद मिश्र, सपा प्रभुदेव वचनामृत ना प्र  
 सभा ६५०  
 गोपीनाथन नायर, टी एन पशु रूपा रघुवीरशरण व्यथित  
 वासुदेव १.८० ना  
 गोपीवल्लभ-शालग्राम जब सूर्योदय होगा गगा ३५० उ  
 गोपेश, अनु विदेशो के महाकाव्य सा भवन, इ ६५०  
 गोमती देवी जपर फ्राक कोटियो के गले देहाती २५०  
 गोमर, नरेद्र राजधानी तक पहुच प्रकाश पा १००  
 गोयदका, जयदयाल अध्यात्मविषयक पत्र गीता ०५०  
 आदर्श नारी सुशीला गीता ०.२०  
 आदर्श भ्रातृ-प्रेम गीता ०२०  
 कर्मयोग का तत्त्व गीता ११२  
 ज्ञानयोग का तत्त्व गीता १००  
 तत्त्व-चिंतामणि गीता भा १ ०६२, भा २ ०८७,  
 भा ३ ०७०, भा ४ ०८१, भा ५ ०८१, भा ६  
 १००, भा ७ ११२, गुटका स भा १ ०५०, भा २  
 ०५६, भा ३ ०५०, भा ४ ०६२, भा ५ ०५६  
 परम शांति का मार्ग गीता १००  
 परम साधन गीता १००  
 परमार्थ-पत्रावली गीता भा १-२ ०२५ (प्र), भा ३-४  
 प्रेमयोग का तत्त्व गीता १०० [०५० (प्र)]  
 मनुष्य का परम कर्तव्य गीता १००  
 मनुष्य-जीवन की सफलता गीता १००  
 महत्त्वपूर्ण शिक्षा गीता १००  
 गीत, गारह कहानिया गीता ०२५

शिक्षाप्रद पत्र गीता ०५०  
 गोयदका, जयदयाल, टीका श्रीमद्भगवद्गीता-तत्त्वविवेचनी  
 गीता ४००  
 गोयल अर्थशास्त्र के सिद्धांत भा २ रस्तोगी ६००  
 मुद्रा, वैकिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय आय एव राजस्व.  
 रस्तोगी १०००  
 मुद्रा, वैकिंग एव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रस्तोगी ८००  
 राजस्व के सिद्धांत एव भारतीय वित्त व्यवस्था रस्तोगी  
 ३००  
 गोयल, जगदीश मोतीलाल नेहरू शिवलाल १५० वप्र.  
 गोयल, जे एन नवीन आर्थिक एव वारिण्य निवध स २  
 आगरा बुक २५०  
 गोयल, त्रिलोकचंद प्रकाश की कहानी राजपाल ३००  
 गोयल, देवनारायण दे गुप्त, जगराम  
 गोयल, देशराज समाज और व्यक्ति राजधानी १५०  
 गोयल, नरेद्र राजधानी तक पहुच प्रकाश पा १००  
 गोयल, मुरलीमनोहर अच्छे निवध सशो स ४ कल्याणमल.  
 ३००  
 अपठित विहार तथा हिंदी रचना स २ कल्याणमल. १००  
 आओ चले गावो की ओर कल्याणमल. ०७५ ए  
 निवध ससार कल्याणमल ३५०  
 बेसिक गृह विज्ञान कल्याणमल ०६०  
 रचना विहार सशो स ३ कल्याणमल १७५  
 सचित्र काष्ठकला कल्याणमल २००  
 हिंदी भाषा-ज्ञान कल्याणमल १००  
 गोयल, रामनारायण दे भार्गव, रामेश्वरनाथ  
 गोयल, शिवकुमार हिमालय के प्रहरी शकुन १५०  
 गोयल, शिवप्रसाद दे नित्यानंद  
 गोयल, श्रीराम गुप्तकालीन भारत विश्वविद्यालय  
 प्रागैतिहासिक मानव और संस्कृतिया विश्वविद्यालय. ६५०  
 विश्व की प्राचीन सभ्यताए भा १ विश्वविद्यालय विद्यार्थी  
 स २०००, पुस्तकालय स २५००  
 हम सब एक है विश्वविद्यालय १००  
 गोयल, सत्यप्रकाश दे टेलर, शेरउड  
 गोयल, सीताराम कम्यूनिस्ट पुराण विद्यार्थी ०५०  
 नल दमयती भा सा सदन १७५  
 पथभ्रष्ट भ्र सा सदन ६०० उ  
 प्रारणो का पाश भा सा सदन १७५, (पा) १०० उ  
 शक्ति पुत्र शिवाजी भा सा सदन २५०  
 सत्यकाम सोक्रातेज भा सा सदन २५०  
 सप्तशील भा सा सदन ८०० उ  
 सम्यक् सवुद्ध भा सा सदन १७५  
 गोयल, हनुमानप्रसाद दूध ही अमृत है छात्रहितकारी २५०  
 गोयल, हनुमानप्रसाद दे गुप्त, केदारनाथ  
 गोयलीय, अयोध्याप्रसाद, १९०२- कुछ मोती कुछ सीप  
 स २ भा ज्ञानपीठ २५० क  
 गहरे पानी पैठ स ३ भा ज्ञानपीठ २५० क  
 जिन खोजा तिन पाइया स ३ भा ज्ञानपीठ २५० क.

जैन-जागरण के अग्रदूत. भा ज्ञानपीठ ५००. जी  
नगमए-हरम. भा. ज्ञानपीठ ४०० का  
लो कहानी सुनो भा ज्ञानपीठ २०० क  
शायरी के नये दौर भा १-५ भा ज्ञानपीठ ३०० (प्र)  
शायरी के नये मोड़ भा १-५ भा ज्ञानपीठ ३०० (प्र)  
शेर ओ शाइरी स २ भा ज्ञानपीठ ८००. का  
शेर ओ सुखन स २ ५ भा भा ज्ञानपीठ. २०००  
का.  
गोयलीय, दयाचंद पिता के उपदेश हि ग्र २०१६ बप्र  
गोरखनाथ सिंह राजकीय व्यय-प्रबंध के सिद्धांत बि राष्ट्र  
१५०  
गोरखप्रसाद. चंद्र सारिणी ना प्र सभा २५०  
नीहारिकाए बि राष्ट्र ४२५ वि  
भारतीय ज्योतिष का इतिहास हि समि ४००  
सूर्य सारिणी ना प्र सभा २५०  
गोरा, आर एन तथा एम एम लवानिया नागरिक शास्त्र  
की रूपरेखा यग मैन ४००  
गोर्की, मैक्सिम, १८६८-१९३६ अभागा नवयुग प्र ३५०  
उ  
अर्थमानव प्रभात प्र. ६०० उ  
आदमी और भेड़िया सुभाष. २००  
इसान पैदा हुआ पीपुल्स ११२ क  
इटली की कथाए पीपुल्स १५० क  
गोर्की की कहानिया कि. महल २५०  
घर का नरक. राजधानी २००  
चुनी हुई कहानिया पीपुल्स २६२.  
छलना हिद पा १००. उ  
जनता के बीच पीपुल्स २६२  
जीवन का सार नवयुग प्र २५० क  
जीवन से बहिष्कृत चौधरी १५०  
टानिया स. ३ सा सेवक एव हि प्रचा म १.५०  
तलछट पीपुल्स २००. ना  
तीन पीढी. अनु शिवदानसिंह चौहान तथा विजय चौहान  
सा. केन्द्र ५.०० उ  
दुश्मन पीपुल्स. ०४४ ना  
प्रजातंत्र का एक राजा अभिज्ञान १२५ क.  
बेकारी का मालिक नवयुग प्र ३००. उ  
मा. अर्चना प्र (पा) १००, ज्ञानमंडल सक्षिप्त स १.५०,  
प्रकाश पा. १००, भा प्र. मंडल. १५०, सरस्व. प्रे  
५.००. उ.  
मालवा अनु भैरवप्रसाद गुप्त धारा २५० उ  
मालिक चौधरी ३२५  
मिश्र का रावण चौधरी २००  
मेरा वचन पीपुल्स १५०  
मेरे विश्वविद्यालय पीपुल्स १३७  
व्यापारी का बेटा प्रभात प्र ४५० उ  
श्रेष्ठ कहानिया २ भा प्रभात प्र ३.०० (प्र.)  
साहित्यिक सस्मरण. पीपुल्स. ३.५०

गोलक बिहारी घल पेट की हवा मुह की बात राष्ट्र. पु. भ  
१५०  
गोलवलकर, पु ल व्यापार सगठन स ३ रामप्रसाद. १०.००  
व्यापार सगठन एव व्यवस्था रामप्रसाद १०००  
गोलेछा तथा द्रविड सचित्र रसायन कल्याणमल ३५०  
गोल्डस्टूकर, थि हिदुओ की प्रबुद्ध रचनाए अनु चारुचंद्र  
शास्त्री चौखवा ४००  
गोल्डस्मिथ अनोखी तृप्ति. अपर. ४२५ उ  
गोल्डस्मिथ, ऑलिवर दुलहिन की जीत अनु ज्ञानवती दरबार.  
रजन २.०० ना  
सज्जनता की विजय अनु ज्ञानवती दरबार. रजन. २.००  
ना.  
गोवर्धनसिंह, मेजर गोरी कमल-कुज प्र ३०० उ  
गोविंद अपने को पहिचानो कल्याणदास २००  
गोविंद कवि कर्णाभरणा भारतजीवन ०२५ का  
गोविंद चातक एवरेस्ट की कहानी सस्ता ०.४०  
गढवाल की लोक-कथाए २ भा आत्माराम १५० (प्र.)  
नेपाल की लोक-कथाए आत्माराम १२५  
पक्षियों की कहानिया आत्माराम ४०० बप्र.  
भारतीय तेल की कहानी आत्माराम १.००  
गोविंददास प्रिया या प्रजा गगा १५० का  
गोविंददास, सेठ, १८६६- अग्नेजो का आगमन तथा उसके बाद  
एस. चाद २७५ ना.  
अशोक एस चाद. २५०. ना.  
अष्टदल रा बेनीप्रसाद. १२५. ए  
आत्म-निरीक्षण ३ भा एस चाद २२.०० जी  
इद्रुमति एस चाद ७००. उ, — — कि महल.  
१५००, — — हिद पा १००.  
कुलीनता हि ग्र. र. १.७५ ना  
गरीबी या अमीरी हिंदु एकेडेमी २०० ना  
गोविंद ग्रथावली २० ख एस चाद ७०० ना.  
जन्म-भूमि-प्रेम एस चाद. ०३१ का.  
दक्षिण भारत की एक भलक एस. चाद २.७५. ना.  
धोखेबाज तथा अन्य एकाकी एस चाद ३००  
नाट्यकला मीमासा. मध्यप्रदेश शासन. ३.५०  
पत्र-पुष्प एस. चाद. १.७५. का  
पृथ्वी-परिक्रमा आत्माराम. १२०० अमराण.  
प्रकाश एस चाद. ३.५० ना  
प्रकृति-पूजा एस. चाद ०.३७. का.  
प्राग् कालीन भारत की एक भलक. एस चाद २.७५  
प्राचीन काश्मीर की एक भलक एस. चाद २५०. ना.  
प्रेम-विजय एस चाद २५० का  
बाल गाधी एस. चाद. ०.५० ना.  
भविष्यवाणी एस चाद ३०० ए.  
भारत-दर्शन एस. चाद ०३७ का  
भारतेदु ओरिएटल. २.००. ना.  
भिक्षु से गृहस्थ, गृहस्थ से भिक्षु. एस. चाद. २.००. ना.  
भूदान-यज्ञ. एस. चाद. २.५०. ना.

महात्मा गांधी एस चाद २५० ना  
 महापुरुषो के साथ हिंद पा १०० सस्म  
 मुगलकालीन भारत की एक झलक एस चाद १५० ना  
 मेरे जीवन के विचार-स्तम्भ एस चाद ३५०  
 मोतीलाल नेहरू एक जीवनी मध्यप्रदेश मोतीलाल नेहरू  
 जन्म शताब्दी समारोह समिति २५०  
 रहीम ओरिएटल २०० ना  
 विकास हि सा सम्मे ०७५ ना  
 विजयवेलि अथवा कुरुष एस चाद ३०० ना  
 विश्व-प्रेम एस चाद ३०० ना  
 शबरी एस चाद १५० का  
 शाप और वर एस चाद २५० ए  
 शेरशाह एस चाद २५० ना  
 सवाद-सप्तक एस चाद १२५ का  
 सिद्धात-स्वातंत्र्य एस चाद २०० ना  
 सेवापथ हि भवन १५० ना  
 स्नेह या स्वर्ग एस चाद १७५ का  
 स्पर्द्धा तथा अन्य एकाकी एस चाद २५०  
 स्मृति-कण एस चाद ४०० वप्र  
 हमारे मुक्ति-दाता एस चाद २५० ना  
 हर्ष एस चाद २२५ ना  
 —तथा रामनारायण अग्रवाल ब्रज और ब्रजयात्रा एस चाद.  
 ५५०  
 रास लीला एक परिचय एस चाद २५०  
 गोविंददास विनीत खोया सुहाग अग्रवाल प्रि ०७५ उ  
 तिलक अग्रवाल प्रि ०७५ उ  
 महाभारत श्यामलाल ७००  
 श्रीमद्भागवत श्यामलाल ६५०  
 गोविंदप्रसाद शास्त्री संस्कृत व्याकरण नवनीतम् रा वेनी-  
 माधव १२५  
 गोविंद 'माली' पछी विछड गए वबई प्र २०० उ  
 गोविंद राजानक अभ्युद्यति श्रेयसद निर्वाणपदम विश्वेश्व-  
 रानंद ०२५  
 गोविंदराम दे साधुराम  
 गोविंदसिंह अतरिक्ष आदर्श पु म २०० उ.  
 अघेरा और गुनाह कन्हैयालाल ४२५ उ  
 १८५७ कन्हैयालाल १००० उ  
 अतुकात कन्हैयालाल ३५० उ  
 अघूरे रिश्ते पुष्पी १२५ उ  
 अफसाना कन्हैयालाल १६७५ उ  
 अमावस का चाद आदर्श पु म २५० उ  
 अस्वीकृत सुभाष ५०० उ  
 आतापी चिनगारी १५०  
 आदमी साप और बच्चा गुल्लूप्रसाद ३००  
 आवारा चौधरी ३२५  
 आशियाना चौधरी २५०  
 और ईजाद ५२५ उ  
 दाग चौधरी ३५०

एक आदमी दो चेहरे गुल्लूप्रसाद ४५०  
 एक औरत एक पहेली रतन एड-क ३५० उ  
 एक रात के साथी सुभाष २५० उ  
 कच्ची कली गुल्लूप्रसाद ३५०  
 काच के सपने गुल्लूप्रसाद ३५०  
 कागज का फूल चौधरी ३००  
 काजल चौधरी ३००  
 कालगढी गुल्लूप्रसाद ३५०  
 काली घटा चौधरी २५०  
 काहे जिया डोले आदर्श पु म २५० उ.  
 कुवारे सपने कन्हैयालाल ३५० उ  
 कुमारिल गुल्लूप्रसाद ३५०  
 खडित प्रतिमा सुभाष उ  
 गदे आदमी पुष्पी १२५  
 गदे हाथ कन्हैयालाल ३७५ उ  
 गटर के कीडे सुभाष ४०० उ  
 गुनहगार आदर्श पु म ३५० उ, — — कन्हैयालाल  
 ०६३  
 गुनाहो के आचल रतन एड क ३५० उ  
 गुलाबी दाग पुष्पी एव सुरेद्र २२५ उ  
 धिनौने कल्याणदास २०० उ  
 चौरगी चौधरी ३२५  
 जय मेवाड चौधरी ४५०  
 जलवा कन्हैयालाल ४०० उ  
 जौहर कन्हैयालाल ६०० उ  
 भूठे सपने कन्हैयालाल ३५० उ  
 टूटे हुए आदमी कन्हैयालाल ४०० उ  
 डीले बधन कन्हैयालाल ४०० उ  
 तग गली कन्हैयालाल ४०० उ  
 तथागत चौधरी ३००  
 तन के उजले, मन के काले कन्हैयालाल ४२५ उ  
 तपन कन्हैयालाल ८०० उ  
 तराना कन्हैयालाल ५०० उ  
 तस्वीर कन्हैयालाल ४५० उ  
 तारो भरी रात चौधरी ३००  
 तिरस्कृत पुष्पी ०७५ उ., — — सुरेद्र. २.००; (पाः)  
 १००  
 तीसरा चक्कर गुल्लूप्रसाद २००  
 त्यागमूर्ति सुभाष २५० उ  
 थपेडे आदर्श पु म ३०० उ  
 दीपाली कन्हैयालाल ६२५ उ  
 दीया जले रात भर सुभाष २५० उ  
 धव्ने आदर्श पु म ३०० उ  
 धरती रोती है आदर्श पु म ४०० उ  
 धुधले चेहरे कन्हैयालाल ४५० उ  
 नगपाश कन्हैयालाल २५० उ  
 नजरे कन्हैयालाल ३०० उ  
 नफरत. गुल्लूप्रसाद ३५०

नयी आखे. कन्हैयालाल. ४५०. उ.  
 नये फूल कन्हैयालाल ३७५. उ  
 नये सपने कन्हैयालाल ३.५० उ.  
 नागफन्नी कन्हैयालाल ४.००. उ  
 नादिरशाह चौधरी ५.००  
 निशानी कल्याणदास २५० उ  
 पत्थर के देवता चिनगारी. ३००  
 पपीहा बोले आधी रात चौधरी २५०  
 पायल वाजते रहे आदर्श पु म. २५०. उ.  
 पायल वाजे छम-छम. गुल्लूप्रसाद. ३५०  
 पीले राक्षस कन्हैयालाल ५०० उ.  
 पुतली. सुभाष २५० उ.  
 पर की धूल. सुभाष ३५०. उ.  
 प्यासे नैना कन्हैयालाल २२५ उ  
 फिसलते साये गुल्लूप्रसाद. ३००  
 बडे घर बडे लोग. पुष्पी. २००  
 बदनसीब कल्याणदास ३०० उ  
 बदनाम. आदर्श पु म ३००. उ  
 बदनाम गली पुष्पी. १०० उ  
 बदवू. कन्हैयालाल ३७५ उ  
 बदसूरत गुल्लूप्रसाद ३००  
 बलाई कन्हैयालाल ७५०. उ.  
 बहाना कन्हैयालाल. ३.०० उ.  
 बुलबुल कन्हैयालाल २७५ उ.  
 बेहया. पुष्पी २.७५  
 भीगा आचल गुल्लूप्रसाद ३५०  
 मकड़ी का जाल चौधरी. २५०  
 मचलती आरज. कन्हैयालाल ४०० उ.  
 मजलिस. कन्हैयालाल ५५०. उ.  
 मधुछदा कन्हैयालाल ६०० उ  
 मिटती रेखाए चिनगारी १.५०  
 मुरझाये फूल. आदर्श पु म २.५०. उ.  
 में बेगुनाह हू सुभाष ३५० उ.  
 मौत की मौत चिनगारी १५०  
 ये भी इन्सान है सुभाष. ३०० उ  
 रात का पछी कन्हैयालाल ५५०. उ.  
 रात का बाजार शमा २.०० उ.  
 रात वाकी है गुल्लूप्रसाद ३५०  
 रात हो गई आदर्श पु मं. २५०. उ  
 रेणमा कन्हैयालाल २.५० उ  
 रेसामी धागे कन्हैयालाल. ३७५. उ  
 लगन चिनगारी. ३००  
 नटखटाते कदम सुभाष ३२५. उ.  
 नलकार चौधरी ३.५०  
 लालकृष्णर गुल्लूप्रसाद ४.००  
 लाल कोठी कन्हैयालाल. ५.००. उ.  
 लाल चुनरिया कन्हैयालाल. ६००. उ  
 लाल तारा कन्हैयालाल ४.००. उ.

लाल दुपट्टा कन्हैयालाल ३००. उ  
 लाल बाग कन्हैयालाल २.५० उ  
 लाल विदिया कन्हैयालाल ६.०० उ.  
 लाल हथेली चिनगारी २५०.  
 लाल हवेली कन्हैयालाल ३.७५. उ.  
 लावारिस आदर्श पु म २७५ उ  
 वार्ड न चार आदर्श पु म २.५० उ.  
 विपकन्या चौधरी. ३५०  
 सग-साथ सुभाष १५०. उ  
 सपने की रानी. चौधरी २.५०  
 सपनों के मीत रतन एड क ३५०. उ.  
 सरगम कन्हैयालाल २७५ उ  
 सहारा चौधरी २५०  
 सहेली कन्हैयालाल ६००. उ.  
 सावरिया. चौधरी. ३००  
 सावरी. आदर्श पु म २५०  
 सागरिका आदर्श पु म २.५० उ.  
 सावन-भादो कन्हैयालाल ४५०. उ.  
 साहिरा कन्हैयालाल ३.२५ उ  
 सिसकिया कन्हैयालाल २५०. उ.  
 सुनहले धागे कन्हैयालाल ३७५ उ  
 सुवह हो गई आदर्श पु. म. ४०० उ  
 सुहाग सुभाष २.५०. उ.  
 सोलह साल कन्हैयालाल. ३००. उ.  
 सौसन पुष्पी २५० उ.  
 स्वयवरा आदर्श पु म २००. उ.  
 स्वर्णगाछ कन्हैयालाल ३.२५ उ  
 हड्डियों के ढाचे सुभाष ३५० उ  
 हथेली पर हिमालय सुभाष १५०. उ  
 हमे जीने दो. सुभाष ३०० उ.  
 हसीना कन्हैयालाल १७५ उ  
 —सपा नेहरू जी की सूक्तिया. हिं प्रचा. पु १.००  
 गोविंदसिंह, गुरु. गोविंद रामायण सा रत्न-माला ४.००  
 गोविंदामाली छुई-मुई अशोक पा १२५. उ.  
 गोविल, एम पी अंतराष्ट्रीय सवध स. २ रस्तोगी ७.००  
 गोविल, गगामहाय न्यू थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस आफ टाइप-  
 राइटिंग. रा वेनीप्रसाद २००  
 हाई स्कूल बुककीपिंग और एकाउन्टेंसी गुप्ता ब्रा. २५०  
 गोविल, वी एल. इटर चलन कलन स ४. भा. भा. प्र.  
 १२५  
 गोविंदा, वाकेनाल तथा रामकुमार वीजगणित सगो. स. ३.  
 भा २ आगरा बुक ३००  
 गोनावी, वृष्णानारायण. हिमानय दर्शन आत्मराम. ४.००.  
 भ्रमण  
 गोन्वामी, अतुलवृष्ण. नारी. आत्मराम. १००० का.  
 गोन्वामी. कन्हैयालाल. सभ्यता की कहानी. नवयुग ग्रं. कु.  
 ३.००  
 गोस्वामी, पी व्यक्ति और नमाज. प्रकाश बुक. ६.७५

महात्मा गांधी एस चाद २५० ना  
 महापुरुषो के साथ हिंद पा १०० सस्म  
 मुगलकालीन भारत की एक झलक एस चाद १५० ना  
 मेरे जीवन के विचार-स्तम्भ एस चाद ३५०  
 मोतीलाल नेहरू एक जीवनी मध्यप्रदेश मोतीलाल नेहरू  
 जन्म शताब्दी समारोह समिति २५०  
 रहीम औरिएटल २०० ना  
 विकास हिं सा सम्मे ०७५ ना  
 विजयवेलि अथवा कुरुष एस चाद ३०० ना  
 विश्व-प्रेम एस चाद ३०० ना  
 शबरी एस चाद १५० का  
 शाप और वर एस चाद २५० ए  
 शेरशाह एस चाद २५० ना  
 सवाद-सप्तक एस चाद १२५ का  
 सिद्धात-स्वातंत्र्य एस चाद २०० ना  
 सेवापथ हिं भवन १५० ना  
 स्नेह या स्वर्ग एस चाद १७५ का  
 स्पर्द्धा तथा अन्य एकाकी एस चाद २५०  
 स्मृति-कण एस चाद ४०० वप्र  
 हमारे मुक्ति-दाता एस चाद २५० ना  
 हर्ष एस चाद २२५ ना  
 —तथा रामनारायण अग्रवाल ब्रज और ब्रजयात्रा एस चाद.  
 ५५०

रास लीला एक परिचय एस चाद २५०  
 गोविंददास विनीत खोया सुहाग अग्रवाल-प्रि ०७५ उ  
 तिलक अग्रवाल प्रि ०७५ उ  
 महाभारत श्यामलाल ७००  
 श्रीमद्भागवत श्यामलाल ६५०  
 गोविंदप्रसाद शास्त्री संस्कृत व्याकरण नवनीतम् रा वेनी-  
 माधव १२५  
 गोविंद 'माली' पछी विछड गए वनई प्र २०० उ  
 गोविंद राजानक अभ्युद्यनि श्रेयसद निर्वाणपदम विश्वेश्व-  
 रानद ०२५  
 गोविंदराम दे साधुराम  
 गोविंदसिंह अतरिक्ष आदर्श पु म २०० उ  
 अधेरा और गुनाह कन्हैयालाल ४२५ उ  
 १८५७ कन्हैयालाल १००० उ  
 अतुकात कन्हैयालाल ३५० उ  
 अचूरे रिश्ते पुष्पी १२५ उ  
 अफसाना कन्हैयालाल १६७५ उ  
 अमावस का चाद आदर्श पु म २५० उ  
 अस्वीकृत सुभाष ५०० उ  
 आतापी चिनगारी १५०  
 आदमी साप और वच्चा गुल्लूप्रसाद. ३००  
 आवारा चौधरी ३२५  
 आशियाना चौधरी २५०  
 ईमान और ईजाद ५२५ उ  
 उजले दाग चौधरी ३५०

एक आदमी दो चेहरे गुल्लूप्रसाद ४५०  
 एक औरत एक पहेली रतन एड-क ३५० उ  
 एक रात के साथी सुभाष २५० उ  
 कच्ची कली गुल्लूप्रसाद ३५०  
 काच के सपने गुल्लूप्रसाद ३५०  
 कागज का फूल चौधरी ३००  
 काजल चौधरी ३००  
 कालगढी गुल्लूप्रसाद ३५०  
 काली घटा चौधरी २५०  
 काहे जिया डोले आदर्श पु म २५० उ  
 कुवारे सपने कन्हैयालाल ३५० उ  
 कुमारिल गुल्लूप्रसाद ३५०  
 खडित प्रतिमा सुभाष उ  
 गदे आदमी पुष्पी १२५  
 गदे हाथ कन्हैयालाल ३७५ उ  
 गटर के कीडे सुभाष ४०० उ  
 गुनहगार आदर्श पु म ३५० उ, — — कन्हैयालाल  
 ०६३  
 गुनाहो के आचल रतन एड क ३५० उ  
 गुलाबी दाग पुष्पी एव सुरेद्र २२५ उ  
 धिनौने कल्याणदास २०० उ  
 चौरगी चौधरी ३२५  
 जय मेवाड चौधरी ४५०  
 जलवा कन्हैयालाल ४०० उ  
 जौहर कन्हैयालाल ६०० उ  
 भूटे सपने कन्हैयालाल ३५० उ  
 टूटे हुए आदमी कन्हैयालाल ४०० उ  
 ढीले बधन कन्हैयालाल ४०० उ  
 तग गली कन्हैयालाल ४०० उ  
 तथागत चौधरी ३००  
 तन के उजले, मन के काले कन्हैयालाल ४२५ उ  
 तपन कन्हैयालाल ८०० उ  
 तराना कन्हैयालाल ५०० उ  
 तस्वीर कन्हैयालाल ४५० उ  
 तारो भरी रात चौधरी ३००  
 तिरस्कृत पुष्पी ०७५ उ, — — सुरेद्र. २००; - (पा.)  
 १००  
 तीसरा चक्कर गुल्लूप्रसाद २००  
 त्यागमूर्ति सुभाष २५० उ  
 थपेडे आदर्श पु म ३०० उ  
 दीपाली कन्हैयालाल ६२५ उ  
 दीया जले रात भर सुभाष २५० उ  
 धव्वे आदर्श पु म ३०० उ  
 धरती रोती है आदर्श पु म ४०० उ  
 धुधले चेहरे कन्हैयालाल ४५० उ  
 नगपाश कन्हैयालाल २५० उ  
 नजरे कन्हैयालाल ३०० उ  
 नफरत. गुल्लूप्रसाद ३५०

नयी आखे. कन्हैयालाल ४.५०. उ.  
 नये फूल कन्हैयालाल. ३.७५. उ  
 नये सपने कन्हैयालाल ३.५०. उ.  
 नागफन्नी कन्हैयालाल ४.००. उ  
 नादिरशाह चौधरी ५.००  
 निशानी कल्याणदास २.५०. उ  
 पत्थर के देवता चिनगारी ३.००  
 पपीहा बोले आधी रात चौधरी. २.५०  
 पायल बाजते रहे आदर्श पु म २.५०. उ.  
 पायल बाजे छम-छम. गुल्लूप्रसाद ३.५०  
 पीले राक्षस कन्हैयालाल ५.०० उ.  
 पुतली. सुभाष. २.५० उ.  
 पेर की धूल. सुभाष ३.५० उ.  
 प्यासे नैना कन्हैयालाल २.२५ उ  
 फिसलते साये गुल्लूप्रसाद. ३.००  
 बडे घर बडे लोग पुष्पी. २.००  
 बदनामी कल्याणदास ३.०० उ  
 बदनाम आदर्श पु म ३.००. उ.  
 बदनाम गली. पुष्पी १.०० उ  
 बदबू. कन्हैयालाल ३.७५ उ.  
 बदसूरत गुल्लूप्रसाद ३.००  
 बलाई कन्हैयालाल ७.५०. उ.  
 बहाना कन्हैयालाल. ३.०० उ.  
 बुलबुल कन्हैयालाल. २.७५ उ  
 बेहया पुष्पी २.७५  
 भीगा आचल गुल्लूप्रसाद ३.५०  
 मकड़ी का जाल चौधरी. २.५०  
 मचलती आरज. कन्हैयालाल ४.०० उ.  
 मजलिस. कन्हैयालाल ५.५०. उ.  
 मधुछदा कन्हैयालाल ६.०० उ.  
 मिटती रेखाए. चिनगारी १.५०  
 मुरभाये फूल आदर्श पु म २.५०. उ.  
 मैं वेगुनाहू सुभाष ३.५० उ.  
 मौत की मौत चिनगारी १.५०  
 ये भी इन्सान है सुभाष ३.०० उ  
 रात का पछी कन्हैयालाल ५.५०. उ.  
 रात का बाजार शमा २.०० उ.  
 रात बाकी है गुल्लूप्रसाद ३.५०  
 रात हो गई आदर्श पु म २.५० उ  
 रेशमा कन्हैयालाल २.५०. उ  
 रेशमी धागे कन्हैयालाल. ३.७५. उ.  
 लगन चिनगारी. ३.००  
 लडखडाते कदम सुभाष ३.२५. उ.  
 ललकार चौधरी. ३.५०  
 लालकुअर गुल्लूप्रसाद ४.००  
 लाल कोठी कन्हैयालाल. ५.०० उ  
 लाल चुनरिया कन्हैयालाल. ६.००. उ  
 लाल तारा कन्हैयालाल ४.००. उ.

लाल दुपट्टा कन्हैयालाल ३.०० उ  
 लाल बाग कन्हैयालाल २.५० उ  
 लाल बिदिया कन्हैयालाल ६.०० उ.  
 लाल हथेली चिनगारी २.५०.  
 लाल हवेली कन्हैयालाल ३.७५ उ  
 लावारिस आदर्श पु म. २.७५ उ.  
 वार्ड न. चार आदर्श पु म २.५० उ.  
 विषकन्या चौधरी. ३.५०  
 सग-साथ सुभाष १.५० उ  
 सपने की रानी. चौधरी २.५०  
 सपनों के मीत रतन एड क ३.५० उ.  
 सरगम कन्हैयालाल २.७५ उ  
 सहारा चौधरी २.५०  
 सहेली. कन्हैयालाल ६.०० उ.  
 सावरिया. चौधरी. ३.००  
 सावरी आदर्श पु म २.५०  
 सागरिका आदर्श पु म २.५० उ.  
 सावन-भादो कन्हैयालाल ४.५०. उ.  
 साहिरा कन्हैयालाल ३.२५. उ  
 सिसकिया कन्हैयालाल २.५०. उ.  
 सुनहले धागे कन्हैयालाल. ३.७५ उ  
 सुबह हो गई आदर्श पु. म. ४.००. उ  
 सुहाग सुभाष २.५०. उ.  
 सोलह साल. कन्हैयालाल. ३.००. उ  
 सौसन पुष्पी २.५० उ.  
 स्वयवरा आदर्श पु म २.०० उ.  
 स्वर्णगाछ कन्हैयालाल ३.२५. उ  
 हड्डियो के ढाचे सुभाष ३.५० उ  
 हथेली पर हिमालय सुभाष १.५०. उ  
 हमे जीने दो. सुभाष ३.०० उ.  
 हसीना कन्हैयालाल. १.७५ उ  
 —सपा नेहरू जी की सूक्तिया हिं प्रचा पु. १.००  
 गोविंदसिंह, गुरु. गोविंद रामायण सा रत्न-माला ४.००  
 गोविंदामाली. छुई-मुई अशोक पा १.२५. उ.  
 गोविल, एस. पी अंतर्राष्ट्रीय सबध स. २ रस्तोगी ७.००  
 गोविल, गगासहाय न्यू थ्योरी एण्ड प्रैक्टिस आफ टाइप-  
 राइटिंग. रा बेनीप्रसाद २.००  
 हाई स्कूल बुककीपिंग और एकाउन्टेसी गुप्ता ब्रा २.५०  
 गोविल, बी एल. इटर चलन कलन स. ४. भा. भा. प्र.  
 १.२५  
 गोविला, बाकेलाल तथा रामकुमार बीजगणित सशो. स. ३  
 भा २ आगरा बुक ३.००  
 गोसावी, कृष्णनारायण. हिमालय दर्शन आत्माराम. ४.००.  
 भ्रमण  
 गोस्वामी, अतुलकृष्ण नारी आत्माराम १०.००. का.  
 गोस्वामी, कन्हैयालाल. सभ्यता की कहानी. नवयुग ग्र. कु.  
 ३.००  
 गोस्वामी, पी व्यक्ति और समाज. प्रकाश बुक. ६.७५

- गोस्वामी, प्रभुदयाल खलिहान की रात गोस्वामी ० ३७  
जगल मे मगल गोस्वामी १ २५  
गोस्वामी, प्रभुदयाल दे गोस्वामी, वासुदेव  
गोस्वामी, वृजलाल साहित्य का स्वरूप सा सगम, लु  
६ २५  
गोस्वामी, भालचद्र 'प्रखर' कहानी दर्शन सा रत्न भ १०.००  
गोस्वामी, ललित मामा जी दिल्ली से आए आत्माराम  
१ ०० वप्र  
मेरे गीत आत्माराम २ ००  
गोस्वामी, ललिताचरण श्रीहित चौरासी नेशनल ३ ५० का  
गोस्वामी, वासुदेव आदर्श व्याज गणक गोस्वामी ४ ००  
उठो वीर सतान ! गोस्वामी ० २५  
उडते छीटे गोस्वामी १ २५ का  
करील-कुज गोस्वामी १ ०० का  
केनोपनिषद् गोस्वामी ० १२  
जातक कहानिया गयाप्रसाद १ २५ वप्र  
त्रिवेणी के सगम पर गोस्वामी १ २५ का  
दशमिक वेतन तालिका गोस्वामी २ ००  
बुद्धदेव गयाप्रसाद एव गोस्वामी १ २५  
बुद्धि के ठेकेदार गोस्वामी १ २५ नि  
भक्त कवि व्यास जी सपा प्रभुदयाल भीतल गोस्वामी एव  
सा सस्थान ६ ००  
विद्रोही बानपुर गोस्वामी १ २५  
हरिराम व्यास गोस्वामी १ ००  
—तथा प्रभुदयाल गोस्वामी जगल मे मगल गयाप्रसाद  
१ २५ वप्र  
जातक कहानिया गोस्वामी १ २५  
गोस्वामी, शरणविहारी एकाकी स्तवक ओरिएटल ३ ००  
कृष्णभक्ति मे सखी भाव चौखवा  
हिंदी व्याकरण तथा निबंध रचना हि सा स १ ७५  
गोस्वामी, सीताराम महाप्रयाण मयूर २ ५०  
रजाकार पतन मयूर १ ५०  
गौड, ए पी राजस्व सा भवन, आ ६.२५  
लोक अर्थशास्त्र सा भवन, आ १ १ २५  
गौड, कृपाशकर अर्थशास्त्र के मूल आधार केदारनाथ. ७ ५०  
से ६ ००  
उत्तरी अमेरिका की भौगोलिक समीक्षा हि प्रचा पु १५ ००  
कृपि अर्थशास्त्र के मूल आधार केदारनाथ. ८ ००  
पूर्व माध्यमिक भूगोल भा १-२ हि प्रचा पु २ ८७.  
(प्र)  
भारत की भौगोलिक समीक्षा हि प्रचा पु १२ ००  
भारत का प्रादेशिक तथा आर्थिक भूगोल एस चाद ६ ५०  
भारतीय अर्थ-व्यवस्था केदारनाथ ६ ५०  
भौतिक भूगोल के सिद्धांत सगो स ४ आगरा बुक ६ ००  
माध्यमिक एशिया हि प्रचा पु ५ ५०  
माध्यमिक प्रक्रियात्मक भूगोल हि प्रचा पु ३ ५०  
माध्यमिक भारत भूमि हि प्रचा पु ६ ००  
माध्यमिक विश्व भूगोल हि प्रचा पु ५ ५०

- वारिण्य अर्थशास्त्र के मूल आधार केदारनाथ ४ ६४  
ससार का आर्थिक भूगोल हि प्रचा पु २ ८७  
—तथा सोहनलाल दुग्गल मानव भूगोल सगो स २ केदार-  
नाथ १ २ ५०  
गौड, कृष्णदेवप्रसाद कविता काकली नद व्र १ ५० का.  
गालिव की कविता नद स १ ० ००  
मेरी बिल्ली कल्याणदास १ ०० वप्र  
साहित्य-प्रवाह कल्याणदास ६ ००  
हिंदी साहित्य की रूपरेखा हि प्रचा पु १ ६०  
—सपा विगुल ना प्र सभा १ ०० क  
गौड, कृष्णदेवप्रसाद दे नरेन्द्रदेव  
गौड, के पी एशिया की भौगोलिक समीक्षा रस्तोगी  
१ २ ५०  
गौड, गंगाप्रसाद 'नाहर' मृत्यु और उसके बाद पु भ ५ ००  
हमारा शरीर सस्ता १ ००  
गौड, गणेशदत्त आधुनिक नाटको का मनोवैज्ञानिक अध्ययन  
सरस्व पु स १ ५ ००  
सूर मीमासा भा प्र मंदिर २ ५०  
गौड, गिरिजामोहन 'कमलेश' साहित्य चिंतन हि प्रचा म  
४ ५०  
गौड, जगदीश अकबर की शायरी मातृ-भाषा २ २५  
गौड, जगदीशचंद्र ग्रामीण एव नागरिक समाज शास्त्र की  
विवेचना कि घर, ग्वा  
गौड, जनार्दन मनोज नवयुग प्र ४ २५ उ  
मिट्टी का मावो नव सा प्र ३ २५ उ  
शहर से दूर शारदा म ५ ५० उ  
गौड, दामोदर शर्मा आयुर्वेदादर्श संग्रह काशी हिंदू २ ००  
गौड, परमानंद दे स्टोकर, ब्रैन  
गौड, पुरुषोत्तमदास 'कोमल', १६१२- अपराधो के भगवान  
सुरेद्र २ ५० उ  
एक रूप तीन चित्र पुष्पी १ ०० उ, — —सुरेद्र २ ५०  
कलकित कौमार्य सुरेद्र ४ ०० उ  
चिडियो की बाते रामा प्र २ ५०  
जगली जानवरो की बाते रामा प्र २ ५०  
जनभोग्या नवचेतना उ  
देश-विदेश की कहानिया सुरेद्र २ ०० वप्र  
धरती के लाल सुरेद्र १ ५० वप्र  
नेहरू परिवार की कहानिया और सस्मरण पुष्पी एव सुरेद्र  
२ ००  
पाप पुष्पी १ २५ उ, — —सुरेद्र २ ५०  
बिगडे चेहरे पुष्पी ० ७५ उ, — —सुरेद्र २ ५०  
गौड, प्रकाशचंद्र जन-स्वास्थ्य विज्ञान मेडिकल ४ ००  
गौड, प्रभुनारायण पुस्तकालय-विज्ञान-कोश वि राष्ट्र ४ ५०  
गौड, प्रेमनारायण देश-विदेश की रसीली कहानिया आनंद  
पु, वा १ ०० वप्र  
गौड, वृजेद्र परोल पर स २ राष्ट्रीय प्र मंदिर ३ ०० उ  
गौड, वृजेद्रनाथ कागज की नाव अवध १ ५० क  
गौड, बी बी आपरेशन का रहस्य सुरेद्र (पा) १.००. उ

खून की कुरबानी सुरेद्र. (पा.) १.०० उ.  
 वैराग चिट्ठी पुष्पी ० ७५. उ.  
 गौड, ब्रजबिहारीलाल. तीसमार खा. आदर्श पु म. २००  
 मरघट की जागीर. आदर्श पु. म. २०० उ.  
 विज्ञान मजूषा आदर्श पु म २५०  
 सात दिनों की कहानी. आदर्श पु म १५०  
 गौड, मनोहरलाल आचार्य क्षेमेद्र. भा. प्र मंदिर ४.००  
 घनानंद और स्वच्छंद काव्यधारा ना प्र सभा ८००  
 गौड, रमेश, सपा., १९३६- उर्दू की तेरह श्रेष्ठ कहानियाँ,  
 उमेश ४.००  
 गौड, राजेद्रसिंह आधुनिक कवियों की काव्य साधना सशो  
 स. ६ श्रीराम मेहरा. ३००  
 दक्षिण की विभूतिया सा भवन, इ २५०. नि  
 दक्षिण के देशरत्न सा भवन, इ. ४००  
 निबध कला साधना सदन. ३५०  
 निबध निकुंज सा भवन, इ ३५०  
 प्राचीन कवियों की काव्य साधना साधना सदन. ५००  
 मन की मौज सा. भवन, इ २५० क  
 सत कबीर दर्शन सा भवन, इ. २००  
 हमारी नाट्य साधना श्रीराम मेहरा २२५  
 हमारे कवि. सा भवन, इ ५००  
 हमारे नाटककार. श्रीराम मेहरा ३००  
 हमारे लेखक सा भवन, इ ५००  
 हिंदी भाषा और साहित्य का विकास सा भवन, इ ५००  
 —तथा बृहस्पति उपाध्याय त्याग का मूल्य. हि प्र म  
 १५०. जी  
 सती का तेज हि प्र म १५० जी  
 गौड, राजेद्रसिंह दे बासू, कालीपद.  
 गौड, रामदास. रामचरितमानस की भूमिका हि पु ए  
 ५५०  
 वैज्ञानिक अद्वैतवाद ज्ञानमंडल २२५  
 स्वास्थ्य साधन हि पु ए ४००  
 हमारे गाव की कहानी सस्ता २००  
 गौड, रामदास दे चंद्रशेखर शास्त्री  
 गौड, रामदास दे भगवानदीन 'दीन', लाला  
 गौड, विश्वनाथ आधुनिक हिंदी काव्य मे रहस्यवाद नद. स  
 ७००  
 पृथ्वीराज रासो, पद्मावती समय सटीक सा नि, का १.२५  
 गौड, शांतिस्वरूप गद्य प्रवेशिका की टीका विनोद २००  
 मृगनयनी रतन २०० आ  
 गौड, सरयूपडा अधकार चौधरी ३५०  
 अश्रु-गंगा चौधरी ३००  
 आदाब अर्ज चौधरी २२५  
 चार चडूल हि-पु ए २५०. क  
 दूल्हे का दाम कला-नि. ३०० हा  
 भूली हुई कहानिया ग्रथमाला १५०  
 मि. तिवारी का टेलीफोन. चौधरी २००  
 मेरे राम का फौसला चौधरी. १५०

लखनऊ वाली सा साधना. २०० हा  
 लेखक की बीबी. चौधरी २५०  
 गौड, सुरेशचंद्र धरती चाद और तारे आनंद पु, वा. १.  
 वप्र  
 मौसम और मौसम की भविष्यवाणी. हि. प्रचा पु. १५  
 गौड, सोहनलाल अनिवार्य सामान्य हिंदी प्रकाशन सशो.  
 भा प्र म. २००  
 गौड, हरिश्चंद्र ग्राम विज्ञान न्यू लिट. भा १. १२५, भा  
 २ १००  
 गौतम, एम एस दे अग्रवाल, बी के.  
 गौतम, जयनारायण अलंकार प्रदीप रीगल १५०  
 काव्य प्रदीप रीगल १.८७  
 गौतम, मनमोहन निबध सुषमा सशो स ६ सूर्य प्र ३  
 प्राचीन कवि और काव्य हि सा स ३००  
 मौखिक प्रश्नोत्तर हि सा स ०७५  
 सरल भाषा-विज्ञान हि सा. स. ७००  
 साहित्य लहरी रीगल ५००  
 साहित्यालोचन-सिद्धांत हि सा स २५०  
 सूर की काव्य-कला एस चाद १०००  
 —सपा जायसी ग्रथावली सशो स २. रीगल. १२००  
 गौतम, लक्ष्मणदत्त आचार्य शुक्ल अशोक प्र २.५०  
 कुरुक्षेत्र समीक्षा हि सा स १५०  
 घनानंद कवित्त सटीक. अशोक प्र ३५०  
 गौतम, विष्णुनारायण दे नागर, गिरिजाशंकर  
 गौतम, हितवल्लभ नवेली. सा प्र. ५००  
 गौरीशंकर संस्कृत शिक्षा ३ भा. विश्वेश्वरानंद. १५६  
 संस्कृत-शिक्षा-विधि विश्वेश्वरानंद ३.२५  
 गौरीशंकर 'लहरी' अगारो की सदिया मध्यप्रदेश शासन  
 क्षण के बीज इ प्रे. २.०० का.  
 चिडिया जीती राजा हारा सस्ता १००. वप्र.  
 जीवन की नई भूख लोक चेतना ०५० वप्र  
 तितली के पख राजकमल १.०० वप्र  
 ग्रिम्स परिस्तान अनु रघुपतिसहाय 'फिराक' राजकमल. व  
 गियर्सन, जार्ज अब्राहम भारत का भाषा-सर्वेक्षण. अनु  
 उदयनारायण तिवारी हि समि ७००  
 हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास सपा किशोरीलाल गुप्त.  
 हि प्रचा पु ६००  
 श्रीन, ग्रेहम उस रात के बाद राजकमल (पा) १५०. उ  
 ग्रे, अलेग्जैंडर अर्थशास्त्र सिद्धांत का विकास एस चाद ७५  
 ग्रेग, रिचर्ड वी अहिंसा की शक्ति सस्ता १५०  
 आशा का एकमात्र मार्ग नवजीवन २००  
 ग्रेहम, जे एम व्यक्तित्व राजकमल. २००

६

घनश्यामदास भारतीय सविधान एव नागरिक शास्त्र  
 प्रश्नोत्तरी, रीगल २००



घनश्यामनारायण सिंह पिंडारी, ठग और डाकू राजकमल (पा) १००  
 घनानंद कवित्त टीका लक्ष्मणदत्त गौतम अशोक प्र ३५०  
 ग्रथावली सपा विश्वनाथप्रसाद मिश्र नद स एव वाणी-  
 वितान ६००  
 घाटे, विठ्ठलराव दत्तात्रय देश-देश के लोग हि अ र २५०  
 वप्र  
 घाणेरकर, भास्कर गोविंद सुश्रुत शारीरस्थान सशो स २.  
 श्री भा भारती १०००  
 सुश्रुत सूत्रनिदानस्थान श्री भा भारती १२००  
 सुश्रुत सूत्रस्थान मात्र श्री भा भारती ६००  
 घायल मैं और वह कन्हैयालाल ४२५ उ  
 घासीराम दे मुखोपाध्याय, देवेन्द्रनाथ  
 धिल्डियाल, रमाप्रसाद 'पहाडी', १६१२- अधूरा चित्र  
 प्रकाशगृह ४००  
 कहानी कलानिधि रा वेनीमाधव १७५ क  
 कैदी और बुलबुल प्रकाशगृह ५०० क  
 घाटी में प्रकाशगृह उ  
 चलचित्र प्रकाशगृह ३०० उ  
 छाया में प्रकाशगृह ४५० क  
 तूफान के बाद प्रकाशगृह ५०० क  
 नदी का मोड़ प्रकाशगृह क  
 नया रास्ता प्रकाशगृह ४५० क  
 निवध सग्रह प्रकाशगृह  
 निर्देशक प्रकाशगृह ७०० उ  
 पहाडी की कहानिया प्रकाशगृह  
 'पहाडी' की श्रेष्ठ कहानिया राजकमल (पा) १००  
 प्रतिनिधि कहानिया प्रकाशगृह एव रा वेनीमाधव २५०  
 प्रवास पथ प्रकाशगृह उ  
 वया का घोंसला प्रकाशगृह ४२५ क  
 वरगद की जड़ प्रकाशगृह ४०० क  
 बीज और पौधा प्रकाशगृह ४५० क  
 ब्राड कोट प्रकाशगृह २५० क  
 भारत मेरा देश प्रकाशगृह २०० क  
 मालापती प्रकाशगृह ४५० क  
 मौली प्रकाशगृह ३०० क  
 विजय यात्रा प्रकाशगृह १५० वप्र  
 शेपनाग की थाती प्रकाशगृह ५०० क  
 श्रेष्ठ कहानिया प्रकाशगृह १००  
 सडक पर प्रकाशगृह ४०० क  
 सफर प्रकाशगृह ५०० क  
 सराय प्रकाशगृह ६०० उ  
 हिरण की आखें न्यू लिट २२५ क, — — प्रकाशगृह  
 ३००  
 —सपा कहानी कुसुम रा वेनीप्रसाद १५०  
 गीत के स्वर प्रकाशगृह १५० वप्र  
 जब ब्रह्मा ने धरती बनाई प्रकाशगृह १५० वप्र  
 ज्ञान की महिमा प्रकाशगृह १५० वप्र

मानवता की विजय प्रकाशगृह १.५० वप्र  
 हिमालय का वेटा प्रकाशगृह १५० वप्र  
 घूमक्कड कठोर कृपा गाधी हिंदु ०५०  
 घोष, अरविंद १८७२-१९५० इस जगत् की पहेली. श्री-  
 अरविंद १२५  
 उत्तरपाडा अभिभाषण श्रीअरविंद ०३७  
 कठोपनिषद् श्री अरविंद १००  
 कतिपय सदेश (श्रीमा तथा श्रीअरविंद के) श्रीअरविंद  
 ०२५  
 कर्मयोगी श्रीअरविंद २५०  
 कविताजलि श्रीअरविंद १००  
 गीता की भूमिका श्री अरविंद २००  
 गीता प्रवच भा १ श्रीअरविंद ६५०, सजिल्द ८००  
 गीता प्रवच भा २ २ ख श्रीअरविंद १०००, ५००(प्र)  
 जगन्नाथ का रथ श्रीअरविंद ०७५  
 दयानंद श्रीअरविंद ०७५  
 दयानंद और वेद गोविंदराम. ०२५  
 दिव्य जीवन २ भा श्रीअरविंद भा १ ६००, भा २  
 दुर्गा-स्तोत्र श्रीअरविंद ०२५  
 धर्म और जातीयता श्रीअरविंद १५०  
 पत्रावली श्रीअरविंद १००  
 भारतीय सस्कृति के आधार श्रीअरविंद १०५०  
 माता श्रीअरविंद ०७५  
 मृतको का वात्सलाप श्रीअरविंद ०७५  
 योग के आधार श्रीअरविंद २५०  
 योगप्रदीप श्रीअरविंद  
 योगसमन्वय भा १ श्रीअरविंद ४००  
 विचार और भाकिया श्रीअरविंद ०७५  
 वेदरहस्य श्रीअरविंद भा २ ३००, भा १, ३  
 श्रीअरविंद—अपने तथा श्रीमा के विषय में श्रीअरविंद  
 १०५०  
 श्रीअरविंद का आश्रम और उनकी शिक्षा श्रीअरविंद ०२५  
 श्रीअरविंद का साधना-पथ श्रीअरविंद ०३०  
 श्रीअरविंद के पत्र श्रीअरविंद भा १ ६००, भा २  
 ३००  
 श्रीअरविंद के पत्र (पत्नी के नाम) श्रीअरविंद ०७५  
 श्रीअरविंद-वचनान्त श्रीअरविंद ०५०  
 श्रीमा (श्रीअरविंद के पत्र) श्रीअरविंद २५०  
 श्रीमातृत्वप्रकाश श्रीअरविंद १००  
 सावित्री श्रीअरविंद २००  
 हमारा योग और उसके उद्देश्य श्रीअरविंद ०७५  
 घोष, अरुण रूस की कहानिया इ प्रे २०० वप्र  
 घोष, अशोक डारविन पीपुल्स १५० वप्र  
 घोष, एन एन भारत का प्राचीन इतिहास इ प्रे ८००  
 घोष, एस तथा अन्य माध्यमिक अकार्वनिक रसायन गया-  
 प्रसाद ७५०  
 घोष, कालीप्रसन्न गोलमाल हि पु ए १५० हा  
 घोष, गिरिजाकुमार वाल रामायण हि पु ए १७५ वप्र.

लक्ष्मी गंगा. ०.७५

लडकियो के खेल गंगा एव प्रभात पब्लि १००

घोष, बी एन तथा शिवमूर्ति पाडेय माध्यमिक प्रयोगात्मक

भौतिक विज्ञान सशो स रा बेनीप्रसाद ४००

घोष, श्यामसुंदर उपन्यासकार प्रेमचंद एस चाद.

घोष, सुबोध सुजाता अर्चना प्र (पा) १०० उ; —

अशोक पु म २७५

घोषाल तथा चटर्जी माध्यमिक बीजगणित. बुकलेड ३७५

घोषाल, पी. एन तथा एम डी श्रीवास्तव नवीन हाई स्कूल

बीजगणित सशो स ४ गर्ग ब्र २००

माध्यमिक त्रिकोणमिति बुकलेड ४००

घोषाल, सत्येद्रनाथ. दे अलाउल

## च

चंचल दे चतुर्वेदी, रामकुमार 'चंचल'

चंडीप्रसाद काशी का मानमंदिर ना प्र सभा. ०५०

चंडीप्रसाद 'हृदयेश' नदन-निकुज गंगा ३०० क.

रघुवंशम् रा वेनीमाधव सर्ग १३. १७५, सर्ग १४ १५०

चंदगीराम, मास्टर भारतीय कुश्ती के दाव पेच भा १. भा

कुश्ती. ५००

चंदनमल, मुनिश्री अतर्ध्वनि आत्माराम ०७५

अनुभव शतकम् आदर्श सा ०६४

चंदनसिंह सुधरे हुए खेती के औजार अ भा सर्व ०५०

चंद वरदाई पृथ्वीराज रासो ना प्र सभा ५७५

चंद वरदाई पृथ्वीराज रासो सपा बी पी शर्मा प्रामाणिक

लघु स विश्व-भारती प्र १५००, डीलक्स स १८००

चदापुरी तथा अन्य दोहरे लेखे के मूल सिद्धांत नद ब्र

७५०

चंद्र दे चंद्रभान चंद्र

चंद्र दे वर्मा, चंद्रलाल 'चंद्र'

चंद्र दे शर्मा, यादवेद्र 'चंद्र'

चंद्र दे श्रीवास्तव, रामचंद्र 'चंद्र'

चंद्र, र प्र जलता जीवन बहते आसू हिदिया २५०. कथा

चंद्रश्रवतस पचाग्नि अवध १००

चंद्रकांत भूगोल शिक्षण के सिद्धांत और प्रयोग कि महल.

२००

चंद्रकांत नवेद्र घास की रोटी ग्रथालय १२५ ना

चंद्रकाता प्रभाकर एकाकी समुच्चय एस चाद ३.२५

काव्य-भारती एस चाद २२५

काव्य मजूपा एस चाद २००

गल्प रत्न एस चाद २७५ क

चंद्रगुप्त विद्यालकार, १६०६- अशोक राजपाल. २.५० ना.

तीन दिन राजपाल ३०० क.

पहला नास्तिक राजपाल ३०० क

वचन राजपाल २०० जी

रेवा. राजपाल. ३.००. ना

रौबिन्सन क्रूसो यूनिवर्सिटी. ०५० बप्र

वापसी राजपाल ३५० क

—सपा श्रेष्ठ हिंदी कहानिया रामप्रसाद २०० क

चंद्रदेवसिंह, १६३३- आत्महत्या से पहले राजपाल २००

उ

आवाजे ? जिदगी अशोक पु म २५० का

बुद्धम् शरणम् आधुनिक पु २०० ना

बेला—एक बेवकूफ लडकी भा पु म २५० उ.

सासो के फूल भा पु म २००. क.

स्नेह-सुरभि. भा पु म २०० का

—सपा कविताए ५७ भा पु म ३००

कविताए ५८ भा पु म ३००

चंद्रपालसिंह मयक'. हिम्मत वाले इ प्रे २००. बप्र

चंद्रप्रकाश कर्तव्य अग्रवाल प्रि. ०७५ उ

चिनगारी भाग्योदय २.०० ए

न्याय के नाम पर अग्रवाल प्रि. ०७५. उ

रश्मि अग्रवाल प्रि ०७५ क

स्वप्न अग्रवाल प्रि. ०.७५ क.

—सपा गद्य कुसुम माला रा बेनीप्रसाद १५०

चंद्रप्रकाशसिंह, कुवर चयनिका म स यूनि २००

पाच एकाकी रणजीत १७५ ना

प्रतिपदा बसल. ४०० का

भुज (कच्छ) की ब्रजभाषा पाठशाला म स यूनि १५०

हिंदी नाटक साहित्य और रंगमंच की मीमासा भा अ भ

१२५०

—सपा गोविंद हुलास नाटक म स. यूनि. १०००

चंद्रप्रकाशसिंह, कुवर दे. शिवकवि.

चंद्रवलीसिंह दे नाजिम हिकमत

चंद्रभान दे छैलविहारी.

चंद्रभान 'चंद्र' नल दमयती. देहाती. ०७५ ना

महाभारत देहाती ०७५ ना

श्रवण कुमार देहाती ०७५ ना

सत्यवादी हरिश्चंद्र देहाती ०७५ ना

चंद्रभानसिंह तथा सग्रामसिंह कृपि-अभियंत्रण. एशियन

३००

चंद्रभूषण अपनी बात इ प्रे ०७५ जी

चंद्रमणि देवी दुलहिन पु भ ०५०, — —रामलोचन

(पा) १००

चंद्रमाप्रसाद प्रारंभिक शिक्षा मनोविज्ञान नद ब्र एव नद

स १५०

प्रारंभिक शिक्षा सिद्धांत. नद ब्र एव नद स १००

चंद्रशेखर हस्मीरहठ सपा जगन्नाथ दास 'रत्नाकर' ना. प्र

सभा ०.७५

चंद्रशेखर शास्त्री अलकार-परिचय रा वेनीमाधव. ०६२

कवितावली सा भवन, इ ६००

कुंअर निहाल दे कि महल ०७५. वप्र

नीतिरत्नमाला रा वेनीमाधव ०६४

पंचवर्षीय योजनाए यग मैन' १५०

प्रथमालकार-निरूपण सपा रामदास गौड हिं सा सम्मे  
० ३७  
भीष्म-प्रतिज्ञा गगा २५० उ  
श्रेणिक विवसार रीगल ५००  
-- तथा रामचंद्र शुक्ल 'काव्य-परिचय' रा वेनीप्रसाद १००  
—टीका कवितावली सा भवन, इ ३००  
चंद्रसिंह कह मुकरणी नवयुग ग्र कु ० ६३  
चंद्रा काश्मीरी कटाई कला देहाती १२५  
चंद्रा दे कृष्णवहादुर चंद्रा  
चंद्राकार दे शुक्ल, पुत्तलाल 'चंद्राकार'  
चंद्रावती लखनपाल शिक्षा-मनोविज्ञान विजयकृष्ण ५६२  
स्त्रियो की स्थिति विजयकृष्ण ४००  
चंद्रावती लखनपाल दे सत्यव्रत सिद्धातालकार  
चंद्रावती सिंह हिंदी साहित्य मे जीवन चरित का विकास इ  
प्रे ४७५  
चंद्रिकाप्रसाद जिज्ञासु मिट्टी का शिल्प श्री प्रभाकर १५०  
चंद्रेश्वरप्रसाद सिंह बुनियादी अकगणित २ भा रा वेनी-  
प्रसाद १०० (प्र)  
चकोर नौ बाल एकाकी नवयुग पु भ १००  
चकोरी, श्रीमती धूपछाह अवध १२५ क  
चक्र दे सुदर्शनसिंह 'चक्र'  
चक्रधर हस शास्त्री बृहद् अनुवाद चंद्रिका मोतीलाल १०००  
चक्रवर्ती, ए दे कुदकुद, आचार्य  
चक्रवर्ती, क पीडा दक्षिणायन २०० का  
शृगनाद दक्षिणायन १२५ गीत  
चक्रवर्ती, त्रैलोक्यनाथ जेल मे तीस बरस हि भवन ४००  
सस्म  
चक्रवर्ती, धर्मदेव जान पर आ बनती है राजकमल ३००  
क  
चक्रवर्ती, नारायण अध कवि कृष्णा व्र १०० ना  
चक्रवर्ती, पी एन तथा लल्लीप्रसाद पाडेय देगावेपण की  
सरल कथाए इ प्रे १०० वप्र  
चक्रवर्ती, शरच्चंद्र विवेकानंदजी के सग मे स ३ श्रीराम-  
कृष्ण ५२५  
साधु नागमहाश्य श्रीरामकृष्ण १५०  
चक्रवर्ती, श्रीनारायण जीहर इ प्रे ०५० ना  
चगताई इस्क पर जोर नही रूपसी (पा) १००  
चगताई, अजीमवेग कलिया तीन भवरा एक पुष्पी ०७५  
उ, —सुरेद्र २००  
कोलतार छात्रहितकारी २५० उ, —पुष्पी १२५,  
—सुरेन्द्र ३००  
खुरपा बहादुर कि महल २५० उ, —प्रभात प्र  
३००  
चगताई की कहानिया २ भा छात्रहितकारी १५० (प्र),  
—पुष्पी ०७५, —सुरेद्र २००  
चमनी कि महल २०० (अप्रा) उ, —प्रभात प्र  
३००  
दो उपन्यास कि महल २००. उ

फुलबूट. कि महल एव छात्रहितकारी १२५ उ, —  
छात्रहितकारी १२५  
मिरजा जगी छात्रहितकारी १०० प्रहसन  
लेफ्टिनेन्ट छात्रहितकारी १७५ उ, —पुष्पी १००,  
—सुरेद्र २५०  
शरीर वीवी छात्रहितकारी १७५ उ, —सुरेद्र २२५  
श्रीमती जी कि महल ३०० (अप्रा) उ  
चगताई, इस्मत कुआरी नीलाभ ३५० क  
जिही नीलाभ ३०० उ  
चटर्जी माध्यमिक प्रायोगिक भौतिक विज्ञान एस चाद ५२५  
चटर्जी तथा दत्त भारतीय दर्शन पु भ १०००  
चटर्जी, एम गद्य-ज्योत्सना मिश्र-वधु २४४  
चटर्जी, एम एन दे दास, ए वी  
चटर्जी, एस सी भूगोल के भौतिक आधार रा वेनीमाधव  
६००  
चटर्जी, कालीचरण मानवी या देवी गगा १५०. क  
चटर्जी, गौरीशकर हर्षवर्द्धन हिंदु एकेडेमी ७५० इति  
चटर्जी, नदलाल मीर कासिम इ प्रे ५०० इति.  
चटर्जी, वकिमचंद्र दे चट्टोपाध्याय, वकिमचंद्र  
चटर्जी, वसंतकुमार ऐटम और नेहरू सहगल २५०  
चद्रलोक सहगल २५०  
वैज्ञानिक चाद सहगल अप्राप्य  
चटर्जी, मनोरमा गद्य ज्योत्सना मिश्र-वधु २४४  
चटर्जी, शरत्चंद्र दे चट्टोपाध्याय, शरत्चंद्र  
चट्टोपाध्याय, अनिता भोर का तारा सहगल ३०० उ  
माथे की विदिया अशोक पा १०० उ  
मुझे जीने दो सहगल ५०० उ  
चट्टोपाध्याय, तपनमोहन पलासी का युद्ध भा ज्ञानपीठ  
३५० उ  
चट्टोपाध्याय, देवीप्रसाद जीव आया सस्ता १२५  
पृथ्वी बनी सस्ता १२५  
मनुष्य का बचपन सस्ता १२५  
मनुष्य जन्मा सस्ता १२५  
चट्टोपाध्याय, वकिमचंद्र, १८३८-१८९४ अभिशाप की छाया  
कि महल २५० उ  
आनद मठ इ प्रे १५० उ, —कि महल २५०,  
—भाग्योदय (पा) १००, —राजपाल २००,  
(पा) १००, —श्यामलाल २००, —  
श्री प्रभाकर २००, —हिं पु ए २००, —  
हिं प्रचा पु २५०, —हिं प्रचा म २५०  
इदिरा कि महल १७५ उ, —श्री प्रभाकर २००,  
—हिं पु ए १२५, —हिं प्रचा पु १५० वप्र,  
—हिंद पा १००  
कपाल कुडला अर्चना प्र (पा) १०० उ, —इ प्रे  
१५०, —भाग्योदय (पा) १००, —श्री प्रभा-  
कर २००, —हिं पु ए १५०, —हिं प्रचा पु  
२२५, —हिं प्रचा पु १५० वप्र, —हिं प्रचा.  
म २५०, —हिंद पा १००

कमलाकात का पोथा श्री प्रभाकर. २००  
 कृष्णाकात का बिल इ प्रे. १.५० उ  
 कृष्णाकात का वसीयतनामा पुष्पी. ०७५ उ., — — भाग्यो-  
 दय (पा) १००, — — श्यामलाल १००, — —  
 श्री प्रभाकर. २००, — — हि. पु ए १५०, — —  
 हि प्रचा पु २५०, — — हि प्रचा. पु १५०. वप्र  
 — — प्रचा पा १००  
 चंद्रशेखर इ प्रे १०० उ, — — रामलोचन (पा)  
 १००, — — श्री प्रभाकर २००, — — हि पु ए.  
 २.५०, — — हि प्रचा पु. २२५, — — हि प्रचा पु.  
 १५० वप्र  
 दुर्गेशनदिनी आदर्श पु म. २५० उ, — — भाग्योदय  
 (पा) १.००, — — राजपाल. (पा) १००, — —  
 श्यामलाल ३००, — — श्री प्रभाकर २००, — —  
 हि. पु ए २००, — — हि. प्रचा पु. २५०, — —  
 हि. प्रचा पु १.५०. वप्र; — — हिद पा. १००  
 देवी चौधरानी राजपाल २०० उ, — — श्यामलाल.  
 ३.००, — — श्री प्रभाकर २००, — — हि पु  
 ए २.००, — — हि. प्रचा पु २००, — — हिद पा.  
 १००  
 बकिम ग्रथमाला ३ भा हि पु ए ५०० (प्र) उ.  
 बकिम निबन्धावली हि. ग्र २ १७५  
 बगशार्दूल सीताराम श्री प्रभाकर २००  
 वदेमातरम्. प्रचा पा. १०० उ  
 मृणालिनी. भाग्योदय. (पा) १००. उ, — — श्री प्रभा-  
 कर २००, — — हि. पु ए १५०, — — हि प्रचा. पु.  
 २२५, — — हि प्रचा. पु १५० वप्र  
 युगलागुरीय श्री प्रभाकर ०५०  
 युगलागुरीय राधारानी हि पु ए ०७५ उ  
 रजनी श्यामलाल २.०० उ, — — श्री प्रभाकर २००,  
 — — हि पु. ए १५०; — — हि प्रचा पु १५०.  
 वप्र, — — हिद पा १००  
 राजमोहन की स्त्री श्री प्रभाकर. २००  
 राजसिंह प्रचा पा १०० उ, — — श्री प्रभाकर २५०,  
 — — हि प्रचा पु ३००  
 राजसिंह या मेवाड-गौरव हि पु ए २५० उ  
 राधारानी कि महल ०७५ उ, — — श्री प्रभाकर ०५०,  
 — — हि प्रचा पु १२५ वप्र  
 लोक-रहस्य श्री प्रभाकर २००  
 विष-वृक्ष इ प्रे २०० उ, — — भाग्योदय (पा) १००,  
 — — राजपाल २००, — — श्री प्रभाकर २००,  
 — — हि पु ए १५०, — — हि प्रचा पु २५०,  
 — — हि प्रचा पु १५०. वप्र, — — हिद पा  
 १००  
 सध्या श्यामलाल २००. उ  
 सीताराम पुष्पी ०७५. उ, — — श्यामलाल २५०,  
 — — सुरेद्र २५०, — — हि. पु. ए १५०, — — हि  
 प्रचा. प. १५० वप्र

चट्टोपाध्याय, राखालचंद्र जलचिकित्सा ३ भा हि. पु ए.  
 ५५०  
 चट्टोपाध्याय, वसंतकुमार नेहरू का व्यक्तित्व सहगल  
 ४००  
 भारतीय प्रदेश और उनके निवासी सहगल ६५०  
 चट्टोपाध्याय, शरतचंद्र, १८७६-१९३८. अनुराधा नवयुग पु  
 भ १२५ उ, — — प्रभात प्र. १५०, — — व्याम-  
 लाल १५०  
 अप्रकाशित तीन उपन्यास चौधरी. ३००  
 अभागी का स्वर्ण प्रभात प्र. २.००. क  
 प्रमरनाथ वीरा २.५० उ.  
 अरक्षणीया. कि महल एव नवयुग पु भ १.२५ उ.  
 आत्म कथा चौधरी २००  
 आपरेशन चिनगारी. २.००  
 उद्धार वीरा. ०.७५ वप्र  
 ऊपा. श्यामलाल. २०० उ  
 काशीनाथ वीरा ०७५ उ., — — श्यामलाल २.५०,  
 — — प्रचा. पा. १००  
 कुसुम आदर्श पु म. २.५० उ., — — कन्हैयालाल. २.००  
 — — श्यामलाल २.००, — — सुरेद्र २.२५  
 गृहदाह कि महल. ३.०० उ., — — प्रभात प्र ४००,  
 — — राजपाल २००, — — श्यामलाल. ४.००,  
 — — सन्मार्ग ४५०, — — सुभाष ४.००, — —  
 हिद पा १.००  
 चंद्रनाथ कि. महल १.२५ उ., — — चिनगारी. १.५०;  
 — — प्रभात प्र २००, — — राजपाल २००,  
 — — श्यामलाल २.००, — — हिद पा  
 १.००  
 चरित्रहीन प्रभात प्र ६०० उ, — — राजपाल २००,  
 — — श्यामलाल. ६००; — — सन्मार्ग ६००,  
 — — हि पु ए ५५०; — — हि प्रचा म  
 ६००, — — हिद पा १.००  
 छुटकारा इ. प्रे १३१ उ, — — कन्हैयालाल. १.२५;  
 नवयुग पु भ १.२५, — — व्यामलाल. १.२५  
 छोटा भाई पुष्पी. ०.५०. उ., — — प्रभात प्र. १.५०  
 छोटी मा चिनगारी १०० उ, — — पुष्पी ०.५०;  
 — — प्रभात प्र. १.५०, — — श्यामलाल. १.२५  
 जागरण श्यामलाल. १५० उ.  
 जानदा श्यामलाल १५०. उ.  
 दत्ता कि. महल ३००. उ, — — नवयुग पु भ २४०  
 — — हिद पा १००  
 देना-पावना प्रभात प्र ३५०, — — सन्मार्ग. ४००  
 देवदास. कि. महल १७५. उ, — — चिनगारी २.००;  
 — — नवयुग पु भ २००, — — प्रभात प्र. २.००;  
 — — राजपाल २००, — — श्यामलाल २.००;  
 — — हि. प्रचा पु २.५०; — — हिद पा.  
 १.००  
 देवकी दत्तिया कि महल ०५० —

देहाती समाज इ प्रे २०० उ, — — चिनगारी २००,  
 नवयुग पु भ २२५, — — प्रभात प्र २००, — —  
 श्यामलाल २५०, — — सुभाष २२५  
 नटखट रामू बाल सदन वप्र  
 नया विधान प्रभात प्र २००, — — सन्मार्ग ३००  
 नवविधान इ प्रे ०६२ उ, — — कि महल १२५,  
 — — श्यामलाल २००  
 नारी का मूल्य चौधरी १५०, — — हि ग्र २०६२  
 निष्कृति नवयुग पु भ १२५. उ  
 पडितजी इ प्रे २०० उ, — — चिनगारी २००,  
 पुष्पी ०७५, — — राजपाल २०० (पा) १००,  
 — — श्यामलाल २००, — — सुरेद्र २२५  
 पथ के थावेदार अर्चना प्र (पा) १०० उ, — — कि  
 महल ४००, — — प्रभात प्र ४००, — — सन्मार्ग  
 ५००, — — हि प्रचा पु ४००, — — हिंद पा १००  
 परिणीता इ प्रे १५० उ, — — कि महल १००,  
 — — नवयुग पु भ १५०, — — पु भ १७५,  
 — — प्रभात प्र २००, — — श्यामलाल १२५,  
 — — हि प्रचा पु १२५, — — हिंद पा १००  
 वचपन की कहानिया चौधरी १२५, — — राजकमल  
 १५०  
 बडी दीदी इ प्रे १५० उ, — — चिनगारी १५०,  
 — — नवयुग पु भ १००, — — पुष्पी ०४४,  
 — — श्यामलाल २००  
 बडी बहिन श्यामलाल १५० उ  
 विदी का बेटा श्यामलाल १२५ उ  
 विदुवासिनी कन्हैयालाल ३०० उ  
 विदू का बेटा कि महल २०० उ  
 विदो का बेटा बाल सदन वप्र  
 विदो का लल्ला गगा २०० उ  
 वैकुण्ठ का बिल इ प्रे ०७५ उ  
 वैकुण्ठ का वसीयतनामा चिनगारी एव श्यामलाल १५० उ.  
 ब्राह्मण की बेटा आदर्श पु म १५० उ, — — इ. प्रे  
 १५०, — — प्रभात प्र २००, — — श्यामलाल २००  
 भाभी का प्यार चिनगारी १२५  
 मझली दीदी इ प्रे १००, — — श्यामलाल २००  
 मझली दीदी बडी दीदी हिंद पा १०० उ  
 रमा अर्चना प्र (पा) १००, — — हि ग्र २१५०  
 रमा या देहाती समाज श्यामलाल २५० उ  
 लेन-देन इ प्रे ३५० उ, — — कन्हैयालाल ५००  
 विजया अर्चना प्र (पा) १०० उ, — — गगा ४००,  
 नवयुग पु भ ३२५, — — पुष्पी १२५, — —  
 प्रभात प्र ३००, — — सन्मार्ग ३५०, — — हि  
 ग्र २१५०  
 विप्रदास प्रभात प्र ३००, — — श्यामलाल ३००,  
 सन्मार्ग ५००  
 विराज बहू अर्चना प्र (पा) १०० उ, — — कि महल.  
 २००, — — चिनगारी. २००, — — नवयुग पु भ.

२००, — — प्रभात प्र २००, — — श्यामलाल  
 ३००, — — सुभाष २२५, — — हिंद पा १००  
 विराज बहू रूपा कानाई वसु हि भवन ३०० ना  
 विलासी प्रभात प्र २०० क  
 वैरागी प्रभात प्र २०० उ, — — श्यामलाल. २००,  
 — — सुरेद्र २२५  
 शरत् की कहानिया कि महल २५०  
 शरत् के नाटक सहगल ६००  
 शरत् ग्रथावली अनु हसकुमार तिवारी २ भा रूपकमल  
 १००० (प्र) उ  
 शरत् पत्रावली कन्हैयालाल ३.०० उ  
 शरत्-साहित्य ३६ भा हि ग्र २ पुस्तकालय स २५०,  
 जनता स (कार्ड जिल्द) १५०  
 भा १ तीन क काशीनाथ (उ)  
 भा २ एक क, स्वामी तथा वैकुण्ठ का दान-पत्र (उ)  
 भा ३ दो क, चंद्रनाथ (उ.)  
 भा ४ श्रीकांत (भा १)  
 भा ५ बाम्हन की बेटा (उ), चार क  
 भा ६-७ श्रीकांत (भा २-३), भा ८-९ कहानिया  
 भा १० देवदास तथा बडी बहिन (उ)  
 भा ११ पडितजी तथा मझली बहिन (उ)  
 भा १२ रमा (ना) परिणीता (उ)  
 भा १३-१४ पथ के दावेदार (उ)  
 भा १५ तीन क, नारी का मूल्य (नि)  
 भा १६-१७ गृहदाह (उ)  
 भा १८ दत्ता (उ), भा १९ ग्रामीण समाज  
 भा २०-२१ शेष प्रश्न, भा २२ श्रीकांत (भा ४)  
 भा २३-२४ विप्रदास (उ), एक क, तरुणो का विद्रोह  
 भा २५ शरत्-पत्रावली [ (नि)  
 भा २६ पांच अपूर्ण रचनाये, अरक्षणीया (उ)  
 भा २७-२८ चरित्रहीन (उ)  
 भा ३० विराज बहू (उ) तथा कहानिया.  
 भा ३१ शरत्-निवधावली  
 भा ३२-३३ देना-पावना तथा नया विधान (उ)  
 भा ३४-३५ शेष परिचय (उ)  
 भा ३६ शुभदा (उ)  
 भा ३७-३८ शरत् प्रतिभा (आ), ले सुबोधचंद्र सेनगुप्त  
 भा ३९ विजया (ना)  
 शरद् व्याख्यान माला चौधरी १५०  
 शुभदा इ प्रे २५० उ, — — प्रभात प्र. ३००, — —  
 श्यामलाल ३००, — — सन्मार्ग ३५०, — — हि  
 प्रचा म ३००, हिंद पा १००  
 शेष का परिचय सुभाष ४५० उ  
 शेष प्रश्न प्रभात प्र ४००, — — सन्मार्ग ६००,  
 — — हि प्रचा म ४५०, — — हिंद पा १००  
 श्रीकांत इ. प्रे ६०० उ, — — प्रभात प्र ७००,  
 — — श्यामलाल ७००, — — सन्मार्ग ८००,  
 — — हि प्रचा म ६००, — — हिंद पा १००

षोडशी. हि. प्र. र १.५०. ना  
 सती. प्रभात प्र. २००. क  
 समाज का अत्याचार सहगल २७५. उ  
 समाज धर्म राजनीति चौधरी १५०  
 सविता. प्रभात प्र. ५००, — —सन्मार्ग. ५५०  
 सुप्रभात. प्रभात प्र. २.००  
 स्वाभिमानीनी. ज्ञान प्र २०० उ  
 स्वामी इ प्रे ०७५ उ, — —चिनगारी १२५, — —  
 प्रभात प्र १५०  
 हरिलक्ष्मी हि. प्रचा पु. १०० उ.  
 चट्टोपाध्याय, सतीशचन्द्र तथा धीरेन्द्र मोहन दत्त भारतीय दर्शन  
 पु भ. १०००  
 चतुरसेन, आचार्य, १८९१-१९६० अच्छी आदते राजपाल.  
 ०७५ वप्र  
 अजीतसिंह प्रभात प्र ३५० ना  
 अदल-बदल चौधरी २२५  
 अनमोल बोल. चौधरी. २००  
 अपना इलाज आप खुद कीजिये राजहस २५०  
 अपराजिता आत्माराम २०० उ  
 अमर अभिलाषा ज्ञान प्र. ५०० उ.  
 अमरसिंह प्रभात प्र २५० ना  
 अष्ट-मगल श्री भा भारती ५०० ए  
 आत्मदाह चौधरी ५५०  
 आदर्श भोजन राजपाल १००  
 आभा हिंद पा १०० उ  
 उदयास्त राजपाल. ४०० उ.  
 कहानी खत्म हो गई राजपाल ४००  
 खग्रास प्रभात प्र ६.५० उ  
 खवास का व्याह गगा ३०० उ.  
 गदर के पत्र गगा २.५०. क  
 गाधारी प्रभात प्र ३०० ना  
 गोली प्रभात प्र ६५० उ  
 छत्रसाल प्रभात प्र २५० ना  
 दुखवा मै कासे कहू राजपाल ४०० क.  
 देवागना चौधरी. ३००  
 दो किनारे चौधरी ४००  
 धरती और आसमान राजपाल ४००. क  
 धर्म के नाम पर प्रभात प्र ३०० नि  
 धर्मपुत्र राजपाल ३०० उ., — —हिंद पा १.००  
 धर्मराज. राजपाल ३०० ना  
 नरमेघ. चौधरी २५०  
 नीरोग जीवन राजपाल १.००  
 नीलमणि चौधरी २००  
 पग-ध्वनि आत्माराम. १.५० ना  
 पतिता हिंद पा १००. उ.  
 पत्थर युग के दो बुत राजपाल. ३५० उ  
 पाच एकाकी. प्रभात प्र २.५०  
 पूर्णाहुति. चौधरी. ३.५०

प्राणदंड चौधरी २५०  
 बगुला के पख राजपाल ४७५ उ  
 बहते आसू चौधरी ५००  
 बा और बापू राजपाल. १००  
 बाहर-भीतर राजपाल ४०० क  
 बिना चिराग का शहर हि प्रचा पु (पा.) १००  
 बुद्ध और बौद्ध धर्म प्रभात प्र ४००  
 ब्रह्मचर्य-साधन गगा. २००  
 भारतीय इतिहास की एक भाकी चौधरी ३५०  
 भारतीय जीवन पर एक चिडिया की नजर चौधरी २७५  
 भारतीय सस्कृति का इतिहास रस्तोगी. १५००  
 मुगल बादशाहों की सनक. राजहस १.७५ वप्र  
 मेघनाद प्रभात प्र २५०. ना  
 मेरी आत्म कहानी चतुरसेन १६००  
 मोती राजपाल २०० उ, — —हिंद पा १००  
 रक्त की प्यास चौधरी २५०  
 राजपूत बच्चे चौधरी. २५०  
 राजसिंह प्रभात प्र ३५० ना.  
 राधा कृष्ण राजहस. १२५ वप्र.  
 लालपानी चौधरी २५०  
 वातायन साधना सदन ३००. सस्म  
 वैशाली की नगरवधू २ ख चतुरसेन. ६.०० (प्र.) उ,  
 — —हिंद पा २.००  
 व्यभिचार प्रभात प्र. ४.०० नि.  
 श्रीराम प्रभात प्र २५० ना  
 सह्याद्रि की चट्टाने प्रभात प्र. ३००. उ.  
 सात्विक आहार चतुरसेन. ३००  
 सिंहगढ-विजय गगा २.०० क  
 सुखी जीवन गगा २५०  
 सोना और खून कि महल ७५० उ, — —राजपाल.  
 भा १ ५.००, भा २ ७००, — —राजहस. भा. १.  
 उत्तरार्द्ध ६००, भा. २ ८००  
 सोमनाथ चतुरसेन एव चौधरी ८००. उ.  
 सोमनाथ महालय श्री भा. भारती ६००. उ.  
 सोया हुआ शहर राजपाल ४०० क.  
 स्वास्थ्य-रक्षा राजपाल १००  
 स्त्रियो का ओज चौधरी ३००  
 स्त्रियो के रोग और उनकी चिकित्सा चौधरी १७५  
 हमारा शरीर राजपाल ०७५  
 हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास श्री भा भारती  
 २५००  
 हिंदी साहित्य का परिचय राजपाल ३.००  
 हृदय की परख गगा ३०० उ, — —हिंद पा १००  
 हृदय की प्यास गगा ४५० उ, — —राजपाल ३००  
 चतुर्भुज, १९२८- अरावली का शेर स ४ साधना म  
 १५० ना  
 कर्ण स २ साधना म १५० ना  
 कार्लिंगविजय स ८ साधना म १.५० ना

कृष्ण कुमारी साधना म १५० ना  
 कुवरसिंह दि पु स १२५  
 नाटकावलि ४ ख साधना म ४०० (प्र)  
 बहादुर शाह साधना म १५० ना  
 भगवान बुद्ध दि पु स १२५  
 मीरकासिम स ४ साधना म १५० ना  
 मेघनाथ स ४ साधना म १५० ना  
 मोर्चे पर नाटक साधना म १५०  
 श्रीकृष्ण स ८ साधना म १५० ना  
 सिराजुद्दौला स ३ साधना म १५० ना  
 चतुर्वेदी अग्रेजी के माध्यम से हिंदी सीखिए राज किशोर  
 १००  
 अंतर्राष्ट्रीय सबंध रस्नोगी १०००  
 बच्चो की देख-भाल, घर और बाहर कि महल २५०  
 लोक प्रशासन स २ रस्नोगी ८००  
 विश्व इतिहास की भाकी प्रभात पब्लि ६.५०  
 चतुर्वेदी, अमृतलाल स्याम सदेसौ सा भवन, इ ३०० का.  
 चतुर्वेदी, ओमप्रकाश विश्व इतिहास का दिग्दर्शन श्रीराम  
 मेहरा २००  
 चतुर्वेदी, के सी सक्षिप्त प्रायोगिक रसायन लायल ०८०  
 चतुर्वेदी, गिरिधर शर्मा गीता प्रवचन माला काशी हिंदू  
 १५००  
 दर्शन-अनुचितन भा ज्ञानपीठ  
 वैदिक विज्ञान और भारतीय सस्कृति वि राष्ट्र. ५००  
 चतुर्वेदी, गिरिधर शर्मा दे ओम्भा, मधुसूदन  
 चतुर्वेदी, जगतप्रकाश दीपवेला कि महल १२५ का  
 चतुर्वेदी, जगदीश भारत की शिल्प कथाएँ भरहुत हि प्रचा  
 पु १२५  
 भारत के नृत्य कथकली हि प्रचा पु १२५  
 चतुर्वेदी, जगन्नाथप्रसाद तुलसीदास गंगा १०० ना  
 निरकुशता-निदर्शन गंगा १५० आ  
 पद्यमाला इ प्रे १०० का  
 चतुर्वेदी, जगपति अद्भुत जतु कि महल २००  
 आकाश-लोक ग्रथमाला १५०  
 आदमी कहा से आया ? हि भवन १०० वप्र  
 आविष्कारको की कहानी कि. महल २००  
 आविष्कारो की दुनिया आदर्श पु म १५०  
 उथले जल के पक्षी कि महल २००  
 कीट-पतंगो का ससार कि महल. ४००  
 कीटाणुओं की कहानी कि महल २००  
 कोयले की कहानी कि महल २००  
 खुर वाले जानवर कि महल २००  
 गाव की चिडिया छात्रहितकारी १२५ वप्र  
 ग्रह, राशि, नक्षत्र आदर्श पु म १५०  
 ग्रहो की यात्रा आदर्श पु म १५०  
 चीटी-चीटो की कहानी कि महल २००  
 जगली जानवर छात्रहितकारी १०० वप्र  
 जपु विल कैसे बनाते हैं कि महल २००

जतुओ का गृहनिर्माण कि महल. २००  
 जलचर पक्षी कि महल २००  
 जीने के लिए कि महल २००  
 जीव-जतुओ की बुद्धि कि महल ४००  
 ज्वालामुखी कि महल २००  
 तत्वो की खोज मे कि महल २००  
 तारा कैसे देखे आदर्श पु म १५०  
 तारा कैसे बने आदर्श पु म १५०  
 दूध और उसके धधे छात्रहितकारी १००  
 देशी खाद छात्रहितकारी ०५०  
 धरती का राजा कि महल २००  
 नदी तालाबो की चिडिया छात्रहितकारी. १२५. वप्र  
 प मोतीलाल नेहरू इ प्रे १७५ वप्र  
 परमाणु के चमत्कार कि महल २००  
 पालतू जानवर छात्रहितकारी १०० वप्र  
 पृथ्वी के अन्वेषण की कथाये छात्रहितकारी. १.७५  
 पैसिलिन की कहानी कि महल २००  
 प्रकाश की ओर ग्रथमाला १५०  
 फल सरक्षण विज्ञान आदर्श पु म २५०  
 फल-सब्जी सरक्षण छात्रहितकारी १००  
 फसल-रक्षा की दवाएँ छात्रहितकारी ०५०  
 विजली की लीला कि. महल २००  
 विजली कैसे खोजी गई ? हि. भवन १०० वप्र  
 भाप का इजन कैसे बना ? हि भवन १०० वप्र.  
 भूगर्भ विज्ञान कि महल २००  
 मकड़ी-मकडो की कहानी कि. महल २००  
 मवेशियो का चारा छात्रहितकारी ०७५  
 मवेशियो के कृमि रोग छात्रहितकारी ०५०  
 मवेशियो के छूत के रोग छात्रहितकारी. ०५०  
 मवेशियो के विविध रोग छात्रहितकारी ०५०  
 मवेशियो के साधारण रोग छात्रहितकारी. ०.५०  
 राकेट या आकाशवाण आदर्श पु म १.५०  
 राजर्षि पुरुषोत्तमदास टडन इ प्रे १५० वप्र  
 रेलगाडी कैसे बनी ? हि भवन १०० वप्र  
 वन-उपवन के पक्षी कि महल २.००  
 वन वाटिका के पक्षी कि महल २००  
 वनस्पति की कहानी कि महल २.००  
 विज्ञान के चमत्कार आदर्श पु म १५०  
 विज्ञान के महारथी छात्रहितकारी २००  
 विलक्षण जतु कि महल. २००  
 विलुप्त जतु कि महल २००  
 विलुप्त वनस्पति कि महल २००  
 वैज्ञानिक आविष्कार २ भा कि महल. २०० (प्र)  
 वैज्ञानिक खाद छात्रहितकारी ०५०  
 शल्य-विज्ञान की कहानी कि महल २००  
 शिकारी पक्षी कि महल २.००  
 ससार के सरीसृप कि महल ४००  
 ससार के सर्प कि महल ४००

सब्जी की उत्तम खेती. आदर्श पु. म. ३००  
 समुद्री जीव-जतु कि. महल २००  
 सूर्य, चंद्र तारे आदर्श पु. मं १५०  
 सृष्टि का इतिहास. कि. महल ४००  
 स्तनपोषी जतु कि. महल २००  
 हमारे गाय बैल छात्रहितकारी. ०५०  
 हिंसक पशु कि. महल. २.००  
 —सपा रत्न-समुच्चय छात्रहितकारी. १२५  
 चतुर्वेदी, जवाहरलाल, सपा. काव्य निर्णय (भिखारीदास)  
 कल्याणदास. १५००  
 चतुर्वेदी, तपेशकुमार विनय-पत्रिका दर्शन. विनोद २५०  
 चतुर्वेदी, त्रिभुवन क्षमा कीजिए, श्रीश २०० नि  
 बाल संगीत. २ भा. श्रीश. ०-७५ (प्र)  
 चतुर्वेदी, दूधनाथ अर्थशास्त्र की विवेचना कल्याणदास ७००  
 श्रम सिद्धांत : एक समीक्षा सा. केन्द्र. ६.७५  
 चतुर्वेदी, देवीदयाल 'मस्त', १९११- अपना पराया. इ. प्रे  
 २५०. उ  
 अभिषेक. सरस्व. प्रे. २००  
 आल्हा-ऊदल इ. प्रे. ०.५० बप्र  
 उडते पत्ते. इ. प्रे. २.५०. उ.  
 उलट-फेर. गंगा. २७५ क  
 गरीब. चौधरी २.५०  
 ज्वार भाटा लोक चेतना. ३५० उ  
 दीपदान चौधरी ३५०  
 धरती-आकाश इ. प्रे. १५० बप्र  
 प्राणोत्सर्ग. आत्माराम. १२५ का  
 मीठे गीत. आत्माराम १५० बप्र.  
 रगीन डोरे इ. प्रे. २०० क  
 रगीन शर्बत आत्माराम १.५०  
 रमीन सपने ज्ञान मडल प्र ४०० उ.  
 रानी दुर्गावती इ. प्रे. १.२५ का  
 हवा का रुख. इ. प्रे. १५०. क.  
 हवा-महल आत्माराम १.०० बप्र  
 चतुर्वेदी, द्वाराकाप्रसाद. भीष्म पितामह ना. प्र. सभा. ३.००.  
 जी  
 चतुर्वेदी, नरेद्र निर्माण वेला ज्ञान मडल प्र ०७५ का.  
 चतुर्वेदी, नरेशचंद्र. साहित्य चिंतन प्रत्युष ५५०  
 चतुर्वेदी, नर्मदेश्वर कवि तानसेन और उनका काव्य. सा.  
 भवन, इ. ३००  
 दामो रचित लखमसेन पद्मावती कथा परिमल. १.२५  
 नेवाजकृत शकुतला नाटक परिमल १५०  
 प्राचीन कथा साहित्य सा. भवन, इ. ५००  
 बापू का सपना सा. भवन, इ. १०० बप्र  
 संगीतज्ञ कवियों की हिंदी रचनाएं सा. भवन, इ. २.५०  
 —अनु भक्तिमार्गी बौद्धधर्म भा. भ ४००  
 वह पागल सा. भवन, इ. १५० उ  
 —व्या हिंदी गाथा सप्तशती चौखवा ५००  
 चतुर्वेदी, नर्मदेश्वर. दे. निकलसन, रेनाल्ड ए

चतुर्वेदी, नारायण अट्टाईस दिन की कहानी रामप्रसाद  
 २०० या  
 सम्राट् पचम जार्ज इ. प्रे. ३००. जी  
 चतुर्वेदी, नारायण दे किंग, क्लेरेस  
 चतुर्वेदी, परशुराम, १८९४- उत्तरी भारत की सत-परपरा.  
 सशो. स. भा. भ १५००  
 कबीर साहित्य की परख सशो स. ३ भा. भ. ७.००  
 गार्हस्थ्य जीवन और ग्राम-सेवा सा. भवन, इ. १००. बप्र.  
 बौद्ध साहित्य की सांस्कृतिक झलक सा. भवन, इ. ३.५०.  
 नि  
 भक्ति साहित्य में मधुरोपासना भा. भ ४००  
 भारतीय साहित्य की सांस्कृतिक रेखाएं. सा. भवन, इ. ५.००.  
 नि  
 मध्यकालीन प्रेम-साधना सा. भवन, इ. ४५०. नि  
 मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियां सा. भवन, इ. ३.००. नि.  
 मध्यकालीन श्रृंगारिक प्रवृत्तियां व नवरस. रामप्रसाद. ३.००  
 मानस की राम कथा कि. महल ३५०  
 रहस्यवाद वि. राष्ट्र ५.००  
 वैष्णव धर्म राजकमल ३५०  
 सत काव्य. कि. महल ७५०  
 साहित्य-पथ सा. भवन, इ. ४००. नि  
 हिंदी काव्य धारा में प्रेम प्रवाह कि. महल. ३.७५  
 हिंदी के सूफी प्रेमाख्यान हि. ग्र. र ३.००  
 —सपा मीराबाई की पदावली हि. सा. सम्मे ३.००  
 सूफी काव्य संग्रह हि. सा. सम्मे ३५०  
 चतुर्वेदी, परशुराम. दे. द्विवेदी, गणेशप्रसाद.  
 चतुर्वेदी, पुरुषोत्तम शर्मा भारतीय व्रतोत्सव स. २ चौखवा.  
 ३००  
 —अनु हिंदी रसगगाधर ना. प्र. सभा २४००  
 चतुर्वेदी, पृथ्वीनाथ बालको के प्रिय कवि. विनोद १२५.  
 बप्र  
 चतुर्वेदी, बनारसीदास, १८९२- एक क्रांतिकारी के सस्मरण.  
 सस्ता. १००  
 पत्र-लेखन कला आत्माराम ०७५  
 रूस की साहित्यिक यात्रा आत्माराम ४००  
 रेखा-चित्र स. २ भा. ज्ञानपीठ ४००  
 सस्मरण स. २ भा. ज्ञानपीठ ३००  
 सत्यनारायण कविरत्न की जीवनी हि. सा. सम्मे ४००  
 साहित्य और जीवन सस्ता २०० नि  
 सेतुवध. सस्ता २०० सस्म.  
 हमारे आराध्य भा. ज्ञानपीठ ३०० जी  
 —तथा हरिशंकर शर्मा पद्मसिंह शर्मा के पत्र आत्माराम.  
 ७००  
 —सपा आत्मकथा रामप्रसाद 'विस्मिल' आत्माराम. २५०.  
 जी  
 यश की धरोहर आत्माराम. ३५०  
 —तथा अन्य, सपा राजेन्द्र बाबू : व्यक्तित्व-दर्शन. सस्ता.  
 १५००. सस्म.



चतुर्वेदी, बरसानेलाल कवीर पदावली सा सगम, म २५०  
 गुजराती साहित्य का सक्षिप्त इतिहास हिं सा स २००  
 तुलसी पदावली सा सगम, म २५०  
 महामति चाणक्य राजदूत बने हिं सा स ४३७  
 मीरापदावली सा सगम, म २५०  
 रग और व्यग्य विनोद १०० का  
 सर पदावली सा सगम, म २५०  
 हिंदी साहित्य मे हास्य रस हिं सा स १०००  
 हिंदी हास्य और हास्याकार जवाहर ४००  
 चतुर्वेदी, वृजकिगोर सस्कृत-केन्द्र उज्जयिनी इ प्रे ३२५  
 चतुर्वेदी, भगवतशरण गाव की साभ विनोद २०० उ  
 जय सजय रामप्रसाद १५० का  
 नव भारत के भाग्य विधाता विनोद १५० जी  
 भारत के अमर रत्न विनोद ०५० जी  
 मेरा हिंदुस्तान एक है विनोद ०८०. का.  
 —सपा गीत और गोली विनोद १०० ना  
 चतुर्वेदी, भगवतशरण दे नीरज  
 चतुर्वेदी, भगवतस्वरूप, १९१६- चुबकी का घर राजकमल  
 (पा) १०० क.  
 वेतवा मे भवर इ प्रे २७५ क  
 हिरोशिमा की छाया मे राजकमल ४०० उ  
 चतुर्वेदी, महेंद्र हिंदी उपन्यास एक सर्वेक्षण नेशनल  
 ६५०  
 चतुर्वेदी, माखनलाल, १८८८- अमीर इरादे गरीब इरादे  
 स २ भा ज्ञानपीठ २०० नि  
 आधुनिक कवि भा ६ हिं सा सम्मे ३००  
 कला का अनुवाद विश्वविद्यालय २२५  
 वीजुरी काजल आज रही भा ज्ञानपीठ ३०० का  
 मरण-ज्वार सपा श्रीकांत जोगी हिं प्रचा पु ३००. का.  
 माता भा भ ५०० का  
 युगचरण भा भ २०० का  
 वेण लो, गूजे घरा भा ज्ञानपीठ ३०० का  
 समय के पाव भा ज्ञानपीठ ३०० जी  
 समर्पण भा भ ३०० का  
 साहित्य-देवता भा भ ८०० गद्य-का  
 हिमकिरीटनी. भा भ ४०० का  
 हिमतरंगिनी भा भ २७५ का  
 चतुर्वेदी, मोतीलाल हिंदी ग्रामर राज किशोर १००  
 चतुर्वेदी, रमाकांत तथा अन्य गणित रत्नाकर रतन ४००  
 चतुर्वेदी, रमावल्लभ गो-सेवा क्यो ? सस्ता ०४० वप्र  
 नशाबदी क्यो और कैसे ? अ भा सर्व ०६०  
 चतुर्वेदी, राजनारायण रिमफिम कल्याणदास १५० क  
 चतुर्वेदी, राजेश्वरप्रसाद, १९१८- आगरा विश्वविद्यालय  
 प्रकाशन न १६ (गद्य चयनिका) रतन ५००  
 आगरा विश्वविद्यालय बी ए हिंदी दिग्दर्शन रतन प्रथम  
 वर्ष ६००, द्वितीय वर्ष ८००  
 आचार्य चाणक्य—एक अध्ययन लक्ष्मी ना ३००  
 उद्धवशतक, एक अध्ययन रतन १.५०

कामायनी, एक अध्ययन रतन २००  
 काव्यानुगीलन रतन २७५  
 गोस्वामी तुलसीदास एस चाद १-५०  
 चंद्रगुप्त, एक अध्ययन रतन १५०  
 चद्रावली नाटिका, एक अध्ययन रतन १५०  
 चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य विनोद. ३०० जी  
 चिंतामणि, एक अध्ययन रतन १५०  
 जयशकर प्रसाद और स्कंदगुप्त स-३ विनोद २५०  
 जीवन का रहस्य श्रीराम मेहरा १५०  
 डा राधाकृष्णान् विनोद ३०० जी  
 देश की भ्राकी शिवलाल ०७५ वप्र  
 निर्माण और नागरिकता लक्ष्मी ना १००  
 प्रसाद और अजातशत्रु लक्ष्मी ना २००  
 भारत दुर्दशा लक्ष्मी ना १२५ आ  
 मानवता के आधार श्रीराम मेहरा १००  
 रामकुमार वर्मा—कला और कृपाण का कलात्मक अध्ययन  
 लायल २५०  
 लोकमान्य तिलक विनोद ३०० जी  
 विज्ञान की वाते शिवलाल १५० वप्र  
 सक्षिप्त भाषा विज्ञान आगरा बुक २००  
 हम और हमारे बालक शिवलाल १५० वप्र.  
 हम नागरिक बने रामप्रसाद १७५  
 हमारा निर्माण शिवलाल ०७५  
 हिंदी साहित्य का इतिहास अशोक प्र २५०  
 हिंदी साहित्य की भूलक आगरा बुक १५०  
 —तथा दिनेग भाषा-विज्ञान रतन ४००  
 चतुर्वेदी, रामकुमार 'चचल', १९२६- घटा के घुघुरू गया-  
 प्रसाद ५०० का  
 नई पीढी, नई राहे आत्माराम २५० का  
 चतुर्वेदी, रामस्वरूप, १९३१- आगरा जिले की बोली हिंदु  
 एकेडेमी ६००  
 शरत के नारी-पात्र. भा ज्ञानपीठ ४५०  
 हिंदी नवलेखन भा ज्ञानपीठ ४००  
 चतुर्वेदी, शिवसहाय जैसी करनी वैसी भरनी सस्ता १५०  
 वप्र  
 वाणिज्य व्यवसाय प्रवेशिका हिं पु ए १००  
 —सपा बुदेलखडी लोकगीत. मध्यप्रदेश शासन २००  
 हमारी लोककथाए सस्ता १५०  
 चतुर्वेदी, शील रक्त की रेखा कि महल २५० का  
 चतुर्वेदी, श्रीनारायण कोविद गद्य रा वेनीमाधव २००  
 चरण इ प्रे ०३१ का  
 सचित्र भारत इ प्रे १०००  
 चतुर्वेदी, सत्यदेव, १९२२- अतरिक्ष की लहरे हिं सा सृजन  
 ४०० उ  
 अकबर और वीरवल की कथाए २ भा हिं सा सृजन  
 १२५ (प्र)  
 अज्ञात के दिन हिं सा सृजन ३०० उ  
 अमितवेग हिं सा सृजन ४५०

किरणप्रभा हि. सा सृजन ४००. उ  
 गोस्वामी तुलसीदास और राम-कथा हि सा सृजन ५.००  
 मधुर कथाए हि सा सृजन १२५  
 रानी तिष्यरक्षिता हि सा सृजन ४०० उ  
 ललित कथाए हि सा. सृजन १२५  
 हिंदी काव्य की भक्तिकालीन साधना हि सा सृजन ५००  
 —सपा साहित्य-दर्शन हि. सा सृजन. ४५०  
 साहित्य-परीक्षण हि सा सृजन ३.००  
 चतुर्वेदी, सत्येद्र तथा चादमल जैन भाषा ज्ञान एव रचना बोध  
 यग मैन. ३७५  
 चतुर्वेदी, सालिगराम दे श्रीवास्तव, ए एल.  
 चतुर्वेदी, सीताराम गजता स २ अ भा विक्रम. १५० ना.  
 अध्यापन कला नद स ४२५  
 अनारकली अ भा विक्रम १५० ना  
 अपराधी अ भा विक्रम ०५० ना  
 अभिनव नाट्यशास्त्र अ भा विक्रम १२.००; — — कि  
 महल २०.००  
 अभिनव शिक्षण-शास्त्र हि सा. कु ६२५  
 अलका. स २: अ. भा. विक्रम २००. ना.  
 कबीर सग्रह हि सा सम्मे १००  
 गुडा अ भा विक्रम. १००. ना  
 गोस्वामी तुलसीदास चौखवा ३.००  
 जयसोमनाथ अ भा विक्रम १.०० ना  
 पाठशाला प्रवध और स्वास्थ्य नद ब्र ४२५, — — नद  
 स ३२५  
 पाप की छाया अ भा. विक्रम १०० ना  
 वेचारा केशव स २ अ भा विक्रम १०० ना  
 भारत मे सार्वजनिक शिक्षा का इतिहास नद ब्र ३.७५  
 भारतीय और योरोपीय शिक्षा का इतिहास हि सा कु  
 ४६६  
 भाषालोचन हि सा कु ६००  
 मानस-शास्त्र और समाज. हि सा. कु ३००  
 मालवीय जीवनचरित स २ अ भा विक्रम. ८००  
 मुशीजी और उनकी प्रतिभा राजकमल ३००  
 युग बदल रहा है अ भा विक्रम १००. ना  
 लेखनकला और आदर्श निवध कल्याणदास ४००  
 वसत. स २ अ. भा विक्रम १०० ना  
 विश्वास अ भा विक्रम १०० ना  
 शवरी अ भा विक्रम १५० ना  
 शिक्षण के आधार नद ब्र ५००  
 शिक्षा प्रणालिया और उनके प्रवर्तक नद स ७५०  
 शैली और कौशल हि सा कु ६००  
 ससार का सरल इतिहास नद ब्र. एव नद. स २००  
 संस्कृत शिक्षण पद्धति नद ब्र २५०  
 समीक्षा शास्त्र अ भा विक्रम २१००  
 सिद्धार्थ स २ अ भा विक्रम २०० ना  
 हिंदी शिक्षण विधान सशो स २ हि सा. कु २००  
 हिंदी साहित्य सर्वस्व. हि सा कु. ११००

—तथा शिवप्रसाद मिश्र 'रुद्र'. भाषा की शिक्षा सशो स. ७.  
 हि सा कु ५००  
 —सपा अरस्तू का काव्यशास्त्र सा सेवक १००  
 कालिदास ग्रथावली स ३ अ भा विक्रम २०००, — —  
 ' भा प्र. मंदिर  
 चतुर्वेदी, सुधाशु, अनु नाली से नेशनल २५० उ.  
 चतुर्वेदी, सुरेशचंद्र. आरोग्य-पथ आत्मराम. ३००  
 चतुर्वेदी, हीरादेवी बुदेलखडी लोकगीत इ प्रे. ०५०  
 मधुमास इ प्रे १.५० का  
 रगीन पर्दा इ. प्रे १.५० ना  
 —सपा गल्प गवाक्ष इ. प्रे १५० क.  
 चतुर्वेदी, हुकमचद तथा जी प्रकाश 'इदु' सोवियत रूस, ग्रेट  
 ब्रिटेन तथा भारत का आर्थिक विकास यग मैन ५५०  
 चतुर्वेदी, हृषीकेश श्रीराम-कृष्णायन. शिवलाल. १५०  
 चतुर्वेदी 'अजान' कालेज की कहानिया रीगल २.५०  
 चत्ता, नदलाल. काश्मीर की लोक-कथाए आत्मराम भा १.  
 १२५, भा २ १५०  
 केसर क्यारी. नेशनल ०.७५ बप्र  
 जी है तो जहान है साहनी. ०५० बप्र  
 मनोरजक लोक-कथाए २ भा आत्मराम. १२५ (प्र.)  
 रामराज के पथ पर साहनी. ०६२ बप्र  
 वीर बालक आर्य बुक १.००  
 हमारे पडोसी साहनी ०५० बप्र  
 चन्दोक, राम बाल-विकास बाल कल्याण २५०  
 चपलोट, रोशनलाल बौनो के देश मे नवयुग ग्र कु. १००  
 बप्र.  
 चमनलाल नागरिक गीता विश्वेश्वरानंद १७५  
 चमनलाल भजनीक इतिहास रत्नसागर देहाती ०८७  
 चरण, आर काच विज्ञान. हि. समि ६००  
 चरणजीतसिंह योद्धा नहीं कामगार सा सगम, लु १००.  
 बप्र  
 चाडक, देवदत्त भारत का औद्योगिक विकास कि. महल  
 ३५०  
 चाद मोहम्मद आधुनिक उर्दू शायरी आधुनिक सा २५०  
 उर्दू के मधुर गीत व गजल आधुनिक सा १५०  
 काम विज्ञान और विवाहित जीवन आधुनिक सा  
 ३००  
 नया युग नई शायरी आधुनिक सा १५०  
 परेशान होना छोड़िए, जीना शुरू कीजिए आधुनिक सा  
 १८८  
 सफल और सुखी कैसे बने आधुनिक सा  
 स्वास्थ्य और जीवन आधुनिक सा ३००  
 चाऊ सियाग कुआग चीनी बौद्धधर्म का इतिहास. भा भ  
 ७५०  
 चाटुर्ज्या, सुनीतिकुमार ऋतभरा सा भवन, इ ३.५०. नि.  
 भारत की भाषाए और भाषा-संबंधी समस्याए स २  
 हि भवन ३००  
 भारत मे आर्य और अनार्य. मध्यप्रदेश नासन. १.४०

भारतीय आर्य भाषा और हिंदी राजकमल. १० ००  
 चाणक्य कौटिल्य अर्थशास्त्र देहाती १० ००  
 चातक दे गोविंद चातक  
 चातक दे देव, हिरिशचंद्र 'चातक'  
 चान तइन-यी करामाती कद्दू रूपा द्रोणवीर कोहली आत्मा-  
 राम २००  
 चापलीना, बेरा. चिडियाघर के नन्हे मुन्हे पीपुल्स. १५०.  
 वप्र.  
 चार आधुनिक भारत का सरल इतिहास (१७०७-१९५०)  
 सुरजीत १२ ००  
 आधुनिक योरोप का सरल इतिहास (१७८६-१९४५)  
 सुरजीत १० ००  
 इंग्लैंड का सरल इतिहास (१६८८-१९४५) सुरजीत  
 १२ ००  
 प्राचीन भारत का सरल इतिहास (आदि से १००० ई )  
 सुरजीत १० ००  
 भारतीय प्रशासन तथा सविधान सुरजीत १२.००  
 मध्यकालीन भारत का सरल इतिहास (१०००-१७०७)  
 सुरजीत १० ००  
 चारण, गिरधारीदान बेचारा राष्ट्र निर्माता नवयुग ग्र कु.  
 २५०  
 चारायण, आचार्य मन्नाषाध्याय विश्वेश्वरानंद ३ ००  
 चारियर, बी आर दे भोलासिंह.  
 चारुचंद्र शास्त्री. दे कीथ, ए बी  
 चारुचंद्र शास्त्री दे गोल्डस्टूकर, थि  
 चारुचंद्र शास्त्री. दे मैकडौनेल, ए ए  
 चारुदेव शास्त्री अनुवाद कला. मोतीलाल २५०  
 साहित्य सुधा. विश्वेश्वरानंद २ ३७  
 चावला तथा सेठी भारत का इतिहास २ भा गुरदास.  
 ४७० (प्र )  
 चावला, काशीराम प्रेम सूत्र देहाती ३ ००  
 सदा जवान रहो देहाती १२ ००  
 चावला, गुरुचर प्यासी रूहे नवीनतम २५०  
 चावलि सूर्यनारायण मूर्ति महानाश की ओर एस चाद.  
 १.५०  
 चिचलीकर, श्रीराम नये अकुर अ भा सर्व ० २५ वप्र.  
 चितक दे. शर्मा, भूदेव 'चितक'  
 चिता. दे मार्कंडेयसिंह 'चिता'  
 चितामणि तथा वर्मा व्यापार प्रणाली एव पत्र व्यवहार  
 बुकलेड ४५०  
 चितामणि, बी एम ऐतिहासिक उपन्यासो मे कल्पना और  
 सत्य चौखवा ३ ००  
 चितरजन मीत के खिलाडी श्रीराम मेहरा १५०  
 चितरजनप्रसाद दे साहा अक्षयलाल  
 चितले, कै श वा तथा प्रा न चि जोगलेकर, सपा राष्ट्र-  
 भाषा-विचार सग्रह स ३ अनाथ २५०  
 चि वरे, नारायण श्यामराव एप्रिल फूल स २ शिवाजी.  
 ३.०० क.

चित्रकार दे. मानिकचंद्र 'चित्रकार'  
 चिरजीत, १९१७- एक था राजा, एक थी रानी. आत्मा-  
 राम १ २५ वप्र  
 कहै पैरुडीदास आत्माराम २५०. का.  
 तस्वीर उसकी आत्माराम १५० ना  
 नटखट के गीत आत्माराम. १ ०० वप्र  
 मधु की रात और जिदगी. आत्माराम २ ०० का.  
 मास्टर सिलबिल आत्माराम ३ ०० व्यग्य  
 रगारग आत्माराम २ ०० ए  
 चिरजीलाल कार्यालय क्रियाविधि नेशनल १ ००  
 चिल्ड्रेसन धरती के गर्भ मे पीपुल्स १ ००  
 नाभिकीय ऊर्जा पीपुल्स १ ००  
 चिश्ती, एस ए इतिहास चद्रिका नद व्र १ ५०  
 चुकदर श्रीमती वनाम श्रीमता रामप्रसाद १.००  
 चुध, सत्यपाल नीरजा विवेचन ओरिएटल ३.००  
 चुध, सत्यपाल दे हरभजनसिंह  
 चुन्नीलाल 'शेष' सूर के सौ कूट. हिं प्रचा पु ५.००  
 चूडामणि शास्त्री सस्कृत-सुधा आत्माराम १.५०  
 चेखव चेखव की श्रेष्ठ कहानिया. २ भा. प्रभात प्र. ३ ००.  
 (प्र )  
 द्वन्द्व युद्ध प्रभात प्र ३ ०० उ  
 सघर्ष हिंद पा १ ०० उ  
 चेखव, अ प कुत्तेवाली महिला पीपुल्स ० ५६. क  
 चेरी की बगिया पीपुल्स ० ५० ना  
 लघु उपन्यास और कहानिया पीपुल्स २.४४ क.  
 चेखव, एन्टन अतद्वंद्व कि महल ३ ५० उ.  
 तीन साल राजकमल (पा ) १ ०० उ  
 लौटरी का टिकट रामलोचन (पा ) १ ०० क.  
 चेटी, राभचंद्र मिया कल्लन रामप्रसाद १ ७५ हा  
 चेडविक, मेरी बचपन राजकमल १ २५ मनो.  
 चेतन दे. राधेमोहन चेतन  
 चेतनाथ, पीर मस्तनाथ चरित्र देहाती २ ५०  
 चेताराम शास्त्री नूतन हिंदी व्याकरण श्री भा भारती २ ५०  
 चैन-ची यग सरकडो के मूर्ख लोकप्रिय ३ ०० उ  
 चेस्तनोव, एफ आई आयनोस्फियर की कहानी पीपुल्स  
 १ २५  
 चैनसुखदास, सपा सर्वार्थसिद्धिसार जैन सा ४ ००  
 चैनसुखदास तथा कस्तूरचंद कासलीवाल दे सुधारू, कवि  
 चैनसुख वेताव आजादी की लडाई देहाती १ ५० ना  
 सिकदर पीरस देहाती १ ५० ना.  
 चोच दे पाडेय, कातानाथ 'चोच'  
 चोखानीजी भजन सग्रह हिं पु ए ५ ००  
 चोपडा, एन एस कपडे की बनावट व डिजाइन देहाती  
 ३ ७५  
 वीविंग गाइड देहाती ४ ५०  
 वीविंग कैल्कुलेशन. देहाती २ २५  
 सूती ऊनी कपडो की रगाई छपाई देहाती ३.७५  
 हैडलूम गाइड. देहाती १३.००

चोपडा, ओमप्रकाश शिशु जन्म. हेमकुंट. ३.२५  
 चोपडा, बोधराज मा और बच्चा. इ प्रे. २ ७५  
 चोपडा, मोहन. चट्टान का फूल. आत्माराम. २ ५०. ए  
 नीड से आगे आत्माराम ३ ०० उ  
 चोपडा, सुदर्शन अर्जुन उमेश २.०० बप्र  
 कर्ण. उमेश, २.०० बप्र.  
 भीष्म. उमेश. २ ०० बप्र.  
 चोपडा, हीरालाल. इकबाल की शायरी. प्रचा. पा. १ ००.  
 का.  
 चौकृषि, शकरदयाल. द्विवेदी युग की गद्य-शैलियों का अध्ययन.  
 एस. चाद.  
 चौगुले, श्री शि जमीदार की बेटी. आनंद पु., वा. ३ २५.  
 उ.  
 चौथमल, मुनिश्री कालु-कौमुदी आदर्श सा सयुक्त ४ ५०,  
 पूर्वाद्ध २ ००, उत्तराद्ध २ ५०.  
 चौथमल मुनिश्री दे भीखण, आचार्य  
 चौधरी प्राचीन शिक्षण विधिया एव हारबर्ट की पंचपदी  
 शिक्षण हि सा. भ १ ५०  
 —तथा जैन भारतीय प्रशासन व राजनीति फ्रैंक ६.५०  
 —तथा ठाकुर आधुनिक भारत का इतिहास मोतीलाल  
 ६ ७५  
 —तथा श्रीवास्तव विक्रम कला मोतीलाल ५ ६२  
 चौधरी, अनतलाल हिंदी साहित्य का इतिहास नावल्टी  
 चौधरी, आर के ब्रिटेन का वैधानिक इतिहास मोतीलाल  
 ६.२५  
 ब्रिटेन की शासन पद्धति मोतीलाल २.६२  
 विश्व इतिहास की रूपरेखा. मोतीलाल १० ७५  
 चौधरी, एन एन. काव्य तत्त्व समीक्षा मोतीलाल २० ००  
 चौधरी, एम एस तथा पी. एन कौल माध्यमिक कृषि जंतु  
 विज्ञान भा. भा अ ६ ००  
 माध्यमिक कृषि वनस्पति विज्ञान भा भा प्र. १० ००  
 चौधरी, एस आर दे चौधरी, पी. एस.  
 चौधरी, कमला उन्माद. आत्माराम ३ ००. क.  
 बेल-पत्र. आत्माराम १.०० क.  
 यात्रा. आत्माराम. ३.०० क  
 चौधरी, कीर्ति कविताए. राजकमल. ३ ५०. का  
 चौधरी, गुलाबचंद्र दे दामनदि, आचार्य  
 चौधरी, गोलोकविहारी. खेती ग्रथमाला. २ ७५  
 चौधरी, चडीचरण फूलो की राजकुमार. सा साधना. ० ७५  
 बादल कुमारी सा साधना ०.७५  
 चौधरी, चारु. विनोबा की पाकिस्तान यात्रा. अ. भा सर्व.  
 २.५०  
 चौधरी, जगलाल रामचरित्र नावल्टी १ ००  
 ससार की आश्चर्यजनक वस्तुये. नावल्टी. ०.७५  
 चौधरी, जयकृष्ण. कालिदास. आत्माराम ३ ०० जी  
 भर्तृहरि सस्ता ० ४० बप्र.  
 चौधरी, जे पी कुशवाहा क्षत्रिय परिचय चौधरी. १.२५  
 क्या हनुमान बदर थे. चौधरी. ०.३७

तीर्थयात्रा. चौधरी ०.५०  
 पूर्णिया शास्त्रार्थ चौधरी १.५०  
 मंदिर प्रवेश शास्त्र सम्मत है. चौधरी. ०.४२  
 यज्ञोपवीत शका-समाधान चौधरी ० ५०  
 वैदिक धर्म शिक्षा. चौधरी. १ ००  
 वैदिक वर्ण व्यवस्था चौधरी. १.२५  
 शुद्धि सनातन है. चौधरी. १ २५  
 श्राद्ध वेदा विरुद्ध है. चौधरी. १.५०  
 सरल सस्कृत प्रवेशिका चौधरी ३.२५  
 चौधरी, तेजबहादुर. आग और पानी. नीलाभ. २ २५. उ.  
 चौधरी, नरेद्र शिकारी कहानिया. २ भा. सा. साधना. ० ५०  
 (प्र)  
 चौधरी, नलिनीरजन. शीलादेवी इ. प्रे २.७५. उ.  
 चौधरी, नीरजाकांत. भारत में आर्य बाहर से नहीं आये. गीता.  
 ० १५  
 चौधरी, पी. एस. तथा एस. आर. चौधरी. भारत का भूगोल.  
 सशो स ४. कि. घर, का ३.००  
 —तथा वी डी त्रिपाठी ससार का आधुनिक भूगोल. सशो.  
 स. २ कि घर, का. ३ ००  
 चौधरी, प्रथम चार यार. हि ग्र. र १.५०. उ.  
 चौधरी, व. जापान की खेती. अ भा सर्व ० ७५  
 चौधरी, यमुनाप्रसाद नीरज'. कबीर ज्ञानपीठ. १.२५.  
 का.  
 चौधरी, रघुनाथ तथा नलिनीबाला देवी. कविश्री-माला :  
 आसामी राष्ट्र प्रचा समि  
 चौधरी, राजकमल नदी बहती थी. नवयुग प्र. ३ ००. उ.  
 चौधरी, राजेन्द्रकुमार गीतार्चना, पु भ., रा २.००  
 चौधरी, राधाकृष्ण, १९२४- भारत में स्थानीय शासन  
 मोतीलाल. ५ ००  
 चौधरी, रामखेलावन. आधुनिक विद्यालय संगठन हि. सा. भ  
 ६.००  
 चित्रलेखा अध्ययन हि सा भ. १.५०  
 नूरजहा. (गुरुभक्तसिंह) हि सा. भ. २ ५०  
 पतन और प्रायश्चित्त. हि सा. भ. ३ ००. क.  
 पाठशाला प्रबंध एव स्वास्थ्य. स. २. हि. सा. भ. २.५०  
 पिंजरा और पछी. हि सा. भ ३.०० क.  
 भारतीय शिक्षा की समस्याए हि. सा भ ५.००  
 शिक्षण विधियों की रूपरेखा. स ३. हि सा भ १२.००  
 शिक्षा के आधार स्तम्भ. हि सा. भ भा. १ शिक्षा-सिद्धांत  
 ३ ७५, भा. २ शिक्षा-मनोविज्ञान. ३.७५  
 शिक्षा मनोविज्ञान (प्रश्नोत्तर) मालवीय. ६ ७५  
 शिक्षा मनोविज्ञान. स ३. हि सा भ. २.५०  
 शिक्षा शास्त्र स. ३ हि. सा. भ २.५०  
 सेदुर की डिविया हि सा. भ ३ ००. क.  
 हिंदी शिक्षण-विधि. स २. हि सा भ १.५०  
 —तथा लक्ष्मीनारायण टंडन. आचार्य शुक्ल और त्रिवेणी. हि  
 सा. भ. २.२५  
 मृगनयनी. स. २. हि. सा. भ. १.५० आ.

—तथा गिवराव गर्मा, सपा हिंदी शिक्षण कला. स २ हि  
सा भ ४५०

चौधरी, रामखेलावन दे टडन, प्रेमनारायण

चौधरी, रामखेलावन. दे टडन, लक्ष्मीनारायण

चौधरी, रामदेवसिंह दे जोगी, मुमनेश

चौधरी, रामनारायण वापू—मैंने क्या देखा, क्या समझा ?

नवजीवन २५०

—सपा नेहरूजी—अपनी ही भाषा में नवजीवन ३५०

चौधरी, रामपद यह दुनिया सरायखाना शारदा म ४००

चौधरी, लक्ष्मीनारायण आदर्श भोजन छात्रहितकारी १५०

चौधरी, वाल्मीकि राजेद्र बाबू का व्यक्तित्व आत्मराम

५०० जी

राष्ट्रपति और राष्ट्रपति-भवन आत्मराम ६००

राष्ट्रपति-भवन की डायरी आत्मराम ७६४

चौधरी, शम्भुरण शिक्षा के सिद्धांत और इतिहास मगध

६००

चौधरी, सग्रामसिंह हिंदी रूसी शिक्षक रीगल १०००

चौधरी, स स भारतीय संस्कृति और इतिहास प्रभात प्र ४००

चौधरी, सत्यदेव काव्य-रश्मि एस चाद २५०

काव्यशास्त्रीय निबंध वासुदेव परपरा तथा

सिद्धांत पक्ष ७००, सिद्धांत पक्ष ५००

प्रतिनिधि कवि एस चाद ३५०

भारतीय काव्याग सा भवन, इ ७००

हमारी-भाषा-परपरा श्री भा भारती १२५

हिंदी रीति-परपरा के प्रमुख आचार्य सा भवन, इ २०००

हिंदी वाङ्मय का विकास श्री भा भारती ८००

चौधरी, सुधाशु शेखर दुनिया गोल है नागरी प्र

चौधरी, सुरेद्र हिंदी कहानी पाठ और प्रक्रिया भा भवन

(पा) २००

चौधरी, सूरतसिंह दे सिंह, के एन

चौधरी, सोमेश पूनम के साये भा संस्कृत ३०० क.

चौधरी, ब्रिटेन, भारत, अमेरिका रा वेनीमाधव १००

—तथा द्रविड नागरिक सिद्धांत रा वेनीमाधव १००

सरल नागरिकता और शासन रा वेनीमाधव ०७५

चौधरी, अर्जुन कविप्रिया एकाकी सरस्व प्र म ३००

चौधरी, एम सी दे धर्मभानु

चौधरी, कल्पनाथ शिक्षा की दार्शनिक मीमासा नद स ६००

चौधरी, गोरखनाथ आधुनिक भारतीय शासन स ८ रा

वेनीप्रसाद ५००

आधुनिक युग में भारत रा वेनीमाधव १००

गावों का विकास रा वेनीप्रसाद १५०

नागरिक शास्त्र की विवेचना स ११ रा वेनीमाधव

४००

नागरिक सिद्धांत कौमुदी रा वेनीप्रसाद ०८७

ब्रिटेन का वैधानिक इतिहास रा वेनीमाधव ०६२

भारतीय संविधान और नागरिकता रा वेनीप्रसाद ०७५

मध्य युग में भारत रा वेनीप्रसाद

मैट्रीक्युलेशन सिक्किम रा वेनीमाधव. २००

राजनीति सिद्धांत रा वेनीप्रसाद ४५०

सरल नागरिक शास्त्र रा वेनीमाधव. २०००

स्वराज्य ना भवन, इ १०० वप्र

चौधरी, गोरखनाथ दे मजूमदार, वी

चौधरी, गोरखनाथ दे श्रीनिवासाचारी तथा एम. एस राम-

स्वामी आग्रगर

चौधरी, नारायणप्रसाद डा नगेद्र के आलोचना सिद्धांत नेशनल.

७००

चौधरी, प्रियकुमार चर्मरोग चिकित्सा मेडिकल २००

जननेद्रिय रोग चिकित्सा मेडिकल १००

नासा, गला एव कर्ण रोग चिकित्सा मेडिकल ३५०

मासिकधर्म एव गर्भपात मेडिकल १००

विटामिन्स मेडिकल १७५

सल्फोनामाइड और एंटीबायोटिक्स. मेडिकल २५०

चौधरी, विजयनारायण तथा महेंद्रनाथ सिनहा सरल सामान्य

मनोविज्ञान नद व्र ६००

चौधरी, शम्भुनारायण, सपा रामचरितमानस ना प्र सभा

८७५

चौधरी, सरयूप्रसाद, १९१९- अध्यापन-कला लक्ष्मी ना ५००

अमेरिका में शिक्षा रा वेनीमाधव ५००

आधुनिक शिक्षा के तात्विक सिद्धांत लक्ष्मी ना ५५०

आधुनिक सोवियत रूस की शिक्षा पद्धति रा वेनीमाधव.

२००

इंग्लैंड में शिक्षा रा वेनीमाधव ३००

किशोर मनोविज्ञान की भूमिका परि स २ आगरा बुक

४५०

जनतन्त्रात्मक विद्यालय संगठन दि पु स. ६००

दर्शन और शिक्षा लक्ष्मी ना ४७५

नवीन शिक्षा शास्त्र दि पु स १५००

पारश्चात्य शिक्षा का इतिहास लक्ष्मी ना १०००

प्रयोगात्मक मनोविज्ञान सशो स ३ आगरा बुक ७५०

प्रारंभिक शिक्षा मनोविज्ञान लक्ष्मी ना ३००

फ्रांस में शिक्षा रा वेनीमाधव २००

बाल मनोविज्ञान सशो स ५ रा वेनीमाधव ५००

बाल विकास कि महल ५००

भारतीय शिक्षा का इतिहास रा वेनीमाधव. १०००

भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास रा वेनीमाधव ३५०

भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास तथा उसकी समस्याए

और परीक्षण रा वेनीमाधव ६५०

भारतीय शिक्षा की समस्याए और परीक्षण रा वेनीमाधव

३००

भारतीय समाज संगठन रा वेनीमाधव २००

मनोविज्ञान सशो स ४ आगरा बुक ७५०

मनोविज्ञान और शिक्षा लक्ष्मी ना १२५०

विदेशों में शिक्षा रा वेनीमाधव १२००

व्यवहृत मनोविज्ञान आगरा बुक ५००

शिक्षा के सिद्धांत और आधुनिक विकास लक्ष्मी ना ३००

शिक्षा विज्ञान सार. दि. पु स. १५००

शिक्षा-सिद्धात लक्ष्मी ना. १०००  
 समाज शास्त्र के तत्व रा. वेनीमाधव २००  
 समाज शास्त्र परिचय रा. वेनीप्रसाद ३००  
 सरल मनोविज्ञान. आगरा बुक ४५०  
 सरल-शिक्षा-मनोविज्ञान लक्ष्मी ना ६००  
 सामान्य मनोविज्ञान के तत्व आगरा बुक ५००  
 स्कूल-स्वास्थ्य-विज्ञान लक्ष्मी ना ५००  
 —मुख्य सपा. अध्यापन विधिया. नवीन स १६६२ लक्ष्मी ना.  
 ७५०  
 चौबे, हीरालाल बेसिक-शिक्षा मगध ५००  
 भारत में आर्थिक नियोजना एवं उसकी सभावनाएं मगध  
 ६००  
 चौमुआल, रामेश्वर भीमविक्रम हिं पु ए ०७५ ना  
 चौरसिया, अनंतकुमार बीतशोक सा नि, ब ४०० उ  
 चौरसिया, केशनीप्रसाद आधुनिक हिंदी निबध भा प्र ३५०  
 चौहान, आर. एस दे शर्मा, टी आर  
 चौहान, एन. एस तथा आर पी सिंह अमेरिकन जन-  
 शिक्षा का स्वरूप गयाप्रसाद ५००  
 चौहान, देवीसिंह अग्नि-परीक्षा जवाहर १५०  
 लहर और चाद. उदय. ३५० का.  
 चौहान, नरेद्रसिंह तथा राजेद्रपालसिंह सोवियत जैन शिक्षा का  
 स्वरूप विनोद ४००  
 चौहान, पी. एस दे गुप्त, रामप्रकाश  
 चौहान, प्रतापसिंह पत का काव्यदर्शन प्रत्यूष ३५०  
 सत मत में साधना का स्वरूप प्रत्यूष ३५०  
 चौहान, बलराम पनाह आदर्श पु. भ २५० ना  
 हमारा सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास. आदर्श पु भ.  
 ८००  
 चौहान, मनहर खूब लडी मर्दानी उमेश २०० वप्र  
 जय भवानी उमेश २००. वप्र  
 टूटा व्यक्तित्व उमेश २५० उ  
 देश-देश की परिया भारत आई. उमेश २००. वप्र  
 पराक्रम की कहानिया. आर्य बुक १५०  
 पूष उमेश २००. वप्र  
 बाल गगाधर तिलक सस्ता ०४०  
 मत छुओ. उमेश. ३०० क  
 रग-बिरगी परिया. उमेश २०० वप्र  
 रस भरी कहानिया आर्य बुक एवं आशा प्र २००  
 राजा राममोहन राय. सस्ता. ०४० वप्र  
 रात खो गई उमेश. ५०० उ.  
 रूपा और लल्ली उमेश. २००. वप्र.  
 सतुलन-असतुलन उमेश ५०० उ  
 सुवह के पछी. शकुन. १००  
 हल्दी घाटी उमेश २००. वप्र.  
 हिरना सावरी उमेश ४५० उ.  
 चौहान, मनहरलाल, अनु. नर्तकी रूपकोसा राजहस भा. १.  
 ४.५०, भा. २. ४.०० उ  
 चौहान, रामगोपालसिंह प्रेमचंद : गोदान रतन. ३००

भारतेदु-साहित्य विनोद ६७५  
 माधवजी सिधिया रतन ३०० आ  
 वर्माजी और 'ललित विक्रम' विनोद १५०  
 हिंदी नाटक सिद्धात और समीक्षा प्रभात प्र. ७.००  
 चौहान, रामगोपालसिंह दे कर्वाबिव, बर्डी.  
 चौहान, लक्ष्मणसिंह उत्सर्ग इ प्रे १७५. ना  
 चौहान, लक्ष्मणसिंह. दे. ह्यू गो, विक्टर.  
 चौहान, लालबहादुरसिंह भारत के प्रमुख फल. आत्माराम  
 २.००  
 चौहान, वासुदेवसिंह मनोरजक खेल. गगा १.२५  
 मनोरजक व्यायाम. गगा. १२५  
 चौहान, विजय, सपा. आधुनिक एकाकी आत्माराम २००  
 चौहान, विजय तथा शिवदानसिंह चौहान दे दोस्तोवस्की.  
 चौहान, वी एस भारत का भूगोल रस्तोगी ८००  
 भारत का भूगोल सरल समीक्षा स २ रस्तोगी. ४५०  
 भौतिक भूगोल स. ५. रस्तोगी ४००  
 मानव भूगोल के सिद्धात स ४ रस्तोगी ५००  
 चौहान, शिवदानसिंह, १६१८- आधुनिक कहानिया आत्मा-  
 राम ४००  
 आलोचना के मान रणजीत ३७५  
 आलोचना के सिद्धात राजकमल ३५०  
 जादू के रग रणजीत १५० ना  
 नव कथा-कुज आत्माराम. ३०० क  
 साहित्य की समस्याएं आत्माराम १०००  
 साहित्यानुशीलन आत्माराम ६००  
 हिंदी साहित्य के अस्सी वर्ष राजकमल ३.५०  
 —सपा युगछाया राजकमल २५० ना.  
 —तथा गोपालकृष्ण कौल, सपा काव्य-धारा आत्माराम.  
 ६००  
 चौहान, शिवदानसिंह. दे खत्री, एस पी  
 चौहान, शिवदानसिंह तथा विजय चौहान. दे गोर्की, मैक्सिम.  
 चौहान, शिवदानसिंह तथा विजय चौहान. दे शा, जार्ज बर्नार्ड.  
 चौहान, शिवध्यानसिंह आधुनिक परिवहन सा भवन, आ  
 स. ३ ६२५, सशो स ३.१०००  
 आर्थिक एवं वाणिज्यिक निबध. सशो स.२ सा भवन, आ.  
 ३४०  
 परिवहन के सिद्धात सशो. स सा भवन, आ ८००  
 भारतीय व्यापार सशो स ३ सा भवन, आ ६२५  
 —तथा एम के. सेठी सक्षेपिका लेखन एवं अपठित (प्रश्नोत्तर)  
 सा भवन, आ १.००  
 —तथा के आर हलवे आर्थिक एवं वाणिज्यिक निबध सशो.  
 स २ सा भवन, आ ४४०  
 बाजार समाचार सा भवन, आ १००  
 चौहान, सबलसिंह. महाभारत. श्यामलाल ८००  
 चौहान, सुभद्राकुमारी उन्मादिनी हस २५०. क.  
 भासी की रानी हस ०२५ का  
 नवलिका मजरी रा. वेनीमाधव १२५. क.  
 बिखरे मोती. हस २.५० क.

मुकुल हस २५० का  
सीधे सादे चित्र हस २५० क  
—सपा विवेचनात्मक गल्प-विहार इ प्रे २००  
चौहान, ही शरणसिंह सुबोध कृपि शास्त्र रा वेनीप्रसाद  
३००  
चौहान चातक पायल की भ्रकार अग्रवाल प्रि ०७५ उ

## छ

छगारी, शिवकरण ऑलिंपक खेल-कूद नवयुग ग्र कु ७००  
व्यायाम शिक्षण नवयुग ग्र कु १७५  
शारीरिक शिक्षा नवयुग ग्र कु ५००  
छत्रमल, मुनिश्री अमृत की वृद्धे अ भा अणुव्रत १२५  
इतिहास के बोलते पृष्ठ अ भा अणुव्रत २७५  
छवलानी मोतीलाल नेहरू एस चाद ८०० जी  
छाजेड, भागचद फाहियान की भारत यात्रा मगल १००  
छाजेड, शातिलाल मोतीलाल नेहरू नेशनल १५० जी  
छावडा तथा शकरनारायणान् दे राजवल्लभ  
छैलबिहारी तथा चद्रभान प्रारभिक माप-विज्ञान रा वेनी-  
प्रसाद १००  
छोकर, एन एस तथा आर के सिंह माध्यमिक प्रयोगात्मक  
भौतिकी रतन ४५०

## ज

जगजीवनराम हिंदी के जनपद सत मोतीलाल २०००  
जगत नारायण अद्भुत बालक नारायण प्र १५०  
आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय समस्याए कि महल ३००  
आधुनिक राजनीतिक विचारधाराए कि महल २५०  
कृष्णजी की प्रेम लीलाए नारायण प्र १२५ वप्र  
धर्म ज्योति स ३ नारायण प्र ४००  
वर्तमान यूरोप का सक्षिप्त इतिहास कि महल १५०  
विश्व और व्यक्ति नारायण प्र ०६२  
सर्व-धर्म-समन्वय नारायण प्र १२५ वप्र  
सुख की अचूक कुजी नारायण प्र १००  
जगतशखधर दे सान्याल, प्रबोधकुमार  
जगदीश द्वा सुपर्णा प्रचा पा १००  
जगदीश आनद बुभुता दीपक साहनी ०५० वप्र  
जगदीशकुमार 'निर्मल' रूपमती वीरा ५०० उ  
विदिशा की देवी आनद पु, वा ५०० उ  
साका हि प्रचा पु ३०० उ  
जगदीश गाजियावादी दीवार देहाती १२५ ना  
धुर्क कै कै भुर्क देहाती १२५ ना  
पापड डल्ले पौ पौ देहाती १२५ ना  
जगदीशचद्र कला के प्राण बुद्ध मध्यप्रदेश शासन ७५०  
हिंदी गद्य-सोपान एस चाद २५०

जगदीशचद्र मूना माध्यमिक प्रयोगिक प्राणिशास्त्र सशो स  
२ केदारनाथ ५००  
जगदीशचद्र शास्त्री आधुनिक कविता आर्थ बुक २००  
देशरत्न राजेद्रप्रसाद अशोक प्रे वप्र  
वापू अशोक प्रे वप्र  
जगदीशचद्र शास्त्री दे राजमल्ल  
जगदीशप्रसाद डिगल साहित्य हिंदु एकेडेमी ८००  
जगदीशलाल शास्त्री, अनु भोज प्रबध मोतीलाल ३००  
—टीका अभिज्ञान शाकुतल—केवल चतुर्थ अक मोतीलाल  
१००  
किरातार्जुनीय प्रथम सर्ग मोतीलाल १७५  
गीता द्वितीय अध्याय मोतीलाल १२५  
रघुवश ६वा सर्ग मोतीलाल १२५  
स्वप्नवासवदत्ता मोतीलाल १७५  
जगदीश वाचस्पति मौलाना रूम उनका काव्य हि पु. ए  
१५०  
जगदीश शास्त्री काव्य-चद्रिका एस चाद ३७५  
जगदीशसिंह उलभे बच्चे नेशनल १५०  
बच्चे के प्रारभिक वर्ष नेशनल ३००  
हमारे बच्चे नेशनल २७५  
हमारे रीति-रिवाज नेशनल ३५०  
जगदीश्वरानंद, स्वामी दुग्ध चिकित्सा कल्पवृक्ष ०३७  
जगदेव सिंह 'देव' खाद का उपयोग स ५ राष्ट्रीय प्र मदिर  
०६२  
खेती की रक्षा स ५ राष्ट्रीय प्र मदिर ०६२  
खेती की सामान्य रीति स ५ राष्ट्रीय प्र मदिर ०६२  
खेती के अनुसंधान स ५ राष्ट्रीय प्र मदिर ०६२  
खेती में यंत्रीकरण स ५ राष्ट्रीय प्र मदिर ०६२  
पशुपालन और चिकित्सा स ५ राष्ट्रीय प्र मदिर  
०६२  
सहकारी खेती स ५ राष्ट्रीय प्र मदिर ०६२  
सिचाई के साधन और तरीके स ५ राष्ट्रीय प्र मदिर.  
०६२  
जगन्नाथ एकाकी सुमन आर्थ बुक ३००  
कार्तिकमहात्म्यभाषा सपूर्णा देहाती १५०  
गरुड पुराण सरल भाषा देहाती १५०  
गुब्बारे में यात्रा नवयुग प्र २५० वप्र  
देवी देवताओं की आरतिया देहाती ३५०  
बच्चे सुदर कैसे बने कि महल ३००  
बैसाख महात्म्य सरल भाषा देहाती १५०  
जगन्नाथ 'आजाद' जीवनी और सकलन राजपाल १५०  
वेकरा प्रचा पा १००  
जगन्नाथ प्रभाकर उपवन में नेशनल १२५  
उर्दू की हास्य रस कहानिया सन्मार्ग ३५०  
काजल रेखा नेशनल ०७५ वप्र  
चार लाल बुभुक्कड नेशनल ०७५ वप्र  
चीन की कहानिया नवयुग प्र १०० वप्र  
जातक कथाए सन्मार्ग ०७५ वप्र

भूलकिया सन्मार्ग ०.७५ वप्र.  
 प्रकृति के दरबार मे नेशनल. १.२५  
 बवई की गुडिया. नेशनल. ०.७५ वप्र.  
 मौजी शकर नेशनल ०.७५ वप्र.  
 रूस की कहानिया नवयुग प्र. १०० वप्र  
 वत्सराज रणजीत १५० उ.  
 समय का मोल. सस्ता ०.४०. वप्र  
 जगन्नाथदास 'रत्नाकर', १८६६-१९३२. उद्धव-शतक. इ. प्रे  
 गगावतरण इ प्रे. १२५ का [२००  
 हरिश्चंद्र काव्य. ना. प्र सभा ०५०  
 —सपा सूरसागर ८ भा ना. प्र सभा ८२५  
 जगन्नाथदास 'रत्नाकर'. दे चंद्रशेखर  
 जगन्नाथ प्रसाद हिंदी गद्य के युग-निर्माता नद स ४.२५  
 जगन्नाथ प्रसाद 'मिलिद', १९०७- गौतम नद स ९. कि  
 घर, ग्वा. १५०. ना  
 जीवन संगीत भोपाल एव स्वरूप. ३००  
 प्रताप-प्रतिज्ञा स १७ हि भवन १२५ ना.  
 प्रियदर्शी गयाप्रसाद. २५० ना.  
 बलिपथ के गीत आत्माराम ४००  
 विल्लो का नकछेदन गयाप्रसाद २.०० हास्य.  
 भूमि की अनुभूति स २. कि. घर, ग्वा ४.००. का.  
 मुक्तिका गयाप्रसाद. २०० का  
 समर्पण आत्माराम २०० ना  
 सांस्कृतिक प्रश्न गयाप्रसाद २.५०  
 जगमोहन शकर प्रताप सरल भाषा विज्ञान (प्रश्नोत्तरी) हिं.  
 सा भ. २.२५  
 जगमोहन सिंह. ऋतुसंहार बगीय १.२५  
 प्रमिताक्षर दीपिका बगीय १.००  
 श्यामा स्वप्न बगीय ४००  
 जगेद्र, अध्यापक कहानी कलाप ४ भा गयाप्रसाद २.००  
 नाटक निकुज गयाप्रसाद २०० ना [वप्र.  
 मजरी ४ भा गयाप्रसाद ०.७५ वप्र.  
 महाभारत की कहानिया गयाप्रसाद ०.७५  
 जञ्जी जीवनी और सकलन राजपाल १.५०  
 जटासिहनदि वरातचरित सपा आदिनाथ उपाध्ये भा  
 ज्ञानपीठ ३००  
 जथार, के जी दे जथार, जी. वी.  
 जथार, जी वी तथा एस जी वेरी. भारतीय अर्थशास्त्र  
 राजकमल १५००  
 —तथा के. जी जथार भारतीय अर्थशास्त्र. राजकमल.  
 १०००  
 जनक अरविद अतर्वासी विनोद विद्या प्र भवन १२५  
 एक छाती हजार वज्र दास ०.६५  
 कव तक निहारू इ पव्लि एव दि पु स ४०० गीत  
 भारत के आदिवासी इ पव्लि एव दि पु स ३५०  
 भूल-भुलैया. विद्या प्र भवन १५०  
 युग युग का प्रकाश दास ०.७५  
 लोहे की कहानी. विद्या प्र भवन. १२५

वतन की राह मे दाम ०.७५  
 जनक राजलक्ष्मी वाल कहानी कुज सा सदन, दे. ०.७५  
 वप्र  
 जफर जफर की गजले स्टार (पा) १००  
 बहादुरशाह जफर जीवनी और सकलन राजपाल. १.५०  
 जफर, एम डी शिक्षण मनोविज्ञान रा वेनीमाधव. २००  
 शिक्षाशास्त्र कि महल. २५०  
 जमनादास 'अख्तर' अपने हुए पराये सहगल ३२५ उ.  
 आसू सहगल ३२५ उ  
 आग सहगल २५० उ  
 ओस और अगारे ३७५ उ.  
 कच्चे धागे अशोक पा १२५ उ  
 कश्मीर की बेटी सहगल २७५ उ  
 काले साये अशोक पा. १०० उ  
 तन के उजले मन के काले सहगल ३२५ उ  
 पायल सहगल ४०० उ  
 फासी की कोठरी से सहगल ४००. उ  
 बारामूला सहगल ४२५ उ  
 बुर्दा फरोश सहगल २२५ उ  
 हिमालय के उस पार पजावी पु २.५० उ, — — स्टार.  
 (पा) १००  
 जमाल कवि जमालमाला भारतजीवन ०.५०. का  
 जमीदार, नि छ आधुनिक भारत और गीता साहित्यालय.  
 २५० नि  
 चीनी हमला साहित्यालय १००. नि  
 डॉ राधाकृष्णन् एक अध्ययन साहित्यालय. १.५०. नि.  
 राजाजी साहित्यालय १०० नि.  
 व्यक्ति दर्शन साहित्यालय १००  
 जयत वाचस्पति एक इसान राजपाल २५० उ.  
 गजरा. हिंद पा १००. उ  
 क्रांतिकारी हिंद पा १०० उ  
 दाल-सेव का पेकेट एस चाद १२५ वप्र.  
 शब्दों का खजाना नेशनल १२५  
 जयकिशन प्रसाद केगवदास (प्रश्नोत्तर मे) विनोद. २५०  
 महादेवी का वेदना भाव विनोद ३५०  
 हिंदी साहित्य का आधुनिक काल विनोद ३७५  
 हिंदी साहित्य की प्रवृत्तिया विनोद ६००  
 जयकुमार 'जलज' किनारे से धार तक त्रिवेणी ४५०. का.  
 ध्वनि और ध्वनिग्राम-शास्त्र. त्रिवेणी ७००  
 भाषा शास्त्र त्रिवेणी १२००  
 रूप और वाक्य शास्त्र त्रिवेणी ५५०  
 संस्कृत-नाट्य शास्त्र एक पुनर्विचार त्रिवेणी. ५.००  
 सूरज सी आस्था. त्रिवेणी २०० का  
 हिंदी लघुकथा उद्भव और विकास त्रिवेणी ७००  
 जयचंद्रराय आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनका साहित्य. एस.  
 चाद ३००  
 आचार्य रामचंद्र शुक्ल सिद्धांत और समीक्षा एस चाद  
 १०००.



जयचंद्र विद्यालकार गोरखाली इतिहास की मुख्य धाराएं हि भवन १५०

पुरखो का चरित हि भवन पहली पोथी २००, दूसरी पोथी १५०, तीसरी पोथी १५० जी

प्राचीन पजाव और उसका पास पडोस हि भवन १५०

भारतीय इतिहास का उन्मीलन स ५ हि भवन ११००

भारतीय इतिहास की मीमासा हि भवन १२००

भारतीय कृषि का क ख हि भवन ७००

भारतीय वाङ्मय के अमर रत्न स ६ हि भवन १००

मनुष्य की कहनी स २ हि भवन ०७५ इति

हमारा भारत हि भवन ०४०

हाल का तजरवा हि भवन

जयजयराम व्यथित विश्व के महान् शिक्षा शास्त्री राजपाल ३५० जी

जयदेव गीत गोविंद अनु रागेय रागव साहनी ४००

जयदेव सूफी महाकवि जायसी भा प्र मंदिर ६००

जयदेव विद्यालकार चरक सहिता सपूर्ण स ६२ भा मोतीलाल. ३०००

भैषज्य रत्नावली परि स ७ मोतीलाल १२००

जयदेव सिंह पाश्चात्य दर्शन की रूपरेखा रामप्रसाद ६२५

जयधवला कषायपाहुड भा २-८ श्री भा दिगवर १२०० (प्र)

जयनाथ 'नलिन', १९१४- चिंतन और कला एस चाद ३५० नि

जवानी का नशा आत्माराम ३०० व्यग्य

टीलो की चमक पुष्पी ०७५ उ

धरती के बोल आत्माराम ३५० का

नवाबी सनक गयाप्रसाद ३२५ हास्य

निवधकार रामचंद्र शुक्ल वसल ६५०

वदलते रग नेशनल हास्य-व्यग

रामचंद्र शुक्ल, एक समीक्षा वसल ३००

विद्यापति, एक तुलनात्मक समीक्षा वसल ११००

शतरज के मोहरें अवध २००

हाथी के दात आत्माराम ३५० ए.

हिंदी नाटककार आत्माराम ७००

हिंदी निवधकार आत्माराम ६५०

जयनारायण हिंदी नाट्य विमर्श प्रदीप रीगल १५०

जयप्रकाश अतरिक्ष विजय नवयुग प्र २५० वप्र

जयप्रकाश अजीव सफर नवयुग प्र १५० वप्र

अलवेला नवयुग प्र १५० वप्र

वर्ष की कैद नवयुग प्र १५० वप्र

वीहड जगलो मे नवयुग प्र १५० वप्र

भारतीय न्याय प्रवेशिका गर्ग व्र १५०

मनोवैज्ञानिक प्रयोग परिचय गर्ग व्र २५०

मुर्गे की करामात नवयुग प्र १५० वप्र

मेरी विदेश यात्रा अ भा सर्व. ०६२

मौत की वादिया नवयुग प्र १५० वप्र

लहरो मे तीन साल नवयुग प्र २५० वप्र

लोक-स्वराज्य अ भा सर्व ०५०

समाज मनोविज्ञान प्रदर्शिका गर्ग व्र २५०

सरल प्रयोगात्मक मनोविज्ञान गर्ग व्र १.५०

सागर सम्राट नवयुग प्र १५० वप्र

जयप्रकाश नारायण, १९०२- समाजवाद से सर्वोदय की ओर.

अ भा सर्व ०३७

—तथा अन्य, सपा आचार्य श्री तुलसी अभिनदन ग्रथ जैन श्वेतावर ४०००

जयप्रकाश 'भारती' उनका वचन यू वीता. शिक्षण. १.२५

वर्ष की गुडिया शकुन १००

सरदार भगतसिंह शकुन १००

—सपा किरण माला आत्माराम भा ३२.००,

भा ४२५०, भा ५२५० वप्र

भारत की प्रतिनिधि लोक-कथाएं आत्माराम.

जयप्रकाश भारती दे श्रीकृष्ण

जयराम सिंह आधुनिक कृषिशास्त्र कि महल ६००.

कृषि विज्ञान कि महल

भारत की फसले कि महल ७५०

भारत मे फलोत्पादन कि महल ८००

मिट्टी का प्रारंभिक अध्ययन हि प्रचा पु २७५

जयवतराम, १८९०- मन के चमत्कार आत्माराम २००

जयसिंह कलावे लोक-चेतना ४०० उ

जयाचार्य, श्रीमद् भिक्वु दृष्टांत जैन श्वेतावर २.५०

जरासंध, १९०४- तामसी अनु रामेश्वरप्रसाद मेहरोत्रा. कि.

महल ५०० उ

पारि सा भवन, इ ३०० उ.

लौह कपाट कि सहल ३५० कथा

जलज दे जयकुमार 'जलज'

जलोटा, एस आधुनिक मनोविज्ञान का परिचय यूनर्वसिटी

४००

जवाहरलाल दुखवा मै कासे कहू गगा २५० क.

जसवतसिंह ग्रथावली सपा विश्वनाथप्रसाद मिश्र ना प्र

सभा

जसवतसिंह क्या खाए स ३ नेचर ७५०

क्षय और प्राकृतिक चिकित्सा नेचर २००

गुरु गोविंदसिंहजी कवि के रूप मे नेचर ०५० का

चिकित्सा-चमत्कार स २ नेचर ५९५

३३ सर्वैये स २ नेचर ०५० का.

दस गुरु गगा ३५० जी.

दस गुरु स ४ नेचर ३५०

दो चरित नेचर ०५० का

भारत मे मलेरिया और उसकी रोकथाम सर्वोदय. ०५०

महाराजा रणजीतसिंह स २ नेचर ०.२५ जी

मोहना सोहना स २ नेचर ०२५

विद्या-सागर स २ नेचर ०७५ का

वीर खालसा स ३ नेचर ०२५ का

वीरो की वीरता स २ नेचर ०२५ का

श्रीगुरु गोविंदसिंहजी स. २ नेचर ७.५०. जी.

श्रीगुरु नानकदेव जी स. ३. नेचर. ० ५०. जी.  
 श्रीदशमगुरु काव्य अमृतसार. स. २ नेचर. ३ ००. का.  
 सवैये और विष्णु पद नेचर. ० २५ का.  
 सिख-रहत मर्यादा नेचर ० ५०  
 सिद्ध गोष्ठी स २ नेचर. १ ००  
 जसवतसिंह कवल. पाली सा. सगम, लु ३ ७५. उ  
 पूर्णमासी सा सगम, लु ४ ००. उ.  
 जसवानी, के के कला की परख आत्माराम ४.००  
 जस्ट, एडोल्फ प्राकृतिक जीवन की ओर स ३ आरोग्य.  
 ३ ००  
 प्राकृतिक जीवन की ओर सस्ता १ ५०  
 जहरवल्हा इतिहास की कहानिया गगा १ ००. वप्र.  
 ईसप की कहानिया राजपाल १ ५० वप्र  
 कपास का जन्म मिश्र-बधु. ०.७५. वप्र.  
 गीदडराज नीलमसिंह. मिश्र-बधु ०.७५. वप्र.  
 घोडो की खेती राजहस १ ५० वप्र.  
 जवाहर और कमला आत्माराम ० ५०. वप्र.  
 नाई चक्कर मे. मिश्र-बधु ० ७५ वप्र.  
 पढो और हसो. छात्रहितकारी १ ०० ना.  
 परोपकारी हातिम गगा १.५० वप्र  
 पहेली बुझौवल मिश्र-बधु १.०० वप्र.  
 बच्चो के बापू राजहस २ २५ वप्र  
 भारत के सपूत गगा १ ५० वप्र  
 मजेदार कहानिया मिश्र-बधु १ १० वप्र.  
 रानी ब्रिटिया गगा ० ७५ वप्र  
 वाह रे पाजामा मिश्र-बधु ० ७५ वप्र  
 वाह रे हम मिश्र-बधु ० ७५ वप्र.  
 वीरो की सच्ची कहानिया छात्रहितकारी १ ५०  
 सोनपरी राजहस १ २५ वप्र  
 हाय नागिन राजहस १ २५ वप्र  
 —तथा नर्मदाप्रसाद खरे धन्य ये बेटिया ३ भा लोक चेतना.  
 ० ५० (प्र.) वप्र  
 जहलहसन हाशिमी, सैयद दे अबुल कलाम आजाद, मौलाना.  
 जानिसार अखतर जीवनी और सकलन राजपाल १ ५०  
 जा श अचूक चिकित्सा के प्रयोग छात्रहितकारी २.५०  
 जाकिर दे. कश्मीरीलाल जाकिर  
 जाकिर हुसैन ईमानदारी मक्तबा ० ५०. ना.  
 शिक्षा राजकमल ३ ००  
 जाखड, यज्ञदत्त लाठी शिक्षा मातृ-भाषा १ २५  
 जाजू, कृष्णदास व्यवहार-शुद्धि अ भा सर्व ० ३७  
 सपत्तिदान-यज्ञ अ भा सर्व ० ५०  
 —तथा अ वा सहस्त्रबुद्धे चरखा सघ का इतिहास. अ भा  
 सर्व ५ ००  
 जान ओ' हिंद अर्हत का शाप दि. प्रे ३ ७५ उ  
 स्वर्ण दुर्ग दि प्रे ४ ०० उ  
 जानकीनाथ सिंह 'मनोज', सपा देव शब्द रसायन हिं सा  
 सम्मे २.५०  
 जानकीवल्लभ शास्त्री कानन. पु भ ३.००. क.; —

रामलोचन (पा.) १.००  
 गाथा कला-नि. ४.०० का.  
 त्रयी कला-नि १.५०  
 प्राच्यसाहित्य कला-नि ५.००  
 लीला कमल. मगध. २ ५० का  
 शिप्रा. कला-नि ४ ००. का  
 साहित्यदर्शन कला-नि ४ ००  
 स्थायी भाव और सामयिक साहित्य अशोक प्रे  
 जानी दे विष्णुप्रसाद जानी  
 जानी, एम एन आधुनिक कृषि विज्ञान तथा कृषि प्रसार.  
 मगध ६ ५०  
 जान्सन, एलन कैपवेल भारत-विभाजन की कहानी सस्ता  
 १.५०  
 जाफरी जीवनी और सकलन राजपाल १.५०  
 जाफरी, रईस अहमद. चादनी ऐडी ४ ३०. उ.  
 जुआरी पैरामाऊट. २ ५० उ  
 दर्द. सहगल. ३ ७५ उ.  
 दर्दें दिल. पैरामाऊट ३ २५ उ  
 पागल शमा. ६ ०० उ.  
 बेसवा परामाऊट. २ ५० उ  
 जाफरी, अहमद दे भार्गव, नरोत्तम  
 जायसवाल एशिया. कि महल.  
 जायसवाल, उषा रत्नाकर और उनका काव्य हिं प्रचा. पु.  
 ५ ००  
 जायसवाल, काशीप्रसाद अधकारयुगीन भारत का इतिहास.  
 ना. प्र सभा. ५ ००  
 हिंदू राजतंत्र. २ भा ना. प्र. सभा १०.००  
 —सपा खारवेल प्रशस्ति ना प्र सभा. १.२५. इति.  
 जायसवाल, प्यारेलाल उन्नत कृषि की ओर. राजकमल  
 २ ००  
 जायसवाल प्रशांतकुमार शककालीन भारत. साधना सदन  
 ४.५०  
 जायसवाल, महेद्रप्रसाद विकासात्मक मनोविज्ञान दि पु स.  
 ६ ००  
 जायसवाल, सत्यनारायण एशिया कि महल १० ००  
 जायसवाल, सीताराम आधुनिक आलोचना और साहित्य नद  
 ब्र २ २५, — —नद. सं ३ ००  
 आधुनिक पश्चिमी शिक्षा का विकास नद स ४ ००  
 आधुनिक शिक्षा का विकास नद ब्र ४ ००  
 नवीन शिक्षा मनोविज्ञान नद ब्र एव नद स ३ ००  
 नार्मल शिक्षण नद स ४ ००  
 नार्मल शिक्षण विधि नद स १ ७५  
 नार्मल शिक्षा मनोविज्ञान नद. ब्र एव नद स १ ५०  
 नार्मल शिक्षा सिद्धांत नद स १ २५  
 नार्मल शिक्षा स्कूल हाईजीन नद ब्र ० ७५  
 नार्मल स्कूल हाईजीन. नद स. ०.७५  
 नैतिक प्रकाश नद. ब्र १ ५० वप्र  
 पश्चिमी शिक्षा का इतिहास. नद. ब्र. एव नद. स ७ ५०

प्राचीन पश्चिमी शिक्षा का इतिहास नद ब्र एव न स.  
२७५  
प्रौढ-शिक्षा प्रसार नद ब्र एव नद स ११२  
वाल भूगोल सरस्व प्रे ०६२ वप्र  
वाल-मनोविज्ञान और शिक्षा सर्वोदय सा २००  
वाल-विकास और शिक्षण नद ब्र एव नद स ५००  
बुनियादी शिक्षा तथा वाल-शिक्षण अमिताभ २००  
भारत एक है अमिताभ २००  
भूगोल-शिक्षण नद ब्र ४००, — — नद स २५०  
मध्यकालीन पश्चिमी शिक्षा का इतिहास नद ब्र एव नद.  
स २७५  
रगमाना ३ भा सरस्व प्रे ०५० (प्र)  
शिक्षण-विधान नद ब्र एव नद स ३२५  
शिक्षा-मनोविज्ञान-दीपिका सर्वोदय सा ५००  
शिक्षालय प्रवध और स्वास्थ्य नद ब्र एव नद स ३२५  
शिक्षाशास्त्र नद ब्र एव नद स ७००  
शिक्षा सिद्धात और प्रयोग नद ब्र एव नद स ४००  
शिक्षा सिद्धात की भूमिका नद ब्र २००, — — नद स  
२५०  
— तथा रामेश्वरप्रसाद गुप्त मनोविज्ञान की भूमिका रा  
वेनीप्रसाद ५००  
— तथा सदोहिनी सक्सेना शिक्षा-सिद्धात रा वेनीप्रसाद ५००  
जायसवाल, हरिप्रसाद आधुनिक भारत हि प्रचा पु २७५  
जायसी (मलिक मुहम्मद) कहरानामा, मसलानामा सपा  
अमरवहादुरसिंह 'अमरेण' हिंदु एकेडेमी २५०  
ग्रथावली सपा मनमोहन गौतम स २ रीगल  
१२००  
ग्रथावली सपा माताप्रसाद गुप्त हिंदु एकेडेमी १२००  
ग्रथावली सपा रामचंद्र शुक्ल ना प्र सभा ६२५  
ग्रथावली सपा श्रीनिवास शर्मा अशोक प्र ८००  
चित्ररेखा सपा शिवसहाय पाठक हि प्रचा पु २५०  
पद्मावत (जायसी ग्रथावली) टीका राजनाथ शर्मा विनोद  
१५००  
जावडेकर सत्याग्रही शक्ति अ भा सर्व ०३१  
जावडेकर, शकर दत्तात्रेय आधुनिक भारत सस्ता ५००  
जावेट प्लेटो का प्रजातंत्र अनु विनीता वाचू इ प्रे भा १  
५००, भा २ १०००  
जावेद, रामचंद्र आर्य समाज दर्शन यूनिवर्सिटी २००  
नन्हे मुन्नो के पत्र यूनिवर्सिटी ०७५ वप्र  
जिंदल तथा गुप्ता भारतवर्ष का सरल आर्थिक एव वाणिज्य  
भूगोल (प्रश्नोत्तर) गयाप्रसाद २००  
सरल आर्थिक और वाणिज्य भूगोल (प्रश्नोत्तर) गयाप्रसाद  
६००  
जिंदल, ओ पी दे गुप्त, रामशरण  
जिंदल, शकरदयान तथा कृष्णादेव उपाध्याय, टीका श्रीमद्-  
भगवद्गीता अवध १००  
८१, शकरलाल तथा के कुमार अकार्वनिक रसायन शास्त्र  
१० रामकीर्ति जग्गा रा वेनीप्रसाद ७००

जिगर मुरादावादी जिगर की शायरी हिंद पा १.०० का  
जीवनी और सकलन राजपाल १५०  
जिज्जा दे विशभरनाथ जिज्जा  
जिज्ञासु दे ब्रह्मदत्त जिज्ञासु  
जिज्ञासु दे मोहनलाल 'जिज्ञासु'  
जिनदास शास्त्री दे मदहंदास  
जिनसेन आचार्य आदिपुराण २ भा सपा पन्नालाल  
साहित्याचार्य भा ज्ञानपीठ २०००  
हरिवंशपुराण सपा पन्नालाल साहित्याचार्य भा ज्ञानपीठ  
१६००  
जिनेद्राचार्य सिद्धातसारादि सपा पन्नालाल सोनी भा  
ज्ञानपीठ १५०  
जिन्सवर्ग मॉरिस समाजशास्त्र विश्वविद्यालय ४००  
जीवत विशाली की आखे दि पु स १२५ ना.  
अरुणायनी दि पु स. ४५०  
जीवन दे त्रिपाठी, रामाधार 'जीवन'  
जीवनाथ बच्चो के वापू ओरिएटल ०७५ वप्र  
जीवनाथ तथा धर्मपाल शास्त्री सुगम हिंदी व्याकरण  
राजपाल १७५  
जीवादास ब्रह्मज्ञान भक्तिप्रकाश देहाती २५०  
जुआल, गुणानंद विद्यापति का अमर काव्य सा नि, का  
२००  
जुएलसन, रिचर्ड मन की यात्राए अनु नेमिचंद्र जैन.  
आत्माराम ५००  
जुगलकिशोर हिंदी बालबोध प्राइमर रीगल १००  
जुतशी, मनोहरलाल तथा काशीराम भारत मे पश्चिमी शिक्षा  
इ प्रे ०५०  
जुनेजा, मनोहर डा विश्वेश्वरैया राजपाल १५० वप्र  
जुयाल, गुणानंद विद्यापति का अमर काव्य सा नि, का.  
२५०  
— तथा विश्वभर 'अरुण' विद्यापति वैभव विनोद २२५  
जेक्स, एफ ए हिंदी भाषा की नीव गुप्ता प्र ४८०  
जेटकिन, कलारा लेनिन के स्मरण पीपुल्स १२५  
जैकव, कर्नल, उपनिपट्टाक्य कोज मोतीलाल १६४०  
जैतली, फैलागनाथ समाज दर्शन कि महल २५०  
जैतली, रमाशकर दे सनाह्य, देवपि  
जैतली, लालचंद एक नगर के सुरभीत सास आर्थेटिक  
३०० का  
जैदी, कुदसिया अलवेली वछिया आत्माराम २०० वप्र.  
गाधी बाबा मक्तवा २०० जी  
चचा छक्कन के ड्रामे २ भा राजकमल १०० (प्र) वप्र  
जगल मे शेर राजकमल १२५ वप्र  
जानहार आत्माराम २०० ना  
ला मेरा चने का दाना आत्माराम २०० वप्र.  
सितारा आत्माराम २०० वप्र  
जैन, अक्षयकुमार अमिट रेखाए नेशनल ३५०  
दूसरी दुनिया नेशनल ३०० यात्रा.  
ब्रिटेन मे चार सप्ताह नेशनल २५० यात्रा.

मेरी राजस्थान यात्रा श्रीराम मेहरा २००  
 युगपुरुष राम आत्माराम ५०० उ  
 विष्णु के महापुरुष शिक्षण १५०  
 साहसी ससार मोतीलाल १५०  
 —तथा रत्नसिंह ग्राडिल्य अमिट रेखाए कमल-कुज प्र.  
 ३५० जी  
 जैन, आनन्दप्रकाश, १९२७- अतीत के कपन. स २ भा  
 ज्ञानपीठ ३०० क  
 आग और फूस नव सा प्र ५५० उ  
 आग के फूल हिंदू पा १०० उ  
 काल के पख भा ज्ञानपीठ ३०० क  
 चंद्रलोक की राजकुमारी २ भा राजहंस १५० (प्र.) वप्र.  
 चार आखे कि घर, ग्वा ५०० क  
 जिल्दवदी सीखो आत्माराम २००  
 डा राजेद्र प्रसाद विनोद ३००  
 डेन्मार्क की लोक-कथाए आत्माराम १५०  
 तीसरा नेत्र भा ज्ञानपीठ २५० उ  
 तेलगाना की लोक-कथाए ४ भा आत्माराम. १२५ (प्र)  
 प जवाहरलाल नेहरू विनोद ३०० जी  
 पलको की ढाल राजपाल ५०० उ  
 भारतीय गौरव की लोक-कथाए आत्माराम भा १ १५०,  
 भा २ १२५, भा ३ १२५  
 मलेरिया. सर्वोदय ०३७  
 महात्मा गांधी विनोद जी  
 मास्टरजी आत्माराम १५० ना  
 मुर्गे आनन्द पु वा २०० क  
 लाल पन्ने वोरा १७५ वप्र  
 वाटिका बनाना सीखो आत्माराम ३००  
 जैन, आर सी भारतीय प्रशासन एस चाद ३७५  
 जैन, ऋषभचरण, १९१२- कैदी गंगा ३०० उ  
 गदर ज्ञान प्र २५० उ  
 चपाकली ज्ञान प्र ३०० उ  
 तिलस्मी चक्कर ज्ञान प्र २०० उ.  
 तीन इक्के ज्ञान प्र ३०० उ.  
 पैसे का साथी ज्ञान प्र ३०० उ  
 वुर्दा फरोग ज्ञान प्र ३०० उ  
 भाई गंगा २५० उ  
 भाग्य गंगा २५० उ  
 भीषण डाकू ज्ञान प्र २०० उ  
 मंदिर-दीप ज्ञान प्र ७०० उ  
 मदनाना ज्ञान प्र ३०० उ  
 मान्दर साहब ज्ञान प्र ३५० उ  
 रत्नमयी ज्ञान प्र २५० उ  
 राजकुमार भोज ज्ञान प्र १०० उ  
 वह कौन थी ज्ञान प्र. ५०० उ  
 वैश्या पुत्र ज्ञान प्र ३०० उ.  
 सत्याग्रह ज्ञान प्र. २०० उ.  
 एत्यरा. ज्ञान प्र. ३०० उ

हर-हाइनेस ज्ञान प्र ३००. उ.  
 हिज-हाइनेस. ज्ञान प्र. ५०० उ.; — —राजकमल.  
 (पा) १५०  
 —तथा जैनेद्र कुमार तपोभूमि ज्ञान प्र. ५.०० उ  
 जैन, ऋषभचरण दे टाल्स्टाय  
 जैन, ऋषभचरण दे. डायल, कानन.  
 जैन, ऋषभचरण. दे ड्यूमा  
 जैन, ए. सी दे. माथुर, पी. एन  
 जैन, एम एल अव्यापन कला और विधिया गिवलाल  
 भू-परिचय गयाप्रसाद ३५०  
 शिक्षा के सिद्धांत गिवलाल ४.००  
 शिक्षालय व्यवस्था सशो स २ गिवलाल ३००  
 —तथा अन्य सामाजिक ज्ञान प्रवेगिका गयाप्रसाद भा १  
 २६४, भा २ २६२, भा ३ ३६०  
 जैन, एल सी अर्थशास्त्र के प्रारंभिक नियम एस चाद  
 ३.७५  
 —तथा जे सी. पाटनी औद्योगिक सन्नियम लक्ष्मी ना  
 ५५०  
 जैन, एल सी दे पालविया, सी एम  
 जैन, एस सी दे माथुर, पी एन  
 जैन, कपूरचंद भारतीय शिक्षा का इतिहास स २ विनोद  
 ३.५०  
 जैन, कमलेदु युद्ध की कहानिया सा रत्न भ ०७५ वप्र.  
 जैन, कामताप्रसाद हिंदी जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास  
 भा ज्ञानपीठ २८७  
 जैन, किशनचंद्र तथा शिवकुमार गर्मा नये शिक्षक का मार्ग  
 दर्शन यग मैन १२५  
 जैन, किशनचंद्र दे. भट्ट, चंद्रगोखर.  
 जैन, कुन्दलाल रस अलंकार और दोष. सा. नि, व. ०.७५  
 षण्मयी सा. नि, व १३१  
 हिंदी चतुष्टय सा. नि, व ११५  
 जैन, कुथा. दे जैन, रमा.  
 जैन, के. डी. अकार्वनिक रसायन डायजैस्ट. आगरा बुक.  
 २.५०  
 भौतिक व कार्वनिक रसायन डायजैस्ट आगरा बुक. २५०  
 जैन, के सी वुनियादी शिक्षा. मिद्धात तथा व्यवहार मे. नव  
 युग प्र. कु. ३५०  
 माध्यमिक प्रायोगिक भौतिकी. लक्ष्मी ना. ५.००  
 सैकडगी प्रायोगिक भौतिकी. लक्ष्मी ना २.५०  
 जैन, केशवदान तथा एम. पी गुप्ता. प्रारंभिक कार्वनिक रसा  
 यना. आगरा बुक ४५०  
 —तथा वी सी जोशी. प्रयोगात्मक रसायन सया. स २.  
 आगरा बुक. २.००  
 जैन, कौशलचंद्र विक्रम कला व्यापार संगठन एवं विपणि वृत्.  
 रा वेनीमाधव ६००  
 जैन, गुलजारीलाल. कवि चरित चर्चा श्री भा. भारती.  
 १००  
 वाण्य लतिका एम चाद २००

- जैन, गोकुलचन्द्र दे विद्यमन्त्रि, आचार्य.  
जैन, घासीराम. विज्ञान की सरल कहानिया. ज्ञान मडल प्र.  
० २५  
जैन, चतुरसेन खेती व पशु-पालन गरिगत नेशनल ५ ००  
जैन, चादमल दे चतुर्वेदी, सत्येद्र  
जैन, चिंतामणि वैजो मास्टर संगीत. २ ००  
जैन, जगदीशचन्द्र आजादी की लड़ाई और सुभाष बाबू. हि  
य र २५०  
चीनी जनता के बीच पीपुल्स ४ ००  
देखा परखा हस ३ ०० नि  
प्राकृत साहित्य का इतिहास चौखवा २० ००  
भारत का सीमात नेशनल ४ ००  
भारतीय कहानिया ५ भा एस चाद १ २५ (प्र) वप्र  
भारतीय तत्त्व-चिंतन राजकमल ६ ५०  
महावीर वर्धमान हि ग्र र १ २५  
रमणी के रूप प्रतिमा २ ५० क  
लिच्छवियों के अचल मे. नेशनल ३ ५० सस्म  
विश्व-साहित्य के ज्योति-पूज हि ग्र र ३ ५०  
जैन, जी आर प्रारम्भिक भौतिक शास्त्र गयाप्रसाद ३.५०  
जैन, जीवनलाल तथा चंद्रनाथ मिश्र भारतीय कृषि विज्ञान  
श्री प्रभाकर ७ ५०  
जैन, जैनकुमार उद्भ्रात भागलपुर बुक ३ ०० उ.  
न हाथ खुला हो न मुट्टी बंद हो भागलपुर बुक ० ५० वप्र  
जैन, ज्योतिप्रसाद, १९१२- भारतीय इतिहास : एक दृष्टि  
भा ज्ञावपीठ ८ ००  
जैन, डी सी कपनी अधिनियम एव सचिवीय पद्धति सा  
भवन, आ ८ ००  
सचिवीय कार्य सा भवन, आ ४ ००  
जैन, दशरथ सोवियत रूस का आर्थिक विकास रामप्रसाद  
८ ००  
जैन, दिग्दर्शनचरणा पर्वतो की रानी मसूरी ज्ञान प्र. २ ००  
यात्रा  
जैन, देवेद्र चिराग जलते हैं रूपकमल. ३ ०० उ  
छाया नवयुग प्र २ ५० उ  
जैन, देवेद्रकुमार दे स्वयम्भ कवि  
जैन, धन्यकुमार अनु रवीन्द्र साहित्य दे ठाकुर, रवीन्द्रनाथ  
जैन, नदलाल जड जगत की कहानिया सस्ता २ ००  
जैन, नारायणप्रसाद ज्ञानगंगा २ भा भा ज्ञानपीठ ६.००  
(प्र) सूक्ति  
सत-विनोद भा ज्ञानपीठ २ ०० सूक्ति  
हास्य-मदाकिनी भा ज्ञानपीठ ६ ०० हा  
—अनु तुकाराम-गाथासार सस्ता. १ ५०  
जैन, निर्मला आधुनिक हिंदी-काव्य मे रूप-विधाए नेशनल  
२ ५ ००  
जैन, नेमिचंद्र दे जुएलसन, रिचर्ड.  
जैन, नेमिचंद्र दे तुर्गेनेव  
,, नेमिचंद्र. दे नर्गेद  
पन्नालाल दे. सेन, जिन

- जैन, पी आर्थिक भूगोल की समीक्षा सं २ रस्तोगी १ २ ५०  
जैन, पी सी तथा आर एन भार्गव आधुनिक अर्थशास्त्र  
नद व्र ७ ००  
जैन, पुरुषोत्तम एशिया महान् आगरा बुक १ २ ५०  
भारत का आर्थिक भूगोल स ११ भा भा प्र. २ ००  
भारत भूमि परिचय स १० भा भा प्र ३ ५०  
भारत महान् आगरा बुक १ २ ५०  
विश्व भूगोल एस चाद ६ ५०  
विश्व भूगोल परिचय स ७ भा भा प्र ३ ००  
सरल भौतिक भूगोल श्रीराम मेहरा ४ ००  
सरल माध्यमिक भूगोल श्रीराम मेहरा ४ ००  
सरल वाणिज्य भूगोल भा. भा प्र ३ ००  
हमारे देश का आर्थिक व व्यापारिक भूगोल तथा विश्व का  
सक्षिप्त आर्थिक एव व्यापारिक भूगोल सशो स ४ आगरा  
बुक ५ ००  
जैन, पुष्पा, अनु १२ बगला श्रेष्ठ कहानिया लोकभारती.  
७ ५०  
जैन, पृथ्वीराज विश्व-धर्म परिषद और जैन धर्म. श्री आत्मा-  
नद ० ६०  
जैन, प्रकाश तथा मनमोहिनी, सपा नया साहित्य अपोलो  
७ ००  
नयी कहानी की दिशा, दशा, सभावना अपोलो ५ ००  
सफर अढाई कोस का अपोलो ४ ५० क  
जैन, प्रकाश तथा अन्य, सपा विश्व काव्य की रूपरेखा  
अपोलो १० ००  
जैन, प्रेमसागर, १९२४- जैन-भक्तिकाव्य की पृष्ठभूमि. भा  
ज्ञानपीठ. ६ ००  
हिंदी जैन भक्ति काव्य और कवि भा ज्ञानपीठ  
जैन, फूलचंद 'सारंग', १९१३- आदर्श वालम विनोद. ० ७ ५  
जी  
आधुनिक काव्य सग्रह की टीका विनोद. २ ५०  
उनका पथ हमारा निर्माण शिवलाल ० ५० वप्र.  
उनका पथ हमारे चरण कि घर, ग्वा २ ००  
काव्य सग्रह भाग २. की टीका विनोद ४ ००  
जीवन-निर्माण. विनोद १ २ ५  
तुलसी सग्रह की टीका विनोद २ ००  
निबन्ध नवनीत रत्न. २ ००.  
प्रबन्ध-प्रबोध सा रत्न भ ३ ५० नि  
प्रसाद और 'ध्रुवस्वामिनी' विनोद १ ५०  
ब्रजमाधुरी सार की टीका विनोद २ ५०  
भगवतीप्रसाद वाजपेयी तथा रात और प्रभात कि घर, ग्वा  
३ ००  
रामनरेश त्रिपाठी और पथिक कि घर, ग्वा. ३.५०  
शैलिया विनोद १ ५०  
साकेत की टीका विनोद ५ ००  
सियारामशरण गुप्त और उन्मुक्त कि घर, ग्वा. ४ ५०  
सुदामा-चरित (नरोत्तमदास कृत) विनोद. ० ७ ५  
सुबोध हिंदी व्याकरण. विनोद. १.००



हमारे कवि श्रीर लेखक विनोद २.००  
 हमारे जवाहर शिवलाल १ २५ वप्र  
 हरिकृष्ण प्रेमी और भग्न प्राचीर. कि घर, ग्वा ३ ००  
 हिंदी और उसके कलाकार विनोद ६ ००  
 जैन, बनारसीदास प्राकृत साहित्य का इतिहास विश्व-भारती  
 प्र. १.८५  
 जैन, वसंत लाल प्रारंभिक भौतिक विज्ञान रा वेनीमाधव.  
 ४ ००  
 जैन, बालचंद्र दर्शनशास्त्र की रूपरेखा नद ब्र एव नद स  
 ३ ००  
 जैन, वी एल मुद्रा तथा वैकिंग. लक्ष्मी ना  
 जैन, भानु कुमार गद्य सुमन बवई हिं ० ६२ क  
 —सपा. भारती बवई हिं ० ५० गद्य-पद्य  
 जैन, मदनलाल. दे अबुल कलाम आजाद, मौलाना  
 जैन, मदनलाल दे. नजीर अहमद  
 जैन, मनोहरलाल व्याकरण शिक्षा. कृष्णा ब्र ० ५०  
 जैन, महेंद्र राजा अग्रेज अपने मुल्क मे चौधरी. ४ ५०  
 वाराणसी से लदन. चौधरी. ४.००  
 जैन, माईदयाल. बाहुबलि और नेमिनाथ. सस्ता ० ४० वप्र  
 सदाचार, शिष्टाचार और स्वास्थ्य हि भवन १ ०० वप्र.  
 —सपा गांधी विचाररत्न सस्ता ३.००  
 जैन, माणिकचंद्र दे भोसले, बालकृष्ण  
 जैन, माणिकचंद्र दे शर्मा, शंभूलाल  
 जैन, माला दे सतवाल, मुनि  
 जैन, मोतीलाल भूगोल चंद्रिका. गयाप्रसाद भा १ १ ३७,  
 भा. २ १ ६२, भा ३ १ १२  
 जैन, यशपाल, १९१४- अजता-ऐलोरा सस्ता ० ४० वप्र  
 अमरनाथ. सस्ता ० ४० वप्र  
 उत्तराखण्ड के पथ पर. सस्ता २ ५० या.  
 एक थी चिडिया सस्ता १.००. वप्र  
 गोमुख. सस्ता ० ४० वप्र.  
 जगन्नाथपुरी. सस्ता ० ४० वप्र  
 जय अमरनाथ सस्ता १ ५० या.  
 तीर्थंकर महावीर सस्ता ०.४०. वप्र  
 वेताल-पच्चीसी. २ भा सस्ता ० ४० (प्र) वप्र.  
 मैं मरुगा नहीं. हिं. ग्र र. २ ५० क  
 रुस मे छियालीस दिन सस्ता १.५०  
 सच्ची दौलत सस्ता ० ४०. वप्र  
 सिंहासन बत्तीसी. २ भा. सस्ता ० ४० (प्र)  
 सुख की कुजी सस्ता ० ४०  
 सेवा करे सो मेवा पावे सस्ता १ ०० वप्र  
 जैन, यशपाल दे जिवग, स्टीफेन.  
 जैन, यादवचंद्र, १९२०- अधेरा-सवेरा. राजहस. ४ ००. उ.  
 अनीम की सीमा ओरिएटल ३ ०० उ  
 आदि-सम्राट् एस. चाद ४ ५०. उ  
 एक कली मुस्काने को मुरझाई सारी रात. एस चाद. २.७५  
 उ  
 गौतम बुद्ध. उमेश. २.०० वप्र.

तथागत. एस. चाद १.२५. वप्र  
 दो धारा. शारदा म. ३.००. उ.  
 पत्थर-पानी नेशनल. ८.००. उ  
 पीले हाथ अशोक पा. १.२५. उ  
 भाईचारा सा सदन, दे. ३.५०. उ  
 मगध-विजय एस. चाद. १.२५ वप्र  
 मन के हारे हार. नवयुग प्र ५.००. उ  
 मल्ल-मल्लिका. एस. चाद. ३.७५. उ.  
 ललितागी. सहगल ३.७५ उ.  
 वह जो होना था एस. चाद ४ ००. उ  
 शिक्षा की ओर यग मैन. १.६०  
 शिवनेर केसरी रणजीत ५ ०० उ.  
 जैन, रघुवीरसिंह. अर्थशास्त्र के सिद्धांत रस्तोगी भा १. स  
 १० ५ ००, भा २ स. ६ ५ ५०, भा २ विक्रम. स.  
 ४ ५०, सम्पूर्णा स १० ७.५०, भा २ आगरा स  
 ४.५०  
 अर्थशास्त्र के सिद्धांत. रस्तोगी १५ ००  
 आर्थिक विचारधाराये स ३ रस्तोगी. १०.००  
 भारतीय अर्थशास्त्र स १२. रस्तोगी ६ ५०  
 मुद्रा, वैकिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय आय एव राजस्व  
 स ८ रस्तोगी. ६.००  
 मुद्रा, वैकिंग तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा राष्ट्रीय आय.  
 स. ८ रस्तोगी ५.००  
 राजस्व के सिद्धांत स ४. रस्तोगी २.५०  
 जैन, रतनकुमार भारतीय औद्योगिक कानून. नद. ब्र. एवं.  
 नद. स ३ ००  
 भारतीय प्रमडल अधिनियम. नद. ब्र. एवं नद. स ४.००  
 भारतीय वाणिज्य विधान. नद ब्र. एवं नद स १२.५०  
 जैन, रतनलाल. आत्मरहस्य. सस्ता ३.५०  
 जैन, रमा, सपा. आधुनिक जैन कवि भा. ज्ञानपीठ ३.७५  
 —तथा कुथा जैन, सपा परिणय-गीतिका भा. ज्ञानपीठ.  
 ५.००. का  
 जैन, रमेशचंद्र. गौरव की किरणो. नव-ज्योति प्र १ ५०  
 मधुपर्क रतन ०.८७  
 महान वैज्ञानिक विनोद. १ ५० जी.  
 हिंदी-रत्नाकर विनोद ३ ००  
 जैन, राकेग. पेंसिल के खेल. कि. महल १.०० वप्र  
 जैन, राजकुमार अध्यात्म-पदावली भा ज्ञानपीठ ४ ५०  
 जैन, राजकुमार दे नागदेव  
 जैन, राजमल. दे. कार  
 जैन, राजाराम ईश्वरचंद्र विद्यासागर सस्ता ०.४०. वप्र.  
 जैन, राजेंद्रकुमार प्रलय के सात दिन चिनगारी ३.५०.  
 उ  
 जैन. रामचंद्र पदार्थवाद आदर्श सा. ०.५० नि  
 जैन, रामप्रकाश. जरत् की सूक्तिया भा ज्ञानपीठ २ ००.  
 जैन, रूपकिशोर, अनु. अलफलैला अर्थात् सहस्र रजनी चरित्र.  
 व्यामलाल. ४ ००  
 जैन, रेखा. संगीत की कहानी. सस्ता. ०.४०. वप्र

जैन, लक्ष्मीचंद्र, १९०६- कागर्ज की किश्तिया. भा ज्ञान-  
पीठ २५० नि  
नये रग नये ढग भा ज्ञानपीठ २०० नि  
—सपा ग्यारह सपनो का देश भा ज्ञानपीठ, ४००. उ.  
जैन, विमलकुमार, १९१२- कामायनी मे शब्द-शक्ति  
चमत्कार हिं सा स ५००  
तुलसीदास और उनका साहित्य सा सदन, दे ७००  
भारत-निर्माता एस चाद २२५ वप्र  
सूफीमत और हिंदी साहित्य आत्माराम ८००  
हिंदी के अर्वाचीन रत्न नेशनल ७००  
हिंदी-साहित्य रत्नाकर नेशनल ५००  
जैन, विमलकुमार कोदिया तर्कशास्त्र २ भा नद व्र  
४०० (प्र)  
जैन, वीरेन्द्रकुमार अनागता की आखे अशोक पु म ४५०  
का  
दर्द-ए-दिल राजपाल २०० का, — —हिंद पा.  
१००  
जैन, शरदचंद्र नेहरू ही क्यो ? कि महल ५००  
जैन, श्रीचंद्र, १९१०- अलबेली कहानिया औरिएटल. ०७५  
वप्र  
आदिवासियो की लोक कथाए आत्माराम १५०  
जे पीर पराई जाने रे लोक-चेतना ०७५ वप्र  
पतभड मिश्र-वधु १०० का  
पशु पक्षियो की कहानी राष्ट्रीय प्र मदिर २०० वप्र  
मनोरजक लोक कथाए ४ भा कि घर, ग्वा ०५० (प्र)  
वप्र  
मोरी धरती मैया गयाप्रसाद २५०  
विन्ध्यप्रदेश के आदिवासियो के लोक गीत मिश्र-वधु २५०  
वप्र  
विन्ध्यप्रदेश के लोक गीत राजपाल ०६०  
विन्ध्य-भूमि की लोक-कथाए आत्माराम १२५  
सरस लोक कथाए औरिएटल, ०७५ वप्र  
जैन, सतीशकुमार भूरे-भालू नेशनल १५० वप्र  
जैन, हरजसराय कलदरो की आत्म-कथा राजहस १५०  
वप्र  
ललारी और नाई राजहस १२५ वप्र  
जैन, हरीश. एक सत्य एक घोखा नव सा प्र २००  
उ  
जैन, हीरालाल भारतीय सस्कृति मे जैन धर्म का योगदान  
मध्यप्रदेश शासन १०००  
हिंदी प्रमेय रत्नमाला चौखवा १५००  
—सपा करकडुचरिउ भा ज्ञानपीठ का  
जैन शिलालेख सग्रह भा ज्ञानपीठ भा १२००  
जैन, हीरालाल दे हरिदेव  
जैन, हीरालाल दुगड आत्म ज्ञान प्रवेशिका तथा जैन तत्त्व  
वोध श्री आत्मानद १२५  
भगवान महावीर और मासाहार परिहार श्री आत्मानद  
१००

जैनी, मोतीलाल साहित्य-सरिता. ३ भा गयाप्रसाद.  
१२५ (प्र)  
जैनेन्द्रकुमार, १९०५- इतस्तत पूर्वोदय १०००  
कथा गुच्छ हिं ग्र २२०० क  
कथा माला हिं ग्र २२००  
कल्याणी पूर्वोदय २५० उ, — —राजकमल (पा.)  
१००, — —हिं ग्र २२००  
काम-प्रेम और परिवार पूर्वोदय ३०० नि  
जयवर्धन पूर्वोदय ६०० उ  
जैनेद्र की कहानिया ६ भा पूर्वोदय ३५० (प्र)  
जैनेद्र की श्रेष्ठ कहानिया राजकमल (पा) १००,  
— —हिं ग्र ३५०  
त्याग पत्र पूर्वोदय २२५ सस्ता स १५० उ,  
— —हिं ग्र १५०, — —हिंद पा १००  
परख पूर्वोदय १७५ उ, — —हिं ग्र २२००  
पूर्वोदय पूर्वोदय ४५० नि  
प्रस्तुत-प्रश्न पूर्वोदय ४५५ नि  
बीते दिन हिंद पा १०० उ  
मथन पूर्वोदय ५०० नि  
मगदालिनी गगा २०० ना, — —पूर्वोदय १५०  
ये और वे पूर्वोदय ३७५ सस्म  
विवर्त पूर्वोदय ४२५ उ  
व्यतीत पूर्वोदय ३५० उ  
श्रेय और प्रेय पूर्वोदय ७००  
समय और हम अ भा सर्व १२००, — —पूर्वोदय  
२०००  
साहित्य-चयन राजपाल २००  
सुखदा पूर्वोदय ४०० उ  
सुनीता पूर्वोदय ३५०, सस्ता स २५० उ, — —राज-  
कमल (पा) १५०, हिं ग्र ३००  
सोच-विचार पूर्वोदय ५०० नि  
—सपा विचार-वल्लरी राजकमल २५० नि  
जैनेन्द्रकुमार दे जैन, ऋषभचरण  
जैनेन्द्रकुमार दे टालस्टाय  
जोगलेकर, ना चि तथा भगवानदास तिवारी देवनागरी लिपि  
स्वरूप विकास और समस्याए हिं सा भ १०.००  
जोगलेकर, प्रा न चि दे चितले, कै श दा  
जोगेद्रसिंह दे प्रीतमसिंह  
जोतवाणी, मोती, सपा सिंधी की कहानिया राजधानी  
२५०  
जोतिन प्रसाद बुलबुल ग्रथमाला ०७५ वप्र  
जोधराज हम्मीर रासो सपा श्यामसुंदरदास ना. प्र सभा.  
२७५  
जोपट, हुकमनारायण, सपा पद्य भारती बवई हिं.  
०३७  
जोवार, बी आर दे हाइड, मागरेट ओ  
जोला, एमिल, १८४०-१९०२ अकुर मित्र १०००  
जीने के लिए अनु सूर्यनारायण मित्र ४.०० उ

जोला, एमिल नाना अर्चना प्र (पा.) १.०० उ., — — कि  
महल. ३.००, — — प्रभात प्र ६.००, — — राजरजना  
(पा) १५०

नाना की मा. कि महल. ३७५ उ

जोश मलीहावादी जीवनी और सकलन. राजपाल १५०

जोशी. इंग्लैंड का आर्थिक विकास एस चाद ३००

लका मे सीता भोपाल १००

जोशी, आर वी दे पाडेय, सत्यनारायण

जोशी, इदिरा हिंदी उपन्यासों मे लोकतत्व सरस्व. प्र म  
१५.००

जोशी इलाचद्र, १६०२- ऐतिहासिक कथाए हि सा सम्मे  
०७५

चार उपन्यास रा वेनीप्रसाद उ

जहाज का पछी राजकमल ७५०, विद्यार्थी सस्करण ४००

निर्वासित भा भ ६५० उ

पर्दे की रानी. भा भ. ३.००. उ

प्रेत और छाया भा भ ६०० उ.

मुक्तिपथ. स ४ हि. भवन ५२५. उ.

लज्जा भा. भ ३.००

विवेचना हि. सा. सम्मे ४००. नि

शरत्चद्र व्यक्ति और कलाकार अशोक प्रे ३००

श्रेष्ठ विदेशी उपन्यास. रा वेनीमाधव १५० उ

सन्यासी. भा भ ७०० उ

सुवह के भूले स ४. हि भवन ५०० उ.

जोशी, इलाचद्र दे दोस्तोवस्की

जोशी, एम. एस दे. पटेल, ए आर.

जोशी, केदारदत्त. सिद्धांत शिरोमणि. काशी हिंदू. ५००

जोशी, गिरीश नेताजी सुभाषचद्र बोस आदर्श हि २५० जी

आदर्श पाकविधि हि पु. ए ४००

गोपालन शास्त्र और पशु रोगों की चिकित्सा हि पु ए  
२५०

प्रेमपत्र हि. पु ए २.००

मुहावरे और लोकोक्तिया हि पु ए १७५

जोशी, चडीप्रसाद हिंदी-उपन्यास समाजशास्त्रीय विवेचन  
अनुसंधान १६००

जोशी, जगदीशकृष्ण प्रनिशोध गगा ३००. उ

जोशी, जगदीशचद्र प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक सरस्व पु  
स १२५०

जोशी, जी एल अर्थशास्त्र का दिग्दर्शन. मजो म ३ आगरा  
बुक ८००, वारिण्य स ६५०

जोशी, जीवनप्रकाश आग और आकर्षण हि सा सं ३००  
का.

कलाकार दि. पु स ४.००

पद्मावत तटीक हि सा म. १०००

विशपति पदावली नटीक हि मा न १०००

विवाह की मजि. संमार्ग. ५५० उ

साहित्यिक निबंध. नवयुग प्र

हिंदी गद्य के सोपान. संमार्ग. ७.००

जोशी, देवीदत्त सध्या देवर्गा, रा वेनीमाधव, २००

जोशी, प्र न मुशी प्रेमचंद व्हीनस ३५०

जोशी, बाबूराव. ग्रामोद्योग से ग्रामें राज्य. मानकचद. १५०  
वप्र

जनता के जवाहर हि प्र. म ०७५ वप्र

तपोधन विनोबा अ भा. सर्व एव हि. सा म. १५०

निबंध नवनीत मानकचंद २५०

प्रबंध परिमल कृष्णा ब्र. ४५० नि

प्रेरणा के प्रदीप मानकचद ३०० वप्र

राष्ट्रपति राजेद्र हि प्र म ०७५ वप्र.

राष्ट्रमाता कस्तूरबा हि प्र म. ०७५ वप्र.

विज्ञान की विभूतिया. मानकचद १२५ वप्र

शिक्षा सिद्धांत की रूपरेखा. गयाप्रसाद ७५०

सत विनोबा. हि प्र. म ०७५ वप्र.

सबके वापू हि प्र म ०.७५ वप्र

सेवामूर्ति ठक्करवापा सस्ता ०४० वप्र

हम आजाद कैसे हुए. २ भा मानकचद ०६२ (प्र.)

—तथा अन्य. सामाजिक अध्ययन. मानकचद भा. १ २.२५;  
भा २ २७५

जोशी, बाबूराव दे. शर्मा, मुशीराम

जोशी, बालमुकद सुलभ-खाद तुलसी ०७५

जोशी, वी सी. दे जैन, केशवदास

जोशी, भवानीदत्त वीर भारत. प्रभात पब्लि २००. ना.

जोशी, भालचद्र, १६२०- अतर्प्रातीय भारती गयाप्रसाद  
१२५.

—तथा मोतीलाल गुप्त अतर्प्रातीय भारती. गयाप्रसाद. १२५

जोशी, मीरा दे जोशी, मोहन

जोशी, मुरलीधर द्रव्य शास्त्र हि. सा सम्मे २२५

—तथा सेवाराम शर्मा अर्थशास्त्र अपर १०००

जोशी, मोहन तथा मीरा जोशी फ्राइडवाद साथी ७००

फ्राइडवाद एव नव्य फ्राइडवाद. साथी १०.००

जोशी, रतनलाल प्रेरणा की गगोत्री रामलोचन. (पा)  
१.००

जोशी, रामहरि नेपाल के अमरशहीद ग्रथमाला १२५ जी  
अनु नेत्रदान ग्रथमाला १५० ना.

जोशी, रामेश्वर. लका मे सीता स्वरूप १००

जोशी, लक्ष्मणशास्त्री जडवाद और अनीश्वरवाद हि अ  
१००

वैदिक सस्कृति का विकास हि ग्र. २ ५००

हिंदू धर्म की समीक्षा हि. अ २ १.२५

—नया राजवाडे लेख संग्रह गिबनाल. इति

जोशी, लीला वच्चो की समस्याए और समाधान परिमल  
१.५०

द्विगु निकेतन परिमल ०५०

द्विगु शिक्षा कि महल. २५०

जोशी, विद्यासागर. आधुनिक कवि पत-टीका मालवीय. २१०

जोशी, विपिन. साधना के स्वर विपिन स्मारक समिति,

इटारसी (म. प्र.) ३.००. का.



जोगी, विष्णु अवालाल अभिनय एकाकी सुमन कृष्णा व्र  
१५०

आचार्य कालक और मजदूरिन कृष्णा व्र २०० उ  
जोशी, गकरराव आलू की खेती विनोद १५०

उद्यान गगा ४००

कपास की खेती विनोद १५०

खाद और उसका उपयोग सस्ता ३००

गन्ने की खेती विनोद १५०

गेहू की खेती विनोद १५०

धान की खेती विनोद १५०

पुष्पोद्यान गगा १००, — — सस्ता ३००

फलोद्यान गगा १५०

मसाले की खेती विनोद

वनस्पति विज्ञान न्यू लिट १५०

जोगी, शकुन आहार-निरूपण लोक चेतना ७००

जोशी, शांति नीतिशास्त्र ज्ञानमडल एव राजकमल ८००

माटी की गव राजकमल २०० क

राधाकृष्णान् का विश्वदर्शन राजकमल ५००

जोशी, गारदा पचतत्र की कहानिया ३ भा विनय ०४०  
(प्र)

जोशी, शिवलाल रीतिकालीन साहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठ-  
भूमि सा सदन, दे १२५०

जोशी, शेखर कोसी का घटवार नया सा प्र ३०० क  
मृत्यु धारा क

जोशी, शोभाचंद्र बुद्धिहीन हि ग्र र १५० उ

सप्तर्षि लोक हि ग्र र २०० क

जोशी, श्रीकांत दे चतुर्वेदी, माखनलाल

जोशी, श्रीपाद, १६२०- कन्नो का विलाप सस्ता ०४० वप्र  
कालटी सस्ता ०४०

गाधीजी एक झलक नवजीवन १२५

गुरुवायूर सस्ता ०४० वप्र

दक्षिण की काशी सस्ता ०४० वप्र

ध्यस्तनीड विश्वेश्वरानंद ३०० उ

नाना फडनवीस सस्ता ०४० वप्र

नासिक सस्ता ०४० वप्र

पढरपुर सस्ता ०४० वप्र

भक्त नरसी महेता विश्वेश्वरानंद ०५०

मुस्लिम त्योहार और सस्कार गाधी हिंदु १५०

मेरा गाव कि महल ०६२ वप्र

वीर जिवाजी विश्वेश्वरानंद २७५ जी

सत एकनाथ सस्ता ०४० वप्र.

सत ज्ञानेश्वर सस्ता ०४० वप्र

सत तुकाराम सस्ता ०४० वप्र

सत नामदेव सस्ता ०४० वप्र

नमर्थ रामदास सस्ता ०४० वप्र

नदरे की रोगनी सस्ता ०४० वप्र

हफ्ते में नागरी लिखावट हिंदु प्रचा सभा ०३७

हिंदी-मराठी व मराठी-हिंदी एकत्र व्हीनस ५००

—सपा मराठी-हिंदुस्तानी शब्दकोश हिंदु प्रचा सभा ४५०

जोगी, सुमनेग तथा रामदेवसिंह चौधरी लोकतांत्रिक  
विकेद्रीकरण क्या है ? यग मैन ३००

जोगी, सूर्यकुमार अजनवी राजपाल २५० उ

दिगवरी एस चाद २२५ उ

ताजमहल पै कौआ बोला नेशनल २५० उ

वदरग पत्ते अगोक पा १२५ उ

सत्यानाशी के फूल नेशनल २०० उ

हमारे नये तीर्थ २ भा सस्ता ०४० (प्र)

जोशी, हरिशकर प्रतिभा दर्शन चौखवा २५००

भाषातत्व शास्त्र या प्रतिभा दर्शन चौखवा

जोशी, हेमचंद्र पौधा, फूल और फल परिमल १०० वप्र

बीज की वहार परिमल १०० वप्र

मिट्टी, खाद और पानी परिमल १०० वप्र

हैजा, प्लेग और चेचक परिमल १०० वप्र

जोशी, हेमचंद्र दे पिशल, रिचर्ड

जोशी, हेमागिनी आपका शिशु हि प्रचा पु ३५०

शिशु, शिक्षण नद व्र एव नद स १५०

हमारे वच्चे सा भवन, इ १००

जोहरापुरकर सपा जैन शिलालेख संग्रह भा ज्ञानपीठ

जौक जीवनी और सकलन राजपाल १५०

जौहर दे हरिकृष्ण जौहर

[विनोद ८००

जौहरी, बी पी तथा पी डी पाठक भारत में शिक्षा

भारतीय शिक्षा का इतिहास सशो २ स विनोद ७००

भारतीय शिक्षा की रूपरेखा विनोद ५००

भारतीय शिक्षा की समस्याएँ विनोद ६००

जौहरी, भगवतशरण स्वप्न और सत्य गयाप्रसाद ३०० का

जौहरी, राजकुमार ज्ञान विकास के खेल ज्ञान भारती २५०

बिखरे मोती २ भा न्यू लिट १००

रोचक और सरल खेल ज्ञान भारती २५०

जौहरी, राजकुमारी कैप फायर न्यू लिट २०० स्काउट

गाठे और उनका प्रयोग न्यू लिट १५० स्काउट

गुरुपद ज्ञान न्यू लिट ३०० स्काउट

ध्रुवपदज्ञान न्यू लिट २०० स्काउट

सिंह-शावक (कव तथा कव नायक) न्यू लिट १००

(प्र) स्काउट

स्काउट-शिक्षक, डिल तथा ट्रूप-सगठन न्यू लिट २००

जौहरी, विद्याधरी शिल्पमाला स ४ हि भवन भा १

६००, भा २ ४००

ज्ञानमडल ज्ञान शब्दकोश परि स ज्ञानमडल १५००

पारिभाषिक शब्दकोश ज्ञानमडल ४००

बृहत् अग्रेजी हिंदी कोश स ३ ज्ञानमडल ३०००

बृहत् हिंदी कोश स २ ज्ञानमडल २५००

हिंदी साहित्य कोश ज्ञानमडल भा १ स २ २५००,

भा २ २०००

ज्ञानवती अधूरा चिंतन ज्ञानालोक १५०

ज्ञानसुंदर मूर्तिपूजा का प्राचीन इतिहास श्री आत्मानंद ५००

ज्ञानाश्रम, स्वामी सकल्प सिद्धि कल्पवृक्ष २००

जानी. दे. शिवदन शानी  
 ज्ञानीराम शास्त्री छद्मोद्भकार-विवेचन सूर्य प्र १५०  
 ज्ञानेश्वर. हिंदी ज्ञानेश्वरी म ८ अनु रामचंद्र वर्मा हि मा  
 कृ ५००  
 ज्योति सफलता की राह पर आत्माराम २००  
 ज्योतिर्मयानंद, स्वामी दे शिवानंद, स्वामी  
 ज्योतिस्वरूप अंतरिक्ष का रहस्य रूपसी १०० उ  
 ज्वानाप्रसाद 'केजर', १९३२- कामरेड चिनगारी २५०  
 चित्तचोर चिनगारी. २५०  
 चित्ताण चिनगारी १५०  
 तीन फायर चिनगारी २५०  
 पुत्रगज. चिनगारी ८००  
 प्रत्यावर्तन चिनगारी ४००  
 भटकती रूह चिनगारी २५०  
 स्वतार्चन चिनगारी ३५०  
 गगीतं. चिनगारी २५०  
 मिताग चिनगारी १५०  
 ज्वानाप्रसाद 'केजर' यह भी दे केजर  
 ज्वानाप्रसाद 'भगत' वरुणि गयो बदरा रूपसी. १५० उ  
 धैर्यन भई निदिया रूपसी १५० उ  
 शिवग, स्टीफेन एक अनजान औरत का खत हिंद पा १००  
 उ  
 जिदगी दाव पर मस्ता ३००. उ  
 दुजदिल नेशनल ६०० उ  
 विराट अनु यक्षपाल जैन मस्ता १५० उ  
 यतरंज का खेल हि ग्र द २५० क  
 स्टीफेन जिवग की महान कहानिया रणजीत ८५० क

भा

भवन, आर. पी. दे. पाडेय, जे पी  
 भवन, आर. पी दे महेश्वरी, भागीरथमल  
 भवभट्टराय बनारसी गरम चाय ज्ञानमञ्जु एव भा. प्र.  
 मञ्जु ६.५०  
 भवेरी वि. जी. महात्मा जी और महाराज ज्ञानमञ्जु. १.५०  
 मञ्जु.  
 भा तथा ज्ञानिण नियाभक्त ज्योतिषि नावटी २.७५  
 भा तथा मनीट. पाश्चात्य निगमन तर्कशास्त्र. मोतीनाल  
 ५.००  
 भा तथा निताग. प्राणीशास्त्र की रूपरेखा. बुकलेड ५.५०  
 भा पञ्चकला. मैटिनी प्याकरा पु म ०.७५  
 भा, शक्तिपर तथा भीमनाथ जी रूपरेखा मोतीनाल पति म  
 ८.००  
 भा, धर्मशास्त्र ८० सोरुद्र पर सोरुद्र. भा म ०.००  
 भा यथोक्तशास्त्र भागीरथ मञ्जु. ५.००  
 भाग पुस्तक प्रथम भा. १.५५. वप्र.  
 भाग दो भाग. उपमा ०.७५ वप्र.

विचित्र दुनिया. ग्रंथमाला. ०.६२. वप्र.  
 वे तीनो. ग्रंथमाला. १.३७ वप्र.  
 स्वर्ग-अभियान. ग्रंथमाला. १५०. वप्र.  
 हवाई जहाज. ग्रंथमाला. ०.६२. वप्र.  
 भा, अवधनारायण. लामाओ का देश ग्रंथमाला. ०.६२ वप्र.  
 भा, उग्रमोहन. देवलोक मे महात्मा गांधी. कला-नि. ३००  
 ना  
 भावना से कर्तव्य बडा कला-नि १५०. ना  
 भा, ए. पाश्चात्य निगमन तर्कशास्त्र मोतीनाल ५.००  
 भारतीय तर्कबोध. मोतीनाल १.००  
 भा, ए जी. तथा सी. पी. सिंह. प्राणीशास्त्र की रूपरेखा.  
 बुकलेड ६२५  
 भा, एन. दे. भा, एम.  
 भा, एम. तथा एन भा हायर-सेकेडरी नागरिक शास्त्र  
 नावटी ५००  
 भा, एस. के. प्रारंभिक नागरिक शास्त्र. नावटी. २.५०  
 भा, कमलनारायण 'कमलेज'. उपदेशपूर्ण कहानिया. ग्रंथ भं  
 ०.५०. वप्र  
 काति वीरो की अमर कहानिया. ग्रंथ भ. १७५ जी  
 गाव की कहानिया ग्रंथ भ. ०.५० वप्र  
 नाना नाहव ज्ञानपीठ २५० जी  
 पौराणिक साहित्यिक कथाए ग्रंथ भ. भा १. ०.६४, भा २.  
 १.२५  
 वापू की अमर कहानिया. ग्रंथ भ ०.५० जी.  
 वापू की अमर वारिषा. ग्रंथ भ ०.५० जी  
 विद्यापति के मुभापिन राजधानी ५.५०  
 भा, कातिप्रसाद. मजदूरो की छाती पर. ग्रंथमाला. ३.००. उ.  
 भा, कामेश्वर. प्रारंभिक वाणिज्य भूगोल. नावटी १.५०  
 भा, गगनाथ कवि रहस्य हिंदु एकेडेमी. २.००  
 भा, गणनाथ शिव-पार्वती हि. प्रचा. पु. ०.५० ना  
 भा, गेनालाल. नीति की राह छात्रहितकारी, ०.५०  
 भा, चंद्रकांत. आदर्श बालक गद्यालय ०.७५ वप्र.  
 आदर्श जिप्य. गद्यालय ०.७५. वप्र.  
 भा, चेतकर. भारतीय स्वामीय स्व-ज्ञान. नावटी. ५.५०  
 भा, जगवहादुर. रमायन प्रवेजिज्ञ रामप्रसाद ०.५०  
 भा, जगदीश. क्षेत्रमिति. पु. म ३.००  
 भा, जगदीश 'दिमर' पतिव्रता अर्धवती हि पु ए ०.७५  
 पतिव्रता मनना हि पु. ए ०.७५  
 पतिव्रता रश्मिणी. हि पु ए. ०.७५  
 महाभक्ति अनुयायी हि पु म ०.७५  
 महाभक्ति वृद्धा हि पु. म १.५०  
 न्यायी वाचस्पत्य. ग्रंथमाला. ०.५० जी.  
 भा, जगद्वर. मुग्ध विज्ञान. ना. वेर्माप्रसाद. ५.००  
 भा, जगद्वर. मनुस्मृति भा. टीका हि पु म ८.५०, ५.००  
 —मया मनुस्मृति (भागेदु) पु. म. १.००  
 भा जगद्वर भाग्य-विज्ञान प्रवेजिज्ञ. गीता. २.५०  
 महाभक्ति नरदास (प्रमोदन) गीता. २.५०  
 भा. जगद्वर. दे. वृहद् विद्याश्रवण.

- भा, जीवनाथ जनकपुर परिचय दरभंगा १ २५  
 भा, जे एन ग्राम्य अर्थशास्त्र और सहकारिता नावल्टी  
 १ ५०  
 प्रवेशिका अर्थशास्त्र नावल्टी २ ५०  
 भा, टी तथा बी सिंह माध्यमिक त्रिकोणमिति बुकलेड  
 ५ ००  
 भा, टी. एन सरल प्रवेशिका अर्थशास्त्र (प्रश्नोत्तर) नावल्टी  
 २ ००  
 सरल प्रवेशिका नागरिक शास्त्र (प्रश्नोत्तर) नावल्टी २ ००  
 भा, ताराकृष्ण माध्यमिक बीजगणित मोतीलाल ५ ००  
 —तथा भोलासिंह माध्यमिक त्रिकोणमिति बुकलेड ५ ००  
 भा, तारिणीश काव्य प्रकाश (दशम उल्लास) —मम्मट कृत  
 रा वेनीमाधव २ ००  
 दशकुमार चरित (पूर्व पीठिका) रा वेनीमाधव १ ००  
 भोजप्रवध—बल्लालविरचित रा वेनीमाधव २ ००  
 शुकनासोपदेश रा वेनीमाधव १ ००  
 स्वप्नवासवदत्तम्—भास कृत रा वेनीमाधव २ २५  
 श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय २ रा वेनीप्रसाद १ ००  
 भा, तारिणीश दे कालिदास  
 भा, तारिणीश दे बालमुकुद  
 भा, तारिणीश दे भवभूति  
 भा, तारिणीश दे शर्मा, चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद  
 भा, दयानाथ कर्मपथ हि भवन २ ०० ना  
 जमीदार का वेटा हि भवन ४ ५० उ  
 भा, दशरथ नाटक की रूपरेखा हि सा स ५ ००  
 भा, बधु, व्या हिंदी कादवरी शुकनासोपदेश चौखवा  
 ३ ००  
 भा, बदरीनाथ तथा मदनमोहन भा हिंदी रसगगाधर चौखवा.  
 १८ ००  
 भा, बुद्धिनाथ 'कैरव' साहित्य-साधना की पृष्ठभूमि ज्ञानपीठ  
 भा, भोलानाथ हिंदी भाषा और साहित्य की भूमिका रा  
 वेनीमाधव, २ ५०  
 भा, मदनमोहन दे भा, बदरीनाथ  
 भा, मनोरजन तथा अन्य इंग्लैंड और अमेरिका के सविधान  
 नावल्टी ६ ००  
 दुनिया के प्रमुख सविधान (इंग्लैंड, अमेरिका, रूस, फ्रास,  
 स्विटजरलैंड) नावल्टी ११ ००  
 नागरिक शास्त्र के सिद्धांत नावल्टी. ४ ००  
 फ्रास का पंचम गणतंत्र नावल्टी ० ७५  
 बीजगणित नावल्टी ५ २५  
 ब्रिटेन का सविधान नावल्टी ३ ००  
 भारतीय सविधान नावल्टी ४ ००  
 भारतीय सविधान और नागरिक जीवन नावल्टी ६ ००  
 प्री ४ ००  
 राजनीतिशास्त्र नावल्टी ५ ५०  
 एकत राज्य अमेरिका का सविधान नावल्टी ४ ००  
 काव्य व्यापारिक पद्धति कार्यालय प्रवध और सहका-  
 १. नावल्टी १ ५०

- भा, रमेशचंद्र आजादी की राह मे सुभाष. १ ७५ उ  
 एक समय की बात सुभाष १ २५  
 कहते चलो सुनते चलो नारायण प्र १ ५० वप्र  
 काटे और कलिया सुभाष २ ५० उ  
 कुवरसिंह सुभाष १ ७५ उ  
 चौखर्ता दीवारे चौधरी १ ५०  
 जीवन-दान चौधरी २ ५०  
 दुर्ग का घेरा सुभाष २ ७५ उ  
 धरती की धूल चिनगारी १ ५०  
 नया देश—नयी कहानी सुभाष ० ७५ का  
 नया भारत नये तीर्थ नारायण प्र १ ५०  
 बच्चो सुनो कहानी २ भा सा साधना ० ७५ (प्र)  
 मजार का दीया चौधरी २ ५०  
 मिट्टी बोल उठी चौधरी ३ ००  
 यह देश है वीर जवानो का राजधानी. ४ ५०  
 रावहम्मीर सुभाष २ ००  
 रूप की राख गिनगारी १ ५०  
 वत्सराज चौधरी २ ५०  
 वे दिन वे लोग वि ग्र कु  
 वे महान कैसे बने नारायण प्र २ ०० व्यग्र  
 साहित्यकारो के विनोद राजधानी २ ५०  
 सोने का कगन वि ग्र कु १ ००  
 भा, रामचंद्र प्रवेशिका प्रायोगिक रसायन नावल्टी  
 भा, शभूनाथ पाठ योजनाओं की रचना गर्ग ब्र ३ ००  
 भा, शिवानंद प्रारंभिक उद्यान विज्ञान २ भा रा वेनी-  
 प्रसाद ० ३७ (प्र)  
 साग-भाजी उत्पादन और फल परिरक्षण रा वेनीप्रसाद  
 २ ५०  
 भा, शुकदेव उपदेश की कहानिया भा ३ अशोक पु म  
 ० ६४ वप्र  
 भा, श्यामलकिशोर भवर के बीच सन्मार्ग ३ ०० उ  
 भा, सदानंद काठ का घोडा ज्ञानपीठ १ ०० वप्र  
 खेत-खलिहान ज्ञानपीठ १ ६३  
 तुलसी-दल ज्ञानपीठ ० ५०  
 पहला राजा पहला किसान ज्ञानपीठ ० ५७  
 हमारी गंगा ज्ञानपीठ ० ५६  
 भा, मुधाकर दे विश्वनाथप्रसाद  
 भा, सुभद्र भारतीय प्रवेशिका मोतीलाल २ २५  
 भा, सुमन अज्ञेय का काव्य अनुसंधान १० ००  
 भा, हरिमोहन भारतीय दर्शन परिचय (न्याय) पु भ ७ ५०  
 भारखडी, शिवनाथ दे दीक्षित, शंकर बालकृष्ण  
 भालानी, रघुवीरसरन जैनेंद्र और उनके उपन्यास नेशनल  
 ५ ००  
 भावर, दुर्गाप्रसाद हमारे आधुनिक कवि तुलसी २ ००  
 भिगन, राधेश्याम भालू बोला सस्ता १ ०० वप्र  
 मटरू सेठ ओरिएटल ० ७५ वप्र  
 भिगन, बी जी तथा बी पी श्रीवास्तव प्रायोगिक भौतिक  
 विज्ञान सशो. स २ श्रीराम मेहरा ४ ५०

किंगरन, वंगगोपाल तथा वेदराम शर्मा. हमारे शिक्षा प्रति-  
वेदन विश्व प्र १२५०

## ट

- टंडन, आर एन इंटर ज्यामितीय ड्राइंग. भा. भा प्र २२५  
इंटर-स्मृति-चित्रण. स ३. भा भा प्र १५०  
प्रकृति चित्रण स. ५ भा भा प्र २५०  
भारतीय चित्रकला की रूपरेखा भा भा प्र २५०  
वस्तु चित्रण स ५. भा भा प्र. २५०  
टंडन, ए आर विवाह यत्र तथा अन्य प्रहसन ड प्रे ३.२५  
ना  
टंडन, एन आर, १९१८- दिमाग का बीमा आत्माराम.  
२.५०  
टंडन, कमला विखरते स्वप्न नवयुग पु भ. ५००. उ.  
टंडन, कस्तूरीलाल 'यात्री' रमई काका राजहस. १७५.  
वप्र  
टंडन, गुरुप्रसाद निवध-ज्योति गयाप्रसाद २००  
—सपा गद्य सौरभ हिं सा सम्मे. १७५ (अप्रा)  
टंडन, जे. एस. नागरिक शास्त्र शिक्षण-विधि हिं सा भ  
२००  
टंडन, जे पी दे भुरत्नसिंह  
टंडन, तेजनारायण भारतीय विभूतिया हिं. सा. भ १००.  
वप्र.  
—टीका. काव्य कुमुमावसी (प्रेमनारायण टंडन) टीका हिं.  
सा भ १५०  
—सपा अग्रेजी शिक्षण-विधि हिं सा भ १२५  
इतिहास-शिक्षण-विधि हिं सा भ १२५  
गणित शिक्षण-विधि. हिं सा भ १००  
भाषा शिक्षण-पद्धति हिं. सा भ १२५  
मापन (मेजरमेट) शिक्षण-विधि हिं सा भ १५०  
शिक्षा सिद्धांत एव बाल मनोविज्ञान हिं सा भ १५०  
टंडन, तेजनारायण दे. योगेद्रनाथ.  
टंडन, तेजनारायण दे. गर्मा, योगेद्रनाथ.  
टंडन, पी डी मानवता के प्रहरी जवाहरलाल नेहरू इ प्रे  
५५० जी  
टंडन, पुरुषोत्तमदास. कुछ देखा, कुछ सुना इ प्रे. १५०  
शासन-पथ-निदर्शन. आत्माराम ६००  
टंडन, पुरुषोत्तमदास 'पत्रकार' दे त्रिपाठी, कमलापति  
टंडन, प्रतापनारायण, १९३२- अधी-दृष्टि राजपाल २.००  
उर्दू साहित्य का सरल इतिहास हिं सा भ २५०  
भासी की रानी स. ३ हिं सा भ १५० आ  
बदलते इरादे हिं सा भ ४.७५ क  
रीता हिंद पा १००. उ  
शिवराज भूषण हिं सा. भं १.५०  
स्वर्ग यात्रा एम. चाद २००. ना.  
हिंदी उपन्यास, उद्भव और विकास. हिं मा. भं. ५००

हिंदी उपन्यास मे कथा शिल्प का विकास हिं. सा भ  
१५००

हिंदी साहित्य पिछला दशक हिं. सा भ. ४५०  
टंडन, प्रेमनारायण, १९१५- अजातशत्रु. एक अध्ययन.

स ६ हिं सा भ २००

अजातशत्रु तथा अन्य एकाकी हिं. सा भ. २००

कर्मपथ तथा अन्य एकाकी. हिं सा भ. २५०

कृष्ण जन्म हिं सा. भ. २५० ना

गवन एक अध्ययन स ६ हिं सा भ २००

गोदान एक अध्ययन स ७ हिं. सा भ २.००

चंद्रगुप्त एक अध्ययन. स ५. हिं सा भ २.५०

दिवा स्वप्न तथा अन्य एकाकी. हिं सा. भ २५०

निराला एक भूलक नाटक हिं. सा. भ. २.५०

निर्मला एक अध्ययन स ७ हिं. सा. भ. १.२५

प्रेरणा तथा अन्य एकाकी. हिं सा भ २००

प्रसाद जी के तीन नाटक. रा वेनीप्रसाद

प्रेमचंद और ग्राम समस्या रामप्रसाद. ०.६४

भवरगीत (नददास). हिं सा. भ. ०.७५

भाषा अध्ययन के आधार हिं. सा भ ७.५०

महावीरप्रसाद द्विवेदी ग्रथमाला ०.५०. जी

रास पचाध्यायी (नददास). हिं सा भ. २५०

रेखाचित्र हिं. सा. भ. १.७५ क

स. गोदान एक अध्ययन. स २ हिं. सा भ. २.००

सकल्प तथा अन्य एकाकी हिं. सा. भ २५०

सप्त स्वर. हिं सा भ ५.०० ना.

साधना पथ. हिं सा भ. २५०. का.

साहित्यिको के सस्मरण. ग्रथमाला. २.५०

सूर की भाषा हिं सा. भ २०.००

सूर विनय पदावली (सूरदास) हिं. सा भ. १५०

सूर सारावली एक अप्रामाणिक रचना हिं. सा. भ १२.५०

स्कंदगुप्त. एक अध्ययन स ६ हिं सा. भ २५०

हिंदी गद्य प्रवेश. हिं सा भ १५०

हिंदी साहित्य कुछ विचार हिं सा. भ ७.५०

हीरे की बात हिं सा भ १७५. क

—तथा रामखेलावन चौधरी कर्मभूमि एक अध्ययन. हिं.  
सा भ. १.७५

प्रेमाश्रम एक अध्ययन हिं. सा भ. १५०

सेवासदन एक अध्ययन स ४. हिं सा भ १५०

—सपा आधुनिक काव्यो की काव्यकला हिं. सा भ. ४.००

कवि अनूप शर्मा कृतिया और कला हिं सा. भ. १५.००

कवितावली (सुंदरकांड, लकाकांड) हिं सा भ. ०.५०

काव्याग परिचय. हिं सा भ १.५०

काव्यकुमुमावली हिं सा. भ २००

काव्य कौमुदी हिं सा भ २.५०

गद्य कुमुमाजलि हिं सा भ १५०

प्रबध प्रभा हिं सा भ १.५० नि

प्राचीन कवियों की काव्यकला हिं मा भ ४.००

प्रेमचंद : कृतियां और कला. हिं. सा भ. ३५०

- ब्रजभाषा सूरकोश १० ख हि सा भ ४०००  
 महाकवि निराला व्यक्तित्व और कृतित्व हि सा भ १०००  
 रूपनारायण पाडे स्मृति ग्रथ हि सा भ ५००  
 सक्षिप्त सूर सागर हि सा भ ६००  
 साहित्य ज्योति हि सा भ २२५  
 साहित्य स्वरूप और समस्याए हि सा भ ५०० नि  
 साहित्यिक पारिभाषिक शब्दावली हि सा भ ३५०  
 साहित्यिक शब्दावली हि सा भ १०००  
 सूर रामायण, विस्तृत भूमिका, मूल पाठ हि सा भ १५०  
 सूर सारावली, विस्तृत भूमिका, मूल पाठ हि सा भ ३५०  
 हिंदी गद्य कुसुमावली हि सा भ १५०  
 हिंदी पद्य कुसुमावली हि सा भ १५०  
 हिंदी भाषा और साहित्य का परिचयात्मक इतिहास सशो स हि सा भ २५०  
 हिंदी भाषा साहित्य का सक्षिप्त इतिहास हि सा भ ४५०  
 हिंदी रचना उनके अग्र स ७ हि सा भ ३००  
 हिंदी साहित्य का सरल इतिहास नया सशो स हि सा भ २५०  
 हिंदी साहित्यागो का विकास हि सा भ १५०  
 हिंदी सेवी ससार स २ हि सा भ ७५०  
 टंडन, वी आर के तथा पी आर साहनी भारत का युद्ध-कौशलात्मक भूगोल तथा सैन्य मनोविज्ञान प्रकाश बुक ६.२५  
 टंडन, वी सी सोवियत रूस का आर्थिक विकास गर्ग ब्र ६५०  
 टंडन, मायारानी अष्टछाप काव्य सांस्कृतिक मूल्यांकन हि सा भ २५००, सक्षिप्त ८००  
 काव्य शास्त्र की रूपरेखा हि सा भ १५०  
 —सपा अलंकार प्रश्नोत्तरी हि सा भ १००  
 टंडन, यशपाल पुराण-विषय-समनुक्रमणिका विश्वेश्वरानंद ६००  
 टंडन, रानी क्रियात्मक गृह-विज्ञान रा वेनीप्रसाद १५०  
 परिचर्या और गृह प्रबंध नद स २५०  
 प्रारंभिक-पाठशाला-प्रबंध रा वेनीप्रसाद २००  
 मनुष्य शरीर और स्वास्थ्य नद ब्र ४००  
 शरीर-विज्ञान और स्वास्थ्य नद स २५०  
 शिक्षा के सिद्धांत और शिक्षा मनोविज्ञान नद ब्र एव नद स २५०  
 टंडन, रामचंद्र तथा शालिग्राम श्रीवास्तव दे सक्सेना, रामबाबू  
 टंडन, रामलाल कमलनारायण भारतवर्ष का इतिहास (प्रश्नोत्तर) हि सा भ २५०  
 टंडन, रूपनारायण साहित्य स्वरूप और समस्याए हि सा भ ५००  
 लक्ष्मीनारायण आधी के बाद हि सा भ ५००

- ऐतिहासिक लखनऊ हिंदिया १७५  
 कवि प्रसाद और आसू स २ हि सा भ २५०  
 कुणाल गीत टीका हि सा भ २५०  
 पुराने रास्ते नए मोड़ हि सा भ ५०० उ  
 प्रेम की अंतिम मोड़ ज्ञानालोक ५०० उ  
 वधन और गति हि सा भ ३०० उ  
 भाग्य का विधान हि सा भ ५०० उ  
 महादेवी और नीहार हि सा भ २५०  
 लहर एक अध्ययन स २ हि सा भ १७५  
 —तथा रामखेलावन चौधरी आधुनिक कवि (महादेवी वर्मा) स २ हि सा भ ३००  
 ककाल एक अध्ययन हि सा भ १२५  
 ग्रथि टीका हि सा भ १५०  
 तितली एक अध्ययन हि सा भ १५०  
 पत और गुजन हि सा भ २००  
 प्रसाद, पत, रत्नाकर हि सा भ २००  
 महादेवी और नीरजा हि सा भ ३५०  
 —सपा हि गद्य सौरभ हि सा भ १.५०  
 टंडन, लक्ष्मीनारायण दे चौधरी, रामखेलावन टंडन, लक्ष्मीनारायण 'प्रेमी', १९१०- आधी के बाद प्रेमी प्र ५०० उ  
 पुराने रास्ते नये मोड़ प्रेमी प्र ५०० उ  
 वधन और गति प्रेमी प्र ३०० उ  
 भाग्य का विधान प्रेमी प्र ५०० उ  
 टंडन, शकुंतला भारत की महान वीरागनाए नवयुग पु भ ०७५ वप्र  
 भारत के अनूठे स्तंभ नवयुग पु भ १५० वप्र  
 भारत निर्माता नवयुग पु भ १५० वप्र  
 भारतीय त्यौहार नवयुग पु भ ०७५ वप्र  
 टंडन, शिवनारायण गोविंदवल्लभ पत सा नि, का ०३७ जी  
 टंडन, सतप्रसाद प्रारंभिक जीव-विज्ञान रा वेनीप्रसाद ४००, भा १ जीव-विज्ञान २२५, भा २ वनस्पति-विज्ञान २२५  
 वनस्पति-विज्ञान रा वेनीप्रसाद १२५  
 विज्ञान की एक झलक रा वेनीमाधव ०७५ वप्र  
 सरल रसायन विज्ञान रा वेनीमाधव ३५०  
 —तथा कृष्ण बहादुर क्रियात्मक रसायन रा वेनीप्रसाद १२५  
 प्रायोगिक रसायन रा वेनीप्रसाद १२५  
 टंडन, हरद्वारीलाल तथा ओमप्रकाश गुप्ता आधुनिक हाईस्कूल बीजगणित गयाप्रसाद २२५  
 टंडन, हरिहरनाथ कहानी कलाप ४ भा गयाप्रसाद २००  
 चिंतामणि दर्शन स ५ विनोद ३००  
 पृथ्वीराज रासो (पद्मावती समय) सशो तथा परि स विनोद २५०  
 रजत-करण सा रत्न भ १५०  
 वार्ता साहित्य एक वृहत् अध्ययन भा. प्र मंदिर १५००

टाग्री, शांति. हमारे गांव आत्माराम १५०  
 टॉड, जेम्स मेवाड सहगल (अप्रा)  
 राजस्थान भा १ ख १ राजपूत कुलो का इतिहास सपा.  
 रघुवीरसिंह अनु देवीलाल पालीवाल मगल १०.००  
 राजस्थान का इतिहास अनु. केशवकुमार ठाकुर आदर्श  
 हिं २५.००  
 टामस, हेनरी कार्ल स्टीनमिट्ज एस चाद १०० वप्र  
 जार्ज वेस्टिंगहाउस. एस चाद १००. वप्र  
 टामस अल्वा ऐडीसन एस चाद, १००. वप्र  
 थियोडोर रूजवेल्ट एस चाद १५० वप्र.  
 टारे, रेजिना तथा इलिवार रूजवेल्ट. शांति की ओर राज-  
 कमल १०० वप्र.  
 टाल्स्टाय, लियो अर्धेरे मे उजाला. सस्ता. १.५० ना.  
 अन्ना केरेनिगा प्रभात प्र ३०० उ., — — अर्चना प्र.  
 (पा) १.००, — — सा सगम, लु ६२५  
 आम बराबर गेहू अनु जैनेद्रकुमार सर्वोदय ०.६०. क.  
 आसुरी माया अनु. मुगल महमूद. सा. केद्र. ०.७५. ना.  
 ईसा की सिखावन सस्ता १००  
 कज्जाक. पीपुल्स १६६. उ, — — प्रभात प्र. ३००.  
 उ.  
 कलवार की करतूत. सस्ता ०.३५ ना.  
 कला क्या है ? हिं. प्रचा. पु ०६७ नि.  
 कहानिया. पीपुल्स. ३२५  
 कहानिया अनु प्रेमचंद सरस्व. प्रे २.००  
 कितनी जमीन ? सस्ता ०४०. वप्र, — — अनु. जैनेद्र-  
 कुमार सर्वोदय. ०.६५  
 जीवन-मूल. अनु जैनेद्रकुमार सर्वोदय ०.७३ क.  
 जीवन-साधना. सस्ता १२५ नि  
 तलस्तोय की श्रेष्ठ कहानिया प्रभात प्र ३००  
 तीन जोगी अनु. जैनेद्रकुमार सर्वोदय. ०.५० क.  
 देर हो अर्धेर नहीं अनु जैनेद्रकुमार सर्वोदय ०५०  
 क.  
 देवदूत. अनु ऋषभचरण जैन ज्ञान प्र २००. उ  
 दो गज जमीन सहगल २५० क.  
 दो साथी अनु जैनेद्रकुमार. सर्वोदय. ०७५. क.  
 धर्म और सदाचार सस्ता १२५. नि  
 धर्म-पुत्र अनु जैनेद्रकुमार सर्वोदय ०७४  
 नई पौध नई सूक्त अनु 'हिमाशु' जोशी शिवलाल. १००  
 वप्र  
 पाप और प्रकाश अनु. जैनेद्रकुमार पूर्वोदय २.५० ना  
 पुनर्जीवन. स. २ ज्ञानमडल ६५० उ; — — प्रभात प्र.  
 १०००  
 प्यार की जिदगी. हिंद पा १.०० उ  
 प्रेम मे भगवान. सस्ता २५० क., — — अनु जैनेद्रकुमार.  
 सर्वोदय ०५०  
 प्रेम या वासना हिंद पा १०० उ  
 बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था पीपुल्स २.८१  
 बालको का विवेक. सस्ता. ०५०

बुराई कैसे मिटे ? सस्ता. १००  
 महापाप अनु ऋषभचरण जैन ज्ञान प्र. २.००. उ.  
 मूरखराज अनु जैनेद्रकुमार २ भा. पूर्वोदय ०६०. वप्र.;  
 — — सस्ता ०४०  
 मेरी मुक्ति की कहानी सस्ता १५०  
 युद्ध और शांति. इ प्रे. ५०० उ.; — — प्रभात प्र.  
 ६००, — — हिंद पा. सक्षिप्त १००  
 लाल सरोवर. अनु जैनेद्रकुमार सर्वोदय ०.७५. क.  
 वज्ञानिक कहानिया. छात्रहितकारी ०३७  
 शैतान की मौत सहगल ०६५. वप्र  
 तालस्ताय की श्रेष्ठ कहानिया. प्रभात प्र. ३.००  
 सामाजिक कुरीतिया सस्ता २.५०  
 सेवेस्तोपोल का घेरा प्रभात प्र. ३.००. उ  
 स्त्री और पुरुष. सस्ता. १.००  
 हम करे क्या ? सस्ता ४००  
 हमारे जमाने की गुलामी सस्ता. १००  
 टिक्का, आर एन एशिया स. ३ रस्तोगी ५.००  
 यूरोप रस्तोगी  
 टिक्टर, कानराड जीवन और सघर्ष लोकप्रिय २००. उ.  
 टीअर, सी. एच मित्र बनाने की कला. राजकमल. २५०  
 टेकचंद शास्त्री. अलकार पारिजात. श्री भा भारती २.५०  
 काव्य-वल्लरी एस चाद १५०  
 पुष्प-पराग (सटीक) श्री भा भारती ३५०  
 शुक्ल समीक्षा. एस. चाद ३५०  
 साहस और खोज की कहानिया श्री भा भारती २.००  
 टेलर लोकवित्त की अर्थनीति एस. चाद.  
 टेलर, शेरउड. शक्ति, वर्तमान और भविष्य. अनु. सत्यप्रकाश  
 गोयल हिं. समि ४००  
 टैगोर बादलो के पार. रूपसी (पा.) १.००  
 टैगोर. यह भी दे ठाकुर  
 टैवर्स, रावर्ट एम डब्लू शिक्षात्मक अनुसंधान की प्रस्तावना  
 कि महल १२००  
 टोकवील, अलेक्सिस डि प्रथम प्रजातंत्र का उदय. एस. चाद  
 ४००  
 टोपा, ईश्वर दे वाइल्ड, आस्कर.  
 टोरी दे वेदप्रकाश 'टोरी'  
 बहादुर टाम अनु श्रीप्रकाश राजपाल. १५० वप्र  
 ट्राइन, राल्फ वाल्डो ईश्वर के सपर्क मे छात्रहितकारी.  
 २००.  
 चरित्र-गठन और मनोबल हिं ग्र २ ०३७ वप्र  
 ट्राल, आर टी निरोज होने का सच्चा उपाय अनु वासुदेव-  
 शरण अग्रवाल. सस्ता. १००  
 ट्रैन, आर्थर एक महान् वकील अनु. ओमप्रकाश शर्मा.  
 आत्माराम. ४०० उ.  
 ट्रैवेर्स शिक्षात्मक अनुसंधान कि महल  
 ट्रैक्टनवर्ग, एलेक्जेंडर मई दिवस का इतिहास. पीपुल्स.  
 ०३७  
 द्वेन, मार्क. आख मिचौनी. बवई प्र. २.००. उ.

ठ

ठक्कर तथा तिवारी सञ्ची कहानिया राजपाल १२५ वप्र  
ठक्कर, अरुनीद्रनाथ भारत शिल्प के पडग. नया सा प्र  
१५०

ठक्कर, आद्यादत्त पाली-प्रबोध गगा २५० आ  
ठक्कर, उपेद्र मुगलकालीन भारत मोतीलाल ५००  
ठक्कर, कमलेश लहर और धारा ऐडी २०० उ  
ठक्कर, केशवकुमार अनुशासन सा सेवक १५०  
जनरल तात्या टोपे आदर्श हि १०० जी  
जहानारा की आत्मकथा आदर्श हि ३२५. उ  
नाना साहव पेशवा आदर्श हि १०० जी  
पृथ्वीराज आदर्श हि १२५ जी  
फल, उनके गुण तथा उपयोग छात्रहितकारी २२५  
भारत की प्रसिद्ध लडाइया आदर्श हि ६००  
भारत मे अगरेजी राज्य के दो सौ वर्ष आदर्श हि १०००  
महाराणा प्रताप आदर्श हि १२५ जी  
विमला स २ सा सेवक ३००  
वीरागना लक्ष्मीबाई आदर्श हि १०० जी  
सत्तावन स २ सा सेवक ६००, — —हि प्रचा म  
५००

सादगी श्रेष्ठता का निर्माण करती है छात्रहितकारी २२५  
स्वावलवन आदर्श हि २५०

स्वास्थ्य और व्यायाम छात्रहितकारी २५०

ठक्कर, केशवकुमार दे टाड, जेम्स

ठक्कर, गुलाव भौतिक प्रयोग पु भ, रा ५००

ठक्कर, गोपाल भगतसिंह व्यक्तित्व और विचारधारा. पीपुल्स  
०५० जी

ठक्कर, चद्रिका हमारी खेती कला-निकेतन भा १ ०७५,  
भा २ ०६६, भा ३ १५०

हमारी खेती भा ४ नागरी प्र वप्र

ठक्कर, ज्योतिर्मयी आहार और आरोग्य स ३ सा सेवक  
४००

उपवास छात्रहितकारी ०००

घर की लक्ष्मी न्यू लिट ४००

नवीन दम्पति स ३ सा सेवक ३५०

पत्नी के पत्र न्यू लिट ३००

पाक विज्ञान सा भवन, इ ४००

प्रजनन और गिशु पालन हि प्रचा म ०७५

बुनाई के नए-नए नमूने न्यू लिट ४००

भोजन और पाचन छात्रहितकारी २५०

सौभाग्यवती स ४ सा सेवक ४००

स्त्री रोग और उनकी चिकित्सा हि प्रचा म ०७५

स्त्री विनोदिनी स २ विनोद ६००

स्त्री-समाज हि प्रचा पु २५०

१, वृत्तनारायण गोलगप्पा राष्ट्र पु भ १५०

ठक्कर, देववलीसिंह अन्याय का प्रतिकार हि प्रचा पु ४००  
ठक्कर, देवेद्र आधुनिक भारतीय समाज तथा हिंदी साहित्य  
मे नारी भावना और प्रसाद के नागी चरित्र नवयुग प्र  
ठक्कर, प्रभाकर देश विदेश के किसान छात्रहितकारी ०५०  
हमारा सविधान छात्रहितकारी ०५०

—तथा ओमप्रकाश केला भारतीय इतिहास की रूपरेखा  
२ भा भा प्र ५०० (प्र)

ठक्कर, प्रभाकर दे केला, ओमप्रकाश

ठक्कर, प्रेमकुमारी जाग उठा है हिंदुस्तान प्रेमकुमारी  
२०० गीत

नारी सौंदर्य साधन स २ प्रेमकुमारी ५०

सिलाई, विनाई और कढ़ाई प्रेमकुमारी ३००

स्वास्थ्य तथा गृह विज्ञान प्रेमकुमारी २५०

ठक्कर, बलभद्र आदित्यनाथ नेशनल ५५० उ.

कैदियों के द्वीप मे हि भवन उ

देवताओं के देश मे हि भवन ६५० उ

धने और बने हि भवन ७५० उ

निराश प्राणयी सन्मार्ग २०० उ

नेपाल की वो बेटी हि भवन ५८० उ

मुक्तावती हि भवन ८०० उ

रूस की सर्वश्रेष्ठ कहानिया सन्मार्ग २५०

लहरो की छाती पर हि भवन ७५०. उ

ठक्कर, मथुरा 'विद्रोही' उगते नक्षत्रों से कला-नि. ०.७५.  
वप्र

ठक्कर, रवीन्द्रनाथ, १८६१-१९४१ अतिम कविता. प्रभात प्र.  
२०० उ

अध्यापक प्रभात प्र २०० क

अनाविकार प्रवेश अनु ओकारशरद राजरजना २०० क

अपनी दुनिया ज्ञान प्र २५० उ

अपनी दुनिया (पाच सदस्य) प्रभात प्र २०० उ

अपरिचिता कि महल २०० उ

आख की किरकिरी अर्चना प्र (पा) १०० उ, — —

चिनगारी २००, — — प्रभात प्र ५००, — — श्याम

लाल ४००, — — सन्मार्ग ५००, — — अनु हसकुमा

तिवारी सा अकादमी ५००, — — हि प्र ३००,

— — हि प्रचा पु ४००, — — हिद पा १००

उजडा घर चौधरी १५० उ, — — सुरेद्र २००, — —

स्टार (पा) १००

उपवन (नीरजा या सरला) प्रभात प्र २०० उ

उपसहार प्रभात प्र २०० क

एला दीदी कि महल २०० उ

ककाल श्यामलाल २०० क

काबुलवाला चौधरी ४२५

काबुलीवाला प्रभात प्र २००. क, — — हिद पा १००

काबुलीवाला तथा अन्य श्रेष्ठ कहानिया राजधानी ४५०

कुमुदिनी प्रभात प्र ४०० उ, — — श्यामलाल ४००,

— — सन्मार्ग ४००, — — सा सेवक ४००, — —

हि प्रचा म. ३००, — — हिद पा १००

कौन किसी का सहगल २२५ उ., — सुरेद्र. २००,  
(पा) १००  
क्षुधित पापाण प्रभात प्र २.०० क.  
गल्प-गुच्छ २ भा इ प्रे १५०  
गांधी मीमासा सा साधना १५०  
गीताजलि इ प्रे १५०. का, — ज्ञान प्र २००, —  
देहाती १५०, — प्रभात प्र ३००, — राजपाल  
३००, — अनु भवानीप्रसाद तिवारी लोक-चेतना  
३००, — विश्वभारती २५०, बोर्ड ३५०, —  
हिंद पा ५००  
गृह-प्रवेश प्रभात प्र २०० ना  
गुरुदेव-विद्यार्थियों से राजधानी २०० नि  
गोपाल भाड कन्हैयालाल २७५  
गोरा अर्चना प्र (पा) १०० उ, — प्रभात प्र ६००,  
— सन्मार्ग ६००, — अनु एस एच वात्स्यायन  
सा अकादमी. ८००, — हिंद पा १००  
घर और बाहर कल्याणदास ३५० उ, — श्यामलाल  
३००, — सन्मार्ग ३५०, — हिंद पा १००  
घर बाहर प्रभात प्र ३५० उ, — अनु जगत शख-  
धर सा. केद्र ३५०  
चडालिका बबई प्र. १२५ ना.  
चतुरंग कि महल २०० उ, — विश्वभारती १५०  
चाद सितारे सहगल २५० क  
चार अध्याय इ प्रे १५० उ, — प्रभात प्र २.००,  
— श्यामलाल २००, — हिंद पा १००  
चारुलता. कि महल. २०० उ, — श्यामलाल. २.००;  
— सुरेद्र २००  
चित्रागदा राजपाल २०० ना  
चिरकुमार-सभा प्रभात प्र ४००. ना  
छिन्न-पत्र चौधरी ३५०  
जरा हसो तो कन्हैयालाल २५०  
जलजला जवाहर २५० उ, — श्यामलाल २.००  
जापान यात्री चौधरी २५०  
जीवन का सत्य प्रभात प्र २००  
जुदाई की शाम हिंद पा १०० उ  
ज्योति-कणिकाए प्रभात पब्लि ३००. का  
टैगोर की श्रेष्ठ कहानिया जवाहर २५०  
ठकुरानी बहू का बाजार ज्ञानमडल २०० उ, —  
प्रभात प्र २००, — भा प्र मडल २००, —  
श्यामलाल २२५, — सुरेद्र २२५  
डाकघर आदर्श पु भ ०५० बप्र, — आनंद पु, वा,  
— इ प्रे ०७५ ना, — प्रभात प्र २००,  
— सहगल ०६५  
तपस्विनी प्रभात प्र २०० ना  
तीन साथी कन्हैयालाल २५० उ, — कि महल  
२००, — प्रभात प्र २००  
त्याग का मूल्य अर्चना प्र. (पा.) १.००. उ, — सन्मार्ग  
४.००

दुर्भाग्य-चक्र. प्रभात प्र २०० क.  
दृष्टिदान. प्रभात प्र. २.०० क.  
दो बहने चिनगारी १५० उ, — विश्वभारती. २.८०;  
— हिंद पा. २००  
धर्म और साहित्य चौधरी ३००; — राजधानी. ३.००  
नटी की पूजा प्रभात प्र. २००. ना, — विश्वारती.  
२००  
नष्टनीड. प्रभात प्र २०० उ, — श्यामलाल २००;  
— सुरेद्र २००, — हि प्र २००  
नावदुर्घटना जवाहर. ४०० उ, — प्रभात प्र ४००;  
— श्यामलाल ४५०, — सन्मार्ग ४००  
महामाया चौधरी २००, — प्रभात प्र २००, —  
स्टार (पा) १००  
मालाकार. अनु सत्यकाम विद्यालकार राजकमल १०००  
का  
मालिनी. कि महल. २०० उ  
माली आनंद पु, वा.; — प्रभात प्र २०० का  
नीरजा श्यामलाल १५०, — सहगल २२५. उ  
नीरजा और चार अध्याय हि प्रचा म २२५ उ.  
नीलिमा जवाहर २.५०, — श्यामलाल १.५०  
नैवेद्य राजपाल २०० गद्यगीत  
नौका डबी अर्चना प्र (पा) १००, — चिनगारी.  
३५०  
पचभूत कन्हैयालाल २५०  
पगडडी. राजपाल. ३०० गद्यगीत  
पथ का गीत राजपाल २०० गद्यगीत  
पराया. ज्ञानमडल २५०. क, — प्रभात प्र २००;  
— भा प्र मडल २५०  
पहिला नंबर प्रभात प्र २०० क  
पाच सदस्य कल्याणदास १५० उ  
प्राचीन साहित्य इ प्रे १५०  
प्रायश्चित प्रभात प्र २०० ना  
प्रेमी का उपहार आत्माराम ३०० गद्यगीत  
फल सचयन नद. स १७५ का.  
फाल्गुनी प्रभात प्र २०० ना  
फुलवाडी विश्वभारती २८ उ  
बडे चाचाजी चौधरी १५०  
बलाका अनु सनीश वर्मा अपोलो २५० का, —  
प्रभात पब्लि २००  
बहरानी पुष्पी ०७५ उ, — सुरेद्र २२५, —  
हिंद पा १.००  
वासुरी प्रभात प्र २०० ना  
बुद्धदेव चौधरी १५०  
बैकुड का खाता प्रभात प्र २०० ना  
मणिमाल प्रभात पब्लि २५० का  
मणिहीन प्रभात प्र २००. क  
मास्टर साहब आनंद पु., वा.; — इ. प्रे ०.५०; —  
चौधरी. १.५०, — प्रभात प्र. २.००. क.



मित्र के नाम पत्र. स २. शिवलाल ३५०  
 मिलन हिंद पा १०० उ  
 मुकुट इ प्रे ० ३१ उ, — — चौधरी. १५०  
 मुक्तधारा प्रभात प्र २०० ना  
 मुसाफिर कन्हैयालाल ४५०  
 मेरा बचपन इ प्रे २०० जी, — — विश्वभारती  
 २३०  
 मेरी बाल कहानिया आदर्श पु भ ० ६२ वप्र.  
 मेरे नाटक सहगल ३५०  
 योगायोग इ प्रे ४०० उ, — — अनु इलाचंद्र जोशी  
 सा अकादमी ५००  
 रक्तकरवी प्रभात प्र २०० ना  
 रविंद्र का हास्य विनोद चौधरी एव राजधानी २००  
 रविंद्र के श्रेष्ठ नाटक राजधानी. ४००  
 रविंद्र के सर्वश्रेष्ठ नाटक चौधरी ४००  
 रवींद्र कथा राजपाल २०० क  
 रवींद्र कथाकुज हि ग्र र २५० क  
 रवींद्र की चुनी हुई कहानिया इ प्रे १५०  
 रवींद्र की लघु कथाए आदर्श पु भ २५०  
 रवींद्र की श्रेष्ठ कहानिया श्यामलाल २००  
 रवींद्र चतुर्दशी जवाहर २५० क, — — प्रभात प्र २००  
 रवींद्र द्वादशी राजपाल २०० क  
 रवींद्र श्रेष्ठ गल्प राजरजना (पा) १०० क  
 रवींद्र-साहित्य अनु धन्यकुमार जैन २८ भा रवींद्र सा म  
 १८० (प्र)  
 भा १ दो बहन (उ), कहानिया, एक नि  
 भा २ दस क  
 भा ३ ग्यारह क  
 भा ४ फुनवाडी (उ), कहानिया, तथा एक नि  
 भा ५ नौ क, तथा पाच नि  
 भा ६ कहानिया, दो नि  
 भा ७ कहानिया, तथा एक नि  
 भा ८ तीन क, कविताए, तथा एक नि  
 भा ९-१० उलभन (उ)  
 भा ११ दो ना, नाट्यकाव्य तथा काव्य  
 भा १२ आखिरी कविता (उ)  
 भा १३ वासुरी (ना), नाट्यकाव्य तथा तीन नि  
 भा १४ विसर्जन (ना), तथा नष्टनीड (उ)  
 भा १५ मालिनी (ना), कहानिया तथा कविताए  
 भा १६ बारह क, नि, तथा का  
 भा १७ तपती (ना), दो प्रहसन  
 भा १८ जीवन-स्मृति (आत्म-दर्शन)  
 भा १९ तीन साथी (उ)  
 भा २० कविताए  
 भा २१-२२ आख की किरकिरी (उ)  
 भा २३ दो नाट्यकाव्य  
 भा २४ ग्यारह नि  
 भा २५ चौदह नि.

भा २६ वह (उ) तथा कहानियां  
 भा २७ बहुरानी की हार (उ)  
 भा २८ मुक्तधारा (ना)  
 रवींद्रनाथ की कहानिया अनु रामसिंह तोमर सा अका-  
 दमी ८००  
 रवींद्रनाथ के नाटक भा २ अनु एस एच वात्स्यायन सा  
 अकादमी ६६०  
 रश्मिहार प्रभात प्र २०० का  
 राजर्षि इ प्रे २०० उ, — — कल्याणदास ३००,  
 — — प्रभात प्र २००, — — श्यामलाल २५०, — —  
 हि प्रचा म २५०  
 राज सन्यासी कि महल २०० उ  
 राजा प्रभात प्र २०० ना  
 राष्ट्र की प्रथम पूजा साधना म १०० नि  
 रूस की चिट्ठी इ प्रे १५०  
 लाल कनेर अनु हजारीप्रसाद द्विवेदी राजकमल २००;  
 विद्यार्थी स ११० ना  
 वह चौधरी २२५  
 विचित्र प्रवध इ प्रे एव चौधरी २००  
 विचित्र बधू-रहस्य इ प्रे २०० उ  
 विश्व-परिचय अमिताभ २५०, — — इ प्रे १००  
 व्यग्य-कौतुक इ प्रे १२५ ना, — — कि महल २००  
 शतरज श्यामलाल २००  
 शशाक कि महल २०० उ  
 शारदोत्सव प्रभात प्र २०० ना  
 शिक्षा सन्मार्ग २००  
 संगीत गीताजलि हि पु ए ४००  
 सरला जवाहर २५० उ  
 साथी चिनगारी १२५  
 साधना राजपाल २००  
 साहित्य. हि ग्र र ३००  
 सीमात सहगल २५० क  
 सोहनी रूपसी २०० उ  
 सौगात कन्हैयालाल २५०  
 स्वदेग ज्ञानमडल एव भा प्र मडल ३०० लेख  
 स्वरवितान विश्वभारती ३०० गीत  
 हास्य-कौतुक इ प्रे १२५ ना  
 ठाकुर, रामचंद्र आम्रपाली वीरा ४५० उ  
 वीरवल वीरा ४५० उ  
 मीरा प्रेम दीवानी वीरा ५०० उ  
 ठाकुर, विद्यापति कीतिलता सपा बाबूराम सक्सेना ना प्र  
 सभा २००  
 ठाकुर, सूर्यदेव मनोरजक उद्योग २ भा कला-नि १००  
 मिट्टी की कला कला-नि भा १ ०.६२, भा २ ० ८८,  
 भा ३ ० ८८  
 मिट्टी की कला भा ४-५ नागरी प्र वप्र  
 ठाकुर, सूर्यनारायण अतर्राष्ट्रीय व्यापार मोतीलाल. २७५  
 ठाकुरदास बग नगर-स्वराज्य अ भा सर्व ० २५

ठाकुरपाल सिंह गृह-कला-शिक्षा. पु. भ., रां. भा. ३ ० ७५,  
भा ४. १ ८७  
ठाकुरप्रसाद सिंह, १९२४- आचल कल्याणदास. ३ ५०  
ए  
कठपुतली स २ राष्ट्रीय प्र मंदिर १ ०० वप्र  
कुब्जा मुदरी. प्रचा पा १ ००, — — हि प्रचा पु ३ ००  
चौथी पीढी राष्ट्रीय प्र मंदिर ३ ०० कथा  
पद्रह अगस्त स ३ राष्ट्रीय प्र मंदिर ० ७५. ना  
पहिये कल्याणदास ० ५० ए  
पुराने घर नये लोग स २ राष्ट्रीय प्र मंदिर ४ ०० नि.  
प्रदक्षिणा. राष्ट्रीय प्र मंदिर ४ ५० या  
वसी और मादल राष्ट्रीय प्र मंदिर एव नया सा प्र ३ ००  
का  
हिंदी निवध और निवधकार हि. पु. ए २ ००

## ड

टगलस, विलियम ओ एक जीवत अधिकार पत्र आत्माराम  
२ ००  
डफ, ग्राट. मराठो का इतिहास आदर्श हि २५ ००  
डवराल, शिवप्रसाद उत्तरा-खड यात्रा दर्शन व्यामलाल  
१ ० ००  
डागे, श्रीपाद अमृत भारत आदिम साम्यवाद से  
दास-प्रथा तक का इतिहास पीपुल्स. ४ ००  
डायल, कानन अफीम का अड्डा अनु ऋषभचरण जैन ज्ञान  
प्र २ ०० उ  
खूनी की खोज. कल्याणदास २ ०० उ.  
वदला. हिंद पा १ ०० उ.  
शरलक होम्ज की जामूभी हिंद पा १ ००  
शिकारी कुत्ता अपर एव प्रभात पब्लि ४ ००. उ  
डालमिया, दिनेशनदिनी, १९१५- उनमन सा भवन, ड  
३ ०० का  
उरवानी नद व एव नद न १ ०० का  
मनुहार श्रीअरविद १ ५० का  
वगीरव नद व एव नद न. १ ००  
गर्वगी एम चाद ७ ०० का  
शारदीया गंगा १ ५० का  
डारटायवस्वी दे दोन्तोवस्वी  
डिक, जिलिन मानचिन्-ना आत्माराम ४ ००  
डूगरवा. गिरमीचन मद्रा चातुर्मास चिचरण जैन ज्येतावर  
० २५. १ २५  
तेगप मे जारकेटनी जैन ज्येतावर ० ६२  
नामाव ती जैन ज्येतावर ० २५  
डूरेट. दिन मंग की ज्येतावर नि पहन १०.००  
मन्थ्या की कहानी कि नहन.  
डे, उषेदनाथ तथा नाहर भारतीय इतिहास कि महल  
८.००

डे, क्लैरेस जो कहे पापा जो करें पापा राजकर्मल. ३.००;  
(पा.) १ ००. उ.  
डे, पचानन तथा नरोत्तम भार्गव अकार्बनिक रसायन २ भा  
अपर ४.७५ (प्र.)  
कार्बनिक रसायन. अपर ५.५०  
हायर सेकडरी रसायन अपर ८.००  
डे, सतीश अघेरे उजाले देहाती १ २५ ना  
अनारकली की वापसी देहाती १ २५. ना  
इन्सान और गैतान. देहाती. १.२५ ना  
कफन. देहाती १.२५ ना  
कीचड का फूल देहाती १.२५ ना.  
घरवाली देहाती १.२५. ना  
जनम जनम के नाते. देहाती. १.२५ ना.  
पहाडो का चोर देहाती. १ २५ ना  
फिर वाजेगी शहनाई देहाती. १ २५. ना.  
माडर्न वीवी देहाती. २ ५०. ना  
सजोग. देहाती १ २५ ना.  
सुनहरे सपने देहाती १ २५. ना.  
डेविड, सी डब्ल्यू इटरमीडिएट काव्यसग्रह गयाप्रसाद २.२५  
डेविडसन इंग्लैंड का राजदर्शन कि महल. ४००  
डेविस मानव और अतरिक्ष एस चाद  
डैपियर, सर विज्ञान का सक्षिप्त इतिहास मैट्रोपोलिटन.  
६ २५  
डोक, जोसेफ जे. अफ्रीका मे गाधी अ भा सर्व १ ००  
डोक्सन, मेथ्यूज सफलता के साधन स २. जवाहर. १ २५  
ड्युई, जान, १८५६-१९५२ नैतिक जीवन का सिद्धात आत्मा-  
राम ५ ००  
मानव प्रकृति और आचरण आत्माराम. ६ ००  
शिक्षा-दर्शन की भूमिका. अनु. सुरेद्रपालसिंह भा भ.  
१ ० ००  
ड्यूमा, अलेक्जेंडर. कठहार. अनु ऋषभचरण जैन ज्ञान प्र.  
५.००. उ.  
कलाकार कैदी हि अ. र. ३ ५० उ  
चार-तिलगे नेशनल. उ.  
वह कौन थी ? अपर ३ ७५ उ, — — अनु ऋषभचरण  
जैन ज्ञान प्र. ५ ००, — — प्रभात पब्लि ३ ७५  
पड्यत्रकारी अनु ऋषभचरण जैन ज्ञान प्र ३ ००. उ  
स्वदेश की सीमा पर अवध १ ५० उ.  
ड्यूवेट तथा वर्मा आधुनिक रोजगार तथा आय सिद्धात एम  
चाद ११.००  
प्री यूनीवर्सिटी अर्थशास्त्र एम चाद ६ ००  
सरल अर्थशास्त्र, प्रारंभिक सिद्धात एम चाद ४ ५०  
नरल प्रारंभिक भारतीय अर्थशास्त्र एम. चाद ४ ५०  
हायर सेकडरी अर्थशास्त्र एम चाद ५ ५०  
ड्यूवेट, केवन्दृष्ण, अर्थशास्त्र के आधुनिक सिद्धात. एम चाद  
११.००  
अर्थशास्त्र के प्रारंभिक सिद्धात एम चाद ७ २५  
प्रारंभिक अर्थशास्त्र भा १. एम चाद ६ ७५

- प्रारम्भिक भारतीय अर्थशास्त्र एस चाद ७ ७५  
 भारतीय अर्थशास्त्र एस चाद १५ ००  
 सुबोध अर्थशास्त्र के सिद्धांत एस चाद ७ ००  
 सुबोध भारतीय अर्थशास्त्र एस चाद ७ ००  
 —तथा एम एल सेठ भारतीय अर्थशास्त्र आगरा विश्व-  
 विद्यालय के लिए एस चाद १० ००  
 —तथा सुरजीतमिह आर्थिक प्रबंध एस चाद ७ ५०  
 इयूवेट, केवलकृष्ण दे वर्मा, जयदेव  
 डूली, थामस ए प्रभात की प्रथम किरण एस चाद २ ००  
 भ्रमण  
 ड्रविडि, जी जी तथा एस सी मित्तल भारत की आर्थिक  
 दशाए पापुलर ३ ००  
 सुबोध अर्थशास्त्र पापुलर ३ ००

## ढ

- ढड्डा, नथमल नवीन माध्यमिक वीजगणित कम्प्युटरमल  
 ४ ००  
 डेवर, उ न नवीन भारत में पचायतो की भूमिका अ भा  
 काग्रेस ० १५

## त

- त. र भक्ति-सागर के तट पर चुने हुए अनमोल मोती एस  
 चाद १ ००  
 तनखीवाले, जी वाई तथा मलैया बुनियादी शिक्षण-सिद्धांत  
 राजकमल ३ ५०  
 —तथा अन्य सरस्वती बुनियादी शिक्षा मनोविज्ञान सरस्व  
 प्र ३ ००  
 तनखीवाले, सुशीलानाई दे त्रिपाठी, श्यामसुंदरलाल  
 तनेजा, कमल पाषाणी नव सा प्र २ ५० उ  
 तन्मय बुखारिया वीरलाल पञ्चधर (खड काव्य) त्रिवेणी  
 १ ५०  
 तरंगी दे विष्णुदत्त 'तरंगी'  
 तरल दे श्वल, श्यामविहारी 'तरल'  
 तरुण दे ओमप्रकाश 'तरुण'  
 तरुण दे खडेलवाल रामेश्वरलाल 'तरुण'  
 तरुण दे रमेश 'तरुण'  
 तरुण भाई अत्रर चरखा (संपूर्ण) सर्वोदय सा ३ ०  
 कपान रानी सर्वोदय सा ० ७५ वप्र  
 कीट-पतंग सर्वोदय सा ३ ००  
 चालन गाडी सर्वोदय सा ० ७५ वप्र  
 जलचर सर्वोदय सा ३ ००  
 जीव-विकान सर्वोदय सा ३ ००  
 तकली सर्वोदय सा ० ७५ वप्र  
 नभचर. सर्वोदय सा ३.००

- नयी तालीम में मौखिक निबंध-रचना सर्वोदय सा १ ००  
 वप्र  
 पृथ्वी वदन हि भवन १ २५ का  
 भारत-कथा भा १ सर्वोदय सा ० ७५ वप्र  
 युग-प्रभात सर्वोदय सा ० ७५ वप्र  
 वनचर सर्वोदय सा ३ ००  
 विनोबा जीवन-दर्शन सर्वोदय सा १ ५०  
 विशु-विहार सर्वोदय सा ० ७५ वप्र  
 सफाई-विज्ञान और शास्त्र सर्वोदय सा १ २५  
 सरीसृप सर्वोदय सा ३ ००  
 सुनो गाव की एक कहानी सर्वोदय सा ० ७५ वप्र  
 हमारा ताज सर्वोदय सा ३ ०० वप्र  
 हमारा भोजन सर्वोदय सा ३ ००  
 हमारी पोशाक सर्वोदय सा ३ ००  
 हमारे घर सर्वोदय सा ३ ००  
 हमारे वाहन सर्वोदय सा ३ ००  
 —सपा पृथ्वीवदन १ २५  
 मा सर्वोदय सा ० ७५ वप्र  
 तरैया, प्रभाशकर गुजराती हिंदी दीपिका बवई हि भा १  
 ० ६२, भा २ ० ७५  
 तल्लूर, वायगणकर तथा शेट्टी अग्रेजी हिंदी दीपिका बवई  
 हि भा १ ० ६०, भा २ ० ७५  
 तागडी, अन्नपूर्णा चिंता की धूल हि सा भ २ ५० उ  
 भारत सहति भा ग्रथमाला २ ०० ना  
 मिलनाहति भा ग्रथमाला ५ ०० उ  
 विजयनी भा ग्रथमाला ४ ०० उ  
 ताधी, निरजनसिंह कारपेट्टी मास्टर देहाती ६ ७५  
 ताज दे इमत्याज अली 'ताज'  
 ताजवर सामरी एक था शहर नेगनल ६ ०० उ  
 खेत में लहु मनोरमा २ ५० उ  
 वातिश्चिया नेगनल वप्र  
 तावा नई शेरों शायरी सा प्र २ ५० का  
 तामस्यर, गोपाल दामोदर मौलिकता इ प्रे ० ३१  
 तारकेवरप्रसाद शिक्षा-दर्शन-मजूषा ज्ञानपीठ ६ ७५  
 तारागकर नाडी दर्शन मोतीलाल, २ ५०  
 तारेश साथी नवयुग ग्र कु १ ५० का  
 तालिब भारती भीगी पलक पजावी पु २ ०० उ  
 ताल्स्टाय दे टाल्स्टाय  
 ताहिर, एस ए कुआरे का घर राजकमल १ ५० वप्र  
 धुए की फासी राजकमल १ ५० वप्र  
 तिहवल्लुवर तामिल वेद सस्ता १ ५०  
 तिलक कालिदाम भागलपुर बुक ५ ०० का  
 तिलक, कमलाबाई नजर अनु रामचंद्र वर्मा नद व एव  
 नद स १ ७५  
 तिलक, वाल गंगाधर, १-२५६-१६२० गीता रहस्य स १२  
 तिलक १२ ००  
 भागवत गीता तिलक (पा) १ ५०  
 तिलक खानावदोश बीवी के लेखक गंगा. २ ५० हा.

- तिलकधर शास्त्री. अलकार-विवेचन हि सा स ११२  
छद चार्ट हि सा स ०३७  
तिलेश्वरनाथ शास्त्री, सपा रस-विलास बनारस मर्केन्टाइल  
२५०  
तिवारी तथा शर्मा कच्चायन व्याकरण तारा १५०० पालि  
तिवारी तथा 'सिद्धेश' वाद-विवाद और व्याख्यान प्रवेशिका  
आदर्श पु भ ३५०  
तिवारी, आदित्यनारायण गणित शिक्षण रा वेनीमाधव.  
३७५  
शैक्षिक मापन रा वेनीमाधव भा १. ३००, भा २.  
४००  
तिवारी, उदयनारायण, १९०५- गद्य पथ रा वेनीमाधव  
१५०  
तुलसीदल छात्रहितकारी १२५  
भाषाशास्त्र की रूपरेखा भा भ ८००  
भोजपुरी भाषा और साहित्य वि राष्ट्र १३.५०  
वीर-काव्य भा. भ ६००  
हिंदी भाषा का उद्गम और विकास भा भ १५००  
हिंदी भाषा तथा साहित्य राजकमल ५००, विद्यार्थी स  
४००  
हिंदी साहित्य विकास गर्ग व्र १५०  
तिवारी, उदयनारायण दे प्रियसन, जार्ज अब्राहम  
तिवारी, उदयनारायण दे द्विवेदी, गणेशप्रसाद  
तिवारी, उमाचरण नवीन-भू-परिचय रा वेनीप्रसाद ४००  
तिवारी, ए आर एव बनवारीलाल शर्मा प्रयोगात्मक भूगोल  
एव मौखिक परीक्षण शिवलाल ५००  
तिवारी, कमलाकर दे मोरलैड  
तिवारी, कृपाशंकर रसायन शास्त्र का सरल अध्ययन २ भा  
सुरेश ४१२ (प्र)  
तिवारी, कृष्णगोपाल मुखाकृति विज्ञान कल्याणदास ३७५  
तिवारी, गिरीशचंद्र कवि निराला और उनका काव्य सा  
भवन, इ ३००  
तिवारी, गोपीनाथ, १९१३- अभिनय नद व्र १५० ए  
ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यासकार सा रत्न भ ३००  
ऐतिहासिक उपन्यासकार वृदावनलाल वर्मा सरस्व पु  
स १७५  
नेताजी तथा अन्य एकाकी हि भवन २००  
भारतेदु कालीन नाटक साहित्य हि भवन ८००  
साहित्य सरोवर गयाप्रसाद ८००  
—तथा रामचंद्र तिवारी, सपा काव्यधारा विश्वविद्यालय  
३००  
तिवारी, गोरेलाल बुदेलखड का सक्षिप्त इतिहास ना प्र  
सभा ३७५  
तिवारी, चंद्रमाप्रसाद तथा अन्य व्यापार-पद्धति एव बाजार  
समाचार नद व्र एव नद स २००  
तिवारी, जगदीशनारायण नवनिकुज हि पु ए १५० क.  
श्रीकृष्ण उपदेश हि पु ए १२५ का  
तिवारी, जगन्नाथ सक्षिप्त रामचंद्रिका गयाप्रसाद ३०० का

- तिवारी, जयगोपाल आधुनिक समाज मनोविज्ञान का परिचय  
भा प्र मंदिर ४००  
तिवारी, जोगलेकर देवनागरी लिपि स्वरूप विकास और  
समस्याए हि सा भ १०००  
तिवारी, देवेन्द्रदत्त फुलभडी रा वेनीमाधव १०० वप्र  
तिवारी, देवेन्द्रदत्त 'देवेद्र' अग्नि-शिखा सर्वोदय सा ३.००  
तिवारी, द्वारकानाथ श्रीरामकृष्णलीलामृत स ४. २ भा.  
श्रीरामकृष्ण ५०० (प्र)  
तिवारी, नदकिशोर पद्मराग पु भ ३०० क  
तिवारी, नकछेदी तथा सुधाकर, सग्रा भडौआ-सग्रह २ भा  
भारतजीवन ०७५. का  
तिवारी, प्रभातकुमार प्रभात की ख्वाडया लोक चेतना १२५  
तिवारी, बलभद्र आधुनिक साहित्य की व्यक्तिवादी भूमिका.  
नद स ८००  
इलाचंद्र जोशी के उपन्यास रणजीत ३७५  
तिवारी, ब्रजगोपाल दर्शन शास्त्र के मूल तत्व पु भ, आ  
५५०  
दार्शनिक निबध पु भ, आ २००  
नीतिशास्त्र का परिचय. पु भ, आ ४००  
नीतिशास्त्र का सरल अध्ययन पु भ, आ ४५०  
पार्श्वत्य दर्शन का सरल अध्ययन (प्रश्नोत्तर) पु भ, आ.  
४००  
भारतीय दर्शन का परिचय पु. भ, आ ३००  
भारतीय दर्शन का सरल अध्ययन (प्रश्नोत्तर) पु भ, आ  
४००  
तिवारी, ब्रह्मदत्त शिव-रात्रि-व्रत गगा ०५० वप्र  
तिवारी, भगवानदास उल्कापात हि सा भ २००. क  
तिवारी, भगवानदास दे जोगलेकर, ना चि  
तिवारी, भवानीप्रसाद रस-छद-अलकार लोक चेतना ०५०  
तिवारी, भास्करनाथ ग्रथालय वर्गीकरण के आधारभूत  
सिद्धांत सा नि, व २२५  
पुस्तक चुनाव सिद्धांत और विधि हि प्रचा. पु ४००  
तिवारी, भोलानाथ कबीर और उनका काव्य. राजकमल  
४.५०  
कवि प्रसाद राजकमल ४००  
तुलनात्मक भाषा विज्ञान मोतीलाल १०००  
धधकती ज्वाला गगा ०३७ का  
निबध-प्रभाकर सशो स सूर्य प्र ६००  
भारतीय पौराणिक कथाए राजकमल ३५०, (पा) १००  
भाषा विज्ञान कि महल ७५०  
महाकवि देव कि महल २५०  
मुहावरा कोश कि महल  
वृहत् पर्यायवाची कोश कि महल १५००  
सक्षिप्त हिंदी कोष कि महल ३००  
हिंदी नीति-काव्य विनोद १०००  
हिंदी भाषा का सरल व्याकरण राजकमल ३५०; विद्यार्थी  
स २२०  
हे वापू, हे राष्ट्रपिता. गगा. ०३७

- सपा भाषा विज्ञान कोश ज्ञानमंडल २५.००  
 तिवारी, भोलानाथ दे गुणो, पी डी  
 तिवारी, माया दोस्ती का बदला भालोटिया ११.०० वप्र  
 मणिमाला भालोटिया १५०  
 तिवारी, रग भारतीय गाव मे प्रसार एव कल्याण कार्य  
 मगध ५२५  
 तिवारी, रमाकात राष्ट्रभाषा पाठमाला रा वेनीमाधव २२५  
 तिवारी, रमाशकर काव्यचिन्ता. चौखवा ७००  
 दिनकर की उर्वशी स २ चौखवा ३००  
 प्रयोगवादी काव्यधारा चौखवा  
 महाकवि कालिदास चौखवा ८००  
 महाकवि शूद्रक चौखवा  
 तिवारी, रमेशनारायण एक गोली दो शिकार नेशनल. १२५  
 वप्र  
 गुप्तचरी नेशनल  
 डा राधाकृष्णन् नेशनल १७५  
 तिवारी, रामचद्र अपना देश राजपाल १२५ वप्र  
 आओ करे सवारी राजपाल ०७५ वप्र  
 गगाजी सस्ता ०४० वप्र  
 जगल की सैर सस्ता ०४० वप्र  
 प्रबुद्ध सिद्धार्थ पर एक दृष्टि हि सा भ ०५०  
 विहारी वैभव विश्वविद्यालय १५०  
 मध्ययुगीन काव्य-साधना विश्वविद्यालय ४००  
 माटी की मूरत जागी सस्ता ०४० वप्र  
 वन-सपदा सस्ता ०४० वप्र  
 विज्ञान और सभ्यता आत्माराम ५००  
 संक्षिप्त रामचद्रिका विश्वविद्यालय २००  
 हिंदी का गद्य-साहित्य परि स २ विश्वविद्यालय ७५०  
 —तथा सिद्धि तिवारी धरती माता आत्माराम ३००  
 वि  
 पानी बोला आत्माराम २५० वि  
 बूढे बच्चे आत्माराम १५० वप्र  
 सुभद्रा नेशनल ५०० उ  
 —सपा आधुनिक हिंदी कवि और काव्य नया सा प्र  
 ६००  
 निवध-नीहारिका विश्वविद्यालय २५०  
 तिवारी, रामचद्र दे तिवारी, गोपीनाथ  
 तिवारी, रामदास तथा रामचरण मेहरोत्रा कार्बनिक रसायन  
 सशो स ४ श्रीराम मेहरा ४००  
 तिवारी, रामनारायण बच्चो की कहानिया राजपाल ०८०  
 वप्र  
 तिवारी, रामपूजन सूफीमत—साधना और साहित्य ज्ञानमंडल  
 ११००  
 तिवारी, राममोहन वुनियादी शिक्षा-शास्त्र विनोद ४५०  
 तिवारी, राममोहन दे शर्मा, बी डी  
 तिवारी, रामानंद श्री शकराचार्य का आचार-दर्शन हि सा.  
 सम्मे ५००  
 तिवारी, रामानंद. दे. देवराज, न. कि.

- तिवारी, रामेश्वरनाथ रेल की पटरिया अर्चना प्र, आ  
 तिवारी, रामेश्वरनाथ दे विश्वनाथसिंह  
 तिवारी, लल्लाराम ए मैनुअल आफ सस्कृत कपोजीशन रा  
 वेनीप्रसाद ०७५  
 सस्कृत अनुवाद-पुस्तिका अनु रामकृष्ण शुक्ल रा वेनी-  
 माधव १२५  
 तिवारी, विनायक एक आदर्श महिला सस्ता १०० जी  
 तिवारी, विश्वनाथ प्राकृतिक भूगोल का स्वरूप रामप्रसाद  
 १५००  
 तिवारी, शिवकुमार आर्थिक भूगोल केदारनाथ ६००  
 उत्तरी अमरीका केदारनाथ ५५०  
 एशिया सशो स २ केदारनाथ ६००  
 तीन दक्षिणी महाद्वीप केदारनाथ  
 प्रक्रियात्मक भूगोल सशो स २ केदारनाथ ५००  
 भारत सशो स ३ केदारनाथ ६००  
 भारत का आर्थिक तथा वाणिज्य भूगोल केदारनाथ ६००  
 भौतिक भूगोल सशो स २ केदारनाथ ५५०  
 मानव भूगोल सशो स २ केदारनाथ ५५०  
 यूरोप सशो स २ केदारनाथ ६००  
 तिवारी, शीतलप्रसाद कृषि कर्म रा वेनीमाधव  
 कृषि प्रवेशिका हि सा सम्मे १२५  
 तिवारी, सोमनाथ आर्थिक एव वाणिज्य भूगोल नद व.  
 ८५०  
 तिवारी, श्रीरग पगुओ का अनुभूत इलाज ज्ञानपीठ १५०  
 तिवारी, सत्यनारायण छत्रपति शिवाजी आदर्श हि १२५  
 जी  
 तिवारी, सिद्धि दे तिवारी, रामचद्र  
 तिवारी, सियाराम हिंदी के मध्यकालीन खडकाव्य हि सा  
 स २२००  
 तिवारी, सुरेशचद्र यशपाल और हिंदी कथा साहित्य सरस्व  
 प्रे ४००  
 तिवारी, हसकुमार पुनरावृत्ति ज्ञानपीठ १७५ ना  
 वगला और उसका साहित्य राजकमल २२५  
 भूस्वर्ग काशमीर ग्रथमाला १५० या.  
 मकडी मर गई ग्रथमाला १५० वप्र  
 मुगल-भारत ग्रथमाला १००  
 रिमफिम ग्रथमाला १७५ का  
 समानांतर ग्रथमाला २०० क  
 साहित्यिका ग्रथमाला २२५  
 तिवारी, हरिप्रसाद विज्ञान-कला-विनोद ४ भा इ प्रे  
 ०७५ (प्र) वप्र  
 तिवारी, हरिहरप्रसाद घाघ और भण्डरी स २ कन्हैयालाल  
 २०० कृषि  
 तिवारी, हीरालाल हिंदी काव्य-दर्शन सा रत्न-माला ६२५  
 तीखोव, ग सितारो की खोज पीपुल्स १००  
 तीर्थराम फिरोजपुरी ३ वजकर २० मिनट अशोक पा.  
 १०० उ  
 ३० लाख के हीरे सहगल २५०. उ.

तुर्गनेव अछूती धरती प्रभात प्र ६०० उ  
 एक आदारे की डायरी प्रचा. पा १००  
 कुआरी धरती रणजीत ६५० उ  
 कुलीन घराना आत्मराम. ३००. उ, — — नवयुग प्र  
 ४००  
 पहला प्यार हिद पा १००  
 पिता पुत्र प्रभात प्र ४०० उ  
 बाप-बेटे आत्मराम ३५० उ.  
 भद्रलोक का नीड नवयुग प्र ४०० उ  
 मजिल से पहिले प्रभात प्र. ३०० उ.  
 मेरा पहला प्यार राजपाल २५० उ  
 रुदिन चौधरी ३५०, — — प्रभात प्र ३०० उ.  
 लिजा अनु नेमिचंद्र जैन मित्र २५० उ.  
 वसत मजरी अनु ठा राजबहादुरसिंह ज्ञान प्र ३५० उ.  
 समर्पण प्रचा पा १.०० उ  
 स्वाभिमानी सस्ता २०० उ  
 तुर्गनेव, इवान कुलीन घराना पीपुल्स ११६ उ.  
 जिनैदा कि महल २५० उ  
 पिता और पुत्र पीपुल्स १८७ उ.  
 मधुमास के बीते दिन कि महल ५०० उ  
 शिकारी के शब्द चित्र पीपुल्स २८१ क  
 तुलसी दे इदरजीतसिंह 'तुलसी'  
 तुलसी, आचार्यश्री, १६१५- अग्नि-परीक्षा आत्मराम  
 ६५० का  
 अगुव्रत-गीत आदर्श सा १२५ का.  
 अशात विश्व को शांति का सदेश जैन श्वेतावर ०२५  
 आषाढभूति. आत्मराम २५०  
 कि तत्त्वम् जैन श्वेतावर ०१२  
 जैन सिद्धात दीपिका आदर्श सा ६५०  
 तीन-सदेश आदर्श सा ०३७  
 दीक्षा जैन श्वेतावर ०१५  
 नव निर्माण की पुकार आदर्श सा २०० सस्म  
 नैतिक सजीवन भा १ आत्मराम २००  
 भरत-मुक्ति आत्मराम ६००  
 भिक्षु न्याय कर्णिका आदर्श सा १००  
 विश्व शांति और उसका मार्ग जैन श्वेतावर ०१०  
 शांति के पथ पर आदर्श सा पहली मजिल १५०, दूसरी.  
 मजिल २००  
 शिक्षा षण्णवति कर्तव्य षट् त्रिशिका आदर्श सा ०७५  
 श्रद्धेय के प्रति आत्मराम २२५  
 श्रीकालू-उपदेश-वाटिका आत्मराम १२५०  
 सदेश आदर्श सा ०७५  
 तुलसीदास, गोस्वामी कवितावली, सटीक गीता ०५६,  
 — — टीका लाला भगवानदीन तथा विश्वनाथप्रसाद  
 मिश्र. स ४ रा वेनीप्रसाद २००  
 गीतावली गीता १.००, — — सपा वामदेव शर्मा रा.  
 वेनीमाधव २००  
 ग्रथावली. सपा. माताप्रसाद गुप्त २ ख हिंदु. एकेडेमी १५००

जानकी मंगल टीका वामदेव शर्मा रा. वेनीप्रसाद. ०३१.  
 का  
 तुलसी ग्रथावली सपा. रामचंद्र शुक्ल तथा अन्य ना प्र  
 सभा. भा २ ६२५  
 तुलसीदास के भजन देहाती ०७५  
 तुलसी दोहावली देहाती ०५०  
 तुलसी पदावली प्रभात प्र २.५० का  
 तुलसी सग्रह सपा काशीराम तथा चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद  
 शर्मा रा वेनीप्रसाद ०६२ का  
 तुलसी-साहित्य-रत्नाकर ज्ञानमडल ५००  
 दोहावली सपा वामदेव शर्मा रा वेनीमाधव १००  
 पार्वती मंगल टीका वामदेव शर्मा रा वेनीप्रसाद ०३१  
 का, — — सपा माताप्रसाद गुप्त हि सा सम्मे ०५०  
 बरवै रामायण टीका रा वेनीप्रसाद ०३७ का  
 रामचरितमानस इ प्रे ३००, — — सपा श्यामसुंदरदास.  
 इ प्रे १२००, — — सपा शभुनारायण चौबे ना प्र  
 सभा ८.७५, — — रत्नाश्रम २००, — — टीका चतु-  
 र्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा रा वेनीप्रसाद वालकाड १५०,  
 अयोध्याकाड २००, अरण्यकाड ०२५, सुंदरकाड  
 ०५६ उत्तरकाड. १००, लकाकाड १००, किष्किन्धा  
 काड ०१६; — — रा. वेनीप्रसाद ६००, — — सा  
 रत्न भ (सक्षिप्त) १२५, — — वाणी-वितान ५५०  
 रामचरितमानस का काशीराज सस्करण अनु विश्वनाथप्रसाद  
 मिश्र सर्वभारतीय राज स १५००, विशिष्ट स ८००,  
 साधारण स ६५०  
 रामललानहछू सपा वामदेव शर्मा रा वेनीमाधव. ०२५  
 रामाज्ञा-प्रश्न गीता ०३७, — — सपा वामदेव शर्मा रा  
 वेनीमाधव ०७५  
 रामायण भाषा टीका बहुत बडी. श्यामलाल २२००  
 विनय-पत्रिका सपा. रामलोचनशरण पु भ ७००,  
 — — टीका भगवानदीन तथा विश्वनाथ चौबे रा वेनी-  
 प्रसाद ३५०  
 वैराग्य सदीपिनी सपा वामदेव शर्मा रा वेनीमाधव ०३१  
 श्रीकृष्ण गीतावली सपा रामचंद्र श्रीवास्तव 'चंद्र' कि.  
 घर, ग्वा १७५, — — सपा. वामदेव शर्मा. रा वेनी-  
 माधव. ०.४४  
 श्रीरामचरितमानस (सिद्धात भाष्य) सपा. रामलोचन-  
 शरण ४ ख पु भ ५०००  
 सक्षिप्त गीतावली (सटीक). टीका. गुलाबराय सा रत्न भ.  
 ०५० का  
 तुलसीदास 'गैदा' मातृभक्ति नाटक श्री भा भारती २५०  
 तुली तथा वहल अकार्वनिक रसायनशास्त्र एस चाद ७२५  
 तुली तथा सोनी माध्यमिक रासायनिक गगुनाए. एस चाद  
 २००  
 रसायन की भाषा एस चाद १००  
 तूतूचेको, से सोवियत सघ मे मकान-निर्माण. पीपुल्स ०७५  
 तूफान. दे ब्रजमोहन तूफान'  
 तृषित. दे. अवस्थी, राजेद्र 'तृषित'

तृषित दे महेश 'तृषित'.

तेंद्रयाकोव, व घर जमाई पीपुल्स ० ५६ उ  
तेजकुमार निर्मोही भोजराज की कहानिया कि महल. ० ५५  
वप्र

तेजनारायण, काक निर्भर और पाषाण सा भवन, इ. १ ५०  
का

तेजनारायणलाल मैथिल लोकगीतो का अध्ययन विनोद  
१० ००

तेजनारायण सिंह दे शिवनदनप्रसाद

तेजसानद, स्वामी रामकृष्ण सघ—आदर्श और इतिहास स २  
श्रीरामकृष्ण (पा) ० ७५

तेलग दे राव, भालचद्र 'तेलग'

तेलग, शिवरत्न कीर्ति के फूल तुलसी १ २५ ना  
घरती की पूजा तुलसी ० ७५ ए

पाच राष्ट्रीय एकाकी तुलसी १ २५

तेला तथा अन्य अर्थशास्त्र परिचय कृष्णा ब्र ६ ००

माध्यमिक वारिण्य अर्थशास्त्र कृष्णा ब्र ६ ००

वारिण्य अर्थशास्त्र परिचय कृष्णा ब्र ५ ००

सामाजिक ज्ञान कृष्णा ब्र ३ ५०

तेला, एस सी प्रारम्भिक अर्थशास्त्र कृष्णा ब्र ३ २०

प्रारम्भिक भारतीय अर्थशास्त्र कृष्णा ब्र ३ २०

तेवेव्योव, मत्वेई स्नेगोवेत्स का होटल पीपुल्स ०.५० क

तैयवजी, रैहाना कृपा किरन बोरा १ ५० गीत

गोपी-हृदय हिंदु प्रचा सभा १ ००

नाश्ते से पहले हिंदु प्रचा सभा ० ७५

सुनिये काकासादब ! हिंदु प्रचा. सभा २ २५

तैलग, गोकुलानद तथा वनवारीलाल भारतेदु सगीत अष्टछाप  
सगीत ५ ५०

तैलग, भालचद्रराव हलवी, भतरी और छत्तीसगढी वोलियो  
का भाषा-वैज्ञानिक अध्ययन हिं ग र

तोमर पारिवारिक समाजशास्त्र दत्तवधु १ २५०

भारतीय सामाजिक सस्थाए स २ दत्तवधु १५ ००

समाजशास्त्र की रूपरेखा स ४ दत्तवधु भा १ ८ ५०,

भा २ ६ २५

सामाजिक विघटन दत्तवधु १ २ ५०

सामाजिक मनोविज्ञान भा १. दत्तवधु २ ५०

तोमर तथा दक सामाजिक अनुसंधान सशो स दत्तवधु

१ ५ ००

तोमर तथा फिलिप्स सामाजिक मानव शास्त्र सशो स

दत्तवधु १ ० ००

तोमर तथा अन्य नामाजिक समस्याए तथा सुरक्षा दत्तवधु

१ २ ५०

तोमर, अजमेर सिंह घरती रोती है. जवाहर ४ ०० उ

तोमर, अजितनारायण सिंह लालपरी राष्ट्र प्र म २०० वप्र

तोमर, ओमनारायण, नपा एकाकी सुधा ववई हिं १ ५०

तोमर, टीकम सिंह हिंदी वीर काव्य (१६००-१८०० ई).

हिंदु एकेडेमी १ २ ००

तोमर, रामविहारी निह ग्रामीण समाजशास्त्र श्रीराम मेहरा

नागरिक समाजशास्त्र श्रीराम मेहरा ७ ५०

प्रारम्भिक सामाजिक मनोविज्ञान श्रीराम मेहरा १०.००

भारतीय सामाजिक सगठन श्रीराम मेहरा २ ५०

माध्यमिक समाजशास्त्र २ ५०

व्यक्तित्व श्रीराम मेहरा १ ० ००

सामाजिक मनोविज्ञान श्रीराम मेहरा १ ८ ००

सामाजिक सिद्धांत भा. १ श्रीराम मेहरा ५ ००

सामाजिक सूक्ष्मदर्शी सामाजिक व्यक्तित्व अध्ययन प्रणाली  
श्रीराम मेहरा १ ० ००

सामान्य समाजशास्त्र समाज, सस्कृति तथा व्यक्तित्व  
श्रीराम मेहरा १ ० ००

हिंदु विवाह एव परिवार की समस्याए श्रीराम मेहरा ६ ००

तोमर, रामविहारी सिंह दे यग, किंवल

तोमर, रामविहारी सिंह दे सोरोकिन, पी ए

त्यागी भाषा विज्ञान की रूपरेखा तुलसी १ ५०

विज्ञान के नये चरण प्रभात पब्लि ५ ००

त्यागी तथा मेहरा भारतीय सस्कृति का विकास स ८  
रस्तोगी ६ ००

त्यागी, एन के आधुनिक भारत का इतिहास रस्तोगी ६ ००

प्रमुख राजनीतिक विचारक स २ रस्तोगी ४ ००

प्राचीन भारत स ३ रस्तोगी ६ ००

त्यागी, एम एस आधुनिक यूरोप का इतिहास स ७

रस्तोगी १६४८-१८१५ ४ ५०, भा १ १७८६-१८४८

५ ००, भा. २ १८४८-१९४५ ६ ००, भा १ १७८६-

१८७० ५ ५०, भा २. १८७०-१९४५ ५ ५०, १८१५-

१९४५ ८ ००, १७८६-१९४५ १ ० ००

आधुनिक राजनीति मे विभिन्नवाद भा २ स ६ रस्तोगी  
५ ००

ग्रेट ब्रिटेन की शासन प्रणाली स. ७ रस्तोगी २.२५

प्रमुख देशो की शासन प्रणालिया स ६ रस्तोगी ५ ५०,  
७ ००

फ्रांस की शासन प्रणाली रस्तोगी १ ००

भारतीय शासन प्रणाली स ३ रस्तोगी २ ५०

मध्यकालीन यूरोप का इतिहास स २ रस्तोगी ४ ००

राष्ट्रीय आलोलन एव भारतीय सविधान स ७ रस्तोगी  
५ ५०

सरल राजनीतिक शास्त्र भा १ स ८ रस्तोगी ५ ५०

त्यागी, एस एस. दे शर्मा, वी एल

त्यागी, गुरुसरनदास अर्थशास्त्र शिक्षण विनोद ४ ००

इतिहास शिक्षण सशो स २ विनोद ४ ५०

सामाजिक अध्ययन तथा नागरिक शास्त्र का शिक्षण सशो  
स २ विनोद ४ ००

त्यागी, टीकाराम एक स्वप्न राष्ट्रीय प्र मंदिर २ ०० उ

त्यागी, भारतभूषण काव्य कलाधर दीपिका—रामकृष्णदास  
लायल ३ ००

निवध निधि गयाप्रसाद २ ००

विज्ञान वाटिका गयाप्रसाद २ ५०

—तथा गुलावराय निवध पारिजात गयाप्रसाद ३ ००

त्यागी, भारतभूषण दे राकेश.

त्यागी, भीमसेन. ओ हैनरी की श्रेष्ठ कहानिया. अर्चना प्र.

(पा) १००

मगरमच्छ का शिकार उमेश. २.००. वप्र

सथाल की लोक-कथाए. आत्माराम १५०

—मोहन गुप्त कुरान की लोक-कथाए आत्माराम १२५

त्यागी, महावीर मेरी कौन सुनेगा राजपाल २५० सस्म.

वे क्रांति के दिन हिंदू पा १००

त्यागी, महावीरसिंह. नागगिक शास्त्र दर्पण रोगल ४५०

त्यागी, रवींद्रनाथ. सूखे और हरे पते भा. भ. ३५० का.

त्यागी, रामावतार, १९२५- चरित्रहीन के पत्र. नव सा प्र.

२.००

मै दिल्ली हूँ स २ बसल १०० वप्र

समाधान. आत्माराम २०० उ

त्यागी, वी एन विज्ञान के नये चरण अपर. ५००

त्यागी, सुंदरलाल गोरा-बादल सस्ता ०४० वप्र.

त्रिखा, ओमप्रकाश ग्राम-सुधार सस्ता १२५

हमारा भोजन सस्ता.

त्रिगुणायत, गोविंद, १९२४- कबीर और जायसी का रहस्य-

वाद एव तुलनात्मक विवेचन सा सदन, दे ६००

कबीर की विचारधारा सा नि, का ६५०

जायसी का पद्मावत काव्य और दर्शन अशोक प्र १५००

निर्गुण काव्यधारा की दार्शनिक पृष्ठभूमि सा नि, का

२५.००

शास्त्रीय समीक्षा के सिद्धांत एस चाद भा १ ८.००,

भा. २ १०.००

समीक्षाशास्त्र के सरल सिद्धांत एस. चाद ४.००

हिंदी की श्रेष्ठ कहानिया सा नि, का ३५०

हिंदी दशरूपक सा नि, का ६२५

त्रिगुणायत, जगदीश वासरी बज रही बि राष्ट्र. ८००

लोकगीत

त्रिगुणायत, सरला मध्य-कालीन साहित्य पर बौद्ध धर्म का

प्रभाव सा नि, का १५००

त्रिपाठी. हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास अशोक पु म

१.५०

—तथा टडन शिक्षालय सगठन के सिद्धांत कि महल. ५.००

—तथा शर्मा पारिवारिक समाजशास्त्र कि. महल ४५०

त्रिपाठी, अवधविहारी धरती के सुराख. गगा २५० उ.

त्रिपाठी, आर आर व्यावहारिक मनोविज्ञान गयाप्रसाद

८७५

त्रिपाठी, आर एस प्राचीन भारत का इतिहास मोतीलाल

१५.००

त्रिपाठी, कमल. समाधि अग्रवाल प्रिं ०७५ उ

त्रिपाठी, कमलापति, १९०५- बंदी की चेतना ना. प्र. सभा

५०० नि.

वापू और भारत नद ब्र. एव नद स ५००.

वापू और मानवता नद ब्र एव नद स ५.००

वापू के चरणों में नद. ब्र. एव नद. स १५०.

मौर्यकालीन भारत ना. प्र. सभा २५०

युगपुरुष नद. ब्र एव नद स २०० राजनीतिक

—तथा पुरुषोत्तमदास टडन पत्र और पत्रकार

ज्ञानमंडल ६५०

त्रिपाठी, कमलेशदत्त दे. अमर, महाकवि

त्रिपाठी, कमलेशदत्त दे भारवि

त्रिपाठी, करुणापति गद्य सकलन नद. ब्र. २५०

भाषा-शिक्षण नद ब्र एव नद स २२५

व्याकरण ज्योत्स्ना हि प्रचा पु भा १ ० ६२, भा. २

१२५ भा ३ १३१

शैली. सा सेवक ३.५० आ

हिंदी धातु और क्रियापद ना. प्र सभा.

—सपा काव्य संग्रह भा १. हि सा सम्मे १७५

लघुतर शब्दसागर ना प्र सभा. ६.००

लघुशब्द सागर ना प्र सभा. ११.००

त्रिपाठी, करुणापति दे त्रिपाठी, रामप्रताप

त्रिपाठी, करुणापति दे श्रीकृष्णलाल

त्रिपाठी, कांति जीवन दीप सा. भवन, इ १५० का.

त्रिपाठी, कालिकाप्रसाद किशोर हिंदी व्याकरण श्री प्रभाकर.

१.००

बाल एकाकी राष्ट्रीय प्र. मंदिर ०५०

त्रिपाठी, कृष्णकांत महाकवि भवभूति और उनका रामचरित.

सा नि, का. २७५

त्रिपाठी, कृष्णमुरारि भग्न प्रतिमाए. साहित्यवारी ३०० क

त्रिपाठी, कैलाशभूषण. वायोकेमिक रहस्य मेडिकल. १५०

होमियो गीतावली. मेडिकल २००

त्रिपाठी, गगाचरन कुरुक्षेत्र सरल अध्ययन. रस्तोगी ४००

यशोधरा सरल अध्ययन रस्तोगी ३००

त्रिपाठी, गयादत्त खाद और उनका व्यवहार. रा वेनीप्रसाद.

०.५०

मूंगफली को खेती रा. वेनीमाधव.

लाख की खेती रा वेनीमाधव ०३७

त्रिपाठी, गिरिजादत्त काव्य समीक्षा पु. भ ७.५०

त्रिपाठी, गोपीनाथ भारतेदु के नाटकों का तात्विक अध्ययन

एस चाद.

त्रिपाठी, गोवर्धनराम. सरस्वतीचंद्र. अनु पद्मसिंह शर्मा कमलेश.

भा ग्र भ ७.५० उ

त्रिपाठी, चंद्रदीप नारायण भक्त प्रह्लाद हिं. पु. ए ० ६४.

वप्र.

वीर अभिमन्यु हि पु ए. ० ६४. वप्र.

त्रिपाठी, छविनाथ कहानी कला तथा उसका विकास

जुगल किशोर.

त्रिपाठी, जगदीशनारायण. अर्थशास्त्र का सरल अध्ययन.

आगरा बुक ६.००

आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तिया प्रत्यूष. ३५०

आधुनिक हिंदी-कविता में अलंकार-विधान अनुसंधान.

१५००

आर्थिक चिंतन का विकास. कि. घर, का



श्रम सामाजिक कल्याण एव सुरक्षा कि घर, का १०००  
 सुकवि समीक्षा कि घर, का ५००  
 हिंदी ज्ञानोदय (व्याकरण और रचना) कि, घर, का १५०  
 त्रिपाठी, जगदीशनारायण दे निगम, दुर्गादियाल  
 त्रिपाठी, जयशंकर, १९२८- आजनेय कौशावी २००  
 चरवाहो का देश कौशावी २०० ना  
 'जगद्गुरु'—परिशीलन कौशावी २००  
 देव-पुत्रो का स्वाभिमान कौशावी १.२५  
 माता भूमि कौशावी २०० नि  
 मिट्टी के मानव कौशावी १५० का  
 मिश्र जी और उनका 'चक्रव्यूह' नाटक कौशावी १००  
 त्रिपाठी, त्रिवेणीप्रसाद व्यावहारिक मनोविज्ञान रा  
 वेनीमाधव ४७५  
 त्रिपाठी, देवदत्त तुलसी-साहित्य ग्रथमाला ०५०  
 त्रिपाठी, धूनिराम सस्मरण और आत्मकथाए हि प्रचा पु  
 १२५  
 त्रिपाठी, नागेंद्रपति गार्हस्थ्य-स्वास्थ्य-विज्ञान ग्रथमाला २००  
 शरीर-स्वास्थ्य-विज्ञान ग्रथमाला २००  
 सरल गार्हस्थ्य-विज्ञान ग्रथमाला १००  
 सरल प्रारंभिक चिकित्सा ग्रथमाला १७५  
 त्रिपाठी, पलकधारी 'पलक' दे श्रीवास्तव, भागवतलाल  
 त्रिपाठी, पी एस भारतीय इतिहास का परिचय यग मैन  
 ४५० से ६५०  
 त्रिपाठी, पी सी दे अग्रवाल, आर के  
 त्रिपाठी, प्रभुनारायण मोटापा कम करने के उपाय नद ब्र  
 १००  
 त्रिपाठी, वावूराम अभिज्ञान शाकुतलम् (अक चतुर्थ) रतन  
 २२५  
 कुरुक्षेत्र रतन २५० आ  
 महाकवि कालिदास अभिज्ञान शाकुतलम् रतन ८२५  
 महाकवि कालिदास और उनकी शकुतला रतन ३००  
 लघु सिद्धांत कौमुदी (संधि प्रकरण) रतन २२५  
 संस्कृत रचना सरणि विनोद भा १ २००, भा २ २५०  
 त्रिपाठी, वाल्मीकि उपेक्षिता प्रत्युष ४५० उ  
 जहादारशाह प्रत्युष ५५० उ  
 प्रजाप्रिय प्रजेश प्रत्युष ४०० उ  
 विकलाग प्रत्युष ६०० उ  
 सत्ता और सघर्ष प्रत्युष ५०० उ  
 त्रिपाठी, ब्रजेन्द्र. माध्यमिक प्रायोगिक रसायन एस चाद २००  
 त्रिपाठी भवानीभीख दिव्य पानी का पैसा हि भवन ०७५  
 वप्र  
 त्रिपाठी, यमुनाप्रसाद, सपा केनोपनिषद् मोतीलाल ४००  
 त्रिपाठी, रमनाथ रचना-रत्नाकर आदर्श पु भ ३००  
 त्रिपाठी, रमाकांत अलवेली पक्षी मजु ३५० क  
 एक लौ एक दर्द मजु ३५० उ  
 कवियों की ठिठोली भा २ हि पु ए १५०  
 वाल महाभारत हि पु ए १५० वप्र  
 वाल श्रीकृष्ण कथा हि पु ए ०८८ वप्र

हिंदी महाभारत सचित्र हि पु ए ६००  
 त्रिपाठी, रमनाथ, १९२६- कमल कुलिश भा सा सदन  
 १७५, (पा) १०० उ  
 कृतवासी बगला रामायण और रामचरितमानस का  
 तुलनात्मक अध्ययन भा प्र मंदिर १५००  
 योगमाया प्रभात प्र ३०० उ  
 त्रिपाठी, रमाशंकर प्राचीन भारत का इतिहास परि स  
 १९६२ मोतीलाल १२००  
 —सपा सरस कहानी कुज रामप्रसाद २५० क  
 त्रिपाठी रमेशचन्द्र वारह वादाम हि पु ए १५० क  
 त्रिपाठी, राजकिशोर टिमटिमाते दीप आदर्श पु भ ३५०  
 उ  
 हिंदी-साहित्य का आधुनिक इतिहास आदर्श पु भ ३००  
 त्रिपाठी, राजदेव धान की खेती १००  
 त्रिपाठी, राधेश्याम कीर्ति स्तभ कृष्णा ब्र ४५० का  
 पद्मावती समय कृष्णा ब्र २५०  
 सासे बिखर गई कृष्णा ब्र ३५० का  
 त्रिपाठी, राधेश्याम दे शर्मा, मुशीराम  
 त्रिपाठी, रामखिलावन ठगो का दादा गगा १२५ वप्र  
 परियो की दादी गगा १०० वप्र  
 त्रिपाठी, रामनरेश आधुनिक कवि भा ८ हि सा सम्मे ३००  
 ग्राम-साहित्य आत्माराम भा १ ५००, भा २ ७००  
 तुलसी और उनका काव्य राजपाल ७००  
 पथिक (सक्षिप्त सस्करण) आदर्श पु भ  
 लक्ष्मी इ प्रे १०० उ  
 स्वपन हि प्र म ०७५ का  
 हिंदी मुहावरे आत्माराम १००  
 —सपा घाघ और भड्डरी स २ हिंदु एकेडेमी १५०  
 लोक सा  
 त्रिपाठी, रामनरेश दे परीख, नरहरि द्वारकादास  
 त्रिपाठी, रामनाथ ग्राम सेविका कि महल ०७५ वप्र  
 त्रिपाठी, रामनारायण जलपरी विद्या प्र म ०७५ वप्र  
 त्रिपाठी रामप्रताप, १९१८- प्राचीन भारत की भूलक  
 कौशावी ४५०  
 राष्ट्रभाषा के पुजारी रामप्रसाद २२५ जी  
 —तथा करुणापति त्रिपाठी ऋषियो मुनियो की कहानिया  
 कौशावी १२५  
 —अनु मत्स्य महापुराण हि सा सम्मे २०००  
 वायु महापुराण हि सा सम्मे १२००  
 शिशुपाल वध हि सा सम्मे ८००  
 —सपा तथा अनु पुराणो मे गगा सपा दयाशंकर दुवे  
 हि सा सम्मे ३५०  
 त्रिपाठी, रामप्रसाद विश्व-इतिहास हि समि १४५०  
 त्रिपाठी, रामफेर कवि और लेखक स ३ मालवीय २२५  
 त्रिपाठी, रामवरण युग-भारती हि सा सृजन १०० का  
 त्रिपाठी, रामभरोसे चमकता ससार सन्मार्ग २०० उ  
 त्रिपाठी, राममूर्ति भारतीय दर्शन नद ब्र एव नद स  
 ६५०



महाभारत गगा ८००  
 रवींद्र कविता कानन हि प्रचा पु ० ६७  
 रामायण (बालकांड) गगा २००  
 रामायण (विनय खंड) राष्ट्र प्र म २२५ का  
 लिली गगा २५० क  
 सुकुल की वीवी भा भ १२५ क  
 —अनु श्रीरामकृष्णवचनामृत श्रीरामकृष्ण भा १ स ४  
 ६५०, भा २ स २, ६००, भा ३ स २ ७००  
 त्रिपाठी, सूर्यकांत 'निराला' के विवेकानंद, स्वामी  
 त्रिपाठी, सूर्यनारायण सितारो की दुनिया रूपसी १५०  
 उ  
 त्रिपाठी, हरिहरनाथ प्राचीन भारत में अपराध और दंड  
 चौखवा ६००  
 त्रिपाठी, हवलदार 'सहृदय' बौद्धधर्म और विहार वि राष्ट्र  
 ८००  
 त्रिपाठी, हवलदार 'सहृदय' के दडी  
 त्रिपाठी, हीराप्रसाद आकाश की सीमा पुष्पी १२५ उ,  
 —सुरेद्र ३५०  
 आम रास्ता नहीं है रूपसी १५० उ  
 टूटती हुई मजिल रूपसी १५० उ  
 परती की उसास बेला ४५० उ  
 पैवद के रगीन दाग पुष्पी ० ७५ उ, —सुरेद्र २००  
 त्रिभुवनपति सिंह मृगनयनीया मृगछाला अशोक पु म  
 ३५० उ  
 शहीद की समाधि अशोक पु म ४५० उ  
 श्यामा मिश्रा पु भ ३५० उ  
 त्रिभुवन सिंह, १९२६- आधुनिक हिंदी कविता की स्वच्छद  
 धारा हि प्रचा पु ५००  
 ऐतिहासिक उपन्यास की सीमा और वाराणसी की आत्मकथा  
 नद ब्र १५०  
 दरवारी सस्कृति और हिंदी मुक्तक हि प्रचा पु ४५०  
 महाकवि मतिराम हि प्रचा पु १०००  
 हिंदी-उपन्यास और यथार्थवाद हि प्रचा पु ८००  
 त्रिलोक मजुपुरिया प्राणविज्ञान सरल परिचय गयाप्रसाद  
 ३००  
 त्रिलोकीनाथ प्रेमी सूरसाधना और साहित्य आदर्श पु भ  
 २५०  
 त्रिलोचन शास्त्री गुलाब और बुलबुल सुभाष २२५  
 दिगत सा केन्द्र २५० का  
 त्रिलोचन सिंह स्वस्थ शिक्षा तथा मनोरंजक क्रियाए पजावी  
 पल्लि ५००  
 त्रिलोचन सिंह के कुलवीर सिंह  
 त्रिवेणीप्रसाद कलाकारों की फुलझडिया कला-नि १००  
 वप्र  
 देश-विदेश की नहरे कला-नि १३७ वप्र  
 मस्तराम की चिट्ठिया कला-नि १२५ वप्र  
 त्रिवेणीप्रसाद सिंह ग्रह-नक्षत्र वि राष्ट्र ४२५  
 हिंदू धार्मिक कथाओं के भौतिक अर्थ वि राष्ट्र. ३००

त्रिवेदी पुष्पिता की प्रामाणिक टीका रीगल ४५०  
 —तथा डेविड गांधी साहित्य एवं शिक्षा मानकचद १२५  
 नि  
 —तथा पहाडी निबंध-कहानी संग्रह रा वेनीमाधव १७५  
 नि  
 त्रिवेदी, आर के यूरोप का इतिहास २ भा लायल ३००  
 (प्र)  
 —तथा विमला अग्रवाल इंग्लैंड का इतिहास लायल ४००  
 त्रिवेदी, काशिनाथ पुराने बोल नये मोल ग्रामभारती १५०  
 त्रिवेदी, काशिनाथ के बंधेका, गिजुभाई  
 त्रिवेदी, कृपाशंकर माध्यमिक आकिक भौतिकी स २  
 आगरा बुक ५००  
 त्रिवेदी, क्षेमकरणादास, भाष्य अथर्ववेद शतकम् गोविंदराम  
 १००  
 त्रिवेदी, देवसहाय, १९११- प्राड् मौर्य विहार वि राष्ट्र  
 ७२५  
 त्रिवेदी, पद्मा मिट्टी के देव हि ग्र र ३.५० उ  
 त्रिवेदी, भवानीशंकर, १९१५- आधुनिक कविताजलि श्री  
 भा भारती - ७५  
 आधुनिक महाकवि श्री भा भारती २००  
 उत्तरकांड सटीक रीगल २००  
 छंदोऽलंकार-दीपिका श्री भा भारती १२५  
 द्वापर व्याख्या तथा विवेचन रीगल ४५०  
 नव्य कविताकुज श्री भा भारती २२५  
 प्रिय प्रवास की टीका रीगल ६००  
 वीसलदेव-रासो रीगल २५०  
 वासती श्री भा भारती २२५ का  
 हमारा हिंदी साहित्य और भाषा-परिवार श्री भा भारती  
 हिंदी कवि सर्वस्व श्री भा भारती ५०० [७००  
 हिंदी पद्य प्रकाश की टीका रीगल ३००  
 त्रिवेदी, मुक्तिनारायण 'वसंतपुरी जनका राष्ट्र प्र म  
 ३०० उ  
 निबंध चयनिका राष्ट्र प्र म २२५  
 त्रिवेदी, मेवाराम 'राकेश' द्वापर का काव्य सौंदर्य पु भ, आ  
 ४००  
 त्रिवेदी, रतिलाल नया रास्ता बोरा ३७५ उ  
 त्रिवेदी, रश्मिकांत अखिया दरसन की प्यासी सांस्कृतिक  
 १००० उ  
 उडजा पछी, शिकारी आया सांस्कृतिक उ  
 केहि विध मिलना होय ? सांस्कृतिक १००० उ  
 ग्रथसूची सांस्कृतिक ५००  
 ग्रथालय आयोजन सांस्कृतिक १०००  
 ग्रथालय वर्गीकरण सांस्कृतिक १५००  
 ग्रथालय विज्ञान के सिद्धांत सांस्कृतिक १०००  
 जियरा भयो उदास सांस्कृतिक उ  
 नैन मिले-चैन कहा ? सांस्कृतिक ५०० उ  
 पिया आनके लुभाय गयो सांस्कृतिक ५०० उ  
 पिया बसे परदेस. सांस्कृतिक उ.

पिया मिलन की बांवरी. सांस्कृतिक ५.०० उ.  
 बसो मेरे नैनन मे सांस्कृतिक. १०.०० उ.  
 मेरे अंगुण चित्त न धरो. सांस्कृतिक उ  
 मेरे साहित्य मे अश्लीलता तथा यौन समस्याये प्रत्युत्तर.  
 सांस्कृतिक ६.००  
 मोहिनी-मूरत- सावरी सूरत सांस्कृतिक ५.०० उ.  
 सजनवा घर आजा सांस्कृतिक उ  
 सैया मोरा मान रे सांस्कृतिक उ  
 हेरी-मै तो दर्द दिवानी सांस्कृतिक १०.०० उ  
 त्रिवेदी, रामगोविंद हिंदी ऋग्वेद इ प्रे १२.००  
 त्रिवेदी, रामचंद्र गाव सुधार कैसे हो ? गगा १५०  
 त्रिवेदी, रामनरेश भारतीय शासन मोतीलाल ४.२५  
 त्रिवेदी, रामप्रसाद प्रगतिवादी समीक्षा ग्रथम १०.००  
 त्रिवेदी, रामानंद चित्रकूट विनोद १.२५ खड का  
 त्रिवेदी, रेवाशकर, व्या व्यक्ति विवेक चौखवा  
 १६.००  
 त्रिवेदी, विपिनविहारी. चद वरदायी और उनका काव्य हिंदु.  
 एकेडेमी. ८.००  
 त्रिवेदी, सुरेश तथा विष्णुप्रसाद जानी गुजराती साहित्य का  
 नवीन इतिहास आशा प्र  
 त्रिवेदी, हरगोविंद हस्तरखा विज्ञान हि प्रचा. पु ३.००  
 त्रिवेदी, हरीराम श्री 'रमा' जी और उनका काव्य हि  
 साहित्यालय ०.७५

## थ

थत्ते, यदुनाथ. अकिली की कहानी अ भा. सर्व. ०.६०  
 थपलियाल फ्रेच पालिश पेटिंग रा वेनीमाधव ०.५०  
 थपलियाल, मयादत्त तथा विध्याचल राय आथौग्राफिक  
 प्रोजक्शन और स्केल ड्राइंग रा वेनीमाधव ०.६२  
 थपलियाल, रामरतन विश्व-दर्शन गगा ३.५०  
 थपलियाल, हरिप्रसाद जीवन सघर्ष प्रभात प्र. ४.०० उ.  
 थाऊस, हेनरी कार्ल स्टीनमिट्च एस चाद १.०० वप्र  
 थानी, योगराज अच्छी अच्छी कहानिया आर्य बुक १.५०  
 आध्र राजहस १.७५  
 कला और आसू अर्चना प्र (पा) १.००  
 गद्यलेखिका महादेवी वर्मा एस चाद  
 छोटी बडी कहानिया आर्य बुक. २.००  
 नई नई कहानिया आर्य बुक १.५०  
 नई पुरानी कहानिया आर्य बुक एव आशा प्र १.५०  
 पशु पक्षियों की कहानिया आर्य बुक एव आशा प्र  
 १.५०  
 भोला बाल सदन वप्र  
 मद्रास राजहस १.७५  
 ममता जीत गई बाल सदन वप्र  
 मैसूर. राजहस. १.७५  
 रवि और देव बाल सदन १.५०. वप्र

रोचक कथाएं आत्माराम. .१ ५०. वप्र.  
 सुंदर शरीर अर्चना प्र. (पा.) १.००  
 हीरे की अगूठी आर्य बुक १.५०  
 थापा, रत्ना सुख दुख सा सदन, दे १.५०. क.  
 थोरो पथ की खोज राजपाल ६.००  
 थ्योरो. सरल जीवन की साधना. अनु विद्याधर महाजन.  
 पजाब यू

## द

दडी दशकुमार-चरित रूपा हवलदार त्रिपाठी 'सहृदय'.  
 ज्ञानपीठ ३.००  
 दशकुमार चरित प्रचा. पा १.०० उ  
 दशकुमार चरित २ भा सस्ता. ०.४० (प्र) वप्र.  
 दशकुमारचरितम्—पूर्व पीठिका प्रथम उच्छ्वास रा. वेनी-  
 प्रसाद १.००  
 विश्रुतचरितम्. रा वेनीप्रसाद. १.२५  
 दइया दे सुमेरसिह दइया'  
 दक भारत मे लोकतांत्रिक विकेद्रीकरण. दत्तवधु ५.००  
 सामाजिक विचार एव विचारक. दत्तवधु १२.५०  
 दक, तेजमल भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र कि. महल.  
 १२.५०  
 दत्त दे सारस्वत, उमादत्त 'दत्त'  
 नर-नारी प्रभात पब्लि ४.५०  
 पाश्चात्य दर्शन का इतिहास. बुकलेड ४.००  
 दत्त, अश्वनीकुमार भक्तियोग हि पु. ए ३.२५  
 दत्त, उपेन्द्रचंद्र इटरमीडिएट ठोस ज्यामिति रा वेनीप्रसाद.  
 १.५०  
 प्रारभिक कलन पु भ. ३.००  
 दत्त, ए सी तथा पी एन सक्सेना वनस्पति-शास्त्र २ भा.  
 अपर ६.०० (प्र)  
 दत्त, कालीकिंकर कुवरसिंह-अमरसिंह अनु छविनाथ पाडेय.  
 वि राष्ट्र ५.००  
 दत्त, के के दे सरकार, एस सी  
 दत्त, टी के नर-नारी अपर ४.५०  
 दत्त, धीरेन्द्रमोहन. दे चट्टोपाध्याय, सतीशचंद्र  
 दत्त, नलिनाक्ष तथा कृष्णदत्त वाजपेयी उत्तर प्रदेश मे बौद्ध  
 धर्म का विकास हि समि ६.००  
 दत्त, माइकेल मधुसूदन क्या यही सभ्यता है ? सा. भवन, इ.  
 १.५० ना  
 दत्त, रमेशचंद्र प्राचीन भारत की सभ्यता का इतिहास अनु.  
 गोपालदास तथा कमलाकर तिवारी. आदर्श हि. १५.००  
 महाराष्ट्र जीवन-प्रभात इ प्रे २.००. उ.  
 माधवी ककण इ प्रे १.५० उ  
 राजपूत-जीवन-सध्या इ प्रे २.००. उ  
 समाज इ प्रे १.२५ उ  
 सुधा. इ प्रे २.७५. उ.

दत्त, विभूतिभूषण तथा अवधेशनारायण सिंह हिंदू गणित-  
शास्त्र का इतिहास हिं समि ३००  
दत्त, विमलकुमार भारत-शिल्प इ प्रे ४००  
दत्त भारती अगारे रतन एड क २५० उ  
अंतिम चित्र पजावी पु ४५० उ  
अधो की दुनिया पजावी पु ३५० उ  
अधिकार. अर्चना प्र (पा) १०० उ, ——पजावी पु  
२५०  
अपमान पजावी पु ३०० उ  
अभिज्ञाप पजावी पु ३५० उ  
अमृत और विष शारदा म ३५० उ, — —स्टार  
(पा) १००  
आकाश खाली है ऐडी ४६० उ  
आत्म-समर्पण पजावी पु ३०० उ  
आवागमन शारदा म ४५० उ  
कला और कलाकार पजावी पु २५० उ, — —स्टार  
(पा) १००  
कल्पना पजावी पु २५० उ, — —स्टार (पा) १००  
गुनाह शमा २६५ उ  
चरित्र के न्यायी पजावी पु ३५०  
चोट शमा ३७५ उ  
जानवर पजावी पु ३५० उ, — —रतन एड को  
(पा) २००  
तन की हार पजावी पु ३५० उ  
तीसरा रास्ता पजावी पु ३५०  
दो उपन्यास ऐडी ४३० उ  
पतित पजावी पु ४०० उ, — —रतन एड को (पा)  
२००  
पथ के राही पजावी पु २२५ उ, — —स्टार (पा)  
१००  
मानव, मगीन और मृत्यु पजावी पु ४००  
मुक्ति के पथ पर बर्बडे प्र ३५० उ  
मुरभाए फूल शारदा म ३५० उ  
समाज का पतन पजावी पु ७०० उ  
दत्ता, विमला अजता की बोलती तस्वीरे नेशनल २५०  
नये जीवन की ओर सस्ता १००  
दत्तिल मुनि दत्तिलम् टीका कर्लिन संगीत २००  
दहा दे मिश्र, दयाशकर 'दहा'  
दमानी नारायण कटाक्ष की उडन किन्त जुही-कृज का  
दया दे गोपालनाथ 'दया'  
दयानंद, स्वामी, १८२४-१८८३ उपदेश मजरी देहाती २५०  
ऋषि दयानंद सरस्वती का स्वलिखित और स्वकथित जीवन  
चरित भा प्राच्य ०५०  
दयानंद ग्रंथ संग्रह गोविंदराम ४५०  
पंच महायज्ञ विधि आर्य ना ०१६  
भागवत-खंडनम् अनु युधिष्ठिर मीमांसक भा प्राच्य  
०५०  
मनुस्मृति. देहाती ४५०

यजुर्वेद भाष्य-विवरण सपा ब्रह्मदत्त जिज्ञासु भा प्राच्य  
१६००  
व्यवहार-भानु भा प्राच्य ०२५  
संस्कार-विधि. आर्य सा ११२, — —देहाती २००  
सत्यार्थप्रकाश देहाती २५०, ३२५  
सत्यार्थप्रकाश, मोटे अक्षरो वाला देहाती १५००  
दयानंदनारायण 'स्वामी' अशोक सक्षिप्त हिंदी शब्दसागर हिं  
सा स ६००  
हिंदी-गुजराती प्रवेश हिं सा स १५०  
दयाभानु 'अलख' जादू का हंस मिश्र-बघु. ०७५ वप्र.  
दयाराम, कविश्री-माला गुजराती राष्ट्र प्रचा समि २००  
दयाल शनिमाला-कथा सपा उदयशकर शास्त्री क मु हिं  
—तथा जैन व्यापार-पद्धति आगा पब्लि ४७५  
दयाल फकीर आकाशीय रचना शिव सा ०५०  
आवागमन उर्फ जीवन रहस्य शिव सा १००  
कर्मभोग या मौज २ भा शिव सा १०० (प्र)  
जगत कल्याण शिव सा ०७५  
५० वर्षीय फकीर अनुभव शिव सा ०५०  
फकीर भजनावली शिव सा ०७५  
फकीर वचनमृत शिव सा ०३७  
मनुष्य बनो शिव सा ०६२  
मानव धर्म प्रकाश शिव सा ०७५  
दयाव्रत दे कलवर, रानी  
दयाशकर स्वास्थ्य शिक्षा देहाती ४००  
दयाशकर 'हरीश' दुनिया से दूर कल्याणदास २०० उ  
दयास्वरूप धातु विज्ञान ना प्र सभा ७५०  
—तथा धर्मद्रकुमार काकरिया इस्पात का उत्पादन हिं समि  
५००  
—तथा अन्य औद्योगिक ईंधन ना प्र सभा १०००  
दर, कमल दे मेहता, इंदु  
दर कृष्णप्रसाद आधुनिक छपाई इ प्रे १०००  
दर, निर्मला निर्भरिणी और पत्थर नेशनल  
दर, पूरवीनाथ सरकडे का रहस्य कृष्णा ब्र १००  
दर, प्रेमनाथ घर की बात नेशनल १५०  
दर, मोहनकृष्ण काश्मीर का लोक-साहित्य आत्माराम  
१०००  
केसर के फूल आत्माराम २०० क  
चिनार के पत्ते आत्माराम १५० वप्र  
मनोरम काश्मीर आत्माराम ५०० भ्रमण.  
दर वीणा खरगोज गुसाई नेशनल ३०० वप्र  
दरडा, रणजीतसिंह सामाजिक-विज्ञान २ भा आशा पब्लि  
१०००  
दरडा, रणजीतसिंह दे हरिश्चंद्र भारतीय  
दरवार जानवती भारत की भाकिया रजन ५००  
भारतीय नेताओं की हिंदी-सेवा रजन १५००  
विनोबा की ज्ञान गंगा मे आ भा सर्व एव रजन २५०  
दरवार, ज्ञानवती दे गोल्डस्मिथ, ऑलिवर  
दरवार, ज्ञानवती दे राधाकृष्णन्, सर्वपल्ली.

दरबारीलाल. दे. रविषेण, आचार्य.  
 दरबारीलाल दे सूरि, अमितगति  
 दरबारीलाल दे सूरि, जिनसेन.  
 दरबारीलाल. दे सूरि, वादभिर्सिंह  
 दर्यावर्षिंह कहावत चद्रिका भा. प्र मदिर ० ७५  
 गूढार्थ प्रवेशिका भा. प्र मदिर ० ६२  
 दर्शक. दे हसरज दर्शक  
 दर्शन केसरी दे गोपालशास्त्री 'दर्शन केसरी'  
 दर्शनसिंह. हायर सेकेडरी रसायन विज्ञान नागरी प्र वप्र  
 दर्शनानन्द, स्वामी उपनिषद प्रकाश देहाती ६००, — —  
 प्रभात प्र ३५०  
 दर्शनानन्द ग्रथ संग्रह गोविंदराम. पूर्वार्द्ध २५०, उत्तरार्द्ध  
 २५०  
 न्याय दर्शन देहाती ३२५, — — प्रभात प्र २५०  
 पातजलि योग-दर्शन. प्रभात प्र ६५०  
 मनुस्मृति प्रभात प्र ५००  
 वेदात् दर्शन देहाती ६००  
 वैशेषिक दर्शन देहाती ३५०, — — प्रभात प्र ४००  
 सांख्य दर्शन देहाती एव प्रभात प्र २००  
 दलाई लामा मेरा देश, मेरे देशवासी आत्माराम ७५०  
 दलेछा, ग्रेजिया मा अनु रमेशचन्द्र अवस्थी भालोटिया उ.  
 दवे, जुगताराम आत्म-रचना अथवा आश्रमी शिक्षा. ३ भा  
 नवजीवन १.५० (प्र)  
 गांधीजी नवजीवन ० ७५  
 ग्रामसेवा के दस कार्यक्रम नवजीवन १२५  
 दवे, श्रीकृष्ण हिंदी पर्याय-विलोम कोष. लोक-चेतना. २००  
 दशरथराज. अंतिम पत्र प्रभात प्र २०० उ  
 दशरथसिंह हिंदी के स्वच्छदतावादी नाटक विद्या म, वा  
 ६.५०  
 हिंदी-साहित्य के स्वच्छदतावादी नाटक नद. स ६५०  
 दशोरा, भवरलाल तथा मनोहर प्रभाकर कमला काकी आशा  
 पब्लि. १.००  
 धरती के गीत आशा पब्लि. १००  
 मजिलमिली आशा पब्लि १००  
 दसाधी, बी गैस जाच की किताब न्यू स्केच ० ७५  
 शोटफायरी किताब न्यू स्केच १००  
 सरदारो पोथी न्यू स्केच ३००  
 दाऊद, मौलाना. चदायन सपा परमेश्वरीलाल गुप्त हि ग्र.  
 र २०००, — — सपा विश्वनाथप्रसाद क मु. हि.  
 ४.५०  
 दाग जीवनी और सकलन राजपाल १५०  
 दाधीच, रततलाल साडी के छोर नवयुग ग्र कु २००  
 दामनदि, आचार्य पुराणसार-संग्रह सपा गुलाबचन्द्र चौधरी.  
 २ भा. भा. ज्ञान ४००  
 दामोदर, पंडित सगीत दर्पण टीका. विश्वभरनाथ भट्ट  
 सगीत. २००  
 दामोदरन, के, १६०१- पद्मावती. अनु एस लक्ष्मण शास्त्री.  
 अशोक गृह ५.५० उ

दारूका, भगवतीप्रसाद दारूका भजन संग्रह. हि पु ए १.२५  
 दास. न्यायशास्त्र. बुकलेड ४.५०  
 दास तथा चटर्जी सरल अर्थशास्त्र बुकलेड ४००  
 सरल राजनीति शास्त्र बुकलेड ५५०  
 दास तथा सिंह एनैटीकल सौलीड ज्योमैट्री  
 सुबोध ग्र ४५०  
 दास, ए बी तथा एम. एन. चटर्जी. भारतीय अर्थशास्त्र,  
 विकास और समस्याए सशो स बुकलेड ११००  
 दास, एम. एल दे रजनिप्रसाद  
 दास, कमलचंद्र अपना-पराया. ग्रथमाला. १२५ उ  
 भारत के युद्ध ग्रथमाला १२५  
 दास, गोपबधु धर्मपद हि प्रचा. पु. १.५० का  
 दास, जे सी अपटूडेट वूट पालिश. देहाती २.५०  
 आतिशबाजी का व्यापार देहाती २५०  
 कन्फैक्शनरी (अग्रेजी मिठाइया) देहाती. २५०  
 चित्रकारी अथवा मुसव्वरी देहाती ४५०  
 परफ्यूमरी मास्टर देहाती २५०  
 पेन्टरी का काम देहाती. ४.५०  
 प्लास्टिक गाइड देहाती २५०  
 बेकरी बहार (बिस्कुट केक आदि) देहाती २.५०  
 रगसाजी देहाती. २.५०  
 हेयर आंयल (खुशबूदार तेल). देहाती २५०  
 दास, रामकृष्ण वर्ष के व्रत और त्यौहार ४५०  
 दास, शिवप्रसाद क्रीडा और इन्द्रियानुभूति शिक्षा हि. प्रचा.  
 पु १५०  
 दास, श्रीकृष्ण मलय राजकमल २.००  
 दास, सतीशचन्द्र आदर्श आहार. स ५ आरोग्य १.२५  
 दासगुप्त, एस एन सौंदर्य-तत्त्व अनु. आनन्दप्रकाश दीक्षित  
 भा. भ ७००  
 दासगुप्त, सुधीरकुमार उपनिषद्-कथा. ग्रथमाला १.५०  
 दासगुप्त, हरिकृष्ण. जीवन मे खेलो सुदर. २०० वप्र.  
 बन लो हीरे सुदर १.०० वप्र  
 दास्ताने, दत्तोबा बुनाई अ भा. सर्व. ४००  
 दास्तायवस्की दे दोस्तोवस्की  
 दाहमा, ओप्रकाश. प्रसार एव 'ग्राम'कल्याण रामप्रसाद ८.००  
 दिङ्नाग कुदमाला सस्ता ० ४० वप्र  
 दिनकर. रस-छन्द-अलकार-परिचय. प्रभात पब्लि. १.३७. वप्र  
 दिनकर दे ओकारनाथ 'दिनकर'  
 दिनकर. दे रामधारीसिंह 'दिनकर'  
 दिनकर दे शर्मा, ब्रह्मस्वरूप 'दिनकर'  
 दिनेश जायसी प्रश्नोत्तरी सरस्व पु स १.७५  
 तुलनात्मक विवेचन सरस्व पु स १७५  
 दिनेश दे देवराज 'दिनेश'  
 दिनेश दे भार्गव, दीनानाथ 'दिनेश'  
 दिनेश दे. शर्मा, रामगोपाल 'दिनेश'  
 दिनेशनदिनी दे डालमिया, दिनेशनदिनी  
 दिनेश 'भ्रमर'. गीत मेरे स्वर तुम्हारे सा. संगम, मो. २.५०  
 दिनेश्वरलाल 'आनन्द' ग्रामक गांधी ग्रथ. भ. १.२५

- अपूर्णा कथा. ग्रथ भं  
मिथिला की लोक कथाए ग्रथ भं भा १ ० ८४, भा २  
१ २५, भा ३ १५०
- दिनगाद दे आनद, रामलुभाया 'दिलशाद'  
दिल्ली लायब्रेरी बोर्ड अगना घर दि लायब्रेरी ० ६२  
अफगानिस्तान दि लायब्रेरी ० ६२  
अमरीका दि लायब्रेरी ० ६२  
इन्डोनेशिया दि लायब्रेरी ० ६२  
ईरान दि लायब्रेरी ० ६२  
खिलौने बनाना दि लायब्रेरी ० ६२  
चीन दि लायब्रेरी ० ६२  
च्यूटी दि लायब्रेरी ० ६२  
जापान दि लायब्रेरी ० ६२  
डाक तार दि लायब्रेरी ० ६२  
दिल्ली दि लायब्रेरी ० ६२  
दीमक दि लायब्रेरी ० ६२  
पाकिस्तान दि लायब्रेरी ० ६२  
पालतू पशु दि लायब्रेरी ० ६२  
फूल दि लायब्रेरी ० ६२  
वर्मा दि लायब्रेरी ० ६२  
भारत का आर्थिक भूगोल दि लायब्रेरी ० ६२  
भारत का प्राकृतिक भूगोल दि लायब्रेरी ० ६२  
भारत की विजली व सिंचाई योजनाए दि लायब्रेरी. ० ६२  
भारत के पक्षी दि लायब्रेरी ० ६२  
मधु मक्खी दि लायब्रेरी ० ६२  
मनोरजन और काम (लडकियों के लिए) दि लायब्रेरी  
० ६२  
मनोरजन और काम (लडकों के लिए). दि लायब्रेरी  
० ६२  
राष्ट्र निर्माण और योजनाए दि लायब्रेरी ० ६२  
रेगम का कीडा दि लायब्रेरी ० ६२  
वक्ष दि लायब्रेरी ० ६२  
व्यर्थ वस्तुओं का उपयोग दि लायब्रेरी ० ६२  
सयुक्त राष्ट्र मन्था दि लायब्रेरी ० ६२  
सडके दि लायब्रेरी ० ६२  
सीलोन दि लायब्रेरी ० ६२  
सुरक्षा दि लायब्रेरी ० ६२  
सोवियत रूस दि लायब्रेरी ० ६२  
हमारा भारत दि लायब्रेरी ० ६२  
हमारी रेलें दि लायब्रेरी ० ६२  
हमारे पानी के जहाज दि लायब्रेरी ० ६२  
हमारे बालक दि लायब्रेरी ० ६२  
दिवाकर अमर सेनानी जानालोक १५० का  
त्यौहारों की भाकी नवचेतना ० ७५ वप्र  
नयन जानालोक १०० का, — — प्रकाश पा १ ००  
वमुमति भारतजीवन ०.२५ का  
हम तिनुका हन हिं सा भ ० ५० का  
हिमालय का सदेश प्रकाश पा १ ००
- दिवाकर, आर आर उपनिषदों की कहानिया राजहस १ ७५  
गाधीजी जैसा मैंने देखा राजहस १ ५० जी  
दिवाकर, र रा सतो का वचनामृत सस्ता ६ ००  
दिवाकर, सुगीलकुमार भारत का आर्थिक भूगोल नद व एव  
नद स ३ २५  
वाणिज्य एव औद्योगिक सन्नियम स २ रा वेनीमाधव  
५ ००  
— तथा सुखचैन वासल मध्यप्रदेश का आर्थिक विकास  
मिश्रवधु ३ २५  
दिवाकर सिंह सामाजिक अध्ययन एव नागरिक शास्त्र शिक्षण  
लक्ष्मी ना ४ ५०  
दिवाण, कुदर विनोबा के जगम विद्यापीठ में सस्ता २ ५०  
दिवाण, मनोहर ताओ उपनिषद् अ भा सर्व ० ७५  
दिवेकर हरिरामचंद्र सत तुकाराम हिंदु एकेडेमी ३ ००  
जी  
दिव्य दे त्रिपाठी, भवानीभीख 'दिव्य'  
दिव्य दे श्रवणकुमार दिव्य  
दीक्षित कवीर, एक अध्ययन पु भ, आ २ २५  
विहारी, एक अध्ययन पु भ, आ २ २५  
दीक्षित, आनदप्रकाश, १९२३- तुलसीदास वस्तु और गित्त  
सरस्व पु स ३ ५०  
रस सिद्धान्त स्वल्प विवलेषण राजकमल ११ ००  
— सपा वेलिक्रिसन रकमणीरी विश्वविद्यालय ५ ०० का  
दीक्षित, आनदप्रकाश दे दासगुप्त, एस एन  
दीक्षित, एम ए रामनाथ सामतत्र काशी हिंदू २० ००  
दीक्षित, ओम पृथ्वीराज रासो पञ्चवती समय (प्रश्नोत्तर में)  
विनोद ० ५०  
दीक्षित, कन्हैयालाल विचित्र जीव-जंतु गंगा ० ७५  
दीक्षित, कालिकाप्रसाद, टीका श्री अयोध्याकांड-दर्शन मिश्र-  
वधु २ २५  
दीक्षित, कालिकाप्रसाद 'कुसुमाकर' दे वर्मा, राजेन्द्र  
दीक्षित, चंद्रोदय आलेखन कला राष्ट्रीय प्र मंदिर २ ००  
ग्रामोद्योग और पचायत स २ राष्ट्रीय प्र मंदिर १ २५  
सर्वोदय समाज और विश्व स ४ राष्ट्रीय प्र मंदिर १ ००  
दीक्षित, छोटेलाल पञ्चावत में लोक सस्कृति सरस्व पु स  
दीक्षित, ज ना गवन एक आलोचनात्मक अध्ययन नाँवली  
१ ७५  
दीक्षित, जगदीश 'आनद' अलीबाबा और चालीस चोर राज-  
पाल ० ७५ वप्र  
कालिदास के नाटक राजपाल १ २५  
रूपया पैसा यग मैं ० ६२  
दीक्षित, जगदीशनारायण प्रसाद के नाटकीय पात्र सा ति,  
का ४ ००  
दीक्षित, त्रिलोकीनाथ भाषा भारती कि. महल. २ ५०  
सुंदर दर्शन कि महल ५ ००  
दीक्षित, त्रिलोकीनारायण अवधी और उसका साहित्य. राज  
कमल २ २५  
आठ एकाकी रा वेनीप्रसाद. १ ७५

आलोचना साहित्य अवध १००  
 चरनदास हिंदु एकेडेमी १००० जी.  
 प्रेमचंद सा नि, का २५०  
 सक्षिप्त विद्यापति पदावली हि सा भ २००  
 सत दर्शन सा. नि, का ४००  
 साहित्य समीक्षा. रा वेनीमाधव ११२  
 हिंदी सत-साहित्य राजकमल ६००  
 दीक्षित, त्रिलोकीनारायण. दे. दीक्षित, प्रेमनारायण  
 दीक्षित, त्रिलोकीनारायण दे वर्मा, रामकुमार.  
 दीक्षित, पुरुषोत्तम निर्माण-पथ ज्ञान मडल प्र ११२  
 दीक्षित, प्रकाश, १९३८- काठ के ताबूत और जिदा लागे  
 प्रचा पा १०० उ  
 दीक्षित, प्रकाश. 'घनानंद-कवित' का काव्य वैभव विनोद  
 २.५०  
 सफल भाषण एव सभा रामलोचन (पा) १००  
 हस्त-रेखाए हिंद पा १००  
 हिंदी कहानी स्वरूप, विकास और प्रतिनिधि कहानीकार.  
 विनोद. ५००  
 दीक्षित, प्रकाशचंद भारतीय समाज तथा सामाजिक सस्थाये  
 रतन. १०००  
 दीक्षित, प्रकाशनारायण. नाभाकृत भवतमाल का अध्ययन. सा  
 भवन, इ ५००  
 दीक्षित, प्रेमनारायण तथा त्रिलोकीनारायण दीक्षित हास्य के  
 सिद्धांत तथा आधुनिक हिंदी साहित्य अवध ३००  
 दीक्षित, बलभद्र 'पढीस' चकल्लस (अवधी भाषा मे) गगा  
 २.५० का  
 दीक्षित, ब्रजमोहन सांख्यिकीय विधिया पु भ, आ २५०  
 दीक्षित, ब्रह्मदत्त इतिहास गाथा २ भा सरस्व प्रे ०५०  
 (प्र) वप्र  
 जय मानव कि महल ७०० का.  
 ज्ञान प्रकाश सरस्व प्रे भा १०४४, भा. २०५६,  
 भा ३०६२ वप्र  
 पाश्चात्य शिक्षा शास्त्री सर्वोदय सा २००  
 भारत के आदिवासी रामप्रसाद २०० वप्र  
 शिक्षा मे खेल-खिलौने सर्वोय सा ३००  
 सुदामा के तदुल इ प्रे १५० का  
 हमारे आदिवासी रामप्रसाद २२५ वप्र  
 दीक्षित, ब्रह्मदत्त दे हरिहरनाथ  
 दीक्षित, भगीरथ खेती-वारी गगा ५००  
 दीक्षित, भगीरथप्रसाद गिदन चरित - स्व गेदालान दीक्षित  
 गिदन ०७५  
 पंचप्रज्ञा गिदन २५०  
 भारतीय समाज विमर्श गिदन ४००  
 भूषण-विमर्श सशो स अवध ४००  
 महाकवि भूषण. सा. भवन, इ २.५०  
 दीक्षित, भद्रशंकर सरल व्यायाम सस्ता ०४० वप्र  
 दीक्षित, भूपनारायण कीड़े-मकोड़े गगा १००  
 कीड़े-मकोड़ों की कथा ग्रथमाला १७५. वप्र.

गधे की कहानी गगा. १.२५ वप्र.  
 नटखट पाडे. गगा ३.५० हा.  
 दीक्षित, योगेद्रनाथ. दे बासू, कालीपद.  
 दीक्षित, रत्नमयीदेवी, १९०९- कैरली साहित्य दर्शन. सस्ता.  
 ४.००  
 दीक्षित, रत्नमयीदेवी दे वलथल  
 दीक्षित, रा एक भेट अ भा सर्व ०६२. ना  
 कुलदीप अ भा सर्व. ०२५ ना  
 दीक्षित, रोजपति, १९१५- तुलसीदास और उनका युग  
 ज्ञानमडल. ८००  
 दीक्षित, राजेश १९२८- अलसाई आखे कि महल ३००  
 का  
 वास-वैत और पत्तो का काम. श्री प्रभाकर १५०  
 दीक्षित, रामप्रकाश उद्व-शतक पु भ, आ ५००  
 महाकवि चंद्रवरदायी और पद्मावती समय पु भ, आ ३५०  
 रस, अलकार तथा दोष पु भ, आ ०७५  
 दीक्षित, रामसनेही अगूर के गुण तथा उपयोग देहाती ०७५  
 अनार के गुण तथा उपयोग देहाती ०६२  
 अरड के गुण तथा उपयोग देहाती १२५  
 आक के गुण तथा उपयोग देहाती २५०  
 कद्दू के गुण तथा उपयोग देहाती ०६२  
 कौडी के गुण तथा उपयोग देहाती ०७५  
 गडूबा (इद्रायण) के गुण तथा उपयोग देहाती. ०१,३  
 गाजर के गुण तथा उपयोग देहाती. ०६२  
 घृत के गुण तथा उपयोग देहाती ०८७  
 तबाकू के गुण तथा उपयोग देहाती १२५  
 तरबूज के गुण तथा उपयोग. देहाती. ०.६२  
 त्रिफला के गुण तथा उपयोग. १५०  
 दही के गुण तथा उपयोग देहाती. २५०  
 दूध के गुण तथा उपयोग देहाती २००  
 धतूरा के गुण तथा उपयोग देहाती ११२  
 धनिया के गुण तथा उपयोग देहाती ०५०  
 नमक के गुण तथा उपयोग देहाती ०५०  
 नीबू के गुण तथा उपयोग. देहाती ०७५  
 नीम के गुण तथा उपयोग देहाती १२५  
 पीपल के गुण तथा उपयोग देहाती ०७५  
 प्याज के गुण तथा उपयोग देहाती ०७५  
 फिटकरी के गुण तथा उपयोग देहाती २५०  
 बबूल के गुण तथा उपयोग देहाती ०८७  
 बरगद के गुण तथा उपयोग देहाती ०८७  
 बादाम के गुण तथा उपयोग देहाती ०७५  
 मूली के गुण तथा उपयोग देहाती ०७५  
 मेहदी के गुण तथा उपयोग देहाती ०७५  
 रीठा के गुण तथा उपयोग देहाती ०८७  
 लहसुन के गुण तथा उपयोग देहाती ०६२  
 शहतूत के गुण तथा उपयोग देहाती. ०५०  
 सतरा के गुण तथा उपयोग. देहाती. ०.५०  
 सत्यानाशी कटेली के गुण तथा उपयोग देहाती ०७५



सिरम के गुण तथा उपयोग देहाती १ १२  
 सेव के गुण तथा उपयोग देहाती ० ५०  
 सौफ के गुण तथा उपयोग देहाती १ २५  
 हल्दी के गुण तथा उपयोग देहाती ० ८७  
 दीक्षित, रामाश्रय गाव की लाज सर्वोदय सा ० ७५ वप्र  
 नया जन्म सा नि, का १ ०० ना  
 रक्त तिलक अ भा ग्राम १ ००  
 दीक्षित, विश्वप्रकाश 'वटुक' उत्तरकाड सटीक राजहस १ ८७  
 कामायनी के तीन सर्ग हिं. भवन २ ७५  
 कामायनी वस्तु और शिल्प हिं भवन ३ ००  
 तुलसीदास एक अध्ययन (प्रश्नोत्तर) रीगल २ ५०  
 हरिकृष्ण प्रेमी व्यक्तित्व कृतित्व वसल ६ ५०  
 हमारे नीतिकार भा सा प्र २ ०० जी  
 दीक्षित, शकर बालकृष्ण भारतीय ज्योतिष अनु शिवनाथ  
 भारखडी हिं समि ८ ००  
 दीक्षित, श्मामसुंदरलाल अलकार रस और छंद कृष्णा व्र  
 ० ५०  
 कृष्ण-काव्य मे भ्रमरगीत विनोद १ ० ००  
 गुप्तजी और यशोधरा लक्ष्मी ना २ ५०  
 नारायण हिंदी शब्दसागर लक्ष्मी ना ५ २५  
 प्रेमचंद और गोदान लक्ष्मी ना २ ००  
 वर्माजी और मृगनयनी लक्ष्मी ना २ ७५  
 दीक्षित, सिद्धिनाथ 'सत', सपा सम्मेलन के रत्न हिं. सा  
 सम्मे ५ ००  
 दीक्षित, सियावर, आधुनिक कृषि शास्त्र २ भा कल्याणमल  
 ० ७५  
 खेती और वागवानी शिक्षा स ३ कल्याणमल ० ५०  
 दीक्षित, सीताचरण आनंद का राजपथ आत्माराम २ २५  
 हमय मथन आत्माराम ५ ०० उ  
 दीक्षित, सीताचरण दे इवसन  
 दीक्षित, सुग्रीव, दे वाजपेयी, पुरुषोत्तम  
 दीक्षित, सुरेद्रकुमार चाद नही राष्ट्रीय प्र मंदिर २ ००  
 का  
 दीक्षित, सुरेद्रनाथ, अनु स्वप्नवासवदत्ता सुबोध ग्र १ ७५  
 दीन दे भगवानदीन 'दीन', लाला  
 दीन दे मुहम्मद हुसेन 'दीन', सैयद  
 दीनदयालुगिरि अन्वोक्ति कल्पद्रुम भारतजीवन ० ३७ का  
 दीनानाथ 'शरण' गंगा लहरी हिं सा स १ ७५  
 नई दृष्टि नया आलोक राष्ट्र प्र म एव सा सगम, प  
 १ ५० क  
 नारी ! तुम केवल श्रद्धा हो आनंद पु, वा ३ ०० उ  
 महाकवि तिलक का 'कालिदास' सा सगम, प २ ७५  
 शोभा-निवध नवनीत सा सगम, प ३ ५० नि  
 हिंदी काव्य मे छायावाद गयाप्रसाद ५ ००  
 —तथा रामचंद्र गर्मा 'किशोर' अंधूरे सपनों का देश सा  
 सगम, प ३ ७५ उ  
 दीनानाथ शास्त्री माधवनिदान २ भा. श्री भा भारती  
 १२ ००

दीपकर, आचार्य सहकारी खेती और भारतीय अर्थतंत्र पीपुल्स.  
 ५ ००  
 दीप दे मदनविहारी शरण 'दीप'  
 दीपक लावण्यमयी शारदा म ३ ५० का  
 सात सौ गीत शारदा म ७ ०० का  
 दीपक दे ओमप्रकाश 'दीपक'  
 दीपक दे माधवसिंह 'दीपक'  
 दीपक दे सरस्वतीकुमार 'दीपक'  
 दीपनरायण सिंह तथा रामचंद्रलाल अष्टाना भारत का आर्थिक  
 तथा वाणिज्य भूगोल रा वेनीप्रसाद ३ ५०  
 दीवान, कुदर तकली अ भा सर्व २ ००  
 दीवान, मनोहर जार्ज फक्स का सत्याग्रही जीवन अ भा सर्व  
 ० ४०  
 दीवानचंद उपनिषद्-दिग्दर्शन. विश्वेश्वरानंद २ ७५  
 तत्वज्ञान हिं समि ४ ००  
 दर्शन-संग्रह हिं समि ४ ५०  
 पश्चिमी दर्शन हिं समि ४ ००  
 दीवानचंद दे स्पिनोजा, वैरुक  
 दुआ, सरला आधुनिक हिंदी साहित्य मे नारी सा नि., का.  
 १ ५ ००  
 दुखायल धरती के गीत अ भा सर्व १ ५०  
 दुग्गल, कर्तारसिंह अमा निशा सा सगम, लु ३ ०० क  
 कहानी कैसे बनी ? भा ज्ञानपीठ २ ५० ना.  
 चील और चट्टान साहनी ४ ०० उ  
 जादू टूट गया अभिज्ञान ५ ००. उ  
 फूट तोड़ना मना है अभिज्ञान ५ ०० क  
 मौतियो वाले भा ज्ञानपीठ २ ५० क  
 शोर और सगीत अभिज्ञान ५ ०० ना  
 दुग्गल, वैकुण्ठनाथ आधुनिक एकाकी इ प्रे. १.७५  
 रणभेरी इ प्रे १ ०० ना  
 समुद्रगुप्त आत्माराम २ ०० ना  
 हर्षवर्धन आत्माराम १ ०० ना  
 दुग्गल, सोहनलाल दे गौड, कृपाशकर,  
 दुनीचंद हिंदी-व्याकरण आत्माराम ४ ००  
 दुवे आर्थिक तथा वाणिज्य भूगोल कि महल.  
 आर्थिक भूगोल प्रवेशिका कि महल २ ००  
 भारत का आर्थिक भूगोल कि महल ५ ००  
 भारतीय नागरिक एव प्रशासन भोपाल १ ७५  
 भूगोल के भौतिक आधार कि महल ५ ००  
 मानचित्र कि महल ३ ००  
 वाणिज्य भूगोल प्रवेशिका कि महल २ ००  
 —तथा श्रीवास्तव मानचित्र कि महल ३ ००  
 दवे, अक्षयवर तथा रामाधार सिंह हिंदी निवध रा वेनीप्रसाद.  
 २ ००  
 दुवे, यमूलाल अद्भुत आख्यान मिश्र वधु १ ६२ वप्र  
 जगल के गीत मिश्र-वधु ० ७५ वप्र  
 दुवे, कृष्णाप्यारे. गावो मे सहकारिता छात्रहितकारी १ २५  
 दुवे चंद्रशेखर नतवती सन्त. १.५०. वप्र.

दुबे, जुगतराम. सुदरपुर की पाठशाला का पहला घटा. अ. भा. सर्व ० ७५  
 दुबे, दयाशकर अर्थशास्त्र की रूपरेखा. स. ३. रा वेनीमाधव ६.००  
 धन की उत्पत्ति रा वेनीमाधव. १ २५  
 भारत मे कृषि सुधार हि पु. ए. २.५०  
 —तथा भगवानदास केला सरल अर्थशास्त्र रा. वेनीमाधव ६ ५०  
 —तथा शकर सहाय सक्सेना प्रारम्भिक अर्थशास्त्र रा. वेनीमाधव २ २५  
 भारत का आर्थिक भूगोल स १८. रा वेनीमाधव. २ २५  
 —तथा अन्य ग्राम्य अर्थशास्त्र रा वेनीमाधव २ ००  
 दुबे, दयाशकर. दे त्रिपाठी, रामप्रताप  
 दुबे, बलराम श्री बदरी-केदार यात्रा. रा वेनीप्रसाद ० ३७.  
 वप्र  
 दुबे, मार्कंडेय हिंदी गद्य की विविध विधाएँ एस चास. २ ००  
 दुबे, मिलापचंद्र, १९०६- बुनियादी विद्यालय का प्रवध,  
 स्वास्थ्य एवं सामाजिक सगठन गयाप्रसाद ५.००  
 बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत गयाप्रसाद ५ ००  
 बुनियादी शिक्षा सिद्धांत तथा बाल मनोविज्ञान गयाप्रसाद.  
 ५ ००  
 बुनियादी शिक्षालय का सगठन और व्यवस्था गयाप्रसाद.  
 ५.००  
 समवायी-शिक्षण. गयाप्रसाद ५ ००  
 दुबे, राजा. एक हस्ताक्षर और. नवहिंद. ३ ००. का.  
 दुबे, रामनाथ तथा अमरबहादुर सिंह माध्यमिक प्राकृतिक  
 आर्थिक भूगोल. कि. महल १०.००  
 दुबे, रामस्वरूप नये चित्र इ. प्रे १ २५. क.  
 साकेत-सुधा नारायण बुक. ७ ५०  
 दुबे, रामाधार, सपा दिली-नगर. राजकमल. (पा) १.००  
 दुबे, रामेश्वरदयाल. कोणार्क राष्ट्र. पु भ. १ ५०  
 चले-चलो. मयूर ० ७५ का.  
 वावू की बातें. राष्ट्र पु भ १ २५  
 मा यह कौन ? राजपाल १ ००. वप्र  
 दुबे, लक्ष्मीनारायण बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' हिंदु. एकेडेमी  
 १५ ००  
 दुबे, विद्यासागर उच्चतर माध्यमिक प्रायोगिक भौतिकी  
 मानकचद. ४ ००  
 भारत का आर्थिक भूगर्भशास्त्र हि समि १०.००  
 दुबे, शकुंतला काव्य रूपो का मूल स्रोत और उनका विकास  
 हि प्रचा पु १० ००  
 दुबे, शिवनाथ मिट्टी का कलश विश्वेश्वरानंद १ २५ क  
 दुबे, शुकदेव काव्यागप्रकाश ग्रथमाला १ २५  
 खोज के पथ पर छात्रहितकारी ०.७५  
 पद्माकर कवि सा भवन, इ २ ५० आ  
 दुबे, श्यामचरण मानव और संस्कृति राजकमल. ७.५०  
 दुबे, श्रीनाथ. अचल मेरा कोई. हि. सा. भ. १.२५. आ.  
 गद्यपथ (उदयनारायण तिवारी) की टीका. हि सा. भ.

२ ००  
 टीका हिंदी गद्य सुधा. हि. सा भं. १.७५  
 दुबे, सत्यनारायण आधुनिक भारत का इतिहास श्रीराम मेहरा.  
 ४ ५०  
 मध्यकालीन भारत का इतिहास श्रीराम मेहरा ३ ५०  
 राजनीति शास्त्र प्रवेशिका शिवलाल ६ ००  
 दुबे, सत्यनारायण. दे गैटेल  
 दुबे, सत्यनारायण दे शर्मा, एस आर  
 दुबे, सरला. प्रारम्भिक समाजशास्त्र (प्रश्नोत्तर) प्रकाश बुक.  
 ५ ५०  
 समाजशास्त्र की रूपरेखा (प्रश्नोत्तर). प्रकाश बुक ५ ५०  
 दुबे, सी एम दे अग्रवाल, जे. के  
 दुबे, सुखवासीलाल. सुभाष सत्तावनी नवयुग ग्र कु ७५.  
 का  
 दुबे, सुरेन्द्रनाथ नर्तकी. एस. चाद २ ००  
 दुबे, सुरेशचंद्र माडर्न स्माल स्केल इंडस्ट्रीज. रतन एड क.  
 ८ ००  
 सत्य व्यापार लक्ष्मी भंडार देहाती ४ ५०  
 दुबे, हरिदत्त. अपराध प्रतिमा ४ ५० उ  
 कला साहित्य शाप ? प्रतिमा. ६.५०  
 ठाकुरद्वारा. इ प्रे ३ ०० उ.  
 पुनर्जन्म इ प्रे ३.००. उ  
 सकट इ प्रे २ ५०. उ  
 दुबे यह भी दे. दुबे  
 दुब्कोवेत्स्की. फयो. एक उक्रइनी सामूहिक फार्म. पीपुल्स. ०.५०  
 दुर्गादत्त. ज्योतिषजगत् मोतीलाल २.५०  
 दुर्गादेवी तथा मायादेवी शिशु-पालन. इ. प्रे २ ००  
 दुर्गाप्रसाद सिंह. खाद का उपयोग. ज्ञानमडल १ ५०  
 दुर्गावती सिंह. एकता का फल. अमिताभ. १.००  
 पढो आगे बढ़ो अमिताभ १ ००  
 दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह नारी-जीवन इ. प्रे. २.५०  
 भोजपुरी के कवि और काव्य. बि. राष्ट्र. ५.७५  
 भोजपुरी लोकगीत मे करुण रस हि. सा. सम्मे ६ ००  
 हृदय की ओर ग्रथमाला. २ ०० उ  
 दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह 'नाथ'. ऐटम के युग मे नव सा म.  
 ६ ००  
 दुलहराज, मुनिश्री. तेरापथ के दो सौ वर्षों का प्रगति विवरण  
 जैन श्वेतावर ० ४५  
 दुलारेलाल द्विजेन्द्रलाल राय बगा जी  
 हृदय-तरंग. गगा. ० ७५  
 दुलीचद, मुनिश्री. कल्पना कुज आदर्श सा १ ०० गद्य-गीत.  
 तुलसी वाणी आत्माराम १ ५०  
 पथ और पथिक अ भा अणव्रत ० ६३  
 दुष्यंत तथा कमलेश्वर चेतन एक अध्ययन नीलाभ २ ५०  
 दुष्यंतकुमार आवाजों के घेरे. राजकमल. ४ ००. का  
 एक कठ विषपायी. लोकभारती. ५.०० ना.  
 सूर्य का स्वागत. राजकमल. ३.५०. का.  
 दूगड तथा जावलिया, सपा. देव काव्य रत्नावली. रामप्रसाद,

दूगड, रामनारायण, अनु मुहुरोतं नैरासी की स्यात २ भा  
ना प्र सभा ६५० इति

दूवे, लक्ष्मीनारायण साहित्य के चरण चौधरी ५००

दूवे, मुरेज 'सरस' कठ घोडा राष्ट्र प्र म १२५ वप्र  
खिलते फूल, चटकती कलिहा राष्ट्र प्र म ०५६ वप्र  
गीले गीत सुहाने राष्ट्र प्र म १३७ वप्र  
गुरु घटाल राष्ट्र प्र म १२५ वप्र  
निहोरा राष्ट्र प्र म १२५ वप्र  
वैलून वाला राष्ट्र प्र म १५० वप्र  
राजावेटा राष्ट्र प्र म १५० वप्र

दूवे, यह भी दे दूवे  
दे, एस के नीलोखेडी राजकमल ५००  
पचायती राज राजकमल ४००  
सामुदायिक विकास अ भा काग्रेस ०३०  
दे, शैलेन्द्रनाथ भारतीय चित्रकला पद्धति रा वेनीमाधव  
२५०  
रूपरेखा २ भा रा वेनीमाधव १५० (प्र)  
दे, श्यामाचरण अद्भुत कथा इ प्रे २०० वप्र  
दे, सुरेन्द्रकुमार, १९०६- सामुदायिक विकास कि महल  
देमैत्येवा, अ सोवियत सघ मे श्रम-सुरक्षा पीपुल्स ००६  
देराश्री तथा शास्त्री सोवियत सघ का आर्थिक विकास.  
गयाप्रसाद ३००  
देराश्री, सत्यदेव अर्थशास्त्र के प्रारम्भिक सिद्धात लक्ष्मी ना  
६००  
अर्थशास्त्र की सरल रूपरेखा लक्ष्मी ना ७५०  
अर्थशास्त्र प्रवेशिका २ भा लक्ष्मी ना २७५ (प्र)  
उच्चतर माध्यमिक अर्थशास्त्र लक्ष्मी ना ७५०  
वाणिज्य अर्थशास्त्र लक्ष्मी ना ५५०  
व्यावहारिक अर्थशास्त्र लक्ष्मी ना ६००  
—तथा नाथूरामका भारतीय अर्थशास्त्र नवीन स १९६२  
लक्ष्मी ना ११००  
देव, रस विलास सपा तिलेश्वरनाथ शास्त्री बनारस  
मकंटाइल २५०  
देव, एस डी पुण्यभूमि विद्या प्र भवन २५०  
मेरा देश स १ आर्मी २२५ क  
देव, कैलासचन्द्र भरत का संगीत-सिद्धात हिं समि ६५०  
देव, प्रतिभा तथा एल मुकर्जी शिक्षा तथा मनोविज्ञान मे  
सत्या शास्त्र यूनिवर्सिटी ७५०  
देव, राधाकात शब्द कल्पद्रुम ५ भा मोतीलाल १९४७५  
देव, वीरेनचन्द्र कला एव उद्योग साधना म १००  
पाठशाला प्रवध स ३ साधना म १२५  
शिक्षण विधि स ३ साधना म १५०  
शिक्षा मनोविज्ञान स ३ साधना म १५०  
शिक्षा सिद्धात स ३ साधना म १५०  
समाज अन्वयन साधना म २२५  
सामान्य विज्ञान साधना म १००  
हिंदी गद्य सग्रह साधना म १००  
हिंदी पद्य सग्रह साधना म. ०.७५

देव, शकरराव उपनिषदों की कथाए हिं प्र म १००  
मेरी जीवन यात्रा—मैत्री यात्रा अ भा सर्व १.००  
जी  
सर्वोदय का इतिहास और शास्त्र अ भा सर्व ०२५  
देव, हिरिशचन्द्र 'चातक' साहित्यायन भा प्र मदि. आ  
८००  
देव दे जगदेवसिंह 'देव'  
देव दे गोपानचन्द्र 'देव'  
देवचन्द्र फूलों की डाली स ६ हिं भवन ०६० वप्र  
भूषण ग्रथावली हिं भवन ५००  
शिवराज भूषण हिं भवन ३५०  
देवडा, शरद, १९३४- एक आलोचक की नोट बुक अपरा  
४५०  
टूटती इकाइया अपरा ३०० उ  
पत्थर का लैप पोस्ट भा ज्ञानपीठ ३००  
युग चिंतन रूपा ६०० नि  
देवदत्त चादनी महकती है प्रगति प्र १०० का  
देवदत्त 'अटल' गोआ अभिप्रेक मोतीलाल २५०  
छट चले बादल पीपुल्स ४०० उ  
जीवन की कहानिया एस चाद २५० क  
शांति-दूत आत्माराम १५० ना  
शेखर साहनी २२५ ना  
स्वर्ग मे गांधी राजहस १०० ना  
—सपा दस एकाकी एस चाद २५०  
देवदत्त शास्त्री अभिनय दर्पण कि महल २५० (अप्रा)  
अवतिकुमारिया चौखवा २०० क  
अवतार कथाए साहनी ०७५ वप्र  
उन्नति का विधान साहनी ०७५ वप्र  
उपनिषद चिंतन कि महल २५०  
उपनिषद मदाकिनी कि महल ५००  
कलविलासिनी वासवदत्ता चौखवा २५०  
कालिदास, एक अनुशीलन चौखवा २५०  
कौटिलीय अर्थशास्त्र कि महल ७००  
कौटिलीय अर्थशास्त्र की भूमिका कि महल २००  
कौशाबी के अत पुर का कला विलास कि महल २५०  
चार चर्या चौखवा २०० नीति  
चिंतन के नये चरण चौखवा ६०० नि  
धर्मराज युधिष्ठिर विश्वेश्वरानंद १५० जी  
प्राचीन महापुरुष साहनी ०५० वप्र  
भारत की प्रमुख कवियत्रिया भालोटिया २८०  
भीष्मपितामह विश्वेश्वरानंद १५० जी  
महाबली भीम विश्वेश्वरानंद १५० जी  
महाभारत की कहानिया स २ विश्वेश्वरानंद १००  
महाभारत के श्रीकृष्ण विश्वेश्वरानंद २२५  
वीर अर्जुन विश्वेश्वरानंद १५० जी  
सक्षिप्त मनुस्मृति विश्वेश्वरानंद. ३५०  
साहित्य दर्पण प्रश्नोत्तरी मोतीलाल ०७५  
स्मृति के हस्ताक्षर चौखवा ५.००. सस्म.



—अनु. कौमुदी-महोत्सव साहनी २.२५ ना  
रघुवश कि महल २०० का  
—टीका कामसूत्र चौखवा १६००  
देवदास हम कहा है? सा केद्र २२५  
देवदूत. हार या जीत राजहस १७५ उ  
देवनाथ ग्रामोपयोगी शिक्षा २ भा कि महल १०० (प्र)  
देवमित्र कहानी के रूप और तत्व नावल्टी १५०  
निबध के रूप और तत्व नावल्टी १७५  
देवराज, न कि तथा रामानंद तिवारी भारतीय दर्शनशास्त्र  
का इतिहास परि स २ हिंदु एकेडेमी ६५०  
देवराज, १९१७- अजय की डायरी राजपाल ५०० उ  
आधुनिक समीक्षा राजपाल ४५०  
भारतीय सस्कृति हि समि ४००  
रोडे और पत्थर राजकमल २२५ उ  
सस्कृति का दार्शनिक विवेचन हि समि ६००  
साहित्य और सस्कृति नद ब्र एव नद स ३००  
देवराज 'दिनेश' आओ कहानी बनाए शकुन १५०  
किरण जादू के देश मे नेशनल १२५ वप्र  
गोदावरी सस्ता ०४० वप्र  
चैतन्य महाप्रभु सस्ता ०४० वप्र  
जीवन और जवानी आत्माराम ४०० का  
भठ का दान रामप्रसाद १५० वप्र  
दानवीर कर्ण सस्ता ०४० वप्र  
दुनिया रगबिरगी हिद पा १००  
पुरवैया के नृपुर आत्माराम ४०० का  
वरगद की छाया सस्ता २५० ना  
विना बुलाए पच आत्माराम ३०० ए  
भरत सस्ता ०४० वप्र  
भारत मा की लोरी आत्माराम ४००  
भीष्म पितामह सस्ता ०४० वप्र  
मानव प्रताप आत्माराम २०० ना  
यशस्वी भोज आत्माराम २०० ना  
राजा भोज सस्ता ०४० वप्र  
रिश्वत के अनेक ढग आत्माराम ३०० व्यग्र  
लाल किला सस्ता ०४० वप्र  
लाला लाजपतराय सस्ता ०४० वप्र  
सती अनसूया सस्ता ०४० वप्र  
समस्या सुलभ गई रामप्रसाद ३५० ए  
हाजिर-जवाबी सस्ता ०४० वप्र  
देवराज शास्त्री नूतन ब्रह्मचारी की कुजी रीगल ०७५  
देवराज सिंह दे शर्मा, एस जी  
देवव्रत धर्मदु वेद सदेश शारदा म ०७५  
वैदिक सूक्ति सुधा शारदा म ०१९  
देवव्रत शास्त्री गणेशशकर विद्यार्थी आत्माराम ३०० जी  
देवशर्मा शास्त्री अनुवाद-तरगिरा श्री भा भारती १५०  
देवसरे, डकवाल बहादुर भारतीय चित्रकला नद ब्र एव  
नद स ३५०  
देवसरे, श्रीकृष्ण ऐलीमेन्ट्री डिजाइन. रा वेनीमाधव २.००

देवसिंह बृहदासवारिष्ठ सग्रह हि पु ए ३५०  
देवसेनसूरि भावसग्रहादि सपा पन्नालाल सोनी भा. ज्ञान-  
पीठ २२५  
देवागन, तुलसीराम ठुमरी गायिकी संगीत ३००  
देवासे, मुन्नालाल काठ का हाथी लोक चेतना २५० क  
देवीदयाल शास्त्री दे गुप्त, वेदपाल.  
देवीप्रसाद बच्चो की कला और शिक्षा अ भा सर्व ८००  
वाल्तेयर पीपुल्स. १५० वप्र.  
—सपा अतहीन कहानी ३ भा पीपुल्स १५० (प्र) वप्र.  
देवीप्रसाद, मुग्गी. मीराबाई की जीवन-चरित्र. सपा ललिता-  
प्रसाद सुकुल बगीच १५०  
देवीप्रसाद कुसुम गद्य-पुष्पमाला प्रदीपिका लायल २००  
लक्ष्मीनारायण मिश्र—चक्रव्यूह एक अध्ययन लायल १२५  
लक्ष्मीनारायण मिश्र—चतुर्युग एक अध्ययन लायल. १२५  
—तथा राकेश. इन्टर काव्य सग्रह प्रदीपिका स २ लायल.  
५४०  
देवीप्रसाद मुसिफ. चमत्कारी बालक इ प्रे ०७५  
यवन राजवशावली इ प्रे ०३१  
सदुपदेश सग्रह इ प्रे ०५०  
देवेद्र अतर्ध्वनि इ. प्रे २.५० का  
रजनीगंधा इ प्रे २५०  
देवेद्र दे तिवारी, देवेद्रदत्त 'देवेद्र'  
देवेद्र 'आर्य' नवीन हिदी व्याकरण और रचना हि सा. स  
३५०  
मुहावरा चार्ट हि सा स ०६०  
देवेद्रकुमार, अनु विज्ञान जगत हिद पा. १००  
देवेद्रनाथ शास्त्री नास्तिकवाद गोविंदराम ०५०  
—अनु उपनिषद् सग्रह सशो स आर्य सा ६००  
देवेद्रप्रताप सिंह दे लवानिया, गौरीशकर  
देवेद्रमिश्र, सपा. भोजप्रवध रा वेनीप्रसाद २००  
देवेद्र सत्यार्थी, १९०८- एक युग एक प्रतीक. राजहस  
४००  
कथा कहो उर्वशी राजकमल. ७०० उ  
कला के हस्ताक्षर आत्माराम २५० जी  
दूध-गाछ राजकमल ६०० उ  
वेला फूले आधी रात राजहस १०.००  
ब्रह्मपुत्र. राजकमल ७०० उ  
रेखाए बोल उठी आत्माराम ३.०० जी.  
देवेद्रसिंह तुलसी का अतर्जगत् मजुल. ५००  
देवेगदास अधखिली आत्माराम. ४०० उ  
मास्को से मारवाड इ प्रे २००. क  
यूरोपा आत्माराम ३००  
रक्त-राग. भा ज्ञानपीठ ३०० उ  
रजवाड़ा आत्माराम ३०० भ्रमण  
राजसी भा ज्ञानपीठ २५० उ  
देगदीप सिंह देश-रत्न कागी पु २००  
देशपांडे, ए आर. 'अनिल' भग्नमूर्ति अनु प्रभाकर माचवे.  
सा. अकादमी १.००. का.

देशपांडे, पांडुरंग गणेश, १९००- गांधी-साहित्य-सूची नव-  
जीवन ३२५  
लोकमान्य तिलक सस्ता २५० जी  
देशपांडे, श्री जी भासी की रानी हिं प्रचा पु १०० जी  
मराठी का भक्ति साहित्य चौखट्टा १०००  
देशपांडे, भी गो, १९११- मराठी भाषा का सरल परिचय  
नद व एव नद स १५०  
लोकमान्य तिलक राष्ट्र प्रचा समि ३०० जी  
देसराज तथा गधर्व आज के महापुरुष जब वच्चे थे २ भा  
सहगल ०६५ (प्र) वप्र  
जीना सीखो सहगल ३००  
विज्ञान के चमत्कार सहगल ०६५ वप्र  
देसाई, अरविंद भरतेदु और नर्मद का तुलनात्मक अध्ययन  
सरस्व पु स १२५०  
देसाई, नारायण धरती माता की गोद मे अ भा सर्व  
०७५  
भारत मे गाति सेना अ भा सर्व ०२५  
भूदान-आरोहण अ भा सर्व ०५०  
मार्गदर्शिका अ भा सर्व ०५०  
सर्वोदय विचार अ भा सर्व ०७५  
देसाई, मगनभाई राजा राममोहनराय से गांधीजी नवजीवन  
२००  
—सपा हिंदी-गुजराती कोश गुजरात ६००  
देसाई, महादेव हरिभाई, १८९२-१९४२ इंग्लैंड मे गांधीजी  
सस्ता १५०  
एक धर्मयुद्ध नवजीवन ०७५  
महादेवभाई की डायरी नवजीवन भा १ ५००, भा २.  
५००, भा ३ ६००  
देसाई, रमणलाल वसंतलाल, १८९२-१९५४ अमर लालसा.  
हिं पु ए ३५० उ  
कोकिला वीरा १७५ वप्र  
क्षितिज वीरा ५०० उ  
क्षितिज के आगे वीरा ५०० उ  
व्य वीरा २०० वप्र  
दवी आग वीरा १७५ वप्र  
दिव्यचक्षु इ प्रे ३५०, — —वीरा २००  
पहाड के फूल वीरा ३५० उ  
पैसा कल्याणदास ५०० उ  
प्रलय वीरा ५५० उ  
वाला जोगन वीरा ६०० उ  
महाराणा उदयसिंह वीरा ५५० उ  
मेरी पति-विजय वीरा ६०० उ  
मेवाड का अरण्योदय वीरा २०० वप्र.  
गौर्यतर्पण वीरा ५०० उ  
हम क्यों रूके ? ज्ञानमंडल एव भा प्र मंडल २५० क  
हृदयनाथ ज्ञानमंडल एव भा प्र मंडल ६००. उ  
देसाई, बालजी गोविंदजी गांधीचरितमानस (उद्योगकांड)  
नवजीवन आरभ ०५०, मध्यभाग ०६०, समाप्ति ०७०

गांधीचरितमानस (बालकांड) नवजीवन ०३७  
प्रेमपथ नवजीवन भा १ ०२५, भा २ ०४०  
देहाती गाव की बाते गगा ०७५  
हमारे गाव और किसान राष्ट्रीय प्र मंडल १२५  
दोषी दे रामानंद 'दोषी'  
दोषी दे गभूलाल दोषी  
दोषी, फूलहरिचंद दे वर्मा, कृष्णलाल  
दोषी, ताराचंद्र सावुन विज्ञान चंद्र कार्या २००  
दोस्तोवस्की अपराध और दंड कि महल ४०० उ, —  
गगा ७००, — —प्रभात प्र ४००  
अहवादी अनु इलाचंद्र जोगी साधना सदन ३०० उ  
कारावास अनु विजय चौहान तथा शिवदानसिंह चौहान  
नेशनल ७५० उ  
जुआरी हिंद पा १०० उ  
जुर्म और सजा रणजीत १०००  
दरिद्र नारायण पीपुल्स १२५ उ  
महामूर्ख नेशनल ८०० उ  
वासना राजपाल ३५० उ  
सूदखोर की पत्नी अनु इलाचंद्र जोगी अशोक प्रे २००  
उ  
द्रुपद आतश की शायरी मातृ-भाषा २००  
जौक की गायरी मातृ-भाषा २००  
द्वारकानाथ माधवराव उल्कापात हिंदिया ३०० कथा  
द्वारकाप्रसाद अपने वच्चे से कैसे कहू नीलाभ १५० मनो  
आदमी सा साधना १२५ ना  
आधुनिक इंजैकन बुक देहाती ५००  
आधुनिक एलोपैथिक गाइड देहाती १२००  
कपाउडर्ज गाइड देहाती ३००  
काम-मनोविज्ञान तथा यौन-व्याधिया प्रचा पा १००  
गुनाह वेलज्जत नीलाभ २५० उ  
पहिए अभिज्ञान उ  
मम्मी विगडेगी अभिज्ञान उ  
मानव मन ज्ञानपीठ ४७५  
मानव मनोविज्ञान नीलाभ ६००  
सरल चिकित्सा अरण्योदय देहाती ३००  
हथौडे और चोट अशोक पा १०० उ  
द्वारकाप्रसाद, द्वारिकेश हिंदी भाषा का वैज्ञानिक इतिहास  
(प्रश्नोत्तर) रोगल १५०  
द्वारकाप्रसाद शास्त्री पुस्तक वर्गीकरण कला हि प्रचा पु  
५००  
पुस्तक सूचीकरण कला हि प्रचा पु ५००  
पुस्तकालय परिचय सा भवन, इ एव हि प्रचा पु १५०  
पुस्तकालय प्रवध हि प्रचा पु ५००  
पुस्तकालय मे सदर्भ सेवा हि प्रचा पु. ५००  
पुस्तकालय विज्ञान हि प्रचा पु ५००  
पुस्तकालय संगठन तथा संचालन एस चाद ३२५  
वैसिक विद्यालय मे पुस्तकालय की उपयोगिता हि प्रचा पु  
१.००

भारत मे पुस्तकालयो का उद्भव और विकास हि प्रचा पु.  
५००  
द्वारिकाप्रसाद. कामायनी मे काव्य, सस्कृति और दर्शन  
विनोद १०००  
वच्चे कहा से आते है ? नेशनल २००  
बालक-बालिकाओ की मनोवैज्ञानिक समस्याए नेशनल २५०  
मौत और जिंदगी. सन्मार्ग ३५० उ  
सस्कृत साहित्य का इतिहास (प्रश्नोत्तर मे) विनोद ३००  
द्वारिका सिंह बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र. मगध ४००  
बुनियादी शिक्षा मे विभिन्न विषयो की शिक्षण विधि ६००  
बुनियादी शिक्षा मे समवाय मगध ५२५  
द्वारिकेश 'काव्य सग्रह' भाग १ की टीका विनोद ४००  
द्विजेद्र. दे मिश्र, गौरीशकर 'द्विजेद्र'.  
द्विरेफ, परमेश्वर युग ल्पटा प्रेमचद हि प्रचा पु ५००  
द्विवेदी मानो न मानो प्रभात पब्लि. ५००  
हिंदी महाभारत. इ प्रे ६००  
द्विवेदी, आर एस तथा एस एस राठी अर्थशास्त्र के सिद्धात.  
आगरा बुक. ६००  
द्विवेदी, उमापति सनातन धर्मोद्धार ४ भा कागी हिंदू.  
१००० (प्र)  
द्विवेदी, एम एल चादी का जाल आदर्श पु म १००. उ  
जवानी के सपने आदर्श पु म १०० उ  
द्विवेदी, कपिलदेव अभिज्ञानशाकुंतलम् रा वेनीमाधव. ६००.  
चतुर्थ अंक १००  
अर्थविज्ञान और व्याकरणदर्शन. हिंदु एकेडेमी १२००  
प्रतिमानाटकम्—महाकवि भास कृत रा वेनीमाधव ३५०  
सस्कृत साहित्य का इतिहास. स २ रा वेनीप्रसाद ५००  
द्विवेदी, कपिलदेव दे काले.  
द्विवेदी, कमलकृष्ण. उच्चतर माध्यमिक भारत इतिहास मिश्र-  
वधु भा. १-३  
द्विवेदी, कमलकृष्ण दे उपाध्याय, कमलाकर  
द्विवेदी, कृष्णवल्लभ ज्ञानलोक ५ ख ख १ आकाश के  
कौतुक, ख २ धरती माता, ख ३ विचित्र जीव-जंतु,  
ख ४. अनोखे पेड-पौधे, ख ५ हमारा अद्भुत शरीर प्र.  
गृह. ६०० (प्र)  
द्विवेदी, कृष्णवल्लभ तथा अन्त्य, सपा हिंदी विश्व-भारती,  
ज्ञान-विज्ञान का कोष सशो तथा परि नवीन स. ४ भा  
नव-ज्योति प्रे ८४००  
द्विवेदी, केदारनाथ विद्यापति पदामृत का सरल अध्ययन  
रीगल २००  
सूर सग्रह की टीका. रीगल. २.००  
द्विवेदी, गगनारायण राष्ट्र-गीतावली रा. वेनीप्रसाद ०७५.  
वप्र  
द्विवेदी, गणेशप्रसाद. कवि कालिदास हि. सा सम्मे १.२५  
सोहाग-विदी. इ प्रे १.२५. ना  
—सपा. नृत्य अंक संगीत. ३.००  
हिंदी प्रेमगाथा काव्य-सग्रह सशो. गुलावराय. हिंदु. एकेडेमी.  
६.५०

हिंदी वीर-काव्य सग्रह. सशो उदयनारायण तिवारी. हिंदु  
एकेडेमी. ४००  
हिंदी सत काव्य-सग्रह सशो. परशुराम चतुर्वेदी. हिंदु एके-  
डेमी. ५००  
द्विवेदी, गिरजाशकर गृहिणी-भूषण. स. २. रा वेनीमाधव  
०७५  
द्विवेदी, गोविंदप्रसाद नवीन व्याकरण और रचना नद. ब्र.  
१५०  
द्विवेदी, गौरीशकर 'शकर', १८६६- ईसुरी-प्रकाश बुदेल  
१५० गीत  
कामरूप कथा-महाकाव्य बुदेल ७.५० का  
गीता-गौरव. स २ बुदेल १५०  
बुदेल-वैभव बुदेल ३ भा. बुदेल. ३०० (प्र)  
महाराणी भासी वीरागना लक्ष्मीबाई बुदेल १००. का  
सुकवि-सरोज गगा ६००, — — बुदेल. भा १ १००;  
भा २. ३००  
द्विवेदी, चंद्रदत्त. जनतत्रात्मक शिक्षालय व्यवस्था (प्रश्नोत्तर).  
पु भ, आ ४००.  
भारतीय शिक्षा का इतिहास (प्रश्नोत्तर) पु भ., आ.  
३.५०  
शिक्षा के तात्विक सिद्धात (प्रश्नोत्तर) पु. भ, आ. ५२५  
शिक्षा मनोविज्ञान (प्रश्नोत्तर). पु भ, आ ३.००  
शिक्षा शास्त्र पु भ, आ २२५  
समाज मनोविज्ञान (प्रश्नोत्तर) पु. भ., आ ४.००  
सामान्य मनोविज्ञान की रूपरेखा (प्रश्नोत्तर) पु भ, आ.  
४००  
सामान्य शिक्षण पद्धतिया पु भ, आ.  
—तथा आर पी गर्मा. स्कूल स्वास्थ्य विज्ञान (प्रश्नोत्तर).  
पु. भ, आ ३.००  
द्विवेदी, चंद्रप्रभा नगर के पथ पर कि महल १७५  
द्विवेदी, जी एन अंतर्राष्ट्रीय सवध पु भ., आ.  
भारतीय राजनीति (१८५७ से वर्तमान काल तक). पु. भ.,  
आ  
द्विवेदी, ज्योत्सना हिंदी किगोर साहित्य. नद. ब्र एव नद. सं  
३००  
द्विवेदी, दीपनारायण छव्वीस कवियो की समालोचना स. ६.  
शिवाजी १५०  
द्विवेदी, देवनारायण कर्त्तव्याघात स ४. ज्ञानमडल ४.५०.  
उ  
घाघ और भड्डरीकी कहावते. १५०  
दहेज. काशी पु ३०० उ.  
पश्चाताप ज्ञानमडल ४२५ उ  
प्रणय ज्ञानमडल ५०० उ., — — प्रचा. पा १.००  
विनयपत्रिका ज्ञानमडल. ६००  
द्विवेदी, पृथ्वीनाथ दे द्विवेदी, हजारीप्रसाद  
द्विवेदी, प्रभाकर एक अकेला स्वर वि. ग्र कु  
पार उत्तरि कह जइही भा. ज्ञानपीठ. ३००. या.  
फिर बहुत दिन बाद चौधरी. २.००

मरुभूमि मे खोई नदी कल्याणदास २५० उ, —  
 वि अ कु २२५  
 शीतला बहू की आत्मकथा चौधरी २५०  
 द्विवेदी, भैरवप्रसाद मानस तरंग मानस सघ ख १ १५०,  
 ख २ २००  
 द्विवेदी, मन्नन रामलाल इ प्रे १७५ उ  
 द्विवेदी, महावीरप्रसाद अद्भुत आलाप गगा ३०० उ.  
 आध्यात्मिकी इ प्रे १५०  
 आलोचनाजलि इ प्रे १५०  
 कालिदास की निरकुशता इ प्रे ०.५०  
 कुमारसभव इ प्रे १२५ आ  
 कोविद-कीर्तन इ प्रे १२५ जी  
 ज्ञानभारती हिं पु ए १७५  
 नैषध चरित-चर्चा गगा ३००  
 पुरातत्व प्रसंग सा सदन, चि १००  
 प्रवध-पुष्पाजलि सा सदन, चि १००  
 प्राचीन चिह्न इ प्रे १०० इति  
 प्राचीन पंडित और कवि गगा ३५०  
 महिलामोद प्रभात पब्लि १५०  
 रसज्ञ रजन स. १० सा रत्न भ १७५  
 वाग्विलास पु भ ३०० आ  
 विदेशी विद्वान् इ प्रे १२५ वप्र  
 वेणी-सहार-नाटक गगा १५०  
 सकलन भा भ १५० नि  
 सचयन कौशावी. २२५ नि  
 समालोचना-समुच्चय रा बेनीमाधव १५० नि  
 साहित्य-सदर्भ गगा ४००  
 सुकवि-सकीर्तन गगा ३००  
 द्विवेदी, रघुवरप्रसाद सदाचार दर्पण मिश्र-वधु ४०० वप्र  
 द्विवेदी, रमाकात सामाजिक शिक्षा पथ प्रदर्शिका कृष्णा ब्र  
 १००  
 द्विवेदी, रमानाथ बाल-रोग चिकित्सा स. २ मेडिकल  
 ५००  
 भिषक्कर्म सिद्धि चौखवा २५००  
 द्विवेदी, राजेद्र भाषा-शास्त्र का पारिभाषिक शब्दकोश  
 आत्माराम १०००  
 विदुरनीति देहाती १५०  
 शेक्सपीयर के सानेट आत्माराम ३०० का  
 साहित्य-शास्त्र का पारिभाषिक शब्दकोष आत्माराम  
 ८००  
 द्विवेदी, रामअवध, १९०७- अंग्रेजी भाषा और साहित्य  
 हिं समि ३५०  
 आविष्कारो की कहानिया नद ब्र एव नद स ० ६२  
 साहित्यरूप भा भ ६००  
 साहित्य सिद्धांत वि राष्ट्र ५००  
 हिंदी लिटरेचर हिं प्रचा पु ५००  
 हिंदी साहित्य के विकास की रूपरेखा भा भ ४००  
 द्विवेदी, रामगोविद वैदिक साहित्य भा ज्ञानपीठ ६००

द्विवेदी, राममोहन जीवन के चौराहे पर स २ साधना सा  
 सदन २०० गद्यगीत  
 धरती के दीप स २ साधना सा सदन २०० गद्यगीत  
 साधना के फूल साधना सा सदन २०० गद्यगीत  
 द्विवेदी, रामरजपाल कविवर पत और उनका 'आधुनिक कवि'  
 हिं सा स ७५०  
 प्रसाद पत का तुलनात्मक विवेचन सरस्व पु स ४५०  
 द्विवेदी, रामवचन 'अरविद' गाव की ओर स २ सुलभ  
 २५० का  
 धर्म-द्विवाकर सुलभ पहली किरण १००, दूसरी किरण  
 १५०, तीसरी किरण १५०  
 वीरो की वाणी सुलभ २०० का  
 श्रीकृष्ण-सदेश स २ सुलभ ५००  
 हिंदी-सदेश स ३ सुलभ २००  
 द्विवेदी, रामशकर, १९०३- आदर्श वीरता आदर्श पु भ  
 १०० ना  
 कस-वध आदर्श पु भ ०७५ का  
 नये गीत रा बेनीमाधव ०७५ वप्र  
 बापू की अमर कहानी रा बेनीमाधव ०७५ वप्र  
 द्विवेदी, रामाज्ञा 'समीर' अवधी-कोप हिंदु एकेडेमी ७५०  
 द्विवेदी, लोकनाथ 'सिलाकारी' काव्य-निकष साथी १००  
 बिहारी-दर्शन राष्ट्रीय प्र मडल एव राष्ट्रीय सा स ५००  
 द्विवेदी, विश्वनाथ भाव प्रकाश निघट्टु स ४ मोतीलाल  
 ७००  
 द्विवेदी, शकरधर भारतीय नागरिक जीवन स्टुडेंट्स स्टोर्स  
 २२५  
 भारतीय नागरिक शास्त्र स्टुडेंट्स स्टोर्स ३००  
 भारतीय शासन स्टुडेंट्स स्टोर्स २३७  
 द्विवेदी, शातिप्रिय, १९०६- आधान हिं प्रचा पु २५०  
 नि  
 कवि और काव्य इ प्रे २००  
 चारिका राष्ट्रीय प्र मदिर २५० कथा  
 चित्र और चितन चौखवा २५० सस्म  
 जीवन-यात्रा ग्रथमाला १५०  
 ज्योति विहग हिं सा सम्मे ५०० आ  
 दिगवर हिं प्रचा पु २०० उ  
 धरातल ज्ञानमडल २७५  
 पथचिह्न स ३ चौखवा १५० सस्म  
 पद्मनाभिका कल्याणदास २५० नि  
 परिक्रमा चौखवा ४०० सस्म  
 परिव्राजक की प्रजा इ प्रे ३५० जी  
 प्रतिष्ठान इ प्रे ३००  
 मधुसचय पु भ ०७५ का  
 युग और साहित्य इ प्रे ३२५  
 वृत और विकास भा ज्ञानपीठ २५० नि  
 सचारिणी इ प्रे २५०  
 समवेत नद स १७५  
 साकल्य हिं प्रचा पु ४०० नि.

हमारे साहित्य-निर्माता हि प्रचा पु २२५  
द्विवेदी, शालग्राम तथा सभामोहन अवधिया. माध्यमिक हिंदी  
व्याकरण मिश्र-बधु ३००  
द्विवेदी, शिवनारायण गदर का इतिहास भा २ हि पु ए  
५००  
द्विवेदी, इमामसुदर दे केशव  
द्विवेदी, सिद्धविनायक. मुक्तिदान. हिं. प्रचा. पु १७५ उ.  
श्वेत पद्म. हिं प्रचा. पु १७५ उ  
द्विवेदी, सोनेलाल तथा बाबूराम शर्मा भारत-दर्शन गुप्ता ब्रा.  
२३७  
द्विवेदी, सोहनलाल कुर्याल. इ प्रे ३०० का  
चित्रा अवध २०० का, — —इ प्रे २३१  
चेतना इ प्रे २०० का  
जय गांधी इ प्रे १५०० का  
दस कहानिया इ प्रे. २२५. बप्र.  
दूध-बताशा इ प्रे १२५ बप्र  
नेहरू चाचा इ प्रे. २२५. बप्र  
पूजागीत इ प्रे २५० का  
प्रभाती सा भवन, इ ३०० का  
बच्चो के बापू इ प्रे २००  
वासुरी इ प्रे २७५ का  
बाल-भारती इ प्रे १२५  
विगुल सा भवन, इ १५० बप्र  
भैरवी इ. प्रे २७५ का  
युगाधार अवध २२५. का, — —इ. प्रे ३५०  
वासती अवध. २०० का, — —इ प्रे २.३१  
वासवदत्ता इ प्रे ४५० का  
विषपान इ प्रे १०० का  
शिशु भारती इ प्रे १००  
हसो हसाओ इ प्रे १५० बप्र.  
द्विवेदी, हजारीप्रसाद, १९०७- अशोक के फूल सस्ता.  
३०० नि  
कवीर हि ग्र २ ५५०  
चारु चंद्रलेख राजकमल. १२०० उ  
नाट्यशास्त्र की भारतीय परंपरा और दशरूपक राजकमल.  
१०००  
नाथ-संप्रदाय हिंदु एकेडेमी. ५००  
निवध सग्रह सा भवन इ ६००  
प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद सशो स हि. ग्र. र  
५००  
बाणभट्ट की आत्मकथा स ५ हिं ग्र. र ५५०.  
उ  
मध्यकालीन धर्म-साधना सा भवन, इ ५०० नि  
मृत्युञ्जय रवींद्र हिं ग्र २ ६००  
मेघदूत एक पुरानी कहानी हिं ग्र २ ३५०  
विचार और वितर्क सा भवन, इ ४०० नि  
विचार प्रवाह हिं ग्र २ ५५०  
सक्षिप्त पृथ्वीराज रासो सा भवन इ ५.००. का

सभ्यता और संस्कृति ग्रथमाला. २.००  
साहित्य का साथी राष्ट्र प्रचा समि १.५०  
सूर साहित्य हिं ग्र. र. ४.५०  
हमारी साहित्यिक समस्याये. ग्रथमाला ३००  
हिंदी साहित्य का आदिकाल. स ३. वि राष्ट्र. ३.२५  
हिंदी साहित्य की भूमिका. हिं ग्र २ ६००  
—तथा पृथ्वीनाथ द्विवेदी नाट्यशास्त्र की भारतीय परंपरा  
और दशरूपक. राजकमल. १०००  
—तथा विश्वनाथ त्रिपाठी. सदेश रासक हि. ग्र. र ८.००  
—सपा. नाथ सिद्धो की बानिया ना. प्र. सभा. ४००  
—तथा अन्य, सपा भारतीय वाङ्मय. भा १ राष्ट्र प्रचा.  
समि. २००

ध

धनजय, कवि नाममाला सभाष्य. सपा शशुनाथ त्रिपाठी  
भा ज्ञानपीठ ३५०  
धनगर दे खमानीसिंह 'धनगर'  
धनपाल तिलकमजरी. सस्ता ०४० बप्र  
धनराजपुरी, महत आखेट पु भ. ५०० क  
धनराज, मुनि भाव भास्कर काव्यम् आत्माराम. २.००  
धनवटे, सुमतिदेवी तूफान और ज्योति सस्ता. २५०. उ  
धन्यकुमार, विराग काव्य श्री भा दिगंबर १.००  
धरानंद शास्त्री हिंदी-काव्य-शिक्षा श्री भा भारती ४००  
धर्मज्योति. धम्मपद कि महल १५० दर्शन  
धर्मदेव विद्यामार्तंड भारतीय समाज शास्त्र सशो स आर्य  
सा २००  
धर्मदेव विद्यावाचस्पति. गो रक्षा परम कर्तव्य गो हत्या महा-  
पाप. गोविंदराम ०५०  
धर्मनारायण. वनस्पति-शास्त्र कि महल ७५०  
धर्मपाल भारतीय सेना की परंपराए आर्मी ३.००  
धर्मपाल मैनी श्री गुरु ग्रथ साहब एक परिचय हि भवन  
३७५  
धर्मपाल शास्त्री अकुर का सपना आत्माराम १००  
आओ मिल कर गाए राजपाल. ०७५ बप्र.  
आजादी रुक न सकी ओरिएटल १०० बप्र.  
गाओ बच्चो ओरिएटल ०७५ बप्र.  
छिक-छिक ओरिएटल ०.७५ बप्र.  
दुनिया के आश्चर्य आत्माराम २५०  
दोनो को उल्लू बनाया ओरिएटल. ०७५ बप्र.  
पतलून की वन गई निक्कर ओरिएटल ०७५ बप्र  
भारत के साहसी वीरो की गाथाए उमेश २५०  
मक्खियो की नोक-भोक ओरिएटल ०७५ बप्र  
माटी का लडका ओरिएटल ०७५ बप्र.  
मुन्नो के गीत ओरिएटल ०७५ बप्र.  
मेरी गुडिया कुछ तो बोल राजपाल ०.७५ बप्र  
वैज्ञानिक वरदान आर्य बुक २.५०



शेक्सपियर की कहानिया राजपाल २००  
 सरल पंचतंत्र राजपाल ०७५ वप्र  
 सरल हितोपदेश राजपाल ०७५ वप्र  
 सिद्धवाद राजपाल ०७५ वप्र  
 हम एक है राजपाल १०० वप्र  
 हमारे त्योहार राजपाल ०७५ वप्र  
 धर्मपाल शास्त्री दे जीवननाथ  
 धर्मपाल शास्त्री दे वेदपाल शास्त्री  
 धर्मभानु तथा एम सी चौबे भारत का राजनीतिक एवं  
 सांस्कृतिक इतिहास (प्रारंभ मे १९२६ तक) लक्ष्मी ना  
 —तथा हवीव अहमद खा विश्व-इतिहास दिग्दर्शन लक्ष्मी ना  
 ४००  
 धर्मरक्षित लका यात्रा कि महल १५० या  
 धर्मरक्षित, भिक्षु पालि व्याकरण ज्ञानमडल २२५  
 वौद्ध योगी के पत्र मोतीलाल १००  
 महापरिनिव्वानसुत्त ज्ञानमडल ३५०  
 सारनाथ का इतिहास नद ब्र ६०० या  
 —सपा जातकट्टकथा भा ज्ञानपीठ ६००  
 धर्मवीर पजाव का इतिहास इ प्रे ५५०  
 भारतीय संस्कृति केदारनाथ ४५०  
 शिक्षा मनोविज्ञान केदारनाथ  
 समाज शास्त्र परिचय केदारनाथ ५००  
 धर्मवीर 'प्रेमी' प्रवध बोध यग मैन १५०  
 धर्मवीर भारती, १९२६- अध्या युग कि महल २५० का  
 कनुप्रिया भा ज्ञानपीठ ३०० का  
 गुनाहो का देवता स ७ भा ज्ञानपीठ ५०० उ  
 चाद और टूटे हुए लोग कि महल ३०० क  
 देशांतर भा ज्ञानपीठ १२०० का  
 नदी प्यासी थी कि महल २५० ए  
 मानव मूल्य और साहित्य भा ज्ञानपीठ २५०  
 सात गीत वर्ष भा ज्ञानपीठ ३५०  
 सिद्ध साहित्य कि महल १०००  
 सूरज का सातवा घोडा भा ज्ञानपीठ २०० उ  
 —तथा लक्ष्मीकांत वर्मा, सपा निकष सा भवन, इ  
 भा १-२ ३०० (प्र), भा ३-४ ६०० (प्र)  
 धर्मवीर भारती दे वाइल्ड, आस्कर  
 धर्माधिकारी, दादा, १८९६- अहिंसक क्रांति की प्रक्रिया  
 अ भा सर्व ३००  
 क्रांति का अगला कदम अ भा सर्व ०२५  
 दादा की नजर से लोकनीति अ भा सर्व ०५०  
 मानवीय क्रांति अ भा सर्व ०२५  
 सर्वोदय-दर्शन अ भा सर्व ३००  
 साम्ययोग की राह पर अ भा सर्व ०२५  
 स्त्री-पुरुष सहजीवन अ भा सर्व  
 धर्मानंद रसरत्नसमुच्चय मोतीलाल १००० चिकित्सा  
 धर्मद्र तैमूर कि महल २५० (अप्रा) उ  
 रजिया कि महल १५० उ  
 रूप और ईश्वर कि महल २५० उ

विश्वमित्रा कि महल २५० उ  
 धर्मद्रनाथ आधुनिक हिंदी व्याकरण तथा रचना सा सदन,  
 दे २००  
 न्याय कारिकावली मोतीलाल ५२५  
 धर्मद्रनाथ शास्त्री भारतीय दर्शन शास्त्र मोतीलाल ३००  
 श्रीमद्भगवद्गीतामृतम् रा वेनीमाधव ०७५  
 धर्मद्र ब्रह्मचारी शास्त्री गद्य-विहार रा वेनीमाधव १५०  
 छायावाद और रहस्यवाद का रहस्य राष्ट्रीय प्र मडल ए  
 राष्ट्रीय सा स ३००  
 दरिया ग्रथावली (द्वितीय ग्रथ) वि राष्ट्र ६५०  
 महाकवि हरिऔध का प्रिय-प्रवास स ३ रा वेनीप्रसाद  
 १२५  
 सतकवि दरिया एक अनुशीलन वि राष्ट्र १४००  
 सतमत का सरभग-सप्रदाय वि राष्ट्र ५५०  
 सामाजिक शिक्षा तथा समाज सेवा मगध ६७५  
 —तथा देवेद्रनाथ शर्मा साहित्यिक निवधावली ग्रथमाला  
 २७५  
 धर्मेश खिली कली मुस्काया भवरा नवयुग पु भ ४५०. उ  
 धवन, कृष्णकुमार नीति-शतकम् सूर्य प्र २००  
 धवन, देवीप्रसाद 'विकल', १९०७- अरक्षिता गगा २७५  
 उ  
 आगामीर राष्ट्रीय प्र मडल एव राष्ट्रीय सा. स २७५ उ  
 उत्तराधिकार हिंदिया ३०० कथा  
 कुवेर गगा ३५० उ  
 जय जवाहर चैतन्य ३०० ना  
 तपस्या अवध १७५ उ  
 थोडी देर हो गई प्रेम प्र ३५० उ  
 पंडित नेहरू विनोद १५००  
 पाखंडी हिंद पा. १००. उ  
 प्रायश्चित्त अजता ३०० उ  
 पाप और प्रकाश सा प्र २५० उ  
 भाभी अवध १५० उ  
 ससार डूब रहा है अर्चना प्र (पा) १००  
 समस्या प्रभात पब्लि ३०० उ  
 ससुराल गगा ३०० उ  
 सावरमती का सत चैतन्य ३०० ना  
 सीधे सादे रास्ते हि प्रचा पु ३०० उ  
 सोने का हिरन नवीनतम  
 धवन, सुपमा हिंदी उपन्यास राजकमल ११००  
 धाभाई, उदयलाल विश्व इतिहास की रूपरेखा यग मैन  
 ३००  
 धीमान, सीताराम श्मशान सा सदन, दे ०७५ ना  
 धीर, केवल, १९३८- नेहरू ने कहा हिंद पा १००  
 वर्थ कटोल अशोक पा १००  
 वर्थ कटोल, क्या, क्यों, कैसे सहगल ३२५  
 स्त्री-रोग चिकित्सा हि प्रचा पु (पा) १००  
 स्वय डॉक्टर वने प्रचा पा १००  
 धीर, नरेद्र, १९२५- अतरिक्ष के यात्री आत्माराम २५०

धीरेद्र पाषाणी. नव सा प्र ५०० उ  
 धीरेद्र प्रसाद दे. मेहता, एम एल.  
 धीरेद्र मोहन प्रेम पथिक कालेज ०५० का  
 धुन्ना, सुरेद्रमोहन स्वप्नपूर्णा राज पब्लि १५० ना  
 धुरी, द. शि दे बाल, ज गो  
 ध्रुवमल, मुनिश्री अमृत की वृद्धे आदर्श सा १.१५ का.  
 इतिहास के बोलते पृष्ठ आदर्श सा २७५ कथा  
 धूप दे मनमोहन धूप  
 ध्रुवकेतु (गौरीशकर गोवर्द्धन जोशी), १८६२- अवतीनाथ  
 वीरा ५५० उ  
 कर्णावती वीरा ६०० उ.  
 गद्य चयनिका साधना म २०० क  
 चड अशोक वीरा ४५०. उ.  
 चद्रगुप्त मौर्य वीरा ६०० उ  
 चौलादेवी वीरा ५५०. उ  
 जल-बिंदु राजपाल २५०. क  
 नगर-सुदरी वीरा ४२५ उ  
 प्रियदर्शी अशोक वीरा ४५०. उ  
 मगधपति वीरा ५०० उ  
 महामात्य चाणक्य वीरा ४५० उ  
 महारानी कुमारदेवी वीरा ५०० उ  
 राजकन्या वीरा ५५० उ  
 राजसन्यासी. वीरा ५५० उ.  
 राज्यक्रांति वीरा ४०० उ  
 वैशाली वीरा ५५० उ  
 सम्राट चद्रगुप्त वीरा ४०० उ  
 धूलिया, डी पी चित्र दर्शन इ. प्रे १०००  
 ध्रुव, आनंदशकर बापूभाई. हिंदू-धर्म की बालपोथी ज्ञान-  
 मडल १००  
 ध्रुवदास भक्त नामावली सपा राधाकृष्णदास ना. प्र.  
 सभा १२५ जी

## न

नदकिशोर रगमच एस चाद ३०० क  
 नदकिशोर प्रसाद आदर्श लोकोक्तिया और मुहावरे भागलपुर  
 बुक १५०  
 कहावती कहानिया ३ भा भागलपुर बुक ०६२ (प्र) वप्र  
 पर गूज रह जाती है भागलपुर बुक २२५ गद्य का.  
 नदकिशोर 'मदन' संगीत निर्देश. कि. महल  
 नदजीसिंह गत्ता विज्ञान कला-नि १२५  
 नददास अनेकार्थ और नाममाला भारतजीवन ०३७ का  
 ग्रथावली सपा ब्रजरत्नदास ना प्र सभा ६२५  
 भवरगीत. सपा विश्वभरनाथ मेहरोत्रा स ७ रा वेनी-  
 प्रसाद. १००. का  
 नदन, कन्हैयालाल पदमावत-सार का अध्ययन हि भवन  
 ३८०

नदराम कवि. शृंगार दर्पण भारतजीवन. ०.७५. का  
 नदलाल खुशतर आलेखन कला दर्शन कि. महल. १.५०  
 प्रकृति चित्रण प्रबोध कि महल २००  
 भारतीय प्रकृति चित्र कि महल १५०  
 सरल स्मृति चित्रण कि महल ०७५  
 —तथा रामभरोसे आलेखन प्रतिबोध कि महल १५०  
 नदा, के एन उच्चतर माध्यमिक घन ज्यामिति. लायल.  
 १२५  
 नदा, गुलशन, १९२६- अघरे चिराग नवयुग प्र ४५०.  
 उ, — —स्टार (पा) २००  
 एक नदी दो पाट सहगल ३७५ उ  
 कलकिनी. ऐडी ३७०. उ  
 गेलार्ड नवयुग प्र ५०० उ, — —स्टार. (पा) २.००  
 घाट का पत्थर शारदा म ५००. उ  
 जलती चट्टान शारदा म ३२५ उ  
 टूटे पख पजाबी पु २५०. उ, — —स्टार. (पा) १०  
 डरपोक सहगल ४.०० उ  
 देवछाया नवयुग प्र ४०० उ  
 नीलकठ नवयुग प्र ६.०० उ  
 नील कमल सहगल ४५० उ  
 पत्थर के होट सहगल ३७५. उ  
 माधवी सहगल ४५० उ.  
 मै अकेली अशोक पा १०० उ; — —सहगल २५०  
 शीशे की दीवार पजाबी पु २.५० उ, — —स्टार  
 (पा) १००  
 साभ की वेला शारदा म. ३५० उ, — —स्टार (पा)  
 १००  
 सितारो से आगे नवयुग प्र ३५० उ, — —स्टार (पा)  
 १००  
 सिसकते साज सहगल ६००. उ  
 सूखे पेड सब्ज पत्ते सहगल ४५० उ.  
 —अनु रूपमती सहगल ४००. उ.  
 नदा, जगमोहन व्याकरण-चार्ट हि सा स ०७५  
 नवद्रीपाद, ई एम एस गाधी जी और उनका 'वाद' पीपु  
 २५०  
 नकवी, अली इरशाद तथा नरोत्तम भार्गव प्रायोगिक रसाय  
 अपर १५०  
 नकवी, नूर दे अब्बासी, नूरनबी  
 नकश दे. महेशचंद्र 'नकश'  
 नगराज, मुनिश्री अगुव्रत जीवन-दर्शन आत्माराम २००  
 अगुव्रत विचार आत्माराम ०७५  
 अगु से पूर्ण की ओर आत्माराम ०७५  
 अहिंसा के अचल मे आत्माराम १२५  
 अहिंसा विवेक सपा महेंद्रकुमार 'प्रथम' जैन श्वेतावर.  
 ७००  
 आचार्य भिक्षु और महात्मा गाधी आदर्श सा १.५० नि  
 जैन-दर्शन और आधुनिक विज्ञान आत्माराम. /००  
 तेरापथ-दिग्दर्शन आत्माराम एव जैन श्वेतावर ०.४०

नवीन समाज-व्यवस्था मे दान और दया आत्माराम

० १३

प्रेरणा-दीप आत्माराम ० ५०

युग धर्म तेरा पथ आदर्श सा १०० नि

नगायच, प्रकाश अमर जवाहरलाल पजावी पु १५० वप्र

चद्रगुप्त विक्रमादित्य उमेश २५०

नेहरू के हास्य विनोद स्टार (पा) १००

बाघ का शिकार उमेश २०० वप्र

नगीनचद्र, सपा कर्पूरमजरी (भारतेदु हरिश्चद्र) रीगल  
१२५

नगीनाप्रसाद समाज मनोविज्ञान कि महल ५००

नगीविन, यूरी पाइप पीपुल्स ०.२५ क

नगेद्र, १९१०- अनुसंधान और आलोचना नेशनल ४००

अरस्तू का काव्यशास्त्र भा भ ५००

आधुनिक हिंदी कविता की मुरय प्रवृत्तिया नेशनल ४००

आधुनिक हिंदी नाटक स १० सा रत्न भ २५०

कामायनी के अध्ययन की समस्याए नेशनल ३००

देव और उनकी कविता नेशनल ७००

भारतीय काव्यशास्त्र की परपरा नेशनल २०००

भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका ओरिएण्टल १०००

— — नेशनल १२५०

रस-सिद्धांत नेशनल २०००

रीतिकार्य काव्य की भूमिका नेशनल ५.५०

विचार और अनुभूति नेशनल ४५०

विचार और विवेचन नेशनल ४५०

विचार और विश्लेषण नेशनल ५५०

साकेत एक अध्ययन स ९ सा रत्न भ ४००

सियारामशरण गुप्त नेशनल ५५०

सुमित्रानंदन पत स ९ सा रत्न भ ३५०

— तथा कैलाश वाजपेयी गिरिजाकुमार माथुर राजपाल  
२०० जी

— तथा नेमिचद्र जैन काव्य मे उदात्त तत्त्व राजपाल ३५०

— तथा विजयेद्र स्नातक हिंदी कवि समीक्षा श्री भा भारती  
२७५

— सपा एकाकी एस चाद १७५ ए

भारतीय नाट्य-साहित्य एस चाद १२००

भारतीय वाङ्मय सा सदन, चि १५००

हिंदी वार्षिकी एस चाद १९६० ६५०, १९६१ १०००

हिंदी साहित्य का वृहत् इतिहास भा ६ रीतिकाल

रीतिवद्ध ना प्र सभा २५०० /

— तथा अन्य, सपा पाश्चात्य काव्य शास्त्र की परपरा दि  
विश्व १०००

हिंदी अभिनव भारती दि विश्व २५००

हिंदी नाट्य दर्पण दि विश्व २२००

नगेद्रकुमार दृष्टिकोण ग्रथ भ १००

फलेना जामून गव भ ०७५

शिकार ग्रथ भ १००

नगेद्रप्रसाद सिंह हिंदी मे शिक्षा साहित्य वि ग्र कु २५०

नजरूल इस्लाम तथा सत्येंद्र दत्त कविश्री-माला : बगला  
राष्ट्र प्रचा समि

नजलिन, एस फेफडो की तपेदिक पीपुल्स १२५

नजीर भापा प्रेमरस सपा उदयशकर शास्त्री क मु हि  
नजीर दे बनारसी 'नजीर'

नजीर अकवरावादी जीवनी और सकलन राजपाल १५०

नजीर की शाइरी स्टार १००

नजीर अहमद मिरातुल—अरुज अनु मदनलाल जैन सा  
अकादमी ५००

नटराजन भारत पर अमीरीकी फदा पीपुल्स ३००

नटवर दे ललितकुमारसिंह 'नटवर'

नत्थनसिंह गद्यकार-बालमुकुद गुप्त जीवन और साहित्य  
विनोद १२५०

नथमल, मुनिश्री, १९२०- अणुव्रत और अणुव्रती सद्य  
आदर्श सा ० २५

अणुव्रत-दर्शन आदर्श सा १००

अश्रु-वीरगा आदर्श सा १५०

अहिंसा और उसके विचारक आदर्श सा ० ७५ नि

अहिंसा की सही समझ आदर्श सा ० २५ नि

अहिंसा तत्त्व दर्शन आदर्श सा ६००

आखे खोलो आदर्श सा ० ५० नि

आचार्यश्री तुलसी जीवन और दर्शन आत्माराम ५००

आचार्यश्री तुलसी जीवन पर एक दृष्टि आदर्श सा २००

उन्नीसवी सदी का नया आविष्कार अ भा अणुव्रत ० १९

कुछ देखा, कुछ सुना, कुछ समझा आदर्श सा २०० या.

जैन तत्त्व चिंतन आदर्श सा २५०

जैन तत्त्व प्रवेश आदर्श सा भा १. ० ३७, भा २ ० ५०

जैन दर्शन के मौलिक तत्त्व आदर्श सा ख १ १०००,

ख २ १३००

जैन दर्शन मे आचार मीमासा आदर्श सा ३७५

जैन दर्शन मे ज्ञान मीमासा आदर्श सा २२५

जैन दर्शन मे तत्त्व मीमासा ५२५

जैन दर्शन मे प्रमाण मीमासा आदर्श सा ४२५

जैन धर्म और दर्शन आदर्श सा ८००

जैन परपरा का इतिहास आदर्श सा ३३७

तत्त्व-चर्चा आदर्श सा ० २५

त्याग अ भा अणुव्रत ० ५६

दया-दान आदर्श सा ० २५

धर्मबोध आदर्श सा भा १ ० ७५, भा २ १५०, भा ३  
१५०

नयवाद आदर्श सा ० २५

भाव और अनुभाव भा ज्ञानपीठ १५०

भिक्षु विचार दर्शन जैन श्वेतावर ३५० (अप्रा)

मुकुलम् आदर्श सा ३०० दर्शन

विजय के आलोक मे आदर्श सा ० २५

विजय-यात्रा आदर्श सा १७५ गद्य-गीत

विधिवत सचित्र श्रावक प्रतिभ्रमण अ भा अणुव्रत ० ६३

विवेचनात्मक प्रतिक्रमण आदर्श सा. ० ६२

विश्व स्थिति. आदर्श सा ०.५० नि.  
 श्रमण-संस्कृति की दो धाराएँ—जैन और बौद्ध आदर्श सा.  
 ० १६. नि  
 सचित्र श्रावक प्रतिक्रमण आदर्श सा ० ७५  
 स्वास्थ्य बोध अ भा अगुव्रत. ० ३७  
 नम्र. दे नाथूराम 'नम्र'.  
 नय्यर, सुशीला दे परीख, वनमाला.  
 नरसिंहाचारी, एस. टी कामायनी दिग्दर्शन सरस्व पु. स  
 नरसी, भक्त नरसीजी का माहेरा श्यामलाल. ० ५०  
 नरूला, शमशेरसिंह आधी रात का सूरज राजकमल. २.५०  
 क.  
 हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं का वैज्ञानिक इतिहास  
 राजकमल ४००  
 नरूला, सुरेन्द्रसिंह अमृत वेला राजकमल ४५० उ.  
 नरेद्र. बाहर-भीतर प्रभात पब्लि २००. क  
 नरेद्र. दे अल्ताफ हुसैन  
 नरेद्र. दे. आरजू  
 नरेद्र. दे. नरोत्तमलाल 'नरेद्र'  
 नरेद्रदेव. बौद्धधर्म-दर्शन वि. राष्ट्र १७००  
 —अनु अभिधर्म कोश हिंदू एकेडेमी भा १ १२००, भा  
 २-३.  
 —तथा कृष्णदेवप्रसाद गौड, सपा सपूर्णानंद अभिनदन ग्रथ  
 ना प्र सभा १५००  
 नरेद्रदेव सिंह, सपा तुलसी काकली श्रीराम मेहरा २.००  
 नरेद्रदेव सिंह शास्त्री तथा हरिदत्त शास्त्री पालि-कथा-प्रकाश  
 विनोद ३००  
 नरेद्रनाथ आयल इजन गाइड देहाती ६००  
 आयल व गैस इजन देहाती १०५०  
 आर्मेचर वाइडर्स गाइड. देहाती ११२५  
 इलैक्ट्रिक इजीनियरिंग बुक देहाती १५००  
 इलैक्ट्रिक गाइड देहाती १०००  
 इलैक्ट्रिक परीक्षा पेपर्स २ भा देहाती. १२००  
 इलैक्ट्रिक बैट्रीज देहाती ४५०  
 इलैक्ट्रिक मीटर्स देहाती ८२५  
 इलैक्ट्रिक मोटर्स देहाती ८.२५  
 इलैक्ट्रिक मोटर्स आल्टरनेटर्स देहाती १६५०  
 इलैक्ट्रिक लाइटिंग देहाती ८२५  
 इलैक्ट्रिक वायरिंग देहाती ४५०  
 इलैक्ट्रिक वैल्विंग. देहाती ६००  
 इलैक्ट्रिक सुपरवाइजर परीक्षा पेपर्स देहाती ७५०  
 इलैक्ट्रिक सुपरवाइजरी शिक्षा देहाती ६००  
 इलैक्ट्रिसिटी रूल्ज १९५६ देहाती. १५०  
 ए सी जेनरेटर्स देहाती ८२५  
 कूड आयल इजन गाइड देहाती ४५०  
 घरेलू बिजली रेडियो मास्टर. देहाती. २५०  
 छोटे डायनेमो इलैक्ट्रिक मोटर बनाना देहाती ४५०  
 टाका लगाने का ज्ञान देहाती. २.५०  
 ट्रांसफार्मर गाइड. देहाती. ६.००

प्राैक्टिकल आर्मेचर वाइडिंग देहाती ७५०  
 बृहत् रेडियो विज्ञान देहाती १५००  
 मोटरकार वायरिंग देहाती ६००  
 वायरलैस रेडियो गाइड देहाती ८२५  
 रेडियो शब्द कोष देहाती १२५  
 रेडियो सर्विसिंग. देहाती १०००  
 रेलवे ट्रेन लाइटिंग देहाती ६००  
 रैफरीजेरेटर गाइड देहाती ८२५  
 सुपरवाइजर वायरमैन प्रश्नोत्तर देहाती ४५०  
 नरेद्रनाथ, आचार्य अभिनव भाषा विज्ञान रामा प्र ६.००;  
 ८००  
 आस्ट्रेलिया के आचल मे एस चाद ५५० या.  
 प्राकृत भाषाओं का रूप दर्शन रामा प्र ८००  
 नरेद्रनाथ शास्त्री कथा कुमुदावली गयाप्रसाद २५०  
 गगयति निदान मोतीलाल ६००  
 नरेद्रनारायण सिंह दे एपिक्टेटस  
 नरेद्रपाल सिंह शांति के पथ पर सा सगम, लु ६०० उ.  
 नरेद्र बीर मै धरती पजाब की सा सगम, लु ४०० आ  
 सिद्धनाथ . एक विवेचन सा सगम, लु ५००  
 नरेद्र 'राव' अमर बलिदान लोक चेतना १५० ना  
 नरेद्र शास्त्री कायाकल्पयोग गंगा १२५  
 नरेद्रसिंह उनतालीस वर्ष. सा सगम, लु ५०० उ  
 शक्ति सा सगम, लु ४०० उ.  
 नरेद्रसिंह शास्त्री तथा राजेद्र शर्मा अमर गीत-सार विनोद.  
 ५.००  
 नरेश गोधूलि ग्रथमाला २.०० क  
 प्रतिनिधि कहानिया भा २ अभिज्ञान २०० क.  
 नरेश चंद्र करणा सा साधना ३०० उ  
 नरोत्तमदास सुदामा चरित टीका कुजबिहारीलाल शुक्ल.  
 रा. वेनीप्रसाद ० ६०  
 सुदामा चरित टीका कृष्णदेव हि सा स. ० ७५  
 सुदामा चरित सपा. वद्रीप्रसाद सारस्वत सा. रत्न भ ० ७५  
 सुदामा चरित सपा विश्वनाथप्रसाद मिश्र. नद स ० ६२;  
 — —वाणी-वितान ० ६२  
 —सपा पद्य रत्नावली रा. वेनीप्रसाद १७५  
 नरोत्तमदास स्वामी अपभ्रंश-पाठगाला भा १. इ प्र १००  
 अलकार परिचय लक्ष्मी ना १२५  
 अलकार पारिजात लक्ष्मी ना २७५  
 कृष्ण गीतावली गयाप्रसाद. १७५ का.  
 कृष्ण-रुक्मणी-री वेली (पृथ्वीराज राठौर). श्रीराम मेहरा.  
 ५००  
 नवीन अलकार परिचय लक्ष्मी ना १००  
 मधुपर्क गयाप्रसाद २५०  
 मीरा मदाकिनी गयाप्रसाद २००. का.  
 राजस्थान रा दूहा नवयुग ग्र कु.  
 राजस्थानी साहित्य एक परिचय नवयुग ग्र. कु. ० ७५  
 राजिये रा दूहा नवयुग ग्र कु ०.७५  
 वल्लरी. नवयुग ग्र कु १.५० .आ.

सक्षिप्त राजस्थानी व्याकरण नवयुग ग्रंथ कु  
संस्कृत काव्य कौमुदी गंगाप्रसाद २५०  
सूर ममीक्षा नवयुग ग्रंथ कु २००  
—सपा काव्य नाट्यामृतम श्रीराम मेहरा १२५  
पद्य पराग श्रीराम मेहरा १२५  
सक्षिप्त तत्रास्याकम श्रीराम मेहरा १२५  
संस्कृत-काव्यालोक कल्याणमल १७५  
हिंदी-पद्य पारिजात २ भा ना प्र सभा ३००  
नरोत्तमलाल 'नरेद्र' विचार-विदु अगोक प्र २५०  
नलिन. दे जयनाथ 'नलिन'  
नलिनीवाला देवी दे चौधरी, रघुनाथ  
नल्ले, अमृतधर राजधानी अमृत ३५० उ  
नवरगी, रे शा आधुनिक बालनाटकावली पु भ, रा १५०  
नवलकिशोर तथा वैजनाथलाल शिक्षालय संगठन हि प्रचा  
पु १७५  
नवलकिशोर सिंह भारतीय अर्थशास्त्र स १९६३ भा  
भवन १४५०  
व्यवसायिक संगठन तथा औद्योगिक नियंत्रण भा भवन  
नवलविहारी देवताओ का भोजन प्रभात पव्लि [६५०  
नवाग्रअली, राजा मारिफुन्नगमात अनु विश्वभरनाथ भट्ट  
सगीत भा १ ६००, भा २ ६००, भा ३ १२५  
नवीन दे शर्मा, बालकृष्ण 'नवीन'  
नवीन 'मृदुल' रूपमती कि महल ०७५ वप्र  
नवेद्र दे चद्रकात नवेद्र  
नशतर, एस पी मानवता की लाश नवीनतम  
नसीव दे राजवहादुर सिंह 'नसीव'  
नसीर फरीदी, शाह ऊची नीची लहरे रामप्रसाद २०० क  
जीवन-भाकी नव-ज्योति प्र १५० क  
वतन के गीत विनोद ४०० का  
—सपा उर्दू की प्रसिद्ध हिंदू कवयित्रिया रामप्रसाद २५०  
नहुष नाटक सपा बजरत्नदास ना प्र सभा १७५  
नाईक, दादाभाई कपास अ भा सर्व २५०  
नाग भारत का औद्योगीकरण कि महल २५०  
नाग, कृष्ण. उपन्यास की शिल्पविधि का विकास लोक चेतना  
६००  
नाग, दर्याशंकर भारत का आर्थिक विकास एस चाद ५२५  
नागदेव मदनपराजय, सपा राजकुमार जैन भा ज्ञानपीठ  
८००  
नागपाल तथा नारवदे प्रमुख राजनीतिक विचारक कि महल  
६००  
नागपाल, ओ पी कनाडा का संविधान कि महल १७५  
नागर, अवाशकर दे कलार्थी, मुकुलभाई  
नागर, अवाशकर दे गिरिराजकिशोर  
नागर, अमृतलाल, १९१६- तुलाराम शास्त्री भा भ १५०  
नटखट चाची गंगा १०० वप्र  
पीपल की परी सध्या २५० क  
दूद और समुद्र कि महल १५०० उ  
भगवतीचरण वर्मा राजपाल २००० जी

महाकाल भा भ ३०० उ  
ये कोठेवालिया राजकमल ४५० उ  
शतरज के मोहरे भा ज्ञानपीठ ६०० उ  
सुहाग के नूपुर राजकमल ४५० उ  
सेठ वाकेमल कि महल २५० उ  
नागर, एम जी प्राकृतिक आरोग्य विज्ञान कल्पवृक्ष ०३७  
नागर, गिरिजाशंकर अर्थशास्त्र का प्रारंभिक ज्ञान नद व्र  
एव नद स २५०  
—तथा विष्णुनारायण गौतम बुक कीपिंग का प्रारंभिक ज्ञान  
नद व्र १२५  
नागर, गोपालदास दे पटेल, पीतावर  
नागर, घनश्यामदास बुनियादी शिक्षा की क्रियात्मक रूपरेखा  
मैट्रोपोलिटन ५००  
राष्ट्रीय एकतामाला—दैनिक जीवन भा १ समाज के स्तभ  
३००, भा २ पडोसियो से ही समाज बनता है ३००,  
भा ३ भारतीय एकता की कहानी ४००, भा ४  
हमारा घर ३००, भा ५ जीने के लिए ३०० मैट्रो-  
पोलिटन  
नागर, जी डी तथा सी पी श्रीवास्तव वाल अर्थशास्त्र  
नद व्र एव नद स १५०  
नागर, दुर्गाशंकर, सपा प्राण चिकित्सा कल्पवृक्ष २००  
नागर, नरोत्तम अगारे हिंदिया ३००  
नागर, बालकराम दो नाटक कि महल १००  
नागर, मदनलाल कला के सोपान २ भा सरस्व प्रे १५०  
(प्र)  
नागर, विष्णुराम, सपा आधुनिक काव्य सचय श्रीराम मेहरा  
३००  
नागर, गिवचंद्र महादेवी विचार और व्यक्तित्व कि महल  
३५०  
नागर, सत प्रार्थना कल्पद्रुम कल्पवृक्ष ०५०  
विशाल जीवन कल्पवृक्ष २००  
स्वर्णमूत्र कल्पवृक्ष ३००  
नागरी प्रचारिणी सभा अर्धगतावदी इतिहास (सभा का) ना  
प्र सभा ३००  
आरक्षिक शब्दावली सपा रामचंद्र वर्मा ना प्र सभा ०५०  
खोज का पचास वर्षीय विवरण (१९००-१९५०) १००  
हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों की खोज का त्रैवार्षिक  
विवरण भा १३ (१९२६-२८) २१००, भा १४  
(१९२९-३१) १५००, भा १५ (१९३२-३४) ११००,  
भा १६ (१९३५-३७) ११००, भा १७ (१९३८-  
४०) ११००, भा १८ (१९४१-४३) २२००. ना प्र.  
सभा  
वृहद हिंदी शब्दसागर सपा श्यामसुंदरदास ८ ख. ना प्र  
सभा ख १२, ५ ३३००  
लघु शब्दसागर ना प्र सभा ११००  
लघुतर शब्दसागर ना प्र सभा ६००  
सक्षिप्त हिंदी शब्दसागर सपा रामचंद्र वर्मा सशो स ना  
प्र. सभा १८००

स्थानिक परिषद शब्दावली सपा रामचंद्र वर्मा ना. प्र. सभा. ०.५०  
हिंदी विश्वकोश. १० ख. ना प्र. सभा ख १-२. १२-५० (प्र.) ख ३  
हीरक-जयती-ग्रथ सपा. श्रीकृष्णलाल तथा करुणापति त्रिपाठी ना. प्र. सभा १२५०  
नागार्जुन अग्रतारा राजपाल २५०. उ  
एक व्यक्ति एक युग परिमल २.७५ जी  
कथा-मजरी. आत्माराम. १०० बप्र.  
दुखमोचन राजकमल ३.००, विद्यार्थी सस्करण. २३०. उ  
नई पौध कि. महल. २५०. उ  
प्रेमचंद पीपुल्स. १५० बप्र  
बलचनमा कि. महल ३.०० उ  
बाबा बटेसरनाथ राजकमल. २०० उ  
रतिनाथ की चाची कि महल २५० उ  
वरुण के बेटे कि महल ३०० उ., — —रूपसी (पा) १००  
वीर विक्रम पु भ १०० बप्र  
सौ गीत विद्यापति के रामलोचन (पा) १००  
हीरक जयती आत्माराम ३०० उ  
नागार्जुन दे कालिदास  
नागेश्वरप्रसाद. सन् सत्तावन मे छोटानागपुर अभिज्ञान. १२५  
नागेश्वरलाल कवि पत और उनकी ग्रथि कमल प्र १५०  
नाजिम, हिकमत हाथ अनु चद्रवली सिंह सा. केद्र १.०० क  
नारणावटी, अमृतलाल हिंदुस्तानी बालपोथी हिंदु प्रचा सभा भा १. ० २५, भा २ ०.७५  
—सपा फुलवारी हिंदु प्रचा. सभा गद्य-पद्य  
हिंदुस्तानी कहानिया हिंदु प्रचा सभा. भा १ ० ४४, भा. २ ०.८७  
हिंदुस्तानी छोटी कहानिया हिंदु प्रचा सभा ० ३७  
नाथ, आर तथा एम पी वर्मा उत्तरी अफ्रीका युद्ध काल का सक्षिप्त इतिहास भा प्र मंदिर २७५  
नाथमाधव वीर राजपूत छात्रहितकारी १७५ उ.  
नाथूरामका दे देराश्री, सत्यदेव  
नाथूराम 'नअ' बनस्थली सा नि, ब ५००. का  
नाथूराम प्रेमी जैन साहित्य और इतिहास. हिं ग्र. र ६.००  
—सपा. अर्धकथानक हिं ग्र र. ३.५०  
नादान. दे. सक्सेना, नरेद्रमोहन 'नादान'  
नादान हरियानव हरियाणा लोक गीत सग्रह देहाती ३७५  
नानक गुरु नानक के बोल देहाती ०५०  
नानकसिंह, १८६७- अघेरा उजाला राजपाल ६००. उ  
आदमखोर. नेशनल ५.००. उ  
एक म्यान दो तलवार राजपाल ५.०० उ  
कटी पतग हिं प्रचा पु. ६०० उ.  
गीला बरूद. राजपाल ५.००. उ.  
जीवन सग्राम हिं प्रचा. पु ५०० उ  
पवित्र पापी. प्रचा पा. १.००. उ.

परायी मा. पजाबी पु २.५० उ., — —स्टार. (पा.) १००  
पाषाण पख प्रचा पा. १००  
पुजारी राजपाल. ४.००. उ  
पुनर्मिलन हिंद पा १००. उ.  
प्रतिशोध राजपाल ३५०. उ.  
नानकसिंह मभुधर वीरा ५.५०  
मृगतृष्णा. हिंद पा. १००. उ  
रक्त-गान. पजाबी पु २.५० उ., — —स्टार. (पा.) १.००  
सगम. वीरा. ६०० उ  
हडियाभर खून प्रभात प्र. २५० उ  
नामवर सिंह, १९२६- आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तिया. कि. महल १५०, — —लोकभारती ३५०  
आधुनिक हिंदी-साहित्य हिं ग्र र.  
इतिहास और आलोचना नया सा. प्र. ५.००  
छायावाद सरस्व प्रे ४००  
पृथ्वीराज रासो की भाषा सरस्व प्रे १०.००  
बकलम खुद रूपसी (पा) १००  
रस-पद्धति अर्चना प्र, आ  
—अनु. पुरानी राजस्थानी ना प्र सभा ४००  
नारग, इद्रचंद्र दशहरा-दीवाली बनाम रावण-वध रामराज्य-भिषेक हिं. भवन. ०.५०  
पदमावत का अनुशीलन हिं भवन. ५.००  
पद्मावत का ऐतिहासिक आधार हिं भवन. १.००  
पदमावत-सार स २ हिं भवन. ५.००  
नारग, कृपालसिंह तथा प्रेमदत्त वर्मा ग्रेट ब्रिटेन का इतिहास. एस चाद ७५०  
नारग, ब्रह्मवती महान् भारतीय. आत्माराम २५० जी.  
नारदानद, स्वामी सुख-शांति के उपाय स. ३ हिं प्रचा. म. २.५०  
नारायण तथा वर्मा मुद्रा, बैकिंग विदेशी विनिमय एव अंतर्राष्ट्रीय का सरल अध्ययन बुकलेड. ८.५०  
नारायण दे. ब्रजकिशोर 'नारायण'  
नारायण, एस ठोस ज्यामिति का ज्ञान रा बेनीप्रसाद. ३००  
नारायण कुट्टी, वी. हिंदी की नई कविता. अनुसंधान १०.००  
नारायण दास. गल्प निदर्शन. दास २.५०  
शतदल श्रीअरविंद २५०. का.  
श्रीअरविंद का पूर्णयोग श्रीअरविंद ०७५  
सत्य का सैनिक श्रीअरविंद. २००. ना  
नारायण भक्त शेखचिल्ली की पाठशाला. नारायण प्र. २२५. बप्र  
नारायणसिंह औचित्य विचार चर्चा राष्ट्र. प्र म २००  
कृष्ण और गांधी की अहिंसा कि महल. २००  
क्रांतिकारी तुलसी हिं सा सम्मे १०००  
हमारा धर्म और उसकी वैज्ञानिक रूपरेखा. सपा रामनाथ 'सुमन' हिं सा सम्मे ३००  
नारायणस्वामी आर्य समाज क्या है? गोविंदराम. ०७५

कर्त्तव्य दर्पण आर्य सा १००, — गोविंदराम १२५,  
 — शारदा म १५०  
 विद्यार्थी जीवन सन्मार्ग १५०  
 वैदिक यज्ञ-रहस्य गोविंदराम ०३७  
 वैदिक सध्या रहस्य गोविंदराम ०३७  
 संस्कृत सूक्तसागर अ भा विक्रम २१००  
 नारूलकर पूर्व-वुनियादी अ भा सर्व ०५०  
 नाविक दे रामाधार 'नाविक'  
 नासिर प्रेसिडेंट क्रांति का दर्शन हि प्रचा पु १५०  
 नासीर तथा वर्मा सरल प्रायोगिक भूगोल बुकलेड ६५०  
 नाहटा, अग्ररचद, सपा सभा श्रृ गार ना प्र सभा ६००  
 का  
 नाहर आधुनिक भारत कि महल ४००  
 इतिहास के पन्ने २ भा कि महल २५० (प्र)  
 गावों का विकास कैसे हो छात्रहितकारी ०५० (प्र)  
 तुर्क अफगानकालीन भारत कि महल २००  
 धूम्रपान या विषपान कि महल ०७५  
 पर्दा बनाम वे पर्दा छात्रहितकारी १००  
 पुरखों की कहानी कि महल १५०  
 पूर्व-मध्यकालीन भारत कि महल ११००  
 प्राचीन भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास कि  
 महल १२५०  
 बालक का भविष्य सुधारने की कला कि महल २५०  
 बालक के लालन-पालन की कला कि महल २५०  
 भवने तितली और कलिया रूपसी २०० उ  
 भारतीय इतिहास की रूपरेखा २ भा कि महल ६०० (प्र)  
 भारतीय रीति-रिवाज और परंपरा छात्रहितकारी २००  
 मुगल भारत कि महल ४०० (अप्रा)  
 सरल विश्व-इतिहास कि महल १५०  
 सहकारी खेती छात्रहितकारी ०५०  
 हिंदू काल कि महल ३५०  
 नाहर दे गौड, गंगाप्रसाद 'नाहर'  
 नाहर दे रतिभानुसिंह 'नाहर'  
 नाहर, रतनलाल दे सम्सेना, गकरसहाय  
 निआरिंग, स्कॉट तथा हेलेन निआरिंग उठती दिवार हिलती  
 नीव रूपकमल ५५०  
 निकलसन, रेनाल्ड ए इस्लाम के सूफी साधक अनु नर्मदेश्वर  
 चतुर्वेदी मित्र ४००  
 निकोलायेवा, गालिना फसल पीपुल्स ६०० उ  
 निगम आर्थिक तथा व्यापारिक निवध रस्तोगी ३००  
 भारत की आर्थिक प्रगति कि महल ६५०  
 — तथा आष्ठाना भारतीय अर्थशास्त्र एव आर्थिक विकास  
 कि महल १०००  
 भारतीय उद्योगों का सगठन एव प्रवध कि महल १०५०  
 — तथा सहाय भारत में सहकारिता मोतीलाल ४५०  
 विदेश में सहकारिता आगरा बुक. ५००  
 निगम, अनतराम भारतीय सहकारिता आंदोलन सा नि, का  
 लगभग ५५०

निगम, आई सी दे श्रीवास्तव  
 निगम, एन एस हिंदी सूक्ष्मलिपि [आधुनिक प्रणाली] किशोर  
 पब्लि २५०  
 निगम, कामताप्रसाद हमारी दुनिया पहली मजिल रा वेनी-  
 माधव ०६५  
 निगम, दुर्गादियाल वितरण एव राजस्व कि महल ५००  
 — तथा जगदीगनारायण त्रिपाठी अर्थशास्त्र विवेचन स २  
 आगरा बुक ६००  
 निगम, वी एस गेहू की खेती गगा २५०  
 निगम, शिक्षारानी आचल और आसू सहगल ३५० क  
 निगम, श्रीचद, दे शर्मा, वी डी  
 निगम, सालिगराम लोक प्रशासन के सिद्धांत कि महल  
 ७५०  
 निगम, सावित्री एम दे मुशी, एस एन  
 निगम, सी डी इगलिग प्रवेगिका रीडर कुजी विनोद ३००  
 निजामी, खाजा हसन वेगमो के आसू गगा ४०० क  
 निभावन, पी के भारत के लाल आर्मी २५० जी  
 निट्ज, एम विन्टर प्राचीन भारतीय साहित्य मोतीलाल  
 १०००  
 नित्यानंद तथा शिवप्रसाद गोयल वाङ्मय विवेक दास ४००  
 समालोचना तत्व दास १६०  
 नित्यानंद वेदालकार प्रार्थना प्रदीप गोविंदराम ०५०  
 सध्या विनय गोविंदराम १००  
 नित्यानंद शास्त्री आत्मा राम पंच रगम काव्यम् श्रा आत्मा-  
 नंद १५०  
 नित्यानंद, स्वामी वैदिक सिद्धांत व्याख्यान माला गोविंदराम  
 २००  
 निरकार देव 'सेवक' चाचा नेहरू के गीत रा वेनीप्रसाद १२५  
 वप्र  
 टेसू के गीत आत्माराम १०० वप्र  
 दूध-जलेबी इ प्रे १५० वप्र  
 धूप-छाया इ प्रे १५० वप्र  
 पंच-तत्री इ प्रे ३०० वप्र  
 फूलों के गीत इ प्रे १७५ वप्र  
 मटर के दाने सा भवन, इ १२५  
 महापुरुषों के गीत आत्माराम १०० वप्र  
 माखन-मिसरी इ प्रे २०० वप्र  
 मुन्ना के गीत इ प्रे २५० वप्र  
 रिमभिम इ प्रे २०० वप्र  
 हाफिज का सपना सा भवन, इ १५० वप्र  
 निरजनकुमार पाठशाला प्रवध, सामुदायिक सगठन तथा  
 स्वास्थ्य शिक्षा रा वेनीमाधव २००  
 प्रारंभिक शिक्षा सिद्धांत तथा बाल मनोविज्ञान रा वेनीमाधव  
 २७५  
 शिक्षण सिद्धांत और पाठन विधिया रा वेनीमाधव २७५  
 शिक्षा के सिद्धांत और विकास रा वेनीमाधव २७५  
 शिक्षा-दिग्दर्शन स २ रा वेनीमाधव ७००  
 शिक्षा-मनोविज्ञान रा वेनीमाधव २७५

हिंदी भाषा शिक्षण रा वेनीमाधव ३.५०  
 —तथा सी पी श्रीवास्तव प्रारंभिक शिक्षा सिद्धांत तथा  
 मनोविज्ञान नद. ब्र एव नद स. ५००  
 निरजनकुमार सिंह शिक्षालय संगठन. रा. वेनीमाधव ४७५  
 निरजनलाल, सपा काव्य कल्लोलिनि यग मैत्र १८७  
 निरजनसिंह दे. राजेद्रसिंह  
 निराला. अरवतार-पुरुष श्रीगुरु गोविंदसिंहजी. स २ नेचर  
 ०.२५. जी  
 निराला. दे त्रिपाठी, सूर्यकांत 'निराला'  
 निराश. दे. वाकेविहारीलाल 'निराश'  
 निराश. दे सत्यपाल 'निराश'  
 निरुपमादेवी अन्नपर्णा का मंदिर हिं प्र २०० उ.  
 उच्छृंखल सुभाष. २०० उ  
 निर्गुण दे मिश्र, द्विजेन्द्रनाथ 'निर्गुण'  
 निर्वाधि दे. विजय निर्वाधि  
 निर्भय. दे पालीवाल, हरिदत्त 'निर्भय'.  
 निर्मम वसंत फिर आयेगा. भारतेदु भवन ६५०  
 निर्मम. दे हेमराज 'निर्मम'  
 निर्मल. दे जगदीशकुमार 'निर्मल'  
 निर्मल दे मिश्र, ज्योतिप्रसाद 'निर्मल'  
 निर्मल. दे. शैलेंद्रकुमार 'निर्मल'  
 निर्मलचंद्र. चरित्र-विकास नेशनल. १५०  
 जीवन आनंद नेशनल १५०  
 जीवन-ज्योति. नेशनल. २५०  
 निर्मला कुमारी. निर्मला कशीदारी देहाती १२५  
 निर्मला खुशदिल. अधूरा चित्र समाज ३०० का  
 निर्मला गेरजग वालविकास और उस की समस्याए. सा केंद्र  
 ५००  
 मनोमिज्ञान सा केंद्र ६.००  
 निर्मोही. दे तेजकुमार निर्मोही  
 निशक. रामकुमार 'निशक'.  
 निशिकांत हसिए और हसाइए राजकमल. (पा.) १००  
 निश्चलदास, रवामी विचार सागर. श्यामयाल ५.००  
 नीरज किरण वधु प्रभात पब्लि २०० का  
 —तथा भगवतशरण चतुर्वेदी विजय घोष. शिवलाल २००  
 का  
 —तथा विजयचंद्र, सपा स्वतंत्रता के वाद की सर्वश्रेष्ठ हिंदी  
 कविताए प्रगतिशील  
 —तथा सुहेल, अनु एटन चेकव की कहानिया भा प्र मंदिर  
 और मजिल नही मिली भा प्र मंदिर.  
 खत के आसू भा प्र मंदिर  
 जीवन रहस्य भा. प्र मंदिर.  
 नील विहंग भा प्र मंदिर १००  
 बजा वह वस का वाना भा प्र मंदिर  
 रागरग भा प्र मंदिर  
 नीरज यह भी दे गोपालदान 'नीरज'  
 नीरज. दे नीधरी. यमुनाप्रसाद 'नीरज'  
 नीरद दे. ओकारेद्वरदयाल 'नीरद'.

नीरव अच्छा कौन सा नि. का १२५. वप्र.  
 बोलते पशु भा प्र मंदिर १००  
 नील, यू. जीन ओ लवे दिन की यात्रा रात मे अनु उपेन्द्रनाथ  
 अशक नीलाभ ३७५ ना.  
 नीलकंठ बच्चो के गीत कला म  
 नीलकमल दे वमवमसिंह 'नीलकमल'.  
 नीलमणि अतीत के चलचित्र एक समीक्षा रवि २.२५  
 कल्याणी. एक समीक्षा रवि २००  
 नूपुर. दे इंदिरा 'नूपुर'  
 नरउद्दीन शाहिद मोड सुरेद्र २.००. उ.  
 नूरमोहम्मद अनुराग वासुरी सपा रामचंद्र शुक्ल तथा  
 चंद्रवली पाडे हिं. सा सम्मे १.५०  
 नेने, एल जी कांग्रेस की देश सेवा गयाप्रसाद १२५ वप्र  
 पूज्य वापू और उनके गिण्य गयाप्रसाद १२५ वप्र  
 बुनियादी नागरिक शास्त्र गयाप्रसाद १२५  
 भावी भारत गयाप्रसाद १२५. वप्र.  
 हमारा इतिहास. गयाप्रसाद १२५ वप्र.  
 हमारा भारत गयाप्रसाद १२५. वप्र  
 हमारे पडोसी देश गयाप्रसाद १२५. वप्र  
 नेपाली दे गोपालसिंह नेपाली  
 नेवटिया, राधाकृष्ण व्यायाम करो, स्वस्थ रहो सस्ता. १५०  
 सौ साल जिओ सस्ता १५०  
 नेवाज. सकुतला नाटक सपा राजेद्र शर्मा. मगल. १०००  
 नेव्हिस तथा कौमेगर अमेरिका का अभ्युदय एस. चाद ६००  
 नेहरू, जवाहरलाल, १८८६-१९६४. आखो देखा रूस नवयुग  
 प्र २५० या  
 आजादी के दस साल सस्ता. ०३०  
 इतिहास के महापुरुष सस्ता १५०  
 कुछ पुरानी चिट्ठिया सस्ता १०००  
 नया भारत सस्ता ०३०  
 वापू मेरी नजर मे. राजकमल (पा) १००  
 मेरी कहानी. सस्ता संपूर्ण १०.००, सक्षिप्त २५०  
 राजनीति से दूर. सस्ता २.००  
 राष्ट्रपिता सस्ता २००  
 राष्ट्रभाषा का सवाल नवजीवन. ०.३७  
 लडखडाती दुनिया सस्ता ३००  
 विश्व-इतिहास की भलक सस्ता संपूर्ण २०००, सक्षिप्त.  
 ६.००  
 हिंदुस्तान की कहानी सस्ता. संपूर्ण १०००, सक्षिप्त ३००  
 हिंदुस्तान की समस्याए सस्ता. २५०  
 नेहरू, मोतीलाल, १८६१-१९३१ स्वाधीनता का सिंहाद.  
 राजकमल १०.००  
 नेहरू, मोहनलाल ग्रीन की महाभारत ड प्रे १००. क.  
 नेहरू, रामेश्वरी. मानव विकास की भलक सा केंद्र. २५०  
 नेहरू, रामेश्वरी दे. सतराम.  
 नैयर तथा सेठ. मानव और उसकी दुनिया ग्रोरिएट ७.००  
 नैयर, मुजीला कन्तूरदा शिवलाल. २००  
 वापू की कारावास कहानी. सस्ता. ७५०



नैश, इ वी रीजनल लीडर्स मेडिकल २५०  
 नैस्तुर्ल, माइखेल मानव की उत्पत्ति और क्रमिक विकास  
 आत्माराम १५००  
 नोबल, आइरिस युगनिर्माता पत्रकार राजपाल ३०० जी  
 नोसोव मौजी जीवन प्रभात प्र. ५०० उ  
 नोसोव, न स्कूली लडके पीपुल्स ११६ वप्र  
 नौटियाल, विद्यासागर उलभे रिश्ते वेला २५० उ  
 नौटियाल, गिवानद नेफा की लोक-कथाए आत्माराम १२५  
 नौटियाल, सतोपनारायण चदामामा का देश आत्माराम  
 ४०० वि  
 चवन्नी वाले आत्माराम १५० क  
 चार पाटिया भा ज्ञानपीठ २०० ना  
 तीस दिन. आत्माराम ३५० उ  
 पचायत का न्याय आत्माराम १०० वप्र  
 प्रतिमा प्रभात पब्लि २०० क  
 विध्या बाबू आत्माराम २५० उ  
 साभ हई पछी घर आ पु भ १०० क  
 हरिजन आत्माराम ४०० उ  
 न्यादर सिंह 'वेचैन' अमरसिंह राठौर देहाती ०७५ ना  
 ईश्वर भक्ति देहाती ०७५ ना  
 काश्मीर देहाती ०७५ ना  
 कृष्ण अवतार देहाती ०७५ ना  
 कृष्ण सुदामा देहाती ०७५ ना  
 कोडविल देहाती ०७५ ना.  
 गोपीचद देहाती ०७५ ना  
 ग्राम सुधार देहाती ०७५ ना  
 भासी की रानी देहाती १५० ना  
 दहेज देहाती ०७५ ना  
 दानवीर कर्ण देहाती ०७५ ना.  
 दुर्गादास राठौर देहाती ०७५ ना  
 द्रोपदी चीर हरण देहाती ०७५ ना  
 धर्मपाल शाताकुमारी देहाती ०७५ ना  
 नरसी भगत. देहाती ०७५ ना  
 नूरानी मोती देहाती ०७५ ना.  
 नेताजी सुभाषचंद्र बोस देहाती ०७५ ना  
 पृथ्वीराज चौहान देहाती ०७५ ना  
 वी ए पास मजदूर देहाती ०७५ ना  
 भक्त ध्रुव देहाती ०७५ ना  
 भक्त पूरनमल देहाती ०७५ ना  
 भक्त प्रह्लाद देहाती ०७५ ना  
 भक्त मोरध्वज देहाती ०७५ ना  
 भयकर भूल (कृष्ण अर्जुन युद्ध) देहाती ०७५. ना  
 महाराणा प्रताप देहाती ०७५ ना  
 मीराबाई देहाती ०७५ ना  
 रक्षा वधन देहाती ०७५ ना  
 रामलीला नाटक. देहाती ०७५ ना.  
 राष्ट्रपिता बापू देहाती ०७५ ना  
 रूप बसत देहाती ०७५ ना

वीर अभिमन्यु देहाती ०७५  
 वीर राधाचरण देहाती ०७५ ना  
 वीर सुल्ताना देहाती ०७५ ना  
 वीर हकीकतराय देहाती ०७५ ना  
 शाही लकडहारा देहाती ०७५ ना.  
 शिवाजी मरहठा देहाती ०७५ ना  
 सत्यवान सावित्री देहाती ०७५ ना  
 सत्य विजय देहाती ०७५ ना  
 सम्राट अशोक देहाती १०० ना  
 सरदार भगतसिंह देहाती ०७५ ना.  
 सरवर नीर देहाती ०७५ ना  
 सीना बनवास देहाती ०७५ ना

## प

पकज जिंदगी के रंग. दि पु स २७५ उ  
 पकज भारतीय माध्यमिक नागरिक शास्त्र रा वेनीप्रसाद  
 भा ११४१; भा २३४४  
 पगोत्रा, पुष्पनाथ ट्यूबवैल गाइड देहाती ३५०  
 पचानन सफल जीवन की भाकिया रामलोचन (पा) १००  
 पचोली दे शर्मा, नारायणप्रसाद पचोली  
 पचोली, बंदीप्रसाद काव्याग-परिचय एस चाद १६२  
 पछी दे प्रीतमसिंह पछी  
 पडित, गोपीकांत प्रतिशोध कृष्णा ब्र १२५ क  
 पडित, नारायण हितोपदेश अर्चना प्र (पा) १००  
 पडित, प्रकाश, १६२४- आओ, सरकस देखे राजपाल ०७५.  
 आज की उर्दू शायरी हिंद पा १०० [वप्र  
 आज के उर्दू शायर और उनकी शायरी राजपाल ८००  
 उर्दू की सर्वश्रेष्ठ कहानिया राजपाल २००, (पा) १००  
 उर्दू ख्वाइया राजपाल २००, — — हिंद पा १००  
 उर्दू शायरी के सात रंग हिंद पा १००  
 चाद का सफर राजपाल ०७५ वप्र  
 चिडियाघर राजपाल ०७५ वप्र  
 जहा फूल खिलते हैं राजपाल ३०० क  
 निराला जानवर राजपाल ०७५ वप्र  
 प्रेम-पत्र हिंद पा १००  
 बिन बुलाए मेहमान राजपाल २००, — — हिंद पा  
 १००  
 लहराते आचल राजपाल २०० का, — — हिंद पा  
 १००  
 —सपा उर्दू की बेहतरनीन ख्वाइया और कतए प्रगतिशील  
 ३००  
 जब पर्दा उठा सहगल ४२५ ना  
 यह सच है हिंद पा १००  
 लोकप्रिय उर्दू गज़ले हिंद पा १००  
 पडित, प्रकाश दे इकवाल  
 पडित, प्रभाकर सदाशिव महर्षि कर्वे ज्ञानमंडल २२५ जी

पंडित, माधव पुडलीक तात्रिक साधना अनु देवदत्त. भा.  
ज्ञानपीठ  
पंडित, रामप्रीत इन्सानियत से आगे कन्हैयालाल. ३.०० उ  
इशारे कन्हैयालाल ३.०० उ  
पंडित, वरदाचारी, सपा एव अनु गुप्तचरो की सच्ची कहा-  
निया सूर्य प्र ३.००  
भगोडे युद्ध-बदियो की सच्ची कहानिया. सूर्य प्र ३.००  
पंडित, विजयलक्ष्मी जेल के वे दिन ज्ञानमडल २.५० सस्म  
पंडित, स्नेह विद्युत सफलता की राह पर आत्माराम २.००  
पड्या, करुणशकर एक धरोहर. रामप्रसाद १.७५ का.  
पड्या, द्वारकानाथ जननी और शिशु नद ब्र. ०.७५  
पत, एम. बी. आलोचना शास्त्र श्री भा भारती ३.५०  
—सपा आधुनिक कविता की प्रवृत्तिया सरदार ५.००  
पत, के सी खाद क्यो ? हिंदु टाइम्स १.००  
पत, गोविंदवल्लभ अग्रूर की वैटी गगा २.५० ना.  
अत पुर का छिद्र गगा १.५० ना  
अनुरागिनी शिवाजी ४.५० उ.  
अमिताभ गगा. ५.५० उ.  
एक सूत्र गगा. ३.५०. उ.  
कागज की नाव अशोक पा १.०० उ  
चक्रकात भा भ ३.०० उ  
जल-समाधि. आत्माराम. ४.०० उ.  
जूनिया गगा ४.०० उ.  
तारिका. गगा ४.०० उ.  
तारो के सपने आत्माराम. ६.५०. उ  
नूरजहा गगा ४.५० उ  
नौजवान गगा. ५.०० उ  
पर्णा. आत्माराम ४.०० उ.  
प्रतिमा. गगा. ३.२५ उ  
फटा पत्र. गगा ३.०० क  
फॉरगेट् मी नाँट आत्माराम. ४.००. उ  
मदारी गगा ५.०० उ  
मुक्ति के बधन भा भ ४.०० उ  
मैत्रेय आत्माराम ६.५० उ.  
ययाति सा सदन, दे. ना  
यामिनी. गगा ४.०० उ  
राजमुकुट गगा २.०० ना  
वरमाला गगा १.५० ना  
विषकन्या. आत्माराम ४.०० ए  
सुजाता. आत्माराम १.५० ना  
सुहाग-बिदी. गगा २.५० ना  
पत, जीवनचंद्र कूर्माचल की लोक-कथाए. आत्माराम  
१.५०  
पत, त्रिलोचन इंगलैंड का साविधानिक इतिहास २ भा.  
नद ब्र १.०.००  
पत, दयानंद विकासवाद हिंदु एकेडेमी २.२५  
पत, वालासाहब सचित्र सूर्य नमस्कार भा. भ. २.००  
सूर्य नमस्कार छात्रहितकारी. २.००

पत, मोहनवल्लभ कडवी शक्कर. रा. बेनीप्रसाद. १.२५. क.  
कारक दीपिका रा बेनीमाधव. ४.००  
सदाचार-सोपान. एस. चाद २.००  
साहित्य-स्रष्टा हि प्रचा पु १.५० बप्र.  
पत, मोहनवल्लभ दे भगवानदीन 'दीन', लाला  
पत, श्यामाचरण फूलकुमारी गगा ०.७५ बप्र.  
पत, सुभाष चमकता सितारा चुभन भरा काटा. हि सा. भ.  
२.५० उ.  
पत, सुमित्रानंदन, १.६००- अतिमा राजकमल. ४.००. का.  
अभिषेकिता राजकमल ३.०० का  
आधुनिक कवि भा २ हि सा सम्मे. २.५०  
उत्तरा भा भ. ५.०० का  
कला और बूढा चाद राजकमल ६.००. का  
गद्य-पथ सा भवन, इ. ३.०० नि.  
गुजन भा भ २.५० का  
ग्रथि. भा भ ०.७५ का.  
ग्राम्या भा. भ २.५० का  
चिदबरा राजकमल १०.००. का.  
ज्योत्स्ना गगा ३.००. ना, — — भा भ. २.००  
पत अरिहणा असम ३.५० का  
पल्लव राजकमल का  
पल्लविनी. भा भ ५.००. का, — — नया स राजकमल.  
१०.००  
पांच कहानिया भा. भ १.५०  
मधुज्वाल भा भ ५.०० का  
युगपथ भा भ ५.०० का.  
युगवाणी राजकमल ३.०० का  
युगात. भा भ १.०० का.  
रजत-शिखर. भा भ ५.०० का.  
रश्मिबंध राजकमल २.५० का.  
लोकायतन राजकमल २.५०.०० का  
वाणी भा ज्ञानपीठ ४.०० का.  
वीणा-ग्रथि भा भ ३.०० का  
शिल्प और दर्शन रा बेनीमाधव ८.००  
शिल्पी राजकमल ४.०० का.  
साठ वर्ष एक रेखाकन राजकमल. ३.००. जी  
सौवर्ण भा ज्ञानपीठ ३.५० का  
स्वर्ण-किरण भा भ ४.०० का  
स्वर्णधूलि राजकमल ५.०० का  
हरी बांसुरी सुनहरी टेर. राजपाल ३.०० का  
हार हि सा सम्मे १०.००  
पसारी, डी पी सघर्ष और प्रकाश हि प्रचा पु ३.०० उ  
पगारे, महेन्द्रकुमार पथ की खोज मे सन्मार्ग ५.००. उ.  
पचौरी, भगवानसहाय अगार कालेज १.०० का  
पचौरी, शीतलप्रसाद मुर्गी पालन एव व्यवसाय स ३.  
जवाहर २.००  
पचौरी, श्यामलाल जिल्दसाजी और मुद्रण कला. कि महल  
२.००

प्रेस कार्य शिक्षक कि महल. ० ६२  
 पचौली, गगाशकर कपास की खेती रा वेनीप्रसाद ० ७५  
 धान की खेती रा वेनीप्रसाद  
 नीवू-नारगी रा वेनीमाधव ० १९  
 पटवर्धन, अप्पा गाव का गोकुल अ भा सर्व ० २५  
 शोषण-मुक्ति और नव समाज अ भा सर्व ० ६२  
 पटवर्धन, वासुदेव दे हस्तिमल्ल  
 पटेल, आर एस दे कोठारी, एम एल  
 पटेल, आर डी तथा आर पी पटेल प्रायोगिक रसायन  
 सरदार ५ ००  
 पटेल, आर पी दे पटेल, आर डी  
 पटेल, ए आर तथा एम एस जोशी भौतिक शास्त्र की  
 प्रयोग पाठ्य-पुस्तक सरदार ७ ००  
 पटेल, ए जी वाणिज्य गणित सरदार. ३ ००  
 पटेल, कपिला दे स्वदेशी, आचार्य  
 पटेल, गोपालदास जीवाभाई कुद कुदाचार्य के तीन रत्न भा  
 ज्ञानपीठ २ ००  
 पटेल, भवेरभाई आहार और पोषण अ भा सर्व ०.६०  
 ग्राम-संस्कृति का अगला चरण नवजीवन १ ८०  
 तेलघानी अ भा सर्व १ ५०  
 हमे क्या खाना चाहिये ? अ भा सर्व ३ ००  
 पटेल, तारावेन भारतीय समाज व्यवस्था सरदार ७ ००  
 पटेल, नित्यानंद मनोविज्ञान की रूपरेखा सा सगम, लु  
 ६ ००  
 पटेल, पन्नालाल जीवी राजकमल (साहित्य अकादेमी)  
 ४ ५० उ  
 पटेल, परमानंद उत्तरी ध्रुव से गगा राजकमल ८ ००  
 पटेल, पीतावर, १९१८- उजडा घोसला भटके पख  
 आत्माराम १ ५० उ  
 खेतों की गोद मे अनु गोपालदास नागर आत्माराम ४ ५०  
 उ.  
 पटेल, मणिभाई दे कलार्थी, मुकुलभाई  
 पटेल, रावजीभाई गाधीजी की साधना नवजीवन ३ ००  
 पटेल, सरदार वल्लभभाई सरदार की अनुभव-वारी  
 नवजीवन १ ००  
 सरदार की सीख नवजीवन ० ८०  
 सरदार पटेल के भाषण नवजीवन ५ ००  
 पटेल, सोमाभाई बाल-शिक्षण सस्ता  
 पट्टनायक, कालिचरण, १८९८- भूखा राष्ट्र पु भ ३ ००  
 पट्टनायक, बालकृष्ण चिर जुहार राष्ट्र पु भ १ ००  
 पढीस दे दीक्षित, बलभद्र 'पढीस'  
 परिक्कर, के एम केरतसिंह पूर्वोदय ३ ००  
 परिक्कर, के एम चीन—कल और आज ज्ञानमंडल ५ ००  
 पतापोवा, नीना रुसी प्रारंभिक पाठ्यक्रम पीपुत्स भा १  
 २ १२, भा २ २ ७५  
 पत्की, ज दे अप्रकाशित राग ३ भा संगीत १ ५० (प्र)  
 —सपा राष्ट्रीय मगीत अक संगीत २ ५०  
 सत संगीत अक संगीत २ ५०

पत्तराम गाधी बनाम राजनीति सर्वोदय सा १ ००  
 पथिक अजेय तारा चौधरी २ ५०  
 अमर राठौर चौधरी २ ००  
 चौहानी तलवार चौधरी २ ००  
 छत्रपति शिवाजी चौधरी २ ००  
 पापी चौधरी ३ ००  
 प्यास चौधरी २ ५०  
 प्रतापी आल्हा ऊदल चौधरी २ ००  
 मशाल चौधरी २ २५  
 विद्रोही सरदार चौधरी २ ००  
 वीर छत्रसाल चौधरी २ ००  
 सरदार भगतसिंह चौधरी २ ५०  
 पथिक दे विनयकुमार 'पथिक'  
 पथिक, जी एस अगले पाच साल आत्माराम ५ ००  
 —सपा श्री जगजीवनराम अभिनदन ग्रथ जगजीवनराम अभि-  
 नदन समिति, ३५ दर्पनारायण टैगोर स्ट्रीट, कलकत्ता  
 २१ ००  
 पदमचंद हिंदी-साहित्य के दार्शनिक आधार सरस्व पु स  
 १ ७५  
 पद्मनाभ, एस सरल निबंध भा अ भ ३ ७५  
 पद्मनारायण प्राधुनिक भाषाविज्ञान ज्ञानपीठ ३ ००  
 पद्मा बबई की नई कशीदाकारी देहाती १ २५  
 पद्माकर गगा लहरी ना प्र सभा १ २५ का  
 अथावली सपा विश्वनाथप्रसाद मिश्र ना प्र सभा  
 १ ० ००  
 जगदविनोद जवाहर २ ००, — —सपा विश्वनाथप्रसाद  
 मिश्र वाणी-वितान ३ ५०  
 पद्माभरण जवाहर १ २५, — —सपा विश्वनाथप्रसाद  
 मिश्र वाणी-वितान २ ००  
 पद्मावती 'शवनम' चंद्र साखी और उनका काव्य रामप्रसाद  
 २ ००  
 मीरा, एक अध्ययन रामप्रसाद ३ ००  
 —सपा मीरा बृहत् पद संग्रह रामप्रसाद ६ ००  
 पद्मा 'सुधि' भावलेखा विद्या प्र म ३ ०० का  
 पनिकर, रजनी १९२४- एक लडकी, दो रूप हिंद पा  
 १ ०० उ  
 काली लडकी आत्माराम ३ ०० उ  
 पानी की दीवार राजहस ३ ०० उ  
 प्यासे बादल मोतीलाल ५ ००  
 प्रेम चूनरिया बहुरंगी कल्याणमल  
 मोम के मोती शारदा म ३ ५० उ  
 —तथा मनोहर प्रभाकर सत्य शिव सुंदर कल्याणमल  
 पन्नालाल मौलाना आजाद सा भवन, इ १ ५० वप्र  
 पन्नालाल साहित्याचार्य, अनु धर्मशर्माभ्युदय भा ज्ञानपीठ  
 ३ ००  
 पन्नालाल साहित्याचार्य दे गुणभद्र  
 पन्नालाल साहित्याचार्य दे जिनसेन, आचार्य  
 पन्नालाल साहित्याचार्य दे रविषेण, आचार्य

पन्नालाल साहित्याचार्य दे. हरिचंद्र, कवि.  
 परदेशी. चट्टाने एस चाद. ३००. उ  
 एशिया की राजनीति भा ज्ञानपीठ ६००  
 कल्पना कल्याणमल ना  
 कोनटिकी वीरा २०० वप्र  
 जय महाकाल वीरा ४.५० उ.  
 त्याग के देवता. कल्याणमल ३५०. उ  
 बद कमरा कल्याणमल ३००. क  
 भगवान बुद्ध की आत्मकथा वीरा ४०० उ.  
 सपनों की जजीरे प्रचा. पा १०० उ  
 परदेसी. दे प्रेमनाथ परदेसी  
 परदेसी दे रामगोपाल परदेसी  
 परमहंस दे काशीगिर बनारसी परमहंस  
 परमहंस दे रामकृष्ण परमहंस  
 परमहंस दे रामस्नेहीदास परमहंस  
 परमात्मागणन भारतवर्ष का संक्षिप्त इतिहास नद ब्र ५.००  
 भारतवर्ष का संक्षिप्त इतिहास. नद स भा. १ ५००,  
 भा २. ६००  
 भारतवर्ष का सरल इतिहास नद स १०००  
 मध्यकालीन भारत नद. ब्र. एव नद स. ३००  
 —तथा राय कृष्णदास काशी प्रदर्शन. ना प्र सभा ०१२  
 या  
 परमात्मा सिंह इतिहास शिक्षण रा वेनीमाधव ४००  
 परमानंद कविश्री-माला कश्मीरी राष्ट्र प्रचा समि.  
 छत्रपति. राजपाल ४०० का  
 पिंगल पीयूष ओरिएटल २७५  
 परमानंद, भाई भारतवर्ष का इतिहास परि स ४ ज्ञान-  
 मंडल ८००  
 वीर वैरागी राजपाल २०० जी  
 परमानंद, स्वामी. मौन की अजेय शक्ति कि महल ०.७५  
 परमानंद प्रसाद माध्यमिक कलन मोतीलाल ३००  
 माध्यमिक गति विज्ञान सशो स मोतीलाल ५५०  
 माध्यमिक स्थिति विज्ञान परि स मोतीलाल. ५००  
 परमानंद शास्त्री भारत की दिव्य विभूतिया श्री भा भारती  
 २.०० जी  
 स्वातंत्र्य संग्राम के महारथी श्री भा भारती. ३.००. जी.  
 परमानंद शास्त्री. दे. शर्मा, हरवलाल  
 परमार, एस एल तथा पी डी हजेला विनिमय, वितरण,  
 मुद्रा, बैंकिंग तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत गर्ग ब्र  
 ७५०  
 परमार, तिलकसिंह जीवन पथ पर शिवाजी. १२५  
 विद्व विद्व शिवाजी १२५ चरित्र  
 परमार, नारायणलाल छलना चिनगारी ३०० उ  
 पूजामयी रूपसी ३०० उ  
 परमार, रजन. जलवती प्रभात प्र २०० उ  
 परमार, श्याम परमल गुडिया वीरा १७५ वप्र  
 मालवा की लोक-कथाएं आत्माराम. १५०  
 मालवी और उसका साहित्य. राजकमल २.२५

मोरभाल. प्रचा पा. १००  
 लोकधर्मी नाट्य परपरा हि प्रचा पु ५००  
 परमेश्वरानंद शास्त्री अलंकार कौमुदी. श्री भा भारती  
 २५०  
 छंद शिक्षा. श्री भा भारती २२५  
 —तथा रत्नचंद्र शर्मा वृत्तालंकार कौमुदी श्री भा भारती  
 ४.५०  
 परलीकर, निर्मला अनु स्वराज्य क्या है ? गुजरात ०.६०  
 परशुराम. पारिवारिक कहानिया श्री भा भारती २.००  
 प्रतिनिधि रचनाएं भा ज्ञानपीठ ३००  
 भारत के प्रसिद्ध रत्न दास २५०  
 श्रेष्ठ गल्प राजरजना. (पा) १.००  
 सूर्यगंगा की प्रेमकथा अनु ओंकार शरद. राजरजना २००.  
 क  
 हिंदी साहित्य का आधुनिक युग श्री भा भारती. १५०  
 परशुराम (राजशेखर वीस) आनंदी वाई स २ शिवलाल.  
 २५०  
 परशुराम की चुनी हुई कहानिया शिवलाल ३००  
 परशुराम. दे क्षेमचंद्र 'सुमन'  
 परशुराम विरही अनथ के प्राण कीर्ति १६५  
 परसाई हरिशंकर. अच्छे पडोसी सा भवन, इ १००. वप्र  
 चलो यात्रा करे सा भवन, इ १०० वप्र  
 जैसे उनके दिन फिरे भा ज्ञानपीठ २५० क  
 ज्वाला और जल भा पु म २०० क  
 तट की खोज लोक-चेतना १.५० उ  
 रानी नागफनी की कहानी. राजकमल (पा) १.००. उ  
 पराग. दे सुनहरीलाल 'पराग'  
 पराडकर, मो दि, सपा निबंध सुधा बबई हि २००  
 परिहार, जी आर दे. गहलोत, सुखवीरसिंह  
 परीख, द्वारकादास तथा प्रभुदयाल मीतल सूर-निर्णय. स. २.  
 सा सस्थान ५००  
 परीख, नरहरि महादेवभाई का पूर्वचरित नवजीवन ०.८७  
 सयानी कन्या से नवजीवन  
 सरदार वल्लभभाई नवजीवन भा. १ ६००, भा २  
 ५००  
 —सपा महादेवभाई की डायरी २ भा अ भा. सर्व ५.००  
 (प्र)  
 परीख, नरहरि द्वारकादास इतना तो जानो अनु रामनरेश  
 त्रिपाठी हि सा सम्मे ० ३१ नि  
 परीख, नरहरिभाई किशोर लाल भाई की जीवन साधना अ.  
 भा. सर्व. २०० जी  
 परीख, वनमाला तथा सुशीला नय्यर हमारी बा नवजीवन.  
 २००  
 परीख, हरिवल्लभ लोकशाही कैसे लाये ? अ भा.  
 सर्व ०:३०  
 परूलकर, मालती तुम बड़ी पागल हो. राजकमल २.५०. क.  
 वाली राजकमल (पा) १०० उ.  
 पॉकिन्स, डेक्स्टर. रूजवेल्ट का युग. एस. चाद. २.५०

पर्वेज दे श्यामसुंदर पर्वेज.  
 पलरा, के सी तथा शार्दूलसिंह आर्थिक संगठन यूनिवर्सिटी  
 ७००  
 पलेवरनर जेम्स टामस अमरीकी चित्रकला का सक्षिप्त  
 इतिहास आत्माराम ३५०  
 पल्मुले, एन आर साख्यिकी गयाप्रसाद ५००  
 —तथा विश्वर सहाय भारतीय व्यापार एव यातायात  
 आगरा बुक ६००  
 पवार, वी ए तथा वी डी खेर. नवीन निबन्ध लायल १५०  
 नवीन व्याकरण लायल ०८०  
 पवैया, राजमल जीवन दान भरत १५० का  
 पसरीचा, रामनाथ आर्ट की कहानी नेगनल २००  
 पहाडी दे घिल्डियाल, रामप्रसाद 'पहाडी'.  
 पाडे आर्थिक विकास का इतिहास बुकलेड भा १ ६२५,  
 भा २ ५००  
 पाडे तथा सुधीरा श्रीवास्तव गृह तथा स्वास्थ्य विज्ञान लक्ष्मी  
 ना भा १ १.५०, भा २ २.५०  
 पाडे, एस भारतीय अर्थशास्त्र बुकलेड ५००  
 हमारी आर्थिक समस्याए बुकलेड ५००  
 पाडे, एस सी कालिदास रघुवशम् गयाप्रसाद  
 पाडे के एन सात कहानिया आर्मी १२५  
 पाडे, गिरजागकर खलक खुदा का चौधरी १५० ना  
 पाडे, गोरखनाथ महात्मा गांधी राष्ट्रीय सा स ०५०. वप्र.  
 पाडे चद्रवली एकता हि सा सम्मे ३०० नि  
 कुअन मे हिंदी नद ब्र एव नद स ०६२  
 तसवुफ अथवा नूफीमत नद ब्र ४००  
 तुलसी की जीवन-भूमि ना प्र नभा ३७५. जी  
 तुलसीदास ना प्र सभा ५५०  
 मुसलमान नद ब्र एव नद स २५०  
 राष्ट्रभाषा पर विचार ना प्र नभा ५५०  
 विचार-विमर्श हि सा सम्मे ३५०  
 शासन मे नागरी हि सा सम्मे १२५  
 चंद्रक मोतीलाल ४५०  
 साहित्य सदीपिनी नद ब्र एव नद स २५०  
 हिंदी कवि चर्चा नद ब्र एव नद स ३.७५  
 पाडे, जगन्नाथ काष्ठ-परिरक्षण हि समि १०००  
 पाडे, तारा अंतरगिणी. अन्वध २२५ का  
 पाडे, नारायणदत्त मुखों की दुनिया सस्ता १०० वप्र.  
 लोकमान्य तिलक हि प्र म ०७५ वप्र  
 विन्वकवि रवींद्र हि प्र म ०७५ वप्र  
 सयाना सेरु सस्ता १०० वप्र  
 पाडे, फूलचंद्र गद्य-विवेचन एस चाद २५०  
 चंद्रगुप्त कि महल २५० आ (अप्रा)  
 हिंदी आलोचना की रूपरेखा गयाप्रसाद ३५०  
 पाडे, ब्रजविहारी समाज शिक्षा और उसका नवीन रूप सा  
 साधना २५०  
 पाडे, मुनीश्वर और राहु न स्की सा सदन, दे १००. वप्र  
 पाडे, रंगनाथ राविन्सन कसो. फ्रैंक १००

पाडे, रामगोविंद दे वासु. के. पी  
 पाडे, रामनारायण भक्तिकाव्य मे रहस्यवाद नेगनल  
 पाडे, विनोदचंद्र एक भीनी गद्य राजकनल २२५  
 वसंत और पतझर विश्वविद्यालय १५० का  
 रेत, चुन्च, हवा राजकनल २७५ उ  
 लाल फूलों की टहनी राजकमल ६०० का  
 सफेद चिडिया राजकमल ३०० का  
 स्वयंवर विश्वविद्यालय २००  
 पाडे, वीणापाणि हरिवंश पुराण का सांस्कृतिक विवेचन. हि  
 समि ४.५०  
 पाडे, शंकरदत्त वारह राजकुमारिया हिंदिया ०८० वप्र  
 पाडे, यह भी दे. पाडेय  
 पाडेय अगोक के अभिलेख ज्ञानमंडल.  
 —तथा जोगी भारतीय सस्कृति के मूलतत्त्व सा नि, का.  
 ३५०  
 —तथा व्यास सस्कृत गद्य मजरी सा नि, का २२५  
 सस्कृत साहित्य की रूपरेखा. स ७ सा नि, का ५.५०  
 —तथा अन्य मुद्रा और वैक परिचय हि प्रचा पु १.७५  
 पाडेय, अनंतप्रसाद तथा एम पाडेय तरल स्थिति विज्ञान  
 नद ब्र. एव नद स ४५०  
 पाडेय अनिरुद्ध काया की माया भा भ ८.००  
 जिंदगी की जडे मित्र ४०० उ.  
 पाडेय, अयोध्यानाथ एलोपैथिक पेटेट चिकित्सा स २  
 मेडिकल २.००  
 एलोपैथिक पेटेट मेडिसिन स ४ मेडिकल ४२५.  
 ज्वर-चिकित्सा स ४ मेडिकल २००  
 पाडेय, अरविंद सक्षिप्त हिंदी व्याकरण और रचना हि अ  
 र ३.००  
 पाडेय, अन्वधविहारी, १९२०- भारतवर्ष का इतिहास नद  
 स ३५०  
 —तथा देवेन्द्रनाथ गुप्त भारतवर्ष का अभिनव इतिहास नद  
 ब्र एव नद स ४५० [५५०  
 —तथा वासुदेव त्रिपाठी भारतीय गानन और समाज नद ब्र  
 पाडेय, अविनागचंद्र कथकलि नृत्यकला संगीत २५०  
 पाडेय, अष्टभुजाप्रसाद हिंदी गद्य-काव्य उद्भव और विकास  
 सा प्र १६००  
 पाडेय, अष्टभुजाप्रसाद दे त्रिपाठी, लालधर 'प्रवासी'  
 पाडेय, आर सी इक्वाल नारायण  
 पाडेय, आर सी दे गर्मा, पी पी  
 पाडेय, इंदुप्रकाश साहित्य समीक्षा रा वेनीप्रसाद. ४००  
 हिंदी रचना बोध कि महल १५०  
 —सपा अन्धी लोकगीत और परंपरा रा वेनीप्रसाद ५००  
 पाडेय उमेशचंद्र वैदिक व्याकरण चौखटा. १५०  
 पाडेय, उषा मध्ययुगीन हिंदी साहित्य मे नारी-भावना हि  
 सा स १०.००  
 पाडेय, ए दे मेहता, एम एल  
 पाडेय, एम. दे पाडेय, अनंतप्रसाद.  
 पाडेय, एस. पी. शांति, सधर्ष और प्रेरणा. सहगल. ५.००. उ.

पांडेय, कपिलदेव. मध्यकालीन साहित्य में अवतारवाद. चौखवा.

३०००

हिंदी सक्षेपण कला नारायण बुक. १.२५

पांडेय, कमलाकांत नव कथाए नद. ब्र. १.००. वप्र.

पशु-परिचय नद ब्र. ०.६२

पालतू पशु नद. ब्र. एव नद स. ०.६२

पांडेय, कातानाथ 'चौच', १९१४- घर का भूत चौधरी.

२००

चूनाघाटी. चौधरी २.२५

छेड़छाड़. चौधरी. २.५०

पानी पांडे चौधरी २.५०

बढ़े चलो बहादुरो चौधरी १.५०

बेचारे मुशीजी चौधरी २००

मसलन कल्याणदास २.२५ का.

महाकवि साड चौधरी २.७५

मौसेरे भाई स २ सा सेवक ३००

पांडेय, कामताप्रसाद शिक्षा अनुसंधान की रूपरेखा पु भ, आ

सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि पु भ, आ ५००

पांडेय, काशीनाथ दरीनाप कमरा अभिज्ञान ३.७५. उ

दो टुकड़ा आकाश अभिज्ञान ३०० का

पांडेय, कृष्णकांत वस्त्र-शिल्प हिं प्रचा पु २.५०

पांडेय, के एन अर्थशास्त्र प्रवेशिका कला-नि. १.५०

नागरिक शास्त्र प्रवेशिका. कला-नि. १.५०

शिक्षा मनोविज्ञान पु भ, आ

पांडेय, केशव छात्र और समाज सेवा हिं पु ए. १.५०

पांडेय, गंगाप्रसाद कामायनी एक परिचय स. २ रा बेनी-माधव २००

काव्य-कलना रा बेनीमाधव. १०० नि.

छायावाद और रहस्यवाद. स ३. रा. बेनीमाधव. १.५०

देखा मुना मोतीलाल ३.००

नवीना रा बेनीमाधव २.५० का

निबन्धिनी साधना सदन. ३.५०

बीसवी शती की श्रेष्ठतम काव्यकृति कामायनी सा. भवन., इ ३००

साहित्य-सतरण. रा बेनीमाधव २०० नि.

हिंदी कथा-साहित्य भा भ ३.००

—सपा सात श्रेष्ठ एकाकी लोकभारती ३.५०

पांडेय, गंगासहाय काय चिकित्सा चौखवा २.५००

पांडेय, गणेश आहुतिया छात्रहितकारी. १.००

त्याग, और शौर्य की कहानियां छात्रहितकारी ०.५०

देश की आन पर छात्रहितकारी १.००

पावन स्मृतियां छात्रहितकारी ०.५०

पांडेय, गिरजाशंकर अपराध विज्ञान एव दंड विधान की रूपरेखा. साथी १०००

अठारह वर्ष बाद. आनंद पु, वा ४०० उ

चेतसिंह का सपना आनंद पु, वा भा १.४००; भा. २

४.५०. उ

पांडेय, चंद्रभानु आंध्र सातवाहन साम्राज्य का इतिहास नेशनल. १०.००

पांडेय, चंद्रशेखर काव्य दीपिका श्रष्टम शिखा सा नि., का. ०.८०

मेवाड-उद्धार इ प्रे ०.७५ ना

—तथा शान्तिकुमार व्यास संस्कृति साहित्य की रूपरेखा स. ७ सा नि., का ६००

—सपा रसखान और उनका काव्य हिं सा सम्मे. ०.७५

पांडेय, छविनाथ अधकार. ज्ञानपीठ ३०० उ.

अनोखा आदमी. ज्ञानपीठ ३०० वप्र

अस्पताल में ज्ञानपीठ ३०० उ.

उपनिषद् की कथाए. कला-नि २.५० वप्र

एग्लो-हिंदी-डिक्शनरी. कला-नि ४.२५

कलक. कला-नि. २.५०. उ

घर की रानी. ज्ञानपीठ २००

घोड़े का चोर कला-नि. ०.७५. वप्र.

चरित्र-चितन हिं पु. ए २००

चलता-पुर्जा कला-नि. २.५० क

चितकवरा फेटा नद ब्र एव नद स ३.५०. उ.

चिनगारी ग्रथमाला ३.५०. उ.

तीसी हिं. पु ए ४.५०

देशभक्त मेजिनी के लेख हिं. पु ए. २.२५

नन्हा मुर्गा और लोमड़ी कला-नि. ०.७५ वप्र.

नारी रहस्य हिं पु. ए ०.६२

नीति की कहानियां कला-नि १.२५ वप्र

मदालसा कला-नि १०० वप्र.

मुद्रण-कला वि राष्ट्र. ७.५०

सप्तर का सर्वश्रेष्ठ पुरुष. हिं पु. ए ०.७५

सपने का राजा कला-नि १०० वप्र

सफल जीवन. नद स एव विद्या म., वा १.५०

समाज कल्याण पु भ. १.२५

पश्चिमी यूरोप भा १ स २ ज्ञानमंडल. ५००

पांडेय, छविनाथ दे सिनक्लेयर, आपटन

पांडेय, छविनाथ दे दत्त, कालीकिंकर.

पांडेय, जगदानंद असामान्य मनोविज्ञान ग्रथमाला ८.००

असामान्य मनोविज्ञान. नवीन परि स तारा. ७००

औद्योगिक मनोविज्ञान दि. पु. स. ८.५०

खेल. मगध ०.५०

प्रयोगात्मक मनोविज्ञान सशो स २ तारा १.२५०

बाल-मनोविज्ञान तारा. ५.५०, — —मगध. ४००

मनोविज्ञान स ३ तारा. ८.५०

मनोविज्ञान परिचय तारा ५.५०

मनोवैज्ञानिक प्रयोग ग्रथमाला १०.००

विकासात्मक मनोविज्ञान तारा

व्यक्तित्व विकास मगध ०.५०

व्यावहारिक मनोविज्ञान तारा ५.५०

शिक्षा-मनोविज्ञान. तारा ६.००

सामाजिक मनोविज्ञान तारा. १०.००

पांडेय, जगदीश उदात्त सिद्धांत और शिल्पन अर्चना प्र,  
आ १६००  
जैनेंद्र का कथा शिल्प अर्चना प्र, आ  
पाश्चात्य साहित्य शास्त्र अर्चना प्रा, आ  
गील-निरूपण सिद्धांत और विनियोग परि स अर्चना प्र,  
आ. १०००  
हास्य आधार और अध्ययन अर्चना प्रा, आ  
पांडेय, जगदेव महापुरुषो के बीच साहित्यवारी १५० वप्र  
पांडेय, जयनारायण जीवन-संग्राम ग्रथमाला १५०  
प्रमुख राजनीतिक विचारको की चिंतनधारा लोक चेतना  
८००  
पांडेय, जे पी माध्यमिक गणित कृष्णा व. ४००  
सरल माध्यमिक रेखागणित कल्याणमल ४००  
—तथा आर पी भवर माध्यमिक उच्च बीजगणित. कृष्णा  
ब्र. ३५०  
माध्यमिक बीजगणित कृष्णा व ३५०  
पांडेय, ज्ञानेन्द्र अशोक वैद्य विचारद गाड्ड अगोक प्र भा १  
६००, भा २ ८००  
पांडेय, त्रिपुरेश्वर मोती का मोल ज्ञानपीठ ०.७५ वप्र  
पांडेय, त्रिलोचन गुप्त जी की काव्य-कला सरस्व पु स ३५०  
घनानंद प्रन्नोत्तरी सरस्व पु स २५०  
धारवाली गयाप्रसाद उ  
साकेत-दर्शन (साकेत समीक्षा) सरस्व पु स ५००  
पांडेय, द स दे अवस्थी, म न  
पांडेय, देवकी अग्नेजी का देग हि प्रचा पु १२५ वप्र  
बवई से टिलवरी तक हि. प्रचा पु ०.६७ वप्र  
पांडेय, देवनाथ रसान' ऋतभरा सर्वोदय सा २००  
पांडेय, देवेन्द्रनाथ मदार-माला इ प्रे २०० का.  
पांडेय, देवेन्द्रप्रताप गवैया गथा अभिज्ञान १२५ वप्र  
हमे बनना है अभिज्ञान १२५ वप्र  
पांडेय, निर्मला आधुनिक काव्य संग्रह हि सा भ २५० आ  
गद्यपद्य संग्रह (प्रेमा कसवेकर) हि सा. भ १७५  
पत और रश्मिवध हि सा भ ३५०  
पांडेय, प्रद्युम्न हिंदी कादंबरी महाश्वेता वृतात चौखवा  
३००  
पांडेय, फूलचंद, सपा प्रतिनिधि एकाकी रामप्रसाद ३००  
पांडेय, फूलचंद दे गर्मा, ओमप्रकाश.  
पांडेय, वी एन समाजवाद और पूजीवाद को अध्ययन नावल्टी  
४५०  
—तथा कामताप्रसाद हायर सेकेडरी अर्थशास्त्र नावल्टी  
६५०  
पांडेय, वेकटेशचंद्र रेल का डिव्वा कल्याणदास १२५ का  
पांडेय, ब्रजभूषण बालक का विकास कैसे हो कि महल  
२.५०  
पांडेय, ब्रजेन्द्र भारतेदुकालीन हास-परिहास सुभाष २००  
पांडेय, मधुसूदन मेघदूत पु भ, रा १००  
पांडेय, महेंद्रनाथ आख का अचूक इलाज छात्रहितकारी  
२२५

कज्ज और मलावरोध. छात्रहितकारी ०.५०  
जुकाम छात्रहितकारी १७५  
तपेदिक छात्रहितकारी ४००  
तपेदिक का प्राकृतिक इलाज कि महल ४.५०  
दूध चिकित्सा छात्रहितकारी ४००  
धातु रोग और उनका इलाज छात्रहितकारी २.००  
प्रमेह विवेचन छात्रहितकारी २००  
फलाहार चिकित्सा छात्रहितकारी २७५, — — रा  
वेनीमाधव २५०  
बच्चों के रोग और उनका इलाज छात्रहितकारी २.००  
मठा उसके गुण तथा उपयोग छात्रहितकारी १००  
रोगी सुश्रुषा छात्रहितकारी २५०  
शहद के गुण तथा उपयोग छात्रहितकारी ०.७५  
स्वास्थ्य के लिए शाक तरकारिया छात्रहितकारी २००  
हमारा भोजन. छात्रहितकारी ४००  
हमारे बच्चे छात्रहितकारी १७५  
हमारे बच्चे स्वस्थ और दीर्घजीवी कैसे हो रा वेनीमाधव  
२००  
पांडेय, युगलकिशोर रक्त-किरण प्रभात प्र ५००  
सफेद पजा. प्रभात प्र भा १-२ २५० (प्र), भा ३  
४००  
पांडेय, रघुवग घरती की खोज ग्रथमाला ११२. वप्र.  
महात्मा गांधी ग्रथमाला २२५ वप्र.  
मौत के मुह मे ग्रथमाला ०.७५ वप्र  
विक्रम की कहानिया. ग्रथमाला ०.७५ वप्र  
सम्राट अशोक. राष्ट्रीय सा स ०.५० वप्र.  
पांडेय, रत्नाकर यगपाल की 'दिव्या उदय ७००  
विश्वास बड़ा है सपने से रामप्रसाद ३५० क  
स्वतंत्रता और साहित्य उदय १०००  
पांडेय, रमा महाकवि भवभूति सा रत्न भ १.५०  
पांडेय, रमाकात 'विजय' प्यास सा सगम, मो १०० का  
मुन्ना-मुन्नी । पढो-लिखो स २. सा सगम, मो ०.६०. वप्र.  
सुगम ऐतिहासिक कथाये सा सगम, मो भा १-३ १००  
(प्र), भा ४ १२५  
हनो-हसाओ सा सगम, मो १०० वप्र  
पांडेय, रमाशकर आदर्श नारी सुभाष ०.६२  
आदर्श पुरुष सुभाष ०.७५ जी  
पांडेय राजकिशोर दक्खिनी का प्रारम्भिक गद्य नागरी प्र  
पांडेय, राजकुमार, तुलसी का गवेष्यात्मक अध्ययन सरस्व.  
पु स २५०  
भारतीय भाषाओ का आधुनिक साहित्य नवहिंद ३००  
पांडेय, राजकुमार रामचरितमानस का काव्यशास्त्रीय अनु-  
गीलन अनुसंधान १६००  
पांडेय, राजनाथ, १६०६- कादंबरी परिचय रा वेनीमाधव  
२५० उ  
गल्प द्वादशी गर्ग ब्र. २००  
द्वादशी साथी २०० आ  
नये-निर्माण नये-सकल्प. मानकचंद ३५०. नि.

नवीन नवलिका मजरी रा बेनीमाधव. १.५०. क  
निबध रत्नमाला रा बेनीमाधव. २.००. नि.  
शेष लकीरे रा बेनीप्रसाद. ४००. नि.  
सुबहे बनारस लोक चेतना ५.००. नि  
पाडेय, राजबली अगोक के अभिलेख. ज्ञानमडल.  
पुराण विषयानुक्रमणी. भा १ काशी हिंदू १५ ००  
प्राचीन भारत नद स. १२.००  
प्राचीन भारतीय सभ्यता और सस्कृति चौखबा.  
भारतीय इतिहास का परिचय. चौखबा १०.००  
विक्रमादित्य (सवत्-प्रवर्तक) चौखबा १० ००  
हिंदू सस्कार चौखबा. १५ ००  
—सपा हिंदी मे उच्चतर साहित्य ना. प्र सभा २५ ००  
हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास भा १ हिंदी साहित्य की  
पीठिका ना प्र सभा २५ ००  
पाडेय, राजानाथ. दे इवसन.  
पाडेय, रामइकबाल मनोविज्ञान का इतिहास. लोकभारती.  
८.००  
पाडेय, रामकुमार. रामचरितमानस का काव्यशास्त्रीय  
अनुशीलन अनुसंधान १०.००  
पाडेय, रामखेलावन. कविता-कानन ज्ञानपीठ १५०. जी  
गीति काव्य ज्ञानमडल ५५०  
हमारी सास्कृतिक चेतना. पु भ २.००  
पाडेय, रामचंद्र जूनियर हाई स्कूल व्याकरण और रचना. कि.  
महल १ ००  
बालोपदेश. हिं प्रचा पु १००. वप्र  
हाई स्कूल व्याकरण और रचना. कि महल. १.५०  
पाडेय, रामजयश्री विजडावाग. ग्रथमाला १७५ उ.  
पाडेय, रामदयाल अशोक ज्ञानपीठ १५०. का.  
गणदेवता पु भ. ३०० का  
हम कैसे बढे ज्ञानपीठ ०८१ वप्र.  
हमारे अद्भुत निर्माण. ज्ञानपीठ भा १ १००, भा. २.  
०.६२. वप्र  
पाडेय, रामदीन. चलती पिटारी गगा २.५० उ.  
जीवन-करण ज्ञानपीठ १०० ए  
ज्योत्स्ना पु भ १५० ना  
प्राचीन भारत की साग्रामिकता वि राष्ट्र ६५०  
पाडेय, रामनाथ बाबू श्यामसुंदर दास व्यवितत्व और कृतित्व.  
हिं प्रचा पु २२५  
पाडेय, रामनिरजन राम भक्ति शाखा नवहिंद २० ००  
पाडेय, रामप्रसाद साहित्यिक लेख रा बेनीप्रसाद १ ००  
पाडेय, रामशकल आधुनिक शिक्षा का विकास मैट्रोपोलिटन.  
१ ००  
महान पश्चिमी शिक्षाशास्त्री विनोद ४.५०  
व्यवहृत मनोविज्ञान लक्ष्मी ना ६ ००  
सामान्य मनोविज्ञान आत्माराम ७ ५०  
पाडेय, रामसेवक भारती कवि-विमर्श इ प्रे ३ ००  
पाडेय, रामाचल कृषि कल्प. रा बेनीप्रसाद. १ ००. ए.  
ग्राम सगठन हि पु ए १ ०० उ.

चर्खा सघ. रा. बेनीप्रसाद. ०.३७. उ.  
पाडेय, रामाचार्य. अनुष्ठान राष्ट्र प्र म ३.००. उ.  
चचल कुमारी राष्ट्र प्र. म. २५०. उ.  
जयसधि. राष्ट्र. प्र. म. १.०० का  
टिकोरा. राष्ट्र प्र म ३०० का  
तुलसी चरित राष्ट्र प्र म २.०० (अप्रा) का.  
दुर्गा सप्तशती (हिंदी पदानुवाद) राष्ट्र प्र. म. १.५०  
नई दिल्ली राष्ट्र प्र म १.००. का.  
विनोबा चरित राष्ट्र प्र. म (अप्रा.) २५० का.  
मडला. राष्ट्र प्र म २००. का  
विधवा. राष्ट्र प्र म ० ७५. का.  
स्मृति राष्ट्र प्र. म ३०० (अप्रा) का.  
पाडेय, रूपनारायण एकाकी सप्तक स ४. राष्ट्रीय प्र. म  
१ ५०  
खाजहा गगा २५० ना  
वाल कालिदास इ प्रे १ ००  
श्रीकृष्ण चरित्र अथवा रुक्मिणी मंगल. हि. सा. भ ४५  
का  
सम्राट् अशोक गगा ३५०. ना  
—अनु. कमला स ३ हि प्रचा म ४५०. उ.  
पाडेय, लल्लीप्रसाद जागरण का मार्ग इ प्रे. १.००  
—अनु कर्मवाद और जन्मातर ना प्र सभा ३७५  
पाडेय, लल्लीप्रसाद दे चक्रवर्ती, पी एन  
पाडेय, लोचनप्रसाद कविता-कुसुम-माला मिश्र-बधु ३५०  
पाडेय, वासुदेव साग-सब्जी की खेती ज्ञानपीठ २.००  
पाडेय, विद्यासागर विकास और सर्वोदय सा. सगम, ग्वा  
२ ५०  
पाडेय, विनोदचंद्र 'विनोद' गुरु दक्षिणा. रा बेनीप्रसाद.  
१ ०० का.  
पाडेय, विमलचंद्र प्राचीन भारत का इतिहास. केदारनाथ.  
८ ०० से १२५०  
भारतवर्ष का सामाजिक इतिहास हिंदु एकेडेमी. १२ ००  
विश्व की सभ्यताये २ भा साधना सदन. ८ ०० (प्र)  
पाडेय, विमला नाग नगर की राजकुमारी. राजकमल. २  
वप्र  
पाडेय, विगभरनाथ भारतीय योजनाकरण मोतीलाल. १  
मूल्य, मुद्रा और योजनाकरण मोतीलाल ५ ७५  
पाडेय विष्णुकांत आओ जगमग दीप जलाये. सा सगम, म  
१.०० वप्र  
आओ सुनो कहानी सा सगम, मो १ ०० वप्र  
गागे कदम बढाये सा सगम, मो ०.७५ वप्र  
एक डाल तीन फूल स २ सा सगम, मो १ ०० ना.  
खट्टे है अगूर सा सगम, मो १ ००. वप्र  
खेले-कूदे-गाये सा सगम, मो ० ७५ वप्र.  
चदा-तारे स ३ सा सगम मो. ०.६० वप्र  
चाचा नेहरू स २ सा सगम, मो १.५० वप्र  
जगल मे मंगल चैतन्य १.५०. वप्र, — —सा सगम,  
० ७५



नदू का सपना चैतन्य. १५० वप्र  
 नये विद्यालय नयी व्यवस्था सा सगम, मो एव चैतन्य  
 २५०  
 ये रग-विरगे फूल सा सगम, मो ०७५ वप्र.  
 पांडेय, वीरेद्र अनावरण हिंदिया २७५. कथा  
 —अनु जब सताने जाग उठी हि प्रचा म ७५० उ  
 पांडेय, वीरेद्रकुमार जल-परी गगा ०७५ वप्र  
 बनारस की बुडिया गगा १०० वप्र  
 पांडेय, शभुनाथ अलकार प्रबोध विनोद १००  
 आधुनिक हिंदी काव्य की भूमिका विनोद १०००  
 आधुनिक हिंदी काव्य में निराशावाद आगरा बुक ८००  
 कवि प्रसाद (प्रबन्धोत्तर में) विनोद २५०  
 काव्य दर्पण रामप्रसाद १००  
 काव्य-शास्त्र विनोद ३००  
 गद्यकार प्रसाद (प्रश्नोत्तर में) विनोद २५०  
 चंद्रगुप्त स ५ विनोद २५०  
 प्रसाद की नाट्यकला अजातशत्रु सरस्व पु स १७५  
 रस-अलकार-पिगल सशो स ७ विनोद २५०  
 रामचंद्र शुक्ल (सिद्धांत और अध्ययन) सरस्व पु स ३५०  
 सूर की काव्य कला सरस्व पु स ६००  
 पांडेय, शभुनाथ, सपा काव्य-शास्त्र का आलोचनात्मक अध्य-  
 यन सरस्व पु स ५००  
 गद्य साहित्य का उद्भव और विकास सरस्व पु स ५००  
 प्रसाद की साहित्य-साधना सरस्व पु स ५००  
 पांडेय, शारदारजन कवि चंडीदास अभिज्ञान १६५ उ  
 पांडेय, शिवमूर्ति दे घोष, बी एन  
 पांडेय, शिवाधार तथा व्यथित हृदय, सपा गद्य सुधा रा वेनी-  
 प्रसाद १२५  
 पांडेय, शुकदेव त्रिकोणमिति काशी हिंदू ६००  
 पांडेय, श्यामनारायण आरती आनंद पु, वा ४०० का  
 गोरा वध नद ब्र एव नद स १०० का  
 जय हनुमान रा वेनीमाधव १०० का  
 जौहर नद ब्र एव नद स ५०० का  
 तुमुल इ प्रे २०० का  
 रूपांतर इ प्रे २०० का  
 हल्दीघाटी इ प्रे २७५ का  
 हिंदी कृष्णकाव्य में माधुर्योपासना रामा प्र १५००  
 पांडेय, श्यामनारायण दे रूपगोस्वामी  
 पांडेय, श्याममनोहर मध्ययुगीन प्रेमाख्यान मित्र १०००  
 पांडेय, श्यामलाल जनतंत्रवाद अवध ८००  
 मनु का राजधर्म गगा ६००  
 शुक्र की राजनीति गगा १०००  
 पांडेय, श्रवणकुमार तथा पारसनाथ मिश्र हिंदी निबन्ध और  
 रचना रा वेनीप्रसाद २५०  
 पांडेय, श्रीनेत्र नागरिक शास्त्र दिग्दर्शन स २ श्रीराम मेहरा  
 ४००  
 भारतवर्ष का संपूर्ण इतिहास लोकभारती. भा १ ६००,  
 भा २ ७५०

भारतीय सविधान दिग्दर्शन स २. श्रीराम मेहरा ३००  
 पांडेय, सगमलाल गांधी का दर्शन गर्ग ब्र ५००  
 नीति विग्रह गर्ग ब्र १५०  
 भारतीय दर्शन की कहानी रा वेनीप्रसाद  
 सपीनजा का दर्शन गर्ग ब्र २००  
 पांडेय, सच्चिदानंद अपना कौन हि. प्रचा म २५० उ  
 पांडेय, सत्यनारायण कश्मीर-विजय इ प्रे १५० का  
 कुडलिया रामायण इ प्रे ४००  
 क्षेमेद्रकृत रामायण मजरी सुंदर कांड सा नि, का १२५  
 साख्यकारिका सा नि, का १००  
 —तथा आर वी जोशी भारतीय संस्कृति के मूल तत्व सा  
 नि, का ३००  
 वैदिक साहित्य की रूपरेखा सा नि, का ३७५  
 पांडेय, सत्यप्रसाद मृगाल नव सा प्र ५५० उ  
 पांडेय, सुधाकर अमर साहित्यकार राष्ट्रीय प्र मंदिर भा १  
 ०७५, भा २ १०० वप्र.  
 अमर साहित्यकार हि प्रचा म. १००  
 अवशेष रामप्रसाद २०० ना  
 आधुनिक परिवाहन हि प्रचा पु १५०  
 कामायनी समीक्षा कल्याणदास ३००  
 कृति और कृतिकार कल्याणदास ४५०  
 गगलहरी ना प्र सभा १२५ क  
 गाव गली के लोग कल्याणदास ५०० उ  
 जो गाता हू कल्याणदास ४०० का  
 निहारिका कल्याणदास २०० का  
 प्रसाद काव्य कोश कल्याणदास १६००  
 प्रसाद की कविताये कल्याणदास ७००  
 मुद्रा और वैक हि प्रचा पु ६००  
 मुद्रा और वैक के सिद्धांत हि प्रचा पु ४५०  
 संक्षिप्त हिंदी साहित्य और साहित्यकार हि प्रचा पु  
 ०६७  
 सदा सुहागिन रूठ गई नद स ३००  
 साभ सकारे स २ कल्याणदास ५०० उ  
 स्वार्थ और सिद्धि कल्याणदास ४५० उ  
 हिंदी साहित्य हि प्रचा पु २५०  
 हिंदी-साहित्य और साहित्यकार नद स ३००  
 —तथा कन्हैयालाल अग्रवाल व्यापार-परिचय हि प्रचा पु  
 १७५  
 —सपा कहानी मूल और शाखा हि प्रचा पु. २०० क  
 जय जवाहर प्रचा पा १००  
 विशिष्ट कहानिया हि प्रचा. पु १७५  
 पांडेय, स्वामीनाथ भूतो का खडहर कन्हैयालाल १५० उ  
 पांडेय, हरवशप्रसाद दे गर्मा, रामस्वरूप  
 पांडेय वेचन गर्मा 'उग्र' दे शर्मा, पांडेय वेचन 'उग्र'  
 पांडेय यह भी दे पांडे  
 पांडेय, कल्याणशकर एक धरोहर रामप्रसाद १७५ का  
 पाथरी, भगवतीप्रसाद अशोक सा केद्र ५०० इति  
 महान् गुप्त राजवंश सा केद्र १२५० इति

यूनानी इतिहासकारों का भारत वर्णन सा केन्द्र. २७५  
सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य सा केन्द्र. ४५०. इति.  
हर्षवर्द्धन शीलादित्य. सा केन्द्र ३५० इति  
पाथरी, भगवतीप्रसाद दे मनोहरलाल, एस  
पाथरी, भगवतीप्रसाद दे वनियर  
पागल दे मिश्र, छविनाथ 'पागल'.  
पागल दे सेठ, जवाहरलाल 'पागल'  
पागल, जे. एस एकागीपुर का दरोगा पुष्पी १.२५ उ  
तिकडम पुष्पी ०७५ उ  
पाटनी मुद्रा की रूपरेखा रस्तोगी ६.००  
वैक्तिक व्यवस्था रस्तोगी ६००  
पाटनी, आर एल. औद्योगिक संगठन रस्तोगी ४००  
पाटनी, जे सी दे जैन, एल सी  
पाटोदी, रतन भारतीय कुश्ती कला भा कुश्ती ५००  
पाठक प्रश्नोत्तरी पाठशाला-प्रबंध और स्वास्थ्य. नद स  
१२५  
—तथा अन्य, सपा पद्य पराग भा २ ववई हि १४०  
पाठक, अनसूयाप्रसाद, १९११- अरे मेरे भैया राष्ट्र पु भ  
२५०  
उत्कल साहित्य का इतिहास राष्ट्र पु भ १००  
उत्कल साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानियां राष्ट्र पु भ १८७  
गांधी जी के नाम मेरे पत्र राष्ट्र. पु भ  
जहाना राष्ट्र पु भ ३.००  
तमसा की गोद मे राष्ट्र पु भ ३५०  
पच्चीस नवर कोठी का दान राष्ट्र पु भ २००  
प्रतिभा राष्ट्र पु भ ३००  
बाबू मिया राष्ट्र पु भ १५०  
भगवान का आदेश राष्ट्र पु भ ५००  
मनकी उडान राष्ट्र पु भ एव हि प्रचा पु १५०  
का  
मेरा उत्कल प्रवास राष्ट्र पु भ ३५०  
मेरी पोथी राष्ट्र पु भ ०७५  
रामवशिष्ट पत्रावली राष्ट्र पु भ  
रोटी राष्ट्र पु भ १००  
लक्ष्मी सेवासदन राष्ट्र पु भ १५०  
साहित्य चर्चा राष्ट्र पु भ १००  
—अनु उत्कलमणि गोपवधु राष्ट्र पु भ ०५०  
पाठक, आत्माराम मानव संस्कृति की कहानी. रा वेनीप्रसाद  
१८०  
पाठक, आर एन विद्याविनोदिनी पोइम कुजी विनोद १.००  
पाठक कमलाकांत निर्भरिणी मानकवद  
फूल और पत्ते इ प्रे २०० का  
मैथिलीगरण गुप्त व्यक्ति और काव्य रणजीत २५००  
सगम नाटक गर्ग ब्र ०७५ ए  
पाठक, कल्लू. युग-गीत नद ब्र एव नद स १००  
पाठक, कृपानारायण कला भी भाकी रा वेनीप्रसाद १००  
चर्म विज्ञान रा वेनीप्रसाद ०३७  
पारसी-परिचय इ. प्रे. ०.७५

पाठक, कृष्णकुमार अशोक के फूल एक विवेचन. अशोक. प्र.  
१.५०  
पाठक, कृष्णकुमार दे शर्मा, चादमल  
पाठक, केदारनाथ. अनुभूतयोग भा. २ नद. ब्र १.००  
आरोग्य लेखाजलि नद ब्र १००  
आहार-सूत्रावली नद ब्र ०५०  
ग्राम्य चिकित्सा नद ब्र ०.६२  
टोटका विज्ञान नद ब्र ०.६२  
देहातियों की तदुस्ती नद ब्र ०७५  
नीम के उपयोग नद ब्र. १००  
प्रयोग रत्नावली नद ब्र २००  
भोजन-विधि नद ब्र २००  
मधु के उपयोग नद ब्र १००  
सिद्ध-मृत्युजययोग नद ब्र १००  
पाठक, केशवप्रसाद केशव पाठक की काव्य कृतियां लोकचेतना.  
५००  
पाठक, चंद्रशेखर अबला की आत्मकथा. आदर्श हि २००.  
उ  
महाराणा प्रताप सिंह हि प्रचा पु २५०. जी.  
शारदा विल हि प्रचा. पु ०३१  
पाठक, जगन्नाथ दे गुप्त, दामोदर.  
पाठक, जगन्नाथ दे भानुदत्त  
पाठक, जितेन्द्रनाथ ऐतिहासिक उपन्यासकार वृ दावनलाल  
वर्मा और मृगनयनी नद ब्र ४५०  
प्रेमचंद और गवन नद ब्र एव नद स २.५०  
प्रेमचंद और गोदान नद ब्र एव नद. स २.५०  
हिंदी मुक्तक काव्य का विकास ना. प्र सभा ५.५०  
पाठक, तेजरानी हृदय का काटा. नेशनल ३००. उ  
पाठक, दानवहादुर जायसी और उनका पद्मावत. हि सा स.  
१५००  
जायसी की काव्य-साधना हि सा. स. ३५०  
धूप छाव नवचेतना ३००. उ  
पूजा और प्यार नवयुग पु भ ५०० उ  
विनयपत्रिका-समीक्षा हि सा स ४.६२  
शिक्षणकला (प्रश्नोत्तर) मालवीय ४७५  
पाठक, दानवहादुर दे भाटी, देशराज सिंह  
पाठक, पी डी. दे जौहरी, बी पी  
पाठक, बी सी तथा सी एस पाठक आथेटिक जूनियर  
डिक्शनरी हि प्रचा पु. ४००  
आथेटिक सीनियर डिक्शनरी. हि प्रचा पु १४००  
पाठक, रगनाथ षड्दर्शन रहस्य बि राष्ट्र ५००  
पाठक, रघुनाथप्रसाद देग भक्त बच्चे सन्मार्ग १५०  
नैतिक जीवन सन्मार्ग २५०  
पाठक, रघुनाथप्रसाद दे उपाध्याय, गगाप्रसाद  
पाठक, राजकुमार 'रजन' दे सूरिदेव, श्रीरजन (राजकुमार  
पाठक 'रजन')  
पाठक, रामकिशोर कादवरी कथा पु. भ., रा १००  
नलदमयती पु. भ., रा १२५

महापुरुषो की कहानिया भा २ पु भ, रा ० ४७ वप्र.  
समाज की जानकारी पु भ, रा भा १ ० ५०, भा  
२ ० ६२, भा ३ ० ८७, भा ४ १ ५०, भा ५  
१ ५०  
सामयिक निबधावली पु भ, रा २ २५ वप्र  
सावित्री सत्यवान पु भ, रा १ ००  
हिंदी मुहावरे और कहावते पु भ, रा २ ५०  
पाठक, रामनरेश क्वार की साभ पारिजात २ ५० का  
पाठक, रामनाथ 'प्रणयी' वरसात कला-नि १ ०० का  
पाठक, लक्ष्मणदत्त अभिनव हिंदी व्याकरण हि सा स  
भा १ ० ५०, भा २ ० ७५  
संस्कृत सरिता हि सा स भा १ ० ५०, भा २ ० ६२,  
भा ३ ० ७५  
पाठक, वाचस्पति, १९०५- इक्कीस कहानिया भा भ  
४ ५०  
द्वादशी भा भ २ ०० क  
नए एकाकी मोतीलाल ३ ००  
पुरस्कार तथा अन्य कहानिया मोतीलाल ३ ००  
प्रदीप भा भ १ ५० क  
—सपा प्रसाद, निराला, पत, महादेवी की श्रेष्ठ रचनाए  
लोकभारती ४ ५० का  
पाठक, विश्वनाथ रण-चडी रा बेनीप्रसाद १ ५० का  
पाठक, शिवचरण धुलाई रगार्ड विज्ञान हि पु ए २ ५०  
पाठक, शिवसहाय पद्मावत का काव्य-सौंदर्य हि ग्र र  
५ ००  
मलिक मुहम्मद जायसी और उनका काव्य ग्रथम १ ६ ००  
—सपा चित्ररेखा (जायसी कृत) हि प्रचा पु २ ५० आ  
पाठक, शिवसहाय दे रावत, वीरबल सिंह  
पाठक, शैलेन्द्र लालवहादुर शास्त्री व्यक्ति और विचार एस-  
चाद २ ५० जी  
पाठक, शैलेन्द्रकुमार युग पुरुष नेहरू के सकल्प राजधानी ३.२५  
पाठक, श्यामवदन 'श्याम' डा राजेद्र प्रसाद राष्ट्रीय सा स  
० ५० वप्र  
भाई-बहन ज्ञानपीठ १ ५० वप्र  
रात और दिन राष्ट्रीय प्र मडल एव राष्ट्रीय सा स  
० ७५ क  
सरदार पटेल राष्ट्रीय सा स ० ७५ वप्र  
सोना और चादी राष्ट्रीय प्र मडल एव राष्ट्रीय सा स  
१ २५ क  
पाठक, सी एस दे पाठक, वी सी  
पाठक, सुरेश्वर आदि मानव ज्ञानपीठ ० ७५  
डायन कला-नि २ ०० उ  
वदत्ती दुनिया ज्ञानपीठ २ ७५ वप्र  
वापू की वाते ज्ञानपीठ ० ७५ वप्र  
माता का प्रसाद ग्रथमाला १ ५० ना  
हमारे युग-पुरुष ज्ञानपीठ १ ०० वप्र  
पाणिग्राही, कालिंदीचरण मिट्टी का पुतला पूर्वोदय २ ०० उ  
पाणिग्राही, कालीचरण दे मेहेर, गगाधर.

पातजल, देवप्रकाश अष्टाध्यायी-प्रकाशिका भा प्राच्य ८ ००,  
— —मोतीलाल ८ ००  
पादलिप्त, आचार्य तरगवती रूपा ज्ञान भारिल्ल अपोलो  
४ ०० कथा  
पायरलागरक्विस्त वरावास कि महल २ ५० उ  
पारनेरकर, य म घर-घर मे गाय अ भा सर्व ० २५  
पशुलोक मे पाच वर्ष अ भा सर्व १ ००  
वृषभ सुधार अ भा सर्व ० ५०  
पारसनाथ सिंह कुसुमावली २ भा भा भ ३ ७५  
जगत् सेठ भा भ ६ ५०  
पक्षी-परिचय भा भ २ ५०  
पारसनाथ सिंह दे अकवर  
पारसनीस, दत्तात्रेय बलवत भासी की रानी लक्ष्मीबाई सा  
भवन, इ ४ ५० उ  
पाराशर भारतीय समाज और संस्कृति का इतिहास ग्रथमाला  
१ २५  
पाराशर, उमाशकर अर्थशास्त्र प्रश्नोत्तरी आगरा बुक ५ ००  
वितरण राजस्व एव भारतीय वित्त समस्या (प्रश्नोत्तर).  
आगरा बुक ४ ५०  
पाराशर, चिरजीलाल, १९२३- किगोरी दि पु स ६ ००  
उ  
दूसरा रास्ता दि पु स ५ ५० कथा  
देवर भाभी दि पु स ५ ०० कथा  
नये रिशते दि पु स ५ ०० कथा  
नारी और समाज दि पु स १ ० ००  
पढे लिखे मूर्ख दि पु स ३ ०० वप्र  
पत्नीव्रता दि पु स ६ ०० कथा  
महिला शासन दि पु स २ ००  
लाल चीन के काले कारनामे दि पु स ७ ००  
विश्व सभ्यता का विकास दि पु स १ ५ ००  
स्वर्ग की दीवार दि पु स ५ ५० कथा.  
पाराशर, राधाकृष्ण वृक्ष विज्ञान चिकित्सा स. २. मेडिकल  
२ ५०  
पाराशर, रामकृष्ण बुनियादी शाला शिक्षण मगध ३ ७५,  
— —मानकचद ३ ७५  
पारीक, जे एल स्काउटिंग संग्रह नवयुग ग्र कु ० ६२  
पारीक, शकरलाल एडिसन पीपुल्स १ ५० वप्र  
पारीक, सूर्यकिरण राजस्थानी लोक-गीत हि सा सम्मे २ ००  
पारे, रासगोविंद मेवाड १८वी सदी स्वरूप १ ५०  
पार्वती कुवरि महिलाओ से । गगा २ ५०  
पाल, एस के महान पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री गर्ग ब्र ४ ००  
पालकर, नारायण हरि डा हैडगेवार सुरेन्द्रनाथ मीतल,  
२३ एडमन्सटन रोड, प्रयाग १ ० ००  
पालविया भारतीय अर्थशास्त्र भोपाल १ ७५  
पालविया, सी एम तथा एल सी जैन व्यापारिक एव आधो-  
गिक सन्नियम श्रीराम मेहरा ६ २५  
पालिवान नागरिक शास्त्र के मूल मिद्धात शारदा म २ ००  
पालीवाल भापा शिक्षण की रूपरेखा नवयुग ग्र कु १ ७५

पालीवाल, कृष्णादत्त, संपा हमारी आदिम जातिया वाल  
कल्याण ० ७५  
पालीवाल, टी आर मनोविज्ञान के सिद्धांत रस्तोगी ४ ००  
समाज मनोविज्ञान स २ रस्तोगी. ४ ५०  
सामान्य मनोविज्ञान. स २ रस्तोगी. ६ ००  
पालीवाल, देवीलाल दे. टाँड, जेम्स  
पालीवाल, बाबूराम चमचम चमके चदा मामा राजकमल  
१ ०० वप्र  
पालीवाल, हरिदत्त 'निर्मय' प्रर्चना. शारदा साधना. २ ५०  
उलझे प्रश्न शारदा साधना. २ ५०  
एकाकी शारदा साधना १.५०  
कल्पना. शारदा साधना २ ५०  
कवि की वारणी शारदा साधना. २.५०  
कीचक वध शारदा साधना ५ ५०  
गांधीवाद और सांख्यवाद शारदा साधना ३ ७५  
गीतो का व्यापार शारदा साधना २ ५०  
चीन-यात्रा-सस्मरण शारदा साधना ३ ००  
जहा रहता हू. शारदा साधना १.७५  
निर्भय कैसे बना ? शारदा साधना. १ ५०  
निर्भय नीति. शारदा साधना १.७५  
पद्मोद तरंगिणी शारदा साधना ४ २५  
पा लिये है शारदा साधना. २ ५०  
प्रियतमा शारदा साधना २ ७५  
मैं पागल हू शारदा साधना २.२५  
रावणायन शारदा साधना ७ ५०  
वदे महापुरुषते चरणविदम्. शारदा साधना ३.५०  
सुंदर जीवन शारदा साधना ० ७५  
स्मृति मे शारदा साधना १ ५०  
स्वरोदय शारदा साधना ३ ५०  
पिटके, व ह क्रांतिकाल अनु आर. आर सर्वटे आनंद पु,  
वा ३ ५० उ  
पिल्ला, कहर नीलकंठ कैरली भा २ अशोक प्र गृह. क  
पिल्ले, नीलकंठ मलयानिल. राजहस २ ०० क  
पिल्लै, तकपी शिवशकर चुनौती आत्माराम २.५० उ.  
दो सेर घान आत्माराम २.०० उ  
मछुआरे अनु भारती विद्यार्थी सा. अकादमी ३ ५० उ  
पिल्लै, ना रा दे भारती सु  
पिव, रिक्वेड वी एम भूमि तथा जलवायु विज्ञान किताबिस्तान  
५ ५०  
पिशल, रिचर्ड प्राकृत भाषाओं के व्याकरण अनु हेमचंद्र  
जोगी वि राष्ट्र २० ००  
पिसर्जेव्स्की, ओलेग सोवियत विज्ञान की भूलक पीपुल्स  
०.१६  
पीढीराम, महात्मा महात्माजी के १२५१ नुसखे परि स  
श्यामलाल २ ५०  
पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस. रूसी-हिंदी शब्दकोश पीपुल्स ४ ६२  
हिंदी-रूसी शब्दकोश पीपुल्स ५.७५, सक्षिप्त १.३१.  
पीयूष दे. कृष्णानंदन पीयूष

पुछी, ठाकुर. पखहीन पछी ऐडी. ६ ६०. उ  
सपनो की कलिया ऐडी. ३.६० उ  
पुजारी दे विजयकुमार पुजारी  
पुगातावेकर, एस वी नागरिक नीति नद व. एच नद. स  
३ ००  
पुगातावेकर, कृष्णव्यकटेश भारतीय लोकनीति और सभ्यता.  
२ भा काशी हिंदू ४ ५० (प्र)  
पुगातावेकर, शंकर सबसे छोटा आदमी तथा अन्य एकाकी  
हि सा. भ २ ००  
पुरी, ए एन गरिगत भाग-भौतिक विज्ञान आत्माराम ५ ००  
हायर सैकंडरी प्रयोगात्मक भौतिक विज्ञान आत्माराम  
५ ००  
पुरी, डी आर माध्यमिक-प्राणिकी. एस चाद ६ ००  
पुरी, वैजनाथ. कबुज और भारत. एस. चाद ४.००  
पुरातत्व विज्ञान. कि महल २ ५०  
भारतीय संस्कृति के मूल तथ्य मालवीय ५ ००  
सुदूरपूर्व मे भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास. हि समि  
१ ५ ००  
पुरी, रामलाल. सचित्र अक्षर ज्ञान आत्माराम १ ०० वप्र.  
पुरोत्तमदास रामचंद्रिका कि. महल २ ५०. (अप्रा.)  
पुरोत्तमदास स्वामी, १६१३- नूतन रसायन विज्ञान लक्ष्मी  
ना भा १ ८ ००, भा २. ४.००  
विज्ञान के पथ पर. नवयुग ग्र कु. २ ००  
पुरोत्तमलाल एक वाग के तीन माली यूनिवर्सिटी ०.५०.  
वप्र.  
प्राचीन भारत अपर  
हसो और सीखो कमल-कुज प्र. १.००. वप्र.  
पुरोहित, आर पी दे शर्मा, एस पी.  
पुरोहित, एच एन दे कुभट, जे सार  
पुरोहित, राधेश्याम बगला की सर्वश्रेष्ठ कहानिया राजपाल  
२.०० क  
रवींद्रनाथ ठाकुर ग्रथमाला १ ०० वप्र  
रवींद्र सगीत सगीत २ ००  
पुरोहित, रामचंद्र. दे. सक्सेना, सुरेशचंद्र  
पुरोहित, शांतिगोपाल हिंदी नाटको का विकासात्मक अध्ययन.  
सा सदन, दे १२ ५०  
पुरोहित, सपतलाल ऊपर-नीचे. युगछाया ३ ०० उ  
दो कदम आगे युगछाया. ३.००. उ  
धरती के देवता युगछाया ३.००. उ  
मजहब और ईमान युगछाया ३ ००. उ.  
पुरिकन. जिप्सी अनु वीर राजेंद्र ऋषि आत्माराम २ ००  
पुरिकन, अ से इवान वेल्किन की कहानिया पीपुल्स  
१ १२  
दुब्रोव्स्की पीपुल्स ० ७५ उ.  
हुकुम की वेगम पीपुल्स ० ७५ उ  
पुरिकन, अलेगजंडर कप्तान की बेटे प्रभात प्र. ३ ००. उ ;  
— — रणजीत. ३ २५  
पुष्कल, अजित. दे. अजित पुष्कल.

पुष्प दे पृथ्वीनाथ 'पुष्प'  
 पुष्प दे. राविन शा 'पुष्प'  
 पुष्पदत्त महापुराण सपा परशुराम शर्मा वैद्य भा. ज्ञानपीठ.  
 भा १ आदिपुराण १०००, भा २ उत्तरपुराण  
 १०००, भा ३ उत्तरपुराण ६००  
 रामायण भा ज्ञानपीठ २५०  
 पुष्पपालसिंह, टीका कवीर ग्रथावली अशोक प्र १२५०  
 कवीर साखी समीक्षा अशोक प्र ३५०  
 भ्रमरगीतसार समीक्षा एव व्याख्या अशोक प्र ५००  
 पुष्पादेवी पुष्पा कशीदाकारी देहाती १२५  
 पुष्पा 'भारती' इन्कलाव भा सा प्र २०० क  
 पुष्पा रानी नरगिस कशीदाकारी देहाती १२५  
 पुष्पा घरेलू मखमली कढाई २ भा देहाती ३०० (प्र)  
 पुष्पा स्वरूप, सपा हिंदी काव्य प्रवाह मित्र  
 पुहकर कवि रस रतन ना प्र सभा १००० का  
 पूज्यपाद, आचार्य सर्वार्थसिद्धि सपा फूलचंद्र सिद्धांतशास्त्री  
 भा ज्ञानपीठ १२००  
 पूनम अदीब मुन्ना और राजू आत्माराम १००  
 हम नहीं डरते आत्माराम १००  
 पूर्णचंद्र 'सनक' चंद्रशेखर 'आजाद' नेशनल २०० सस्म  
 पूर्णमासी सिंह सामान्य ज्ञान परिचय कि महल १५०  
 पूल्किना, ई म रूसी व्याकरण पीपुल्स २१६  
 पृथ्वीकुमार तीन कुमार सस्ता १०० वप्र  
 हिरन और राजा सस्ता १०० वप्र  
 पृथ्वीनाथ 'पुष्प' हिंदी गद्य-पद्य-सग्रह एस चाद २५०  
 पृथ्वीनाथ शास्त्री तथा योगेन्द्रकुमार लल्ला, सपा बगला की  
 प्रतिनिधि हास्य कहानिया आत्माराम १०००  
 पृथ्वीराज, महाराज बेलि क्रिसन रुकमणी री सपा ठाकुर  
 रामसिंह तथा सूर्यकरण पारीक हिंदु एकेडेमी १५००,  
 मूलपाठ ०३७ का  
 पृथ्वीसिंह विद्यालकार हमारा राजस्थान हि भवन ६००  
 पेत्रेनिकोवा सोवियत छात्रावास स्कूल पीपुल्स ०६६  
 पेटन, एलन धरती के आसू सरस्व प्रे ५०० उ  
 पेटलीकर, ईश्वर काला पानी बोरा ३०० उ  
 पेट्रोफ, ब्लाडीमीर रूसी सोना भा भ ३२५ उ  
 पणकर, रहमणवाई दे वर्मा, कृष्णलाल  
 पेलेग्रिनी, ऐजेलो हमारा नया देश आत्माराम २०० जी  
 पो, एडगर ऐलन रहस्य की कहानिया हिंद पा १०० उ  
 रहस्य-रोमाच की कहानिया राजपाल ३०० क  
 पोटेक्काट्ट, एस के कैरली भा १ अनु एस लक्ष्मण शास्त्री  
 अशोक प्र गृह ३०० क  
 पोतोव्स्की समय के पख पीपुल्स ०३७ क  
 पोद्दार, कन्हैयालाल सक्षिप्त अलकार मजरी हिं सा सम्मे  
 २००  
 सस्कृत साहित्य का इतिहास. ना प्र सभा ५००  
 हिंदी मेघदूत विमर्श इ. प्रे ४००  
 पोद्दार, महावीरप्रसाद कब्ज, कारण और निवारण आरोग्य  
 १.००, — —सस्ता. १००

कहावतो की कहानिया सस्ता २२५  
 नवीन चिकित्सा सस्ता २५०  
 परमहंस की कथाए सस्ता १५०  
 परमहंस की कहानिया सस्ता ०४० वप्र  
 प्राकृतिक चिकित्सा क्या व कैसे ? सस्ता ०८०  
 हिमालय की गोद मे. सस्ता २०० या  
 पोद्दार, हनुमानप्रसाद भगवच्चर्चा गीता भा १, २ ०५०  
 (प्र), भा ३, ५ ०७५ (प्र), भा ४ ०८१, पूर्ण  
 समर्पण भा ६ ०७५  
 भवरोग की रामबाण दवा गीता ०३१  
 मानव-धर्म गीता. ०२०  
 साधन-पथ गीता ०१६  
 —अनु दोहावली गीता ०५०  
 विनय-पत्रिका गीता १००  
 —सपा ईश्वर की सत्ता और महत्ता गीता १२५  
 प्रेम दर्शन गीता ०३१  
 पोरबंदर, महाराज अतर-निरीक्षण राजकमल २५०  
 पोलेवोई, बोरिस असली इन्सान पीपुल्स २६२ उ  
 प्यारे दे राजराजेश्वरीप्रसाद सिंह 'प्यारे'  
 प्यारेलाल आधुनिक जगत मे गाधीजी की कार्य-पद्धतिया नव-  
 जीवन १००  
 उज्जैन की लोक-कथाए आत्माराम १२५  
 चलती-फिरती दीवारे श्री भा भारती ४५० उ  
 प्यारा भारत इ प्रे ४५० उ  
 विदर्भ देश की लोक-कथाए आत्माराम १२५  
 शातिनिकेतन की यात्रा नवजीवन ०३५  
 सिध की लोक-कथाए आत्माराम १२५  
 प्यारेलाल 'आवारा' अगडाई चौधरी ४५०  
 अतडियो की ऐठन रूपसी ३०० उ  
 अदर मिट्टी, बाहर चूना रूपसी ३००  
 अनारकली चौधरी ३००  
 अब, तब और जब रूपसी ३०० उ  
 अमावस स ४ रूपसी २५० उ  
 आग लगी है आदर्श पु म ३०० उ  
 'आवारा' की कहानिया रूपसी (पा) १००  
 आहट रूपसी ३०० उ  
 ऊची-नीची राहे रूपसी ३०० उ  
 ओस और आसू कल्याणदास २०० उ  
 कच्चे धागे रूपसी ३००. उ  
 कही की ईंट, कही का रोडा रूपसी ३००  
 कही और अनकही रूपसी ३०० उ  
 कुछ हारे, कुछ जीते रूपसी ३०० उ  
 कुहासा रूपसी ३०० उ  
 खडहर चौधरी ४००  
 खरोच रूपसी ३०० उ  
 खुमार स ४ रूपसी ३२५ उ  
 गदला पानी रूपसी ३०० उ  
 गाठ. रूपसी. ३.०० उ

घायल. चिनगारी. ४.५०. उ  
 चट्टानों के बीच. रूपसी ६००. उ  
 चाद, और मै, और तू रूपसी ३०० उ  
 चादी के सिक्के रूपसी ३७५ उ  
 चितवन. चौधरी. ४.००  
 चीखे रूपसी २५०. उ  
 छलिया आदर्श पु म २.५० उ  
 जागीरदार आदर्श पु म. २५० उ  
 जाड़े की रात रूपसी २५०. उ.  
 तनहाइया रूपसी ३००. उ  
 तिनके कल्याणदास. २५० उ  
 दरारे रूपसी ३००. उ  
 दो घड़ी का पाप. रूपसी. ३०० उ.  
 धडकन चौधरी ३७५  
 धुधलका. रूपसी ३०० उ  
 नई जिदगी कन्हैयालाल ४०० उ  
 नये जमाने की नयी फसल. रूपसी ३०० उ.  
 नयी उमर नए सपने रूपसी ३०० उ  
 नीद न आई सारी रात. रूपसी. ३००. उ.  
 नैन बावरे रूपसी ४.०० उ.  
 पगडडी. चौधरी ५.००  
 पटरी का पाइप रूपसी ३५०. उ  
 पत्थर के फूल. रूपसी ३०० उ.  
 पाषाणी रूपसी ३०० उ.  
 पायल चौधरी. ४००  
 पीली कोठी चौधरी. ३५०  
 फासला रूपसी ३०० उ  
 बदली की धूप रूपसी ४०० उ.  
 बदली की रात चौधरी ३००  
 बरखा रूपसी २२५. उ  
 बाहो के घेरे रूपसी ४०० उ  
 भवर कल्याणदास एव रूपसी ३.७५ उ.  
 भोर का तारा आदर्श पु म ३००. उ.  
 मदहोश आदर्श पु म २५० उ.  
 मन के मीत आदर्श पु. म. २५० उ  
 मन के मोड़ रूपसी. ३०० उ  
 मरघट रूपसी २.५० उ.  
 मिट्टी. रूपसी. ५.५० उ  
 मुमताज चौधरी ४.००  
 मोड़ सुभाष २७५. उ  
 मोहमाया कल्याणदास ४०० उ  
 रात बुलाती है रूपसी ३.०० उ  
 रेत के महल रूपसी ३२५ उ  
 रोते नैना कल्याणदास २.७५ उ.  
 लहरे और लकीरे रूपसी ३२५. उ.  
 लहरे तीन, फूल एक. रूपसी. ३२५. उ  
 शायद. रूपसी ३०० उ  
 शीका काई. रूपसी. २.००. उ

सन्नाटा रूपसी २७५ उ.  
 सपने के साथी रूपसी. ३०० उ.  
 सपनों का कफन रूपसी ३५० उ  
 सफेद परछाइया. रूपसी ३००. उ  
 सहेली रूपसी (पा) १.००  
 सूखे पत्ते चौधरी ५२५  
 सोलह अगस्त चौधरी ३५०  
 स्वप्न और सत्य. आदर्श पु म २.५० उ  
 स्वप्नजाल रूपसी २५० उ  
 हमसफर आदर्श. पु म २५० उ  
 प्यारेलाल 'वेदिल' अब तुम ही बताओ एस चाद. ५.००  
 उ  
 लहरो से पूछिए एस चाद ६०० उ.  
 प्रकाश, जी. बलिष्ठ बनियन वोरा १००. बप्र  
 प्रकाश, जी 'इडु'. दे चतुर्वेदी, हुक्मचद  
 प्रकाशचंद्र आज्ञाकारी बच्चे साधना म १०० बप्र  
 रामदीन का साहस साधना म १०० बप्र  
 प्रकाश पंडित दे पंडित, प्रकाश.  
 प्रकाश 'भारती'. अवहेलना भा सा सदन १७५, (पा.)  
 १००  
 आडवर भा सा सदन. ३२५. उ  
 दो पथ दो राही पजाबी पु २.५० उ, — — स्टार (पा)  
 १००  
 दो मार्ग भा. सा सदन ४२५ उ  
 निस्तरण भा सा सदन ४२५ उ.  
 परिहार भा. सा सदन, ४.०० उ  
 प्रमाद भा सा. सदन २५०, (पा.) १०० उ  
 भवजाल. भा सा सदन ५.०० उ  
 यह लोग यह दुनिया भा सा सदन ३५० उ  
 वरदान. भा सा. सदन ३.००. उ  
 सघात भा सा सदन ३.०० उ.  
 ससर्ग भा सा सदन ३.००. उ.  
 प्रकाशवती चार परते राजपाल. ३००. उ.  
 प्रकाशवती नारायण महात्मा कबीरदास कला-नि. १.००.  
 बप्र  
 प्रकाशशकर उडते पत्ते आशा पब्लि. एव जुही. कुज. ५००  
 उ  
 प्रकाश साथी चानण-चिराग आत्मराम २०० ना  
 नवीया राहवा आत्मराम २०० ना  
 प्रकाशसिंह बाल-क्यारी पजाबी पब्लि ०५० बप्र  
 प्रकाशानन्द, स्वामी आनन्द प्रकाश छात्रहितकारी. ०.७५  
 प्रखर दे. गोस्वामी, भालचंद्र 'प्रखर'  
 प्रगल्भ दे. राधेश्याम 'प्रगल्भ'  
 प्रजानानन्द, स्वामी. गूढार्थ चद्रिका २ ख. मानस सध. ३.००.  
 (प्र)  
 प्रणयी दे पाठक, रामनाथ 'प्रणयी'  
 प्रणवानन्द, स्वामी कैलाश-मानसरोवर. हि. सा. सम्मे. १०००  
 (अप्रा.)

प्रताप अजन्मा की आत्मकथा चौधरी २५०  
 अतीत के चलचित्र समीक्षा हिं सा भ १००  
 इक्कीस कहानिया (पाठक) समीक्षा हिं सा. भ १५०  
 इस्पात चिनगारी २५० उ  
 कहानी नयी पुरानी (रघुवीरसिंह) हिं सा भ ०७५ आ  
 गाधी चवतरा चौधरी ३५०  
 चरित्र और चट्टान चौधरी. २५०  
 जिद्दी चौधरी ३००  
 त्यागपत्र, अध्ययन हिं सा भ १००  
 प्यार और पैसा चौधरी ४५०  
 बसत सेना चौधरी ४५०  
 मिट्टी मीनार चौधरी ४००  
 रोटी और रोमास चिनगारी ३५० उ  
 स्मृति की रेखाएँ सहायक स २ हिं सा भ १२५  
 प्रताप दे जगमोहन शकर प्रताप  
 प्रतापचंद हिंदी के प्रमुख कवि और उनकी शैलिया सरस्व  
 पु स १००  
 हिंदी के प्रमुख गद्यकार और उनकी शैलिया सरस्व पु स  
 ०७५  
 प्रतापनारायण विनाश के बादल हिंद पा २०० उ  
 प्रतापसिंह, कविराज जच्चा गंगा ३००  
 प्रतापसिंह, सर्वाई नूतनामृतसागर श्यामलाल ७००  
 प्रतिपालसिंह वीसवी शताब्दी के महाकाव्य ओरिएण्टल  
 न ५० (अप्रा)  
 प्रतिभा दे राघेवरी 'प्रतिभा'  
 प्रतिभा विलियम आ नददुलारे वाजपेयी एक अध्ययन.  
 प्रतिभा ५५०  
 प्रतिमाशरण कल्पना भागलपुर बुक २००. ना  
 प्रदीप क्रिस्टीन कोलर पजावी पु १०० उ  
 प्रधान, कमलापति अमर बापू राष्ट्रीय प्र मडल एव राष्ट्रीय  
 सा स २५० उ  
 भावना ज्ञानमडल एव भा प्र मडल २०० उ  
 हाईस्कूल सरल अर्थशास्त्र तथा भूगोल के चुने प्रश्न कि  
 महल १५०  
 प्रधान, के के सैनिक कानून हिंदी किशोर पब्लि २००  
 प्रबुद्ध. दे मिश्र, अनंत 'प्रबुद्ध'  
 प्रभजोत कौर युद्ध की ज्वाला विद्या प्र भवन ३२५ क  
 प्रभाकर दे जगन्नाथ प्रभाकर  
 प्रभाकर दे मिश्र, कन्हैयालाल 'प्रभाकर'  
 प्रभाकर दे मिश्र, चंद्रभानु 'प्रभाकर'  
 प्रभाकर दे राजेन्द्रप्रसादसिंह 'प्रभाकर'  
 प्रभाकर, विष्णु दे विष्णु प्रभाकर  
 प्रभाकर सिंह भूगोल शिक्षण रा वेनीमाधव ४.००  
 —तथा मकसूद अहमद सिद्दीकी. भारत-भूमि रा वेनीमाधव  
 ३.२५  
 प्रभाचंद्राचार्य न्यायकुमुदचंद्रोदय सपा महेन्द्रकुमार भा  
 ज्ञानपीठ भा १ न.००, भा. २ न ५०  
 प्रभाचंद्राचार्य दे समतभद्र, स्वामी.

प्रभात मीराबाई हिं प्र २ १५.००  
 प्रभात दे. मिश्र, केदारनाथ 'प्रभात'.  
 प्रभातरजन, १९४२- सूनी घाटी का गीत कि महल एव  
 सा भवन, ड २०० का  
 प्रभात शास्त्री काव्यांग कल्पद्रुम हिं सा. सम्मे ०७५  
 —तथा श्रीधर शास्त्री कवि-कर्म-बोध कौशावी ०६२  
 —सपा आज के कवि और उनकी कविताएँ हिं भवन २.५०  
 कृषि-यज्ञ. कौशावी १२५ ना  
 चतुर्युग कौशावी १२५ ना  
 सरदार पूर्णसिंह अध्यापक के निवध कौशावी २५० नि  
 प्रभा रानी प्रभा गिल्प माला देहाती ३००  
 प्रभु, आर के ऐसे थे बापू. नवजीवन १७५  
 प्रभू आश्रित गृहस्थ आश्रम देहाती ०५०  
 प्रभूनारायण निद्रा विज्ञान मातृ-भाषा. ०५६  
 प्रमानंद प्रसाद अर्थशास्त्र पु. भ. ५००  
 प्रमोदकुमार व्यक्ति प्रकार और अन्य मनोविश्लेषण  
 ज्ञानपीठ २.२५  
 प्रमोदविहारी मधुमक्खी पालन जवाहर १५०  
 रेशम कीड़ा पालन जवाहर ०७५  
 प्रमोदविहारी 'राजा' खूखार टोली प्रभात प्र २५० उ  
 नीला पजा प्रभात प्र भा १-२ २.५० (प्र), भा ३  
 ३०० उ  
 प्रमोद राजा काला चश्मा राज्यश्री १५० उ  
 नरक-कुंड राज्यश्री २००. उ  
 सुदरी की शादी राज्यश्री १५० उ.  
 प्रयाग महिला विद्यापीठ अपठित साहित्य और निवध. प्रयाग  
 १२५  
 आयुर्वेद परिचय प्रयाग १६२  
 आर्य महिला धर्म शिक्षा प्रयाग १२५  
 आहुतिया प्रयाग १३८  
 इतिहास प्रवेशिका प्रयाग २६२  
 घर का हिसाब प्रयाग ०६०  
 नवीन प्रादेशिक भूगोल प्रयाग २२०  
 नारी काव्य संग्रह प्रयाग १३०  
 पाक प्रवेशिका प्रयाग ०६०  
 पाक विनोद प्रयाग २००  
 भारत की आदर्श महिलाएँ प्रयाग १००  
 भारतवर्ष, लका और ब्रह्मा का भूगोल प्रयाग ३००  
 भारतीय नागरिक जीवन प्रयाग २२५  
 यात्रा आविष्कार की कहानिया प्रयाग १००  
 विदुषी रस अलकार पिंगल प्रयाग ०७५  
 वैदिक धर्म प्रवेशिका प्रयाग १२५  
 व्याकरण प्रवेश प्रयाग १७५  
 सनातन धर्म प्रदीप प्रयाग १७५  
 सनातन धर्म प्रवेशिका प्रयाग १.१०  
 सफल गार्हस्थ्य जीवन प्रयाग. १२५  
 सिलाई प्रवेश प्रयाग. ०६०  
 सिलाई विज्ञान. प्रयाग १५०

स्वास्थ्य कला और गृह प्रबंध. प्रयाग. ३.५०  
 हमारा शरीर. प्रयाग. २.४०  
 हमारे देश का इतिहास प्रयाग ३.७५  
 हिंदी गद्य गौरव. प्रयाग १.८०  
 हिंदी पद्य प्रकाश. प्रयाग १.५०  
 हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास. प्रयाग १.००  
 प्रवासी दे त्रिपाठी, लालधर 'प्रवासी'.  
 प्रवीण दे श्रीवास्तव, रुद्रप्रसाद 'प्रवीण'  
 प्रवीण नायक यशपाल का औपन्यासिक शिल्प सरस्व. पु. स.  
 ६.००  
 प्रशांत इतिहास के पन्ने २ भा बाल सदन ०.७५ (प्र.) वप्र.  
 किशोर अभिनय बाल सदन १.५० वप्र  
 किशोर रूपक बाल सदन १.५० वप्र  
 किशोरो का मंच बाल सदन. १.५०. वप्र.  
 जादू की टहनी. बाल सदन. १.५०. वप्र  
 तीन कहानिया बाल सदन ०.७५ वप्र  
 दुर्ग-विजय बाल सदन. ०.७५ वप्र.  
 दो-भाई बाल सदन. १.५० वप्र  
 नटखट पिकू ओरिएटल ०.७५. वप्र  
 नया युग बाल सदन. ०.७५ वप्र.  
 पोपू गुड्डा बाल सदन १.५० वप्र  
 बलिदान की कहानिया बाल सदन. ०.७५. वप्र.  
 बाल अभिनय. ओरिएटल. ०.५० वप्र.  
 मीठी कहानिया ओरिएटल ०.७५ वप्र.  
 रूप और रक्त बाल सदन ०.७५ वप्र  
 रोचक कहानिया ओरिएटल ०.७५ वप्र  
 लाडले का बलिदान बाल सदन. ०.७५ वप्र.  
 विष-परीक्षा बाल सदन ०.७५. वप्र  
 शीर्ष-दान बाल सदन ०.७५. वप्र  
 श्रद्धा और मनु बाल सदन ०.७५. वप्र  
 सच्ची घटनाए बाल सदन ०.७५ वप्र.  
 सुनहला हिरण बाल सदन १.५० वप्र.  
 होरी और हीरा. बाल सदन ०.७५ वप्र  
 प्रसाद गाठे स ४ तरुण ०.७५  
 राजनीतिक विचारधाराए ओरिएट ७.००  
 —तथा वर्मा वैकिंग के सिद्धांत बुकलेड ५.५०  
 —तथा सिंह प्रारंभिक भौतिक विज्ञान. बुकलेड ४.५०  
 —तथा अन्य भारत का स्थानीय स्वायत्तशासन बुकलेड  
 ५.००  
 प्रसाद, आर प्रारंभिक पुस्तककरण बुकलेड ६.७५.  
 प्रसाद, एम तथा बी बी वर्मा वैकिंग के सिद्धांत बुकलेड  
 ५.५०  
 प्रसाद, के प्राकृतिक चिकित्सा सार देहाती ६.००  
 बिजली मास्टर देहाती २.५०  
 मधु (शहद) के गुण तथा उपयोग देहाती. २.५०  
 रेडियो मास्टर देहाती २.५०  
 प्रसाद, जयशंकर, १८८६-१९३७ अजातशत्रु भा भ २.००  
 ना.

आधी. भा. भं. २.५०. क.  
 आसू भा भ १.२५. का.  
 आकाशदीप भा. भ ३.००. क  
 इद्रजाल भा भ २.५०. क  
 इरावती भा भ २.००. उ  
 एक घूट. भा भ १.००. ना  
 ककाल. भा भ ५.०० उ.  
 करुणालय भा भ १.००. का  
 कविश्री-माला हिंदी. राष्ट्र प्रचा समि.  
 कानन कुसुम पु भ. १.०० का.; — — भा भ. २.००  
 कामना भा भ १.७५ ना  
 कामायनी भा भ ५.०० का  
 काव्य और कला तथा अन्य निबंध भा. भ २.००  
 चंद्रगुप्त भा. भ. ३.०० ना.  
 चित्राधार भा भ ३.००.  
 छाया पु भ २.५० क, — — भा. भ. २.००  
 जनमेजय का नागयज्ञ भा भ. १.५० ना.  
 भरना भा. भ १.५० का  
 तितली भा भ ५.००. उ.  
 ध्रुवस्वामिनी भा. भ ०.७५. ना.  
 प्रतिध्वनि भा भ १.५० क.  
 प्रसाद-संगीत. भा भ २.००. का.  
 प्रेम-पथिक भा. भ ०.७५ का.  
 महाराणा का महत्त्व भा भ ०.५० का.  
 राज्यश्री भा. भ १.५० ना.  
 लहर भा भ १.५० का  
 विशाख भा भ १.५०. ना  
 स्कंदगुप्त भा. भ २.५० ना  
 प्रसाद, बी एन द्रव्यस्थिति-विज्ञान रा वेनीप्रसाद. ६.००  
 हाई स्कूल अकगरिणत रा वेनीप्रसाद. २.१६  
 प्रसाद, राजकुमारी अभिनव एकाकी. नेशनल ३.५०  
 प्राणनाथ विद्यालकार इंगलैंड का इतिहास गंगा ६.००  
 मुद्राशास्त्र ना प्र सभा ३.००  
 राजनीति शास्त्र स २. ज्ञानमंडल ४.५०  
 रूस का पचायती राज्य हि पु ए. १.२५  
 रोम का इतिहास ना प्र. सभा ३.००  
 शासनपद्धति. ना प्र सभा. ३.००  
 सपत्ति-शास्त्र नद ब्र एव नद स २.००  
 प्राणेश दे शर्मा, गणेशलाल 'प्राणेश'  
 प्रिबोई, नोवीकोव समुद्र की पुकार पीपुल्स २.८७ क  
 प्रिय दर्शन इतिहास और कल्पना शिवलाल २.०० उ  
 प्रियदर्शी. दे कैलाशनाथ प्रियदर्शी  
 प्रियवदा देवी विशैला समाज (आत्म कथा) आदर्श हि  
 ३.२५. उ.  
 प्रिया राजन नदा नीलाभ २.७५ उ.  
 प्रीतमसिंह तथा जोगेंद्रसिंह भौतिक भूगोल कि. महल. ४.००  
 प्रीतमसिंह पछी गदर पार्टी का इतिहास आत्माराम ३.५०  
 पजाव की लोक-कथाए आत्माराम १.२५



प्रीश्विन, मिखाईल सूरज का खजाना पीपुल्स ०४४ क  
 प्रीस तथा वुड भूगोल के आधार एस चाद ७.००  
 प्रेम गोल्डन कढाई कला देहाती १२५  
 प्रेम दे गगाशरण 'प्रेम'  
 प्रेम दे वाबूलाल प्रेम  
 प्रेम दे रमेशचंद्र 'प्रेम'  
 प्रेम दे शर्मा, वाबूलाल 'प्रेम'  
 प्रेमकुमार बदा नवयुग अजता १५० ना  
 प्रेमकृष्ण सितारो की सैर फ्रैंक १२५  
 प्रेमकृष्ण 'अनामिल' विहारी प्रश्नोत्तरी सरस्व पु स. २००  
 भाषा विज्ञान प्रश्नोत्तरी सरस्व पु स २२५  
 अमरगीतसार मे काव्यकला और जीवन दर्शन. सरस्व पु  
 स २२५  
 हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्नोत्तरी सरस्व पु स १७५  
 प्रेमचंद, १८८०-१९३६ अलगयोभा सरस्व प्रे ०५० वप्र  
 अहंकार हस २५० उ  
 आजाद कथा सरस्व प्रे १५०० उ  
 कफन हस २०० क  
 कर्वाला गगा एव सरस्व प्रे ४५० ना  
 कर्मभूमि हस ६०० उ  
 कलम का सिपाही हस २००० जी  
 कलम, तलवार और त्याग सरस्व प्रे भा १ २००;  
 भा २ २०० जी  
 कायाकल्प सरस्व प्रे १००० उ  
 कुछ विचार सरस्व प्रे ४०० नि  
 कुत्ते की कहानी सरस्व प्रे १२५ वप्र  
 गवन हस ५००, सक्षिप्त २२५ उ  
 गल्प समुच्चय हस ३०० क  
 गुप्तधन २ ख हस ८०० (प्र) क  
 गुल्ली डडा हस १००  
 गुल्ली डडा (सचित्र) सरस्व प्रे वप्र  
 गोदान सरस्व प्रे १३००, सक्षिप्त ७०० उ  
 गोपाल कृष्ण गोखले सरस्व प्रे ०७५ वप्र  
 ग्राम्य जीवन की कहानिया सरस्व प्रे एव हिं. ग्र र  
 ३०० क  
 घर जमाई और पूस की रात सरस्व प्रे ०५० वप्र  
 चंद्रहार सरस्व प्रे २०० ना  
 चिट्ठी पत्री हम ख १ ७००, ख २ ८००  
 जगल की कहानिया हस १५०  
 टाल्स्टाय की कहानिया हिं पु ए २०० क  
 ठाकुर का कुआँ सरस्व प्रे ३०० क  
 दुर्गादास नद व्र एव नद स ०७५ वप्र, — —हस  
 १५०  
 दो वहने सरस्व प्रे ०७५ वप्र  
 दो बैलो की कथा सरस्व प्रे ०५० वप्र  
 नवजीवन हिं पु ए १५० क  
 नवनिधि हस १५० क  
 नारी जीवन की कहानिया सरस्व प्रे ४००

निर्मला सरस्व प्रे एव हस २०० उ  
 नेउर हस १०० वप्र  
 पंच प्रसून हिं पु ए ०७५ क  
 पाच फूल हस १०० क  
 पूस की रात १०० वप्र  
 प्रतिज्ञा हस २५० उ  
 प्रेम की वेदी हस ०७५ ना  
 प्रेम चतुर्थी सरस्व प्रे एव हिं पु ए १५० क  
 प्रेमतीर्थ सरस्व प्रे ३०० क  
 प्रेम-द्वादशी गगा ३०० क, — —हस २००  
 प्रेम-पंचमी गगा २२५ क  
 प्रेम पचीसी सरस्व प्रे एव हस ३०० क, — —हिं पु  
 ए ३५०  
 प्रेम पीयूष नद व्र १०० क, — —सरस्व प्रे २००  
 प्रेम पूर्णिमा सरस्व प्रे एव हिं पु ए ३०० क  
 प्रेम-प्रसून गगा एव सरस्व प्रे ३५० क  
 प्रेमाश्रम सरस्व प्रे १०००, सक्षिप्त ४१२ उ, — —  
 हस ६००, — —हिं पु ए ६००  
 प्रेमोपहार सरस्व प्रे २५००  
 बडे घर की वेदी हस १०० वप्र  
 बडे भाई साहव (सचित्र) सरस्व प्रे वप्र  
 बेटोवाली विधवा हस १०० वप्र  
 मगल सूत्र सरस्व प्रे ५०० उ  
 मगलाचरण. हस १५०० उ  
 मनोरमा (कायाकल्प का सक्षिप्त सस्करण) सरस्व  
 प्रे ३००  
 महाराणा प्रताप सरस्व प्रे ०७५ वप्र  
 मानसरोवर ८ भा सरस्व प्रे एव हस ३०० (प्र) क  
 मोटेराम शास्त्री हस १०० वप्र  
 रगभूमि गगा १३५० उ, — —सरस्व. प्रे १५००  
 राजा हरदौल हस १०० वप्र  
 राणा जगबहादुर सरस्व प्रे ०७५ वप्र  
 रानी सारधा (सचित्र). सरस्व प्रे वप्र  
 रामचर्चा हस २५० जी  
 रामलीला हस १००. वप्र  
 लैला सरस्व प्रे १०० क  
 वरदान सरस्व प्रे ३०० उ, — —हस २५०  
 विविध प्रसंग हस ख १ ७५०, ख २ १२५०, ख ३  
 १२५०  
 शतरज वे लिलाडी (सचित्र) सरस्व प्रे वप्र  
 शाराव की दूकान सरस्व प्रे ०५० वप्र  
 सग्राम सरस्व प्रे ३०० ना  
 सप्त सरोज सरस्व प्रे १.०० क, — —हस ०७५,  
 — —हिं पु ए ०७५  
 सप्त सुमन सरस्व प्रे एव हस १०० क  
 समर यात्रा सरस्व प्रे २५० क  
 सम्राट अशोक एस चाद १२५ वप्र  
 सर्वश्रेष्ठ कहानिया सरस्व प्रे १५०

साहित्य का उद्देश्य हस ४००  
 सुखदास. सरस्व. प्रे १.००. उ.  
 सुजान भगत. हस. १००. वप्र.  
 सुभागी हस १.००. वप्र.  
 सेवासदन. सरस्व प्रे ५००, सक्षिप्त ३००. उ.; — —  
 हस. ५००, — — हि पु. ए ४००  
 सोजे वतन हस. १०० क.  
 स्वामी विवेकानंद सरस्व प्रे ०७५. वप्र.  
 होरी ('गोदान' का नाट्य रूपांतर) हस २००  
 —सपा हिंदी की आदर्श कहानिया सरस्व प्रे. १५०  
 प्रेमचंद. दे. टाल्स्टाय  
 प्रेमचंद तथा ललिताप्रसाद सुकुल. दे गाल्सवर्दी.  
 प्रेमचंद, डा. सरल होम्योपैथिक चिकित्सा. देहाती २.५०  
 होम्योपैथिक इजेक्शन गाइड. देहाती. ५.००  
 होमियोपैथिक गाइड देहाती ५००  
 प्रेमचंद 'महेश' आचार्य चरणकथ तथा चंद्रगुप्त. एस चाद  
 १२५. वप्र  
 सम्राट् अशोक एस चाद. १.२५. वप्र  
 हर्षवर्द्धन एस. चाद. १.२५ वप्र.  
 प्रेमनाथ 'परदेशी' वरदान ग्रथमाला. १.७५ वप्र  
 प्रेमशंकर प्रसाद का काव्य भा. भ. १२.००  
 प्रेम हरद्वारी तिव्वत का रहस्य. प्रचा पा १.०० उ  
 प्रेमी दे. गगासहाय 'प्रेमी'  
 प्रेमी दे टडन लक्ष्मीनारायण 'प्रेमी'  
 प्रेमी दे त्रिलोकीनाथ प्रेमी  
 प्रेमी दे धर्मवीर 'प्रेमी'  
 प्रेमी दे नाथूराम प्रेमी  
 प्रेमी दे सहाय, विश्वभर 'प्रेमी'  
 प्रेमी दे हरिकृष्ण 'प्रेमी'.  
 प्रैट, कैरोलिन. वच्चा शिक्षक. राजकमल. १५०  
 प्लेखानोव, जी इतिहास मे व्यक्ति की भूमिका. पीपुल्स.  
 ०७५  
 प्लेट, नेथनाइन हमारा विश्व—युगो के बीच एस चाद

## फ

फक्स तथा वॉगनल्म बुड्रो विल्सन. एस चाद. १०० वप्र  
 फकीरचंद मानसिक ब्रह्मचर्य कर्मयोग देहाती १२००  
 फडके, ना सी, १८९४- इशारा. बवई प्र ५.५० उ  
 कश्मीरी गुलाब रामप्रसाद ४.००. उ.  
 प्रतिभासाधना व्हीनस ५.००  
 फणसीकर, चि. रा. तथा दि. ज गोधलेकर, सपा गद्य  
 रत्नावली बवई हि. २००  
 साहित्य-सुधा बवई हि २५०  
 फणसीकर, चि. रा दे भोन्ते, बालकृष्ण  
 फणीश्वरनाथ 'रेणु', १९२१- ठमरी राजकमल. (अप्रा)  
 क.

दीर्घतपा. वि. ग्रं कु. ४.००. उ  
 परती परिकथा राजकमल. ७.५० उ.  
 मैला आचल. राजकमल. ३५०; (पा) २.०० उ  
 हाथ का जस वि. ग्र कु ३००. उ  
 फतहसिंह, १९१४- कामायनी सौंदर्य भा. भ ६५०  
 फदेयेव, अ तरुण गाडें. २ भा. पीपुल्स, ७.३७. उ.  
 फरमी, लारा परिवार मे परमाणु एस चाद ३.७५  
 फरीद, वावा. वावा फरीद के दोहें देहाती. ०५०  
 फर्तुगानोव, एफ एफ. तुलनात्मक भाषा विज्ञान भा १. अनु.  
 केसरीनारायण शुक्ल. क मु हि  
 फॉकनर भालू राजपाल २००  
 फॉकनर, विलियम कैदी. पजावी पु २.५०. उ, — — स्टार.  
 (पा) १००  
 फाक्स, रैल्फ उपन्यास और लोक-जीवन पीपुल्स ४००  
 फाजे, ओलिवर ला पर्वतो के आचल मे. पजावी पु. २००.  
 उ  
 फादेयेव, ए पराजय पीपुल्स ४०० उ  
 फानी बदायूनी. जीवनी और सकलन राजपाल. १.५०  
 फारेस्टर, फ्रेक एच वायु महासागर की खोज. राजकमल.  
 २००. वप्र  
 फारेस्टर, मैरिन ई. नटग्वट बच्चो की पार्टी. रामा प्र  
 १२५  
 फार्बस, अलेक्जेंडर किन्लाक. रासमाला अनु गोपालनारायण  
 बहुरा मगल भा १ पूर्वार्द्ध ५००, भा १ गुजरात का  
 इतिहास उत्तरार्द्ध ६००; भा २ सल्तनतकालीन गुजरात.  
 ७००  
 फॉर्वर, एडुअर्ड. रसायन मे नोबेल पुरस्कार-विजेता. अनु. हरि  
 भगवान. हि समि. ६.००  
 फॉर्ले, राल्फ एम. शुक्रग्रह पर मानव नेशनल. ३.०० उ  
 फास्ट, हावर्ड आदि विद्रोही. अनु. अमृतराय हस ६५०  
 फॉस्डिक, रेमाड वी जॉन डि राकफेलर (जूनियर). भा भं  
 ३.२५  
 फिक्र तौसवी. डीग-डीग असेवली आत्माराम ३००  
 स्वतंत्रता के वाद सर्वश्रेष्ठ उर्दू हास्य-व्यंग्य प्रगतिशील.  
 ३५०  
 हम हिंदुस्तानी. प्रगतिशील. ३२५  
 फिर्गुनोव, के. पीडाहीन प्रसव पीपुल्स ०.७५  
 फिलिपीन नेशनल कमीशन फिलिपीन राजकमल. २००  
 फिल्ल, हावर्ड एल. स्मरण शक्ति राजकमल १.२५  
 फिगर, एच. ए. एन. नेपोलियन गयाप्रसाद ६.०० इति  
 फिगर, लुई. गांधी की कहानी. मस्ता १५०  
 रेट स्क्वायर के देज मे. एम चाद ३००  
 फील्ड, जोगिया ओल्ड कियामिदा चिकित्सा छात्रहितकारी  
 ०.७५  
 फील्ड, बरकेन नीमाए टूटी. कि. महल १५०. उ  
 फुकन, नीलमणि, १८८०- जतधारा अस्म. ३००. वा  
 साहित्य कला. अस्म. १५०  
 फुरकत. दे गुलाम अहमद 'फुरकत'.

फूलचद्र सिद्धातशास्त्री वर्णा, जाति और धर्म भा ज्ञानपीठ.  
३.००  
फूलचद्र सिद्धातशास्त्री दे उपाध्ये, ए एन  
फूलचद्र सिद्धातशास्त्री दे. पूज्यपाद, आचार्य  
फूलचद्र सिद्धातशास्त्री दे भगवत भूतबलि  
फेड सू-फेड चीनी बोधकथाए अनु शुभा वर्मा हिं. भवन  
२ २५  
फेदोरोविच, व अ जगल मे मगल पीपुल्स ० ६२  
फैज अहमद 'फैज' जीवनी और सकलन राजपाल १ ५०  
दस्तेसवा आत्माराम २ ५०. का  
—तथा 'मखमूर' जालधरी स्वतंत्रता के वाद की सर्वश्रेष्ठ  
उर्दू शायरी प्रगतिशील ४ ००  
फ्यूचिक, जूलियस फासी के तस्ते से पीपुल्स १ २५  
फ्रायड, सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषण राजपाल १० ००  
फ्रीमैन चिकित्सा की प्रगति राजकमल २ ००  
विज्ञान का अद्भुत ससार राजकमल २ ०० वप्र  
फ्रीमैन, मे ब्लेकर एल्वर्ट आइन्स्टाइन एस चाद १ ००  
वप्र.  
राइट वधु एस चाद १ ०० वप्र  
फ्रेक, लियन हार्ड कार्ल और अन्ना अनु देवराज उपाध्याय.  
सरस्व प्रे १ ५० उ  
फ्रेकलिन, ई डब्ल्यू, सपा साहित्य कुसुमाजलि २ भा  
एलाइड ३ ५० (प्र)  
फ्रैंक, मारिस तथा ब्लेक क्लार्क दृष्टिदात्री इ प्रे ४ २५  
फ्रैंकलिन, वैजामिन वैजामिन फ्रैंकलिन राजपाल ३ ०० जी  
फ्लानर्ट मदाम बावेरी कि महल ३ ०० उ  
फ्लावेयर, गस्ताव अधूरा स्वप्न राजपाल ६ ०० उ  
फ्लेक्सनर, जेम्स टामस अमरीकी चित्रकला का सक्षिप्त इति-  
हास आत्माराम २ ५०

**व**

वकिमचद्र दे चट्टोपाध्याय, वकिमचद्र  
वदा, पी पी वीर स्काउट हि प्रचा पु ० ६४ ना  
शिक्षा-मनोविज्ञान हि प्रचा पु १ ५०  
वदोपाध्याय, न उच्च माध्यमिक रासायनिक गणनाए मिश्र-  
वधु  
वदोपाध्याय, ताराशकर, १८६८- कवि नवयुग प्र ४ ००  
उ  
महाश्वेता राजकमल ५ ००, (पा) १ ५० उ  
वदोपाध्याय, भूपेद्रनाथ दे मुखोपाध्याय, प्रभातकुमार  
वदोपाध्याय, मारिकलाल स्वयसिद्धा सन्मार्ग ३ ५० उ  
वदोपाध्याय, मानिक कठपुतलियों का इतिहास सरस्व प्रे  
५ ०० उ  
पद्मा नदी का माफ़ी सरस्व प्रे २ ०० उ  
वदोपाध्याय, राखालदास, १८८५-१९३० शशाक चिनगारी  
५.००

वदोपाध्याय, विभूतिभूषण, १८६४-१९५० विपनेर ससार  
नवयुग प्र ४ ५० उ  
वदोपाध्याय, शैलेशकुमार सर्वोदय और शासन मुक्त समाज  
अ भा सर्व १ ००  
वधुरत्न दे भूषण  
ववई हिंदी-विद्यापीठ रजत जयती ग्रथ ववई हि ३० ००  
वववाल, कृपाराम सरल नागरिक शास्त्र २ भा एस चाद  
५ ००  
सरल राज्य विज्ञान ३ भा एस चाद १३ ५०  
वववाल, के आर नागरिक-शास्त्र के सिद्धात आत्माराम  
४ ००  
भारतीय प्रशासन आत्माराम ५ ००  
भारतीय राजनीति और शासन आत्माराम १० ००  
वभानी, सीता महात्मा गांधी कृष्णा ब्र ३ ०० जी  
वशीधर नई दृष्टि नये विचार नद स १ ५०  
—तथा जे डी वैश्य क्रांति का मूलस्रोत बालक रा  
वेनीप्रसाद २ ५०  
घर मे वेसिक शिक्षा नद ब्र १ ००  
बालक और वेसिक शिक्षा नद ब्र १ ५०  
वेसिक शाला मे बालक नद ब्र १ २५  
वेसिक शिक्षा नद ब्र १ ५०  
वशीधर दे वैश्य, जे डी  
वशीधर दे वैश्य, पद्मरानी  
वशीधर तथा जे डी वैश्य दे होम्स, एडमंड  
वशीधर सिंह तथा उजागर सिंह मदनावत स्वास्थ्य शिक्षा और  
प्राथमिक चिकित्सा गयाप्रसाद  
—तथा भूदेव शास्त्री अध्यापन के सिद्धात एव विशिष्ट पद्धतिया  
गयाप्रसाद ५ ००  
कक्षाध्यापन एव पाठ सूत्र निर्माण गयाप्रसाद ५ ००  
भारतीय शिक्षा का सक्षिप्त इतिहास गयाप्रसाद ५ ००  
स्वतंत्र भारत मे शिक्षा की प्रगति गयाप्रसाद ५ ००  
बसरीलाल, वैद्य माधव निदान भा ३ परीक्षा-परिशिष्ट  
श्री भा भारती ६ ००  
बसल, के एल भारत मे आर्थिक नियोजन सा भवन, आ  
३ ००  
भारतीय परिवहन सशो स २ सा भवन, आ ४ ००  
भारतीय व्यापार सशो स २ सा भवन, आ ४ ००  
भारतीय व्यापार एव परिवहन सशो स २ सा भवन,  
आ ७ ००  
बसल, रघुवीरशरण आर्यसमाज के नेता देहाती ३ ०० वप्र  
एकाकी सरोवर बसल ३ ००  
एकादशी इ पब्लि ३ ०० क  
गल्प-गंगा इ पब्लि ४ ५० क  
परम सुखमय जीवन देहाती २ ५०  
पेटेन्ट अदवियात देहाती ६ ००  
भारत मा के सपूत देहाती ३ ०० वप्र  
भारतीय वीरागनाये देहाती ३ ०० वप्र  
माघ महात्म्य देहाती १ ५०

रक्षा बंधन स. २ बसल. ५.००. क  
 राजधानी दिल्ली स २ बसल १ २५. बप्र.  
 सरल भागवत देहाती. ३००  
 सरल महाभारत. देहाती ३००  
 सरल रामायण देहाती. ३००  
 स्वाधीनता के पुजारी देहाती ३०० बप्र.  
 स्वाधीनता संग्राम की कहानी स २ बसल. १ २५ बप्र.  
 हमारी माताए. देहाती ३०० बप्र  
 हमारे स्वामी देहाती ३०० बप्र.  
 बसल, रतनलाल गणेशशंकर विद्यार्थी. सस्ता ०.४० बप्र.  
 चंद्रशेखर आज़ाद विनोद १००. जी  
 तीन क्रांतिकारी शहीद (सरदार कर्तारसिंह, रामप्रसाद  
 'बिस्मिल', तथा सरदार भगतसिंह) विनोद ४०० जी  
 रेशमी पत्रों का पड्यत्र विनोद ४००  
 शतरज की मुसीबत विनोद. १.०० क  
 सरदार भगतसिंह विनोद १००. जी.  
 बसल, रामेश्वरदयाल सैट्टीफ्यूगल पपस आत्माराम ३००  
 बसल, सरोजरानी तथा पद्मारानी वैश्य हमारा सविधान  
 ज्ञान भारती २.५०  
 बसलकुमारी बाल वीरो और वीर बालाओं के लिए कहानिया  
 तरुण १ ५०  
 बसीधर वीर बच्चे स ३ नव-ज्योति प्र १०० बप्र.  
 बक, पर्ल एस, १८६२- धरती माता ग्रथमाला ३०० उ,  
 — — प्रभात प्र ४००  
 भाद अनु काति मोहन हिंद पा. १.००  
 मृगतृष्णा. अपर एव प्रभात पब्लि. ५ ७५ उ.  
 मेरे अनेक ससार राजपाल ४०० सस्म  
 मिट्टी की माया सुभाष २ ५० उ.  
 याद हिंद पा १०० उ  
 बकोरे, ग वि. तथा एस एन. अग्रवाल माध्यमिक रसायन  
 शास्त्र कृष्णा ब्र ८ ५०  
 बक्षी, रमेश, १९३६- एक घिसा हुआ चेहरा हिंद पा १.००  
 उ  
 किस्से ऊपर किस्सा अपोलो. ३ ५० उ  
 मेज पर टिकी कुहनिया भा ज्ञानपीठ ३ ५०. क  
 बक्शी, स्वरूपकुमारी कौडियो का नाच राष्ट्रीय प्र मंदिर.  
 २००  
 निर्भर कन्या राष्ट्रीय प्र मंदिर २ ५०  
 रेडियम के अक्षर. राष्ट्रीय प्र मंदिर २.००  
 बक्शी, पदुमलाल पुन्नलाल, १८६४- और कुछ. नद ब्र.  
 ३००  
 कथा-चक्र. लोक चेतना २.५०  
 कुछ. इ प्रे १ ५० आ  
 तीर्थ-रेणु. पु. भ. ० ५०  
 पद्मवन स २. रा वेनीमाधव १००. नि  
 भोला. लोक चेतना १ ५० बप्र  
 मेरी अपनी कथा. इ प्रे ४ ५०. जी  
 यात्री इ प्रे. २.००. आ.

विश्व-साहित्य गगा ४.५०  
 वे दिन जवाहर २.५०  
 हिंदी कथा-साहित्य हि ग्र ४ ५०  
 हिंदी साहित्य विमर्श हि पु ए २ २५  
 कथा-वाटिका लोक चेतना. १ २५ क  
 — तथा नर्मदाप्रसाद, सपा. काव्य-सुधा रा वेनीप्रसाद १.२५  
 — तथा हेमचंद्र मोदी, सपा साहित्य शिक्षा हि ग्र र २.००  
 बक्शी, लोचन भरे मेले मे भा सा प्र २ ५० क  
 बक्शी, हरबस आसुओं का सगम. नव सा प्र ३.५०. उ.  
 जागा है प्यार नव सा प्र ३०० उ  
 बक्शीदास रैदास रामायण देहाती २ ५०  
 बच्चन. दे हरिवशराय 'बच्चन'  
 बच्चन सिंह, १९१९- क्रांतिकारी कवि निराला नद स. ५ ००  
 प्रतिनिधि कहानिया नद ब्र १ ७५  
 बिहारी का नया मूल्यांकन हि. प्रचा. पु ३ ५०  
 रीतिकालीन कवियों की प्रेमव्यजना. ना प्र. सभा. ८ ५०  
 हिंदी एकाकी नद ब्र एव नद स १.२५  
 हिंदी नाटक सा भवन, इ ४ ००  
 — तथा आचार्य आनंद, सपा आधुनिक एकाकी. विद्या म, वा.  
 ३ ००  
 बच्छावत, मानिक ये कीर्ति-स्तभ. आदर्श पु. भ. १ ५०  
 बजाज, जमनालाल, १८८९-१९४२ पत्र-व्यवहार अ भा.  
 सर्व १ २५  
 पत्र-व्यवहार भा १. राजनैतिक नेताओं से. भा २ रियासती  
 कार्यकर्ताओं से भा ३. रचनात्मक कार्यकर्ताओं से. सपा.  
 रामकृष्ण बजाज. सस्ता ३०० (प्र)  
 विनोबा के पत्र बजाज-परिवार के नाम. सपा रामकृष्ण  
 बजाज सस्ता ४ ००  
 स्मरणाजलि अ भा सर्व १ ५०. जी  
 बजाज, जानकीदेवी मेरी जीवन-यात्रा. सस्ता २ ००  
 बजाज, राधाकृष्ण गो-सेवा की विचारधारा अ. भा सर्व.  
 ० ५०  
 बजाज, रामकृष्ण अतनातिक के उस पार. सस्ता. २.५०. या.  
 जापान की सैर. सस्ता. १ ५०. या  
 रूसी युवकों के बीच सस्ता २ ५०. या.  
 — सपा. पत्र व्यवहार भा ४ सस्ता ४ ००  
 बापू-स्मरण. सस्ता ५ ००  
 विनोबा के पत्र. सस्ता. ४ ००  
 बजाज, रामकृष्ण दे बजाज, जमनालाल  
 बट, एम ए इटरमीडियेट वीजगणित एस चाद. ३.७५  
 बटुक कुछ रूपक कुछ एकाकी सा. सगम, लु. ५.००  
 बटुक, आचार्य वृंदावनलाल वर्मा अशोक प्र. २.५०  
 हिंदी साहित्य का नूतन इतिहास अशोक प्र ३ ५०  
 बटुक दे दीक्षित, विश्वप्रकाश 'बटुक'  
 बटुकृष्ण वीररस का शास्त्रीय विवेचन. नद ब्र एव नद. स.  
 — सपा गग कवित्त ना प्र सभा ७ ५० [३.५०  
 बड्थवाल, पीतावर. मकरद अवध. ३ ५० नि.  
 सूरदास. अवध. १.००. आ.

हिंदी काव्य मे निर्गुण सप्रदाय अवध ७००  
वडध्वाल, पीतावरदत्त, सपा गोरखवानी हि सा सम्मे  
६.००

रामानंद की हिंदी रचनाएं ना प्र सभा २५० क  
वडध्वाल, पीतावरदत्त दे मिश्र, केशवप्रसाद  
वडध्वाल, पीतावरदत्त दे श्यामसुंदरदास  
वडसूवाला, वीरेन्द्रकुमार विद्यापति वैभव एस चाद  
वत्रा हरीश गुजन का अनुगुजन ओरिएटल २५०  
वदनासिंह भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम भा प्र मंदिर ०५०  
वदनाम रफी गुमशुदा लडकी शमा २५० वप्र  
वदरीनारायण सिंह लहलहाती खेती हि प्रचा पु १००  
वद्रीनाथ धुध मे डूबे हुए प्रवाल ४५० उ  
पुलकावली आत्माराम २०० का  
प्राचीन काव्य-संग्रह एस चाद २००  
हरे भरे खेतो की धरती प्रवाल १००  
वद्रीप्रसाद दर्जी मास्टर (दोस्त दर्जिया) देहाती २५०,  
— — (दहेज एडीशन) देहाती ३००  
वधेका, गिजुभाई दिवास्वप्न स २ ग्रामभारती १२५  
प्राथमिक शाला मे भाषा-शिक्षा अनु काशिनाथ त्रिवेदी स  
२. ग्रामभारती १००  
वधीतिया, रामजीलाल उपमन्यु के पत्र. विनोद १०० चरित्र  
भारतेदु हरिश्चंद्र (प्रश्नोत्तर) विनोद २५०  
हिंदी निबंध विनोद ३५०  
हिंदी साहित्य और विभिन्नवाद विनोद ५०० नि  
वनर्जी, गीता मादाम क्यूरी पीपुल्स १५० वप्र  
वनर्जी, जयतानुज सोवियत अर्थव्यवस्था विद्यार्थी ०२५  
वनर्जी, पी सी ससार का नवीन भूगोल गयाप्रसाद ५२५  
वनर्जी, मनोरजन वृहत् मेटेरिया मेडिका इ प्रे ५००  
वनर्जी, सुकुमार भारतवर्ष का इतिहास रामप्रसाद २००  
वनवारीलाल तथा जगदीशशरण रस्तोगी माध्यमिक समतल  
त्रिकोणमिति सशो स २ आगरा बुक ३२५  
वनवारीलाल 'शोला', १८४७-१९२३ शोला का काव्य-संग्रह  
सपा विश्वनाथ प्रसाद क मु-हि ७००  
वनवारीलाल सेवक ययाति रा वेनीप्रसाद १०० उ  
वनवासी दे शर्मा, कुमार 'वनवासी'  
वनारसीदास लावनीब्रह्मज्ञान वनारसी बडा देहाती ४००  
वनारसीदास हिंदी की सर्वश्रेष्ठ कहानिया एस चाद २००  
वनारसीदास 'विरही' दे शर्मा, मुरारिलाल  
वनारसी 'नजीर' गगोजमन भा ज्ञानपीठ ३०० का  
वर्त्स, एमिल मार्क्सवाद क्या है? पीपुल्स १२५  
वव्वर, सुदर्शन गुस्ताखी माफ नययुग प्र १५० ना  
सब चलता है नवयुग प्र १५० ना  
वमवम सिंह 'नीलकमल' निबंध पारिजात मगध ४०० नि  
वरजोर सिंह 'सरल' सक्षिप्त विनयपत्रिका रा वेनीमाधव  
०६४  
—सपा गद्य प्रवेशिका रा. वेनीप्रसाद ०६४  
शिवावावनी और छत्रसाल दशक रा वेनीप्रसाद ०५०  
वरदले, रजनीकात. मीरी विटिया रणजीत २०० उ.

वरनवाल, सुखदेवप्रसाद विश्वज्ञान-सागर विद्या प्र भवन  
७५०  
वरुआ दे कौशिक, ऋषि जैमिनी 'वरुआ'  
वरुवा, हेम लौहित्य और नीलाचल हि प्रचा पु ३५०.  
उ  
वरो, टी सस्कृत भाषा अनु भोलाशकर व्यास चौखवा  
वर्कसन आदर्श और समाज एस चाद इति  
वर्ग कार्लसैड प्रेयरी नगर का बालक इ प्रे ३२५ जी  
वर्त्वाल, चंद्रकुवरि नागिन प्रभात पब्लि २०० उ  
वर्न, हरेवर्ट जे अध्यापक और उसके छात्र गयाप्रसाद ६००  
प्रारंभिक अध्यापक प्रशिक्षण गयाप्रसाद ६००  
वर्नियर सिंहासन के लिए युद्ध अनु भगवतीप्रसाद पाथरी  
सा केद्र १७५ इति  
वलदेव चैत्र चंद्रिका. भारतजीवन ०३७ का  
वलदेवकृष्ण गद्य लेखक रामचंद्र शुक्ल ओरिएटल. ४००  
गवन एक विवेचन उमेश  
प्रेमचंद और उनका गवन उमेश  
प्रेमचंद और उनका गोदान ओरिएटल ५२५  
भारतीय सस्कृति ओरिएटल ४५०  
महावीरप्रसाद द्विवेदी रीगल २५०  
सन्यासी विवेचन ओरिएटल ४००  
सेवा सदन विवेचन रीगल २००  
हिंदी गद्य की परंपरा ओरिएटल २००  
वलदेव शास्त्री भग्नतत्री श्री भा भारती ०७५  
मुद्राराक्षस एस चाद २०० ना  
विजयी प्रताप श्री भा भारती २२५ ना  
वलदेव शास्त्री दे कालिदास  
वलदेव शास्त्री दे भास  
वलदेव सिंह अधकार के पथिक ३ भा ग्रथमाला ०६२ (प्र)  
वप्र  
बलराज, सपा गन्न-गौरव राजकमल २५०  
बलराम सिंह, सपा हिंदी शब्दकोष रा वेनीप्रसाद ८००  
बलरामस्वरूप विज्ञान की देन इ प्रे १०० वप्र  
बलवर्त्सिंह, १९२६- उषा सरस्व प्रे ३०० उ  
एक मामूली लडकी हिंद पा १०० उ  
काले कोस सरस्व प्रे ८०० उ  
चार दरवेश राजकमल (पा) १०० उ  
नया सपना पुष्पी ०७५ उ, — — सुरेद्र २००  
निशि सरस्व प्रे २०० उ, — — हिंद पा १००  
बापूकी छाया मे नवजीवन ४००  
मै जरूर रोऊगी किताबिस्तान ३०० क  
रात, चौर और चाद राजकमल (पा) १५० उ  
सजौली निवास रूपसी (पा) १००  
बलवानसिंह आधुनिक व्यापार पद्धति किशोर पब्लि ३००  
बलवीर सरन तथा अन्य रचना विकास सशो स ६ रतन  
१२५  
बलवीरसिंह 'रग' रग राग विनोद २०० का  
सिंहासन. आत्माराम १५० का.

बटावीरसिंह रत्न. हिंदी की छायावादी कविता का कला विधान.  
नेशनल  
बलदुआ तथा कटियार. उच्च-लेखा-कर्म. लक्ष्मी ना ८.५०  
बलदुआ, पन्नालाल पुस्तपालन तथा लेखाकर्म. रा बेनीप्रसाद.  
भा १ ५००, भा २ ६.००  
—तथा नन्दलाल शर्मा उच्चतर माध्यमिक अर्थशास्त्र.  
मिश्रबधु भा १ १२०, भा २ २५०, भा. ३. २.००  
उच्चलेखा कर्म के सिद्धांत रा. बेनीमाधव १५.००  
भारत का आर्थिक विकास और नियोजन. रा. बेनीमाधव  
१०००  
लेखाकर्म के सिद्धांत रा. बेनीमाधव ७००  
साख्यकी सिद्धांत और व्यवहार. रा बेनीमाधव १२५०  
बलदुआ, बालकृष्ण अपने गीत गगा १५० का  
आगन गगा २.०० का  
घडकन गगा २५० का.  
प्रागण गगा २.०० का  
मन के गीत गगा १.००. का  
समाजवादी विचारधारा गगा १५०  
बल्लाल भोजप्रबध. रा बेनीप्रसाद ०७५  
भोजप्रबध सपा तारिणीश भा रा बेनीमाधन. २००  
बशीर, वी. एम. दादा का हाथी अनु के. रवि वर्मा सा  
अकादमी. २०० उ  
बसतपुरी दे त्रिवेदी, मुक्तिनारायण 'बसतपुरी'  
बसत प्रभा अधूरी तस्वीर, आत्माराम ३.०० उ  
बसत रानी न्यू लाइट कशीदाकारी देहाती १२५.  
मिडवाइफरी (दाईगीरी) देहाती. ३५०  
बसु तथा चटर्जी माध्यमिक भौतिक विज्ञान एस चाद भा १  
६००, भा २. ७००  
बसु, नदलाल शिल्प-कथा. सा भवन, इ १२५  
बसु, निर्मलकुमार गाधीजी क्या चाहते थे ? अ. भा. सर्व  
०.५०  
बसु, वरेन. रगूट पीपुल्स ४.०० उ  
बसु, मनोज नवीन यात्रा सस्ता. २५० उ  
निर्माता. सस्ता ५००. उ  
बसु, शशिभूषण युधिष्ठिर. इ. प्रे १७५ उ  
बसु यह भी दे. बौस  
बहल तथा जिंदल रासायनिक गणनाएँ एस चाद. २.५०  
—तथा रोहतगी. कार्बनिक रसायनशास्त्र. एस चाद ६००  
बहल, योगेद्र गुब्बारे का आदमी हिंदिया ०.७५. वप्र  
बहादुर दे. उमाशकर बहादुर.  
बहादुर दे रामप्रताप बहादुर  
बहादुरचंद शास्त्री. लोकोक्तियाँ और मुहावरे स १४. हि  
भवन १.३७  
बहादुरमल्ल वच्चो की देख-भाल विश्वेश्वरानंद १७५  
मन की अद्भुत बातें विश्वेश्वरानंद. २००  
युवक मनोविज्ञान. विश्वेश्वरानंद २००  
बहादुरसिंह, कुवर. विज्ञान शिक्षण कि. महल ३५०  
शिक्षालय स्वास्थ्य विज्ञान. रा. बेनीमाधव ३.५०

बहुगुना. विद्यापति-पदावली. प्रभात पब्लि. २००  
बहुगुणा, सुरेन्द्रदत्त. औद्योगिक सगठन एव प्रबध. लक्ष्मी ना.  
७.५०  
पत्र-व्यवहार आगरा बुक १.५०  
भारतीय निगम वित्त-व्यवस्था. कि महल १५.००  
विपणि वृत्त आगरा बुक २००  
व्यापार-व्यवस्था एव पद्धति. लक्ष्मी ना ३.५०  
व्यापारिक तथा औद्योगिक सगठन एव प्रबध. लक्ष्मी ना.  
१०.००  
सोहराब कृष्णा व्र २.५०. का.  
—तथा एम. बी. सक्सेना बाजार-समाचार एव पत्र-व्यवहार.  
लक्ष्मी ना ३००  
—तथा कटियार व्यापार-व्यवस्था एव पद्धति २ भा. लक्ष्मी  
ना ६.५०  
बहुगुना, शंभुप्रसाद. तुलसी मुक्तावली. मानस सघ. किरणों १.  
०८१, किरण २. ०७५  
शबरी मडल मानस सघ ०७५  
बहुरा, गोपालनारायण सलतनत कालीन गुजरात मगल. ७.००  
बहुरा, गोपालनारायण दे फार्वस, अलेक्जेंडर किन्लाक.  
बहोरे, रवीन्द्रनाथ 'अज्ञात' कैदी और जजीरे वीणा कमल.  
३५०  
बहती नदिया जलते किनारे. वीणा कमल. ३.५०  
यह बस्ती है शहीदों की वीणा कमल. ३.५०  
वदेमातरम् वीणा कमल ४.००  
बाकीदास ग्रथावली. सपा रामकर्ण. ३ भा. ना. प्र. सभा  
४.५०  
बाकेबिहारी चाद चादनी और रात कल्याणदास. ४५०  
बाकेबिहारीलाल 'निराश' डूबती किरणों. मिश्रा पु. भ. ६००.  
उ  
बाठिया, कस्तूरमल व्यापारिक पत्र-व्यवहार. सा भवन, इ  
१.१३  
बाठिया, मोहनलाल. जैन पदार्थ विज्ञान मे पुद्गल. जैन श्वेता-  
वर. १२५  
बागला, सीताराम तथा शरद बागला. उत्तरी अमेरिका का  
भूगोल स २. कि. घर, का.  
प्रक्रियात्मक भूगोल स २ कि घर, का. १५००  
प्राैक्टिकल ज्योग्रफी. कि. घर, का. भा १. ६.२५; भा. २.  
४००  
भौतिक भूगोल के आधार कि घर, का १५००  
भौतिक भूगोल के तत्व. कि घर, का ८००  
बागीश्वर विद्यालकार कालिदास और उनकी कला. मोतीलाल.  
१०.००  
बागेश्वरीप्रसाद माध्यमिक कलन बुकलेड ३.५०  
बाजपेयी नदी किनारे प्यासा रोया रूपसी १.५० उ.  
बाजपेयी, एस डी दे गगराडे, पी सी  
बाजपेयी, एस. डी दे वैश्य, जे. डी.  
बाजपेयी, श्रीमप्रकाश अक्षेक्षण के सिद्धांत. लक्ष्मी ना. ५७५  
जीवन वीमा. कि. महल. ३.७५

राज लक्ष्मी रामा प्र २.००. उ.  
 लागत लेखा विधि कि. महल ३००  
 व्यवहारिक सारियकी आगरा बुक ४००  
 वाजपेयी, कृष्णदत्त उत्तर प्रदेश का सांस्कृतिक इतिहास  
 स २ गिवलाल २५०  
 वाजपेयी, प्रेमचंद्र आग और गुलाब आदर्श पु म १.५० उ  
 आसमान भी रो देगा आदर्श पु म १०० उ  
 आह चाह डाह आदर्श पु. म १०० उ  
 औरत जब गिर जाती है पुष्पी १२५  
 इन्साफ चीख उठा पुष्पी १२०. उ, — सुरेद्र २.२५  
 एक दिल तीन जल्म. आदर्श पु. म १५० उ  
 कटीले तार आदर्श पु म १.५० उ  
 किसकी चादर मे दाग नही आदर्श पु म १५० उ  
 क्यो और कब तक आदर्श पु म १५० उ  
 छोटे सिक्के आदर्श पु म १०० उ  
 गदली राहे आदर्श पु म १०० उ  
 गुनाह जो मैंने किए आदर्श पु म १०० उ  
 धिनौनी तस्वीरे आदर्श पु म १०० उ  
 चलते फिरते चकले आदर्श पु म १५० उ  
 चूडिया टूटती रही आदर्श पु म १५० उ  
 जजीरो मे कैद जवानी. आदर्श पु म. १०० उ  
 जब बाहो मे चाद था आदर्श पु म १५० उ  
 जाने पहिचाने चेहरे आदर्श पु म १५० उ  
 जाल सुरेद्र २०० उ, (पा) १००, — पुष्पी १००  
 जियरा डोले सारी रात आदर्श पु म १०० उ  
 तनहाई और परछाइया पुष्पी १२५ उ  
 ताग के महल पुष्पी १२० उ, — सुरेद्र २५०  
 दर्द जो मैंने पिया है आदर्श पु म २७५ उ  
 दीप और पतंगा आदर्श पु म १०० उ.  
 दोराहा आदर्श पु म १५० उ  
 धब्बे बोलते हैं आदर्श पु म १०० उ  
 धरती रूप बदल रही है आदर्श पु म १०० उ  
 नशा उतर गया आदर्श पु म १०० उ  
 नागिन वीन सपेरा आदर्श पु म १०० उ  
 नारी क्या है आदर्श पु म १.०० उ  
 प्यार और वासना आदर्श पु म १०० उ  
 प्यार पतन पछतावा आदर्श पु म १०० उ  
 फास आदर्श पु म १०० उ  
 वहकते कदम फिसलती राहे आदर्श पु. म १०० उ  
 बेला फूले आधी रात आदर्श पु म १०० उ  
 मधुवन आदर्श पु म १०० उ.  
 मुहब्बत एक खतरे सौ आदर्श पु म १०० उ  
 मैं तुम्हे प्यार करती हू आदर्श पु म १५०. उ  
 ये शरीफजादिया पुष्पी १२५  
 राख और सिंदूर आदर्श पु. म १००. उ  
 राखी और रोमास आदर्श पु म १.०० उ  
 रिक्शा. वाला आदर्श पु म. १५०. उ  
 रूप, श्रम, सिक्के. आदर्श पु म. १.५०. उ

रोटी, रूप और रूपया आदर्श पु. म १०० उ  
 लकीरे बोलती है आदर्श पु म १५०. उ  
 लव स्पेशलिस्ट आदर्श पु म १५०. उ  
 लैप पोस्ट. आदर्श पु. म १५०. उ  
 समाज को बदल डालो आदर्श पु म १.०० उ  
 सवाल उठता है पुष्पी १०० उ — सुरेद्र २००  
 होटल बराब औरत. आदर्श पु म. १०० उ  
 वाजपेयी, वी डी सत्कृत-प्रवेग हि सा. स १५०  
 वाजपेयी, वेनीप्रसाद प्राचीन भारत की जनसत्ता और सत्कृति  
 विनोद ३७५  
 सन् '५७ का विप्लव आदर्श हि ५००  
 वाजपेयी, वेनीप्रसाद 'मजुल' पाटलिपुत्र. छात्रहितकारी  
 २०० उ  
 वाजपेयी, वजनाथमाधव आग की बौछारो मे कला-नि  
 वाजपेयी, व्रजनाथमाधव. दे मोल्येर  
 वाजपेयी, व्रजनाथमाधव दे वाल्तेयर  
 वाजपेयी, लक्ष्मीचंद मधुवन की आग कला म उ  
 वाजपेयी, लक्ष्मीधर धर्म शिक्षा रा वेनीमाधव २५०  
 सदाचार और नीति रा वेनीमाधव १५०  
 वाजपेयी यह भी दे वाजपेयी.  
 वाजोरिया, नारायणदास तथा गंगाप्रसाद भौतिका, सपा सरल  
 शरीर विज्ञान हि सा सम्मे. १५०  
 वाण गुकनासोपदेश सपा देवेद्र मिश्र रा वेनीप्रसाद १००  
 का  
 वाणभट्ट कादवरी. प्रचा पा १०० उ, — अनु ऋषी-  
 श्वरनाथ भट्ट भा भ ५०० — सस्ता ०४० वप्र  
 सक्षिप्त कादवरी रामप्रसाद ३०० उ  
 हर्षचरित. सस्ता ०४० वप्र  
 हर्षचरित सार सपा अनताचार्य रा वेनीप्रसाद ०.६२  
 वानीप्रकाश सरल अर्थशास्त्र बुकलेड २७५  
 वापीराजू, अदीवी नारायण राव अनु ए रमेश चौधरी सा  
 अकादमी. ४०० उ  
 वाफणा, सोहनलाल, सपा जोधपुर प्रवास जैन श्वेतावर  
 ०६५  
 वावर भूगोल पाठन पद्धति स्वल्प. २००  
 वावर, एस एन शिक्षा के सिद्धांत एव तत्त्व गयाप्रसाद ७५०  
 वावूराम सिंह 'लमगोडा'. गाव की ओर. आनंद पु, वा २.००  
 ना  
 प्रणय-पल. आनंद पु, वा. २.००. ना.  
 वावा की सारंगी आनंद पु, वा २०० ना  
 वावलाल प्रेम वैज्ञानिक रश्मिया कि. घर, ग्वा १०० वप्र.  
 वाम, शंकर अजीजन सस्ता ०४० वप्र  
 चदल की कहानी सस्ता ०.४० वप्र  
 चन्नमा हिंदिया ०.७५ वप्र  
 भूलकारी सस्ता ०४० वप्र  
 शेरे पजाव सस्ता ०४० वप्र  
 वारकर सर अनैस्ट इग्लैंड का राजदर्शन कि महल. ४००  
 वारमेडा के एन आदर्श कहानिया राजपाल ०.६०. वप्र

बारलिंगे, सुरेद्र. सौंदर्य-तत्त्व और काव्य-सिद्धात. अनु. मनोहर काले नेशनल ६५०  
 बारोट, नानुभाई. दे गिरिराजकिशोर.  
 बाल. ज. गो तथा द शि धुरी सपा गद्य भारती बबई हि. ० ६२ क  
 बालकराम. गोपीचद बडा श्यामलाल ३५०  
 पूरनमल भक्त श्यामलाल २००  
 बालकृष्ण आदर्श विद्यार्थी नेशनल. १०० वप्र.  
 उडम घुडम रणजीत. ० ७५ वप्र.  
 एक खाऊ, दो खाऊ रणजीत ०.७५. वप्र.  
 कवीर नेशनल १०० वप्र  
 काग उडानी. नेशनल ०.७५. वप्र  
 खूटी हार निगल गई. नेशनल ० ७५. वप्र  
 चुहिया राजकुमारी रणजीत ० ७५ वप्र.  
 तुलसी नेशनल १०० वप्र  
 फूलमदे पाटमदे नेशनल ० ७५ वप्र.  
 फेली. नेशनल १२० वप्र  
 बढिया-सौदा नेशनल १२० वप्र.  
 बिहारी. नेशनल १.०० वप्र  
 बुद्धि से काम लो नेशनल ० ७५ वप्र  
 महाभारत की कहानी नेशनल १०० वप्र  
 मा-बाप गये वाराणसी. नेशनल ० ७५ वप्र  
 मीरा. नेशनल १०० वप्र  
 मैं चव्वू क्या रणजीत ०.७५. वप्र  
 रसखान नेशनल १.०० वप्र  
 रहीम नेशनल. १.००. वप्र  
 रुनभुन गुडिया रणजीत. ० ७५ वप्र.  
 लालमदे नेशनल १२० वप्र  
 लोभ बुरी बला नेशनल ० ७५ वप्र  
 वग्धराज बच्छराज नेशनल ० ७५ वप्र  
 शिकार की कहानिया नेगनल २०० वप्र  
 ससार की सर्वश्रेष्ठ कहानिया राजपाल २००, (पा) १०० क.  
 सात प्रधान एकाकी. श्री भा भारती २२५  
 साहसी वीर नेगनल २०० वप्र  
 सूर नेशनल १०० वप्र  
 सोने के डडे नेशनल ० ७५ वप्र  
 हम कगर दास रणजीत ० ७५ वप्र  
 —तथा अ अ अनत पाठगाला-प्रबध हि सा स. ३००  
 बुनियादी शिक्षा सिद्धात हि सा स ३००  
 शिक्षण विधि हि सा स ३००  
 शिक्षा मनोविज्ञान हि सा स ३००  
 शिक्षा सिद्धात हि सा स ३००  
 —अनु ससार की सर्वश्रेष्ठ कहानिया हिद पा १००  
 बालकृष्ण. दे भगवानम्बरूप  
 बालकृष्ण दे सीतादेवी  
 बालगोविन्दप्रसाद एक था राजा गगा १०० वप्र  
 बालबधु. अनिता सर्कस गयी. हि प्रचा. पु १२५. वप्र.

बहादुर दमकलवाले और मोती. हि प्रचा. पु. ०.६७. वप्र.  
 भोपो इजन और छकछक हि. प्रचा पु ० ६७ वप्र.  
 महात्मा गाधी से क्या सीखे हि सा भ १०० वप्र  
 रानी घोडी हि प्रचा पु ० ६७. वप्र.  
 विचित्र देश मे ग्रथमाला १०० वप्र.  
 विचित्र लोक मे ग्रथमाला १०० वप्र.  
 साहित्यालोचना समीक्षा हि सा भ १७५  
 सुदामा चरित हि सा भ ० ७५. आ  
 हाथी दादा हि प्रचा पु. ० ६७ वप्र  
 हिंदी साहित्य का इतिहास (प्रश्नोत्तरी) हि सा भ २००  
 बालमुकुद सम्राट् चद्रगुप्त. गगा ० २५ जी  
 —तथा तारिणीग भा वैराग्यशतकम्—भर्तृहरि-विरचितं.  
 रा वेनीमाधव २००  
 बालमुकुद, चौधरी शिशुपालन विद्या. प्र भवन ० ७५  
 बालमुकुद अर्श मलसियानी, १६०८- जीवनी और सकलन  
 राजपाल १५०  
 मुहावरे और कहावते आत्माराम ५००  
 —सपा. उर्दू की प्रतिनिधि हास्य कविताए आत्माराम  
 ७५०  
 बालसेवक दे. सेवकराम 'बालसेवक'.  
 बालासहाय शास्त्री आदर्श कविता-कुज श्री भा. भारती  
 १७५  
 प्राचीन काव्य-कुसुमाकर. श्री भा भारती. १७५  
 वाली, चद्रकात पजाब प्रातीय हिंदी साहित्य का इतिहास  
 नेशनल १५००  
 हिंदी-गद्य विकास और विमर्श आत्माराम २००  
 वाली, तारकनाथ कामायनी की टीका विनोद. ५००  
 गुरुभक्तसिंह और 'नूरजहा' विनोद ३००  
 जयगकर प्रसाद और 'अजातशत्रु' विनोद. २.५०  
 दिनकर और 'कुरुक्षत्र' विनोद २.५०  
 प्रियप्रवास की टीका विनोद ५००  
 महादेवी वर्मा विनोद २५०  
 महादेवी वर्मा और 'आधुनिक कवि' विनोद २५०  
 युगद्रष्टा कवीर विनोद २५०  
 रस सिद्धात की दार्शनिक व नैतिक व्याख्या विनोद ८००  
 सास्कृतिक परंपरा और साहित्य प्रभात प्र ४००  
 सुमित्रानदन पत और आधुनिक कवि विनोद ४००  
 सुमित्रानदन पत और 'उत्तरा' विनोद ३००  
 वाली, तारकनाथ दे. रामावाशिष्ठ  
 वाली, हरिश्चंद्र भारतीय संगीत विज्ञान हि भवन १५०  
 बालेदु दे गातिलाल 'बालेदु'.  
 बालेश्वरप्रसाद सिंह कब्ज या कोष्ठबद्धता भा भ १.००  
 बालजाक क्या वह पागल था? राजपाल २५०. उ.  
 मध्यमार्ग बबई प्र २२५ उ.  
 सुनहरी आखे जवाहर. २००. उ.  
 सूना घर. नेशनल ५०० उ  
 बावरा. दे. ओकार बावरा.



बासू, कालीपद वीजगणित सरलीकृत रा वेनीमाधव ३००,  
 — — भा १ अनु रमाशकरप्रसाद तथा रामगोविंद  
 पाडेय रा वेनीमाधव ४००, — — भा २ अनु योगेन्द्र-  
 नाथ दीक्षित रा वेनीमाधव ५००  
 हायर सेकडरी वीजगणित सरलीकृत अनु राजेन्द्रसिंह गौड़  
 रा वेनीप्रसाद ५००  
 वास्वानी, साधु टी एल मुक्ति-मंदिर गंगा २५०  
 बाहरी, हरदेव चुने हुए एकाकी नाटक श्री भा भारती.  
 ३.००  
 प्रसाद काव्य विवेचन हि भवन २५०  
 प्रसाद साहित्य कोश भा भ ६००  
 प्राकृत और उसका साहित्य राजकमल २२५  
 — सपा आधुनिक कहानिया मुगीराम  
 बृहत् अग्रेजी हिंदी कोश ज्ञानमंडल ३०००  
 बिडजे, लथ सागरतल की खोज राजपाल २०० वप्र  
 बिदल, अमरनाथ भारतवर्ष में उद्यानकारी कि महल ३००  
 बिंदु दे सरयूप्रसाद 'बिंदु'  
 विरथरे 'सिद्ध' हिंदी व्याकरण एव काव्याग मानकचद १५०  
 बिआन्की, व अकस्मात् मुठभेड पीपुल्स ११६ वप्र  
 बिडला, धनश्यामदास, १८६४- गाधीजी की छत्रछाया में.  
 सस्ता २५०  
 डायरी के पन्ने सस्ता १००  
 ध्रुवोपाख्यान सस्ता ०३०  
 बापू सस्ता २००  
 मुझसे सब अच्छे सस्ता सस्म  
 रूप आर स्वरूप सस्ता ०७५ नि  
 बिडला, लक्ष्मीनिवास कहिये समय विचारि सस्ता १००  
 नि  
 बिमला प्रसाद आधुनिक भारत का निर्माण मोतीलाल ५००  
 बियाणी, ब्रिजलाल कल्पना-कानन भा भ २००  
 बिरनी, आर्थर युद्ध कला विश्वविद्यालय ६००  
 बिल्ला, प्रमिला निराला का गद्य साहित्य चैतन्य ४००  
 बिशनदास सरल इटरमीडियेट नागरिक शास्त्र २ भा एस  
 चाद. ६०० (प्र)  
 बिशननारायण ज्यामितीय ड्राइंग स ६ भा भा प्र १३७  
 स्मृति चित्रण स ६ भा भा प्र ०५०  
 बिष्णुदत्त चरणक्य नीति देहाती १२५  
 बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् कृषि-कोश ख २ वि राष्ट्र  
 प्राचीन हस्तलिखित पोथियो का विवरण वि राष्ट्र ख १  
 २५०, ख २ २५०, ख ३ १२५, ख ४ १००,  
 ख ५ १००  
 भारतीय अर्थकोश वि राष्ट्र  
 राष्ट्रभाषा हिंदी समस्याएँ और समाधान वि राष्ट्र १५०  
 बिहारी बिहारी सतसई पु भ ३७५ का  
 बिहारी सतसई अनु जगदीशचंद्र शुक्ल मातृ-भाषा ३००  
 बिहारीदास, मत विनीत कथा कुमुमाजलि मानस सध ०७५  
 बीचिंग, आर डलेक्ट्रान विवर्तन अनु दयाप्रसाद खड्डेलवाल  
 हि समि २.५०


बीना आधुनिक कडाई कला देहाती. १२५  
 बीर दे नरेन्द्र बीर  
 बीरेन्द्रकुमार बीमा बुकलेड ३७५  
 बुदुराय अनुभव प्रकाश. देहाती २.५०  
 प्रेम भजनावली देहाती ०७५  
 बुकेशियो, जियोवानी सौन्दर्य का जादू पुष्पी ०७५ उ,  
 — — सुरेद्र २००  
 बुखारिया दे हुकुमचंद्र 'बुखारिया'  
 बुखारी, ए एस पतरस के मजामीन राजकमल (पा.) १००  
 बुखारी, फॉरिंग वाचाखान सहगल ६००  
 बुडवरी, डेविड ओ पृथ्वी से अंतरिक्ष तक अनु हरीशचंद्र  
 आत्माराम ४००  
 बुद्धप्रकाश इतिहास-दर्शन हि समि १२००  
 कालिदास और हूण त्रिवेणी ५५०  
 कौटिलीय अर्थशास्त्र त्रिवेणी ६००  
 त्रिवेणिका त्रिवेणी १२००  
 महाभारत . एक अध्ययन त्रिवेणी ३५०  
 बुद्धमल्लजी, मुनिश्री अणुव्रत विचार दर्शन आत्माराम ०५०  
 आवर्त्त आत्माराम ३०० का  
 उठो ! जागो ! ! आत्माराम १००  
 उत्तिष्ठत ! जागृत ! ! आत्माराम १००  
 उत्त पार. आत्माराम ०७५ का  
 तेरापथ आत्माराम ०३७  
 मथन आत्माराम २००  
 अमरा-संस्कृति के अचल में आत्माराम ३००  
 बुर्खानोव, व आर्कटिक में नये सोवियत अनुसंधान पीपुल्स  
 ०२०  
 बुल्के, कामिल राम-कथा हि सा परिषद् २०.००  
 बुल्के, कामिल दे मैटर्लिक, मॉरिस  
 बूलचद, अनु सामाजिक पापण हि समि ३००  
 बृजबिहारीलाल गालिव की शायरी मातृ-भाषा २००  
 बृजलता कपलीट कट वर्क देहाती ४५०  
 बृजवासीलाल प्रारभिक गति विज्ञान गयाप्रसाद ४.५०  
 प्रारभिक स्थिति विज्ञान गयाप्रसाद ५००  
 बृजेद्र मीर तकी 'मीर' की गज़ले सहगल २५०  
 बृहद्बल सयमी तुलसी सग्रह की टीका रीगल २००  
 भारत का सांस्कृतिक इतिहास (प्रश्नोत्तर) रीगल २५०  
 रत्न हिंदी व्याकरण तथा रचना रीगल २००  
 वेगानी, मोहनलाल, सग्रा श्री तुलसी मुक्तावली जैन श्वेतावर  
 ०१६  
 वेद्रे, द रा तथा कुवेपुजी कविश्री माला कन्नडी राष्ट्र  
 प्रचा समि २००  
 वेआस दे व्यास, कृष्णानंद 'वेआस'  
 वेक, अलेक्सान्द्र वोलोकोलास्क—राजमार्ग पीपुल्स १६६ उ  
 वेक, जान स्टाइन जूनियस माल्टवी अनु सुरेद्र आनंद आनंद  
 प्र ०७५ क  
 सवेह अनु सुरेद्र आनंद आनंद प्र २०० उ  
 वेकर, वेरिल मशीनो की दुनिया हि पा. १००

वेचन. दे. विष्णुकिशोर 'वेचन'  
 वेचैन. दे. न्यादरसिंह 'वेचैन'  
 वेडेकर, मालतीबाई जूही प्रचा पा १००  
 वेढव बनारसी (कृष्णदेव प्रसाद गौड़), १८६५- उपहार  
 हि प्रच पु १७५  
 गाधी जी का भूत आनद पु, वा १.५० क  
 जब मैं मर गया था आनद पु, वा २५० क  
 टनाटन आनद पु., वा २०० क  
 धन्यवाद हि प्रचा. पु २००  
 बनारसी एक्का आनद पु, वा २.००  
 विजली कल्याणदास २५०. का.  
 वेढव की बहक कल्याणदास २०० का.  
 वेढव की बानी गयाप्रसाद ५००  
 वेढक के एकाकी कल्याणदास २००  
 मसूरी वाली आनद पु, वा २०० क  
 महत्व के गुमनाम पत्र आनद पु, वा १५०, — —राम-  
 १२५  
 रुहे सुखन कल्याणदास. ३.५० का  
 लपट्ट पिगसन की डायरी आनद पु, वा ४०० उ.  
 हास परिहास कल्याणदास. २.५० का  
 हुक्का पानी आनद पु, वा एव कल्याणदास ३००  
 वेदिल. दे. प्यारेलाल 'वेदिल'  
 वेदी, बी पी एल ऊसर मे हरियाली. आत्माराम ३००.  
 जी.  
 वेदी, राजेद्रसिंह अपने दु ख मुझे दे दो नीलाभ. क  
 एक चादर मैली सी नीलाभ ३.५० उ, — —हिद पा  
 १००  
 दीवाला. नीलाभ ३.२५ क  
 लाजवती नीलाभ ३७५ क  
 वेदी, रामेश अजीर आत्माराम १७५  
 अजगर आत्माराम १५०  
 अशोक आत्माराम १००  
 आवला आत्माराम १२५  
 चालमुग्रा आत्माराम १७५  
 तुलसी आत्माराम २००  
 तोरी आत्माराम १२५  
 त्रिफला आत्माराम १२५  
 देहात की दवाए आत्माराम ०७५  
 देहाती इलाज आत्माराम १००  
 नारियल आत्माराम १२५  
 नीम बकायन आत्माराम १७५  
 पपीता आत्माराम १२५  
 पलाश आत्माराम १२५  
 पीपल आत्माराम १२५  
 बरगद आत्माराम १००  
 बहेडा आत्माराम १२५  
 भिलावा आत्माराम १२५  
 मिर्च आत्माराम १००

लहसुन प्याज आत्माराम. २५०  
 शहद आत्माराम ३००  
 सर्पगधा आत्माराम १७५  
 सोठ आत्माराम. १७५  
 हरड आत्माराम १७५  
 वेदी यह भी दे वेदी  
 वेधडक बनारसी सुदर और असुदर हि प्रचा पु ३५०  
 का.  
 वेन, अनु राजकुमार श्रीअरविद ०३७. ना.  
 वेनीपुरी दे रामवृक्ष वेनीपुरी  
 वेनीप्रसाद हिदुस्तान की पुरानी सभ्यता हिदु. एकेडेमी ८.००  
 वेरी, एस जी. दे जथार, जी बी  
 वेरी, ओमप्रकाश वीरवल का ज्ञान-ध्यान हिद प्रचा. पु. १.२५  
 वप्र  
 वीरवल की गणप हि प्रचा पु १२५ वप्र.  
 वीरवल की गागर-सागर हि प्रचा पु १२५. वप्र.  
 वेरी, कृष्णचंद्र बाल-इतिहास-परिचय हि प्रचा. पु ०.७५  
 वप्र  
 बाल-महाभारत हि प्रचा पु २०० वप्र  
 शिशु श्रीराम कथा हि प्रचा पु ०.७५ वप्र  
 हमारे महापुरुष हि प्रचा पु ०५० वप्र  
 वेरी, डी पी फिल्म-अभिनय-कला. आत्माराम ५००  
 वेरी, देवीचंद्र काम-विज्ञान हि प्रचा पु. ५००  
 धन कमाने की कुंजी हि प्रचा पु २००  
 वेरी, श्रीराम प्यार की जीत हि प्रचा पु १.७५ उ.  
 स्वराज्य की माग हि पु ए १६२  
 वेलवल्कर, एस के, सपा श्रीमद्भगवद्गीता. काशी हिदू  
 १२००  
 वेलिस्की तथा अन्य दर्शन-साहित्य और आलोचना. पीपुल्स.  
 ३००  
 वेवसि, किसनचंद कविश्री-माला . सिधी राष्ट्र. प्रचा समि.  
 २००  
 वेस दे अजयसिंह वेस  
 वैक, स्टीन एक मछुआ एक मोती. अनु राजेद्र यादव हिद  
 पा १०० उ  
 वैकहार्ड, प्रार्थर जे विद्युत्-विशेषज्ञ निकोला टैसला एस चाद  
 २०० वप्र  
 वैजनाथदास चोर लहरी २५० उ  
 वैजनाथप्रसाद माध्यमिक ठोस ज्यामिति मोतीलाल २५०  
 वैजनाथ महोदय अहिल्याबाई सस्ता ०४० वप्र  
 नर्मदा. सस्ता ०४० वप्र.  
 वैजनाथलाल. इतिहास शिक्षण शैली नद व्र १५०  
 कजली ग्रामगीत नद व्र ०६२  
 वैजनाथलाल दे नवलकिशोर.  
 वैजनाथ सिंह, १९२०- मानस का सामाजिक दर्शन सस्ता  
 ३००  
 व्यक्तिगत और सामुदायिक विकास ब्रिटिश. ७.५०  
 सहकारी समाज. सस्ता १००

—सपा भारती-कर्म अग्रगामी-विकास योजना ब्रिटिश २०००  
वैजनाथ सिंह 'विनोद' भोजपुरी साहित्य एक अध्ययन जान-  
पीठ ५००  
—सपा द्विवेदी युग के साहित्यकारों के कुछ पत्र हिंदु एके-  
डेमी ५००  
वैनरजी, एन एल उच्च माध्यमिक आशिक-भौतिकी मिश्र-  
वधु  
उच्च माध्यमिक रसायन परिचय मिश्र-वधु  
भौतिक विज्ञान के क्यों, क्या और कैसे मिश्र-वधु ३००  
वैनर्जी, एम कलरव इ पब्लि ३०० उ  
वैनीचरण महेंद्र गरीर और स्वास्थ्य गयाप्रसाद (अप्रा )  
सरल स्वास्थ्य विज्ञान ४ भा गयाप्रसाद १३७  
वैजामिन खान समाज-दर्शन की रूप-रेखा लक्ष्मी ना  
३००  
वैजामिन खान डे ब्राइस, एल डब्ल्यू  
वैरागी बदली की रात नीलाभ ३०० का  
वैरिस्टर न नर न नारी सा रत्न भ ०७५  
वैरेट, एफ सी डे ब्रिस्ले, आर सी  
वैलक, हिलेर फ्रास की क्रांति गयाप्रसाद १०००  
फ्रास की राज्य-क्रांति गयाप्रसाद ७५०  
वोकडिया तथा अग्रवाल प्रारंभिक रसायन रत्न ३००  
प्रारंभिक रसायनशास्त्र रत्न ३००  
वोकडिया, एम एम तथा भूरत्न सिंह माध्यमिक कार्बनिक रसा-  
यन शास्त्र सशो स ३ आगरा बुक ४५०  
माध्यमिक रसायन शास्त्र आगरा बुक ७५०  
वोडा, रामचंद्र लोक साहित्य एक निरूपण नवयुग प्र कु  
३००  
साहित्य की परिधि मंगल ३५०  
वोनाविया, एम आर परिवहन का अर्थशास्त्र एत चाद  
६००  
वोरकर, वा भ प्रियदर्शिनी सस्ता का  
वोरकर, वालकृष्ण भगवत देवदासी सस्ता २५० उ  
वोरदिया, केशरीलाल सामाजिक ज्ञान रा वेनीमाधव २६२  
वोल्टन, साराह के वे सफल कैसे हुए राजपाल ३००  
वोस, राजशेखर दे पन्शुराम (राजशेखर वोस)  
वोस, सुभाषचंद्र तरुण के स्वप्न २००  
हमारा कर्तव्य हि पु ए १५०  
वोस, हरीनाथ मृत्तिका उद्योग हि समि ८००  
वोस यह भी दे वमु  
वोहरा, गोपीकृष्ण मैं गणित हू नवयुग प्र कु भा १०४४,  
भा २०५६  
वोल्स, चेस्टर, १९०१- नयी राह आत्माराम ६०० गज  
शांति के नूतन क्षितिज एम चाद ५००  
ब्रजकिशोर 'नारायण', १९११- चतुर्मुखी पारिजात २००  
का  
नाना की नजर में राजकमल (पा) १०० उ  
पत्ति का कन्यादान पु भ रा ३००  
मरने के बाद प्रचा पा १००

यूरोप कुछ ऐसे कुछ वैसे अभिज्ञान ३५० वप्र  
राष्ट्र के लिए कला-नि २०० उ  
सपना टूट गया हि प्रचा पु २०० ना  
सात समुद्र पार कला-नि ७००. या  
स्वस्तिका राजपाल २०० उ  
ब्रजकिशोर सिंह राजस्व विश्वविद्यालय ७५०  
राजस्व राष्ट्रीय आय, रोजगार और आर्थिक प्रणालिया  
विश्वविद्यालय ७००  
—तथा जनार्दनप्रसाद गुक्ल आर्थिक सिद्धांत विश्वविद्यालय  
८००  
ब्रजकिशोर सिंह दे रामास्वामी, टी एन  
ब्रजनदनप्रसाद शिक्षण विधि हि पु स ३२५  
ब्रजनारायण सुबह-वतन इ प्रे २७५ का  
ब्रजविहारी आज फिर सुनो ! २ भा अशोक प्रे ०७५  
(प्र) वप्र  
ब्रजभूपण साकेत की टोका अशोक प्र ५००  
साकेत समीक्षा अशोक प्र २.५०  
ब्रजभूषणलाल जिज्ञासा हि पु ए १५०  
ब्रजभूषण सिंह 'आदर्श' महाकौशल के साहित्यकार यादव  
ब्रजमोहन कागी हिंदू विश्वविद्यालय की इंटरमीडिएट परीक्षा  
के बीज गणित के प्रश्नोत्तर कागी हिंदू ०७५  
ठोस ज्यामिति हि सा सम्मे १५०, कुजी १५०  
नियामक ज्यामिति २ भा कागी हिंदू २५० (प्र)  
प्रारंभिक कलन कागी हिंदू ३५०  
मायावर्ग काशी हिंदू २००  
समतल भूमिति रा वेनीप्रसाद १००  
हमारे त्यौहार चौखवा. १५०  
ब्रजमोहन 'तूफान' कम्प्यूनिज्म एक संगठित पडयत्र विद्यार्थी  
१००  
ब्रजरत्नदास आदर्श राम नाटक हि सा कु १२५  
उर्दू साहित्य का इतिहास सशो स ५ हि सा कु ३७५  
खडी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास हि सा कु ३००  
भारतेदु नाटिकादले २ भा वेनीमाधव ३०० (प्र) ना  
भारतेदु हरिश्चंद्र सशो स हिंदू एकेडेमी ७००, सक्षिप्त  
२००  
मुद्राराक्षस—भारतेदु हरिश्चंद्र रा वेनीमाधव १७५ ना  
यशवन्तमिह हि प्रचा पु १०० जी  
ब्रतोत्सव मजरी गयाप्रसाद २५०  
हिंदी-उपन्यास-साहित्य हि सा कु ५००  
हिंदी नाट्य-साहित्य हि सा कु ३७५  
हिंदी साहित्य का इतिहास सशो स ७ हि सा कु २००  
—अनु जहागीरनामा ना प्र सभा १५०० जी  
निमाई सन्यामी हि प्रचा पु ०७५ ना  
मुल दरवार ४ भा. ना प्र सभा ५५० (प्र). जी  
हुमायूनामा ना प्र सभा ३०० जी  
—सपा जरासंध हि प्रचा पु १५० का  
नददास प्रथावली ना प्र सभा ६२५  
नहुप नाटक ना. प्र सभा १७५



प्रमसागर. ना प्र सभा ४५० क.  
 भारतेदु ग्रथावली ३ भा ना. प्र. सभा भा. १ (ना.)  
 १०००, भा २ (का) ११००, भा. ३ (नि)  
 ११००  
 भूषण-ग्रथावली रा वेनीमाधव २००  
 रहिमान-विलास रा वेनीमाधव. २५०  
 सक्षिप्त रामस्वयवर (रघुराज सिंह) ना प्र सभा ३००  
 ब्रजरत्नदास दे श्यामसुंदरदास  
 ब्रजवासीलाल प्रारम्भिक चलन कलन स रं रा वेनीप्रसाद  
 २००  
 ब्रजविलास, सपा. गद्य निकष नद स एव विद्या म, वा २.००  
 ब्रजेश दे शर्मा, श्यामसुंदर 'ब्रजेश'  
 बन्टन, पाल गुप्त भारत की खोज. भा भ ५००  
 ब्रह्मदत्त. इत्ता-इत्ता पानी भा सा सदन १५०, (पा.)  
 १०० उ.  
 ब्रह्मदत्त जिज्ञासु सस्कृत पठन पाठन की अनुभूत सरलतम विधि  
 भा प्राच्य १२५  
 ब्रह्मदत्त जिज्ञासु दे दयानंद सरस्वती  
 ब्रह्मदत्त भवानीदयाल प्रवासी-प्रपच रामलोचन. (पा.) १००  
 उ  
 ब्रह्मदत्त शास्त्री नल दमयती नाटक गयाप्रसाद ०७५  
 नीतिशतकम् गयाप्रसाद १००  
 ब्रह्मदत्त सिंह धूल के वादल. न्यू लिट २००. उ  
 ब्रह्मदेव 'मधुर' चोट चिनगारी २७५  
 छैला २ ख चिनगारी ५५०  
 लपटे चिनगारी २५०  
 ब्रह्ममुनि, स्वामी आर्य योग प्रदीप गोविंदराम ३५०  
 जीवन-पथ आर्य सा ०५०  
 वृहदारण्यक उपनिषद् कथा माला गोविंदराम ३००  
 महाभारत-शिक्षा-सुधा आर्य सा १५०  
 योग-मार्ग आर्य सा ०६२  
 रामायण दर्पण आर्य सा १२५  
 वैदिक अध्यात्म-सुधा आर्य सा ०६२  
 वैदिक-मनोविज्ञान आर्य सा ०३७  
 साख्य दर्शन. आर्य सा ३००  
 ब्रह्मानंद वगला पर हिंदी का प्रभाव अशोक प्र. १५००  
 ब्रह्मानंद, स्वामी, सप्ता श्रीरामकृष्ण-उपदेश स ४ श्रीराम-  
 कृष्ण (पा) ०७५  
 ब्राइस, एल. डब्ल्यू तथा बैन्जामिन खान नागरीय समाज-शास्त्र  
 परिचय लक्ष्मी ना. ४.५०  
 ब्राउन, ए. जे विश्व अर्थव्यवस्था एक परिचय राजकमल.  
 ७.५०  
 ब्राउनवेकर, नीना निकल्स और डाइम्स. एस चाद १००. वप्र.  
 ब्रिडजे, रूथ सागरतल की खोज राजपाल २००  
 ब्रिज अतरिक्ष—एक परिचय एस चाद १५०  
 युवको के लिए अतरिक्ष परिचय एस चाद १.५०  
 ब्रिम्ले, आर. सी तथा एफ सी वैरेट. क्रोमेटोग्राफी अनु.  
 हरि भगवान् हि. समि ५५०

ब्रीचर, माइकेल. नेहरू: राजनीति जीवनचरित अनु हरिवश-  
 राय बच्चन मोतीलाल ६.००  
 ब्रुक्सत्री, वान वाइक हैलन कैलर या अधो की रानी. आदर्श  
 पु म ३.००  
 ब्रोक, गुलाबदास, १९०९- अभी पुण्य गेप है हि ग्र. र.  
 ३५० क.  
 एक परछाई दो दायरे भा. ज्ञानपीठ ३.००  
 लता हिंद पा १०० उ  
 बोगली, लूई दे भौतिक विज्ञान मे क्रांति अनु निहालकरण  
 सेठी हि समि. ४.५०  
 ब्रौण्टे, एमिली भटकती आत्मा अपर एव प्रभात पब्लि.  
 ६.०० उ  
 ब्लाश, वाइडल डी ला मानव भूगोल के सिद्धांत शिवलाल.  
 १२५०  
 ब्लैक, यूजीन आर्थिक विकास की कूटनीति एस चाद.  
 ३००  
 ब्लो, जोसेफ एल अमरीकी दर्शन तथा दार्शनिक. भा भ  
 १०.००

## भ

भंडारकर अशोक. एस. चाद ७.५० इति.  
 भंडारी तथा कुमार व्यापारिक क्रियाशीलन प्रशासन एव  
 प्रवध लक्ष्मी ना १५००  
 भंडारी तथा जौहरी भारत मे आर्थिक नियोजन परि. स. २  
 लक्ष्मी ना १०००  
 भंडारी, के सी तथा जे आर कुभट भारत मे प्रमडल प्रवध  
 एव सचिवीय व्यवहार आगरा बुक १०००  
 व्यापारिक क्रियाशीलन, प्रशासन और प्रवध लक्ष्मी ना  
 १५००  
 —तथा वी पी श्रीवास्तव भारत मे व्यापार एव प्रशुल्क नीति.  
 लक्ष्मी ना ७.५०  
 भंडारी, चंद्रराज, १९०२- भारत का औद्योगिक विकास  
 ज्ञान मंदिर २५००  
 विश्व-इतिहास-कोष १२ भा ज्ञान-मंदिर एव हि सा म.  
 भा १-२. १२.५० (प्र)  
 भंडारी, चारुचंद्र ग्रामदान क्यो? अ. भा. सर्व. १२५  
 भूदान-यज्ञ क्या और क्यो? अ. भा. सर्व १५०  
 यात्रा के पथ पर अ भा सर्व ०५०. जी  
 हमारा राष्ट्रीय शिक्षण अ भा सर्व २५०  
 भंडारी, डी आर. नागरिक शास्त्र के सिद्धांत फ्रैंक ३७५  
 भंडारी, डी आर दे सरन, पी  
 भंडारी, पी एम लघु उद्योग मार्गदर्शन. सा प्र मंदिर ८००  
 भंडारी, मन्नु तीन निगाहो की एक तस्वीर राजकमल एव  
 हि प्रचा. पु. ३००  
 मै हार गई राजकमल एव हि प्रचा पु ३.५०. क.  
 भंडारी, मन्नु. दे. यादव, राजेद्र

भंडारी, सी एस ज्ञान की कहानिया ४ भा हि प्रचा पु  
१ २५ (प्र) वप्र

भंडावत, अमृतलाल भारतीय बही खाता कृष्णा व्र १५०

भवानी, सीता महात्मा गांधी कृष्णा व्र २००

भकूनी, पूरनसिंह विष्व का नवीन भूगोल हि प्रचा पु  
२ ७५

—तथा अमरनाथ कपूर प्रयोगात्मक भूगोल एस चाद  
३ ५०

भक्त दे गुरुभक्तसिंह 'भक्त'

भगत दे. ज्वालाप्रसाद 'भगत'

भगत, जे आर सरल सैन्य-विज्ञान आर्मी ४ २५

भगत राधेश्याम, हकीम तिव्वी इनसाइक्लोपीडिया रतन एड  
क ३००

भगतसिंह अक्षर बोध हेमकुट १ २५ वप्र

इंद्र धनुष हेमकुट १ ६५ वप्र

क ख हेमकुट १ २५ वप्र

चादनी राते हेमकुट १ ५० वप्र

चू चू हेमकुट १ ५० वप्र

टमक टुम १ २५ वप्र.

नई हिंदी प्राइमर हेमकुट ० ३७ वप्र.

बाल-पाठ माला हेमकुट भा १ ० ५०, भा २ १ ००,  
भा ३ १ २५, भा ४ १ ३७

बाल साहित्य माला हेमकुट भा १. २ ००, भा २ २ २०,  
भा ३ २ ६०, भा ४ ३ १०, भा ५ ३ ५० वप्र

बूजो हेमकुट १ ५० वप्र

शब्द बोध हेमकुट १ २५ वप्र

सुनहरे सपने हेमकुट १ ५० वप्र

स्वर बोध हेमकुट १ २५ वप्र

हिंदी बोध भा १-३ हेमकुट ० ७५ (प्र) वप्र

हिंदी रचना हेमकुट भा १ १ ००, भा २ १ ००,

भा ३ १ ५०, भा ४ १ ७५, भा ५ २ ००, भा ६  
२ २५, भा ७ वप्र

हिंदी लेखन हेमकुट भा १ ० ६०, भा २ ० ७५, भा ३  
० ८५ वप्र

भगवत भूतवलि महाबध सपा फूलचंद्र सिद्धातशास्त्री. भा  
२-७ भा ज्ञानपीठ ६६ ००

भगवतराय आयल इडस्ट्री देहाती १० ५०

खराद आपरेटर गाइड देहाती ८ २५

डाईफिटर गाइड देहाती १० ५०

माडर्न ब्लैकस्मिथ गाइड देहाती ८ २५

रिसर्च आफ टायलेट सोप देहाती १० ५०

भगवतगरण प्राचीन भारत का इतिहास ग्रथमाला १० ००

प्राचीन भारत के निर्माता ग्रथमाला २ ५० वप्र

भारतीय इतिहास के रेखा-चित्र प्रभात पब्लि २ ००

भगवतीप्रसाद आहार, सयम और स्वास्थ्य रा वेनीप्रसाद  
३ ००

भगवतीप्रसाद सिंह दिग्विजय भूषण हि प्रचा पु १५.००

राम-भक्ति मे रसिक सप्रदाय विश्वविद्यालय १५ ००

भगवतीलाल निवध रत्नाकर आनंद पु, वा ३.००

रचना रहस्य (वृहद्) हि प्रचा पु १ ८७

भगवतीलाल दे उपाध्याय, अत्रिलेशचंद्र

भगवतीशरणसिंह अपराजिता भा ज्ञानपीठ २ ५० क

कश्मीर हिंदु एकेडेमी

मानव के मूल मे नद स एव विद्या म, वा १ ५० नि

भगवदत्त भारतवर्ष का वृहद् इतिहास आत्माराम एव

भा प्राच्य भा. १ १ ८ ००, भा २ २ ० ००

भाषा का इतिहास आत्माराम ५ ००

वेदविद्या-निदर्शन आत्माराम १ २ ५०, — — भा. प्राच्य  
१ २ ५०

वैदिक वाङ्मय का इतिहास भा १ आत्माराम एव भा.

प्राच्य १ ० ००

सत्कार्यप्रकाश (मोटे अक्षरो मे) गोविंदराम १ ० ००

—सपा ऋषि दयानंद के पत्र और विज्ञापन परिशिष्ट सहित  
भा प्राच्य ७ ७५

भगवदत्त 'शिशु', १९२८- उपेक्षित सस्ता १ ०० का

रस-गागर भा भ २ ०० का

रायसीना की लपटे राजहस ३ ०० उ

भगवान, स्वामी जागतो का सपना नवहिंद २ ५० राज.

भगवानचंद्र 'विनोद' कर भला होगा भला सस्ता १ ५०  
वप्र

भगवानदास दर्शन का प्रयोजन ज्ञानमंडल ३ ५०

पुरुषार्थ सस्ता ६ ००

भगवत्गीता का आशय और उद्देश्य काशी हिंदू ० ५०

सब धर्मों की बुनियादी एकता अनु सुंदरलाल चौखवा  
१ २ ००

भगवानदास मृदगाचार्य मृदग-तवला प्रभाकर सगीत भा १  
२ ००, भा २ २ ५०

भगवानदीन, महात्मा आजाद बनो सस्ता नि

कुदरत की मिठाइया सस्ता ० ४० वप्र

जवानो स ४ पूर्वोदय ३ ०० नि

जवानो उठो सस्ता २ ५०

जवानो राह यह है पूर्वोदय (सा अकादेमी) २ ७५ नि.

जीवन-भाकी पूर्वोदय (सा अकादेमी) ० ७५ सस्म

देर है, अघेर नहीं अ भा सर्व ० ७५

पाव पडे की जीत अ भा सर्व ० ६०

बालक वनाम विज्ञान अ भा सर्व ० ७५

बालक सीखता कैसे हे ? अ भा सर्व ० ५०

बिल्ली की कहानी ३ भा अ भा सर्व २ ०० वप्र.

बोलती घटनाए ५ भा अ भा सर्व ० ५० (प्र)

माता-पिताओं से अ भा सर्व ० ४०

लोकभाव या आत्मवल अ भा सर्व ० ५०

सच्ची आजादी सस्ता २ ५०

सत्य की खोज अ भा सर्व १ ५०

सूफी सत चरित सस्ता ३ ००

भगवानदीन 'दीन', लाला, १८६६-१९३०. अलकार चट्टिका.  
रा. वेनीप्रसाद. १ ००

- अलकार-मजूपा. स १० रा. वेनीप्रसाद २ २५  
 केशव कौमुदी (रामचंद्रिका) (केशवदास) रा वेनीमाधव  
 पूर्वार्द्ध ३००, उत्तरार्द्ध २५०  
 केशव पंचरत्न—'केशवदास' रा वेनीमाधव  
 नवीनवीन पु भ २०० का  
 व्यंग्यार्थ-मजूपा स. २. सा सेवक ०७५  
 —तथा मोहनवल्लभ पत सूर-पंचरत्न. स ७ रा. वेनीमाधव.  
 २५०  
 —सपा. प्रिया प्रकाश कल्याणदास ५००  
 रामचंद्रिका (केशव) ना प्र सभा ३००  
 —तथा विश्वनाथप्रसाद मिश्र, टीका. कवितावली स. ४ रा  
 वेनीप्रसाद २०० [३५०  
 —तथा विश्वनाथ चौवे, टीका विनय पत्रिका रा वेनीप्रसाद  
 —तथा रामदास गौड, सग्रा हिंदी भाषा सार हिं सा. सम्मे  
 १.७५. नि  
 भगवानदीन 'दीन', लाला तथा आदित्यप्रसाद सिंह दे. गिरि.  
 दीनदयाल  
 भगवानदीन 'दीन', लाला तथा मोहनवल्लभ पत. दे गिरि,  
 दीनदयाल.  
 भगवानप्रसाद शिक्षा मनोविज्ञान मगध ६००  
 हमारी शिक्षा भा ज्ञानपीठ १००  
 भगवान प्रेमी सनातन भजन दीपिका देहाती १५०  
 भगवानस्वरूप तथा बालकृष्ण आधुनिक अर्थशास्त्र. कि महल.  
 २००  
 भगीरथ हमारा समुद्र उमेश ३००  
 भटनागर अर्थशास्त्र के सिद्धांत रस्तोगी  
 सहकारिता के सिद्धांत रस्तोगी ६.५०  
 भटनागर, आनंदी चारु चरित्र लक्ष्मी ना १२५  
 भटनागर, उदयसिंह, १९१७- जागीरदार एस चाद २.५०  
 ना  
 दहकते अगारे एस चाद ४०० ना  
 भटनागर, ए एस. सरल वस्तु-चित्रण गुप्ता ब्रा २००  
 भटनागर, एम एस मानव भूगोल के सिद्धांत सुरेश ६.००  
 भटनागर, क. प. तथा अन्य अर्थशास्त्र के सिद्धांत कि घर,  
 का. भा. १ ६२५, भा २. ४५०, सपूर्णा. १०५०  
 राजस्व कि. घर, का २००  
 भटनागर, कणादकृष्णि आज का ताजा अखवार आत्माराम  
 ३०० ए  
 पुस्तक जनता का सेवक आत्माराम २००. ना  
 सफर के साथी आत्माराम २०० ए  
 हम एक हैं. आत्माराम १५० ना  
 भटनागर, कालकाप्रसाद तथा तिलकनारायण हजेला मुद्रा,  
 बैंकिंग, विनिमय और विदेशी व्यापार मरस्व स ७५०  
 —तथा नुरेजचद गुप्त भारतीय अर्थशास्त्र नगो स १९६३.  
 सरस्व स ६५०  
 भटनागर, कालीशकर. अर्वाचीन योरोप किओर पत्रिका. ६.००  
 —तथा वी जी शुक्ला. भारतीय सस्कृति का इतिहास रत्न  
 ७.००

- तथा रामगुलाम मुख्त अर्वाचीन योरोप २ भा प्रकाश बुक.  
 ६०० (प्र)  
 भटनागर, कैलाशनाथ आख्यानरत्नम् रा वेनीमाधव ०.७५  
 नाट्यसुधा इ. प्रे २५०. ना  
 भटनागर, ज्ञानेन्द्रकुमार एक विदु दो भवर. वेला ३०० उ.  
 कर्नाटक की लोक-कथाए आत्माराम. १५०  
 केरल की लोक-कथाए आत्माराम १५०  
 तटो के आचल. सुरेद्र २००. उ  
 तमिलनाड की लोक-कथाए आत्माराम १.२५  
 भाटी हमारी मा साहित्यवाणी ५.०० उ.  
 —सपा दक्षिण की श्रेष्ठ कहानिया पुष्पी १००; — —  
 सुरेद्र २.५०  
 भटनागर, डी एस दे माथुर, के वी एल  
 भटनागर, नदलाल भारतीय ग्रामीण एव नागरिक अर्थ-  
 व्यवस्था रस्तोगी १०००  
 वैक्तिक व्यवस्था स २ रस्तोगी. १०.००  
 सहकारिता के सिद्धांत एव भारतीय सहकारिता रस्तोगी  
 १०.००  
 भटनागर, प्रेम इलाचद्र जोशी, साहित्य और समीक्षा सा प्र.  
 ६००  
 भटनागर, वाकेविहारी. बीच की धारा रामलोचन (पा.)  
 १०० उ  
 —सपा गद्याजलि सूर्य प्र ४०० नि  
 भटनागर, ब्रजगोपाल ग्रामीय अर्थशास्त्र हिंदु एकेडेमी. ४.००  
 भटनागर, महेद्र, १९२६- अतराल प्रबुद्ध. २००. का  
 अजय आलोक. वसल २४० ए  
 अभिनव एकाकी लायल ४.००  
 अभियान प्रबुद्ध १५०. का  
 अरेरे के पर्वत पर भोपाल ०७५  
 आदर्श कहानिया सा प्र मंदिर १५०  
 जिजीविषा हिं प्रचा पु ३०० का  
 टूटती शृंखलाए स २ प्रबुद्ध २०० का  
 तारो के गीत गयाप्रसाद ०७५ का.  
 नई चेतना. प्रबुद्ध २०० का  
 नाटककार, हरिकृष्ण प्रेमी और सवत्-प्रवर्तन. लायल ३००  
 वच्चो के रूपक कि. घर, ग्वा ०७५  
 बदलता युग प्रबुद्ध १५० का  
 मधुरिमा कि घर, ग्वा ३०० का  
 रग्मिया भोपाल १७५  
 लडखडाते कदम प्रबुद्ध, भोपाल एव म्वरूप १००. क.  
 विक्रतिया प्रबुद्ध ०७५ क  
 विजय पर्व एक अव्ययन (रामकुमार वर्मा) कि घर, ग्वा.  
 १२५  
 विद्याधर राजकुमार स्वरूप ०५०  
 विशाल भारत के रत्न भोपाल १५०  
 विहान प्रबुद्ध एव स्वरूप ०५०. का  
 सतरण प्रबुद्ध एव लायल ३.०० का  
 समस्यामूलक उपन्यासकार प्रेमचंद. हिं प्रचा. पु ५.००

स्वर्ण रश्मिया भोपाल १ ६२  
 हस-हस गाने गाये हम कि घर, ग्वा ० ५० वप्र  
 —सपा एकाकीका एस चाद २ २५  
 भटनागर, राजेन्द्रमोहन एक परकटे परिदे की कहानी नव  
 कमल १ ०० उ  
 बिके हुए इन्सान नव कमल १ ०० उ  
 वुनियादी शिक्षा की रूपरेखा दि पु स ४ ००  
 राष्ट्रभाषा और हिंदी विनोद २ ००  
 सामयिका नव कमल १ ०० नि  
 सूनी राहे अनजाने राही नव कमल ५ ०० उ  
 —सपा आधुनिक कहानिया नव कमल २ ५०  
 भटनागर, राजेन्द्रस्वरूप बर्कले दर्शन लोकभारती ४ ००  
 भटनागर, रामरत्न, १९१६- अध्ययन और आलोचना सा  
 सदन, दे ८ ००  
 कवीर-साहित्य की भूमिका रा वेनीमाधव २ ००  
 कवि प्रसाद कि महल २ ५०  
 कामायनी कि महल २ ५०  
 केशवदास कि महल २ ५० आ  
 गद्यायन साथी २ ००  
 छायावाद कि महल २ ५०  
 जय वासुदेव कि महल ३ ०० उ  
 जायसी कि महल २ ५० आ  
 तुलसी-साहित्य की भूमिका रा वेनीप्रसाद ३ ५०  
 नददास कि महल २ ५० आ  
 निवध प्रबोध कि महल ३ ००  
 निराला कि महल ५ ०० आ, — — साथी ५ ००  
 निराला और नवजागरण साथी १ ० ००  
 प्रबोध पूर्णिमा कि महल १ ५० नि  
 प्रबोध प्रभाकर रा वेनीप्रसाद २ २५ नि  
 प्रसाद की विचार-धारा रा वेनीप्रसाद ४.००  
 प्राचीन हिन्दी काव्य इ प्रे ४ ००  
 विहारी कि महल २ ५० आ  
 भारतेन्दु हरिश्चन्द्र कि महल २ ५० आ  
 मध्ययुगीन वैष्णव सस्कृति तुलसीदास हि सा स ७ ५०  
 मूल्य और मूल्यांकन एस चाद ७.५० नि  
 मैथिलीशरण गुप्त कि महल २ ५० आ  
 रहस्यवाद कि महल २ ५०  
 रूप-रग लोक चेतना २ ००  
 रूपायन साथी ३ ०० ना  
 विद्यापति कि महल २ ५० आ  
 सामयिक जीवन और साहित्य साथी ७ ०० नि  
 सुमित्रानन्दन पत कि महल ३ ५० आ  
 सूरदास कि महल २ ५० आ  
 सूर-समीक्षा मुशीराम ३ ००  
 हिंदी कविता की पृष्ठभूमि इ प्रे ४ ००  
 हिंदी गद्य सुषमा रा वेनीमाधव २ ५०  
 हिंदी भारती २ भा रा वेनीप्रसाद ४ ०० (प्र)  
 हिंदी साहित्य का सक्षिप्त इतिहास साथी ५ ००

—तथा वाचस्पति त्रिपाठी सूर-साहित्य की भूमिका रा.  
 वेनीमाधव  
 —सपा नवीन गद्य सुषमा रा वेनीप्रसाद २ ००  
 नूतन गद्य सुषमा रा वेनीप्रसाद २ ५०  
 भटनागर, रामेश्वर आँक्सीजन और जीवन आत्माराम २ ००  
 भटनागर, विजयसिंह नागरिक शास्त्र के सिद्धांत कल्याणमल्ल.  
 ३ ००  
 भारतीय सविधान तथा प्रशासन कल्याणमल ३ ००  
 भटनागर, वीरेन्द्र सामान्य विज्ञान कि घर ग्वा ६ ००  
 भटनागर, शांति मा का आचल शकुन १ २५  
 —सपा सतरगा आचल आत्माराम २ ५० क  
 भटनागर, शांति दे मोरियर, दाफनी दु  
 भटनागर, श्यामराय शिकार हिंद पा. १ ००  
 भटनागर, सपतिराय अतिम गीत नवयुग प्र कु २ ५० का  
 जुल्मी की कहानिया नवयुग ग कु २ ००  
 भटनागर, सानेन्द्रकुमार एक विदु दो भवर सा सेवक २ २५  
 भटनागर, सुकुमारी गृह-शिल्प कि महल भा १, ३. ० ७५  
 (प्र), भा २ ० ८५  
 भटनागर, सुरेश कुरु-प्रदेश की लोक-कथाए आत्माराम १ २५  
 भट्टे तथा यादव पशुपालन रामप्रसाद ५ ००  
 भट्ट तथा राव नूतन हिंदी व्याकरण चोरा भा १ १ २०,  
 भा २ १ ५०, भा ३ १ १५  
 भट्ट, आर दे कालिदास  
 भट्ट, उदयशकर १८९७- अतर्दर्शन तीन चित्र भा प्र  
 मंदिर २ ०० का  
 अतर्मथन आत्माराम १ ५० का  
 अधकार और प्रकाश साहनी २ ७५ ना  
 अमृत और विष आत्माराम २ ०० का  
 अशोक दन-वदनी तथा अन्य गीतिनाट्य एस चाद ३ ००  
 ना  
 आज का आदमी हि भवन २ ५० ना  
 आदिम-युग और अन्य नाटक आत्माराम ४ ००  
 इत्यादि आत्माराम ३ ५० का  
 उत्तराधिकार राजकमल (पा) १ ०० उ  
 एक नीड दो पछी राजकमल ८ ५० उ  
 एकला चलो रे आत्माराम १ ०० ना  
 करिणका आत्माराम १ ५० का  
 कालिदास आत्माराम २ ०० ए  
 कौतेय-कथा आत्माराम १ ५० का  
 क्रांतिकारी आत्माराम २ ०० ना  
 जवानी और छ एकाकी आत्माराम २ ५०  
 जीवन और सघर्ष राजपाल २ ५० ना  
 तक्षशिला इ प्रे ३ ०० का  
 दाहर अथवा सिध-पतन आत्माराम २ ०० ना.  
 दो अध्याय आत्माराम १ ५० उ  
 नया समाज आत्माराम १ ५० ना  
 नहुष—निपात आत्माराम १ ००. ना.  
 पद के पीछे आत्माराम ३ ००. ए

पार्वती स २ हि भवन १ २५ ना  
 पूर्वापर. आत्माराम. ५.०० का.  
 मानसी आत्माराम २०० का.  
 मुक्तिदूत. आत्माराम. २०० ना.  
 मुक्तिपथ अवध १५०. ना  
 लोक-परलोक राजकमल. ३५० उ.  
 वह जो मैंने देखा अवध. भा १ ३५०, भा २ २२५. उ  
 विक्रमादित्य स ५ हि. भवन. ११२ ना  
 विद्रोहिणी अवा. आत्माराम २०० ना., — — राजकमल  
 २.००  
 विश्वामित्र और दो भाव-नाट्य आत्माराम ३००.  
 शक-विजय राजकमल २२५ ना  
 सगर-विजय राजकमल २२५ ना  
 सप्त सरिता ओरिएटल. (अप्रा) ए  
 समस्या का अंत आत्माराम ३०० ए.  
 समस्याए और हम मानकचद २०० ना  
 सागर लहरे और मनुष्य राजकमल ५००, (पा) २००.  
 उ  
 सात प्रहसन आत्माराम २५०  
 साहित्य के स्वर आत्माराम ३५०  
 स्त्री का हृदय हि सा सम्मे १५० ए  
 भट्ट, ऋषीश्वरनाथ, सपा आधुनिक संस्कृत-हिंदी कोष  
 रामप्रसाद ५००  
 भट्ट, ऋषीश्वरनाथ दे वाणभट्ट  
 भट्ट, कृष्णदत्त आर्थिक विचारधारा उदय से सर्वोदय तक  
 अ. भा सर्व. ६००  
 चवल के वेहडो मे अ भा सर्व सक्षिप्त. १.५०, सम्पूर्णा  
 २५०  
 चलो, चले मगरौठ अ भा सर्व ०७५  
 जाजूजी जीवन और साधना अ भा सर्व १.२५  
 जातिवाद और कौमवाद अ भा सर्व ०५०  
 धर्म क्या कहता है ? अ भा सर्व ०.५०  
 धर्मों की फुलवारी अ भा सर्व ०५०  
 नक्षत्रों की छाया मे अ भा सर्व १५०  
 प्यारे भूले भाइयो ५ भा अ भा सर्व १.५० वप्र  
 वावा विनोवा ६ भा अ भा सर्व १८० वप्र  
 भारतवर्ष का आर्थिक इतिहास अ भा सर्व ६.००  
 सेवा के पुजारी अ भा सर्व ०.६०  
 भट्ट, केदारनाथ अभिनय अंग्रेजी-हिंदी कोष गयाप्रसाद ७२५  
 उर्दू-हिंदी कोष रा वेनीमाधव. ८००  
 —तथा रमेशचंद्र शर्मा हिंदी और उसके आचार्य श्रीराम  
 मेहरा १२५  
 —अनु. आख्यायिका सप्तक इ प्रे १५० क.  
 —सपा आधुनिक हिंदी कोष रामप्रसाद ४५०  
 भट्ट, केदारनाथ दे याज्ञिक, जीवनगकर  
 भट्ट, केशवरा. सज्जाद सबुल हि पु ए १५० ना.  
 भट्ट, गंगाप्रसाद. वच्चे क्या सीखे २ भा राष्ट्रीय प्र. मंदिर  
 ०.७५ (प्र). वप्र

भट्ट, गौरीशंकर भारत मे प्रजाति. सा सदन, दे ३००  
 भारत मे समाजशास्त्र और मानवशास्त्र सा सदन, दे २.००  
 भारत मे समाजशास्त्र, प्रजाति और संस्कृति सा. सदन, दे.  
 ८००  
 भारतीय संस्कृति एक समाजशास्त्रीय समीक्षा सा सदन,  
 दे. ५००  
 भट्ट, चंद्रशेखर अभिनव गीत सुधा एस चाद १२५  
 धरती जागी राजकमल २२५ वप्र  
 नाट्य पद्धति द्वारा शिक्षण गयाप्रसाद ७.५०  
 प्रथम-पूजा एस चाद २०० ना  
 —तथा किशनचंद्र जैन विश्व इतिहास की झलक एस चाद.  
 ३५०  
 भट्ट, जनार्दन, सपा संस्कृत कवियों की अनोखी सूझ नेशनल  
 ४००  
 भट्ट, धनजय 'सरल', सपा, १९०६- भट्ट नाटकावली. ना प्र.  
 सभा १२५  
 भट्ट, धनजय 'सरल' दे शुक्ल, देवीदत्त.  
 भट्ट, नानाभाई कुती गांधारी अनु बृहस्पति उपाध्याय हि.  
 प्र म ०७५  
 दुर्योधन, अनु बृहस्पति उपाध्याय हि प्र म ०७५  
 द्रोण अश्वत्थामा अनु बृहस्पति उपाध्याय हि प्र म  
 ०७५  
 धर्मराज युधिष्ठिर. अनु बृहस्पति उपाध्याय हि प्र म.  
 ०७५  
 धृतराष्ट्र. अनु बृहस्पति उपाध्याय हि प्र म ०७५  
 पाचाली द्रौपदी. अनु. बृहस्पति उपाध्याय हि प्र म ०७५  
 पितामह भीष्म अनु बृहस्पति उपाध्याय हि प्र म ०७५  
 महारथी अर्जुन अनु बृहस्पति उपाध्याय हि प्र म. ०.७५  
 महावीर भीमसेन अनु. बृहस्पति उपाध्याय हि प्र. म. ०.७५  
 मानवधर्म की आख्यायिकाए हि. प्र म. १२५. क  
 मेरा निर्माण और विकास अ भा सर्व २२५ जी  
 श्रीकृष्ण अनु बृहस्पति उपाध्याय हि प्र. म ०७५  
 सूतपुत्र कर्ण अनु बृहस्पति उपाध्याय. हि प्र म ०७५  
 भट्ट, पातीराम आनंदमठ सा नि का १०० ना.  
 तात्या टोपे सा नि, का १५० ना.  
 महात्मा कर्ण सा नि, का ना  
 महाराजा नदकुमार को फासी सा नि, का १.७५ ना.  
 महाराणा अमरसिंह सा नि, का १०० ना  
 श्री चैतन्य सा नि, का १०० ना  
 भट्ट, बदरीनाथ दुर्गावती गंगा २५० ना  
 लवडधोघो गंगा २०० ना.  
 विवाह-विज्ञापन गंगा २०० ना.  
 हिंदी गंगा १५०  
 भट्ट, बालकृष्ण दमयती स्वयंवर हि सा सम्मे ०५० ना.  
 नाटकावली सपा धनजय भट्ट 'सरल' ना प्र सभा. १.२५  
 नूतन ब्रह्मचारी ज्ञानमंडल ०.६३ उ  
 भट्ट निबंधमाला २ भा ना प्र सभा ३५०  
 साहित्य-सुमन गंगा ३.००



सौ अज्ञान एक सुज्ञान गगा १५० उ  
 भट्ट, बी एन बाल सगीत शिक्षा सगीत भा १०५०, भा  
 २०७५, भा ३ १००  
 सगीत अर्चना (तान-ग्रालाप) सगीत ५००  
 सगीत कादंबिनी (तान-ग्रालाप) सगीत ५००  
 भट्ट, मथुरानाथ श्रीगोविंदवैभवम् गीता १००  
 भट्ट, मोहनलाल नरसी मेहता सस्ता ०४० वप्र  
 भट्ट, मोहनलाल दे मेघारणी, भवेरचद  
 भट्ट, रामेश्वर श्रीधरबोध रा वेनीप्रसाद १२५  
 भट्ट, रामेश्वर, टीका रामचरितमानस इ प्रे ६००  
 विनयपत्रिका इ प्रे ४००  
 भट्ट, लक्ष्मीनारायण अभ्युत्थ रत्न रामप्रसाद ०७५ वप्र  
 हमारा कर्तव्य रामप्रसाद १५०  
 भट्ट, विश्वभरनाथ रत्नाकर उनकी प्रतिभा और कला दि  
 पु स १२५०  
 —सपा राग अक सगीत २५०  
 वाद्य सगीत अक सगीत ३००  
 सितार शिक्षा सगीत ४००  
 भट्ट, विश्वभरनाथ दे दामोदर, पंडित  
 भट्ट, विश्वभरनाथ दे नवावअली, राजा  
 भट्ट, विश्वभरनाथ दे रामामात्य  
 भट्ट, शभूनाथ लल्लेश्वरी सस्ता ०४० वप्र  
 भट्ट, श्रीकृष्णदत्त, सपा सामूहिक प्रार्थना अ भा सर्व ०२५  
 भट्ट, सरोज सरस कहानी संग्रह ओरिएटल १२५  
 भट्ट, सूर्यनारायण मानव पानी की गहराइयो मे सरस्व प्र  
 म. २००  
 भट्ट, सोमदेव कथासरित्सागर अनु गोपालकृष्ण कौल  
 सस्ता ६००  
 भट्ट, हरिदत्त 'शैलेश', १९३०- कृष्ण सबधी लोक-कथाए  
 आत्माराम १२५  
 सस्कृत सोपनम् एलाइड २५०  
 भट्ट, हलायुध हलायुध कोश हि समि २३००  
 भट्ट अकलक तत्त्वार्थराजवार्तिक सपा महेद्रकुमार २ भा  
 भा ज्ञानपीठ २४००  
 —तथा अनतवीर्य सिद्धिविनिश्चय टीका सपा महेद्रकुमार  
 २ भा भा ज्ञानपीठ ३०००  
 —तथा वादिराज सूरि न्यायविनिश्चय विवरण सपा महेद्र-  
 कुमार २ भा भा ज्ञानपीठ ३०००  
 भट्टतिरि, पी एन महात्मा वसवेश्वर विश्वेश्वरानंद ०५०  
 भट्टनारायण वेणी-सहार इ प्रे १२५ ना, — —सस्ता  
 ०४० वप्र  
 भट्टाचार्य, ए वी अर्थशास्त्र के सिद्धांत भा १ विनोद ५००  
 भट्टाचार्य, एस एन एक गाव की कहानी मैट्रोपोलिटन ३००  
 भट्टाचार्य, देवेन्द्रनाथ स्वास्थ्य परिचय नद ब्र ०५०  
 भट्टाचार्य, धनजय, अनु पश्चिम की चुनी हुई कहानिया इ  
 प्रे ०६२  
 भट्टाचार्य, नारायणचंद्र पतिमदिर हि पु ए २०० उ  
 , पराशर कथाकुज कत्याणदास १२५ वप्र.

भट्टाचार्य, भवानी, १९०६ शेर का सवार हि अ र ५२५.  
 उ  
 भट्टाचार्य, रगजीत प्रकाश की रेखा सस्ता १५० क  
 भट्टाचार्य, रा च मलेरिया और कालाजार चिकित्सा  
 (एलोपैथिक) स २ मेडिकल १७५  
 भट्टाचार्य, रामशकर दे युधिष्ठिर मीमांसक  
 भट्टाचार्य, विवेक ग्राम-पेमी रवीन्द्रनाथ ठाकुर मैट्रोपोलिटन  
 ४००  
 विश्व-पथिक रवीन्द्रनाथ मैट्रोपोलिटन ४००  
 भट्टाचार्य, वीरेन्द्रकुमार, १९२४- मा अनु लोकनाथ भारती  
 प्रचा पा १००, — —हि प्रचा पु ३००  
 भट्टाचार्य, ए वी नियोजन देश और विदेश मे रतन  
 ११२५  
 भारतीय नियोजन की रूपरेखा रतन ६००  
 भट्टि भट्टिकाव्यम् रा वेनीप्रसाद ०३७  
 रावण-वध सस्ता ०४० वप्र  
 भदौरिया, रामबहादुर सिंह गोधुलि ज्ञानालोक १०० का  
 भदौरिया, शिवबहादुर सिंह शिजिनी सा नि, का १६२  
 का  
 भद्रबाहु, आचार्य भद्रबाहु सहिता सपा नेमिचंद्र भा  
 ज्ञानपीठ ८००  
 भनावत दे श्रोत्रिय  
 भनोट बलराज अशोक प्रे १५० क  
 भनोट, सरनदास एकाकी सर्वस्व श्री भा भारती ३००  
 सर्वश्रेष्ठ एकाकी श्री भा भारती २५०  
 साहित्य-समीक्षा श्री भा भारती ४५० नि  
 भनोट, सरनदास दे रामधन  
 भरतिया, कातिकिशोर पशु-जगत् के कुछ चमत्कार राज-  
 किशोर १००  
 सस्कृत-नाटककार हि समि ४००  
 भर्तृहरि नक्षत्र-माला सपा काका कालेलकर गाधी हिंदु  
 ०२०  
 नीतिशतकम् रा वेनीप्रसाद २००  
 वैराग्यशतकम् रा वेनीमाधव २००  
 शतकत्रयम् मित्र ३००  
 सद्बोधशतकम् सपा काका कालेलकर गाधी हिंदु  
 २००  
 भल्ला, ब्रह्मदेव दे शर्मा, पुष्पाकुमारी  
 भल्ला, मुल्कराज राम दर्शन विश्वेश्वरानंद ०५०  
 भवभूति उत्तररामचरित सस्ता ०४० वप्र, — —टीका  
 आनंद स्वरूप मोतीलाल ६०० ना  
 उत्तररामचरितम् टीका तारिणीश भा रा वेनीप्रसाद  
 ४५०, — —अक ३ सपा रामचंद्र शुक्ल रा वेनी-  
 माधव १००  
 उत्तररामचरित्र नाटक अनु सत्यनारायण शर्मा रत्नाश्रम  
 २२५  
 महावीर-चरित सस्ता ०४० वप्र  
 मालती-माधव. सस्ता ०४०. वप्र.

मालतीमाधव नाटक अनु. सत्यनारायण शर्मा रत्नाश्रम.  
१७५  
भवानीदयाल सन्यासी. प्रवासी की आत्म-कथा राजहंस  
८००  
भवानीप्रसाद आर्य-पर्व-पद्धति आर्य सा १५०  
भवानीलाल भारतीय श्रीकृष्ण चरित आर्य सा  
भवालकर तथा सेठी दे आइस्टाइन, ऐलवर्ट  
भवालकर, वनमाला आधुनिक संस्कृत काव्यम्. रा वेनीमाधव  
१५०  
उधार का पति आत्माराम १०० ना  
भाई. दे श्रीवास्तव, वेनीप्रसाद 'भाई'  
भाई परमानंद दे परमानंद, भाई  
भागवत, डब्ल्यू वी प्रारंभिक रसायन शास्त्र गयाप्रसाद  
३००  
भागवतप्रसाद इंग्लैंड की शिक्षा प्रणाली कि महल  
भागसिंह प्रीत बडी अनमोल दीपक पब्लि ३५० उ  
भागीरथमल तथा सुगमचंद गट्टी प्रयोगात्मक भौतिक शास्त्र  
कृष्णा ब्र २००  
भागेश्वरीप्रसाद माध्यमिक कलन बुकलेड ३५०  
भाग्यवती सिंह तुलसी की काव्य कला सरस्व. पु. स १२५०  
तुलसी मानस रत्नाकर सरस्व पु स ८५०  
भाटिया. शिक्षा मनोविज्ञान के तत्त्व ओरिएट ७५०  
भाटिया तथा अदावल शिक्षा दर्शन ओरिएट ४००  
भाटिया, आर एल तथा ए एस भाटिया विश्व के प्रमुख  
संविधान. यूनिवर्सिटी. १०००  
—तथा योगेन्द्र मलिक. भारत के राष्ट्रीय आंदोलन व संवि-  
धान का विकास यूनिवर्सिटी ८००  
भाटिया, ए एस दे भाटिया, आर एल  
भाटिया, कमला बेसिक स्कूल प्रबंध यूनिवर्सिटी ३५०  
भाटिया कृष्ण सुनहरी हरी पालिया दीपक पब्लि ४.००  
क  
भाटिया, कैलाशचंद्र ब्रजभाषा और खड़ी बोली का तुलनात्मक  
विवेचन सरस्व पु स ६५०  
हिंदी में अंग्रेजी से आगत शब्दों का भाषातात्त्विक अध्ययन  
हिंदु एकेडेमी  
—सपा भारती भा १ भा प्र मंदिर १००  
भाटिया, वी एम सामान्य अर्थशास्त्र (प्रश्नोत्तर) आत्मा-  
राम ६००  
भाटिया, रामतीर्थ बूढ़े बाबा की कहानिया ३ भा राजधानी  
२५० वप्र  
भाटिया, शीला हीर-राभा आत्माराम २०० ना  
भाटिया, हसरज असामान्य मनोविज्ञान परि स २ राज-  
कमल ६५०, ६००  
व्यावहारिक मनोविज्ञान राजकमल ३५०, ५००  
शिक्षा मनोविज्ञान परि स ज्ञानमंडल ५००  
सरल मनोविज्ञान राजकमल ३५०, ४५०  
सरल शिक्षा मनोविज्ञान राजकमल ३००, ४५०  
सामान्य मनोविज्ञान ज्ञानमंडल १०.००

भाटी, देशराजसिंह. आदर्श निबंध रचना हिं सा. स. (पा)  
१००  
आधुनिक कवि पत समीक्षा एव व्याख्या. अशोक प्र ३.५०  
ऋषि का शाप उमेश. २.०० वप्र  
काव्य-विवेचन हिं सा स १५०  
केशव और उनकी रामचंद्रिका अशोक प्र ७००  
दिनकर और उनका कुरुक्षेत्र अशोक प्र ३५०  
दिनकर और उनकी उर्वशी अशोक प्र ७५०  
देवता हार गए. उमेश २.०० वप्र  
निराला और उनकी अपरा अशोक प्र ४५०  
पत और उनका रश्मिबंध अशोक प्र ३५०  
पाश्चात्य काव्य-सिद्धांत हिं सा स ४००  
पृथ्वीराज रासो ३ अध्याय अशोक प्र ३५०  
प्रमुख कवियों की काव्य-साधना अशोक प्र ३.५०  
बाणभट्ट की आत्मकथा समीक्षा अशोक प्र २५०  
भारतीय एव पाश्चात्य काव्य-सिद्धांत. हिं सा स. ६५  
भारतीय काव्य-सिद्धांत हिं सा स ३००  
भाषा का इतिहास हिं सा स २५०  
महादेवी वर्मा अशोक प्र २५०  
मीरा की काव्य कला अशोक प्र २५०  
मीरावाई और उनकी पदावली सटीक अशोक प्र ५००  
रघुवंश त्रयोदश सर्ग सटीक हिं सा स १००  
रत्नाकर और उनका उद्धवशतक अशोक प्र २.५०  
विद्यापति और उनकी पदावली. हिं सा स १८.००  
विद्यापति की काव्य-साधना हिं सा स ५००  
सरल निबंध रचना हिं सा स १५०  
सुमित्रानंदन पत अशोक प्र ३००  
हिंदी कवियों की समालोचना हिं सा स (पा.) १००  
हिंदी-काव्य-संग्रह हिं सा स ३५०  
हितोपदेशस्य मित्रलाभ हिं सा स १.२५  
—तथा दानबहादुर पाठक जायसी एक विवेचन. हिं सा  
स ५००  
भातखंडे, विष्णुनारायण उत्तर भारतीय संगीत का संक्षिप्त  
इतिहास अनु अरुणकुमार सेन संगीत २००  
क्रमिक पुस्तक मालिका संगीत भा १ १००, भा २  
८००, भा ३. १२००, भा ४. १२.००, भा. ५.  
८००, भा ६ ८००  
भातखंडे संगीत पाठशाला भा १. संगीत १२५  
भातखंडे संगीत शास्त्र संगीत भा १ ५००, भा २.  
६००, भा ३ ६००, भा ४ १५००  
संगीत-पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन अनु भगवतशरण  
जर्मा संगीत २५०  
स्वरमालिका संगीत २००  
भादानी, हरीश, १९३५- सपन की गली जुही कुज. ३००  
का  
हसिनी याद की सूर्य प्र म २५० का  
भानु दे श्रीलाल 'भानु'  
भानुदत्त. हिंदी रसमजरी व्या जगन्नाथ पाठक चौखन्ना ५.००

भानुप्रताप सिंह न्यायशास्त्र निगमन कि महल ३००  
 भानुप्रताप सिंह दे सतबहादुर सिंह  
 भानुशाली, सी वी, सपा रजतपट के प्रणय गीत हि प्रचा  
 पु (पा) १००  
 भामह, आचार्य काव्यालकार अनु देवेद्रनाथ शर्मा वि राष्ट्र  
 ५००  
 भारत सूचना और प्रसारण मंत्रालय प्रकाशन विभाग अकबर  
 लेखक विनियोन प्र विभाग १७५  
 अशोक के धर्म लेख प्र विभाग १००  
 आकाशवाणी विविधा - १९६२ प्र विभाग ३५०  
 आजादी के सत्रह कदम (नेहरूजी के स्वतंत्रता दिवस के  
 भाषण) प्र विभाग १००  
 आदर्श विद्यार्थी बापू प्र विभाग ०४० वप्र  
 उथल पुथल का युग लेखक गोविन्ददास प्र विभाग ३००  
 कमल और केतकी प्र विभाग ०७५ वप्र  
 कला और साहित्य प्र विभाग १००  
 खीर की गुडिया प्र विभाग ०५० वप्र  
 गुरुदेव रवींद्र नाथ लेखक क्षितीशराय प्र विभाग २५०  
 गुजे जय जय कार प्र विभाग १००  
 चिडियो का दरवार प्र विभाग १५० वप्र  
 जातक कथाए प्र विभाग भा १ ०७५, भा २ १००  
 वप्र  
 तीसरी पंचवर्षीय योजना (संपूर्ण) प्र विभाग ७५०  
 दादा भाई नौरोजी प्र विभाग २००  
 नेपालदे प्र विभाग १५० वप्र  
 देशवधु चित्तरजन दास प्र विभाग २००  
 देश विदेश की लोक-कथाए प्र विभाग ०७५ वप्र  
 धनुवा राजा प्र विभाग १५० वप्र  
 नवीन भारत का स्वरूप (चित्रो मे) प्र विभाग  
 ७५०  
 निहालदे प्र विभाग १५० वप्र  
 पश्चिम भारत की लोक कथाए प्र विभाग ०७५ वप्र  
 पुजारी जी का व्याह प्र विभाग १०० वप्र  
 पूर्व और पश्चिम की सत महिलाए प्र विभाग ३२५  
 विखरे मोती प्र विभाग १०० वप्र  
 भारत १९६३ प्र विभाग ३५०  
 भारत का इतिहास प्र विभाग ३०० वप्र  
 भारत के गौरव ४ भा प्र विभाग १२५ (प्र) वप्र  
 भारत के जगली जीव प्र विभाग ३०० वप्र  
 भारत तथ्य और आकडे प्र विभाग ३००  
 भारत मे अंग्रेजी राज लेखक सुदरलाल प्र विभाग ख १  
 ८००, ख २ ८००  
 भारत वाणी प्र विभाग १५०  
 भारतीय लोक-कथाए प्र विभाग वप्र  
 मनोरजन कहानिया प्र विभाग १०० वप्र  
 महात्मा गांधी (चित्रावली) प्र विभाग १०००  
 मेरी गंगा यात्रा लेखक आचार्य धर्मदेवनाथ प्र विभाग  
 १२५

राष्ट्रपति राजेद्रप्रसाद के भाषण (१९५२-५३) प्र विभाग  
 ३५०  
 रूसी-हिंदी शब्द कोष लेखक वीर राजेद्र ऋषि प्र विभाग.  
 ३५००  
 लखटकिया प्र विभाग ०७५ वप्र  
 सगठन मे वल प्र विभाग १०० वप्र  
 संपूर्ण गांधी वागमय प्र विभाग ख १-२ साधारण ३००,  
 सजिल्द ५५० (प्र), ख ३-१० ७५० (प्र)  
 समाज विज्ञान सिद्धांत और प्रयोग लेखक राजाराम शास्त्री  
 प्र विभाग ४५०  
 सरल पंचतंत्र २ भा प्र विभाग १०० (प्र) वप्र  
 सरल साज समान से वैज्ञानिक प्रयोग प्र विभाग ६००  
 सुदर लोक-कथाए प्र विभाग ०७५ वप्र  
 हमारे वृक्ष प्र विभाग २५० वप्र  
 हीरे की लौंग प्र विभाग १०० वप्र  
 भारतदास, जे अपना भारत राजकमल ०७५ वप्र  
 अब हम आजाद है राजकमल ०७५ वप्र  
 आकाश मे देखे राजकमल ०७५ वप्र  
 चाचा की चमत्कारी पगडी राजकमल ६६० वप्र  
 नदी पर बाध राजकमल ०६० वप्र  
 वदर और भालू राजकमल ०६० वप्र  
 भारत के जानवर राजकमल ०७५ वप्र  
 वर्षा कहा है राजकमल ०६० वप्र  
 सबसे अच्छा पेड राजकमल ०६० वप्र  
 समुद्र का खजाना राजकमल १५० वप्र  
 भारतभूषण कथा कुज आर्य बुक २००  
 सागर के सीप आत्माराम ३५० का  
 भारतभूषण 'सरोज' आधुनिक तीन महाकाव्य (प्रियप्रवास,  
 कामायनी, साकेत, तीनों एक ही जिल्द मे) (प्रश्नोत्तर)  
 विनोद ३५०  
 उद्धव-शतक (रत्नाकर) (प्रश्नोत्तर) विनोद २५०  
 कवि प्रसाद अशोक प्र २५०  
 कामायनी (प्रसाद) (प्रश्नोत्तर) विनोद १००  
 छायावाद के दो कवि (प्रश्नोत्तर) रीगल २५०  
 जयहिंद निवधमाला. हि सा स ३००  
 जयसी (प्रश्नोत्तर) विनोद २५०  
 तुलसीदास (प्रश्नोत्तर) विनोद २५०  
 पत और आधुनिक कवि (प्रश्नोत्तर) रीगल २५०  
 प्रवध प्रदीप हि सा स ५५०  
 प्रियप्रवास (हरिऔध) (प्रश्नोत्तर) विनोद १००  
 पृथ्वीराज रासो आदि-पर्व हि सा स २२५  
 पृथ्वीराज रासो के दो अध्याय हि सा स ३५०  
 पृथ्वीराज रासो पद्मावती समय हि सा स १५०  
 बिहारी (प्रश्नोत्तर) विनोद २५०  
 भाषा विज्ञान स ११ विनोद २५०  
 भाषा-विज्ञान एव हिंदी भाषा का इतिहास हि सा स  
 २५०  
 भाषा-विज्ञान (प्रश्नोत्तर) विनोद २५०

महाकवि और उनका आधुनिक कवि (प्रश्नोत्तर). रीगल २.५०  
 महात्मा कबीर. हि सा स २५०  
 साकेत (गुप्त) (प्रश्नोत्तर) १५०  
 साहित्यालोचन (प्रश्नोत्तर) विनोद २.५०  
 साहित्यिक निबन्ध हि सा केन्द्र ७५०  
 साहित्यिक वाद अशोक प्र एव हि सा. केन्द्र २२५  
 सूरदास एक अध्ययन (प्रश्नोत्तर) रीगल २५०  
 हिंदी साहित्य का इतिहास हि सा स २५०  
 हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास हि सा स १.१५  
 —तथा सुरेशचन्द्रगुप्त काव्यशास्त्र हि सा केन्द्र ५००  
 भारतभूषण 'सेवक' मित्रता और बलिदान पुष्पी ०७५  
 भारती. दे जयप्रकाश 'भारती'  
 भारती. दे धर्मवीर भारती  
 भारती. दे. पुष्पा 'भारती'  
 भारती. दे प्रकाश 'भारती'.  
 भारती. दे. रमेश भारती  
 भारती. दे रामचन्द्र भारती.  
 भारती, सु तथा ना रा पिल्लै. कविश्री-माला . तमिल राष्ट्र.  
 प्रचा समि २००  
 भारती भक्त दे महेशनारायण 'भारतीभक्त'.  
 भारतीय प्रसिद्ध उडाके नद ब्र एव नद स ०.७५  
 लेखनी उठाने से पूर्व कि महल २००  
 विश्व की कहानी नद ब्र. एव नद स १५०  
 भारतीय. दे पकज भारतीय  
 भारतीय दे भवानीलाल भारतीय  
 भारतीय. दे हरिश्चन्द्र भारतीय  
 भारतीय प्रौढ शिक्षा सघ आधारभूत शिक्षा भा प्रौढ १६५  
 ऋषिकेश सेमीनार की रिपोर्ट भा प्रौढ १००  
 ग्रामीन महिला और विकास कार्य भा. प्रौढ ०५०  
 जनता कालेज की व्यवस्था और कार्य भा प्रौढ ०५०  
 नव शिक्षित प्रौढों के लिए साहित्य का निर्माण भा. प्रौढ.  
 १५०  
 नव-साक्षरों के लिए पत्रिकाएँ—सपादकीय प्रणालिया भा.  
 प्रौढ २.००  
 प्रौढ और आधारभूत शिक्षा के लिए पुस्तकालय भा. प्रौढ  
 २.५०  
 प्रौढ-शिक्षा भा. प्रौढ २००  
 प्रौढ-शिक्षा में सामाजिक और राजनीतिक उत्तरदायित्व. भा  
 प्रौढ २५०  
 मजदूर शिक्षा और तकनीक प्रणालिया भा प्रौढ ०७५  
 लोक-प्रिय साहित्य सामग्री की व्यवस्था भा प्रौढ ५००  
 समाज शिक्षा कार्यकर्ताओं की समस्याएँ और हल भा प्रौढ  
 १५०  
 समाज शिक्षा में मनोरंजन व सांस्कृतिक कार्य. भा प्रौढ.  
 ०७५  
 सहकारीसमितियाँ और आधारभूत शिक्षा भा प्रौढ २५०  
 सामुदायिक विकास में प्रौढ शिक्षा. भा प्रौढ. ०.५०

स्त्रियों की नागरिक शिक्षा भा प्रौढ २००  
 भारतेदु, बनवारीलाल दे. तैलग, गोकुलानंद  
 भारतेदु हरिश्चन्द्र, १८५०-१८८५ कर्पूर-मजरी नाटक. विनोद.  
 १२५  
 ग्रथावली सपा ब्रजरत्नदास ३ भा ना प्र सभा भां १.  
 (ना) १०००, भा. २ (का) ११००, भां. ३ (नि.)  
 ११००  
 चद्रावली नाटिका सपा वीरेन्द्रकुमार शुक्ल रां वेनीप्रसाद.  
 १२५, — —विनोद १५०, — —हि. सा स १५०  
 नीलदेवी हि पु ए १०० ना  
 नीलदेवी नाटक सपा हरिश्चकर अग्रवाल रा वेनीप्रसाद  
 ०२५  
 भारत दुर्दशा विनोद ०७५ ना  
 भारत दुर्दशा सपा लक्ष्मीसागर वाष्णैय विश्वविद्यालय.  
 १०० ना  
 भारतेदु नाटिकावली २ भा रां वेनीमाधवं ३०० (प्र)  
 मुद्राराक्षस रा वेनीमाधव १७५ ना, — —हि पु. ए  
 २७५, — —हि भवन. २००  
 मुद्राराक्षस नाटक विनोद १५०  
 श्री चद्रावली नाटिका सपा लक्ष्मीसागर वाष्णैय.  
 विश्वविद्यालय १५० ना  
 सत्य हरिश्चन्द्र इ प्रे ०५० ना  
 सत्य हरिश्चन्द्र नाटक विनोद १.००  
 सत्य हरिश्चन्द्र टीका गुलावराय सा रत्न भ १०० ना.  
 सत्य हरिश्चन्द्र नाटक सपा जीवनशकर याज्ञिक तथा केंदरनाथ  
 भट्ट रा वेनीप्रसाद. १००  
 भारद्वाज नीला एक लडकी स्टार (पा) १०० उ.  
 प्यासे पत्थर पजात्री पु २०० उ, — —स्टार (पां)  
 १००  
 सरल शिक्षा सिद्धांत शिक्षण कला विनोद ४००  
 भारद्वाज, आर एस दे वार्ड, बारवारा  
 भारद्वाज, एल पी इतिहास शिक्षण गयाप्रसाद  
 गाधी जीवन की भाकिया ३ भा राष्ट्रीय प्र मंदिर ३.००  
 बप्र  
 ग्राम युवक सघठन स ३ राष्ट्रीय प्र मंदिर ०५०.  
 बप्र.  
 चल मेरे मटके टम्मकटम् स २. राष्ट्रीय प्र मंदिर. १.५०  
 बप्र.  
 भारद्वाज, ओमप्रकाश तथा अमरनाथ कर्पूर हायर सैकंडरी  
 भूगोल. एस चांद भा १४.५०, भा. २ ५५०  
 भारद्वाज, कृपाशकर काच के पुतले नवयुग प्र ५.००. उं.  
 चांद की चांदनी नवयुग प्र ५.०० उ.  
 डूबती नजरे नवयुग प्र. ५०० उ  
 यह मजिल अनजानी अशोक पा १.०० उ  
 सूने मेले अगोक पा १.००. उं  
 भारद्वाज, कृष्णादत्त बोलगीत ओरिएटल ०७५. बप्रं.  
 वनमाला ओरिएटल. १५०  
 भारद्वाज, चद्रप्रकाश. दे. वशिष्ठ, रामस्वरूप.

भारद्वाज, दिनेशचन्द्र पाठशाला प्रबन्ध सशो स २ विनोद ३५०  
 भारतीय सस्कृति का इतिहास विनोद ६७५  
 शिक्षण-कला (प्रश्नोत्तर) विनोद ५००  
 शिक्षण विधिया विनोद ५००  
 सरल शिक्षा मनोविज्ञान विनोद ४००  
 स्वास्थ्य विज्ञान सशो स २ विनोद ३००  
 हिंदी भाषा शिक्षण (प्रश्नोत्तर) विनोद ३००  
 भारद्वाज, पी डी दे सिंह, आर एन  
 भारद्वाज, रामदत्त काव्य-शास्त्र की रूपरेखा सूर्य प्र ७००  
 गोस्वामी तुलसीदास व्यक्तित्व, दर्शन, साहित्य एस चाद १८००  
 तुलसी और उनके काव्य सूर्य प्र १०००  
 रत्नावली गंगा ३५० आ  
 —तथा अन्य ऋतभरा भा सा सदन ३५० का  
 भारद्वाज, लक्ष्मणप्रसाद तीर्थराज प्रयाग सस्ता ०४० वप्र  
 पाटिलपुत्र सस्ता ०४० वप्र  
 भारद्वाज, विश्वनाथशास्त्री विक्रमाक देव चरितम् महाकाव्यम्  
 भा १ काशी हिंदू ८००  
 भारद्वाज, शिवप्रसाद महापुरुष चरितावली (सस्कृत) सूर्य प्र ३०० जी  
 भारद्वाज, श्याम स्वतंत्रता और शिक्षा अभिताभ १५०  
 भारद्वाज, श्यामबिहारी लाल व्यवहृत मनोविज्ञान सरस्व प्रे ६००  
 भारद्वाज, श्रीकृष्णदत्त चार अभिनव एकाकी कि घर, ग्वा १७५  
 भारद्वाज, सत्यदेव तथा हीरालाल मैर सरल माध्यमिक सामान्य विज्ञान यग मैर ४५०  
 भारद्वाज, सी एल नागरिक शास्त्र परिचय पजावी पब्लि ३७५  
 प्रारम्भिक इतिहास की कथाये पजावी पब्लि १५० वप्र  
 भारत का राष्ट्र ध्वज पजावी पब्लि १०० वप्र  
 भारवि किरातार्जुनीय सस्ता ०४० वप्र  
 किरातार्जुनीयम् सपा कमलेशदत्त त्रिपाठी रा बेनीप्रसाद सर्ग १,२ १२५ (प्र)  
 भारिल्ल, ज्ञान. दे पादलिप्त, आचार्य  
 भारिल्ल, विज्ञान मुक्ताहार नवयुग प्र कु ३०० का  
 भार्गव, आर एन दे जैन, पी सी  
 भार्गव, एम एल सुगम गणना तालिका नद ब्र २००  
 —तथा जी. एस भार्गव नवीन आदर्श अकगणित नद ब्र. २२५  
 नवीन आदर्श रेखागणित नद ब्र २२५  
 भार्गव, कृष्णदयाल भगवान बुद्ध की शिक्षाए शिवलाल १५०. वप्र  
 भार्गव, के एस दे सक्सेना, आर के  
 भार्गव, गंगासरन तथा मनोहरलाल भार्गव हाईस्कूल रसायन शास्त्र नद ब्र ३२५  
 भार्गव, गंगासरन. दे. भार्गव, मनोहरलाल

भार्गव, गोपालस्वरूप साधारण विज्ञान-भौतिक शास्त्र रा बेनीप्रसाद १५०  
 भार्गव, जी एस दे भार्गव, एम एल  
 भार्गव, ज्योतिलाल वच्चो के वापू राष्ट्रीय प्र मडल एव राष्ट्रीय सा स १५०  
 मनुष्य का विकास गंगा १००  
 राष्ट्रीय गायन गंगा ०३७ का  
 सती की करामात राष्ट्रीय सा स १०० वप्र  
 स्वास्थ्य के लिए भोजन राष्ट्रीय प्र मडल एव राष्ट्रीय सा स २००  
 —सपा जव हम वच्चे थे राष्ट्रीय प्र मडल एव राष्ट्रीय सा स १२५ जी  
 साहित्यिको के स्मरण राष्ट्रीय प्र मडल एव राष्ट्रीय सा स ४००  
 भार्गव, दाऊदयाल सरल मुद्रा, विनिमय एव बैंकिंग गयाप्रसाद ५००  
 भार्गव, दीनानाथ 'दिनेश' उपनिषद्-ज्ञान ख १ मानवधर्म १००  
 —व्या गीताज्ञान स २ मानवधर्म २४००  
 श्री हरिगीता स ९ मानवधर्म २७५  
 भार्गव, दुलारेलाल दुलारे-दोहावली गंगा २०० का  
 भार्गव, दुलारेलाल दे लक्ष्मणसिंह, राजा  
 भार्गव, देवदत्त विश्व का आधुनिक भूगोल सरस्व प्रे ३७५  
 भार्गव, नरोत्तम, १९२६- हायर सेकडरी भौतिकी २ भा. अपर ६५० (प्र)  
 —तथा अहमद जाफरी प्रायोगिक भौतिकी अपर ४५०  
 भार्गव, नरोत्तम दे नकवी, अली इरशाद  
 भार्गव, नरोत्तम दे डे, पचानन  
 भार्गव, पृथ्वीनाथ आधुनिक कार्वनिक रसायन नद ब्र ५००  
 प्रायोगिक रसायन शास्त्र नद ब्र एव नद स १७५  
 माध्यमिक रसायन गणित नद ब्र एव नद स १७५  
 हाई स्कूल कृषि रसायन शास्त्र पूरक नद ब्र ०२५  
 भार्गव, वावूलाल काव्याग प्रकाश लोक चेतना ०७५  
 पद्य-प्रसून मिश्र-वधु २७५  
 भार्गव, मनोहरलाल तथा गंगासरन भार्गव हाईस्कूल भौतिक शास्त्र नद ब्र ३५०  
 भार्गव, मनोहरलाल दे भार्गव, गंगासरन  
 भार्गव, रतनलाल नियोजित परिवार सुखी परिवार गंगा १५०  
 भार्गव, राजेद्रनारायण आदर्श बीजगणित रा बेनीप्रसाद १००  
 नवीन आदर्श बीजगणित रा बेनीप्रसाद १६६  
 भार्गव, रामेश्वरनाथ तथा रामनारायण गोयल सक्षेप लेखन-कला. लक्ष्मी ना १२५  
 भार्गव, लज्जा ससार के महान् वैज्ञानिक प्रभात पब्लि २००  
 भार्गव, स्वर्ण भारत की आदर्श नारिया प्रभात पब्लि २००  
 भारत की विदुषी नारिया प्रभात पब्लि २००

भागवा, गोपानलाल. प्रारम्भिक बहीखाता कल्याणमन ४००  
 प्रारम्भिक व्यापार प्रणाली कल्याणमन. ४.००  
 भावमार, मोमाभाई. हमारे सरदार हि प्र म ० ७५ वप्र  
 भावे, वानकोवा. कब्ज और विकार दूर करने के उपाय. अ  
 भा सर्व ० २५  
 भावे, विनोवा, १८६५- अगोभनीय पोन्टसं. अ भा सर्व  
 ०.६०  
 अहिंसक शक्ति की खोज अ भा. सर्व ०.७५  
 आत्मज्ञान और विज्ञान अ. भा सर्व. १००  
 आरोग्यशास्त्र. अनाथ २०८  
 आश्रम-दिग्दर्शन. अ भा. सर्व. १.००  
 आश्रम प्रज्ञोपनिषद् अ. भा. सर्व १.००  
 उन्मानियत के भरने. सर्वोदय सा. ० ५०  
 ईशावास्यवृत्ति सस्ता ० ७५  
 ईशावास्योपनिषद्. सस्ता ० १२  
 उपनिषदों का अध्ययन सस्ता १००  
 एक वनो और नेक वनो अ भा सर्व ०.२५  
 कार्यकर्ता क्या करे ? अ भा सर्व ० ७५  
 कार्यकर्ता-पाथेय अ भा सर्व ०.५०  
 काश्मीर के बारे में. अ भा सर्व ० ५०  
 काल दर्शन. अ. भा सर्व १ २५  
 गांधीजी की श्रद्धाजलि सस्ता ० ३७  
 गाव मुन्वी, हम मुन्वी सस्ता ० ४० वप्र  
 गीता प्रवचन ग भा सर्व २००  
 गुणबोध अ भा सर्व १ ५०  
 ग्राम के लिए आरोग्य-योजना अ भा सर्व. ० १२  
 ग्रामदान नमो स अ भा सर्व १००  
 ग्राम-पचायत अ भा सर्व ० ७५  
 चीन भारत सीमा संधर्ष अ भा सर्व. ० ५०  
 जय जगत् अ भा सर्व ० ५०  
 जीवन और शिक्षण सस्ता २००  
 जीवन दृष्टि अ भा सर्व १ २५  
 ज्ञानदेव-चित्तनिका अ. भा सर्व. १००  
 जियेसी. अ भा. सर्व ०.५०  
 दानधारा अ भा सर्व १००  
 नगर-अभियान अ भा. सर्व २००  
 प्रेरणा-प्रवाह अ भा सर्व १ २५  
 भाषा का प्रश्न अ भा. सर्व ० २५  
 भूदान-सभा स ग अ भा सर्व. १ ५० (प्र.)  
 भूदान-सभा स ग अ भा सर्व. १ २५. — —सस्ता. ० २५  
 भाषा स ग भा सर्व १००  
 भैरव शास्त्र. अ भा सर्व ० ५०  
 भोक्तृत्व का पैमाना अ भा सर्व २ ५०  
 भाषा की गतिविधि के सस्ता ० ६२  
 भाषा-संज्ञा अ भा सर्व ० ३०  
 भाषा-संज्ञा स ग अ भा सर्व २००  
 विद्या-संज्ञा सस्ता १००  
 विनोवा की दोष-संज्ञा सस्ता. १ ५०

विनोवा के पत्र. अ भा सर्व २.००  
 विनोवा के विचार. २ भा. सस्ता ४००  
 गरीब विज्ञान. अनाथ २.८०  
 शांति-यात्रा सस्ता. १ ५०  
 शांति-सेना. अ भा सर्व ० ७५  
 शिक्षण-विचार. अ भा सर्व २ ५०  
 शुचिता से आत्मदर्शन अ भा सर्व ० ४०  
 सप्त शक्तिया. अ भा सर्व ० ५०  
 सर्वोदय का घोषणा-पत्र. सस्ता. ० २५  
 सर्वोदय के आवार. अ भा सर्व ० २५  
 सर्वोदय-पात्र अ भा सर्व ० ४०  
 सर्वोदय यात्रा अ भा सर्व १.००  
 सर्वोदय-विचार सस्ता १ १२  
 सर्वोदय-विचार व स्वराज्य-शास्त्र अ. भा. सर्व. १.२५  
 सर्वोदय-सदेश सस्ता १ ५०  
 साम्यमूत्र अ भा सर्व ० ३७  
 साहित्य का धर्म अ भा सर्व ० ५०  
 साहित्यको से अ भा सर्व १००  
 स्त्री-शक्ति अ भा सर्व १००  
 स्थितप्रज्ञ-दर्शन अ भा सर्व १००, — —सस्ता १ २५  
 स्वराज्य-शास्त्र सस्ता ० ५०  
 भावे, शिवाजी धर्म-सार अ भा सर्व. ० २५  
 धर्म-दान अ भा. सर्व ० २५  
 स्थितप्रज्ञ-शिक्षण अ भा सर्व ० २५  
 भास उरुभगम् सपा रामचंद्र युक्त ग वेनीमाधव १००  
 अथावली सपा हरदयालुनिह गयाप्रसाद २०० ना  
 तीन नाटक सस्ता ० ४० वप्र  
 भास के तीन नाटक अनु हरदयालु निह हि मा. सम्मे  
 ० ६२  
 भास नाटकावली हि प्रचा. पु १००  
 पचराज सस्ता ० ४० वप्र  
 प्रतिज्ञा योगधरायण सस्ता ० ४०. वप्र  
 प्रतिज्ञा योगधरायण अनु ब्रह्मदेव शास्त्री. श्री भा भारती.  
 १०० ना  
 प्रतिज्ञा योगधरायण अनु हरदयालु निह हि. मा. सम्मे  
 ० ७५ ना  
 प्रतिज्ञा योगधरायणम् सपा रामचंद्र युक्त ग. वेनीप्रसाद.  
 १ ५०  
 प्रतिज्ञा नाटक सस्ता ० ६० वप्र  
 प्रतिज्ञा नाटक अनु ब्रह्मदेव शास्त्री श्री भा भारती. ३ २५  
 प्रतिज्ञा नाटकम् अनु श्रीशान्तर शास्त्री. मोतीप्रसाद. २००  
 ना  
 स्वप्नयोगसस्ता ३ प्रे १०० ना — —सस्ता ० ६०;  
 — —अनु हरदयालु निह हि मा सम्मे. ० ६५  
 भासनाम-संज्ञा सस्ता सपा शक्तिविभा स ग वेनीप्रसाद  
 २ २५ — —सस्ता ३ भा सर्व ना वेनीप्रसाद २.२५  
 भासो वेदिक उन्मान सस्ता अनु सपा उरुभग शास्त्री अनाथ प्र.  
 २ ५० ना

नया आसमान नयी धरती अनु विश्वनाथ अय्यर अशोक प्र गृह ३५० ना  
 पनाह अशोक प्र गृह ए  
 पूजा अनु एस लक्ष्मण शास्त्री अशोक प्र गृह ३०० ना.  
 पैमाइशी पत्थर अशोक प्र गृह ना  
 भूखा हडताल-तोडक अशोक प्र गृह ना  
 भास्कर, दुर्गादास कुछ राग कुछ रग वोरा १७५ उ  
 भास्कर, वी तथा आर विद्यार्थी कम्प्यूनिस्टो का भविष्य विद्यार्थी नि  
 भास्करन नायर, के, १९१३- मलयालम साहित्य का इतिहास हि समि ४००  
 हिदी और मलयालम मे कृष्ण-भक्ति काव्य राजपाल १०००  
 भिक्खु दे शर्मा, कृष्णचंद्र 'भिक्खु'  
 भिखारीदास काव्य निर्णय सपा जवाहरलाल चतुर्वेदी. कल्याणदास १५००  
 ग्रथावली सपा विश्वनाथप्रसाद मिश्र भा १-२ ना प्र सभा १५००  
 भीखण, आचार्य नव पदार्थ अनु श्रीचद रामपुरिया जैन श्वेतावर १३००  
 भिक्षु ग्रथ रत्नाकर सग्रा मुनिश्री चौथमल जैन श्वेतावर ख १ २५००, ख २ २०००  
 शील की नववाड. अनु श्रीचद रामपुरिया जैन श्वेतावर. ८००  
 भीमसेन आदर्श कहानिया एस चाद १७५  
 गद्य-रत्न एस चाद १५०  
 भीमसेन विद्यालकार शिवाजी राजपाल २०० जी  
 भीमसेन शास्त्री विरजानद-प्रकाश भा प्राच्य २००  
 भुजवली शास्त्री, सपा कन्नड प्रातीय ताडपत्रीय ग्रथ सूची भा ज्ञानपीठ १३००  
 भुपतकर, प्रभुदयाल फागुन के दिन चार हि सा भ ४०० नि  
 भुवनेश्वरप्रसाद सिंह आदर्श भौगोलिक एटलस पु भ, रा १५०  
 भुवनेश्वर सिंह फैसला ग्रथालय १५० ना  
 भूकप दे इद्रसिंह 'भूकप'  
 भूदेव शास्त्री मातृभाषा का अध्यापन लक्ष्मी ना ३२५  
 भूदेव शास्त्री दे वशीधर शास्त्री  
 भूदेव शास्त्री दे सिंह, वी डी  
 भूप चौखटा अभिज्ञान २०० क  
 भूपेद्र स्नेही तथा गिरिराज सक्सेना हिदी के लोकप्रिय प्रणय गीत अशोक पा १००  
 भूरत्न सिंह तथा जे पी टडन अकार्वनिक रसायन श्रीराम मेहरा १२५०  
 भूरत्न सिंह दे वोकडिया, एम एम  
 भूवनेश्वरसिंह उत्तर विहार ग्रथालय ०३७ का  
 भूपण ग्रथावली सपा नारयाणदास खन्ना गगा ८००  
 भूपण सपा ब्रजरत्नदास रा वेनीमाधव २००

ग्रथावली सपा मिश्रवधु. ना प्रचा सभा ३००  
 ग्रथावली सपा रामलोचनशरणा पु भ १००  
 ग्रथावली सपा विश्वनाथप्रसाद मिश्र वाणी-वितान. ६००  
 शिवाबावनी और छत्रसाल दशक सपा वरजोर सिंह 'सरल' रा वेनीप्रसाद ०५० का  
 —तथा बधुरत्न चित्रकथा सर्वोदय सा ०७५ ब्र  
 भूषण, प्रो चद्रावली नाटिका हि सा स १५०  
 भूपण 'स्वामी' कविवर सुभिन्नानदन पत हि सा स २५०  
 प्रेममाधुरी और स्फुट कविताए हि सा स २५०  
 रस, छद और अलकार हि सा स ०७५  
 भृगुनाथ नारायण सिंह वैज्ञानिक साहित्य २ भा अशोक प्रे. ०५० (प्र). ब्र  
 भैयाजी बनारसी बनारसी रईस चौधरी २२५  
 रामभरोखा चौधरी २५०  
 भैयाराम, टीका विवाह पद्धति मोतीलाल २००  
 भैयालाल उपदेशी गायन सग्रह श्री भा. दिगवर ०३१  
 भैरव हिदी भाषा और लिपि (प्रश्नोत्तरी) हि सा भ १५०  
 भोजपुरी गरीब की आह कला-नि ३५०. उ  
 जेल का साथी कला-नि १२५. राजनीति.  
 भोपटकर, प्रभुदास सोने मे सुगंध हि सा भ ४००  
 भोलानाथ हिदी-साहित्य (१९२५-१९४७). हि सा परिषद्. ८००  
 भोलानाथ, कर्नल प्राथमिक चिकित्सा सर्वोदय ०५०  
 भोलानाथ सिंह स्वामित्व विसर्जन अ भा सर्व ०३५. ब्र  
 भोलासिंह तथा वी आर चारियर प्रारभिक गति विज्ञान नाँवल्टी ५००  
 प्रारभिक स्थिति विज्ञान नाँवल्टी ५५०  
 भोलासिंह दे भा, ताराकृष्ण  
 भोलासिंह दे विकन भगत  
 भोलेबाबा ज्ञान वैराग्य छदावली २ भा देहाती १२५  
 वेदातछदावली ५ भा देहाती २५०  
 भोसले तथा अन्य मराठी हिदी दीपिका बबई हि भा. १ ०६२, भा २ ०५०  
 भोसले, फणसीकर तथा गिरीश माथुर, पुष्पाजलि बबई हि ०६२ क  
 भोसले, बालकृष्ण भारती बोध बबई हि ०५० गद्य-पद्य  
 —सपा सरल एकाकी बबई हि ०५०  
 —तथा चि रा फणसीकर, सपा कहानी-सुधा बबई हि २००  
 —तथा माणिकचद जैन, सपा काव्य सुधा बबई हि ३००  
 भौतिका, गगाप्रसाद दे बाजोरिया, नारायणदास  
 भ्रमर क्रिकेट-प्रदर्शिका सा भवन, इ १२५ ब्र  
 भ्रमर दे. दिनेश 'भ्रमर'  
 भ्रमर दे रवींद्र भ्रमर.  
 भ्रमर दे रामकुमार 'भ्रमर'  
 भ्रमर दे रामयतनसिंह 'भ्रमर'

## म

मगतसिंह विना विजली का रेडियो म. २ रगभूमि १.००  
मगन, मतवाला तुलसी-युग आत्माराम १.२५  
मगलदेव. दे. कीथ.

मगलदेव शास्त्री. ऋग्वेद प्रातिशाख्यम् इ प्रे. ८.७५  
प्रवच प्रकाश ड. प्रे भा १ ४००, भा २. ५००  
भारतीय आर्यधर्म की प्रगतिशीलता इ प्रे ०.५०  
भारतीय संस्कृति का विकास भा ज्ञानपीठ  
रश्मि माला अथवा जीवन-सदेश-गीताजलि हि सा सम्मे  
३ ७५

गुभापित-सप्तशती सस्ता २५०  
मगलदेव शास्त्री दे शिवदत्त  
मगलायन, अशेष मधुरिमा चिनगारी १५० गीत  
मजुर हसन, अनु नीति निर्भर अ भा सर्व १२५  
मजुल दे. कवींद्र 'मजुल'  
मजुल दे राज मजुल  
मजुल दे. वाजपेयी, वेनीप्रसाद 'मजुल'  
मजू रानी. रसोई शिक्षा देहाती ०७५  
मजूला 'धीरदेव' पखटिया इ पव्लि १२५ वप्र.  
मभक्त. मधुमालती सपा माताप्रसाद गुप्त मित्र २०००  
मधुमालती. सपा शिवगोपाल मिश्र हि प्रचा पु ८००  
मडल, सपा साहित्य सरिता नाँवल्टी १७५  
मडल, अनूपलाल, १६००- अन्नपूर्णा कला-नि. ५२५ उ  
अभियान का पथ. ग्रथमाला ५५० उ  
आवारो की दुनिया कला-नि ३.५० उ.  
गरीबी के दिन कला-नि ४५० उ.  
ज्योतिर्मयी कला-नि. ३५०. उ  
रक्त और रग ज्ञानपीठ ५०० उ  
हिंदी काव्यालकार प्रवेशिका हि पु ए २००  
मडल, वीरेद्र डान कुश्कजोट की विचित्र कथाये. मुभाप.  
३००  
मथ्री, ना ह, सपा उत्तम पद्य. बवई हि १००  
—तथा नवनीतलाल रावल, सपा कथा रत्न बवई हि.  
१.२५. क.

मदाकिनो आधो गेले ओरिएटल ०७५ वप्र.  
यह दुनिया. ३ भा आत्माराम ३००. वप्र.  
मदनजी, नल्लुभार्त गाधी जी का किनेद नवजीवन ०६०  
गाधीजी के पावन प्रसंग नवजीवन भा १ ०३७, भा  
२. ०३७; भा ३ ०३५  
जीवन की नुवाण नवजीवन ०३७  
मगमूर ज्ञानधरी. दे फेज मगमूर 'मजुल'.  
मजीजा, तेमगज चारन नाद पधम नावा आत्माराम २५०  
मजूम जीवनी और सकलन राजपाल. १५०  
मजुल अथवा. मजुल. हि सा ५७५. उ  
मगल रावा नवनीत. आत्माराम ०००

मजवुर. दे कृष्ण 'मजवुर'  
मजरूह मुलतानपुरी. जीवनी और सकलन. राजपाल १.५०  
मजहर हुसन. बगदाद की लोक कथाए. २ भा सा .सेवक  
१.५०  
मजाज जीवनी और सकलन राजपाल. १.५०  
मजीठिया, सुदर्शनसिंह जसकोट का चित्रकार दि. पु. सा.  
४००  
सत-साहित्य. रूपकमल १६००  
मजुमदार, एम अर्थ-व्यापार शब्दावली. बुकलेड. १५०  
वारिणज्यिक पत्ररचना. बुकलेड २५०  
मजुमदार, प्रबोधकुमार भारतीय सेना का इतिहास. राष्ट्रीय प्र  
मदिर २०.००  
मजुमदार, विजयरत्न राजस्थान ग्रथमाला. १००  
मजुमदार, विमानविहारी अमेरिका ग्रथमाला. १००  
तुर्क-भारत. ग्रथमाला. १००  
देश-विदेश की शासन-पद्धति बुकलेड. १०.००  
पौराणिक भारत ग्रथमाला १००  
बौद्ध-भारत ग्रथमाला १००  
ब्रह्मदेश ग्रथमाला १००  
भारतीय शासन-पद्धति बुकलेड. ५००  
राजनीतिक विज्ञान के सिद्धांत. बुकलेड. ७.००  
मजूमदार, आर सी प्राचीन भारत मोतीलाल १२००  
मजूमदार, धीरेद्र ग्राम-भारती अ भा सर्व ०२५  
ग्राम-स्वराज्य क्यो और कैसे ? अ. भा. सर्व ०.१५  
नयी तालीम अ. भा. सर्व ०७०  
बुनियादी शिक्षा-पद्धति अ भा सर्व. ०६०  
शासनमुक्त समाज की ओर. अ भा सर्व ०.५०  
समग्र ग्रामसेवा की ओर अ. भा. सर्व. ख. १-२. ३.५०; ग  
३. २५०  
समग्र नयी तालीम अ भा. सर्व. १.२५  
स्वराज्य और उनकी समस्याएँ सर्वोदय सा. १.००  
मजूमदार, प्रबोधकुमार दे. वीम, राजगणर.  
मजूमदार, वी तथा. गौरखनाथ चौबे. नागरिक शास्त्र. रा  
वेनीप्रसाद २००  
मजूमदार, रमेशचंद्र प्राचीन भारत. अनु. परमेश्वरीलाल गुप्त.  
मोतीलाल. १२००  
मजूमदार, लीला, १६०८- कवि-कथा अनु. युगजीन नवन-  
पुरी. ना अकादमी. ०.५०  
मजूमदार, नयेंद्रनाथ. आधो देगा रत्न. आत्माराम. २.५०  
भ्रमण.  
दिवेकानंद चरित म ३ श्रीरामकृष्ण. ९.००  
मजूमदार. सुधीरचंद्र बड़े लोगो की बड़ी बातें. ज्ञानपीठ  
२००. जी.  
मटियानी, पैरेग, १६३१- अन्नमोग की लोक-कथाए.  
आन्मगम. १.५०  
एच कृष्ण लाल आन्मगम ०००. उ  
अन्नमगम आन्मगम २.५० उ.  
विष्णु नर्मदादेव, गढ़वाई. आत्माराम. २.५०. उ.



कुमाऊ की लोक-कथाए आत्माराम १५०  
 खासी को फासी आत्माराम २०० ए  
 चपावत की लोक-कथाए आत्माराम १५०  
 चिड़ीरसैन आत्माराम ४५० उ  
 चौथी मुट्टी आत्माराम ३०० उ  
 जयमाल हिंद पा १०० उ  
 डोटी-प्रदेश की लोक-कथाए आत्माराम १२५  
 तराई-प्रदेश की लोक-कथाए आत्माराम १२५  
 नैनीताल की लोक-कथाए आत्माराम १२५  
 वारामडल की लोक-कथाए आत्माराम १५०  
 बोरीवली से बोरीवदर तक आत्माराम ३५० उ  
 मुखसरोवर के हंस आत्माराम ४०० उ  
 मेरी तेतीस कहानिया आत्माराम ६००  
 वेला हुई अवेर आत्माराम २००  
 हौलदार आत्माराम ६०० उ  
 मतिराम ग्रथावली सपा कृष्णविहारी मिश्र गंगा ८००  
 ग्रथावली सपा कृष्णविहारी मिश्र तथा ब्रजकिशोर  
 मिश्र ना प्र सभा  
 रसरज टीका रामजी मिश्र चौखबा ७५०  
 मथुरादास त्रिकमजी मस्कुज नवजीवन १२५  
 मथुरादास पुरुषोत्तम खाद और पेड पौधो का पोषण अ भा  
 सर्व १००  
 मदन दे नदकिशोर 'मदन'  
 मदन, जी आर भारत मे सहकारी कृषि एव साधन एस  
 चाद ५००  
 मदनगोपाल अफ्रीका राजकमल २००  
 मदनविहारी वेल का वटवारा कल्याणदास ०७५ वप्र  
 मदनविहारीशरण 'दीप' दूर देश एक महल बनाए आनद पु,  
 वा १०० वप्र  
 भगतजी ने लड्डू खाए आनद पु, वा १०० वप्र  
 मीठी निदिया रानी आ आनद पु, वा १०० वप्र  
 सुनहला चूहा नारायण प्र १०० वप्र  
 मदनमोहन तथा कैलाशप्रकाश नियामक ज्यामिति केदार-  
 नाथ ३२५  
 मदनमोहन 'उपेद्र' ऊलभी अलके प्रगति १०० का  
 मदनमोहन राकेश दे मदान, इन्द्रनाथ  
 मदनमोहनलाल वडो की वाते गंगा १०० वप्र  
 मदनमोहन विद्यासागर आर्य सिद्धांत दीप गोविंदराम १२५  
 मदनलाल मदन दसूती कढाई देहाती २५०  
 सीमेट की जालियो के डिजाइन देहाती ६००  
 मदनावत, उजागरसिंह दे वशीधरसिंह  
 मदर्हदास पुरुदेवचपू सपा जिनदास शास्त्री भा ज्ञानपीठ  
 ०७५  
 मदान, इन्द्रनाथ, १९१०- अब्राहम लिंकन राजकमल १००  
 वप्र  
 आधुनिक, कविता का मूल्याकन हि भवन ६५०  
 आलोचना तथा काव्य राजपाल २५०  
 गद्यगाथा श्री मा भारती २.५० नि

जयशकर प्रसाद चिंतन व कला हि भवन ६२५  
 तृतीवाला राजपाल ०७५ वप्र  
 प्रेमचंद एक विवेचन स ३ राजकमल ३५०  
 प्रेमचंद चिंतन और कला सरस्व प्रे ५००  
 बूटो वाली मौसी हि भवन ०७५ वप्र  
 भगवान बुद्ध राजकमल १०० वप्र  
 मुंशी प्रेमचंद राजकमल १०० वप्र  
 लेनिन राजकमल १०० वप्र  
 शरच्चंद्र चिंतन व कला हि भवन २५०  
 सुगम तथा शास्त्रीय संगीत वसल २५०  
 हंस और गीता राजपाल ०७५ वप्र  
 हमारे गुरुदेव राजकमल १०० वप्र  
 हमारे नेहरू राजकमल १०० वप्र  
 हमारे बापू राजकमल १०० वप्र.  
 हिंदी कलाकार स ३ हि भवन ५५०  
 —तथा मदनमोहन राकेश अमर ज्योति हि भवन २.५०  
 जी  
 —सपा. उपन्यासकार अशक नीलाभ ५.००  
 काव्य-धारा आत्माराम ४५० का  
 मदारिया, मदनमोहन आज की लोक कथाए नेशनल १००  
 एक वासती रात नेशनल ३०० क  
 गुरुदेव रवींद्रनाथ बवई प्र १५० जी  
 ग्राम सेवक दल हि प्रचा पु २००  
 चार दीवारी लोक-चेतना २०० उ  
 दुनिया की दुनिया नेशनल २००  
 भारत माता की जनम पत्री कि. घर, ग्वा ०७५  
 सफलता के शिखर मानकचंद २५० वप्र  
 सूरज की धूप नेशनल १५० ए  
 मधु, कुमारी गुडिया का व्याह आत्माराम १०० वप्र  
 मधुकर गोदान कि घर, का २०० आ  
 चंद्रगुप्त कि घर, का. २०० आ  
 चंद्रावली नाटिका कि घर, का १५० आ  
 चिंतामणि कि घर, का २०० आ  
 भारतीय विचारधारा भा ज्ञानपीठ २००  
 मधुकर दे कृष्णमोहन 'मधुकर'  
 मधुकर दे त्रिपाठी, सरयूप्रसाद 'मधुकर'  
 मधुकर सिंह शाम से पहले पारिजात ३००. उ  
 मधुप दे शर्मा, योगेन्द्रनाथ 'मधुप'  
 मधुप दे श्यामलाल 'मधुप'  
 मधुर अप्सरा कल्याणदास १५० ना.  
 चित्र एक पहलू अनेक चौधरी ४००  
 सेवापथ सा साधना ३०० उ  
 मधुर दे ब्रह्मदेव 'मधुर'  
 मधुर दे रामनारायणसिंह 'मधुर'  
 मधुर दे शर्मा, केदार 'मधुर'  
 मधुर दे सहाय, रामसिंहासन 'मधुर'  
 मधुरमालती सिंह आधुनिक हिंदी काव्य मे विरह-भावना  
 आत्माराम १५.००

मधुरानी मधु भारती कड़ाई कला देहाती ४५०  
 मधूलिका प्राणो की प्यास. राजहस ३५०. उ.  
 मधोक, बलराज, १९२०- जीत या हार ? ओरिएटल  
 ४००. उ.  
 श्यामाप्रसाद मुकर्जी. ओरिएटल (अप्रा) ६०० जी  
 हिंदू राष्ट्र भा सा सदन १५०  
 मन, नारमन एल मनोविज्ञान. राजकमल १२.५०, १७५०  
 मनब्रता देवी नारी-धर्म शिक्षा काशी पु. २५०  
 मनमोहन धूप. मलेरिया मोतीलाल २२५  
 मनमोहन प्रसाद अकेक्षण बुकलेड ५००  
 वही खाते की भूमिका बुकलेड ६.००  
 लागत खाते की भूमिका. बुकलेड. ८५०  
 वाणिज्यविधि के तत्व बुकलेड १०००  
 सरल वाणिज्य विधि के तत्व बुकलेड ३००  
 मनमोहन सरल धनुष-बाण का पेड आत्माराम १.०० वप्र,  
 प्यास एक रूप दो रूपकमल. ३२५  
 भारतीय गौरव की कहानिया आत्माराम ४०० वप्र.  
 विज्ञान की कहानिया आत्माराम ५०० वप्र  
 साहस की कहानिया आत्माराम. ५०० वप्र  
 —तथा श्रीकृष्ण मिट्टी का काम. आत्माराम २००  
 —तथा सुरेश शुक्ल अर्वाचीन लोक-कथाए आत्माराम.  
 १.५०  
 —तथा योगेन्द्रकुमार लल्ला, सपा परियों की कहानिया  
 आत्माराम ५०० वप्र  
 भारत की कहानिया आत्माराम. वप्र  
 भारतीय गौरव की कहानिया आत्माराम. ४.०० वप्र  
 विश्व की कहानिया आत्माराम वप्र  
 सांस्कृतिक कहानिया आत्माराम ४०० वप्र.  
 —तथा श्रीकृष्ण, सपा प्रतिनिधि हास्य कहानिया आत्माराम.  
 १२५०  
 मनमोहन सरल दे श्रीकृष्ण  
 मनमोहिनी दे जैन, प्रकाश  
 मनसुखा नीति की ओर पूर्वोदय १.५० नि.  
 मनुदेव शास्त्री आधुनिक हिंदी साहित्य की रूपरेखा. श्री भा.  
 भारती १.६२  
 मनोज. माटी के बोल. यादव का  
 मनोज दे जानकीनाथसिंह 'मनोज'  
 मनोरजनसहाय हसते-हसते गगा १०० वप्र  
 मनोहर प्रभाकर अलकारिका कल्याणमल ०.६०  
 एक था बालक आशा पब्लि १.००  
 कथा सगम कल्याणमल २५० क.  
 कवितायन कल्याणमल १५० का  
 चद्रू की चौपाल कल्याणमल. १.२५ ए  
 जसमा तथा अन्य सगीत रूपक कल्याणमल २५०  
 दादी की बात आशा पब्लि. १००  
 पप्पू के गीत आशा पब्लि १००  
 वसता है गावो मे भारत. कल्याणमल. १५०. वप्र  
 मेघदूत (राजस्थानी अनुवाद). कल्याणमल. २००

रागरंग. कल्याणमल. १.५०. ए  
 राजस्थान की रस गाथाए. कल्याणमल. १.५०  
 लहरो की गोद मे कल्याणमल २.००  
 विंध्याचल की बेटी कल्याणमल. १२५. क.  
 मनोहर प्रभाकर दे दशोरा, भवरलाल  
 मनोहर प्रभाकर दे पनिकर, रजनी  
 मनोहरलाल. कला एक अध्ययन रा. वेनीप्रसाद ३.००  
 —तथा रामप्रसाद शास्त्री दे. महासेन  
 मनोहरलाल, एस. तथा भगवतीप्रसाद पाथरी. युग-पुरुष :  
 गाधी सा केद्र. ६.५०  
 मनोहरलाल, पी गृह-प्रवध तथा मातृकला रा. वेनीमाधव.  
 १००  
 मन्साराम. यूनानी चिकित्सा विधि मोतीलाल. ५००  
 यूनानी चिकित्सा सागर. मोतीलाल १०००  
 ममता, श्रीमती अवसाद इ प्रे १२५ का.  
 ममोरिया, सी बी. विश्व भूगोल आगरा बुक.  
 मम्मट काव्य प्रकाश भाष्य. आचार्य विश्वेश्वर सशो. स. २.  
 ज्ञानमडल १६००  
 काव्य प्रकाश (दशम उल्लास) सपा. तारिणीश भा. रा.  
 वेनीमाधव २००  
 मयक दे. चद्रपाल सिंह 'मयक'  
 मयूर. दे मिश्र, शिवकुमार 'मयूर'.  
 मलहोत्तरा, विजेनारायण सरल सामान्य विज्ञान. स. ३. कृष्णा  
 व्र ३५०  
 मलिक, योगेद्र. दे भाटिया, आर एल.  
 मलिक, सत्यवती. कश्मीर की सैर रणजीत १.५०  
 नारी हृदय की साध राजपाल २००. क.  
 वैशाख, की रात. मोतीलाल. १.५०  
 मलैया, आशालता सडको की कहानी आत्माराम. २.००  
 मलैया, के सी प्राचीन तथा नवीन शिक्षण विधिया.  
 राजकमल ३.५०, ५५०  
 दुनियादी शिक्षालय सगठन तथा स्वास्थ्य. राजकमल. ४.००,  
 ६५०  
 मानव समाज. राजकमल. ११०  
 शिक्षा सगठन. राजपाल ६००  
 समाज वाटिका स्टूडेंट्स स्टोर्स ४५०  
 मलैया, विद्यावती दुनियादी शिक्षा मे विभिन्न विषयो का  
 शिक्षण राजकमल ५००, ७००  
 भारतीय शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराए. राजकमल  
 ४५०, ५५०  
 मल्ल, विजयगकर आधुनिक कहानियां. नद व्र. एव नद स.  
 २५०  
 हिंदी काव्य मे प्रगतिवाद नंद व्र एव नद. सं २५०  
 हिंदी गद्य भारती नद व्र. १.७५  
 —तथा आचार्य आनंद हिंदी गद्य. विद्या म, वा २५०  
 —तथा राकेश गुप्त हिंदी निवध विद्या म., वा. २२५  
 —सपा आधुनिक गद्य विद्या म, वा. २५०  
 प्रतापनारायण ग्रथावली. ना. प्र. सभा १०.००

मल्ल, साधुशरण वाल मनोविज्ञान प्रवेशिका हि प्रचा पु.

२००

मल्लिक दे धेमचन्द्र 'मुमुन'

मल्लिक, गुल्दयाल गाधीजी और गुल्देव नवजीवन ०००

दिल की बात सा भवन, इ ३०० नि

मल्लिक गो चरित्र सपत्ति अ भा. सर्व ०७५

मल्लिक, गोपालकृष्ण राष्ट्रनूति राजेद्र वावू आनद पु, वा ३.५०

सतुलित गोपालन आनद पु वा ५००

मल्लिक, भीमसिंह प्रवध प्रवाह गुरदास ६.५०

मल्लिक, योगेद्र गेट विट्टेन का सविधान आत्माराम ४००

राजनीति-शास्त्र के मूल सिद्धांत आत्माराम १२००

सयुक्त राज्य अमेरिका का सविधान आत्माराम ४००

मल्लिक, योगेद्रकुमार हिंदी गद्य-विकास और इतिहास.

मुगीराम १५०

मल्लिक, सत्यवती सग अमिट रेखाए सस्ता ३५० जी

मल्लिकनाथ अरुपाली-आलोक नाँवली १२५

कुणालगीत-आलोक नाँवली १७५

कौमुदी महोत्सव-आलोक नाँवली १७५

गरुडध्वज-आलोक नाँवली २००

चारुमित्रा-आलोक नाँवली २००

चित्रलेखा-आलोक नाँवली १५०

छितवन की छाह-आलोक नाँवली २५०

तप्तगृह-आलोक नाँवली १.२५

दिनकरजी का कुरुक्षेत्र. नाँवली ४००

द्वारपर-आलोक नाँवली २५०

ध्रुवस्वामिनी-आलोक नाँवली १५०

नूरजहा-आलोक. नाँवली. १५०

पत्तजी का रश्मिवध नाँवली ४००

पथिञ्ज-आलोक नाँवली १२५

प्रियप्रवान-आलोक नवम सर्ग से अत तक नाँवली ३५०

प्रेमचंद की सर्वश्रेष्ठ कहानिया-आलोक नाँवली १७५

वालकाड (मूल सहित) नाँवली ३००

रक्षा-वधन-आलोक नाँवली २२५

रश्मिरथी-आलोक नाँवली. २००

राज्यश्री आलोक नाँवली १००

रूपांतर-आलोक नाँवली १२५

विजेता-आलोक नाँवली. १५०

सूरदास-आलोक नाँवली १२५

स्वप्नभग-आलोक नाँवली १५०

मल्लिकनाथ, टीका किरातार्जुनीय मोतीलाल. २००

मल्होत्रा, अमरनाथ धानेदार आत्माराम ५५० उ

मल्होत्रा, गोवर्धनलाल तथा गोविंद साहनी अर्थशास्त्र के

सिद्धांत रतन ५५०

मल्होत्रा, जगजीतकौर समाज की स्थापना पंजाबी पब्लि

६००

मशतवाला, कि घ गाधी-विचार-दोहन सस्ता १५०

मशतवाला, किशोरलाल ईशु ख्रिस्त. नवजीवन. ०.६२

गाधी और साम्यवाद नवजीवन १.२५

गीता-मयन नवजीवन ३००

जडमूल से क्रांति नवजीवन १५०

जीवन-शोधन नवजीवन ३००

तालीम की बुनियादे नवजीवन २००

निर्भयता नवजीवन ०१६

भावी भारत की एक तस्वीर नवजीवन ०.५०

शिक्षा का विकास नवजीवन १२५

शिक्षा में विवेक नवजीवन. १५०

सत्सार और धर्म नवजीवन २५०

स्त्री-पुरुष-मर्यादा नवजीवन १७५

मत्सानी, आर पी विन्व सद्भावना के लिए शिक्षा नद ब्र

एव नद स ३००

मत्सीउज्जमा, सपा दाग की शायरी प्रचा पा १.००

मत्सीह पारश्चात्य दर्शन की समीक्षात्मक व्याख्या स २.

मोतीलाल ६२५

मनोविरलेषण और फ्रायडवाद की रूपरेखा मोतीलाल ५.००

सामान्य मनोविज्ञान सगो स ३ मोतीलाल ८५०

मत्सीह तथा दे वालमनोविज्ञान पु भ ४५०

मस्त दे चतुर्वेदी, देवीदयाल 'मस्त'.

महत रोशनपुरी मानस करण मानस सघ १.००

महताव दे सत्यप्रकाश 'महताव'.

महताव, हरेकृष्ण अगला कदम आत्माराम. १.२५ राज.

महतो, मोहनलाल 'वियोगी', १९०२- अतीत के चित्र.

राजहस ४०० उ

आर्यावर्त ग्रथमाला ३०० का

एकतारा पु भ २०० का.

एकाकी. छात्रहितकारी ३००. उ.

कसाई ज्ञानपीठ २०० ना

जातक-कालान भारतीय सस्कृति वि राष्ट्र. ६५०

डाडी-यात्रा पु भ १२५. ना.

नया युग नया मानव राष्ट्रीय प्र मडल एव राष्ट्रीय सा

स. ५००. उ

पथ विपथ. सा साधना ३००. उ

फरार छात्रहितकारी २५० उ.

वमेरा ग्रथमाला २०० उ

बिहार राजहस १७५

भाई-बहन ग्रथमाला २२५. उ

महामन्त्री राजपाल ४०० उ

महामानव छात्रहितकारी ४००. उ.

रजकरण ग्रथमाला १५०. क

विपपान छात्रहितकारी ३०० उ.

विसर्जन छात्रहितकारी २००. उ

वे दिन रा देनीप्रसाद ०७५. ना

शेषदान ग्रथमाला २०० उ

महरोत्रा, एन एन दे गर्ग, पी एन

महरोत्रा, वी एन वाणिज्य प्रणाली यूनियर्सिटी. ६.००

महरोत्रा, रामनारायण दे शेरी, जी पी.

महर्षि. ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका. आर्य सा ३.००  
 महागावकर, केशव धूप छाह गायत्री २०० क  
 महाति, काह्लूचरन का शिवलाल ४०० उ  
 महाती, गोपीनाथ. अमृत सतान अनु युगजीत नवलपुरी. भा.  
 भ १२.००. उ  
 महाजन आधुनिक सविधान एस. चाद ६००  
 —तथा सेठी. भारत का सवैधानिक इतिहास. एस. चाद १०००  
 —तथा अन्य. आधुनिक शासन-विधान. एस चाद १२५०  
 महाजन, पुष्पा घूमते नक्षत्र. सा. सगम, लु ५०० उ  
 महाजन, विद्याधर आधुनिक यूरोप का इतिहास (१७८६ से  
 आगे) एस चाद ११.००  
 इगलैड का इतिहास. एस चाद १०००. इति  
 दिल्ली सल्तनत का इतिहास एस चाद ६५०  
 प्राचीन भारत का इतिहास एस चाद. ११.००  
 मुस्लिमकालीन भारत एस. चाद १२००  
 श्री गाधी-चरित-मानस. हि भवन. ५ ६२. का.  
 महादेव प्रसाद गत्ता की कला. ४. भा नागरी प्र वप्र.  
 महार, दुर्गासिंह. आधुनिक कृषि कल्याणमल ४००  
 महाराज नारायण आदर्श महापुरुष भा २ कृष्णा व्र  
 ०.५०. जी.  
 महावीरप्रसाद चट्टान और धारा सा केद्र. ४०० उ.  
 युग की पुकार सा. केद्र ०.७५ का  
 सिद्धर का दान सा केद्र १००  
 महावीरप्रसाद गहमरी निष्कलकिनी ड प्रे ० ६२ उ  
 महावीरप्रसाद सिंह 'माधव' बूझो तो जाने कला-नि वप्र.  
 महाव्रत विद्यालकार दे गागरिन, यूरी  
 महासेन प्रद्युम्नचरित सपा मनोहरलाल तथा रामप्रसाद  
 शास्त्री भा. ज्ञानपीठ ०.५०  
 महीपर्सिंह, १९३०- सुवह के फूल आत्माराम ३०० क.  
 स्वामी विवेकानंद. विश्वेश्वरानंद ० ७५ जी.  
 —सपा. पजाबी की प्रतिनिधि कहानियां आत्माराम  
 महीपालसिंह दे मुख्तार हुसैन  
 महेदरनाथ दो फूल खिले राजकमल (पा) १०० उ.  
 महेदुलाल सुखमार्ग इ प्रे ० ५०  
 महेद्र, सपा भाषा-विज्ञान परिचय सशो स सा रत्न भ २५०  
 हिंदी आलोचना सिद्धात और विवेचन सा रत्न भ ४००  
 हिंदी उपन्यास . सिद्धात और विवेचन सा रत्न भ ५००  
 महेद्र, पृथ्वीचंद्र मित्रता ग्रथालय २०० ना  
 युग की प्यास ग्रथालय ४०० उ  
 महेद्र, मदनमोहन. भटकन रूपसी १.५० उ  
 महेद्र, रामचरण अमर आत्माए विश्वेश्वरानंद १ २५  
 अमृत के घूट गीता १००  
 आनंदमय जीवन. गीता ० ८१  
 आशा की नयी किरणें गीता १ २५  
 भलकिया ज्ञानमंडल एव भा प्र मडल ६.००  
 दुनिया तुम्हारी है विश्वेश्वरानंद ३ ३७  
 पृथ्वीराज रासो : प्रश्नोत्तरी सरस्व. पु. स. १.५०  
 प्रलय और सृष्टि विश्वेश्वरानंद २.००. ए.

यज्ञ का शाप. ज्ञानमंडल एवं भा प्र मडल. १००. ना.  
 श्री शभूदयाल सकसेना . व्यक्तित्व और कृतित्व ख १ नव-  
 युग प्र कु. ५००  
 ससार को चुनौती. विश्वेश्वरानंद २ ६२  
 सेठ गोविंददास नाट्यकला तथा कृतिया एस चाद ५.००  
 सोने की खान. ज्ञानमंडल एव भा प्र मडल १ २५. ना.  
 स्वर्ण-पथ गीता ० ७५  
 हिंदी नाटक के सिद्धात और नाटककार सरस्व पु स ४ ५०  
 —सपा. सूखे सतरे. विश्वेश्वरानंद १ ३७ ए  
 महेद्रकुमार. काव्य-कुसुमाजलि एस चाद २ ५०  
 ग्राम-विकास और बेसिक स्कूल रा वेनीप्रसाद ०.८०  
 मतिराम कवि और आचार्य. एस चाद. १०.००  
 सस्कृति साहित्य का इतिहास हि सा स. ३००  
 महेद्रकुमार दे प्रभाचंद्राचार्य  
 महेद्रकुमार दे भट्ट अकलक  
 महेद्रकुमार दे भट्ट अकलक तथा अनंतवीर्य  
 महेद्रकुमार. दे. भट्ट अकलक तथा वादिराज सूरि  
 महेद्रकुमार दे. श्रुतसागर सूरि  
 महेद्रकुमार 'मुकुल' गाव जाग उठे ज्ञानमंडल प्र १.२५. ना.  
 धरती का बेटा. सा सगम, ग्वा ०.७५ ए  
 महेद्रकुमार, मुनिश्री 'प्रथम', १९३०- अक-स्मृति के प्रकार.  
 आत्माराम १००  
 अगुव्रत की ओर २ भा आत्माराम २०० (प्र.)  
 जैन कहानिया ६ भाग. आत्माराम १ ५० (प्र)  
 महेद्रकुमार, मुनिश्री 'प्रथम' दे नगराज, मुनिश्री  
 महेद्रनाथ चादी के तार. नेशनल ३ २५ क.  
 रात अधेरी है नेशनल ४०० उ.  
 महेद्रप्रकाश सयुक्त राज्य अमेरिका का शासन कि महल. ४.७५  
 सोवियत सघ का शासन कि महल ३ ७५  
 स्विटजरलैंड का शासन कि महल. २ ५०  
 महेद्रप्रताप शास्त्री कुमारसभवम्. सर्ग १. रा वेनीमाधव.  
 १००  
 कुमारसभवम् सर्ग. ५ रा वेनीमाधव २००  
 महेद्र वाकलीवाल. राहे प्यार की रूपसी १ ५० उ.  
 महेद्र वावा. उलझे प्रश्न अधूरे उतर नवयुग प्र ५००. उ.  
 महेद्रसिंह रजना. भाग्योदय २००  
 हथकड़िया भाग्योदय उ  
 महेद्र दे प्रेमचंद्र 'महेग'  
 महेद्र दे. माहेश्वरीसिंह 'महेश'  
 महेगचंद्र अर्थशास्त्रीय विग्लेपण एस चाद. ४.००  
 महेशचंद्र 'नक्षत्र'. कलिया खिलकर फूल वनी है. आत्माराम.  
 १.५० का  
 महेगचंद्र सरल अन्न का देवता सरल १.२५  
 काटे सरल उ  
 चदा सूरज सरल. १ ५०. वप्र  
 जय और जीत सरल. १ २५ का.  
 ज्ञान सागर सरल १.०० वप्र.  
 देश देश के बालक. सरल ० ७५ वप्र.

धरती का वेटा सरल १२५ ना वप्र  
 नदी और पत्थर सरल ५००. उ  
 नया भारत सरल २००  
 परम सत्य सरल २०० क  
 बालू की दीवार सरल २५० क  
 मरुभूमि सरल उ  
 शिक्षाप्रद पौराणिक कथाएं सरल ०७५ वप्र  
 महेश 'तृषित' हमारी योजना देश की समृद्धि. नवचेतना  
 १००  
 महेशनारायण बडो से मिलने के विचित्र अनुभव कल्याणदास.  
 एव वि ग्र कु ३००  
 महेशनारायण 'भारती भक्त' दक्षिण की मीरा सस्ता.  
 महेशप्रसाद 'साधु' दे वर्मा, जगन्मोहन  
 महेश्वरदयाल १८५७ की दिल्ली एस चाद २५० ना  
 भक्ती रणजीत २५० ना  
 महेश्वरी, ओकारप्रसाद जगद्गुरु रतन २५० आ  
 महेश्वरी, भागीरथमल तथा आर पी. भँवर समतल रेखागणित  
 कृष्णा ब्र ३००  
 महेश्वरी, रमेशकुमार घडी की कहानी राजपाल २००  
 महेश्वरी यह भी दे माहेश्वरी  
 माटेसरी, मारिया नवयुग की शिक्षा एस चाद २००  
 माटेसरी, मेरी शिशु मनोविज्ञान प्रभात पब्लि  
 माड, तिवौर मै नेहरू से मिला राजकमल ३५०  
 माइकेल्सडीन, वेरा भारत में जनतंत्र के नवीन आदर्श अनु  
 राधेश्याम शर्मा मोतीलाल ५००  
 माइक्स, जॉर्ज आजादी का नाच पुष्पी १.२५ उ  
 माओ त्से-तुंग ग्रथावली भा २ पीपुल्स ३००  
 माकारेको, अ स जीवन की ओर ३ ख पीपुल्स ५८७  
 मा-बाप और बच्चे पीपुल्स २७५  
 मार्क्स, कार्ल, १८४८-१८८३ मजूरी और पूजी. पीपुल्स. ०५०  
 मजूरी, दाम और मुनाफा पीपुल्स ०६२  
 मार्क्स के भारत-संबंधी लेख पीपुल्स ११२  
 —तथा फ्रेडरिक एगोल्स कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा-पत्र  
 पीपुल्स ०७५  
 भारत का प्रथम स्वातंत्र्य संग्राम (१८५७-५८) पीपुल्स  
 ३००  
 माघ शिशुपाल-वध सस्ता ०४० वप्र  
 शिशुपालवधम् रा वेनीप्रसाद सर्ग १, २ २००  
 माचवे, प्रभाकर, १९१७- अनुक्षण भा ज्ञानपीठ. २००  
 का  
 असम राजहंस १७५  
 किसान की कहानी साहनी ०५० वप्र.  
 केरल राजहंस. १७५  
 खरगोश के सींग नीलाभ ३७५  
 गाव की कहानी साहनी ०५० वप्र  
 गोरी नजरो मे हम रामलोचन (पा) १०० उ  
 जो भा ज्ञानपीठ उ  
 तेल की पकौडिया भा ज्ञानपीठ २०० हा.

द्वाभा. सा भवन, इ २५० उ  
 वेरग नव सा. प्र २५० क  
 मराठी और उसका साहित्य राजकमल २.२५  
 महाराष्ट्र राजहंस १७५  
 महाराष्ट्र की लोक-कथाए भा २ आत्माराम १५०  
 व्यक्ति और वाङ्मय साहनी ७००  
 सतुलन आत्माराम ४५०  
 समीक्षा की समीक्षा साहनी ५००  
 साचा प्रचा पा १०० उ  
 स्वप्न भग सा भवन, इ २०० का  
 हिंदी और मराठी का निर्गुण सत काव्य चौखवा १२००  
 हिंदी साहित्य की कहानी ओरिएटल २२५  
 —तथा एस एच वात्स्यायन आज का भारतीय साहित्य सा  
 अकादमी ७००  
 माचवे, प्रभाकर दे देशपाडे, ए आर 'अनिल'  
 मादगूलकर प्रतिनिधि रचनाए भा ज्ञानपीठ ४००  
 माणिक, कालिदास तैरने की कला ज्ञानमडल ०७५  
 माणिक, हरिदास अनोखा बलिदान. चौधरी ४५०  
 बालचरो की बहादुरी चौधरी १.२५  
 वे जो शहीद हो गए चौधरी २००  
 स्वदेशाभिमान में बलिदान हिं पु ए १००  
 माणिकचंद्र नकटी नानी भा सा सदन ३२५. उ  
 नलिनी भा सा सदन ४०० उ  
 पगडडी और पहाड आर्य बुक एव आशा प्र ३०० उ  
 प्रगति की धूल भा सा सदन ५००. उ  
 विचित्र सन्यासी दि पु स ५००  
 माताप्रसाद तुलसी हिं सा परिषद २००  
 भारत का संविधान प्रभात प्र ३७५  
 विज्ञान प्रवेशिका. कि महल ३२५  
 माथुर विश्वविद्यालय सगठन एव स्वास्थ्य शिक्षा रस्तोगी  
 ६२५  
 माथुर तथा माथुर अनिवार्य माध्यमिक गणित कल्याणमल.  
 ४००  
 माथुर, अजितकुमार सामाजिक विघटन और अपराध शास्त्र  
 के उपादान सरस्व स ६००  
 माथुर, आर एन माडर्न इंगलिश रीडर कुजी विनोद २००  
 माथुर, उमिला फ्रूद प्रीजर्वेशन देहाती १२५  
 माथुर, ए बी जत्री पैमाइश चोव (नया हिसाब) देहाती  
 ३००  
 रेडियो गाइड. देहाती ६००  
 माथुर एम सी सरल अर्थशास्त्र गयाप्रसाद ३.००  
 माथुर, एम सी शर्मा, दे श्यामदत्त  
 माथुर, एल पी शरीर रचना, क्रिया और स्वास्थ्य विज्ञान  
 गयाप्रसाद २७५  
 माथुर, एस एस. शिक्षण-कला सशो स विनोद ७.००  
 शिक्षण सिद्धांत सशो स २/ विनोद ६००  
 शिक्षण सिद्धांत एव स्वास्थ्य शिक्षा रस्तोगी ५००  
 शिक्षा मनोविज्ञान सशो स. २. विनोद १२.५०

शिक्षा सिद्धांत. सशो स विनोद ७००  
 सामान्य मनोविज्ञान. विनोद ७००  
 माथुर, किशनचंद इलैक्ट्रिसिटी इंजीनियरिंग रतन एड क  
 ६००  
 माथुर, कृपाशंकर तथा अन्य मानव शास्त्र की रूपरेखा.  
 केदारनाथ १०००  
 माथुर, कृष्णागोपाल किससे क्या सीखे गगा ३००  
 वक्तृत्व-कला मिश्र-वधु २५०  
 माथुर, के. एन हमारा देश. लक्ष्मी ना ३००  
 माथुर, के वी एल तथा डी एस भटनागर राजनीति शास्त्र  
 के सिद्धांत. भा. २ शिवलाल ६००  
 माथुर, के सी सचित्र रेडियो गाइड रतन एड क ७००  
 माथुर, के सी 'देहलवी' दे इकबाल अहमद लायलपुरी  
 माथुर, गिरिजाकुमार, १९१६- जनम कैद भा ज्ञानपीठ  
 २५०. ना  
 धूप के धान स. २. भा. ज्ञानपीठ. ३००. का  
 गिला पख चमकीले सा भवन, इ ३५० का  
 माथुर, गिरीश भाषा प्रवेग बबई हि ०५०  
 —सपा पाकिस्तान की शायरी राजकमल ३५०, (पा)  
 १०० का  
 माथुर, गिरीश तथा म्हात्रे, सपा प्रसाद सुधा बबई हि  
 २०० का.  
 माथुर, गिरीश दे भोसले फणसीकर  
 माथुर, गिरीश दे मेद्रेकर, जेरूशा  
 माथुर, गिरीशचंद्र विश्व परिचय रामप्रसाद ३५०  
 माथुर, जगदीशचंद्र, १९१७- ओ मेरे सपने नीलाभ ३००  
 ए.  
 कोणार्क भा. भ. ३५०, विद्यार्थी स १५० ना  
 दस तस्वीरे राजकमल ६०० क  
 भोर का तारा नीलाभ ३२५ ए.  
 शारदीया सस्ता १५० ना  
 —तथा दशरथ ओझा, सपा नाटक-संग्रह क मु. हि  
 माथुर, जगमोहनलाल साय लोकप्रिय १७५ जीव-विज्ञान  
 माथुर, जे. एस वच्चो का ग्रामोफोन बनाना देहाती १२५  
 वच्चो का सिनेमा प्रोजेक्टर बनाना देहाती १.२५  
 वच्चो का स्टीम इंजन बनाना. देहाती १२५  
 सभी प्रकार के सस्ते रेडियो देहाती १२५  
 माथुर, जे सी भोर का तारा. पु भ १५०  
 माथुर, डी एस प्रारंभिक भौतिक विज्ञान एस चाद ४००  
 माथुर, तारादत्त. प्यासा लौट गया पनघट से पुष्पी ०७५.  
 उ, — —सुरेद्र २००  
 माथुर, नाथूलाल. सामाजिक ज्ञान सोपान कल्याणमल  
 २५०  
 माथुर, पी एन तथा ए सी जैन राजनीति दर्शन के प्रमुख  
 विचारक. गयाप्रसाद २५०, — —लायल भा १  
 २५०, भा २ २.५०, संपूर्ण स ५००  
 माथुर, पी. एस भारतवर्ष का इतिहास ३ भा लायल. भा  
 १. २.५०, भा. २-३

माथुर, प्रेमनारायण गाधी ग्रथ रा वेनीमाधव ५००  
 माथुर, प्रेमनारायण दे सक्सेना, शंकरसहाय  
 माथुर, वसंतकुमार विनीता. हिंदिया ६५० कथा  
 माथुर, वी एस तथा शची माथुर शिक्षण-प्रविधि. राजकमल.  
 ३००  
 माथुर, मोहनलाल प्रौढ शिक्षा के सिद्धांत कल्याणमल  
 २००  
 माथुर, रमेणचंद्र दे अग्रवाल, विमलादेवी.  
 माथुर, राजगोपाल दे हरीश नायक  
 माथुर, राजनारायण द्रव्य, विनिमय तथा वैकिंग का परिचय.  
 एस चाद ८००  
 माथुर, राजेंद्रकुमार बाजार समाचार एव पत्र व्यवहार आशा  
 पव्लि ३५०  
 माथुर, राय पी पी सामान्य ज्ञान सा सदन, दे २००  
 माथुर, वी एन होनहार बालक गाधी इ प्रे १५०  
 वप्र  
 माथुर, वी एस आधुनिक शिक्षा की समस्याए दि पु. स  
 २५०  
 शिक्षा की समस्याए इ पव्लि ३५०  
 माथुर, गकुत चादनी चूना सा भवन, इ ३०० का  
 माथुर, शची दे माथुर, वी एस  
 माथुर, सुरेद्र आधुनिक हिंदी काव्य—कृति और विधा हि सा.  
 भ ६०० नि  
 ध्रुवस्वामिनी एक अध्ययन हि सा भ १५०  
 हिंदी यात्रा-साहित्य का उद्भव और विकास सा प्र  
 १५००  
 माथुर, हरस्वरूप कथाकार प्रसाद सा नि, का २००  
 कर्मभूमि समीक्षा सा नि, का १७५  
 भारतीय साधना और सत तुलसी साहव सा. नि, का  
 मृगनयनी समीक्षा सा नि, का १७५  
 साधना साहित्य सा नि, का ५००  
 मादक गाव की ओर सा भवन, इ १०० वप्र  
 गाव की झाकी सा भवन, इ १०० वप्र  
 गाव के चित्र हि प्रचा पु १०० का  
 माधव स्वर्ग पद चढाई नेगनल ०७५ वप्र  
 रहीम के दोहे सस्ता ०४० वप्र  
 श्रीअरविद चरितामृत श्रीअरविद  
 माधव दे महावीरप्रसाद मिह 'माधव'  
 माधव दे मिश्र, भुवनेश्वरनाथ 'माधव'  
 माधवदेव दे शंकरदेव  
 माधवदेव, सत. नाम घोषा अमम ३.७५  
 माधवन, आनंदशंकर अनलजलाका अमरावती २०० लेख.  
 अनामत्रित मेहमान अमरावती १००० उ  
 चित्ररे हीरे अमरावती १००  
 हिंदी आंदोलन अमरावती २०० नि  
 माधवनिह दीपक गोलीमनोद हिंदिया २.०५ ना  
 तलवार की छाया. शारदा म ३०० उ  
 बोलती नहरे शारदा म ३००. उ.

रेत की आग हिंदिया २७५ उ  
 माधवी माधवानल कामकदला कि महल ०७५ बप्र  
 माधुरीदेवी चोलियो के डिजाइन देहाती २५०  
 मान, टॉमस, १८७५-१९५५ काला हस अनु. काशीनाथ मिश्र  
 रूपा ३०० उ  
 मानमलजी, मुनिश्री उषागीत आत्माराम १५०  
 मानव दे विश्वभर 'मानव'  
 मानस, जान एच जीवन रहस्य रूपकमल १५०  
 मानसहस अनमोल मोती हिंद पा १००  
 अमरवाणी हिंद पा १००  
 सतवाणी हिंद पा १००  
 मानिकचंद्र 'चित्रकार'. विचित्र सन्यासी लहरी ५०० उ  
 माम, सामरसेट तूलिका सहगल ५२५ उ  
 नहले पर दहला रणगीत ४५० उ  
 पतिता सा प्र ५०० उ  
 मन के वधन सा प्र ५०० उ  
 ममता के वधन कि महल ३०० उ  
 मामोरिया, चतुर्भुज, १९२१- एशिया का भूगोल सा भवन,  
 आ  
 भारत मे उद्योगो का सगठन, प्रबध एव वित्त सा भवन,  
 आ  
 —तथा एन के सुखवाल इगलैड का आर्थिक विकास स ३.  
 सा. भवन, आ ४५०  
 भारत का आर्थिक विकास (१८००-१९४७) सा भवन,  
 आ ५००  
 सयुक्त-राष्ट्र अमेरिका का आर्थिक विकास सा भवन, आ  
 ४५०  
 सोवियत सघ का आर्थिक विकास सशो स २ सा भवन,  
 आ ४००  
 मामोरिया, सी बी आधुनिक भारत का वृहत् भूगोल  
 गयाप्रसाद १८००  
 आर्थिक और वाणिज्य भूगोल गयाप्रसाद २०००  
 माया घर की सफाई आत्माराम २५०  
 माया कशीदाकारी देहाती २५०  
 हमारा उत्तरी सीमात सक्राति ३५०  
 मायादेवी आदर्श चरितावाली नद स १२५ बप्र  
 शबरी कौशाबी २०० का  
 मायादेवी दे दुर्गादेवी  
 मायारानी काव्य के रूप प्रश्नोत्तरी हि सा भ २००  
 मायूस दे श्रीकृष्ण 'मायूस'  
 मारकडेय, बाबूलाल टूटे तार जवाहर २०० क  
 मारडीकियन, जार्ज धरती का स्वर्ग ज्ञानमडल एव भा प्र  
 मडल २०० जी  
 मारलिया, अलवर्टो रोम की नारी पुष्पी ३५० उ  
 मारशैक, अलेक्जेंडर पृथ्वी और अतरिक्ष राजमकल (पा)  
 १५० विज्ञान  
 मार्कडेय पत्थर और परछाइया स २ नया सा प्र ३०० ए  
 पान-फूल नया सा प्र ३०० क., — —नर्वाहिद २५०

भूदान. स २ नया सा प्र ३०० क  
 महुए का पेड स २ नया सा प्र ३००. क  
 माही नया सा प्र ३५० क  
 सपने तुम्हारे थे नया सा प्र ३५० का  
 सेमल के फूल नया सा प्र १५०. उ  
 हसा जाई अकेला स ३. नया सा प्र ३०० क  
 —तथा यशपाल चलनी मे अमृत अपर ४५० उ  
 मार्कडेय सिंह प्रसाद का कथा-साहित्य आनंद पु, वा  
 ४००  
 मार्कडेय सिंह 'चिंता' शतदल और दीप हि सा सृजन १००.  
 का  
 मार्डेन, स्वेट, १८५०-१९२४ अपनी उन्नति आप कीजिए  
 हिंद पा १००  
 आगे कैसे बढे ? सुबोध प्र २२५  
 आगे बढने की कला अर्चना प्र (पा) १००  
 आगे बढो सन्मार्ग १५०, — —हि प्र म २००  
 आप क्या नही कर सकते ? सुबोध प्र २२५  
 चिंता-मुक्त कैसे हो ? सुबोध प्र २२५  
 जीवन और व्यवहार अशोक पा १.००, — —सहगल.  
 २५०  
 जैसा चाहो वैसा बनो हिंद पा १००  
 जो चाहे सो कैसे पाये ? सुबोध प्र २२५  
 ठीक विचारो अर्चना प्र (पा) १००  
 दिव्य जीवन सस्ता १५०  
 प्रभावशाली व्यक्तित्व हिंद पा १००  
 भय-मुक्त कैसे हो ? सुबोध प्र २२५  
 सफल कैसे हो हिंद पा १००  
 सफलता का रहस्य हिंद पा १००  
 हसते-हसते कैसे जिएं ? सुबोध प्र २२५  
 मालवणिया, दलसुखभाई आचार्य धर्मकीर्ति प्रमाणवार्तिकतर्गत  
 स्वार्थानुमान-परिच्छेद काशी हिंदू १५००  
 मालविका, विद्यावती अर्चना हि प्रचा पु २५० ना  
 बौद्ध कला-कृतिया हि प्रचा पु ३०० नि  
 मालवीय, उमाकात चदा की मा छात्रहितकारी ०७५. बप्र  
 बाजी रणभेरी सा भवन, इ ३०० का  
 मेहदी और महावर सा भवन, इ ३५० का  
 मालवीय, उमेश्वरप्रसाद पाश्चात्य दर्शन का सक्षिप्त परिचय  
 रा बेनीमाधव २७५  
 मालवीय, देवीप्रसाद नलोपाख्यान रा बेनीप्रसाद १५०  
 मालवीय, देवीप्रसाद, दे रामस्वरूप शास्त्री  
 मालवीय, नरोत्तम सनातन धर्म प्रवेशिका रा. बेनीमाधव  
 ०५०  
 मालवीय, पद्मकात रूवाइयाते सरमद नेशनल  
 —सपा मालवीयजी जीवन-भलकिया नेशनल ८००.  
 सस्म  
 मालवीयजी के लेख नेशनल ८००  
 मालवीय, बट्टीप्रसाद किरातार्जुनीयम् सर्ग १-२. रा. बेनीमाधव.  
 १५० (प्र)

मालवीय, ब्रजकिशोर, सपा जीव-रसायन कोश. हिं सा सम्मे  
६.००

मालवीय, मनोरमा वीरवल का बेटा आत्माराम. १००,  
——एस. चांद १.५० वप्र

मालवीय, रामचंद्र. सुगम संस्कृत व्याकरण. १.२५

मालवीय, रामेश्वर महामना मालवीय सस्ता ०.४० वप्र

—सपा. श्रेष्ठ कहानिया रा वेनीप्रसाद १७५

मालवीय, वी एन विष्णुधर्मोत्तर मे चित्रकला इ प्रे २००

विष्णुधर्मोत्तर मे मूर्तिकला इ प्रे ४००

मालवीय, सोमदत्त आइये सयुक्ताक्षर सीखे आत्माराम ३५०

मालवीय, हर्षदेव आखो देखा केरल पीपुल्स. ०.७५

भुन खलीफा एस. चांद ०.५०

ढुलकते-इक्के-पक्के आम एस. चांद २.५०

पुराने. एस. चांद. ०.५०

मुरली बादशाह एस. चांद ०.५०

रूस की यात्रा. एस चांद ४००

लाओ मामा एस चांद. ०.५०

वे एस. चांद ०.५०

शुग-मुग चुन एस चांद ०.५०

मालसिंह. अनधिकृत डगर प्रवेश एक्ट तथा नियम. नवयुग ग्र.  
कु ०७५

पचशील नवयुग ग्र. कु १००

राजस्थान पचायत कानून. नवयुग ग्र. कु. २.००

माली दे. गोविंद 'माली'.

मालीराम एडवान्ड एकाउन्टैन्सी लक्ष्मी ना.

भारतीय मुद्रा तथा बैंकिंग सशो. स ६ आगरा बुक ५.००

मुद्रा और बैंकिंग. सशो. स. ४ आगरा बुक. ७.५०

—तथा विशभर सहाय. राजस्व की सरल रूप-रेखा. आगरा  
बुक. २.७५

मावलकर, गणेश वासुदेव मानवता के भरने. सस्ता. १.५०  
जी

मेरा कालती जीवन. सस्ता ४००

मेरे सस्मरण सस्ता २५०

मैं वकील कैसे बना सस्ता

माहेश्वरी, एल एन. तथा विशनस्वरूप गुप्ता. नवीन आर्थिक व  
वारिण्य भूगोल. कृष्णा व्र. ६५०

माहेश्वरी, द्वारिकाप्रसाद कौच वध रा वेनीमाधव १००.  
का.

बढे चलो. राजकमल. १०० वप्र

माखन मिश्री रा वेनीमाधव ०७५ वप्र

मैं लिखूंगा गीत त्रिवेणी २००. का

माहेश्वरी, रमेश दे. श्रीकृष्ण

माहेश्वरी, रमेशकुमार. विश्व के त्योहार आत्माराम २५०

—अनु घडी की कहानी राजपाल. २.००

माहेश्वरी, शकरलाल करिका जुही-कृज २५०. का.

माहेश्वरी यह भी दे महेश्वरी.

माहेश्वरी सिंह 'महेरा' त्वावलवन. ग्रथमाला २.००

मिथुकोवा, म. मास्को विश्वविद्यालय के छात्र. पीपुल्स. ०.६४

मिखाइलोव न. न. सोवियत संघ • दुनिया का छठा भाग  
पीपुल्स ०.१२

मिचनर, जेम्स ए मानव का विनाश एस. चांद. ३७५

मित्तल, आर एस आओ, पुस्तकालय चले आत्माराम  
१००

मित्तल, एच आर. लोकास्ट हाउसिंग टैक्निक देहाती. ५.२५

मित्तल, एस सी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विदेशी विनिमय एव  
प्रशुल्क नीति सशो स २ ओरियन्टल पब्लि १२५०

अर्थशास्त्र के सिद्धांत ओरियन्टल पब्लि १५००

आर्थिक विचारो का इतिहास ओरियन्टल पब्लि १२५०

आर्थिक विश्लेषण एव नीति सा भवन, आ. ७००

एडवास्ड विजनैस इनकॉर्पोरेटिड ओरियन्टल पब्लि ११२५

नागरिक शास्त्र एव भारतीय सविधान (प्रश्नोत्तर)

गयाप्रसाद ३७५

नागरिक शास्त्र परिचय (प्रश्नोत्तर) गयाप्रसाद २.५०

मुद्रा एव अधिकोपण सा भवन, आ ५.६२

मुद्रा एव बैंकिंग सा भवन, आ ८७५, भा १. ४.५०

मित्तल, एस सी यह भी दे. मित्तल, सतीशचंद्र.

मित्तल, एस सी दे गर्ग, के एन.

मित्तल, एस. सी. दे ड्रविडि, जी जी

मित्तल, एस. सी. दे सिंघल, जे सी.

मित्तल, ओमप्रकाश. क्षय रोग : कारण और निवारण. प्रेमी  
प्र १.७५

मित्तल, चंद्रकला तथा नेमीशरण मित्तल. नागरिक शास्त्र के  
सिद्धांत और भारतीय सविधान यग मैन ७५०

भारतीय राजनीति का विकास तथा सविधान. यग मैन  
८७५

मित्तल, जगदीशचंद्र. उच्चतर माध्यमिक भूगोल की रूपरेखा.  
सुरेश ७.५०

मित्तल, जी एल माध्यमिक प्रयोगात्मक कृषि भौतिकी रतन  
२७५

मित्तल, जी. एल. दे गर्मा, ओ डी

मित्तल, नेमीशरण दे मित्तल, चंद्रकला.

मित्तल, प्यारेमोहन. नवीन हिंदी व्याकरण. जुगल किशोर  
०.४५

मित्तल, भगवानदास अखंड भाग्योदय दर्पण भृगु ज्योतिष.  
३.००

भाग्यवानो की कुडलिया. श्यामलाल ४००

भृगु संहिता पद्धति. श्यामलाल. १०००

विशाल भृगु संहिता पद्धति भृगु ज्योतिष. १०.००

विश्व के भाग्यवानो की कुडलिया भृगु ज्योतिष ४.००

शरीर नवांग लक्षण भृगु ज्योतिष १.५०

सर्वांग लक्षण श्यामलाल. २००

मित्तल, महेंद्र. ग्राम्य लोक-कथाए आत्माराम. १२५

भुन-भुन मटका आत्माराम १५० वप्र.

धुधली रेखाए. प्रभात प्र ३०० उ

नदिनी. प्रभात प्र ४५० उ

पूर्वी भारत की लोक-कथाए. आत्माराम. १.५०



भीगी पलके एस चाद २७५ उ  
 हिरण की चाल आत्मराम १०० वप्र  
 मित्तल, सतीशचन्द्र अर्थशास्त्र की रूपरेखा स १६६३ लायल  
 भा. १ २८०, भा २ २००, भा ३ ४००,  
 सम्पूर्ण स ७००  
 अर्थशास्त्र के सिद्धांत (प्रश्नोत्तर) लायल ४५०  
 आर्थिक विचारों का इतिहास (प्रश्नोत्तर) लायल ४५०  
 वाणिज्य अर्थशास्त्र रतन १७५  
 वित्त व्यवस्था (प्रश्नोत्तर) लायल ५००  
 —तथा विमला अग्रवाल नागरिक शास्त्र परिचय (प्रश्नोत्तर)  
 लायल १५०  
 नागरिक शास्त्र के सिद्धांत तथा भारतीय सविधान और  
 नागरिक जीवन (प्रश्नोत्तर) लायल ३७५  
 सरल अर्थशास्त्र परिचय (प्रश्नोत्तर) गयाप्रसाद एव लायल  
 ३७५  
 मित्तल, सतीशचन्द्र यह भी दे मित्तल, एस सी  
 मित्तल, सुधीर पराजिता दि पु स २५०  
 मित्तल यह भी दे मीतल  
 मित्र प्राणी विज्ञान ओरिएंट ४५०  
 मित्र दे रघुवीर शरण 'मित्र'  
 मित्र, के पी भारत वर्ष का इतिहास रा वेनीप्रसाद २५०  
 मित्र, गजेन्द्रकुमार, १९०६- कलकत्ता के नजदीक ही.  
 आत्मराम ७५० उ  
 मित्र, दीनबधु नील दर्पण अनु महादेव साहा मित्र ना  
 मित्र, प्रेमेश, १९०४- अधिकार राजपाल २००, (पा)  
 १०० उ  
 कुहासा राजपाल २५०, (पा) १०० उ  
 जुलूस सरस्व प्रे १५० उ  
 मित्र, विमल, १९१२- साहव, वीवी, गुलाम स ३ राज-  
 कमल ११०० उ  
 मित्रा, उपादेवी जीवन की मुस्कान नेशनल ४०० उ  
 नष्ट नीड नेशनल ४५० उ  
 पिया नेशनल ४५०, — —सरस्व प्रे ३०० उ  
 वचन का मोल नेशनल ३००  
 सम्मोहिता नेशनल ५०० उ  
 साध्य पूरवी रा वेनीमाधव १५० क  
 सोहिनी सरस्व प्रे ३०० उ  
 मिथिलेश प्रभाकर करकट दमनक रामप्रसाद ०८० वप्र  
 भारत के तीर्थ रामप्रसाद १५० वप्र  
 भारत के दुर्ग शिवलाल १५० वप्र  
 मिर्नैट, एम प्रकाश और वर्ण (का स्वरूप, खुली हवा में)  
 अनु भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव हिं समि ११५०  
 मिराशी, वासुदेव विष्णु कालिदास हिं ग्र र ५००  
 मिर्लिद भारत का सविधान भोपाल २००  
 मिर्लिद दे जगन्नाथप्रसाद 'मिर्लिद'  
 मिर्लिद दे रामानाथ मिर्लिद  
 मिर्लिद दे सत्यप्रकाश 'मिर्लिद'  
 मिश्र काव्य कलश भोपाल भा १ २५०, भा. २ ३५०

गद्य कलश भोपाल. भा १ १७५, भा २ ३००  
 जगि रहे वापू केर सपन (अवधी भाषा) राष्ट्रीय प्र, मंदिर  
 १२५  
 विश्व की महान आत्माए भोपाल ३.५०  
 —तथा प्रसाद हिंदी निबंध वुकलेड ५००  
 मिश्र, अखिलेश विचार और समीक्षा ज्ञानालोक  
 मिश्र, अनंत डगमगाते चरण अगोक पु म १५० उ  
 विश्व शांति और अगुवत आत्मराम १००  
 मिश्र, अनंत 'प्रबुद्ध'. मृत्युलोक राष्ट्रीय प्र मडल एव राष्ट्रीय  
 सा स १२५. उ  
 मिश्र, अनिरुद्ध स्वतंत्रता के आलोक में ग्रथालय २००  
 मिश्र, अर्जुन भारतीय दर्शन (प्रश्नोत्तर) मालवीय ६७५  
 मिश्र, अवधभूषण कुरुक्षेत्र स २ जवाहर १२५  
 गडबड गीत नागरी प्र वप्र  
 गुटुरु मेमना लगडू सियार नागरी प्र वप्र  
 विज्ञान गीत राष्ट्रीय प्र मंदिर ०६२ वप्र  
 मिश्र, अशर्फी धनकुवेर कारनेगी हि पु ए १५० जी  
 मिश्र, आत्मानंद, १९१३- अध्यापन-सूत्र गर्ग ब्र ०६२  
 जो है सो आत्मराम ४००  
 भूगोल शिक्षण-पद्धति सा नि, का ४२५  
 शिक्षण कला गर्ग ब्र ७००  
 —तथा मुमताजउद्दीन नमस्ते नद स २००  
 मिश्र, आद्याप्रसाद संस्कृत सुपमा रा वेनीमाधव १००  
 मिश्र, आनंद चंदेरी का जौहर आत्मराम २०० का  
 हिमालय के आसू राजपाल ४०० का  
 मिश्र, आनंदीप्रसाद रूस की प्रसिद्ध कहानिया इ प्रे १५०  
 सोने की खाल इ प्रे १५० क  
 मिश्र, इद्रशकर गहरि गहरि नदिया गहरानी नद ब्र एव  
 नद स १००  
 चिकोटी नद ब्र एव नद स १६४  
 मिश्र, उग्रनारायण आधुनिक ज्ञानोदय २०० उ  
 कल्पना ज्ञानोदय २०० क  
 निवधायन साधना म २५० नि  
 मानव ज्ञानोदय १०० ना  
 ससार प्रभात प्र १५०  
 हरिजन ज्ञानोदय ०५० ना  
 मिश्रा, उमा काव्य और संगीत का पारस्परिक संबंध दि  
 पु स १२५०  
 मजरिका एस चाद २०० क  
 मिश्र, उमापति दे गुप्त, रामेश्वरप्रसाद  
 मिश्र, उमेश भारतीय तर्कशास्त्र की रूपरेखा रा वेनीप्रसाद  
 १००  
 भारतीय दर्शन हिं समि ८००  
 लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटक सा भवन, इ ४००  
 विद्यापति ठाकुर हिंदु एकेडेमी ४०० जी  
 मिश्र, उमेशचंद्र अतीत के विसरे पन्ने श्रीराम मेहरा १००  
 उच्च जीवन श्रीराम मेहरा १२५  
 वचिता इ प्रे ३५०. उ

विश्व कवि रवीन्द्रनाथ इ. प्रे. ५.००. जी  
सफलता. श्रीराम मेहरा. १००  
मिश्र, ए. एन. मापक की रूपरेखा. कि. घर, का. ०३७  
मिश्र, एस. के. दे. श्रीवास्तव एस. एन.  
मिश्र, ओकारनाथ. ग्रामीण ज्ञानोदय. छात्रहितकारी १.७५  
मिश्र, ओकारनाथ. दे. आठे, वामन शिवाराम  
मिश्र, कन्हैयालाल 'प्रभाकर' आकाश के तारे. धरती के फूल  
स. ३ भा. ज्ञानपीठ २००. क.  
क्षण बोले कण मुसकाये भा. ज्ञानपीठ ३००  
जिदगी मुसकराई सं. २ भा. ज्ञानपीठ ४०० नि.  
दीप जले शख बजे भा. ज्ञानपीठ ३.०० जी.  
बाजे पायलिया के घुघरू स. २ भा. ज्ञानपीठ ४०० नि.  
महके आगन चहके द्वार भा. ज्ञानपीठ ४००.  
माटी हो गई सोना स. २ भा. ज्ञानपीठ २०० नि.  
मिश्र, कमलाप्रसाद आयुर्वेद विज्ञान मेडिकल ३५०  
मिश्र, कामताप्रसाद बायोकेमिक रेपर्टरी. मेडिकल ८००  
मिश्र, काशीनाथ. दे. मान, टॉमस  
मिश्र, कृपानाथ. बालको का योरप. पु. भ. १००. या.  
मरिणगोस्वामी. पु. भ. ०७५ ना.  
मिश्र, कृष्णकिशोर. भारतेदु काव्यादर्श प्रत्यूप ४००  
मिश्र, कृष्णकौर. श्रयक काव्य विष्णेश्वरानंद ३००  
मिश्र, कृष्णविहारी. आधुनिक हिंदी साहित्य (१९००-१९५०).  
एस. चाद.  
देव और विहारी गगा ५००  
—सपा मतिराम-ग्रथावली गगा ८००  
मोहन विनोद (मोहनसिंह). ना. प्र. सभा. १५०  
—तथा ब्रजकिशोर मिश्र, सपा मतिराम ग्रथावली ना. प्र.  
सभा.  
मिश्र, के. वी. निबध-निचय एस. चाद २.००  
मिश्र, केदारनाथ 'प्रभात' चिरस्पर्श राष्ट्रीय प्र. मडल एव  
राष्ट्रीय सा. स. १.५० का.  
पहिये की धुरी राष्ट्रीय प्र. मडल एव राष्ट्रीय सा. स.  
२७५ आ.  
वैठो मेरे पास राष्ट्रीय प्र. मडल एव राष्ट्रीय सा. स. ३००  
का.  
सवर्त्त पु. भ. २०० का.  
सत्य, शिव, सुंदरम् ज्ञानपीठ ०६२ वप्र.  
स्वर्णोदय ज्ञानपीठ १२५ ना.  
मिश्र, केशवचंद्र चंदेलवश और उनका राजत्वकाल ना. प्र.  
सभा ८००  
मिश्र, केशवप्रसाद सस्कृत सरणि नद. ब्र. भा. ११००,  
भा. २१५०  
—तथा पद्मनारायण आचार्य गद्य भारती नद. ब्र.  
३५०  
—तथा पीतावरदत्त बडवाल, सपा पद्य पारिजात ना. प्र.  
सभा १.२५  
मिश्र, गगाधर अमृत गीत राष्ट्र. प्र. म. २०० वप्र.  
आधुनिक कवियों की काव्य-साधना राष्ट्र. प्र. म.

कवि विद्यापति नद. ब्र. ४००. आ.; — — राष्ट्र. प्र. म.  
५००  
कुमारिका गीत राष्ट्र. प्र. म. ०२५ वप्र.  
नूतन ग्राम-गीत राष्ट्र. प्र. म. १९९ वप्र.  
पद्मह अगस्त राष्ट्र. प्र. म. २५० वप्र.  
प्रकृति गीत राष्ट्र. प्र. म. २.०० वप्र.  
प्रबध पारिजात राष्ट्र. प्र. म. भा. १२२५; भा. २.  
३०० नि.  
भारतीय यथार्थ एव रहस्यवाद राष्ट्र. प्र. म. १.५०  
मधुगीत राष्ट्र. प्र. म. २०० वप्र.  
युगाराध्य 'निराला' राष्ट्र. प्र. म. १०००  
राष्ट्रीय गीत राष्ट्र. प्र. म. २.०० वप्र.  
वही देश है राष्ट्र. प्र. म. १२०. वप्र.  
वैदिक भाषानुशीलन राष्ट्र. प्र. म. ४००  
शिशु गीत राष्ट्र. प्र. म. २०० वप्र.  
साहित्य-चिंतन राष्ट्र. प्र. म. भा. १.२२५, भा. २.  
२३० नि.  
साहित्य सम्राट तुलसीदास नद. ब्र., नद. स. एव  
राष्ट्र. प्र. म. ६००  
सैनिक गीत. राष्ट्र. प्र. म. २०० वप्र.  
हमारे गाव राष्ट्र. प्र. म. २२५ नि.  
हिंदी के प्राचीन कवियों की काव्य-साधना. राष्ट्र. प्र. म.  
३००  
हिंदी साहित्य का प्रामाणिक इतिहास राष्ट्र. प्र. म. ६.५०  
मिश्र, गगाप्रसाद आदर्श और यथार्थ. प्रभात पब्लि. २००.  
क.  
काटो का ताज नद. ब्र. एव नद. स. २५०  
बाहो के घेरे गरदन की मजबूरिया ज्ञानालोक. २५०. क.  
मिश्र, गगामहेश माध्यमिक कृषि विज्ञान रा. वेनीमाधव  
८००  
मिश्र, गगाशंकर भारत मे ब्रिटिश साम्राज्य. काशी हिंदू  
११००  
मिश्र, गौरीशंकर. कलियुग की कहानिया इ. प्रे. १.२५  
वल्लिदान-मंदिर इ. प्रे. २.०० उ.  
शवरी अछूत इ. प्रे. १.०० ना.  
मिश्र, गौरीशंकर 'द्विजेद्र', १९१३- नीलिमा. पु. भ. २००.  
का.  
सावित्री ग्रथमाला १.५० का.  
मिश्र, चंद्रनाथ दे. जैन, जीवनलाल  
मिश्र, चंद्रप्रकाश मारवाड गौरव बसल १२५. ना.  
मिश्र, चंद्रभानु प्रभाकर, अध्यापन सिद्धांत एव पद्धतिया हि.  
सा. भ. २५०  
अर्थशास्त्र शिक्षण-विधि हि. सा. भ. १.५०  
भूगोल शिक्षण-विधि. हि. सा. भ. २००  
हिंदी भाषा का इतिहास (प्रग्नोत्तरी) हि. सा. भ. २५०  
—टीका 'सचयन (मोहनलाल वाजपेयी) हि. सा. भ. २५०  
मिश्र, चंद्रशेखर धनानंद-कवित्त प्रथम शतक. नद. ४.००  
चितनकरण वारणी-वितान ४०० आ.

चिंताकण नद स २५०

साहित्य के रूप. नद स ४००, — — वाणी-वितान  
२००

मिश्र, चंद्रशेखर, रूपा घनानंद कवित्त शतक (प्रथम आनन)  
वाणी-वितान ४००

मिश्र, चंद्रिकाप्रसाद जातक कथाए कि घर, ग्वा २००  
नवप्रभात आत्माराम ०७५ वप्र

भगवान बुद्ध स २ बसल १२५ वप्र

मिश्र, चंपाराम कवितावली इ प्रे २७५

मिश्र, छविनाथ 'पागल' अगना फूले कचनार मिलन-मदिर  
३०० गीत

मिश्र, जगवहादुर काव्याग निर्णाय चौखवा १००

मिश्र, जगदीश ऊच-नीच किशोर प्र १५० ना

कहा से कहा किशोर प्र २२५ उ

नवरग किशोर प्र २५०. क

प्रगति की ओर किशोर प्र १५० ना

मिश्र, जगदीशचंद्र इंदिरा त्रिवेणी ३२५ उ

उडने के पख त्रिवेणी २०० कथा

और वह हार गई त्रिवेणी १७५ उ

खाली-भरे हाथ त्रिवेणी २०० कथा

गिरते-गिरते त्रिवेणी १०५० क

जय-पराजय त्रिवेणी २२५ क.

दुर्बल के पाव त्रिवेणी ६५० उ

देवदूत त्रिवेणी २०० ना

धूप-दीप त्रिवेणी २०० क

धूल के फूल त्रिवेणी ०७५ वप्र

पचतत्व त्रिवेणी ३५० कथा

पाषाण-नगरी त्रिवेणी २०० कथा

मौत की खोज त्रिवेणी ३२५ क

सीमा के पार त्रिवेणी १७५ उ

हाथी के दात त्रिवेणी ३००. उ

हीरे मोती त्रिवेणी १५० वप्र

मिश्र, जगदीशगरण रहस्यमय ककाल भा प्र मडल १००  
उ.

मिश्र, जगन्नाथप्रसाद अगस्त्य राजकमल ०७५ वप्र

दुर्वासा राजकमल ०७५ वप्र

परिधि के परे सन्मार्ग ४०० उ

मनुष्य की मर्यादा ग्रथमाला २७५

महान् मनीषी आत्माराम ३०० जी

विश्वामित्र राजकमल ०७५ वप्र

व्यास राजकमल. ०७५ वप्र

साहित्य की वर्तमान धारा ग्रथमाला २५०

मिश्र, जनार्दन गुरुदक्षिणा ग्रथमाला ०५० ना

भारतीय प्रतीक-विद्या वि राष्ट्र ११००

—सपा विद्यापति रा वेनीमाधन १५० का

मिश्र, जयकुमार अस्थिदान कला-नि २०० ना

मिश्र, जयदेव रेशमी गाठ हिं ग्र २ १०० ना

मिश्र, जयमत. काव्यात्ममीमासा. चौखवा

मिश्र, जयराम श्री गुरु ग्रथ दर्शन सा भवन, इ. ८००

मिश्र, जयराम, टीका नानक वाणी मित्र. ३०००

मिश्र, ज्योतिप्रसाद, सपा कहानिया हिं. भवन ३००

मिश्र, ज्योतिप्रसाद 'निर्मल' तथा यज्ञदत्त शर्मा सक्षिप्त हिंदी  
साहित्य हिं सा सम्मे १२५

—सपा पटेल अभिनदन ग्रथ अवध १०००

सम्मेलन निबधमाला हिं सा सम्मे २००

साहित्य-प्रवेश हिं सा सम्मे २००

मिश्र, ठाकुरदत्त अद्भुत मणि कि महल १५०. वप्र.

अनर्घ राघव कि महल १५० वप्र

अभिज्ञान शाकुंतल कि महल १५० वप्र

अभिषेक कि महल १५० वप्र

आस्ट्रेलिया इ प्रे ०५० वप्र

उत्तररामचारित कि महल १५० वप्र

कालिदास की कहानी इ प्रे ०५० वप्र

किरात और अर्जुन. कि महल ०७५. वप्र.

कौशिक का कोप कि महल १५० वप्र.

चारुदत्त कि महल १५० वप्र.

जादू की अगूठी कि महल १५० वप्र.

नवदुर्गा इ प्रे १२५ उ

नागानंद कि महल १५० वप्र

प्रतिज्ञा कि महल १५० वप्र

प्रतिमा कि महल १५० वप्र

प्रबोध का उदय कि महल १५० वप्र

प्रसन्न राघव कि महल १५० वप्र

प्रसिद्ध यात्रियों की कथा इ प्रे ०७५ वप्र.

बसतसेना कि महल १५० वप्र

मालविकाग्निमित्र कि महल. १५० वप्र

मुद्राराक्षस कि महल १५० वप्र

रघुवश कि. महल ०७५ वप्र

रत्नावली कि महल १५० वप्र

रामविजय कि महल १५० वप्र

विक्रम और उर्वशी कि महल १५० वप्र

वेणीसहार कि महल १५० वप्र

सयोगिता स्वयंवर कि महल १५०. वप्र

सुभद्रा और धनजय कि महल १५० वप्र.

मिश्र, ठाकुरदत्त दे वद्योपाध्याय, ताराशकर

मिश्र, दयाशकर कोठी की बात साहनी २५० उ.

चातकी राजहस ३५० उ

छोटी चाची राजहस ३५० उ

छोटी बहू राजहस ३५० उ

पाथेय राजहस ३५० उ

रामू काका साहनी ०५० वप्र

साधु बाना साहनी ०५० वप्र

सुहाग दीप सहगल ४०० उ

मिश्र, दयाशकर 'दहा' गुब्बारा राजहस १२५ वप्र

चुटियावाले चाचाजी राजहस १५० वप्र

चू-चू राजहस १००. वप्र

- नटखट टम्मो आत्माराम. १००. बप्र.  
 बकरी मा आत्माराम ०५०. बप्र.  
 बुभुते दीप आत्माराम. ३०० उ  
 मुन्ती का साप काका आत्माराम १२५ बप्र  
 शिवि और दधीचि. सस्ता ०४०. बप्र  
 साहनी शेखू २ भा राजहस १.५० (प्र) बप्र.  
 मिश्र, दुर्गाशंकर. आधुनिक कवि भा. ४ (गोपालशरण सिंह)  
 हिं. सा. भ ३००. आ.  
 आधुनिक कवि पत (नए स. की टीका). हिं सा भ. ३.५०  
 आधुनिक काव्य संग्रह. हिं. सा. भ. २५० आ.  
 कर्ण (कविवर प्रभात) एक अध्ययन हिं सा भ २००  
 कलापूर्ण एकाकी (दशरथ ओझा) प्रश्नोत्तर हिं सा. भ २००  
 कल्याणी, अध्ययन हिं सा. भ १.५०  
 कामायनी की सरल व्याख्या (लज्जा सर्ग तक). हिं सा भ  
 ३००  
 कामायनी प्रश्नोत्तरी सरस्व. पु. स. १५०  
 गद्य सकलन (करुणापति त्रिपाठी) एक अध्ययन. हिं. सा.  
 भ २.५०  
 चिंतामणि १ मथन हिं सा. भ ३५०  
 पद्य प्रवाह (सुशीला कुमारी) हिं. सा. भ २५०  
 पथिक परीक्षण (टीका एव प्रश्नोत्तरी). हिं. सा. भ.  
 २००  
 परख; अध्ययन. हिं. सा भ. १५०  
 पृथिवी पुत्र टीका. हिं सा भ १.२५  
 प्रतिनिधि एकाकी (अशक) हिं सा. भ. २००  
 प्राचीन काव्य संग्रह हिं सा. भ २५०  
 प्रियप्रवास : प्रश्नोत्तरी सरस्व पु स १००  
 ब्रज माधुरी सार टीका तथा व्याख्या हिं सा भ ४००  
 भ्रमरगीतसार दर्शन (टीका प्रश्नोत्तर) हिं सा भ ५००  
 यशोधरा का काव्य सौंदर्य. स. ३. हिं सा भ २५०  
 रश्मि रथी विवेचन (टीका तथा प्रश्नोत्तर) हिं सा. भ.  
 २००  
 रस सिद्धांत और कहानी कला हिं. प्रचा म २२५  
 रीढ की हड्डी (विष्णु प्रभाकर) हिं. सा. भ. १५०  
 वियय पर्व एक अध्ययन हिं सा. भ १.२५  
 सफल एकाकी (पद्मनारायण आचार्य) हिं सा भ १७५  
 साकेत. प्रश्नोत्तरी सरस्व पु स. १५०  
 साहित्य साधना के सोपान. रामा प्र १७००  
 सुमित्रानन्दन पत (सपा बच्चन) टीका. हिं सा भ. ३००  
 सूरदास प्रश्नोत्तरी सरस्व पु स २५०  
 सूरप्रभा और सूरदास मालवीय ३३७  
 हिंदी कविता कुछ विचार राष्ट्रीय प्र. मंदिर. १०.००  
 हिंदी कहानिया (श्रीकृष्णलाल) हिं सा. भ २२५  
 हिंदी काव्य मथन रामा प्र १५.००  
 हिंदी की श्रेष्ठ कहानिया (बालपेयी) एक अध्ययन हिं. सा.  
 भ २००  
 हिंदी गद्य पारिजात हिं. सा भं. २५० आ  
 —सपा. चिंतन मनन. सा सदन, दे ७.००

- मिश्र, देवकुमार. महान् विभूतिया. ग्रथमाला. १.२५. बप्र.  
 मिश्र, देवदत्त. उपदेश की कथाए आदर्श पु भ १.००  
 उपदेश की कहानिया आदर्श पु भ. १००  
 भगवान श्रीकृष्ण आदर्श पु भ. ३००  
 सदाचार की कहानिया आदर्श पु भ. १.३७  
 मिश्र, देवनाथ अभिनव नीति कथा गयाप्रसाद १.२५  
 मिश्र देवेद्र दे बरण, महाकवि  
 मिश्र, द्वारिकाप्रसाद कृष्णायन एस. चाद का.  
 मिश्र, द्विजेन्द्रनाथ 'निर्गुण', १९१५- चाद बोला. मित्र  
 २००. उ  
 मिश्र, नरेशचंद्र सुर भारती के प्रतिभा पुत्र. रा. वेनीमाधव.  
 २०० क  
 मिश्र, नर्मदाप्रसाद कलियुग के सतयुगी सपूत मिश्र-बधु  
 १.१२ बप्र.  
 भारत की पुण्य-स्मृतिया. मिश्र-बधु १२५ बप्र.  
 भारत की वीरागनाए मिश्र बधु ०.७५ बप्र.  
 भारत के इतिहास की सरल कहानिया मिश्र-बधु. १.००.  
 बप्र.  
 भारत के वीर बालक. मिश्र-बधु ०.७५ बप्र.  
 भारतीय वीरो का आत्मत्याग मिश्र-बधु १.५०. बप्र.  
 सरल नागरिक शास्त्र. मिश्र-बधु १३७  
 —सपा सरल नाटक माला ४ भा मिश्र-बधु ०७५ (प्र.)  
 बप्र  
 मिश्र, नवलबिहारी अदृश्य शत्रु इ. प्रे १.००. उ  
 अधूरा आविष्कार इ प्रे ४५० क.  
 —तथा अन्य, सपा प्रतिनिधि वैज्ञानिक कहानिया. आत्माराम.  
 मिश्र, पचानन परिवार : एक सामाजिक अध्ययन ज्ञानपीठ.  
 ४००  
 मिश्र, पारसनाथ दे पाडेय, श्रवणकुमार  
 मिश्र, बलदेवप्रसाद असत्य सकल्प. लोक चेतना. ०८७. ना.  
 उलूकतत्र ज्ञानमंडल. २००  
 काव्य कलाप रा. वेनीमाधव १५०  
 क्रांति. मिश्र-बधु १५० ना.  
 तुलसी-दर्शन. हिं सा सम्मे ५००  
 भारतीय सस्कृति रा. वेनीमाधव २.५०  
 मानस-माधुरी. सा. रत्न भ ८००  
 मानस मे उक्ति-सौष्ठव क मु. हिं ०२५  
 मानस मे रामकथा. वगीय. ३.५०  
 रामराज्य हिं सा भ. ५००. का.  
 शव साधन. ज्ञानमंडल. २५०. क  
 मिश्र, बलभद्रप्रसाद सूर-संग्रह हिं सा. सम्मे ०५०  
 मिश्र, बाबूराम भारतीय कर व्यवस्था हिं समि ११००  
 —तथा हरिशंकरलाल श्रीवास्तव वाजार समाचार हिं प्रचा.  
 पु १.७५  
 मिश्र, बालगोविंद काव्य परिचय सा नि, का. १.२५  
 काव्य प्रबोध. सा. नि, का १००  
 हिंदी भाषा तथा नागरी लिपि विश्वविद्यालय ३५०  
 मिश्र, वैजनाथ आधुनिक हिंदी गद्य-संग्रह. एस. चांद. २.२५

मिश्र, वैजू पत्थर और हीरा प्रथालय १२५ ना  
 मिश्र, ब्रजकिशोर, सपा भूषण मजूपा विश्वविद्यालय १५०  
 का  
 मिश्र, ब्रजकिशोर दे मिश्र, कृष्णविहारी  
 मिश्र, भगवत्स्वरूप हिंदी आलोचना उद्भव और विकास  
 सा सदन, दे १२५०  
 —तथा विश्वभर 'अरुण' सूर की साहित्य साधना शिवलाल  
 मिश्र, भगीरथ अच्छी हिंदी कैसे लिखे प्रभात प्र ४००  
 अध्ययन हि सा भ ३०० नि  
 कला, साहित्य और समीक्षा एस चाद १०००  
 काव्य-मकरद हि प्रचा पु ३५०  
 काव्य शास्त्र परि स २ विश्वविद्यालय ८००  
 तुलसी रसायन सा भवन, इ ३५०  
 पृथ्वीराज-रासो के दो समय गगा २२५  
 साहित्य-साधना और समाज अवध ४५० नि  
 हिंदी रीति-साहित्य राजकमल ५००  
 मिश्र, भगीरथ दे शुक्ल, केसरीनारायण  
 मिश्र, भगीरथ दे शुक्ल, रामबहोरी  
 मिश्र, भवानीप्रसाद गीत फरोश नवाहद ५०० का  
 मिश्र, भागवतप्रसाद गीत-रश्मि राज किशोर ३०० का  
 मिश्र, भुवनेश्वरनाथ 'माधव', १९१२- रामभक्ति-साहित्य मे  
 मधुर उपासना बि राष्ट्र १०२५  
 सत-साहित्य ग्रथमाला ३००  
 हसता जीवन ग्रथमाला २००  
 मिश्र, भोलानाथ आल्हखड बडा ५२ लडाई श्यामलाल  
 १०००  
 मिश्र, मधुसूदनप्रसाद प्राकृत व्याकरण चौखवा ५००  
 मिश्र, महेनाथ बडे जब छोटे थे आदर्श पु भ ०५०  
 बडो का बडप्पन आदर्श पु भ १०० वप्र  
 हिंदी साहित्य का इतिहास (प्रश्नोत्तर) आदर्श पु भ २२५  
 मिश्र, मुक्तिनाथ सूरिदेव, श्रीरजन  
 मिश्र, मोहिनी हमारी आजादी की कहानी गगा २००  
 मिश्र, यदुनदन हिंदी साहित्य की भाकी हि पु ए २००  
 मिश्र, यमुनाधर श्रम ही जीवन है ग्रथमाला १२५,  
 १७५  
 मिश्र, युगुलकिशोर मानव भूगोल स ४ रा वेनीमाधव  
 १५०  
 मिश्र, योगीन्द्रनाथ तथा रामकृष्ण मेहता वेसिक खेती और  
 वागवानी रा वेनीप्रसाद भा २-४ ०-६२ (प्र), भा ५  
 ०७५  
 मिश्र, योगेद्र विश्व इतिहास प्रवेश ग्रथमाला १७५  
 वैशाली की भाकी नाँवल्टी २००  
 —सपा. मेगास्थनीज का भारत-विवरण ग्रथमाला २००  
 मिश्र, योगेद्रनारायण शिक्षण इसका मनोविज्ञान ज्ञानपीठ  
 मिश्र, रघुनदन वाल रामायण हि प्रचा पु १२५ वप्र  
 मिश्र, रमाकात जिंदगी हि प्रचा म १०० क  
 बदलता समाज हि प्रचा म १०० क  
 भगलप्रभात हि प्रचा म १०० क

हमारी आजादी हि प्रचा. म १५० नि  
 —सपा आधुनिक कहानीकार और उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानिया  
 हि प्रचा म ३५०  
 मिश्र, रमेशचंद्र अलीबावा चालीस चोर फ्रैंक ०७५  
 गुलीवर की कहानी फ्रैंक ०७५  
 जादू का चिराग फ्रैंक ०७५  
 सिंदबाद जहाजी की यात्राए फ्रैंक ०७५  
 मिश्र, रविकमल श्रम का मूल्य रामप्रसाद १२५ ए.  
 मिश्र, राघवेद्र स्नेहलता नेगनल ४०० उ  
 मिश्र, राजेन्द्रनाथ 'इंद्र' नलिनी गगा ३०० उ  
 मिश्र, रामकिशोर प जवाहरलाल नेहरू कला नि १००  
 वप्र  
 महात्मा गांधी कला नि १०० वप्र  
 मिश्र, रामकृष्ण कर्मभूमि एक समीक्षा रवि ३३७  
 मिश्र, रामगोपाल तपोभूमि हि सा सम्मे १०००  
 मिश्र, रामगोविंद अनाथिनी अशोक पु म ३७५ उ  
 मर्यादा अशोक पु म ३७५ उ  
 मिश्र, रामचंद्र चद्रावली नाटिका (भारतेदु हरिश्चंद्र). हि. सा.  
 स १५०  
 प्रेम पथिक नद ब्र एव नद स १५०  
 श्रीधर पाठक तथा हिंदी का पूर्व स्वच्छदतावादी काव्य  
 रणजीत १२५०  
 हिंदी काव्यादर्श चौखवा ६५०  
 हिंदी पद-परपरा और तुलसीदास हि सा स १२५०  
 मिश्र, रामचंद्र, व्या नीलकंठ विजद चौखवा ४०० का  
 मिश्र, रामजी दे मतिराम  
 मिश्र, रामदरश, १९२४- पानी के प्राचीर हि प्रचा पु  
 ५०० उ  
 साहित्य, सदभ और मूल्य एस चाद ४००  
 हिंदी आलोचना का इतिहास काशी हिंदू ६००  
 हिंदी आलोचना का स्वरूप और विकास भा. भवन (पा)  
 १५०  
 मिश्र, रामदहिन अच्छी चाल ग्रथमाला ०६२ वप्र  
 इसनीति कथा २ भा रा वेनीमाधव ०५० (प्र)  
 वप्र  
 काव्य-दर्पण ग्रथमाला १०००  
 काव्य मे अप्रस्तुत योजना ग्रथमाला ५००  
 काव्य-विमर्श ग्रथमाला ७००  
 काव्यालोक ग्रथमाल ७००  
 नेपोलियन की कहानिया २ भा ग्रथमाला ०६२ (प्र)  
 वप्र  
 प्रकृति की विचित्रता ग्रथमाला ०६२ वप्र  
 वृहद् मुहावरा कोष भा १ अ-भ ग्रथमाला १२५०  
 महाभारतीय सुनीति-कथा ग्रथमाला १५० वप्र  
 साहित्य-परिचय ग्रथमाला ०५०  
 साहित्य-सौंदर्य ग्रथमाला १५०  
 साहित्यालकार ग्रथमाला, ०५०  
 हिंदी मुहावरे ग्रथमाला ३२५

मिश्र, रामदास 'विजय' ईश्वर धर्म-नीति पर गांधी जी के विचार हि. प्रचा म ० ८७  
गांधी गौरव हि. प्रचा. म ०.२५ का  
गीतायन हि प्रचा म २००  
बापू की ईश्वर प्रार्थना स २ हि. प्रचा म ०.२५  
भारत की ऐतिहासिक रूपरेखा. हि. प्रचा म ०.७५  
भारतीय इतिहास और संविधान हि प्रचा. म १.५०  
महापुरुषों की दिव्य वाणिज्या हि. प्रचा. म. ०.५०  
वैदिक धर्म एव भारतीय संस्कृति स. २ हि प्रचा म २५०  
श्री राम कथा हि. प्रचा. म १.००  
सैलानी. हि प्रचा म २.५०. उ  
हमारी सामाजिक व्यवस्था हि प्रचा म. ० ७५  
हमारे समाज और राष्ट्र निर्माता हि प्रचा म ५ ५०  
हमारे समाज निर्माता. हि प्रचा म ७.५०  
—सपा आवाहन. हि प्रचा म. १ २५ का.  
बापू की ईश्वर प्रार्थना हि प्रचा म ० २०  
मिश्र, रामधन. हिंदी व्याकरण चंद्रिका यग मैन १ ८८  
मिश्र, रामनदन. जीवन के चार अध्याय नवभारत १ ५०  
मिश्र, रामनारायण. उद्धव-गतक समीक्षा. विनोद २ ००  
पंचवटी परिचय विनोद. ० ७५  
बालोपदेश ना प्र सभा ०.५०  
भारतीय शिष्टाचार ना. प्र सभा. ० २५  
महादेव गोविंद रानडे ना प्र सभा ३ ०० जी  
हमारे प्रमुख साहित्यकार स ६ विनोद. १.५०  
मिश्र, रामप्रसाद कहा या क्यों सा रत्न भ २ ५० उ  
हिंदी खड़ी बोली काव्य में विरह-वर्णन सरस्व पु स. १६ ००  
मिश्र, रामप्रिय 'लालधुआ' औरत और अरस्तू ज्ञानपीठ. २ ०० ना.  
मिश्र, रामशंकर नागरिक सुरक्षा. लोकप्रिक २ ७५  
स्काउट खेल, नाद और गाने. पकज १ ५०  
स्काउट शिक्षा पकज २ ००  
मिश्र, रामेश्वरनाथ कर्मचक्र. हि. प्रचा. पु १.५० जी  
मिश्र, रुद्रदत्त घनचक्कर राजहंस १ ५० वप्र.  
हमारे पक्षी. राजपाल ० ७५ वप्र.  
मिश्र, लक्ष्मीचंद्र शक्तिशखनाद नवयुग ग्र. कु ५ ००. का  
मिश्र, लक्ष्मीनारायण, १९०३- अपराजिता कौशाबी. २ ५०. ना.  
अशोक पु. भ २ ५० ना  
आधी रात. हि प्रचा पु २.००. ना  
कवि भारतेदु हि प्रचा पु. २ ००. ना.  
कावेरी के कमल हि प्रचा. पु २ ००. ए  
किशोर नाटकावली हि भवन. वप्र  
गरुडचक्र हि प्रचा पु २ ७५ ना.  
चक्रव्यूह कौशाबी १ ७५ ना  
चित्रकूट रा बेनीप्रसाद. २ ५०. ना.  
जगद्गुरु. कौशाबी. २ ००. ना.

दशाश्वमेध स ७ हि. भवन. १.३७ ना  
धरती का हृदय कि महल ३.००. ना.  
नारद की वीणा कि महल २ ००. ना  
भगवान मनु तथा अन्य एकाकी आत्माराम २ ५०  
मुक्ति का रहस्य. हि. प्रचा पु. २.५०. ना.  
राक्षस का मंदिर. हि प्रचा पु. २ ५०. ना.  
राजयोग भा भ १.२५. ना.  
वत्सराज. स ८. हि. भवन. १.७५. ना  
वितस्ता की लहरे आत्माराम २.०० ना  
वैशाली में वसंत रा बेनीमाधव. २.०० ना.  
सत्यासी. हि प्रचा पु २ ५० ना  
सिद्धर की होली भा. भ १ ५० ना  
सेनापति कर्ण (पूर्वार्द्ध) कि. महल ४ ००. का.  
मिश्र, विद्यानिवास, १९२५- अज्ञेय. राजपाल २ ०० जी.  
आगन का पछी बनजारा मन. भा ज्ञानपीठ. ३.००. नि.  
कदम की फूली डाल न्यू लिट ३ ००. नि.  
छितवन की छाह सरस्व प्रे २ ५०  
तुम चदन हम पानी. भा. भ ३ ००. नि.  
पंचगर छात्रहितकारी. १ ५० ना.  
मिश्र, विद्यावती कठोपनिषद् विश्वेश्वरानंद ०.८१  
मिश्र, विनोदचंद्र दे गेयर, जी. आर  
मिश्र, विश्वनाथ दहेज ग्रंथालय १.२५ ना.  
हिंदी भाषा और साहित्य पर अग्रजी प्रभाव सा सदन, दे. १२ ५०  
मिश्र, विश्वनाथप्रसाद काव्याग कौमुदी नद ब्र. एव नद. स.  
कला १ १ २५, कला २ १ ७५, कला ३. ३ २५  
केशव आचार्य नद. स ४ ००  
गंगा लहरी वाणी-वितान. ० ८०  
गद्यमजरी. नद स २ ७५  
गद्य-माधुरी नद. स २.५०  
घनचक्कर वाणी-वितान क.  
घनानंद कवित्त नद ब्र. ३.७५  
जगद्विनोद (पद्माकर) नद स ३.५०  
तुलसीदास. वाणी-वितान. आ  
पद्माभरण नद स २ ००  
बिहारी नद. स एव वाणी-वितान ४.००. आ  
बिहारी की वाग्विभूति. नद ब्र एव नद स. २.५०; — —  
वाणी-वितान ३.००  
भाषा भूषण. नद स. ३.००  
भूषण नद स ६ ००  
रसखानि नद स एव वाणी-वितान २.००  
रसिक प्रिया. कल्याणदास ६.००  
वाङ्मय-विमर्श नद स. ७ ००, — —सशो. स. ४ हि.  
सा. कु. ७ ००  
सत्य हरिश्चंद्र नाटक. नद ब्र एव नद. स ० ५०  
हिंदी का सामयिक साहित्य नद ब्र. ४ ००; — —सशो. सं.  
२. वाणी-वितान १०.००  
हिंदी में नाट्य-साहित्य का विकास. सा सेवक. ०.५०

हिंदी-साहित्य का अतीत २ ख वाणी-वितान १८००, — —  
 नद ब्र एव नद स ख १ ७००, ख २ ११००  
 —सपा अर्धशताब्दी इतिहास (सभा का) ना प्र सभा ३००  
 केशव-ग्रथावली हिंदु एकेडेमी ख १ ५००, ख २. ५००,  
 ख ३ ८०० का  
 घनग्रानद-ग्रथावली नद स एव वाणी-वितान ६००  
 जसवतसिंह ग्रथावली ना प्र सभा  
 पद्माकर ग्रथावली ना प्र सभा १०००  
 भिखारीदास ग्रथावली भा १-२ ना प्र सभा. १५००  
 भूषण ग्रथावली. वाणी-वितान ६००  
 सुदामाचरित (नरोत्तमदास) नद स एव वाणी वितान  
 ० ६२  
 मिश्र, विश्वनाथप्रसाद दे गोपीनाथ, कविराज  
 मिश्र, विश्वनाथप्रसाद दे. तुलसीदास, गोस्वामी  
 मिश्र, विश्वनाथप्रसाद दे पद्माकर  
 मिश्र, विश्वनाथप्रसाद दे यशवतसिंह  
 मिश्र, विश्वनाथप्रसाद दे शुक्ल, चंद्रशेखर  
 मिश्र, विष्णुदत्त दे काला, श्रीचरण  
 मिश्र, विहारीलाल १६२५- अशोक के फूल एक समीक्षा  
 रवि १००  
 मिश्र, वीरेन्द्र अपना देश महान् शकुन १२५  
 गीतम स ३ बसल २५० का  
 गीतो के भूले शकुन १५०  
 लेखनी वेला भा ज्ञानपीठ ३०० का  
 मिश्र, वीरेन्द्रकुमार 'मोहन' छत्रपति शिवाजी मानसरोवर  
 सा १०० ना  
 पुजारिन मानसरोवर सा १०० क  
 मिश्र, वेद प्रतिभा के पुत्र शकुन १२५  
 मिश्र, व्यग्यविनोदी व्यग्य विनोद हि सा भ १००. का  
 मिश्र, शकुतला कच्ची मिट्टी त्रिवेणी ४०० =  
 मिश्र, शरदकुमार 'शरद' धूप और धुआ त्रिवेणी १५०  
 कथा  
 मिश्र, शारदा कैरमबोर्ड की परिया हि प्रचा पु १२५ बप्र  
 त्रिकोण हि प्रचा पु ३०० ए  
 नीलम और मसहरी की देवी हि प्रचा पु १२५ बप्र  
 मगल ग्रह मे रजिया हि प्रचा पु १२५ बप्र  
 शावक कहानिया हि प्रचा पु ० ६७ बप्र  
 मिश्र, शितिकठ खडी बोली का आदोलन ना प्र सभा  
 ७००  
 मिश्र, शिवकुमार. अजात शत्रु और प्रसाद की नाट्यकला  
 नारायण बुक २५०  
 आसू और उसका कवि मालवीय २५०  
 कामायनी और प्रसाद की कविता गंगा कि घर, का ७.५०  
 नया हिंदी-काव्य अनुसंधान १६००  
 भारत दुर्देशा (भारतेंदु हरिश्चंद्र) कि घर, का १५० आ  
 मनीषा मानकचद २७५ नि  
 वृ दावनलाल वर्मा उपन्यास और कला कि घर, का  
 ६.२५

वृ दावनलाल वर्मा और उनकी मृगनयनी कि घर, का.  
 ३ १२  
 हिंदी निबध नारायण बुक ५००  
 —सपा सप्तपर्णी कि घर, का ३०० का  
 मिश्र, शिवकुमार 'मयूर' गीतामृत हि सा सम्मे ३००  
 मिश्र, शिवगोपाल मधुमालती (मभन कृत) हि प्रचा पु  
 ८०० आ  
 मिश्र, शिवदत्त तडप कल्याणदास १७५ उ  
 प्रीतिधारा कल्याणदास ३०० उ  
 प्रेमनाथ कन्हैयालाल. २०० उ  
 बिहारी वाला कन्हैयालाल २०० उ  
 स्वर्ग मे नर्क कल्याणदास ४५० उ  
 मिश्र, शिवप्रसाद 'रुद्र' बहती गंगा राजकमल (पा) १००  
 उ  
 सत्य हरिश्चंद्र नाटक ना प्र सभा ३५०  
 सुचिताच कल्याणदास ४५० उ  
 मिश्र, शिवप्रसाद 'रुद्र' दे चतुर्वेदी, सीताराम  
 मिश्र, शिवशकर गूज उठी रणभेरी प्रभात पब्लि १२५  
 ना  
 भासी की रानी प्रभात पब्लि १०० ना  
 पथ का प्रकाश प्रभात पब्लि ० ६० ना  
 पानी का घेरा प्रभात पब्लि ० ६० ना  
 भारत के महापुरुष भा १ हि प्रचा पु १.००  
 मिल-जुल काम करे प्रभात पब्लि १२५ ना.  
 सहयोग का बल प्रभात पब्लि १५० ना  
 मिश्र, शिवसागर, १६२७- दूब जनम आंयी आत्माराम.  
 ४०० उ  
 पत्ते गिर पडे आत्माराम ४०० उ  
 मगध की जय आत्माराम ६०० उ  
 राजतिलक आत्माराम ५५० उ  
 मिश्र, श्यामबिहारी तथा शुकदेव बिहारी मिश्र. ईशान वर्मन  
 नाटक रा बेनीप्रसाद ०.७५  
 मिश्र, श्यामाचरण वर्मा कल और आज. ज्ञानमडल ६.००  
 मिश्र, श्रीनारायण अग्नेजी उपन्यास का विकास और उसकी  
 रचना पद्धति हि समि ८००  
 मिश्र, सच्चिदानंद अर्थशास्त्र के मूलतत्त्व आदर्श पु भ  
 ८००  
 मिश्र, सरस्वतीप्रसाद पुरानी बीमारिया मेडिकल ४५०  
 वात, गठिया तथा लकवा रोग चिकित्सा मेडिकल १००  
 मिश्र, सुरेशचंद्र में पृथ्वी हू फ्रैंक १२५  
 मै सागर हू फ्रैंक १.५०  
 मिश्र, सूर्यदेव ध्रुवचरित्र. नद स ३०० का  
 मिश्र, हरविलास सामाजिक अध्ययन यग मैन ६२५  
 मिश्र, हरिमोहन कवितामयी ज्ञानोदय २०० का  
 मिश्र, हरिशकर पद्यमाला मोतीलाल १००  
 मिश्र, हरीकृष्ण शिक्षण अभ्यास सा नि, का ० ६३  
 मिश्र. यह भी दे मिश्रा  
 मिश्रण दे सूर्यमल्ल मिश्रण





पाटन का प्रभुत्व हि ग्र २ ४०० उ  
 पृथ्वी वल्लभ कि महल ३०० उ  
 प्रतिशोध. नवयुग प्र ६०० उ, — — रूपकमल ६००  
 ब्रह्मचर्याश्रम कि महल १००. ना  
 भगवान कौटिल्य कि महल ३५० उ  
 भगवान परशुराम राजकमल उ  
 भग्नपादुका राजकमल ४०० उ  
 मेरी कमला नवयुग प्र ६५० क  
 राजाधिराज कि महल ६०० उ, — — हि ग्र २  
 ६००  
 लाज पैरामाउट २५० उ, — — रूपकमल २५०  
 लोपामुद्रा नवयुग प्र ६५० उ, — — राजकमल ५००  
 लोमहर्षिणी राजकमल ५०० उ  
 वाह रे मैं वाह ! राजकमल ४५० ना  
 विश्वामित्र नवयुग प्र २०० ना  
 शबर कन्या नवयुग प्र २०० ना, — — रूपकमल २५०  
 शिशु और सखी कि महल २०० उ  
 सीधी चढान राजकमल ५०० जी.  
 स्वप्नद्रष्टा कि महल ५०० उ, — — नवयुग प्र. ५५०  
 स्वप्नसिद्धि की खोज में राजकमल  
 मुशी, लीलावती कुमार देवी कि महल २५० ए  
 रेखाचित्र कि महल ३०० क  
 मुशी, विजयकुमार साधको के जीवन पथ पर स्वरूप १५०  
 मुशी, सूरजनारायण तथा सावित्री एम निगम रोगी मन  
 हिंदु एकेडेमी १२००  
 मुशीराम साहित्य शास्त्र श्री भा भारती ७५०  
 मुसिफ दे देवीप्रसाद मुसिफ  
 मुकनसिंह गोस्वामी तुलसीदास कृत 'वदी मोचन' मगल  
 २००  
 मुकजी तुलनात्मक शिक्षा-व्यवस्था कि महल ५००  
 शिक्षा मनोविज्ञान की रूपरेखा कि महल ८००  
 मुकजी, आर एन समाजशास्त्रीय निबंध प्रकाश बुक १० ६२  
 — तथा जी सी कुलश्रेष्ठ भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र.  
 प्रकाश बुक. १० ६२  
 मुकजी, एल भारत का इतिहास अपर प्राचीनकाल २५०,  
 मध्यकाल २५०, आधुनिक काल २५०  
 सफल शिक्षण कला कि महल ४००  
 मुकजी, एल दे देव, प्रतिभा  
 मुकजी, एस एन भारत में शिक्षा आचार्य बुक ६००  
 भारतीय शिक्षा का इतिहास (आधुनिककाल) आचार्य बुक  
 ६००  
 राष्ट्रभाषा की शिक्षा आचार्य बुक ६००  
 मुकजी, के के कला शिल्प तथा रचना कौशल गुप्ता ब्रा  
 ६००  
 मुकजी, के पी राजनीति दर्शन के मूलाधार सा सदन, दे  
 ०.७५  
 मुकजी, प्रभातकुमार नवीन सन्यासी इ प्रे ४७५ उ.  
 पंच पल्लव. इ प्रे २००. क

पत्र-गुप्प इ प्रे २०० क  
 मुकजी, मिथिलेशकुमारी सगीत मजरी स २ कल्याणामल  
 ० ७५  
 मुकजी, रवींद्रनाथ भारत में सामाजिक कल्याण एवं सुरक्षा  
 स १९६२ सरस्व स. १०००  
 भारतीय जनता तथा सस्थाए स १९६२ सरस्व. स. ८५०  
 भारतीय सामाजिक सस्थाए. सरस्व स १२.००  
 सामाजिक मानवशास्त्र की रूपरेखा स १९६२ सरस्व. स  
 ११००  
 सामाजिक विचार-धारा स १९६२ सरस्व स १०००  
 सामाजिक सुरक्षा एवं श्रम कल्याण सरस्व स  
 ११००  
 मुकजी, राधाकमल भारतीय समाज विन्यास राजकमल २००  
 मुकजी, राधाकुमुद चंद्रगुप्त मौर्य और उनका काल राजकमल  
 ५००, ८००  
 प्राचीन भारत राजकमल ३५०, ६.५०  
 प्राचीन भारतीय विचार और विभूतिया राजकमल ३.५०  
 हिंदू संस्कृति में राष्ट्रवाद एस चाद ३००  
 हिंदू सभ्यता अनु वासुदेवशरण अग्रवाल स ३ राजकमल  
 ७५०  
 मुकजी, सुभाष. जगदीश वसु पीपुल्स १.५० वप्र  
 मुकजी यह भी दे मुखर्जी  
 मुकुदवल्लभ अर्ध मातन्ड मोतीलाल १२००  
 कर्मठ गुरु मोतीलाल ६००  
 मुकुदस्वरूप नव्य जन स्वास्थ्य विज्ञान मोतीलाल ८००  
 मुकुटबिहारीलाल दे सिंह, आर एन  
 मुकुटबिहारी 'सरोज' किनारे के पेड़ आत्माराम २.५० का.  
 मुकुल सूर के पद सस्ता ० ४० वप्र  
 मुकुल. दे महेंद्रकुमार 'मुकुल'  
 मुकुल दे मेधराज मुकुल  
 मुक्त दे ओभा, प्रफुल्लचंद्र 'मुक्त'  
 मुक्त. दे लक्ष्मीकांत 'मुक्त'  
 मुक्ताराजे रोमाचक सत्य कथाए २ भा हि ग्र. र ३.५०  
 (प्र)  
 मुक्तिदूत. हमारे पडोसी राष्ट्र कल्याणदास २००  
 मुक्तिदूत, आचार्य कलिंग नरेश की जय नारायण प्र १००  
 वप्र  
 जीवन-ज्योति नारायण प्र १०० वप्र  
 बसत धीरे-धीरे नारायण प्र १०० वप्र  
 मूर्ख सौदागर नारायण प्र. १०० वप्र  
 हमारे पडोसी राष्ट्र वि ग्र कु २००  
 मुक्तिदूत, जनार्दन अंधूरा उपन्यास हि ग्र २ २०० उ  
 स्वतंत्र भारत के लिए नया इतिहास रा वेनीप्रसाद १३०  
 मुक्तिबोध, गजानन माधव एक साहित्यिक की डायरी भा  
 ज्ञानपीठ सस्म  
 चाद का मुह टेढा है भा ज्ञानपीठ का  
 मुखर्जी, कुलरजन अभिनव प्राकृतिक चिकित्सा. आरोग्य ४००  
 खाद्य की नयी विधि आरोग्य. ३००

दैनन्दिन रोगो की प्रा चिकित्सा. आरोग्य ४.००  
पुराने रोगो की गृह चिकित्सा आरोग्य ४.००  
स्त्री रोगो की चिकित्सा आरोग्य. ३५०  
मुखर्जी, परिमलचन्द्र अर्थशास्त्र के सिद्धांत. मोतीलाल. ३५०  
भारत एव विहार का आर्थिक अध्ययन. मोतीलाल. ५.५०  
भारत एव विहार का तुलनात्मक आर्थिक विवेचन स. २  
मोतीलाल. ७५०  
मुखर्जी, विश्वनाथ. काशी . अतीत और वर्तमान चिनगारी  
२.५०  
बना रहे बनारस. भा ज्ञानपीठ २५०. नि.  
मुखर्जी, वी 'गुजन'. शक्ति-पूजा. आत्माराम १५०. ना  
मुखर्जी, सतकरि तथा अन्य, सपा आचार्य भिक्षु स्मृति ग्रथ  
जैन श्वेतावर  
मुखर्जी. यह भी दे मुखर्जी.  
मुखारया, प्रताप. हव्वा की वेटी लोक चेतना. ०.७५. ना.  
मुखोपाध्याय, कार्तिकेयचरण देवी द्रौपदी हि. पु ए ०.७५  
नल-दमयती हि पु ए ०.७५  
प्रेम निकुञ्ज हि. पु ए २२५ उ.  
वगला शिक्षक. हि पु. ए ०.७५  
वाग वगीचा हि. पु ए २५०  
वाल श्रीराम कथा ०.८८ वप्र  
शैतान की नानी हि पु ए ०.७५. उ.  
शैव्या-हरिश्चन्द्र. हि पु ए ०.७५  
सती पार्वती हि पु ए ०.७५  
सती शकुन्तला. हि पु ए ०.७५  
सागसब्जी. हि पु ए १.७५  
सावित्री सत्यवान. हि पु. ए. ०.७५  
सीता देवी हि पु ए ०.७५  
मुखोपाध्याय, चन्द्रशेखर. उद्भ्रात प्रेम. ग्रथमाला. ०.७५  
मुखोपाध्याय, दामोदर नवावनदिनी. श्री प्रभाकर. ३.५०  
मृण्मयी श्री प्रभाकर ३००  
मुखोपाध्याय, देवनारायण मेरे देश की कथा. इ. प्रे. १.०० वप्र.  
मुखोपाध्याय, देवेन्द्रनाथ. आदर्श सुधारक दयानन्द. गोविंदराम.  
०.६२  
—सग्रा महर्षि श्री स्वामी दयानन्दजी का प्रामाणिक जीवन  
चरित अनु घासीराम २ भा आर्य सा ८.०० (प्र)  
मुखोपाध्याय, नयनचन्द्र भक्त शिशु इ प्रे. १.५०. वप्र  
मुखोपाध्याय, प्रभातकुमार तथा भूपेन्द्रनाथ वद्योपाध्याय हिंदी  
दशमिक वर्गीकरण हि सा सम्मे २००  
मुखोपाध्याय, फाल्गुनी मेरे जीवन मेरे प्राण. स २.  
राष्ट्रीय प्र मंदिर ५.०० उ  
मुखोपाध्याय, सत्याशुमोहन सरल सस्कृत व्याकरण मोती-  
लाल २००  
मुख्तयार हुसैन तथा महीपालसिंह नूतन हाईस्कूल बीजगरिगत.  
श्रीराम मेहरा २३७  
मुगनी अमरोहवी तथा नूरनबी अब्बासी दीवाने गालिब.  
सहगल  
मुगल महमूद सुनहले पख. सरस्व. प्रे ०.७५ वप्र

मुगल महमूद. दे टाल्स्टाय  
मुद्गल. कृष्णचन्द्र. सक्षिप्तवालचरितम् हि. सा स. १.५०  
मुद्गल, भगवानसहाय. बुक कीपिंग का सरल अध्ययन. गर्ग  
ब्र. ३.००  
हाई स्कूल बुक कीपिंग. गर्ग ब्र. ३.००  
मुदमगल सिंह अग्रेजो की शिक्षा-नीति हिंदी भाषा और  
साहित्य के विकास मे योग. सरस्व पु स १६.००  
मुद्राराक्षस भारतेदु हरिश्चन्द्र मस्ता ०.४०  
मैडेलीन. प्रचा. पा. १००. उ  
साहित्य-समीक्षा नेशनल. ६००  
मुद्राराक्षस दे ह्वार्ट, ई वी.  
मुनेश्वरप्रसाद आधुनिक शिक्षण. ग्रथमाला १.५०  
नागरिकता की शिक्षा कैसे दे वि ग्र कु.  
पाश्चात्य शिक्षा का इतिहास दि पु स ६५०  
भारतीय स्कूलो मे समाज-अध्ययन का शिक्षण. नवीन सशो.  
स ज्ञानपीठ ६.५०  
महाभारत की कथा कला-नि १२५. वप्र.  
रामायण की कथा. कला-नि १७५. वप्र.  
शिक्षण की गतिशील विधिया. मगध ५५०  
शिक्षा शास्त्र के मूलतत्व दि पु स सम्पूर्णा. १०००; भा  
१५००, भा २५००  
सुबोध शिक्षा मनोविज्ञान दि पु स. ४.००  
हिंदी शिक्षण कला. दि पु स. २५०  
मुन्नीलाल. देशी करघा हि पु. ए. १.००  
मुन्शी दे. मुशी.  
मुवारक अली चिक चिक मिश्र-वधु ०.८७ वप्र.  
मुवारक जहा नौलखा हार मिश्र-वधु. ०.७५. वप्र.  
मुवारिजुद्दीन रफत. दे शर्मा, श्रीराम.  
मुस्ताजउद्दीन साहब दे मिश्र, आत्मानन्द.  
मुस्ताजउद्दीन तथा अन्य मजे मे तो है ? लोक चेतना २.५०  
नि.  
मुरलीधर कविभूषण. छदोहृदयप्रकाश. सपा विश्वनाथप्रसाद  
क मु. हि. ५००  
मुरारी प्रभाकर दे रागेय राघव.  
मुरारीमोहन. मुगलो की शाहजादिया. स. २ रगभूमि.  
१५०  
मुलखराज आदर्श ग्राम यूनिवर्सिटी. ०.५० वप्र.  
विद्यार्थी जीवन. यूनिवर्सिटी ०.७५ वप्र.  
मुले, गुणकर आर्किमीदिज पीपुल्स १५० वप्र  
गणित की पहेलिया राजकमल (पा) १००  
सूरज चाद सितारे राजकमल (पा) १.०० वि  
मुसाफिर दे गुरमुखसिंह मुसाफिर  
मुसाफिर लायलपुरी अलका अजय २५० उ  
मुहम्मद अकील, सैयद दे शौक, नवाब मिर्जा  
मुहम्मद उमर मुहम्मद शाह रगीले की दिल्ली भा प्र मंदिर.  
१५०  
सूफी सत मिर्जा मजहर जानजाना भा प्र मंदिर २००  
मुहम्मद बशीर दादा का हाथी. पीपुल्स. २.०० उ.

मुहम्मद मुस्तफा खा 'मदाह'. उर्दू-हिंदी शब्दकोश हिं समि १६००  
 मुहम्मद सादिक 'सफवी' राईफल. अनु रामचंद्र वर्मा. हिं समि ४००  
 मुहम्मद हुसेन 'दीन', सैयद आधुनिक विज्ञान की कहानी. २ भा पु भ, रा ०६२ (प्र) वप्र.  
 कहा और कैसे २ भा पु भ, रा ०७५ (प्र) वप्र  
 वागवानी से लाभ पु. भ., रा भा १ ०.७५, भा. २ ०६२ वप्र  
 मूडडा, दा भूदान-गगोत्री अ भा सर्व २.५०.  
 मूडडा, मूडुला. पावन प्रसंग अ भा. सर्व ०५०  
 मूडी, राल्फ किट कार्सन और जगली सीमात. इ प्रे २७५ जी.  
 मूना. दे जगदीशचंद्र मूना  
 मूर्थि, ए एन एम अध्यापन. आर्मी २००  
 मूदु दे वीरेद्र 'मूदु'  
 मूदुल दे नवीन 'मूदुल'  
 मूदुल दे रमागकर सिंह 'मूदुल'  
 मेडर, ए ई, मनोविज्ञान और सफल जीवन रूपकमल २५०  
 मेड, राजेद्रलाल उल्टी गगा नद ब्र एव नद स १२५  
 मेद्र कर जेरुशा तथा गिरीश माथुर, सपा सरल कहानिया बवई हिं ०७५  
 मेहदीरता, वीरेद्र. पुरानी मिट्टी नये ढाचे नीलाभ ३२५ क  
 शिमले की क्रीम नीलाभ २५० क  
 मेकडानलड वचपन के पहले पाच साल राजकमल १.२५  
 मेकफैडेन, वर्नर तदुस्त कैसे रहे आरोग्य ३००  
 मेकिन्स, हेलेन. रोना के आसू एस चाद ५०० उ  
 मेकेन्जी, जे. एस समाज-दर्शन की रूपरेखा. ७००  
 मेगनिस तथा एपल विश्व इतिहास एस. चाद  
 मेघ मुनि. मेघ विनोद. मोतीलाल ६०० चि.  
 मेघराज मुकुल अनुगूज. आशा पव्लि ३०० का  
 जन्मभूमि के गीत आशा पव्लि. १२५  
 पद्य-नीहारिका. आशा पव्लि ०७५  
 लाडले गीत आशा पव्लि. १२५  
 मेघराणी, भवेरचद, १८६७-१९४७ अमर सुहागिन वीरा १५०. वप्र  
 प्रभु पधारे सस्ता २५० उ  
 मानवता के दीये सस्ता सस्म  
 सोरठ तेरा बहता पानी अनु मोहनलाल भट्ट राष्ट्र प्रचा. समि ३०० उ  
 मेज़िनी, जोज़फ आप क्या करे? सुबोध प्र. ३००  
 मेदीलाल आर्य सघर्ष के स्वर भा. पु म २०० का  
 मेनन, दुर्गादत्त गल्प-लतिका. श्री भा भारती ३०० क  
 सप्तपर्ण यूनिवर्सिटी ३०० ना  
 मेनरस, डोरिन पाप की गली आत्माराम ३०० उ  
 मेनारिया, पुरुषोत्तम राजस्थान की लोक-कथाए आत्माराम. १२५

मेनारिया, मोतीलाल. राजस्थान का पिंगल साहित्य हिं ग्रं. ६५०  
 राजस्थानी भाषा और साहित्य हिं सा सम्मे ६००  
 —सपा डिगल मे वीररस हिं. सा सम्मे ३००  
 मानराज विलास ना प्र सभा. ५५० का.  
 मेयर, एडिथ पैटर्सन गाति के महारथी. एस चाद. १५०. वप्र  
 मेलविल, हरमन. लहरो के बीच राजपाल. ३०० उ  
 मेलाराम 'वफा' चाद की यात्रा ३ भा नेगनल ३०० वप्र  
 मेसन, गेन्नील रिचर्ड अमेरिका के महान् उदारवादी. इ प्रे २.५० जी  
 मेहता प्रारभिक अकगणित भोपाल १५०  
 मेहता तथा अन्य हमारा भूमडल लक्ष्मी. ना. ४.५०  
 मेहता, अशोक, १९११- एशियाई समाजवाद. अ भा सर्व १५०  
 लोकतांत्रिक समाजवाद. अ भा. सर्व. १५०  
 मेहता, इदु तथा कमल दर. सुलभ नागरिक शास्त्र और भारतीय सविधान गयाप्रसाद २००  
 मेहता, एम एल प्रायोगिक रसायन नाँवल्ली २५०  
 —तथा ए पाडेय. रासायनिक गणनाए नाँवल्ली २५०  
 रासायनिक प्रतिक्रियाए तथा समीकरण नाँवल्ली २००  
 —तथा धीरेद्रप्रसाद. प्रायोगिक रसायन नाँवल्ली. २७५  
 मेहता, कमलिनी नाटक के तत्त्व . मनोवैज्ञानिक अध्ययन ना प्र सभा ३५०  
 मेहता, कृ शि गाव की दीवार. कि घर, ग्वा १.५० ना.  
 धरती के जलजले मध्यप्रदेश शासन. १.००. ए  
 मेहता, कृष्णा काश्मीर पर हमला सस्ता. २००  
 मेहता, कैलाशचंद्र भारत का आर्थिक एव वाणिज्य भूगोल से आशा पव्लि ०.५०  
 मेहता, गंगाप्रसाद प्राचीन भारत. काशी हिंदू ७००  
 मेहता, गुलाब प्रासंगिक कथाकोश इ प्रे २५०  
 मेहता, जे. के विनियम का सिद्धांत एस चाद १.५०  
 मेहता, दुर्गाशंकर अनबुभी प्यास सा भवन, इ ७५०. उ.  
 मेहता, धनसुखलाल दे ब्रोकर, गुलाबदास  
 मेहता, नरेश, १९२४- खडित यात्राए हिं ग्रं. र ५००. ना  
 डूवते मस्तूल आत्माराम ४.५० उ, हिंद पा १००  
 तथापि हिं ग्र र ३०० क.  
 दो एकांत लोकभारती ५.०० उ  
 धूमकेतु एक श्रुति नेशनल ८००. उ.  
 पिछली रात की बर्फ हिं ग्र. र. ४०० ना.  
 बोलने दो चीड को हिं ग्र र. ३.०० का.  
 मेरा समर्पित एकांत नेगनल ३००  
 वह पथ वधु था हिं ग्र र १२.५० उ  
 सशय की एक रात हिं ग्र र. ४०० का.  
 सनोवर के फूल हिं ग्र र. ४००. ना  
 सुबह के घटे. नीलाभ ३००. ना.  
 मेहता, ववलभाई गुजरात के महाराज अ भा सर्व २०० जी  
 सर्वोदय की सुनो कहानी. ५ भा. अ 'भा सर्व १.२५. वप्र

मेहता, बलवर्तसिंह. मीरा के पद. सस्ता. ० ४०. वप्र.  
 मेहता, वी. एन. आधुनिक योरोप. लक्ष्मी ना ख. १. १७८६-  
 १८१५. ३.५०, ख. २ १८१५-१८७१. ३.५०, ख. ३  
 १८७१-१९१९ ४.००; ख. ४ १९१९-१९३९ ३-५०;  
 भा. १. १७८६-१८७१. ७.००; भा २. १८७१-१९३९  
 ८.००; १९३९-१९४५.  
 नागरिक-शास्त्र के सिद्धांत स. ६. लक्ष्मी ना ३.५०  
 भारतवर्ष का इतिहास. गयाप्रसाद. ६.००  
 भारतवासियों का इतिहास गयाप्रसाद. भा. १. २ ००; भा.  
 २. २.२५; भा ३ २.२५  
 भारतीय शासन और नागरिक जीवन. स. ६. १९६२  
 लक्ष्मी ना. ५ ००  
 मेहता, वी. एन. दे. गार्नर  
 मेहता, भानुशकर, १९२१- चिकित्सा की प्रगति. राजकमल.  
 २.००  
 भारतेदु नाट्य रूपक ना. प्र. सभा ३ ००. ना.  
 वे सपनों के देश से लौट आये हि प्रचा. पु १ २५ वप्र.  
 मेहता, भूपाल भारत की खाद्य समस्या. मगल ०.४०. नि  
 मेहता, यशोधरा. हमारानी बोरा ५ ५०. उ.  
 मेहता, रमेश. अडर सेक्रेट्री. देहाती. २ ५०. ना.  
 अपराधी कौन. देहाती. २ ०० ना  
 उलझन. देहाती. २.०० ना.  
 क्या मुसीबत है देहाती. २ ५०. ना  
 जमाना. देहाती २ ००. ना.  
 ढोग देहाती २.०० ना.  
 दामाद. देहाती २.००. ना  
 फंसला. देहाती २ ००. ना  
 बच्चों के नाटक देहाती. ३ ००  
 रोटी बेटी देहाती. २.००. ना.  
 सात नाटक. देहाती. १० ५०.  
 हमारा गाव देहाती २.०० ना  
 मेहता, रामकृष्ण दे मिश्र, योगीन्द्रनाथ  
 मेहता, विजय. कलयुग की महाप्रलय. सा. प्र २.०० उ.  
 मेहता, वी एन आधुनिक योरोप. भा. १. लक्ष्मी ना.  
 ७.००  
 मेहता, वेद. मेरा जीवन-सघर्ष. राजपाल ४.०० जी.  
 मेहरा, आनंद. आकाश पर चढ़ाई. हिंदिया. ० ६०. वप्र.  
 मेहरा, उमाशकर. मध्यकालीन भारतीय सभ्यता एव सस्कृति.  
 विनोद. ८.००  
 मेहरा, जमुनादास नकावपोश. हि. पु ए १.२५. ना.  
 वसंतप्रभा उर्फ एक पैसा. हि पु. ए. १.२५ ना.  
 हिंद हि पु ए. १ २५. ना.  
 मेहरा, बंदीनारायण, १९४०- २०वीं शताब्दी का प्रेम.  
 चिराट १ ००  
 मेहरा, रमेशचंद्र. निराला का परवर्ती काव्य. अनुसंधान. १०.००  
 मेहरा, राजनारायण. कोकशास्त्र. सं. ८ रगभूमि ५.००  
 नारी के गोपनीय भेद रगभूमि. ५ ००  
 मेहरोत्रा. धरती और धुआ. प्रभात पब्लि. २.५०. उ.

मेहरोत्रा तथा अग्रवाल. भूकप और ज्वालमुखी की कहानी.  
 कि महल ३ ००  
 —तथा जितेंद्रप्रसाद सक्सेना. मानव भूगोल. लक्ष्मी ना एवं  
 राष्ट्रीय प्र मंदिर. १० ५०  
 मेहरोत्रा, आर. शरीर-विज्ञान और स्वास्थ्य-कला कि. महल.  
 ० ७५  
 मेहरोत्रा, आर. एन. दे. शैरी, जी पी  
 मेहरोत्रा, आर. सो. तथा अन्य. सामान्य विज्ञान. श्रीराम  
 मेहरा. ६.२५  
 मेहरोत्रा, एच सी. आयकर विधान तथा लेखे. स २ सा.  
 भवन, आ. १० ००  
 मेहरोत्रा, कमला. बीरबल का अजब तमाशा. कि. महल.  
 ०.७५. वप्र  
 बीरबल का न्याय कि. महल ०.७५ वप्र  
 बीरबल का स्वर्गारोहण. कि महल. ० ७५ वप्र.  
 बीरबल का हवाई महल ० ७५ वप्र  
 बीरबल की खिचड़ी. कि महल ० ७५ वप्र  
 बीरबल की फासी. कि महल. ० ७५. वप्र  
 मेहरोत्रा, कृष्णमूर्ति. आविष्कारों के खेल. सा भवन, इ  
 २.००. वप्र.  
 महात्मा बुद्ध सा रत्न भ. १ ०० ना.  
 सप्त एकाकी सा रत्न भ. ० ७५. वप्र  
 सप्त वैज्ञानिक. सा रत्न भ ०.७५. वप्र.  
 मेहरोत्रा, गगानारायण. कडवे मीठे घूट हि सा भ १.२५. क  
 मेहरोत्रा, ज. ना शांति-प्रिय नेहरू गंगा. १.५०. जी.  
 मेहरोत्रा, जी पी. तथा अन्य. राजनीति के सिद्धांत. रामचंद्र.  
 १२ ५०  
 मेहरोत्रा, प्रभुदयाल अर्वाचीन योरोप (१४५३-१९६२).  
 अपर ११ ००  
 आधुनिक योरोप (१७८६-१९६२). अपर. ८ ००  
 मेहरोत्रा, प्रेमनारायण शैक्षिक सांख्यिकी तथा मापन सा. नि.  
 का. ६ २५  
 मेहरोत्रा, वैकुण्ठनाथ ऊँचे और ऊँचे. इ प्रे २ ०० क.  
 धरती और धुआ अपर २ ५० उ  
 मेहरोत्रा, महाराजनारायण पृथ्वी की आयु. हि समि. ८.००  
 मेहरोत्रा, राजेन्द्र चाचा नेहरू सा नि., व. ०.७५. वप्र.  
 डा० राजेन्द्रप्रसाद सा नि., व ०.७५. वप्र.  
 बच्चों की कहानिया सा नि., व. ०.७५. वप्र.  
 महात्मा गांधी. सा नि, व. ० ७५. वप्र.  
 हमारे गाव. सा नि., व ० ७५. वप्र.  
 मेहरोत्रा, रामचरण. दे तिवारी, रामदास.  
 मेहरोत्रा, राममूर्ति. जानवरों की ऐतिहासिक कहानियां.  
 सा. भवन, इ. १.२५. वप्र.  
 जानवरों की पौरा. कहानियां सा. भवन, इ १.२५. वप्र  
 पंच प्रभून. सा. रत्न भ १.२५. वप्र.  
 पद्य-पक्षियों की शिक्षाप्रद कहानियां सा भवन, इ. १.५०.  
 वप्र.  
 बाल विकास. हि. प्रचा. पु. २.५०

भाषा-विज्ञान-सार ना प्र सभा २५०  
 लिपि विकास सा रत्न भ ०७५  
 मैहरोत्रा, रामेश्वरप्रसाद गुल सनोवर कि महल ०७५ वप्र  
 वैताल पचीसी कि महल १५० वप्र.  
 वैज्ञानिको की जीवन झाकी कि महल  
 सुनहरी मछली गगा ०७५ वप्र  
 हमारे वैज्ञानिक कि महल ०७५  
 मैहरोत्रा, रामेश्वरप्रसाद दे जरासघ  
 मैहरोत्रा, विश्वभरनाथ भवरगीत रा बेनीप्रसाद १००  
 मैहरोत्रा, शाति, १९२६- सुरखाब के पर ड प्रे ३५०.  
 मैहरोत्रा, सिद्धनाथ गीता तत्व प्रदीप सा भवन ८००  
 मैहरोत्रा, हरिश्चकर अधकार का अत न्यू लिट १७५ उ  
 मैहेर, गगाधर तथा कालीचरण पाणिग्राही कविश्री माला  
 उडिया राष्ट्र प्रचा समि २००  
 मैडलेवम, अरनोल. विजली की कहानी राजपाल २००  
 मैकडौनेल, ए ए, १८५४-१९३० वैदिक माइथोलौजी  
 (वैदिक पुराकथाशास्त्र) अनु रामकुमार राय चौखवा  
 १५००  
 संस्कृत साहित्य का इतिहास अनु चारुचद्र शास्त्री चौखवा  
 ७५०  
 —तथा ए वी कीथ वैदिक इडेक्स अनु रामकुमार राय  
 चौखवा ४००० ?  
 मैक ब्राईट, डय्ल्यू जे हीन भाव राजकमल १२५  
 मैकमिलन, ह्वीलर अन्नपूर्णा धरती आत्माराम ३५०  
 अर्थशास्त्र  
 मैकियावली नरेश कि महल ३०० राज  
 मैकेजी, जे एस नीति प्रवेशिका राजकमल १०००  
 मैटरलिक, मॉरिस नीलपछी अनु कामिल बुल्के वि राष्ट्र  
 २५० ना  
 मैत्रा, अनिलचद्र वधु या प्रियतमा पारिजात प्र उ  
 मैत्रा, डी. पी सुगम मैटेरिया मेडिका और रेपर्टरी लहरी  
 ५००  
 मैत्रीदेवी सुखी जीवन गीता ०५०  
 मैथिलीशरण सिंह पुस्तको का मूल्य निर्धारण पु भ  
 १००  
 मैनन तथा अन्य प्रवध भास्कर औरिएटल ५००  
 मैनी दे धर्मपाल मैनी  
 मैर, हीरालाल. दे भारद्वाज, सत्यदेव  
 मैरियट, कैप्टेन मास्टर मैन रेडी इ प्रे २७५ वप्र  
 मोगा, पी राज आपका बालक, उसका स्वास्थ्य तथा पालन-  
 पोषण मक्तवा ४५०  
 मोटा दे हृदयनाथ मोटा  
 मोटाराम मोटाराम मोटमत मुक्तसागर देहाती १५०  
 मोतीचद्र, १९०९- काशी का इतिहास हि ग्र र २२००  
 पचत्र राजकमल ५२५, (पा) २००  
 प्राचीन भारतीय वेश-भूषा भा भ १२००  
 सार्थवाह वि राष्ट्र ११००  
 मोतीचद्र. दे. अग्रवाल, वासुदेवशरण

मोतीसिंह. निर्गुण साहित्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ना प्र. सभ  
 ७५०  
 मोदक, सिरिल आजादी किस कीमत पर न्यू लिट ३.७५  
 भारत का भाग्य साधना सदन १७५  
 मोदी, आनदी आदर्श मुखिया ग्रथ भ ०६२ वप्र  
 नानी कहो कहानी ग्रथ भ ०७५ वप्र  
 मोदी, प्रफुल्लकुमार, सपा करलक्खण भा ज्ञानपीठ ०७५  
 मोदी, विठ्ठलदास, १९१३- जीने की कला स ४. आरोग्य  
 १५०  
 दुग्ध-कल्प आरोग्य १००  
 प्राकृतिक जीवन की ओर सस्ता १५०  
 यूरोप यात्रा आरोग्य २००  
 यूरोप यात्रा—प्राकृतिक चिकित्सक की सस्ता १५०  
 रोगो की सरल चिकित्सा परि स ४ आरोग्य ४००  
 —सपा उपवास से लाभ स ५ आरोग्य १५०  
 वच्चो का स्वास्थ्य और उनके रोग आरोग्य ३००  
 स्वास्थ्य कैसे पाया ? स २ आरोग्य १५०  
 मोदी, हेमचद्र दे बल्शी, पदुमलाल पुन्नलाल  
 मोपासा एक औरत की जिंदगी राजपाल ३५० उ  
 दुखियारी नवयुग प्र ४०० उ  
 नारी. एक पहली प्रचा पा १.०० उ  
 पेरिस का रगीला कि महल ३०० उ  
 प्रायश्चित अनु सतोष गार्गी आत्माराम २.०० क.  
 वेल-आमि मानसरोवर सा कथा  
 मानव हृदय की कथाए हि ग्र र २५० क  
 मोपासा की श्रेष्ठ कहानिया प्रभात प्र ३००  
 मोमिन जीवनी और सकलन राजपाल १५०  
 मोरलैंड मुसलिम भारत की ग्रामीण व्यवस्था अनु कमलाकर  
 तिवारी आदर्श हि १०००  
 मोराविया, अलवर्टो यौवन के दिन सुरेद्र २०० उ.  
 रोम की नारी सुरेद्र ३५० उ, — —पुष्पी १२५  
 मोरियर, दाफनी दु रेवेका नेशनल ८०० उ, — —अनु  
 शाति भटनागर सस्ता ५००  
 मोलियर ढोगी रूपा विनोद रस्तोगी. आत्माराम १५०.  
 ना  
 मोलियर, एम आर कजूस ख २ वसल २०० ना  
 मोल्येर कौआ चले हस की चाल अनु ब्रजनाथगाधव  
 बाजपेयी, कला-नि २५० ना  
 मोसले, लियोनार्ड भारत मे ब्रिटिश राज के अतिम दिन  
 आत्माराम ७५०  
 मोहता, सूरजमल भागवत-कथा सस्ता ३.५०  
 मोहन अमर ज्योति ववई प्र १२५ जी  
 पृथ्वी के पडौसी ववई प्र ०६० वप्र  
 मोहन दे अवस्थी, मोहनलाल 'मोहन'  
 मोहन दे मिश्र, वीरेद्र कुमार 'मोहन'  
 मोहन, वी एम शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत एव तत्त्वज्ञान  
 स २ मैट्रोपोलिटन ४५०  
 मोहन नामधर, संपा प्रार्थना सग्रह प्र प्रसारन ०.५०. का.

मोहन प्रदीप नया भारत. भाग्योदय २.००. ए  
मजिल एक—राहे अनेक भाग्योदय. २०० ए  
मोहन राकेश. अंधेरे बंद कमरे. राजकमल. ११०० उ  
आखिरी चट्टान तक. राजकमल (पा.) १०० या  
आषाढ का एक दिन राजपाल २५० ना.  
एक और जिदगी राजपाल ३.००. क  
जानवर और जानवर. राजकमल ३.००. क  
नये बादल. भा ज्ञानपीठ. २.५०. क  
पाच लबी कहानिया राजकमल (पा.) १.००  
राजेद्र यादव की कहानिया. राजपाल. २.५०  
लहरो के राजहंस. राजकमल ३५० ना  
—अनु. मृच्छकटिक राजकमल ४.५०. ना  
मोहनलाल लाठी शिक्षा देहाती १००  
—तथा सुरेन्द्रचंद्र गुप्ता, सपा आलोचना और आलोचक. एस  
चाद ३००  
प्रतिनिधि-आलोचक एस चाद ४५०  
मोहनलाल 'जिज्ञासु', १९२२- कहानी और कहानीकार.  
आत्माराम ३५०  
नूतन प्रबन्ध-वल्लरी श्री भा भारती १७५. का  
हिंदी-गद्य का विकास. श्री भा भारती ६००  
हिंदी गद्य की रूपरेखा (सक्षिप्त) श्री भा भारती २.५०  
मोहनलाल मारवाडी मारवाडी गीत संग्रह देहाती ४५०  
मोहनलाल विद्यालकार कविता की रिमभिम रात कला-भा  
मोहनलाल 'शार्दूल'. अगडाई आत्माराम १.५० [उ  
पथ के गीत आत्माराम २५० का  
मोहनसिंह मोहन विनोद. सपा कृष्णबिहारी मिश्र. ना. प्र.  
सभा १५०  
मोहन सिंह स्वातंत्र समर सैनानी. जुगल किशोर ३००  
मोहना सिंह हिंदी-प्रवेशिका बबई हिं ०५०  
मोहनी इंग्लिश काशीदाकारी देहाती ५००  
मोहम्मद खलीक आदमी राजपाल ०७५ बप्र  
मोहम्मद मुजीब आजमाइश मक्तबा १०० ना  
मोहार दे कवीद्र 'मोहार'  
मोहिले, रूपनारायण तथा अन्य प्रायोगिक रसायन आगरा  
बुक १७५  
मौगल, आर सी. हिंदी शुद्ध लेख भा १ इ पब्लि ०७५  
मौर्य, द्वारकाप्रसाद जवानी का नशा चौधरी. ३२५  
साहसी राजपूत चौधरी २००  
मौर्य, द्वारिकाप्रसाद विचित्र योगी. गगा २.७५ उ  
मौर्य, रामप्यारे पृथ्वी और मनुष्य रा वेनीप्रसाद. ४.५२  
मौलियर उत्सर्ग गगा १०० ना  
रायवहादुर. गगा ३०० ना.  
म्हाने, राम दे माथुर, गिरीश

## य

यग तथा मैक समाजशास्त्र के सिद्धांत एस चाद.

यग, किंबल. सामाजिक मनोविज्ञान. अनु. आर बी एस तोमर.  
गयाप्रसाद  
यजुर्वेदीय, गौतम हिंदी के निर्माता. छात्रहितकारी १.२५  
यज्ञदत्त दे शर्मा, यज्ञदत्त  
यतींद्र, १९३०- आग, पानी और तूफान उमेश ४.००. उ.  
आचार्य चरणक्य औरिएटल ६.०० उ  
यतेंद्रकुमार आर्थिक विचारों का विकास भा प्र मंदिर.  
५००  
छाया के स्वर आत्माराम १.००. का  
महाकवि कीट्स का काव्य-लोक आत्माराम ७.५०  
महाकवि वर्डस्वर्थ का काव्य-लोक आत्माराम ७५०  
यतेंद्रकुमार दे शैली, पी बी.  
यदुवशी शैवमत बि राष्ट्र. ८००  
यश कथा-मजरी राजहंस. २५० क.  
कारावास आत्माराम २०० क.  
मैं पूछता हू राजपाल २०० क.  
यशपाल, १९०३- अभिशप्त विप्लव ३५० क  
अमिता विप्लव ५०० उ  
आदमी का बच्चा अशोक पा १.०० क  
उत्तमी की मा विप्लव ३०० क.  
उत्तराधिकारी. विप्लव ३०० क  
ओ भैरवी ! विप्लव ३०० क.  
गांधीवाद की शव-परीक्षा विप्लव ३००  
गीता विप्लव २५०. उ, — —हिंद पा. १००.  
चक्कर क्लब विप्लव ३०० नि.  
चलनी मे अमृत प्रभात पब्लि ४५०. उ  
चित्र का शीर्षक विप्लव ३०० क.  
जग का मुजरा विप्लव ३०० नि.  
जुलैखा विप्लव ७५०. उ  
ज्ञानदान विप्लव ३.०० क.  
भूठासच—देश का भविष्य विप्लव-१४०० उ  
भूठासच—वतन और देश. विप्लव. ११०० उ.  
तर्क का तूफान विप्लव ३५० क  
तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हू. विप्लव ३००. क.  
दादा कामरेड विप्लव ४०० उ  
दिव्या. विप्लव ५०० उ  
देखा, सोचा, समझा विप्लव ३५० नि  
देशद्रोही विप्लव ६५०. उ  
धर्मयुद्ध विप्लव. ३००. क  
नशे-नशे की बात ! विप्लव ३०० ना  
न्याय का सघर्ष विप्लव ३०० नि.  
पक्का कदम. विप्लव ५.००. उ  
पिंजडे की उडान विप्लव. ३५० क  
फसल विप्लव ६०० उ  
फलो का कुर्ता विप्लव. ३०० क.  
वटवारे का तूफान पजावी पु ३००. उ ; — —स्टार.  
(पा.) १००  
वात-वात मे वात. विप्लव ३००. नि

१२ घटे विप्लव ४०० उ  
 वीवीजी कहती है, मेरा चेहरा रोवीला है विप्लव ३००  
 भस्मावृत चिन्गारी विप्लव ३०० क [नि  
 मनुष्य के रूप विप्लव ६५० उ  
 मार्क्सवाद विप्लव ४००  
 रामराज्य की कथा विप्लव ३००  
 राहणीती विप्लव ३५० सस्म  
 लेनिन और गांधी ज्ञान प्र १००० जी  
 लोहे की दीवार के दोनों ओर विप्लव ७०० सस्म  
 वो दुनिया विप्लव ३०० क  
 श्रेष्ठ कहानिया राजपाल (पा) १००  
 सच बोलने की भूल विप्लव ३०० क  
 सिंहावलोकन विप्लव भा १ ५००, भा २ ५५०, भा  
 ३ ५०० सस्म  
 यशपाल दे मार्कडेय  
 यशपाल, डा परिवहन सिद्धात, इतिहास एव समस्याए  
 लक्ष्मी ना ६००  
 यशवत दे केशवसुत  
 यशवत सिंह भाषा-भूषण स ३ रा वेनीमाधव ०७५,  
 — —सपा विश्वनाथप्रसाद मिश्र हि सा कु १००  
 यशोविमलानंद गीत और आसू एस चाद ४०० उ  
 टूटा किनारा एस चाद ३५०  
 वापू ओरिएटल ०६२ वप्र.  
 भगवान गौतम ओरिएटल ०६२ वप्र  
 सगम या विछोह उमेश ३२५ उ  
 सती ओरिएटल ०६२ वप्र  
 सावित्री ओरिएटल ०६२ वप्र  
 याग शुभ्रो वसती भूमि के हजार मील राष्ट्रीय प्र मदिर  
 ४०० उ  
 याज्ञिक, जीवनशकर तथा केदारनाथ भट्ट, सपा सत्य हरिश्चंद्र  
 नाटक (भारतेदु हरिश्चंद्र) रा वेनीप्रसाद १००  
 याज्ञिक, श्यामसुंदरलाल मनकी मनुहार हि सा परि, म का  
 यात्री दे टडन, कस्तूरीलाल 'यात्री'  
 यादव, आर एस. सैन्य विज्ञान के सामान्य सिद्धात सगठन  
 तथा शस्त्रास्त्र विनोद ४००  
 यादव, डी एस आधुनिक आर्थिक एव वारिण्य निवध  
 आगरा बुक २००  
 सुबोध द्रव्य, विदेशी विनिमय एव अंतराष्ट्रीय व्यापार  
 एस चाद ८००  
 यादव, दयालचंद्र प्राणी विज्ञान मिश्र-वधु भा १ २७५,  
 भा २ २७५  
 यादव, वस्तीराम सामाजिक अध्ययन कि महल ५००  
 सामाजिक ज्ञान कि महल ५००  
 यादव, वैजनाथ कोचवान राष्ट्र प्र म उ  
 गुजरते दृश्य बदलती करवटे राष्ट्र प्र म २५० उ  
 वातो की खिचडी राष्ट्र प्र म १०० वप्र  
 लालच मे जान गई राष्ट्र प्र म १०० वप्र  
 यादव, व्रजनाथसिंह दे लल्लनजी गोपाल.

यादव, मुरलीधर शासकीय आलेखन कला कि महल  
 २५०  
 यादव, राजेद्र, १९२९- अनदेखे अनजाने पुल राजपाल  
 ३०० उ  
 अभिमन्यु की आत्महत्या. राजकमल ३०० क  
 आवाज तेरी है भा ज्ञानपीठ ३०० का  
 उखड़े हुए लोग राजकमल १००० उ, — —सा. सदन,  
 दे १०.००  
 एक इच मुस्कान राजपाल ६०० उ  
 कमलेश्वर की कहानिया राजपाल २५०  
 किनारे से किनारे तक राजपाल ३२५ क  
 कुलटा राजकमल २५० उ, — —हिंद पा १००  
 खेल-खिलौने भा ज्ञानपीठ २०० क  
 चेखव के तीन नाटक भा ज्ञानपीठ ४००  
 छोटे-छोटे ताजमहल राजपाल ३५० क  
 जहा लक्ष्मी कैद है राजकमल ४०० क  
 प्रेत बोलते है राष्ट्रीय प्र मडल एव राष्ट्रीय सा स ४.७५.  
 उ  
 मन्न भडारी की कहानिया राजपाल २५०  
 शह और मात भा ज्ञानपीठ ४.०० उ  
 सारा आकाश राजकमल ५००, (पा) १५० उ.  
 —तथा मन्नू भडारी अकेली हिंद पा १०० उ.  
 एक इच मुस्कान राजपाल ६०० उ  
 एक पुरुष एक नारी हिंद पा १०० उ  
 —सपा मन्नू भडारी राजपाल २५० क  
 मोहन राकेश राजपाल २५० क  
 यादव, राजेद्र दे वैक, स्टीन  
 यादव, राजेद्र दे स्टेनवेक, जान  
 यादव, रामप्रवेश क्रांति आदर्श पु भ ३०० उ  
 यादव, रामप्रसाद हिंदी शिक्षण श्रीराम मेहरा ४००  
 यादव, शकरलाल हरियाना प्रदेश का लोक-साहित्य हिंदु  
 एकेडेमी १२००  
 यादवजी त्रिकमजी द्रव्यगुण विज्ञान मोतीलाल ३५०  
 रसामृत मोतीलाल ५००  
 यादवेदु तथा मेहता दे कोकर  
 यादवेदु, रा न साहित्यालोचन के सिद्धात लक्ष्मी ना ३००  
 यादवेदु, रामनारायण आदर्श पत्नी गगा ३२५  
 दापत्य जीवन गगा ३००  
 राष्ट्र सघ और विश्व शांति मानसरोवर सा २.५०  
 यायावर पकज और पानी भा सा सदन १७५, (पा)  
 १०० उ  
 प्रणय और परिग्रह भा सा सदन १७५, (पा) १०० उ  
 युग, सी जी तथा अरविद वसावडा विश्लेषणात्मक मनो-  
 विज्ञान चौखवा २००  
 युगजीत नवलपुरी आइस्टीन पीपुलग १५० वप्र  
 युगजीत नवलपुरी दे वरदुलाई, रजनीकात  
 युगजीत नवलपुरी दे मजूमदार, लीला  
 युगजीत नवलपुरी दे महाती, गोपीनाथ.

युगजीत नवलपुरी. दे. राय, राधानाथ.  
 युगजीत नवलपुरी दे सेनापति, फकीर मोहन.  
 युगल इस देश का राजा मै सा. भवन, इ १०० बप्र  
 गधो ने वोट दिया सा भवन, इ १२५ बप्र.  
 द्विधा हि. प्रचा. पु ४०० उ  
 शहर का आदमी. सा भवन, इ १०० बप्र.  
 युगलकिशोर प्री-यूनिवर्सिटी इतिहास भारतवर्ष. यूनिवर्सिटी  
 १०.००  
 भारतवर्ष का इतिहास यूनिवर्सिटी ११३०  
 मधुमेह, जिगर, गुरदो, मसानो के रोग कल्याणमल १५०  
 युधिष्ठिरकुमार अपने बच्चों को पहचानिए आत्माराम  
 २००  
 आदर्श कथाए आत्माराम. १५० बप्र  
 युधिष्ठिर मीमांसक, १९०६- आचार्य पाणिनि के समय  
 विद्यमान संस्कृत वाङ्मय स २ भा प्राच्य. १००  
 ऋग्वेद की ऋक्सख्या भा. प्राच्य ०५०  
 ऋषि दयानंद की पदप्रयोग-शैली भा प्राच्य १५०  
 ऋषि दयानंद के ग्रंथों का इतिहास भा प्राच्य ४.००  
 म. दयानंद सरस्वती का भ्रातृवश तथा स्वसृवश भा प्राच्य.  
 ०.४०  
 वैदिक-छंदोमीमासा भा प्राच्य. ४५०  
 वैदिक-स्वर-मीमासा. परि स. भा प्राच्य. ४.००  
 —सपा. यजुर्वेद-भाष्य-संग्रह भा प्राच्य ४००  
 संस्कृत व्याकरण-शास्त्र का इतिहास. भा प्राच्य भा. १  
 परि. स. २ १२००; भा. २ १०००, — — भा. १.  
 आत्माराम १०००  
 —तथा रामशंकर भट्टाचार्य, सपा. क्षीर-तरंगिणी. भा. प्राच्य.  
 १२००  
 युधिष्ठिर मीमांसक दे दयानंद, स्वामी  
 युद्धवीरसिंह स्त्रियो के रोग और चिकित्सा गगा. ३.७५  
 युसुफ हुसैन मध्ययुगीन भारतीय संस्कृति भा प्र मंदिर  
 ५.००  
 यूजेन लवे दिन की यात्रा रात में. अनु अस्क. नीलाभ ना.  
 येजोव, अ. सोवियत आकडे पीपुल्स १३७  
 येफ्रेमोव, इवान ओइकुमेना पीपुल्स. २०६ उ.  
 योगेद्रकुमार 'लल्ला' खेल भी विज्ञान भी. शिक्षण. १५०  
 टिंगटिंग आत्माराम. १००  
 पुरखो के दर्शन आत्माराम १०० बप्र  
 मक्खी और मच्छर की कहानी आत्माराम. २.००  
 राष्ट्रीय एकाकी गिरिधर. ४.००  
 सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्तान हमारा आर्ट्स ४००,  
 — — गिरिधर ४.००  
 स्मृति चित्रण केदारनाथ १००  
 —सपा ज्ञान-गगा आत्माराम  
 राष्ट्रीय एकाकी आर्ट्स ४०० बप्र.  
 —तथा श्रीकृष्ण, सपा प्रतिनिधि अतर्प्रातीय हास्य कहानिया  
 आत्माराम  
 प्रतिनिधि अतर्राष्ट्रीय हास्य-कहानिया आत्माराम

प्रतिनिधि बाल-सामूहिक गान. आत्माराम ३.००  
 प्रतिनिधि सामूहिक-गान आत्माराम ४००  
 प्रतिनिधि साहसिक कहानिया आत्माराम  
 हिंदी लेखिकाओं की प्रतिनिधि कहानिया आत्माराम १०.००  
 —तथा अन्य, सपा प्रतिनिधि हास्य-व्यंग कविताए  
 आत्माराम  
 योगेद्रकुमार लल्ला दे पृथ्वीनाथ शास्त्री.  
 योगेद्रकुमार लल्ला दे मनमोहन सरल.  
 योगेद्रकुमार लल्ला दे श्रीकृष्ण  
 योगेद्रजीत, भाई अर्वाचीन भारतीय शिक्षा का विकास तथा  
 समस्याए सरस्व स ८००  
 बालमनोविज्ञान विनोद. ८००  
 वुनियादी शिक्षा सरस्व स. ६००  
 शिक्षा मनोविज्ञान सशो स २ विनोद ३००  
 शिक्षा सिद्धांत सशो. स. २ विनोद ३००  
 हिंदी भाषा शिक्षण सशो स ३ विनोद. ४.५०  
 योगेद्रनाथ तथा तेजनारायण टंडन सूर पचरत्न टीका  
 (संपूर्ण) हि सा भ ३५०  
 योगेद्र विहारीलाल दे श्रीवास्तव, प्यारेलाल.  
 योगेश अटल. आदिवासी भारत राजकमल  
 योगेशचंद्र प्रसाद भूगोल की बातें. भा २-३ अशोक प्रे  
 ०.६२ (प्र) बप्र  
 योस्ट, एडना. आज की वैज्ञानिक महिलाए राजपाल. ३.००  
 यौधय. काल पाशक पर विजय दास  
 यौधेय दे. अभयकुमार 'यौधेय'.

र

रग. दे. बलवीरसिंह 'रग'  
 रगनारायणपाल कवि प्रेमलतिका. भारतजीवन ०.२५ का.  
 रगीलाल किस्सा तोता मैना श्यामलाल. २.००  
 रजन दे. प्रभात रजन  
 रजीत राही. आखिरी देवता मजीत २५०  
 चिकने पत्थर मजीत ४००  
 डूबते किनारे मजीत ४५०  
 लगन मजीत ४५०  
 लाजी मजीत २५०  
 रक्षपाल, आर कीटों में सामाजिक जीवन आत्माराम ३००  
 रघुनंदन मुद्गलपुरी बिखरे फूल ज्ञानोदय ०५० का  
 रघुनंदन शास्त्री दृश्य कुसुमाकर मोतीलाल १५०  
 हिंदी छंद प्रकाश राजपाल २००  
 रघुनाथदत्त बधु पुराण कथा कौमुदी नेशनल १०००  
 रघुनाथप्रसाद नाडी ज्ञान तरंगिणी देहाती २५०  
 शरीर और स्वास्थ्य विज्ञान कला-नि २.२५  
 रघुनाथ 'रसाल' रामचरित्र राजकमल ३५० का  
 रघुनाथ सफाया दे हडू, जियालाल  
 रघुनाथ सिंह आर्याना ज्ञानमंडल. ३००. या



आस्ट्रेलिया ज्ञानमंडल. ४०० या  
 इद्रजाल प्रचा पा १००  
 दक्षिण पूर्व एशिया ज्ञानमंडल ७५० या  
 धर्म-निर्पेक्ष राज्य इ प्रे ६५०  
 योगवासिष्ठ रामायण हि प्रचा पु ७००  
 रामायण कथा हि प्रचा पु ४५०  
 विश्व के धर्म प्रवर्तक ज्ञानमंडल ६५०  
 सस्कार हि पु ए २५० उ, — — हि प्रचा पु ३००  
 रघुनाथ सिंह, ठाकुर मीठी ताने बसल १२५ बप्र  
 रघुवीर सिंह वचनिका राजकमल १०००. का  
 —सपा कहानी नई पुरानी राजकमल २०० क  
 रघुवीर सिंह दे टॉड, जेम्स  
 रघुमैथ्य, लक्ष्मी सघर्ष की राहे स्टार पा १.००. उ  
 रघुराज सिंह सक्षिप्त रामस्वयंवर सपा ब्रजरत्नदास ना प्र  
 सभा. ३००  
 —तथा विजयेद्रपाल सिंह हमारी आर्थिक एव वारिण्य सबधी  
 समस्याये लक्ष्मी ना ६००  
 रघुवश, १९२१- अर्थहीन नेशनल ४५० क  
 छायातप सा भवन, इ २५० क  
 ततुजाल कि महल ६०० उ  
 नाट्यकला नेशनल ७५०  
 नाट्यशास्त्र मोतीलाल १५००  
 प्रकृति और काव्य सा भवन, इ ६५०, — — नेशनल  
 हिंदी १२००, संस्कृत १३००  
 भरत का नाट्यशास्त्र मोतीलाल १५००  
 साहित्य का परिप्रेक्ष्य भा ज्ञानपीठ ५००  
 सेतुबंध राजकमल ४५०  
 हरी घाटी भा ज्ञानपीठ ४५० या  
 रघुवश सिंह अर्थशास्त्र की भूमिका मोतीलाल ५००  
 रघुवशी, राजेद्रसिंह नये राष्ट्र का जन्म शिवलाल ०७५  
 बप्र  
 रघुवशी, वी पी एस भारतीय सर्वैधानिक तथा राष्ट्रीय  
 विकास सशो स ३ रतन ७००  
 रघुवशी, वीरेद्रसिंह प्रबल परीक्षा नेशनल ३५० उ  
 सयम सम्राट् यग मैन १८७  
 स्वातंत्र्य संग्राम यग मैन २६४  
 रघुवरदयाल सरल निबंध माला रीगल २५०  
 रघुवर मिट्ठलाल शास्त्री प्राथमिक वेद संग्रह भा भ  
 २००  
 रघुवीर नारायण दे शूक्ल, एस एम  
 रघुवीरशरण 'मित्र', १९१९- अमर रहे यह देश भा सा  
 प्र १५० बप्र  
 आग और पानी भा सा प्र ७०० उ  
 आवश्यकता और लेख भा सा प्र २०० नि  
 इतिहास के देवता भा भा प्र १७५  
 उजला कफन भा सा प्र ४०० उ  
 कदम मिलाते बढे चलो भा सा प्र १५० बप्र  
 की कलम भा सा प्र ४०० आ.

कहानिया अमर है भा सा प्र १५० बप्र  
 कापती आवाज भा सा प्र ४०० उ  
 गीले गीत भा सा प्र २५० का  
 जननायक भा सा प्र १५०० का  
 जलते तारे भा सा प्र ३०० का  
 ज्योति पुरुष भा सा प्र ४०० का  
 भरने और फूल भा सा प्र १५० बप्र  
 ढाल तलवार भा सा प्र ६५० उ  
 धरती माता भा सा प्र १.०० बप्र  
 परतत्र भा सा प्र ३०० का  
 परीक्षा भा सा प्र २०० बप्र  
 पहली हार भा सा प्र ५०० उ  
 प्रतिध्वनि भा सा प्र ४०० का  
 प्रेरणा भा सा प्र २५० का  
 फासी भा. सा प्र ३०० का  
 बदी भा सा प्र ३०० का  
 बच्चो का देश. भा. सा. प्र १०० बप्र  
 बलिदान भा सा प्र ५०० उ  
 बालवीर कृष्ण भा सा प्र १२५ बप्र.  
 बुद्धि के हीरे भा सा प्र १२५ बप्र  
 बौनी बाबू भा सा प्र १०० बप्र.  
 भारत के लाल भा. सा प्र १०० बप्र  
 भारत माता भा सा. प्र. २०० ना  
 भूमि के भगवान भा सा प्र १५० बप्र  
 भूमिजा भा सा प्र ५०० का  
 महापुरुष भा सा प्र १०० बप्र  
 मेले के मोती भा सा प्र ०५० बप्र  
 राख की दुलहन भा सा प्र ६०० उ.  
 राष्ट्र ध्वज भा सा प्र २०० ना  
 वीर बालक भा सा प्र १०० बप्र  
 सुनो बच्चो भा सा प्र १५० बप्र  
 सोने की राख भा सा प्र ४०० उ  
 हमारे सत भा सा प्र २०० जी  
 हरिजन भा सा प्र ०७५ बप्र  
 रघुवीरसिंह जहा सुमति तहा सपति नाना आर्य बुक ०७५  
 रजनिसाद तथा एम. एल दास स्थिति विज्ञान बुकलेड  
 ५००  
 रजनीकात शकरदेव सस्ता ०४० बप्र  
 रजनीकात शास्त्री मानस मीमासा कि महल ४०० (अप्र)  
 वैदिक साहित्य परिशीलन कि महल ३००  
 हिंदू जाति का उत्थान और पतन कि महल ६००  
 रजनी पामदत्त भारत वर्तमान और भावी पीपुल्स ६५०  
 रजनीश आराधना मानसरोवर सा १५०  
 रजनीश विचित्र चित्रमय बाल कहानिया एस चाद ०७५  
 बप्र  
 रजिया सज्जाद जहीर मिर्जा गालिब पीपुल्स १५० बप्र.  
 सुमन. राजकमल (पा) २०८ उ  
 रज्जाक, अब्दुल दे अब्दुल रज्जाक

रणछोडदास, अनु. सुखसागर मध्यम साइज. श्यामलाल.  
१०.००  
रणजीत तीर्थ मानचित्र विज्ञान. २ भा स. ६. रस्तोगी  
४०० (प्र)  
मानचित्र विज्ञान स ६ रस्तोगी. ७००  
रणजीत भाई बच्चो की दुनिया दि पु. स २.००  
रणदिवे, एम वी. यह दोस्त हमारा दुश्मन है विविध १.५०  
ना.  
रणधीर सिंह कविवर बिहारीलाल और उनका युग.  
अनुसंधान १६००  
रणवीर परदेसी पजाबी पु ३.००. उ, — — स्टार (पा)  
१००  
रणवीर सिंह तथा दयाराम शर्मा पादय रसायन शास्त्र.  
एशियन  
रणवीर. चित्रकार आत्माराम ३.०० उ  
पागल कौन ? सहगल ४००. उ  
महामंत्री चणक्य राजकमल. (पा) १००. उ  
रणवीर सिंह हिंदी काव्यादर्श ओरिएंटल ४००  
रतन मीरा. रा बेनीमाधव १०० का  
समाधी सा सगम, लु. ५०० उ  
रतननाथ 'सरशार' कामिनी. सरस्व प्रे ५००. उ.  
पर्वत की सैर सरस्व प्रे ३००. उ.  
पी कहा साथ मे हुस्नू सरस्व प्रे ३.००. उ  
रत्ता, हरिचंद लोको गाइड आत्माराम १०००  
लोकोमोटिव वाल्व सेटिंग आत्माराम ७.५०  
लोकोशैड फिटर गाइड देहाती. १५००  
रतिभानु सिंह 'नाहर' अमर कथाये. छात्रहितकारी १.२५  
बप्र.  
आधुनिक शिक्षा-मनोविज्ञान कि महल ३००  
आधुनिक शिक्षा-शास्त्र कि महल ३००  
कैपफायर शिक्षक छात्रहितकारी १२५ बप्र  
खेल कूद छात्रहितकारी १५० बप्र.  
दुदुभी छात्रहितकारी १०० बप्र  
बालक शिष्ट कैसे बने छात्रहितकारी ०७५. बप्र  
भूत का भ्रम छात्रहितकारी ०७५  
शिष्टता-सदाचार छात्रहितकारी १.०० बप्र  
सबसे बड़ी सफाई छात्रहितकारी ०५०. बप्र  
रतिभानुसिंह 'नाहर' यह भी दे नाहर  
रतुडी, वीरेन्द्रमोहन वीर कुवर सिंह उमेश २०० बप्र  
नेफा और लहाख के साहसी वीरो की गाथाए स २ उमेश  
२५० क  
मीरा बावरी उमेश २०० बप्र  
शातिदूत नेहरू उमेश २०० बप्र  
रत्न दे बलवीरसिंह रत्न  
रत्नकात साहित्यालकार उपहार आनंद पु., को २५० क  
काव्यानुशीलन आनंद पु, को २००  
कैकैयी आनंद पु, को ३०० ना  
जागो ! भारत वीरो ! जागो आनंद पु, को १.००. का.

ज्योति-रश्मि आनंद पु., को. १.००. का  
त्याग. आनंद पु, को १७५. ए.  
नई कविता, नये कवि, नये स्वर आनंद पु, को. २.५०  
पद्मावती पुरी (पन्ना). आनंद पु, को १५०  
परिवर्तन आनंद पु, को १२५ ना  
बुदेलखड के लोक-कवि आनंद पु, को १५०  
भारत के रत्न भा. १ आनंद पु, को ३००  
मध्य प्रदेश के हिंदी-साहित्य-सेवी आनंद पु, को ३००  
रत्नावली आनंद पु., को ३.०० ए.  
साहित्य-सरिता आनंद पु, को २५०  
हरिजन. आनंद पु, को १००. का  
रत्नकुमारी हिंदी और बगला के वैष्णव-कवि. एस. चाद.  
१०००  
रत्नचंद्र महात्मा कबीर विश्वेश्वरानंद. ०५०  
रत्नप्रकाश 'शील' अधियारी पूनम की रात अशोक पा १००  
उ  
आधुनिक फर्नीचर डिजाइन बुक देहाती १२००  
फर्नीचर बुक देहाती. १२००  
फिल्म एक्टिंग गाइड देहाती ५००  
विज्ञान की कहानिया शकुन १५०  
हिंदुस्तान हमारा है शकुन १२५  
रत्नशंकर प्रसाद कुशीक भा भ १५० ना  
रत्न हरियानवी, सपा नग्मा-ए-ववन. अर्चना प्र (पा)  
१.००  
रत्नाकर दे. जगन्नाथदास 'रत्नाकर'  
रफीक हुसैन, सैयद. गोरी, हो गोरी प्रचा पा १.००  
रब, एम के काष्ठ-कला परिचय. कि महल २५०  
काष्ठ-शिल्प कि. महल भा १-२ ० ६२ (प्र.), भा ३  
०७५  
क्रियात्मक काष्ठ-कला कि. महल २५०  
रमइया, पुच्चावेकट तथा इद्रप्रसाद गुप्त मधुमेह. अ. भा. सर्व  
०.७५  
रमण आयाम. हि प्रचा. पु ३०० नि  
—तथा शर्मा सरल संस्कृत अनुवाद इ पब्लि ३५०  
रमण दे विद्यादत्त रमण.  
रमणलाल कई प्रश्न एक उत्तर दि पु सदन २००  
रमन, आर भारतीय खाता लेखन और उसका अभ्यास. रा  
बेनीप्रसाद १५०  
रमाकात 'कात', सपा ५५ की श्रेष्ठ कविताये नव सा प्र.  
४२५  
रमाशंकरप्रसाद सक्षिप्त बिहारी इ प्रे २०० का  
रमाशंकरप्रसाद तथा रामगोविंद पाडेय दे बासू, कालीपद  
रमाशंकर सिंह सचित्र भारत हि पु ए २००  
सहेलियो के पत्र हि पु ए २००  
रमाशंकर सिंह 'मृदुल' भारत की उपज हि पु ए २५०  
रमेशचंद्र कफ परीक्षा मोतीलाल. १२५  
सूचीवेध विज्ञान मोतीलाल ७५० चिकित्सा  
हृदय परीक्षा. मोतीलाल २.००

रमेशचन्द्र गवत समीक्षा अशोक प्र २५०  
 यह देश है वीर जवानो का राजधानी ४५०  
 रमेशचन्द्र दे विद्याराम  
 रमेशचन्द्र 'प्रेम', १९२५- असम की लोक-कथाए भा २  
 आत्माराम १५०  
 आयरलैंड की लोक-कथाए आत्माराम १५०  
 ईरान की लोक कथाए कि महल १५०  
 कोरिया की लोक कथाए कि महल १५०  
 गर्मी और हमारा जीवन आत्माराम २००  
 चीन की लोक कथाए कि महल १५०  
 चौराहा कि महल २५० उ  
 दानवसरट आत्माराम १५० वप्र  
 देश-देश के बच्चे राजहस भा १ १५०, भा २ १२५  
 वप्र  
 देश-विदेश की विचित्र प्रथाए आत्माराम २५०  
 नन्हे-मुन्ने वैज्ञानिक बने आत्माराम १००  
 पाप की छाया कि महल २५० उ  
 वर्मा की लोक कथाए कि महल १५०  
 विश्व की लोक-कथाए ६ भा एस चाद १२५ (प्र)  
 सरीसृप आत्माराम १५० वप्र  
 हमारे पड़ोसी देश आत्माराम २५०  
 —सपा ज्ञान-सागर लोकप्रिय ६००  
 रमेशचन्द्र शास्त्री पचो मे भगवान शिवलाल १५० वप्र  
 रमेश चौधरी ए 'आरिगपूडि', १९२२- अपनी करनी  
 राजपाल २०० उ  
 अपने-पराये हि प्रचा पु २५० उ  
 अपवाद भा सा सदन ४५० उ  
 आध्र की लोक-कथाए भा २ आत्माराम १२५  
 आदरणीय भा सा सदन ४०० उ  
 कुवडा धोवी बर्बई प्र १२५  
 कोई न पराया एस चाद २५० ना  
 खरे-खोटे भा सा सदन ५०० उ  
 जीने की सजा आत्माराम ४०० क  
 भाड-फानूस हि प्रचा पु (पा) १००  
 दूर के ढोल राजकमल ४०० उ  
 धन्यभिक्षु एस चाद ३७५ उ  
 नेपथ्य बर्बई प्र ३०० ए  
 पतित-पावनी राजपाल ३५० उ  
 भूले-भटके भा सा सदन ३०० उ  
 मुद्राहीन भा सा सदन ५५० उ  
 यह भी होता है भा सा सदन ३७५ उ  
 साठ-गाठ भा सा सदन ५०० उ  
 सारा ससार मेरा पजावी पु २५० उ, — — स्टा  
 (पा) १००  
 रमेश चौधरी, ए 'आरिगपूडि' दे वापीराजू, अदीवी  
 रमेग 'तरुण' जयगकर प्रसाद एक अध्ययन सूर्य प्र १५०  
 रमेश प्रभाकर, कुमारी कीडो की विचित्र दुनिया शकुन  
 १७५

रमेश भाई चालाक भैस आत्माराम ०५०, — — एस  
 चाद ०६२ वप्र  
 देखो, पढो, लिखो आत्माराम ०७५ वप्र  
 नटखट पूसी आत्माराम ०६२ वप्र  
 रमेश भारती मिट्टी के मीनार नवयुग प्र ११०० उ  
 शरावी का दिल सन्मार्ग २५० उ  
 सुलगती परछाइया सन्मार्ग ४५० उ  
 रलन, एस आर सरल अग्नेजी बहीखाता रामप्रसाद.  
 ०७५  
 सरल देशी बहीखाता रामप्रसाद ०७५  
 सरल व्यापार पद्धति रामप्रसाद ०७५  
 रवि अतिम दीक्षा श्रीराम मेहरा १२५ ए  
 रविद्र एक मिनट की राती ग्रथालय १०० ना  
 रविशकर कुण्ट-सेवा अ भा सर्व १२५  
 गाधी-धाम. अ भा सर्व ०५०  
 रविशकर के आर्केस्टा संगीत ५००  
 रविशकर महाराज जीवन का पाथेय नवजीवन ०५०  
 रविषेण, आचार्य पन्नापुराण सपा दरबारीलाल  
 भा ज्ञानपीठ भा १ १५०, भा २ २००, भा ३  
 २००, — — सपा पन्नालाल साहित्याचार्य ३ भा  
 भा ज्ञानपीठ ३०.००  
 रवीन्द्रनाथ बहती नदिया जलते किनारे मजु ३५०  
 उ  
 रवीद्र भ्रमर, १९३६- पन्नावत मे लोकतत्व मित्र  
 ५००  
 रवीद्र भ्रमर के गीत सा भवन, इ ३५० का  
 हिंदी भक्ति-काव्य मे लोक तत्व एस चाद  
 —सपा भारती भा प्र मंदिर १७५  
 रश्मि धू धू करती आग रूपसी २०० उ  
 मुसोलिनी के अतिभ दिन अशोक पु म २२५  
 हिटलर के अतिम दिन अशोक पु म २००  
 रसल, वर्ड्ड, १८७२- विवाह और नैतिकता राजकमल  
 ५२५  
 विवेक या विनाश राजकमल २७५  
 शिक्षा की रूपरेखा राजकमल ६२५  
 सत्ता और व्यक्ति रणजीत ३००  
 सामाजिक पुनर्निर्माण के सिद्धांत. राजकमल ६००  
 सुख की साधना राजकमल ५२५  
 रसाल अजस-मोजन गर्ग ब्र २०० का  
 गुरु-दक्षिणा गर्ग ब्र २०० का  
 पार्वती तपस्या गर्ग ब्र १५० खड का  
 भूपण-सार गर्ग ब्र. २००  
 भोज राज गर्ग ब्र १०० खड का  
 मीरा माधुरी गर्ग ब्र १५०  
 रस छदालकार गर्ग ब्र ०७०, भा २ २००  
 रसाल दे पाडेय, देवनाथ 'रसाल'  
 रसाल दे रघुनाथ 'रसाल'  
 रसाल दे शुक्ल, रामशकर 'रसाल'

रसिक. दे. अवस्थी, मणिलाल 'रसिक'  
 रसिक. दे. गुप्त, बलभद्रप्रसाद 'रसिक'  
 रसिकत्रय अनुकरण काव्य-दर्शन गगा. ४५०  
 रसिकविहारीलास रसिक शतक (ब्रजभाषा) हि. सा भ  
 २५०  
 रसूल अहमद 'अबोध' मिर्जा गालिब राष्ट्र प्रचा समि  
 १२५. जी  
 —सपा प्राचीन कविता-संग्रह गाधी हिंदु १५०  
 हिंदुस्तानी मुहावरा कोश हिंदु प्रचा सभा १५०  
 रस्क, आर. आर. महान् शिक्षा शास्त्री विश्वविद्यालय  
 रस्कन, जोन सुनहरी नदी का राजा. वीरा ०७५. बप्र.  
 रस्तोगी हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास राजपाल  
 ५००  
 रस्तोगी, गिरीश हिंदी कहानी, सिद्धांत और विवेक. रतन.  
 ५००  
 रस्तोगी, जगदीशशरण तथा गणेशदत्त. इटरमीडियेट  
 कैलक्यूलस आगरा बुक १००  
 —तथा अन्य माध्यमिक ठोस ज्यामिति. सशो स २. आगरा  
 बुक १२५  
 रस्तोगी, जगदीशशरण दे. बनवारीलाल.  
 रस्तोगी, जयप्रकाश. आधुनिक व्यावसायिक संगठन. आत्माराम  
 ७६०  
 रस्तोगी, जे. पी तथा के एल अग्रवाल. अकगणित दर्पण.  
 श्रीराम मेहरा ३००  
 रस्तोगी, दयाप्रकाश सरल नागरिक शास्त्र सशो स २ भा  
 भा. भा प्र ३००  
 हमारा भारतीय शासन व नागरिकता सशो स ४ भा भा  
 प्र १५०  
 रस्तोगी, देवीशरण. दे शर्मा, कृष्णचंद्र  
 रस्तोगी, फकीरचंद्र क्रांति-दूत इ प्रे ०७५ जी  
 नवीन व्यापारिक अकगणित रा वेनीमाधव. २००  
 रस्तोगी, वी एन प्राचीन भारत (प्रारंभ से १२०० ई०  
 तक) केदारनाथ ६००  
 रस्तोगी, रमेशचंद्र. सस्कृत मुक्तावली मोतीलाल. १.५०  
 रस्तोगी, राजाराम तुलसीदास जीवनी और विचारधारा  
 अनुसंधान. १६.००  
 हिंदी काव्य की अतश्चेतना केदारनाथ ५००  
 रस्तोगी, विनोद, १६२३- अधेरी गलिया अशोक पा. १००  
 कसम कुरान की अपर ३०० ना  
 काले कौवे गोरे हस ओरिएटल २०० ए.  
 गोपा का दान नवयुग प्र ३७५ ना  
 दरारे. अपर ४२५ उ, — —प्रभात पब्लि ४२५  
 देश का दुश्मन ओरिएटल  
 नए हाथ आत्माराम २०० ना  
 निर्माण का देवता बवई प्र. २५० ना.  
 वहू की विदा एस चाद. २.५० ना  
 राख हुए सपने. रूपसी (पा) १००  
 रूपया, रूप और रोटी नवयुग प्र. ६००. उ

स्वर्ग के खडहर उमेश. २७५ ए  
 रस्तोगी, विनोद दे मौलियर  
 रस्तोगी, विनोद दे सैबैस्शियन, मिहेल  
 रस्तोगी भारतीय तथा नागरिक जीवन रीगल ४५०  
 रस्तोगी, ओमप्रकाश प्राणीशास्त्र का सरल अध्ययन  
 सशो स २ केदारनाथ ५००  
 रस्तोगी, के के साख्यिकी केदारनाथ ६००  
 रस्तोगी, धनप्रकाश उच्चतर माध्यमिक वाणिज्य प्रणाली.  
 केदारनाथ. भा १ २७५, भा २ २५०, भा ३ २७५  
 रस्तोगी, नरेन्द्रनाथ नागरिक शास्त्र का सरल अध्ययन केदार-  
 नाथ ४.५०  
 रहबर दे हसरज 'रहबर'.  
 रहमान, एम एच भारत का नवीत भूगोल रा वेनीप्रसाद.  
 ३००  
 रहिम रहिमान-विलास सपा. ब्रजरत्नदास रा वेनीमाधव.  
 २.५०  
 राका, चपालाल नया ज्ञान कि महल ०७५ बप्र  
 नया समाज कि महल. ०७५ बप्र  
 हमारा घर कि महल ०७५ बप्र  
 रागेय राघव अगारे न बुझे. कि महल २-५० क  
 अर्तमिलन की कहानिया कि महल ६००  
 अधेरे की भूख कि महल ३०० (अप्रा) उ  
 अधेरे के जूगनू कि महल ५०० उ  
 आधी की नीवे आत्माराम २५० उ  
 आखिरी आवाज राजपाल ७०० उ  
 आग की प्यास अशोक पा १.०० उ  
 आधुनिक हिंदी कविता मे प्रेम और शृ गार राजपाल ६००  
 आधुनिक हिंदी कविता मे विषय और शैली राजपाल  
 १०००  
 इद्र-धनुष विनोद १५० ना  
 इसान पैदा हुआ कि महल ४०० क.  
 ईडीपस, प्रेम और मृत्यु आत्माराम ३०० ना  
 उवाल राजकमल १७५. उ  
 एक छोड एक आत्माराम ३.०० क  
 ऐय्याश मुर्दे कि महल ३२५ क.  
 कब तक पुकारू राजपाल ८०० उ  
 कल्पना राजपाल २.५०. उ.  
 काका आत्माराम ३०० उ  
 काल विजय लक्ष्मी ना २००  
 काव्य कलश कल्याणमल २००  
 काव्य, यथार्थ और प्रगति विनोद ३००  
 गोरखनाथ और उनका युग आत्माराम ८००  
 घरौदा सा. प्र ८०० उ  
 चीवर कि महल. ५.०० उ  
 छोटी-सी बात. राजपाल २००. उ., — —हिंद पा.  
 १००  
 जब आवेगी काल घटा (चरपटनाथ). विनोद ३५०. उ.  
 तुलसीदास का कथाशिल्प सा प्र ८.००

दशकुमारचरित राजपाल ३००  
 दायरे हिंद पा १०० उ  
 देवकी का बेटा (श्रीकृष्ण). विनोद ३०० उ  
 धरती मेरा घर राजपाल ३०० उ  
 धूनि का धुआ (गोरखनाथ) विनोद ३०० उ  
 पचाली सरस्व पु स १५० का  
 पक्षी और आकाश राजपाल ४०० उ  
 पतभर राजपाल २५० उ  
 पथ का पाप राजपाल २५० उ  
 पराया साहनी ३०० उ  
 पाच गधे राजपाल ३०० क  
 प्रगतिशील साहित्य के मानदंड सरस्व पु स ४००  
 प्रतिदान कि महल ३५० (अप्रा) उ  
 प्राचीन ट्यूटन कहानिया कि महल ६००  
 प्राचीन प्रेम और नीति की कहानिया कि महल ६००  
 प्राचीन ब्राह्मण कहानिया कि महल ६००  
 प्राचीन भारतीय परंपरा और इतिहास आत्मराम १२००  
 प्राचीन यूनानी कहानिया कि महल ५००  
 प्रोफेसर राजपाल २५० उ  
 वदूक और वीन विनोद ३५० उ  
 बोलते खडहर कि महल ३०० (अप्रा) उ  
 बौने और घायल फूल विनोद ३०० उ  
 भारती का सपूत (भारतेदु हरिश्चंद्र) विनोद ३०० उ  
 भारतीय सत परंपरा और समाज कि महल ३००  
 मधावी हिंदु एकेडेमी ३०० का  
 महाकाव्य विवेचन विनोद ३००  
 महायात्रा गाथा (अधेरा रास्ता) कि महल १२०० उ.  
 महायात्रा . गाथा (रैन और चदा) कि महल उ  
 मच्छकटिक राजपाल ३००  
 मुद्राराक्षस. राजपाल २००  
 मुर्दो का टीला. कि महल उ  
 मेरी भव बाधा हरो (विहारी) विनोद ३०० उ  
 यशोधरा जीत गई (गौतम बुद्ध) विनोद ३०० उ  
 रत्ना की बात (तुलसीदास) विनोद ३०० उ  
 राई और पर्वत राजपाल ३०० उ  
 राह के दीपक ग्रथमाला २०० का  
 राह न रुकी राजपाल ३०० उ  
 रूप की ज्वाला कि महल ३०० उ  
 रूप छाया. कि महल २५० नि  
 रैन और चदा कि महल कथा  
 लखमा की आखे (विद्यापति) विनोद ३००. उ  
 लोई का ताना (कबीर) विनोद ३०० उ  
 विरूढक लक्ष्मी ना ३०० ना  
 विषाद मठ कि महल ३५० (अप्रा) उ  
 सगम और सघर्ष कि महल २५० नि  
 ससार की प्राचीन कहानिया कि महल ६००  
 ससार के महान उपन्यास राजपाल १०००  
 समीक्षा और आदर्श विनोद ३००

सीधा-सादा रास्ता. कि महल ६५० उ  
 हुजूर कि महल २५० उ, — —सा प्र. १५०  
 —तथा गोविंद शर्मा संस्कृति और मानव शास्त्र विनोद  
 १०००  
 संस्कृति और समाज शास्त्र विनोद भा १ १०००, भा  
 २ ८००  
 —तथा मुरारी प्रभाकर सामाजिक संस्थाए और रीतिरिवाज  
 विनोद ८००  
 —तथा श्याम शर्मा अपराध शास्त्र विनोद १०००  
 सामाजिक समस्याए और विघटन विनोद ६००  
 - अनु गीत गोविंद (जयदेव) साहनी ४००  
 —रूपा काव्य कला दि विश्व २५०  
 रागेय राघव दे शेक्सपियर, विलियम  
 रागेय राघव दे सोफोकलीज  
 रागा, रगावीर साहित्य-साधना और सघर्ष एस चाद  
 हिंदी उपन्यासो मे चरित्र चित्रण का विकास एस चाद  
 १५००  
 राच, डेनिस सामान्य विज्ञान का अध्ययन रा वेनीप्रसाद  
 भा १-२ १७५ (प्र), भा ३ २-७५, भा ४. ४००  
 राकेश अयोध्याकांड का काव्य-सौंदर्य लक्ष्मी ना ५००  
 इटर प्रारंभिक हिंदी-दिग्दर्शन लायल २५०  
 काव्यांग निरूपण कि घर, ग्वा १२५  
 चद्रवली नाटिका (प्रश्नोत्तर मे) विनोद २५०  
 जीवन यज्ञ, एक अध्ययन लायल १२५  
 द्वापर का काव्य सौंदर्य रामप्रसाद ४००  
 नाटककार प्रसाद और ध्रुवस्वामिनी कि घर, ग्वा ३००  
 निबध दर्शन कि घर, ग्वा ०७५  
 निबध सुषमा गर्ग ब्र २७५  
 नीति की कहानिया स २ हि भवन भा १ ०४०, भा  
 २ ०४०, भा ३ ०५० वप्र  
 पथिक का काव्य-सौंदर्य लक्ष्मी ना ४२५  
 बी ए हिंदी दिग्दर्शन लायल ४००  
 मिलिंद और गौतमनद कि घर, ग्वा १७५  
 रामकुमार वर्मा तथा कला और कृपाण कि घर, ग्वा  
 ३५०  
 वृदावनलाल वर्मा और भुवन विक्रम कि घर, ग्वा ४००  
 श्रीकृष्ण गीतावली का काव्य-सौंदर्य लक्ष्मी ना ३००  
 षडरस का कलात्मक विवेचन लायल २५०  
 संक्षिप्त जायसी का व्याख्यात्मक व आलोचनात्मक अध्ययन.  
 लक्ष्मी ना ४५०  
 सत्य और कल्पना मोतीलाल २००  
 सत्य और स्वतंत्रता के उपासक, एक अध्ययन लायल १२५  
 सरल पाठ्य संग्रह का आलोचनात्मक अध्ययन गयाप्रसाद  
 २५०  
 सेठ गोविंददास और 'शशिगुप्त' विनोद ३००  
 हरिकृष्ण प्रेमी और सवत् प्रवर्तन कि घर, ग्वा ३५०  
 हिंदी गद्य-पद्य संग्रह प्रकाश गयाप्रसाद ७५०  
 हिंदी निबध बिहार लक्ष्मी ना ३००, ३५०

—तथा भारतभूषण त्यागी हिंदी साहित्य के इतिहास की  
सक्षिप्त रूपरेखा सशो स २ १६६३ लायल १५०  
राकेश. दे त्रिवेदी, मेवाराम 'राकेश'  
राकेश दे रामइकबालसिंह 'राकेश'  
राकेश 'वत्स', १९४१- जीवित चट्टाने इ पब्लि. ४०० उ.  
पूनीता दास २८८. उ  
मधुवन सूर्य प्र २५० उ  
राघव रामायण के गीत राजकमल १००. बप्र  
राघव, रागेय. दे. रागेय राघव  
राघव, शिवनाथ धरती के गीत नेशनल. १२५  
पैसा कैसे बढ़ता है नेशनल ०.७५  
राघवप्रसाद सिंह उच्चतर माध्यमिक शिक्षा की ऐतिहासिक  
भूमिका हिं सा भ ६००  
जनतंत्र में शिक्षा के उद्देश्य हिं सा भ. ५००  
राघवराव. सत पोतना सस्ता ०४० बप्र  
रागवेद्र सिंह राजनय. हिं समि ३००  
राज पखो की छाव सरस्व पु स ४०० उ.  
राजकिशोर पालि साहित्य का इतिहास विनोद २.५०  
राजकिशोर सिंह परिवर्तन अशोक पु म १.५० उ.  
पालि साहित्य का इतिहास विनोद २५०  
वैदिक साहित्य का इतिहास विनोद ४००  
राजकुमार १८५७ की भाकिया कल्याणदास १००. ना.  
अधियापिका तथा अन्य कहानिया दास  
अमेरिका में नेहरू हिं प्रचा. पु १७५ या.  
कश्मीर हिं प्रचा पु ४०० उ.  
काली आकृति हिं प्रचा पु. १.५०. ना.  
ज्वार भाटा हिं प्रचा. पु २०० ना  
नाटक और रगमच. हिं प्रचा. पु १०००  
नियोजन हिं प्रचा पु ०.५०  
नेहरू की रूस-यात्रा हिं प्रचा पु १.५० या  
पचमागी. हिं प्रचा पु २०० ना  
पचवर्षीय आयोजन हिं प्रचा पु ०.५०  
पचशील हिं प्रचा पु. ०५०  
परराष्ट्र-नीति हिं प्रचा पु ०५०  
पाकिस्तान हिं प्रचा पु. ०.५०  
पुलिस. हिं प्रचा पु. ४००. उ  
भारतीय राजनीति का इतिहास (१७५७-१९५६) हिं  
प्रचा पु १०००  
राष्ट्रमंडल हिं प्रचा पु ०.५०  
समाजवादी ढंग का समाज हिं प्रचा पु ०५०  
सहकारी खेती हिं प्रचा पु. ०५०  
सही रास्ता हिं प्रचा पु. १५० ना  
स्वेज नहर. हिं प्रचा पु १८७  
राजगोपालन, एन. बी, अनु कव रामायण (तमिल) वि. राष्ट्र  
६००  
राजगोपालन न वी तमिल साहित्य का नवीन इतिहास.  
आशा प्र ३.००  
प्राचीन कवि आशा प्र. ३.००

राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती, १८७६- उपनिषद् हिंदु टाइम्स.  
कुब्ज-सुदरी सस्ता २२५ [२२५  
दशरथ-नदन श्रीराम सस्ता ५००  
भगवद्गीता स २. हिंदु टाइम्स २.५०  
महाभारत-कथा सस्ता ५.००  
लघु कथाए सस्ता १.५०  
वेदात स. २ हिंदु टाइम्स २००  
शिशु-पालन. सस्ता. ०५०  
—अनु भजगोविंदम स्तोत्र हिंदु. टाइम्स १००  
रामकृष्ण उपनिषद् हिंदु. टाइम्स २५०  
राजदान पहली लडकी शमा २६५ उ  
राजन् अघड कन्हैयालाल. ३५० उ  
आह सुभाष ३००. उ.  
नाच कन्हैयालाल ३.००. उ  
बेवसी कन्हैयालाल ३५० उ  
राजद्रोही कन्हैयालाल. ५००. उ  
लाज कन्हैयालाल ३.५०. उ.  
राजनारायण आधुनिक योरोप का इतिहास भा १. कि महल.  
३००  
राजबहादुर विश्व साहित्य में रामचरितमानस मानस सध.  
११२  
राजबहादुर लमगोडा राम राज्य. बगीय १००  
राजबहादुर सिंह, १९०३- आस-निरास. राजपाल २.००.  
उ, — —हिंद पा १.००  
कथा-सरित्सागर की कहानिया ३ भा एस चाद ३७५. बप्र.  
कलाकार का प्रेम हिंद पा १००. उ.  
कौन जानता था प्रचा पा १.००  
गाधीजी की सूक्तिया. राजपाल २.००; — —हिंद पा १.००  
चरित्र-निर्माण की कहानिया आत्माराम १.५० बप्र.  
तपस्वियों की कहानिया आत्माराम २००. बप्र.  
देवताओं की कहानिया आत्माराम. २००. बप्र  
नोबल पुरस्कार-विजेता साहित्यकार राजपाल ७.००  
पुराणों की कहानिया आत्माराम २००. बप्र  
भागवत की कहानिया आत्माराम २०० बप्र  
महाभारत की कहानिया आत्माराम. १.२५ बप्र  
रामायण की कहानिया. आत्माराम. २.०० बप्र  
वज्रघोष सा सदन, दे २००. क  
सांस्कृतिक कहानिया आत्माराम. २.००. बप्र.  
सुंदर कहानिया. आत्माराम १.००. बप्र  
राजबहादुर सिंह दे तुर्गनेव.  
राजबहादुर सिंह 'नसीब', सपा आरजू की शायरी प्रचा. पा.  
१००  
राज मजुल कजरा बह गया सध्या. ५०० उ.  
राजमल्ल जवूस्वामीचरित सपा जगदीशचंद्र शास्त्री. भा.  
ज्ञानपीठ १५०  
राजराजेश्वरी प्रसादसिंह 'प्यारे' श्री राजराजेश्वरी ग्रथावली.  
अशोक प्रे. ५.००  
राजवंशी, कृष्णमोहन. गौतम बुद्ध. फ्रैंक. ०.७५

वीते दिन आत्माराम १०० उ  
 राजवल्लभ भोजचरित्र सपा छावडा तथा शकरनारायण  
 भा ज्ञानपीठ ८००  
 राजवाडे, एस जी मुद्रा बैंकिंग तथा विदेशी विनिमय स  
 १९६४ मानकचद ७२५  
 राजशकर, कुअर नाइलान का मोजा ज्ञानालोक १०० क  
 राजशेखर, काव्यमीमासा अनु केदारनाथ शर्मा सारस्वत. वि  
 राष्ट्र ९५०  
 राजशेषगिरिराव, के. आध्र की लोक-कथाए भा १  
 आत्माराम १५०  
 राजा दे प्रमोदबिहारी 'राजा'  
 राजा, सी के ऋग्वेदे छद परामर्श विश्वेश्वरानंद १६९  
 राजानंद नीली भील लाल परछाईया सूर्य प्र म २५०  
 उ  
 राजाराम शास्त्री, १९१८- अवेस्ता विश्वेश्वरानंद. १२५  
 पौराणिक कथाए २ भा भा पु म १२५ (प्र) क  
 प्यार और पैसा आत्माराम ३०० उ  
 हमारी आजादी की लडाई का इतिहास भा पु म २५०  
 हरियाणा की लोक कथाए आत्माराम १२५  
 हरियाणा लोकमच की कहानिया भा ज्ञानपीठ २५० क  
 राजू दे वशीधर 'राजू'  
 राजू भैया फूल और कलिया त्रिवेणी १०० वप्र  
 राजेदर, एम एम आग और धुआ शमा २२५ उ  
 राजेद्र ऋषि, वीर रूसी हिंदी शब्द कोष प्र विभाग ३५००  
 राजेद्र लोक-सपर्क सिद्धांत और साधन पजाब यू  
 सावन की आखे राजपाल ३७५ उ  
 राजेद्रकिशोर ओ मत्स्यगधा कि महल ३०० क  
 वैयक्तिक ज्ञानपीठ ३०० का  
 सूरजमुखी के फूल कि महल ३०० क.  
 राजेद्रकुमार कुहासा और चादनी सा प्र ३०० क  
 पश्चिमी अवध की लोक-कथाए २ भा १२५ (प्र)  
 विरोध परिहार श्री भा दिगंबर १५०  
 राजेद्रकुमार दे वारिस  
 राजेद्रनाथ दीपनारायण, सपा गद्य पाठशाला रा वेनीप्रसाद  
 २००  
 राजेद्रपालसिंह दे चौहान, नरेद्रसिंह  
 राजेद्रप्रताप सिंह सौंदर्य शास्त्र की पाश्चात्य परंपरा नया सा  
 प्र ६००  
 राजेद्रप्रसाद आत्मकथा सस्ता १२००  
 गाधीजी की देन सस्ता १५०  
 गाधी-मार्ग सस्ता ०१२  
 चपारन मे महात्मा गाधी आत्माराम ५००  
 छेनी और हथौडी ज्ञानोदय २०० क  
 डेढ सौ वर्ष जिए ज्ञानोदय १००  
 भारतीय शिक्षा आत्माराम ३५०  
 मेरे योरोप के अनुभव ग्रथमाला ०३७  
 संस्कृत और संस्कृति स ३ मोतीलाल ४००  
 साहित्य, शिक्षा और संस्कृति आत्माराम ५५०

स्वास्थ्य, स्वच्छता तथा समाज सेवा गयाप्रसाद ०७५  
 राजेद्रप्रसाद सिंह 'प्रभाकर' भोर के सपने राष्ट्र प्र म २००.  
 का  
 राजेद्रभनोत शील, सपा एकाकी-श्री राजकमल ३००  
 राजेद्रमोहन, आचार्य कविवर प्रसाद हिं सा स २५०  
 राजेद्र सिंह जवानी फिर न आये स २ आर्मी ४५० उ  
 भारतीय सेना का इतिहास आर्मी ९५०  
 मनोकामना आर्मी ४५० उ  
 मूर्ति आर्मी २५० उ  
 लहरे आर्मी ३०० क  
 —तथा निरजन सिंह माध्यमिक कृषि गणित एव सांख्यिकी  
 आगरा बुक ५००  
 राजेश्वर गुरु भासी की रानी मिश्र-वधु १००  
 भासी की रानी सक्षिप्त एक अध्ययन कि घर, ग्वा  
 १२५  
 पाच एकाकी नाटक एस चाद १२५  
 भोर से पहिले मानकचद १५० ना  
 हमारी भी कहानी है गयाप्रसाद २००  
 राजेश्वरदयाल वाजार समाचार कि महल २००  
 राजेश्वरप्रसाद गोस्वामी तुलसीदास एस चाद १५०  
 वा गुलाबराय व्यक्तित्व और कृतित्व सरस्व पु स ४००  
 भाग्य निर्माता गयाप्रसाद २००  
 सुखी मानव गयाप्रसाद १५०  
 हिंदी साहित्य का इतिहास अशोक प्र २५०  
 राजेश्वरप्रसाद नारायण सिंह अमृतप्रभा आत्माराम. ०.६२  
 का  
 बिहार का गौरव आत्माराम ४००  
 महाराज ससारचद आत्माराम ४०० जी  
 मुगल साम्राज्य की जीवन-सध्या आत्माराम. ६००  
 राधाकृष्ण आत्माराम २५० का  
 रूसी क्रांति के अग्रदूत आत्माराम ४०० जी  
 सकलिता आत्माराम २५० का  
 हमारे वन्य पशु आत्माराम ३०० वप्र.  
 राजेश्वरप्रसाद सिंह अभिनय मोतीलाल ३००  
 आदमी और जिदगी नीलाभ ६०० उ, — —मोतीलाल.  
 ५००  
 कलक इ प्रे १००. क  
 गल्प ससार रा वेनीप्रसाद ०७५ क  
 जारज नीलाभ ४२५ उ  
 दीप दान नीलाभ ३०० क  
 सुलगती आग नीलाभ ४०० उ  
 राठी, एस एस तथा वृन्दावन बिहारी. वाणिज्य विधान.  
 केदारनाथ ३००  
 राठी, एस एस दे द्विवेदी, आर एस  
 राठीर, गोपाल दीप के स्वर रूपकमल ३५०  
 राणा, धर्मसिंह तथा हरिसिंह वर्मा पशु अभिजनन एव सुधार.  
 अजता १०००  
 भारतीय पशु पालन एव चिकित्सा अजता ६००

राधाकृष्ण. गर्ल्पिका हस. १.५० क  
घाटी की आवाजे सा सदन, दे २५० क.  
चार सौ वीस. अभिज्ञान १.८७. वप्र  
जक्कन बाबू. ज्ञानपीठ उ  
फुटपाथ. रामप्रसाद ३.०० उ  
फल, सपने और वास्तव ज्ञानपीठ कथा  
वर्बरीक अभिज्ञान २.०० वप्र  
विगडी हुई बात पु भ, रा १८७  
रामलीला पु भ २०० क  
सजला २ ख रामप्रसाद २०० (प्र) क  
सनसनाते सपने राजकमल २०० उ  
सपने विकाऊ है प्रचा पा. १०० उ  
—रूपा अभिज्ञान शाकुतल. भा ज्ञानपीठ १७५  
—सपा. गणेशकर विद्यार्थी के श्रेष्ठ निवध आत्माराम.  
४.००  
राधाकृष्ण. दे. कालिदास  
राधाकृष्णदास महाराणा प्रताप नाटक. ना प्र. सभा. ०.७५  
राधाकृष्णदास दे ध्रुवदास  
राधाकृष्णान, सर्वपल्ली, १८८८ आत्मिक साहचर्य रजन.  
१५०  
जीवन की आध्यात्मिक दृष्टि. राजकमल ६००  
धर्म और समाज राजपाल ८००  
धर्म . तुलनात्मक दृष्टि मे राजपाल ५.००  
पूर्व और पश्चिम कुछ विचार राजपाल. ५.००  
भगवद्गीता राजपाल १२००  
भारत और चीन अपर एव प्रभात पव्लि ५ २५. दर्शन.  
भारत और विश्व अपर एव प्रभात पव्लि ६ ५० दर्शन.  
भारत की अंतरात्मा. अपर एव प्रभात पव्लि ३ ७५  
रवींद्र 'दर्शन' का परिचय. अनु ज्ञानवती दरवार.  
रजन. ६००  
सत्य की ओर राजपाल ६००  
सत्य की खोज मे. स ३ शिवलाल. १.००  
हिंदुओं का जीवन-दर्शन. वीरा. १५० नि.  
—सपा गाधी-अभिनदन-ग्रथ सस्ता. ४००  
गाधी-श्रद्धाजलि-ग्रथ सस्ता. ३००  
राधाकृष्णप्रसाद अतर की बात पु भ २५०  
अनुभूत सत्य ज्ञानपीठ. २००  
रिक्शावाला पु भ ५०० उ  
विभेद ग्रथमाला १०० क.  
संस्कारों की राह भा ज्ञानपीठ २५० उ  
हम सब गुनहगार हिंद पा १०० उ  
राधाकृष्ण शारत्री 'विमलेय'. गर्जना हि प्रचा म. ३५०.  
का  
राधाप्रसाद. अगला कदम. चिन्तगारी २५०. उ.  
तीन बाके नपसी १५०. उ  
राधाप्रसाद सिंह. प्रसार कार्य के निदान नप भ १००  
राधामोहन गोकुल नीति दर्शन हि. ना नम्म. ०.७५  
राधामोहन लाल, अनु दुर्गापठ इ प्रे २५०

राधारमण. अर्थशास्त्र की रूप रेखा पु. भ., रां. २.७५  
अर्थशास्त्र के सिद्धांत पु. भ., रा ४००  
एलीमेट्री बुक कीर्पिंग रा. वेनीप्रसाद. २५०  
जनसख्या और खाद. पु भ., रा ०.५६. वप्र  
प्रारंभिक नागरिक शास्त्र पु भ, रा १.८७. वप्र  
फ्रांस की शासन-पद्धति और राजनीति बुकलेड. ३७५  
विहार का आर्थिक अध्ययन पु. भ, रा. २५० वप्र.  
भारत की कृषि समस्याए पु भ, रा, १.५६ वप्र.  
मुद्रा और विनिमय रा वेनीप्रसाद २००  
सांख्यिकी सरल अध्ययन रस्तोगी ५००  
राधा सुधा बोल-बोल वसरी भिक्षा मिलेगी नेगनल. ० ७५.  
वप्र  
मग और मोठ नेशनल ० ७५ वप्र  
राधिकारमणप्रसाद सिंह, राजा. अपना पराया अशोक प्रे.  
२०० ना  
अवला क्या ऐसी सबला अशोक प्रे २.५०  
कुसुमाजलि अशोक प्रे २०० क.  
गाधी टोपी अशोक प्रे २००. क  
चुन्न और चाटा अशोक प्रे ५०० उ  
टूटा तारा अशोक प्रे ४००. उ  
तव और अव अशोक प्रे ४००  
तरगा अशोक प्रे १७५ उ  
देव और दानव अशोक प्रे ३०० उ  
धर्म की धुरी अशोक प्रे २०० ना  
धर्माधर्म अशोक प्रे २५०  
नजर बदली बदल गये नगमे. अशोक प्रे १७५. ना.  
नवजीवन यथमाला. ० ७५  
नारी क्या—एक पहेली ? अशोक प्रे. ३५०  
पुरुष और नारी. अशोक प्रे ४००. उ  
पूरव और पच्छिम अशोक प्रे ३५० उ  
राम रहीम स ५ अशोक प्रे १००० उ.  
वे और हम. अशोक प्रे. ४.००. सस्म  
संस्कार अशोक प्रे ३००. उ.  
सावनी समा अशोक प्रे ३००  
सूरदास अशोक प्रे २.७५. उ  
हवेली और भोपडी अशोक प्रे २५० उ  
राधेमोहन चेतन अजी मुनिये जरा पुष्पी. ०.७५ उ; — —  
मुरेद्र २२५  
आधी मूछ गायव पुष्पी ० ७५ उ, — —मुरेद्र. २००  
आनद की मजिन पुष्पी. ० ७५. उ, — —मुरेद्र २.००  
एक गाव, मेरा स्वप्न पुष्पी. ० ७५ उ; — —मुरेद्र.  
२००  
कैद और फासी पुष्पी. ०.७५  
राधेव्याम. त्कमणी मगल देहाती. २५०  
—अनु वगना की नर्वश्रेष्ठ कहानिया हिंद पा. १००  
राधेव्याम 'प्रगल्भ'. कन्तुग्वा. गकुन १.००  
राह अनेक मजिन एक. गकुन. १५०  
नूरज की देटी. गकुन. १.००



राधेश्याम 'विगत' दुरभिसधि हि प्रचा पु. ३००

उ.

राधेश्वरी 'प्रतिभा' अर्घ्य. त्रिवेणी ३०० का.

नडे, एस एन टाइपराइटिंग मनुअल नद स ३.५०

माडर्न थ्योरी एड प्रैक्टिस टाइपराइटिंग नद स ४२५

रानी इगलिश फूल देहाती १२५

कट वर्क देहाती ०.५०

क्रोशिया का काम देहाती ०.७५

जनरल कशीदाकारी देहाती २००

जाली का काम देहाती. ०.५०

बेल बूटे देहाती १००

वैक स्टिच और वन स्टिज देहाती १२५

मशीन वर्क देहाती १.००

महिला कशीदाकारी देहाती ४००

मिला जला काम देहाती १००

मोतियो का काम देहाती. ०.५०

मोनोग्राम्ज देहाती. ०.७५

रानी कशीदाकारी देहाती ४००

लेडी डेजी क्रास और लोपस्टिच देहाती ०.७५

शीशे का काम देहाती ०.७५

सरला भारतीय कशीदाकारी देहाती ५००

रावर्ट्स पी ई ब्रिटिशकालीन भारत का इतिहास एस चाद ८५०

रावर्टसन उद्योग नियंत्रण मोतीलाल ४५०

रावर्टसन, डी एच मुद्रा एस चाद ६.००

रॉविन शा 'पुष्प' औरत पानी है. नव सा प्र ३०० क

काच का रास्ता हेमकुट १५० वप्र

गिरती दीवार कापती आखे प्रभात प्र २५० उ

चाचा चदेल और चादी का पेड हेमकुट १५० वप्र

नी प्रकाश पा. १००

लवलीना. ज्ञानोदय २.०० का.

सफेद अघकार ज्ञानोदय २०० क

सोनजुही और बौने आत्माराम १५० वप्र

राम दे शर्मा, श्रीराम 'राम'

रामअघार सिंह दो जिनारे राष्ट्र प्र म १२५ का.

रामअघतार वीर' आयरन फर्नीचर देहाती १२००

कवीर संगीत भजनामृत देहाती २५०

गुरु नानक भजनामृत देहाती. २५०

ग्रामोफोन रिपेयरिंग देहाती २५०

तबला गाइड देहाती २५०

तुलसी संगीत भजनामृत देहाती २५०

दादू भजन संगीत भजनामृत. देहाती २.५०

दिलरुवा गाइड देहाती ३५०

नक्काशी आर्ट शिक्षा देहाती ४५०

प्रैक्टिकल घडीमाजी देहाती ४५०

फल संरक्षण देहाती २.५०

फिल्मी जल तरंग गाइड देहाती २५०

फिल्मी वेला (वायलिन) गाइड देहाती २५०

फिल्मी वैजो गाइड पुष्पाजलि देहाती २५०

फिल्मी वायलिन गाइड देहाती २.५०

फिल्मी हारमोनियम गाइड. देहाती २२५

बडई का काम देहाती ४.५०

वासुरी गाइड देहाती २५०

विल्डिंग कंस्ट्रक्शन हैंड बुक देहाती ३४५०

बुक वाइडिंग. देहाती ३००

भक्ति संगीत प्रकाश देहाती १०५०

भवन-निर्माण कला देहाती १२.००

मधुर कठी देहाती ३००

मिस्त्री डिजायन बुक देहाती. २५५०

मीरा संगीत भजनामृत देहाती २.५०

म्यूजिक टीचर देहाती. ३५०

राजगिरी शिक्षा देहाती ४५०

राष्ट्रीय हारमोनियम गाइड देहाती २५०

विश्वकर्मा प्रकाश देहाती ७५०

गास्त्रीय कठ संगीत. देहाती. २५०

संगीत वाटिका ३ भा देहाती ३००

संगीत सरोवर पुष्पाजलि देहाती १०५०

सर्वे इंजीनियरिंग बुक देहाती १२००

सहजोबाई संगीत भजनामृत देहाती. २५०

साइकिल रिपेयरिंग देहाती २.५०

सितार शिक्षा. देहाती २५०

सिलाई मशीन रिपेयरिंग देहाती. २५०

सुंदर हारमोनियम पुष्पाजलि देहाती ३.००

सूर संगीत भजनामृत देहाती २५०

हारमोनियम रिपेयरिंग देहाती २५०

रामइकवाल सिंह 'राकेग' चट्टान ग्रथमाला २५० का

स्टालिन ग्रथमाला. २०० जी

—सपा मैथिली लोक-गीत हिं सा. नम्मे ५००

रामकर्ण, सपा बांकीदास ग्रथावली ३ भा ना प्र सभा ४.५०

राजरूपक ना प्र सभा ६२५ का

रामकवार चित्रज्ञान का नाराग आत्माराम २५०

भूगोल

रामकीर्ति शरण दे जिंडल शकरलाल तथा के कुमार.

रामकुमार एक चेहरा राजपाल २५० क.

देर सवेर सरस्व प्रे ३०० उ

यूरोप के स्कैच आत्माराम ६०० भ्रमण

वापिसी हिंद पा १०० उ.

हुस्ना बीबी तथा अन्य कहानिया सरस्व प्रे ४००

रामकुमार दे गुप्ता, महीपाल

रामकुमार दे गोबिला, वाकेलाल

—तथा महीपाल गुप्त कृषि रसायन शास्त्र भा. भा प्र २५०

रामकुमारदास रामायणी धर्म रथ मानस सघ. ०.७५

श्री मानस सिद्धांत मानस सघ २५०

रामकुमार 'निशक' ताजमहल हिंदिया. ३००. का.

रामकुमार 'भ्रमर', १९३६- डाकुओ के बीच हिंद पा १००  
 वेगम और गलाम प्रचा पा १००. उ  
 रामकुमार सिंह जीवन संगीत नवयुग पु भ २००. का.  
 रामकृष्ण कृष्ण उपासना देहाती ४.५०  
 दुर्गा उपासना देहाती ४.५०  
 वृहके कदम आत्माराम २२५. उ  
 राम उपासना. देहाती ४.५०  
 विष्णु उपासना देहाती ४.५०  
 शिव उपासना देहाती ४.५०  
 स्वामी रामतीर्थ विश्वेश्वरानंद. ०७५ जी  
 हनुमान उपासना देहाती ४.५०  
 रामकृष्ण आचार्य, काव्य दीपिका (अष्टम शिखा). सगो  
 स २ विनोद ०७५  
 दशकुमार चरितम् विनोद १००  
 मित्रलाभ. विनोद २००  
 रघुवश सर्ग २, ५, १३ विनोद १५० (प्र)  
 लघुसिद्धांत कौमुदी (सधि-प्रकरण) विनोद १.५०  
 शुक्नासोपदेश (वाणभट्ट कृत) विनोद १५०  
 रामकृष्ण परमहंस, १८३६-१८८६. ईश्वरीय बोध छात्रहित-  
 कारी १७५  
 रामकृष्ण मूर्ति, दुव्वूरि सत वेमन्ना. सस्ता ०४० वप्र  
 रामकृष्ण शास्त्री, सपा सरिता हि भवन १५०. क  
 रामगोपाल. जवाहर लाल नेहरू के मुकदमे सरस्व. प्रे ७.५०  
 नवीन संस्कृत व्याकरण एस चाद ३.००  
 भारतीय राजनीति विक्टोरिया से नेहरू तक. ज्ञानमंडल  
 ११.००  
 विश्व की प्राचीन सभ्यताए विश्वविद्यालय २०००  
 रामगोपाल, सेठ गीता का व्यवहार दर्शन कि. महल ७००  
 रामगोपाल दिनेश हिंदी भाषा का विकास कि महल ५००  
 रामगोपालन, एन वी., अनु कव रामायण वि राष्ट्र  
 रामगोपाल परदेसी चल मस्तानी चाल प्रगति प्र ०५० का  
 जरा देख तो लो प्रगति प्र ०५० का  
 शखनाय प्रगति प्र ०.५० का  
 —सपा गीत और सरगम प्रगति प्र ५५० का  
 चालीस कहानिया प्रगति प्र ४०० क  
 पसीना बोलता है प्रगति प्र का.  
 शख-ध्वनि प्रगति प्र १००. का  
 गख-स्वर प्रगति प्र १०० का  
 हिंदी कवियों की रदाज्ञा प्रगति प्र १०० का  
 हिम सिखर बलिदान मागता है प्रगति प्र १०० का  
 रामगोपाल विद्यालकार श्रीमद्भयानंद चित्रावली गोविंदराम  
 २.५०  
 रामगोपाल शास्त्री अथर्ववेदीय दत्योष्त्व विधि. विश्वेश्वरानंद  
 २.५०  
 वेदो मे आयुर्वेद भा प्राच्य १०००  
 रामगोपाल 'सुजील' राष्ट्र निर्माण और हमारे कर्तव्य. स २  
 राष्ट्रीय प्र. मंदिर. ३००. नि.

रामगोविंद. मेवाड की १८ वी सदी भोपाल १.५०  
 रामचंद्र काव्य-कलिका. हिं सा स. २.५०  
 छ. एकाकी नाटक गयाप्रसाद २००  
 युनानी राजनीतिक विचार बुकलेड १०००  
 व्यवहारिक भूगोल गयाप्रसाद २५०  
 शाहनामा गयाप्रसाद ५०० क.  
 रामचंद्र देहलवी दो सनातन सत्ताए गोविंदराम १००  
 रामचंद्र भारती विद्यार्थी शिष्टाचार देहाती १५०  
 रामचंद्रराव, एस के पुरंदर दास सस्ता १५०. सस्म  
 रामचंद्रराव, जी गांधी-नास्तिक-सवाद नवजीवन ०६२  
 रामचरक, वावा. अलौकिक चिकित्सा विज्ञान कल्पवृक्ष. २.००  
 रामचारक, स्वामी प्राणायाम गंगा. २५०  
 हठयोग गंगा ४५०  
 रामजीलाल शास्त्री अपना इलाज अपने हाथ. विनोद ०५०  
 आपकाज महाकाज विनोद ०५०  
 गाव पच और पचायत विनोद ०५०  
 चकवदी क्यों और कैसे ? विनोद ०५०  
 स्वावलंबन और समाज सेवा विनोद ०५०  
 हम किनसे मिले ? विनोद. ०५०  
 हम सुखी कब होंगे ? विनोद ०५०  
 रामजीलाल 'सहायक', १९१८- बधन मुक्ति. छात्रहितकारी.  
 २०० उ  
 रामतीर्थ, स्वामी गृहस्थ-धर्म श्री प्रभाकर २००  
 नकद धर्म श्री प्रभाकर २००  
 यथार्थ समाजवाद श्री प्रभाकर २००  
 रामतीर्थ-सदेश ३ भा सस्ता ११२  
 राष्ट्रीय धर्म श्री प्रभाकर २००  
 विज्ञान-रहस्य श्री प्रभाकर २००  
 विश्व-धर्म श्री प्रभाकर २००  
 विज्व-वधुत्व. श्री प्रभाकर २००  
 व्यावहारिक वेदात श्री प्रभाकर २००  
 सफल जीवन अर्चना प्र (पा) १००  
 सफलता की कुजी छात्रहितकारी ०३७, — —प्रभात  
 पब्लि १००, — —सन्मार्ग १००  
 सफलता-सोपान श्री प्रभाकर २००  
 स्वामी रामतीर्थ के पत्र श्री प्रभाकर २००  
 रामदीन सौंदरानंद-महाकाव्य गंगा १५०  
 रामदेव. व्याकरण प्रदीप स ६ हि भवन २००  
 सुबोध हिंदी व्याकरण स १३ हि भवन २००  
 —सपा हमारे गीत प्र प्रसारन. २०० का.  
 रामदेव दे अटेल, हन्नस  
 रामधन तथा सरनदास भनोत भारतीय संस्कृति की रूपरेखा  
 श्री भा भारती ३००  
 रामधारी सिंह 'दिनकर', १९०८- अर्धनारीश्वर उदयाचल  
 ५०० नि  
 आत्मा की आखे उदयाचल. ४००. का  
 इतिहास के आसू उदयाचल ३०० का  
 उजली आग उदयाचल ३००

उर्वशी स २ उदयाचल १०० का  
 काव्य की भूमिका उदयाचल ४.००  
 कुक्षेत्र उदयाचल ३५०. का  
 कोयला और कवित्व उदयाचल ३०० का  
 चक्रवाल उदयाचल. १००० का  
 चित्तोर का साका उदयाचल १०० वप्र  
 दिनकर की मूर्कतया उदयाचल २५०  
 दिल्ली उदयाचल ०६२ का  
 देग-विदेश उदयाचल २०० या  
 ब्रह्मगीत उदयाचल १५० का  
 धर्म, नैतिकता और विज्ञान उदयाचल १५०  
 घूपछाह उदयाचल १५० वप्र  
 नये सुभापित उदयाचल १५० का.  
 नीम के पत्ते उदयाचल १.०० का  
 नील कुसुम उदयाचल ३०० का  
 पत, प्रसाद और मैथिलीशरण उदयाचल ४००  
 परशुराम की प्रतिक्षा उदयाचल ३०० का  
 वापू उदयाचल १५० का  
 बाल रश्मिरथी उदयाचल १२५ वप्र  
 भारत की सास्कृतिक कहानी उदयाचल १०० वप्र  
 मिट्टी की ओर उदयाचल ४०० नि  
 मिर्च का मजा उदयाचल ०७५ वप्र  
 मृत्ति तिलक उदयाचल २०० का  
 रश्मिरथी उदयाचल ५०० का  
 रसवती उदयाचल २५० का  
 राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता उदयाचल ३००  
 रेगुका उदयाचल ३०० का, — —पु भ ५००;  
 — —रामलोचन (पा) १००  
 रेती के फूल उदयाचल २७५ नि  
 वट-पीपल उदयाचल ३०० नि  
 वेगुवन उदयाचल ३०० नि  
 सस्कृति के चार अध्याय सशो स. ३ उदयाचल १५००  
 सामधेनी उदयाचल २५० का  
 सीपी और शख उदयाचल २५० का  
 सूरज का व्याह उदयाचल ०७५ वप्र  
 हमारी सास्कृतिक एकता उदयाचल. ३००  
 हुकार उदयाचल २५० का  
 —तथा हजारीप्रसाद द्विवेदी, सपा आचार्य श्री किशोरीदास  
 वाजपेयी व्यक्तित्व और कृतित्व वाजपेयी अभिनन्दन  
 समिति, ३६, वाराणसी घोष स्ट्रीट, कलकत्ता-२७ ५००  
 रामध्यान सिंह 'रौद्र' आसू की लकीर कन्हैयालाल ३७५ उ  
 गृहिणी कन्हैयालाल ३७५ उ  
 पीर पराई कन्हैयालाल ३०० उ  
 लाली. कन्हैयालाल ३०० उ  
 सिसकती तमन्नाए कन्हैयालाल ३०० उ, — —  
 चिनगारी ३००  
 रामनरेश मिह लेती पौड गन्ना उख रा वेनीमाधव ०५०  
 रामनरेश 'हिमाशु' श्मशान के आसू कन्याकुमारी क

रामनाथ एलोपैथिक निघटु स ४ मोतीलाल. १२००  
 रामनाथ मिलिद दीवार पुष्पी १.२० उ, — —सुरेद्र  
 ३००  
 रामनाथ 'सुमन' आनन्द-निकेतन साधना सदन ४.५०  
 उर्दू गुलिस्ता की बुलबुले राजपाल. ४.००  
 कटघरे से पुकारती वाणी साधना सदन १००  
 कन्या साधना सदन १५०  
 कवि प्रसाद की काव्य साधना छात्रहितकारी ३५०  
 गाधीजी की राह राजकमल (पा) १००  
 गाधी-वाणी साधना सदन ३५०  
 गाधीवाद की रूपरेखा साधना सदन २५०  
 गालिव भा ज्ञानपीठ ८०० का  
 घर की रानी साधना सदन २००  
 जिगर की शायरी राजपाल २००  
 जीवन यज्ञ साधना सदन २००  
 नई जिंदगी राजपाल ३००, — —हिंद पा १००  
 नारी गृहलक्ष्मी और कल्याणी साधना सदन २५०  
 नारी जीवन कुछ समस्याये साधना सदन १५०  
 भाई के पत्र साधना सदन ४००  
 भारतीय राष्ट्रीय का विकास साधना सदन. ०५०  
 मीर भा. ज्ञानपीठ ६०० का  
 युगाधार गाधी साधना सदन २५०  
 योग के चमत्कार साधना सदन २००  
 वेदी के फूल. साधना सदन १००  
 हमारे नेता साधना सदन. ३०० जी  
 हमारे राष्ट्र निर्माता साधना सदन ५०० जी.  
 —अनु जीवन सूत्र साधना सदन २००  
 रामनाथ 'सुमन'. दे नारायण सिंह  
 रामनारायण आखो का डाक्टर. देहाती २५०  
 घरेलू वैद्य डाक्टर सपूर्ण देहाती १२००  
 चूर्ण भंडार. देहाती १२५  
 दातो की चिकित्सा देहाती १२५  
 देहाती इलाज २५०  
 देहाती जडी-बूटिया देहाती ७५०  
 पियावासा के गुण तथा उपयोग देहाती १२५  
 मरहम बनाना देहाती १२५  
 वैद्यराज (घरेलू डाक्टर) देहाती २५०  
 वैद्यरानी (लेडी डाक्टर) देहाती २.५०  
 रामनारायण वेनीप्रसाद स्टूडेंट प्रैक्टिकल डिक्शनरी रा.  
 वेनीप्रसाद सस्कृत-हिंदी-अंग्रेजी २५०, अंग्रेजी-हिंदी-  
 सस्कृत १५०  
 स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल डिक्शनरी रा वेनीप्रसाद (अंग्रेजी-हिंदी)  
 ८०० [१७]  
 स्टूडेंट्स हैन्डी डिक्शनरी रा वेनीप्रसाद (इंग्लिश-हिंदी)  
 स्टूडेंट्स होम डिक्शनरी रा वेनीप्रसाद (हिंदी-इंग्लिश)  
 २५०, (इंग्लिश-हिंदी) २५०  
 रामनारायण वेनीमाधव स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल डिक्शनरी रा  
 वेनीमाधव (हिंदी-अंग्रेजी)

रामनारायणलाल सरल यत्र-विज्ञान पु. भ ३००  
 रामनारायण सिंह 'मधुर' लागल भुलनिया के धक्का अमरा-  
 वती १२५. क.  
 रामन्ना शास्त्री. विवाह से पहिले साहित्यवारी २५०  
 रामपदारथदास प्रार्थना से बल रामलोचन (पा) १००  
 रामपाल सिंह पुराना नौकर. मोतीलाल २००  
 रेका मोतीलाल. ६.००  
 समाजशास्त्र परिचय स २. रतन. भा १. ५००, भा २  
 ६.००  
 रामप्रकाश नवीन हिंदी हेमकुट पुस्तक १-३ ११२ (प्र),  
 पुस्तक ४. १७५, पुस्तक ५ २६५, पुस्तक ६ ३१५.  
 वप्र.  
 रामप्रताप बहादुर. आसू और पसीना सा भवन, इ. २००  
 क.  
 रामप्रताप शास्त्री. उपनिषदों की कहानिया. २ भा. सा  
 भवन, इ २५० (प्र)  
 पचत्र की कहानिया कि महल ३.००  
 पुराणों की अमर कहानिया ४ भा सा भवन, इ २.५०  
 (प्र.)  
 हिंदुओं के व्रत, पर्व और त्योहार. कि. महल ३५०  
 —अनु किरातार्जुनीय महाकाव्य कि महल ६००  
 रामप्रवेश सिंह. आर्थिक तथा व्यापारिक भूगोल. रा वेनीप्रसाद  
 २.५०  
 रामप्रसाद आलू की खेती. गगा १००  
 रामप्रसाद सिंह दे राय, रामसागर  
 रामप्रसाद सिंह 'आनंद'. प्रतीक्षा नद ब्र १५०  
 रामप्रीत सिंह सरल प्रायोगिक रसायन भा १ बुकलैड २५०  
 रामबचन सिंह ग्रामीण मनोविज्ञान. सर्वोदय सा. १००  
 रामबालक, गोस्वामी बच्चों के खेल सहगल २५०  
 रामबालक शास्त्री चारणक्य हि प्रचा पु १.०० ना  
 पजाब केसरी हि प्रचा पु. २.५०. ना  
 महामना नद. ब्र एव नद स १२५ ना.  
 माइकेल नद स १२५ ना  
 लोकमान्य. हि. प्रचा पु २०० ना  
 वारी प्रकाश. नद ब्र १.००  
 वारी विलास भा १. भजभारतीम् हि सा. सम्मे. ०५०  
 शकराशार्य हि प्रचा पु १५० ना  
 संस्कृत रचनानुवाद चद्रिका मोतीलाल १२५  
 संस्कृत-व्याकरण बोध नद ब्र. एव नद स. १५०  
 सदाचार सोपान. स ४ चौखवा ०५०  
 रामबालेश्वर सिंह आधुनिक सामान्य मनोविज्ञान दि. पु स  
 ६५०  
 बाल-मनोविज्ञान. बुकलेड ५.५०  
 समाज मनोविज्ञान मोतीलाल. १०००  
 रामबिहारीलाल शास्त्री संस्कृत प्रथम पुस्तक. सा नि, का.  
 २००, द्वितीय पुस्तक ३५०  
 संस्कृत साहित्य का सुबोध इतिहास सा. नि, का २५०  
 रामभरोसे. दे नदलाल खुशतर.

राममूर्ति, वारणासि 'रेणु' आंध्रदेश के वकीर श्रीवेमना. हि.  
 सा. सम्मे. १.७५  
 आदान-प्रदान भा भ २००. आ  
 राममूर्ति 'अचल' अचला. एस. चाद. ३२५. का  
 सुमना एस. चाद २५० उ.  
 राममूर्तिसिंह. नव निबन्ध माला रा. वेनीमाधव. २.५० नि  
 सामान्य अंग्रेजी-हिंदी कोष हि अ. र १२००  
 हमारे पड़ोसी राष्ट्र अवध २.५०  
 —सपा प्रशासन शब्दकोश. हि. अ र  
 राममोहन भारतीय नेताओं का बचपन गगा एव प्रभात  
 पब्लि १.२५  
 रामयतनसिंह 'अमर' आधुनिक हिंदी कविता में चित्र-विधान  
 नेशनल  
 एकाकी कला कि. महल २५०  
 रामरतन कात टूटे तार पुष्पी १.०० उ., — —सुरेद्र  
 ३००  
 रामरुद्रप्रसाद सिंह रुद्र-तरंग अशोक प्रे. २००. का.  
 रामलखन 'विद्यार्थी' जीवन प्रवाह राष्ट्र प्र. म का.  
 रामलाल भारत के कलामानव वीरा जी  
 भारत के काव्यपुरुष. वीरा जी  
 भारत के मनीषी वीरा २.००. जी  
 भारत के विचारक वीरा २.५० जी  
 भारत के वैज्ञानिक वीरा २५० जी.  
 भारत के सत महात्मा वीरा. १००० जी.  
 रामलाल 'खामोश' दूर के राही नवीनतम. २५०  
 रामलाल सिंह कामायनी-अनुशीलन. इ प्रे ४००  
 भाषा-दर्शन भा १. विद्या म, वा. ८५०  
 समीक्षा-दर्शन इ प्रे भा. १ ६००, भा २. ४.००  
 रामलोचनशरण कहानी कहने की रीति पु भ १००.  
 क  
 पुराने समय के यात्री पु भं. ०.५०  
 बापू के समीप पु भ. २.२५  
 बाल-साहित्य पु भ १००  
 भारत गौरव गाथा पु भ. १.७५  
 रचना-चंद्रोदय पु भ ५००  
 व्याकरण-चंद्रोदय पु भ. २२५  
 स्वतंत्र भारत की ऐतिहासिक कहानिया. पु भ. १.००.  
 वप्र.  
 हिंदी रचना चंद्रोदय पु. भ ५००  
 हिंदी व्याकरण चंद्रोदय पु. भ. २.२५  
 —सपा. राष्ट्रभारती पु भ २५०  
 भूषण-अथावली (सटीक) पु भ १००  
 विनय-पत्रिका (सटीक) पु भ ७.०० का.  
 श्रीरामचरितमानस (सिद्धांत भाष्य) ४ खं. पु. भ. ५०.००  
 का  
 रामवाशिष्ठ गीतकार विद्यापति. विनोद ३.००  
 प्रेमचंद और कर्मभूति. विनोद. २.५०  
 प्रेमचंद और गोदान. विनोद. २.५०

- महाकवि घनानन्द विनोद ३५०  
 —तथा तारकनाथ वाली कवीर साखी-सार विनोद ३५०  
 रामविनायक सिंह परिचित निगाहे प्रचा पा १००  
 हिंदी में सरकारी काम-काज करने की विधि हि प्रचा पु  
 ३००  
 रामवीर गास्त्री 'अरुणेश' तडपती मानवता अरुणेश ०५०  
 नरेद्र अरुणेश ३०० उ  
 रामवृक्ष वेनीपुरी, १९००- अबगाली पु भ २००  
 अमृत की वर्षा कला-नि ०७६ वप्र  
 चित्ता के फूल राष्ट्रीय प्र मडल एव राष्ट्रीय ग्य स ३००  
 क  
 जीव-जनु कला-नि ०७५ वप्र  
 तथागत नाँवली २०० ना  
 नई नारी न्यू लिट १५० स्केच  
 बगुलाभगत पु भ १५० वप्र  
 मील के पत्थर सस्ता २२५ सस्म  
 लाल चीन ग्रथमाला ३०० इति  
 वदे वाणी विनायकौ आत्माराम ३००  
 विद्यापति की पदावली (मटीक) पु भ ४७५ का  
 सघमित्रा और सिंहल विजय न्यू लिट १५० ना  
 सियारपाडे पु भ १०० वप्र  
 हीरामन तोता पु भ १५० वप्र  
 रामवृक्ष सिंह आधुनिक पशुपालन ज्ञानपीठ ३००  
 —तथा हीरालाल सिंह आधुनिक यूरोप का इतिहास नद स  
 ८००  
 रामशकर गति-विज्ञान अपर ३७५  
 रामशिरके सत ज्ञानेश्वर विश्वेश्वरानन्द ०५०  
 रामसकल सिंह उच्चतर माध्यमिक अर्थशास्त्र अगोक पु म  
 ४००  
 उच्चतर माध्यमिक नागरिक शास्त्र अशोक पु म ४००  
 उपदेश की कहानिया भा २ अगोक पु म ०६४ वप्र  
 कहानी-कलश अगोक पु म भा १ ०७५, भा २ ०६६  
 गल्प भारती अशोक पु म ०८१  
 निवध-परिचय अशोक पु म. ३००  
 वापू की कहानिया अगोक पु म भा १००, भा २.  
 ११२ वप्र  
 भारत के सपूत अशोक पु. म. ०७५ वप्र  
 भारतीय शासन व्यवस्था अशोक पु म.  
 श्रीराम कथा अशोक पु म ०.७५ वप्र  
 हमारे साहित्यकार अशोक पु म ३००  
 रामसहायदास शृंगार सतसई भारतजीवन ०३७. का  
 रामसिंह अर्वाचीन यूरोप का इतिहास (प्रश्नोत्तर) नद स  
 भा १ ६००, भा २ ५००  
 आधुनिक इंगलैंड का इतिहास रस्तोगी १४८५-१७१४  
 ५००, १७१४-१९५० ६.५०, १८१५-१९५० ६००  
 इंगलैंड का सवैधानिक इतिहास रस्तोगी ७००  
 मध्यकालीन भारत का वृहद् इतिहास रस्तोगी ६००  
 मुगलकालीन भारत रस्तोगी ७००

- राजनीतिक विचारों का इतिहास २ भा स २ रस्तोगी,  
 ७०० (प्र)  
 —तथा अन्य, सपा ढोला माटू रा ढूल्हा. ना प्र सभा ८०  
 का  
 रामसिंह, ठाकुर तथा सूर्यकरण पारीक दे पृथ्वीराज, महाराज  
 राममुखदास, स्वामी जीवन का कर्तव्य गीता. ०४५  
 राममुगील सिंह पाश्चात्य द्रव्य गुण विज्ञान भा २ मोतीला  
 ३०००  
 —अनु वात्सायन काम-सूत्र सुभाष ५००  
 रामसूरतलाल तथा मिश्रा साधारण मनविज्ञान गर्ग ब्र  
 ७५०  
 साधारण मनोविज्ञान भा १ गर्ग ब्र ५००  
 रामस्नेहीदास, परमहंस श्री जानकी चरितामृत विश्व शाति  
 १५००  
 रामस्वरूप कम्यूनिज्म और किसान विद्यार्थी १५०  
 काव्य लहरी एस चाद २००  
 गौमाता वसुदेरा अ भा सर्व २५०  
 भारत का भूगोल स ३ चौखवा १५०  
 भारतीय इतिहास स ३ चौखवा १.५०  
 रूस का साम्राज्यवाद विद्यार्थी ०५०  
 हमारे वापू गगा ३००  
 रामस्वरूप शास्त्री तथा गोवर्धननाथ शुक्ल हिंदी रत्नमाला  
 भा प्र मंदिर १५०  
 —तथा देवीप्रसाद मालवीय कादवरी कथामुखप्रकरणम्—  
 वाणकृत रा वेनीमाधव ५००  
 रामत्वाभी आद्यगर, एम. एस दे श्रीनिवासाचारी  
 रामाधार नाविक' मत्स्य-जगत की वाते रामा प्र २५०  
 रामाधारसिंह दे दुवे, अक्षयवर  
 राम.नद 'दोषी' गीले पख आत्माराम ३५० का  
 —सपा जनरव नव सा प्र ३२५ क  
 रामामात्य स्वरमेल-कलानिधि टीका विश्वभरनाथ भट्ट  
 संगीत १००  
 रामायणशरणा आविष्कारों की कहानिया मगध भा १  
 ०७५, भा २ १०० वप्र.  
 यही मेरी मातृभूमि है राष्ट्रीय प्र मडल एव राष्ट्रीय सा.  
 ३००. क  
 रामावतार विद्यापति और चंडीदास विश्वेश्वरानन्द १३१  
 रामावतार चेतन चाद से नीचे हि भवन ३०० का.  
 डिजाइन कला प्रवेश स २ हि भवन १५०  
 दूब के मोती हि भवन ०.४० वप्र  
 धरती की महक हि भवन ३००. ना.  
 वस्तुचित्रण कला प्रवेश स २ हि भवन १५०  
 श्वासो के स्वर हि भवन २०० का  
 सुनो कहानी हि भवन १०० वप्र  
 स्मृतिचित्रण कला प्रवेश स २ हि भवन ०७५  
 रामावतारलाल. भारत की आर्थिक समस्याएँ नाँवली ६०  
 रामावतार शास्त्री मनुष्य जीवन का लक्ष्य हि सा सम्म  
 १.५०

रामावतार सगीताचार्य. गीत श्रद्धाजलि गोविंदराम १००  
 सगीत-परिचय ३ भा आत्माराम. ३.२५  
 रामाशीष सिंह अगूठी के नगीने. हि. पु ए. १.५०. क  
 गविता हि पु ए २२५. उ  
 भक्त ध्रुव हि पु ए ०.६४. वप्र  
 भयानक खूनी हि. पु ए २०० उ  
 रामाश्रय प्रभाकर गीत कुसुम कला-भा १२५. वप्र  
 रामास्वामी, टी एन जापान का आर्थिक विकास. अनु  
 ब्रजकिशोर सिंह नद ब्र. एव नद स. १.२५  
 रामेश्वर अशात अच्छी खाद देहाती २.५०  
 अच्छे बीज. देहाती ०.७५  
 अनाजो की खेती देहाती. ४५०  
 आधुनिक कृषि विज्ञान देहाती ८२५  
 आम की वागवानी देहाती ३००  
 आलू की खेती देहाती ०.७५  
 उन्नत सिंचाई देहाती २.००  
 कत्थे की खेती देहाती १.५०  
 कपास की खेती देहाती १.००  
 खेत की तैयारी. देहाती २२५  
 खेती और वागवानी देहाती ३००  
 गन्ने की खेती देहाती ०.७५  
 गेहू की खेती देहाती ३००  
 गोभी की खेती देहाती ०.५०  
 जीरा, धनिया, अजवायन देहाती ०.७५  
 जौ की खेती. देहाती. ०.८७  
 टमाटर की खेती देहाती ०.५०  
 तरकारियो की खेती देहाती. १.५०  
 तिलहन की खेती देहाती. ०.८७  
 दलहन की खेती देहाती ४५०  
 धान की खेती देहाती १.५०  
 नींबू, सतरा, माल्टा देहाती २.२५  
 प्याज लहसुन की खेती देहाती १.२५  
 फसल रक्षक औषधिया देहाती २२५  
 फसल व्याधियो की रोकथाम देहाती १.५०  
 फल फुलवारी देहाती २.५०  
 बीज की तैयारी देहाती. १.५०  
 भारतीय कृषि कहावते (घाघ भड्डरी). देहाती. ४.००  
 मकई (मक्का) की खेती. देहाती १.२५  
 मसालो की खेती देहाती २००  
 मिर्च की खेती. देहाती. १.२५  
 मूंगफली की खेती देहाती. १.००  
 लाख की खेती देहाती ०.८७  
 वीर पचरत्न देहाती ३५० वप्र  
 सतरे की वागवानी देहाती. २.५०  
 सोयाबीन और खिसारी देहाती ०.२५  
 हितोपदेश देहाती २.५०  
 रामेश्वरप्रसाद सिंह छायावाद के चार स्तभ (प्रसाद, निराला,  
 पत, महादेवी) पारिजात. ३००

रामेश्वरानंद, स्वामी जीवन भुक्ति विवेक. भालोटिया.  
 राय सामाजिक विज्ञान प्रश्नोत्तरी गयाप्रसाद २००  
 राय, अनिलवरण क्षत्रिय धर्म श्रीअरविद ०.३७  
 गीतोपदेश काशी हिंदू ३००; — — श्रीअरविद. २००  
 योगदीक्षा श्रीअरविद १००  
 राय, आर बी कार्बनिक रसायन डिग्री पार्ट १-३ एव ओल्ड  
 वी एस सी बुकलेड १५००  
 स्नातक प्रायोगिक रसायन बुकलेड ५००  
 राय, आर. सी दे सिंह, आर. एल.  
 राय, उदयनारायण विश्व सभ्यता का इतिहास साधना सदन  
 ८००  
 राय, उमापति तथा सुमित्रा भार्गव दे श्री निवासाचारी तथा  
 एन. एस रामस्वामी आयगर  
 राय, एल अर्थनैतिक वाणिज्य भूगोल बुकलेड ३५०  
 राय, एस के वनस्पति विज्ञान परिचय स ५. भा भा प्र.  
 १.८७  
 राय, एस के दे कोटपाल, आर. एल  
 राय, कपिलदेव गुमराह ग्रथालय १.२५ उ.  
 राय, कमलाप्रसाद घाघ और भड्डरी. स. ४. राष्ट्रीय प्र.  
 मंदिर १.५०  
 —सपा घाघ और भड्डरी की कहावते हि प्रचा म. १.५०  
 राय, कृष्णकुमार गरीब की बलि राष्ट्रीय प्र मडल एव  
 राष्ट्रीय सा. स २.५० क  
 राय, कृष्णानंद. भारत और जनतंत्र स २ राष्ट्रीय प्र.  
 मंदिर ०.७५  
 राय, जगदबाशरणा व्यस्यक शिक्षा समाधान पु. भ, रा  
 ३.७५. वप्र  
 राय, जगदानंद. ग्रह-नक्षत्र इ. प्रे ३००  
 प्राकृतिकी. इ प्रे ३.५०  
 वैज्ञानिकी. इ. प्रे. २००  
 राय, जयचंद्र दे. जयचंद्रराय.  
 राय, जयनाथ तथा रामसुरेशप्रसाद श्रीवास्तव उन्नत कृषि  
 विज्ञान साधना म ७.३७  
 राय, जीवनाथ. संस्कृत व्याकरण सोपानम्. पु भ ४००  
 राय, डी. एल चंद्रगुप्त. स. ४ राष्ट्रीय प्र मंदिर १.५० ना  
 दुर्गादास राष्ट्रीय प्र मंदिर १.७५ ना  
 नूरजहा. राष्ट्रीय प्र मंदिर १.७५. ना  
 मेवाड पतन स २ राष्ट्रीय प्र मंदिर १.५०. ना  
 राणाप्रताप सिंह. स २ राष्ट्रीय प्र मंदिर. १.२५ ना.  
 शाहजहा राष्ट्रीय प्र मंदिर १.७५ ना.  
 राय, दिलीपकुमार मोरा नवभारत ५००  
 राय, दिलीपकुमार दे. इन्द्रा देवी  
 राय, द्विजेद्रलाल अहल्या हि ग्र. र १.५०. ना  
 उस पार हि ग्र र १.७५ ना  
 कालिदास और भवभूति हि ग्र र ३.००  
 चंद्रगुप्त. हि ग्र र. १.५०. प्रहसन  
 दुर्गादास. हि ग्र. र १.७५ प्रहसन.  
 नूरजहा हि. ग्र र १.७५. प्रहसन

भारत-रमणी हिं ग्रं १७५ ना  
भीष्म हिं ग्रं १७५ प्रहसन  
मूर्ख-मडली गंगा २५० ना  
मेवाड पतन हिं ग्रं १५० प्रहसन  
राणाप्रताप सिंह हिं ग्रं २२५ प्रहसन  
शाहजहा हिं ग्रं १७५ प्रहसन  
सिंहल विजय हिं ग्रं २२५ प्रहसन  
सीता. हिं ग १५० ना  
सूर के घर धूम हिं ग्रं ०७५ प्रहसन  
राय, निवास दे वेट, जेराल्ड  
राय, निगीथकुमार अमर ज्योति इ प्रे १०० क  
जासूसी गल्प-गुच्छ इ प्रे ३५०  
राय, बी एन एसशियल ज्योग्रफी नद ब्र एव नद स  
४.५०  
सचित्र भौतिक कल्याणमल ४५०  
राय, वैजनाथ प्रबध पराग आदर्श पु भ ५००  
बलिदान आदर्श पु भ ५०० उ  
साहित्यिक-निबध आदर्श पु भ २००  
हिंदी-साहित्य परिचय आदर्श पु भ  
राय, ब्रह्मदेव भारतीय सविधान एव नागरिक शास्त्र दर्शन  
राजीव, प्रयाग २५०  
राय, भोलानाथ तर्कशास्त्र आगमन अपर ४७५  
तर्कशास्त्र निगमन अपर ४७५  
राय, मन्मथ प्राचीन बाल-क्रीडा सा भवन, इ १०० वप्र  
प्राचीन लोकोत्सव सा भवन, इ २५०  
राय, महेन्द्रचंद्र अन्वेषण-यात्री इ प्रे १५० वप्र  
माक्सवाद और साहित्य कल्याणदास ५५०  
राय, राधानाथ, १८४८-१९०८ चिलिका अनु युगजीत  
नवलपुरी सा अकादमी १५० का  
राय, रामकुमार असामान्य मनोविज्ञान चौखवा १०००  
व्यवहारिक मनोविज्ञान चौखवा ४५०  
—सपा तथा अनु शौनकीय वृहद्देवता चौखवा १५००  
राय, रामकुमार दे मैकडौनेल, ए ए  
राम, रामकुमार दे मैकडौनेल, ए ए तथा ए. वी कीथ  
राय, रामखेलावन उपनिषद के आदर्श बालक मगध ०७५.  
वप्र.  
महाभारत के आदर्श बालक मगध ११२. वप्र  
राय, रामपरीक्षण कृषि-साहित्य २ भा अशोक प्रे ०५०  
(प्र) वप्र  
राय, रामवृक्ष 'विधुर' रगभूमि मे दो राम साहित्यवाणी  
१०० वप्र  
राय, रामसागर तथा रामप्रसाद सिंह उद्यान-कृषि-दर्शन  
कला-नि  
शाक-कृषि-दर्शन कला-नि ६२५  
राय, रायसिंह चिता छोडो सुख से जियो डी वी तारापोर-  
वाला ६००  
राय, लल्लन रत्नाकर का काव्य एम चाद ४००  
राय, लावण्यप्रभा रवींद्रनाथ ठाकुर कि महल १५० जी

राय, विध्याचल. दे थपलियाल, मयादत्त  
राय, विध्याचल 'अचल' युग-प्रदीप नारायण प्र १२५ का  
राय, विजयशंकर नव प्रभात अ भा सर्व १०० वप्र  
राय, विनयकुमार वैसासिस मनोविज्ञान नद स ७००  
शिक्षा मनोविज्ञान नद स  
राय, विवेकी अव्ययन आलोक आदर्श पु भ २००  
रजनी गधा आदर्श पु भ २०० का  
राय, विश्वनाथ क्रातिवाद आत्माराम ५००  
पार्लमेटरी सरकार आदर्श पु भ ४००  
राय, शंभूनाथ रचना विकास अशोक पु भ १७५  
राय, शरत्कुमार बुद्धदेव इ. प्रे १७५ जी  
भारतीय साधक इ प्रे १०० जी  
राय, शुक्देव धरती की बाते २ भा अशोक प्रे ०७५(प्र)  
वप्र  
राय, श्रीकृष्ण 'हृदयेश'. हिमाशु हिं पु ए ०७५ क  
राय, सतीशचंद्र विद्यापति-पद्य-संग्रह हिं सा सम्मे ०३७  
राय, सिंहासन 'सिद्धेश' आदर्श मुहावरे और लोकोक्तिया  
आदर्श पु भ १००  
आदर्श व्याकरण और रचना आदर्श पु भ २५०  
काव्याग परिचय आदर्श पु भ १००  
जीवन की भूल आदर्श पु भ २००  
निबध-भारती आदर्श पु भ ३००  
सुबोध हिंदी व्याकरण सशो स आदर्श पु भ २५०  
हिंदी के श्रेष्ठ साहित्यकार आदर्श पु भ ३००  
—तथा मिश्रा उच्चतर निबध भारती आदर्श पु भ ५००  
राय, सुकुमार ऊटपटाग अनु कचनकुमार सर्वोदय सा  
१००. वप्र  
दासू के कारनामे अनु कचनकुमार सर्वोदय सा १००  
वप्र.  
राय, हरिहरप्रसाद आधुनिक भारत ग्रथमाला ७००  
भारतीय स्थानीय स्वशासन सुबोध ग्र ५००  
मुगलकालीन भारत ग्रथमाला ४००  
राजनीति शास्त्र के सिद्धांत भा भवन १२५०  
विश्व के नेता ज्ञानपीठ १३७ वप्र  
विश्व के प्रमुख सविधान भा भवन १३००  
रायकृष्णदास, १८९२- अनाख्या १५०  
काव्य कलाधर गयाप्रसाद १७५  
छायापथ भा भ १००  
प्रवाल भा भ ०३७  
ब्रज-रज भा भ ०५० का  
भारत की चित्र कला भा भ ८००  
भारतीय मूर्तिकला ना प्र सभा ४५०  
भावुक भा भ. १०० का  
सलाप भा भ १०० गद्य का  
साधना. भा भ १०० गद्य का  
सुधाशु भा भ ०७५ क  
—तथा आनंदकृष्ण अजता के चित्रकूट राजकमल १००.  
वप्र

मध्यकालीन चित्रशैलिया राजकमल १.०० वप्र  
 —तथा पद्मनारायण आचार्य, सपा. नई कहानियाँ ना प्र  
 सभा ३००  
 रायकृष्णादास दे परमात्माशरण  
 रायगोविन्दचन्द्र. प्राचीन भारतीय मिट्टी के बर्तन. चौखबा.  
 १२.००  
 वेद मे आभूषण. चौखबा  
 रायगोविन्द सिंह प्राचीन भारत मे लक्ष्मी प्रतिमा हि. प्रचा  
 पु. ७००  
 राय चौधरी रेलगाडी की कहानी ओरिएट १५०  
 राय चौधरी, डी के 'आनन्द' अनजान रास्ता राज किशोर  
 १५० ना  
 समाज से दूर राज किशोर २५० उ  
 राय चौधरी, विजयकांत श्रीअरविद का योग श्रीअरविद.  
 १.००  
 रामपुरिया तथा गोयल. ग्रामीण समाजशास्त्र दत्तबधु १२५०  
 रायवर्न शिक्षालय सगठन अपर ४५०  
 राव. दे. नरेद्र 'राव'  
 राव, उमा इडोनेशिया राजकमल २००  
 राव, पाडुरग आध्र-हिंदी रूपक कला-नि ७५०  
 राव, बालकृष्ण. कवि और छवि इ प्रे २००. का.  
 मधु-सचय आत्माराम २५० का  
 रात बीती इ. प्रे. ३०० का  
 हमारी राह इ प्रे २५० का.  
 —सपा अष्टदल. कौशाबी ३.००  
 —तथा अमृतराय, सपा हस १. हस ६५० आ.  
 राव, भालचंद्र 'तेलग' छत्तीसगढी हि ग्र र. १०००  
 राव, रवीन्द्रप्रताप वैज्ञानिक अनुसंधान और आविष्कार  
 विश्वविद्यालय ३.००  
 रावत गणित शिक्षण पु भ, आ २००  
 प्रयोगात्मक मनोविज्ञान (प्रश्नोत्तर) पु भ, आ. ०.७५  
 विज्ञान शिक्षण पु भ, आ २००  
 स्कूल स्वास्थ्य विज्ञान पु भ., आ. ४००  
 रावत, एम एस तथा एम बी लाल विज्ञान शिक्षण  
 गयाप्रसाद ५००  
 रावत, एम एस तथा मुकुटबिहारीलाल अग्रवाल. गणित  
 शिक्षण विनोद ४००  
 रावत, चंद्रभान मथुरा जिले की बोली हिंदु एकेडेमी  
 रामचरितमानस मे लोकवार्ता सरस्व. पु स ३५०  
 रावत, डी एस गणित शिक्षण गयाप्रसाद ४५०  
 प्रयोगात्मक मनोविज्ञान विनोद ३.००  
 विज्ञान शिक्षण विनोद ४.००  
 विद्यालयो मे मापन एव मूल्यांकन गयाप्रसाद ६००  
 शिक्षा मनोविज्ञान की नई रूपरेखा विनोद ६००  
 शिक्षा विज्ञान रस्तोगी. ५००  
 शिक्षा सिद्धांत की रूपरेखा रस्तोगी. ४.५०  
 शैक्षिक मापन की नवीन रूपरेखा. गयाप्रसाद ६००  
 रावत, जोधसिंह. भाषा-विज्ञान प्रश्नोत्तर. रीगल. १.५०

रावत, पी. एल. भारत का आर्थिक विकास सं ४. आगरा  
 बुक १०००  
 भारतीय शिक्षा का इतिहास. रामप्रसाद १०.००  
 भारतीय शिक्षा का संक्षिप्त इतिहास. स ३. रामप्रसाद.  
 ५.७५  
 रावत, प्यारेलाल राजस्व के सिद्धांत रत्न १०००  
 रावत, ब सि मधु उत्पादन का सही आरम्भ. रावत. ० ६२  
 शहद और दीर्घ जीवन रावत ४००  
 शहद की खेती सस्ता ० ४०. वप्र.  
 सफल मौनपालन स २ रावत. ७५०  
 रावत, बीरबल सिंह तथा शिवसहाय पाठक, सपा पद्मपराग.  
 बबई हि भा १. ०६२, भा २ १४०  
 रावत, महेशचंद्र न्यायमत्री स. २ सा रत्न भ २.५०. ना  
 रावत, हरिकृष्ण दे कापडिया, के एम  
 रावल, नवनीतलाल. दे. मत्री, ना ह.  
 रावल, रामसिंह ये थे नेताजी. सस्ता ० ४० वप्र  
 रावी. दे विद्यार्थी, रामप्रसाद 'रावी'  
 रावेल सिंह हम कैसे पढाये पजाबी पब्लि. ५००  
 राष्ट्रबधु. कतक थैया घुनू मनइया अ. भा सर्व ० ७० वप्र.  
 बालभूषण. विश्वेश्वरानंद १२५ वप्र  
 ये महान कैसे बने राजपाल १००  
 हम साहस के बेटे है सा नि., का १५० वप्र.  
 राष्ट्रभाषा पुस्तक भंडार. राष्ट्रभाषा रजत जयती ग्रथ. राष्ट्र.  
 पु भ २०००  
 राहगीर गाव की लोक कथाये सुभाष १२५  
 —सपा भोजपुरी के नये गीत और गीतकार उदय ६.५०  
 राही. दे मजीत राही.  
 राहुल दे विश्वनाथ राहुल.  
 राहुल बाबा तीन नाटक कि महल. १७५  
 राहुल साकृत्यायन अकबर कि महल ७७५ इति.  
 अतीत से वर्तमान हि प्रचा पु. ३५० नि  
 अनाथ कि महल २५० उ.  
 आज की राजनीति आधुनिक पु. ६.००  
 आज की समस्याए. कि महल ० ७५ नि.  
 इस्लाम धर्म की रूप-रेखा कि महल ३००  
 ईरान इ. प्रे १.७५  
 ऋग्वेदिक आर्य कि महल ८००  
 एशिया के दुर्गम भूखंडो मे स २ साधना सदन ५००  
 कनैला की कथा कि महल ३०० क  
 कप्तान लाल राजपाल २०० उ  
 कार्ल मार्क्स कि महल ६०० जी.  
 किन्नर देश कि महल. ५७५ या  
 कुमारु ज्ञानमडल. १५०० या  
 घुमक्कड शास्त्र कि महल ३००. या.  
 घुमक्कड स्वामी कि महल ३००. जी  
 चीन मे क्या देखा पीपुल्स ४००  
 जय यौधेय कि महल ५०० उ  
 जादू का मुल्क. आधुनिक पु २.५०



जिनका मैं कृतज्ञ कि महल ५७५ जी  
जीने के लिए कि महल ४५० उ  
तिव्वत मे बौद्ध धर्म कि महल १२५  
तुम्हारी क्षय कि महल २००, — — सा केद्र १५०  
दक्खिनी हिंदी-काव्यधारा वि राष्ट्र ६००  
दर्शन दिग्दर्शन कि महल १२००  
दाखुदा कि महल ५०० उ  
दार्जिलिंग परिचय आधुनिक पु ४.००  
दिमागी गुलामी कि महल १००  
दिवोदास कि महल ३०० उ  
पुरातत्व निवधावली इ प्रे २७५, — — कि महल  
६००  
प्रमाणवार्तिकम कि महल ३००० (अप्रा) दर्शन  
वचपन की स्मृतिया कि महल १७५ जी  
वहुरगी मधुपुरी कि महल एव पीपुल्स ३०० क  
वाइसवी सदी कि महल १२५  
बौद्ध दर्शन कि महल ५००  
बौद्ध सस्कृति आधुनिक पु १५००  
भागो नही दुनिया को बदलो कि महल ५००  
मध्य एशिया का इतिहास वि राष्ट्र भा १ १२२५,  
भा २ ८५०  
माओ चे तुग कि महल ६०० जी  
मानव समाज आधुनिक पु ३७५  
मेरे असहयोग के साथी कि महल २५० जी  
मेरी जीवन यात्रा कि महल भा १ ६५०, भा २  
८००, भा ३ ७५० जी  
मेरी योरोप यात्रा कि महल १७५ (अप्रा) या  
यात्रा के पन्ने सा सदन, दे ६००  
रामराज्य और मार्क्सवाद पीपुल्स. १२५  
राहुल यात्रावली कि महल ३०० या  
रूपी प्रचा पा. १००  
लेनिन पीपुल्स ३५० जी  
विश्व की रूपरेखा कि महल ८००  
विस्मृत यात्री कि महल ५७५ उ  
विस्मृति के गर्भ मे कि महल ३०० उ  
वीर चंद्रसिंह गढवाली कि महल ७५० जी  
वैज्ञानिक भौतिकवाद आधुनिक पु २५०  
वोल्गा से गंगा कि महल ५०० क  
शैतान की आख कि महल २२५ उ  
सस्कृत काव्य धारा कि महल १५००  
सतमी के वच्चे कि महल १२५ क  
सरदार पृथ्वी सिंह ज्ञानमंडल ४०० जी  
साम्यवाद ही क्यों कि महल १२५  
साहित्य निवधावली कि महल ५००  
सिंहल के वीर कि महल १५० जी  
सिंहल घुमक्कड जयवर्धन राजपाल ३००  
सिंह सेनापति कि महल ४०० उ  
१२ की मौत आधुनिक पु. १२५

सोने की ढाल कि महल ५०० उ  
सोवियत भूमि २ भा कि महल ५०० (प्र) या  
सोवियत मध्य एशिया कि महल ५०० (अप्रा) या  
स्तालिन पीपुल्स ३०० जी  
हिंदी काव्य धारा कि महल ८००  
— तथा प्रकाचंद्र गुप्त प्रगति भा १ प्रबुद्ध ३०० का.  
— सपा हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास भा १६ लोक  
साहित्य ना प्र सभा २५००  
— तथा अन्य, सपा शासन शब्दकोश हिं सा सम्मे १५००  
(अप्रा)  
राहुल साकृत्यायन दे सदरुहीन ऐनी  
राहुल साकृत्यायन दे सरहपाद, सिद्ध  
रिछारिया, आर एच तीसी के रेशे मगध २५०  
रिजवी, अतहर अब्बास स्वतंत्र दिल्ली हिं समि ४००  
हकायके हिंदी ना प्र. सभा ३००  
रिपु दे शर्मा, मनोहर 'रिपु'  
रिपुदमन सिंह मानव मिति रामा प्र ५००  
रियाज खैराबादी छलकते जाम मक्त्वा १०० का  
रुद्र दे मिश्र, शिवप्रसाद 'रुद्र'  
रुद्र दे शर्मा, रामगोपाल 'रुद्र'  
रुद्र काशिकेय, सपा चीन को चेतावनी प्रचा. पा १००  
रुद्रदत्त आर्थिक व्यवस्था और विकास १९६३ स रतन  
६५०  
रुद्रनारायण आदर्श भूमि चितौर इ प्रे २००  
रुद्रभान वाजे-वाजे वासुरी सर्वोदय सा ०७५ वप्र  
रुसवा दे हादी 'रुसवा', मिर्जा  
रुजवेल्ट, इलिवार दे टारे, रेजिना  
रूप दे अखतर आदिल रूप  
रूपगोस्वामी श्री हरिभक्ति रसामृत सिंधु सपा श्यामनारायण  
पाडे सा. नि, का  
रूपचद भोजन मे दूध का महत्व सर्वोदय ०५०  
रूपसिंह आदर्श पत्नी राजकमल १०० ना  
रे तथा शर्मा इटरमीडिटेट कलन एस चाद १२५  
सरल हाईस्कूल बीजगणित रतन  
रे, एम तथा अन्य नियामक ज्यामिति गयाप्रसाद ३००  
समतल त्रिकोणमिति गयाप्रसाद ३५०  
रे, मनोहर इन्टरमीडिएट बीजगणित शिवलाल ३५०  
रेड, विश्वेश्वरनाथ राजा भोज हिंदु एकेडेमी १००० इति  
रेजिनाटार शांति की ओर राजकमल १०० वप्र  
रेड्डी, बालशौरि अटके आसू कला-नि २५० क  
आध्र के महापुरुष सा साधना १२५  
आध्र-भारती कला-नि ८५०  
जिदगी की राह राजपाल ३०० उ  
तेलुगु की लोक कथाए सा साधना १२५  
यह लोग, ये वस्ती एस चाद ४.०० उ  
शबरी राजपाल २०० उ  
— सपा तेलुगु की उत्कृष्ट कहानिया राष्ट्र प्रचा समि  
२५०

- रेड्डी, गुरुवरम प्रताप. आध्र का सामाजिक इतिहास. सा  
अनादमी ६००
- रेगु. दे. फणीश्वरनाथ 'रेगु'.
- रेगु दे रामसूक्ति, वारणसि 'रेगु'
- रेनान्द्रग. पतन की ओर. चिनगारी २.५०
- पतन की तस्वीरें चिनगारी. २.५०
- पतन की नीमा चिनगारी २.५०
- नदन रहस्य ४ व चिनगारी. ४०० (प्र)
- रेमत तथा मुकूर्जी. शिक्षा सिद्धांत ओरिएट ६.००
- रैना, विमला तीन युग. कि महल २.५० ना.
- रुभे दीप कि. महल २.५० क
- रैलन तथा पाटनी व्यवसायिक सगठन म. ३. रस्तोगी  
५००
- व्यवसायिक सगठन और प्रवध. स ४. रस्तोगी ५.५०
- व्यापारिक एव औद्योगिक सगठन रस्तोगी ६.००
- रोड, महाकवि राउज वेल और उसकी भाषा सपा माताप्रसाद  
गुप्त. मित्र ५००
- रोनिंग. धिकार और जीवन अनु सत्यकाम वर्मा आत्माराम  
६००
- रोशनलान गुरीरवाला. छोटी बहू. अर्चना प्र (पा.) १.००
- रगठी भिन्न निवध सग्रह. भा प्र. मदिर. ४०० नि
- रोन शिक्षण-सिद्धांत के मूल आधार एस चाद ५.००
- रोहतगी, के वी वाणिज्य विधि. फ्रैक ८००
- रोद्र दे रामध्यान सिंह 'रोद्र'
- रोनिंग. मारजौरी किनन धिकार और जीवन आत्माराम  
६००. उ
- हमराही आत्माराम. २०० उ
- रोस, जेम्स एस शिक्षा मनोविज्ञान की रूपरेखा. स. २  
शिवलान ५००

## ल

- लक्ष्मण शारत्री, नपा. दक्षकुमार चरित सग्रह श्रीराम मेहरा  
१२५
- लक्ष्मण शारत्री, एस. दे. दामोदरन, के.
- लक्ष्मण शारत्री, एस दे पोटेन्काट्ट, एम के.
- लक्ष्मण शारत्री, एस दे. भानी, तोपिल
- लक्ष्मण सिंह भौतिक विज्ञान का सरल अध्ययन. २ भा. मुरेडा.  
३.७५
- लक्ष्मण सिंह भाष्यमिक दस्य-विज्ञान एशियन ८००
- लक्ष्मण सिंह, राजा अभिज्ञान शकुतला नाटक. अथमाला.  
१.००, — — रामप्रसाद ० ६४
- लक्ष्मण. गगा. १५० ना
- लक्ष्मण सग सुभाषेनाल भारंग. राष्ट्रीय प्र मउल एव  
राष्ट्रीय सा स. १५०. ना
- लक्ष्मण नाटक २ प्रे १.२५. — — नवयुग पु. स. १.५०:  
— — स्लाभम. २.००; — — रा. वेनीनाथ. १.२५

- शकुतला नाटक (बालीदास कृत) विनोद. १५०
- लक्ष्मण सिंह, राजा दे कालिदास.
- लक्ष्मणस्वरूप. चद्रगुप्त मीर्य एस चाद. १.५०. ना
- सपा ऋग्वेद सहिता ७ मडल तक. ४ भा. मोतीलाल  
२०० ००
- लक्ष्मणानंद, स्वामी. ध्यान योग प्रकाश शारदा म. २.००
- लक्ष्मी लक्ष्मी कशीदाकारी देहाती ३५०
- लक्ष्मीकांत दपतियो की समस्याए. कि महल १७५
- लक्ष्मीकांत, आचार्य देहातियो की तदुरुस्ती. गगा १५०.
- लक्ष्मीकांत 'मुक्त' नारी-काव्य सग्रह की टीका रीगल २.५०
- प्रेमचंद एक अध्ययन (प्रश्नोत्तर) रीगल १५०
- मुद्राराक्षस एक अध्ययन रीगल १२५
- सूरदास (प्रश्नोत्तर). ओरिएटल. २२५
- तथा क्षेमचंद्र 'सुमन' साहित्य सोपान. श्री भा भारती .  
२.५०
- लक्ष्मीधर शास्त्री काव्य-रसायन. एस चाद १.५०
- चूडालोपाख्यान एस. चाद. २००
- शाह वरकत उल्ला की हिंदी को देन. इ प्रे. १५००
- लक्ष्मीनारायण करेला रानी गगा. ०.७५ वप्र.
- जादूगरी गगा ०.७५
- डाक्टर के आने से पहले हिंद पा १००
- देश के लिये गगा. १.००. वप्र
- नई जिंदगी राजहंस ३.५०
- नये तीर्थ, नयी यात्रा नेशनल ०७५
- पति-पत्नी हिंद पा. १.००
- पीरअली पीपुल्स १२५ ना
- पैसा नहीं मजदूरी नेशनल ०७५
- वर्थ-कट्रोल हिंद पा १००
- भारत की अर्थव्यवस्था सगो म. केदारनाथ ८.५०
- मदिरा की घूट. गगा १५०
- मैं क्या कर सकता हू ? नेशनल ०६०
- योगासन और स्वास्थ्य हिंद पा १.००
- लाल-बुभुक्कड गगा. ०७५
- सरल प्राकृतिक चिकित्सा हिंद पा १००
- सामान्य रोगों की रोक थाम राजपाल. २.००
- सेक्स की समस्याए हिंद पा. १००
- स्त्री-पुरुष हिंद पा १००
- हम अछूत नहीं, निर्बल नहीं. गगा. १५०
- लक्ष्मीनारायण 'कुशवाहा'. तात्या टोपे सा नि, व. ५.००.  
का
- वेदी के दीप सा नि, व १२५. का
- लक्ष्मीनारायण नान, १६२५- अथा कुआ भा. म. २.५०.  
का
- आधुनिक हिंदी कहानी. हिं अं र. २.५०
- काने फूल का पौदा भा. मं ३.००. उ
- ताजमहल के अंशु गर्ग २५०
- दर्शन. राजपाल. २.००. ना
- धरती की आंखें. हिंद पा. १००. उ.

नाटक बहुरंगी भा ज्ञानपीठ ४५० ना.  
 बडी चपा छोटी चपा राजकमल ४००, (पा) १०० उ  
 वया का घोसला और साप नीलाभ ३५० उ  
 मादा कैक्टस राजकमल १७५ ना  
 रक्त कमल राजकमल २५० ना  
 रातरानी. राजपाल २५० ना  
 रुपाजीवा राजकमल ६०० उ  
 लेडी डाक्टर पुष्पी (पा) १०० उ, — —सुरेद्र २००,  
 (पा) १००  
 सुदर रस स २. भा ज्ञानपीठ १५० ना.  
 सूखा सरोवर भा ज्ञानपीठ २०० ना  
 सुने अगन रस वरसै भा ज्ञानपीठ ३०० क  
 हिंदी कहा की शिल्प का विकास सा भवन, इ १०००  
 —सपा रग सप्तक रा वेनीप्रसाद ३०० ए  
 लक्ष्मीनारायण शास्त्री बाल-हिंदी-संस्कृत-कोष ४ भा श्री  
 भा भारती २७५  
 सप्त सरोवर श्री भा भारती २२५ ना  
 सुमन सौरभ (सटीक) श्री भा भारती २०० का  
 हिंदी कथा मजरी श्री भा भारती २७५  
 लक्ष्मीनारायण 'सरोज' आरोग्य-विज्ञान मेडिकल २००  
 लक्ष्मीनारायण सिंह दे गुप्त, गणेशप्रसाद  
 लक्ष्मीनारायण सिंह 'ईस' लकादहन ना प्र सभा २००  
 लक्ष्मीनारायण सुधाशु काव्य मे अभिव्यजनावद ज्ञानपीठ  
 ५००  
 जीवन के तत्त्व और काव्य के सिद्धात सशो स ज्ञानपीठ  
 लक्ष्मीनिधि दे केशव  
 लखोटिया, रामनिवास भारतीय आयकर के सरस सिद्धात  
 सशो स २ आशा पब्लि ४८०  
 लता रानी लता कड़ाई कला देहाती २५०  
 लद्दू, आर डी काव्य मदाकिनी गयाप्रसाद २००  
 काव्योन्मेष गयाप्रसाद २००  
 वाणाचरितसारः गयाप्रसाद २५०  
 लमगोडा दे बाबूराम सिंह 'लमगोडा'  
 लमगोडा दे राजबहादुर लमगोडा  
 लर्नर, मेक्स १९०२- अमेरिकी मभ्यता आत्माराम १०००  
 ललितकिशोर सिंह ध्वनि और सगीत स २ भा ज्ञानपीठ  
 ४५०  
 ललितकुमार सिंह 'नटवर' दावपेच कल्याणदास २००  
 ललितेश अमर प्रेम हि सा सृजन १०० का  
 लल्लनजी गोपाल संस्कृति और संस्कृतिया हि प्रचा पु  
 १५०  
 हम सब एक है हि प्रचा पु १५०  
 हमारी विरादरी हि प्रचा पु १५०  
 —तथा ब्रजनाथ सिंह यादव भारतीय संस्कृति स २ विश्व-  
 विद्यालय ५००  
 लल्लनप्रसाद नागरिक शास्त्र मोतीलाल २७५  
 लल्लनराय रत्नाकर और उनका उद्धवगतक नद ब्र. एव नद  
 ४००

रत्नाकर का काव्य एस चाद ४००  
 लल्लूलाल प्रेमसागर रा वेनीप्रसाद, — —श्यामलाल  
 ३५०  
 प्रेमसागर छोटा हि पु ए २००  
 लवानिया, एम एम दे गोरा, आर एन  
 लवानिया, एम एम दे श्रीवास्तव, ए एल  
 लवानिया, गौरीशकर तथा देवेद्रप्रताप सिंह अर्थशास्त्र का  
 परिचय नद ब्र एव नद स ५००  
 लवानिया, गौरीशकर दे वर्मा, डी एस राजन्य  
 लहरी दे गौरीशकर 'लहरी'  
 लहरी, मोहन फलो का भोला हि प्रचा पु १२५ वप्र  
 —अनु स्वर्णिम अतीत हि प्रचा पु ३०० उ  
 लासडेल, कैथलिन विश्वशांति क्या सभव है ? अ भा सर्व.  
 १२५  
 लॉक, जॉन शासन पर दो निबंध अनु सरला मोहनलाल  
 हि समि ४५०  
 लाखन सिंह गाव और खेती नेशनल ११५  
 भगवान के प्यारे सस्ता ०४० वप्र  
 भाषा-सदन नेशनल १००  
 लागिन वीसवी सदी का जिन्न राजकमल (पा) १००  
 उ  
 लाच, राल्फ ई खोज की राहे आत्माराम ३५०  
 लाजपतराय महात्मा ग्वीसेप मेजिनी ना प्र सभा १०० जी  
 लाजपतराय, लाला छत्रपति शिवाजी चौधरी १५०  
 तरुण भारत. चौधरी ३००  
 लाजवती, कुमारी आदर्श कशीदाकारी देहाती ४००  
 लाडली मोहन दस्कारी सीखो आत्माराम २००  
 लकडी का काम आत्माराम २००  
 साग-सब्जी उगाओ आत्माराम ३००  
 लारेस, डी एच दो दिलो के बीच चिनगारी ४५० उ  
 लेडी चैटरली का प्रेमी राजरजना (पा) ३०० उ  
 लाल, आर एस मनोविज्ञान का व्यावहारिक रूप रा वेनी-  
 प्रसाद ५००  
 —तथा अन्य माध्यमिक वीजगणित गयाप्रसाद ३००  
 लाल, ई डल्ल्यू हिंदी सकेत लिपि आगरा बुक २५०  
 लाल, ए अश्वघोषकालीन भारत विश्वविद्यालय  
 लाल, एम बी दे रावत, एम एस  
 लाल, एम बी दे सबलसिंह  
 लाल, एस शांति की विजय रामा प्र १५० वप्र  
 लाल, के एस आधुनिक योरप का इतिहास इ प्रे. भा १  
 ६००, भा २ ८००  
 खिलजी वंश का इतिहास लक्ष्मी ना  
 पचम गणराज्य-फ्रांस का सविधान मोतीलाल २५०  
 माध्यमिक वाणिज्य अकगणित मोतीलाल ५२५  
 स्विटजरलैंड का सविधान नाँवल्डी १५०  
 लालचद वैद्य भाव प्रकाश—संपूर्ण मोतीलाल १६००. चि  
 लालजी सिंह नदी तट से प्रचा पा १०० उ  
 भारतीय योजना पर्यवेक्षण. सुभाष. ४००

सामुदायिक विकास हि प्रचा पु. १५०  
 लालधुआ. दे. मिश्र रामप्रिय 'लालधुआ'.  
 लालबहादुर राष्ट्रीय विकास की सरल रूपरेखा आगरा बुक.  
 भा १ २५०, भा २ ३००  
 सरल भारतीय शासन और नागरिक जीवन आगरा बुक.  
 ३५०  
 लालबहादुरलाल तात्कालिक चिकित्सा गगा २५०  
 लालबहादुर शास्त्री तत्वार्थमूत्र श्री भा दिगंबर ०५६  
 श्रीमती क्युरी सा भवन, इ ३५०  
 लालिती देवी गाधीजी की जीवन-भाकी सर्वोदय सा. ०७५  
 वप्र  
 लासन तथा साहनी वनस्पति-विज्ञान एस. चाद १०५०  
 लास्की इगलैंड का राजदर्शन कि महल. ४००  
 इगलैंड का ससदीय शासन एस चाद. ६५०  
 राजनीति के मूल तत्त्व एलाइड २१००  
 राज्य का सैद्धांतिक और व्यावहारिक स्वरूप एस चाद.  
 ७५०  
 लास्की, हेरल्ड राजनीति-प्रवेशिका. सस्ता १००  
 लाहिडी, जितेश नमामि हि भवन क.  
 लाहिडी, रामरेणु, सपा विज्ञान-शिक्षण सर्वोदय सा १००  
 लाहिडी, सुधीर तथा विनयेद्र वद्योपाध्याय राजनीति-विज्ञान  
 विश्वभारती २००  
 लिन हेजेल डाक्टर. भा. भ २०० उ  
 लिन यूताड् प्रेमिका हिंद पा १०० उ.  
 लिप्सन, ई १९वी तथा २०वी सदी में यूरोप गयाप्रसाद  
 १६००  
 लिविंग्स्टन, रिचर्ड शिक्षा की कुछ समस्याए. हि ग्र र  
 २००  
 लीफ, मनरो, १९०५- एक कदम आगे राजकमल २००  
 वप्र  
 वोवक वकरा राजकमल १५० वप्र  
 सच्ची नागरिकता राजकमल २०० वप्र.  
 लीला दुपट्टे के नये-नये सुंदर बूटे. देहाती २५०  
 लीलाप्रकाश नई बुनाई हिंद पा १००  
 लीलावती वीचिया नेगनल १५०. गद्यगीत  
 लीस्टर, म्यूरियल गाधी जी की यूरोपयात्रा वारा २.२५  
 लुई कूने आकृति निदान हि पु ए २००  
 आकृति से रोग की पहिचान अनु महावीरप्रसाद पोद्दार  
 सस्ता २००  
 दुग्ध चिकित्सा हि ग्र र ०२५  
 नवीन चिकित्सा विज्ञान हि ग्र र (अप्रा)  
 प्राकृतिक चिकित्सा हि ग्र र २००  
 बच्चो का स्वास्थ्य छात्रहितकारी ३००  
 बच्चो की रक्षा हि पु ए ०६२  
 मधु चिकित्सा हि ग्र र ०३१  
 मैं तदुरुस्त हू या निमार ? आरोग्य एव सस्ता  
 ०५०  
 मैं निरोग हू या रोगी हि पु. ए ०६२

योग चिकित्सा और सुगम चिकित्सा हि ग्र. र. ०.५०  
 रोगो की नई चिकित्सा छात्रहितकारी २.००  
 रोगो की नवीन चिकित्सा प्रणाली छात्रहितकारी ६.००  
 लुई, पियरे. अपराजिता अनु श्रीकृष्णदास रूपसी १.५०  
 उ  
 प्रेम का अत पुष्पी उ, — —सुरेद्र ३.५०  
 यौवन की आधी. राजपाल ४००. उ.  
 शिल्पी का प्रेम कि महल ३०० उ.  
 लुकनित्स्की, पा पहाडो की बेटी पीपुल्ल ३.१२ उ.  
 हिस्सार की घाटी पीपुल्ल ०२०  
 लुडविग, एमिल क्लियोपेट्रा प्रचा पा १०० उ  
 लुहसू आह क्यू. नेशनल २०० उ  
 लूगिया, जीतमल. उपयोगी सग्रह अनेक भागो मे. हि सा म  
 गाधी चित्रावली स ११ हि सा. म १००  
 नेहरू चित्रावली. स ६ हि सा म १००  
 बुद्ध चित्रावली हि सा म १.५०  
 म. गाधी की दिव्य वारो हि सा म  
 महावीर चित्रावली हि सा म  
 विनोबा चित्रावली स ६ हि सा म. १००  
 सुभाष चित्रावली हि सा म  
 स्वाध्याय, प्रार्थना, स्तोत्र, मंत्र तथा भजन सग्रह हि. सा  
 म. १००  
 लूथरा, नागानदम्. एस. चाद. ४००  
 लूथरा, आर के ब्रिटेन का इतिहास. यूनिवर्सिटी. ८००  
 यूरोप का इतिहास. यूनिवर्सिटी १०००  
 लथरा, जी एल एकाकी सुषमा औरिएटल २५०  
 लथरा, विमला पचपन का फेर भा ज्ञानपीठ. ३०० ए.  
 मा की सहायता हि प्रचा पु ०६७ वप्र.  
 मोटे सिया आत्माराम. १.५० वप्र  
 लनिया, वी एन उच्चतर माध्यमिक नागरिक शास्त्र तथा  
 भारतीय शासन लक्ष्मी ना. ७००  
 भारतीय नागरिक जीवन एव उसकी समस्याये लक्ष्मी ना.  
 १.५०  
 भारतीय सविधान लक्ष्मी ना २५०  
 भारतीय सस्कृति की झलक लक्ष्मी ना. ३००  
 भारतीय सभ्यता तथा सस्कृति का विकास परि स ४.  
 १९६१ लक्ष्मी ना ७.५०  
 सामाजिक अध्ययन लक्ष्मी ना. भा. १ २५०, भा. २  
 ४५०  
 लेखराज सिंह कनौजिया तथा रुद्रप्रकाश श्रीवास्तव भारत  
 एक भौगोलिक अध्ययन रा वेनीप्रसाद ७.५०  
 भारत का वृहत्-भूगोल रा वेनीप्रसाद १२.५०  
 लेखराम. पंजाब राजहस १७५  
 सृष्टि का इतिहास सपा अमरसिंह गोविंदगम २००  
 लेडाल, आर मैकडानल्ड. माता-पिता की समस्या राजकमल.  
 १२५  
 लेनपूल, स्टेनले मध्यकालीन भारत एस. चाद. ६००  
 लेनिन. पूर्व मे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन. पीपुल्ल. १.१२

मार्क्सवाद के ऐतिहासिक विकास की कुछ विशेषताएँ पीपुल्स  
 ० २५  
 राजसत्ता और क्रांति पीपुल्स ० ३१  
 सकलित रचनाएँ पीपुल्स २ ७५  
 साम्राज्यवाद, पूँजीवाद की चरम अवस्था पीपुल्स ० ३७  
 लेनिन, व्ला ई उग्रवादी कम्युनिज्म एक बचकाना मर्ज  
 पीपुल्स १ २५  
 क्या करे ? पीपुल्स २ ५०  
 लेमेंतोय हमारे युग का एक नायक पीपुल्स १ ८७ उ  
 लेसिंग नाटन अनु मिर्जा अबुलफजल हिंदु एकेडेमी ३ ००  
 ना  
 लैंगरक्विस्त, पार बरावास अभिज्ञान २ ५० उ  
 लैवलेन, जान परमाणु की जादूभरी ताकत राजकमल २ ००  
 वप्र  
 लोकनाथ भारती दे भट्टाचार्य, वीरेद्रकुमार  
 लोकनाथ सिलाकारी विहारी-दर्शन गंगा ५ ५०  
 शहीदाजलि हिं सा परि, म २ ०० का  
 लोकभाषा-अनुसंधान विभाग कहावत-कोश वि राष्ट्र  
 लोनी, एस एल प्रारंभिक गति-विज्ञान के उदाहरणों की कुजी  
 एस चाद ४ ००  
 प्रारंभिक स्थिति-विज्ञान के उदाहरणों की कुजी एस चाद  
 ५ ००  
 लोहनी, भास्करानंद ज्योतिर्विज्ञान ब्रह्मांड परिचय आचार्य  
 भास्करानंद १ ५०  
 दुनिया सैकड़ों वर्ष पहले रामा प्र २ ५०  
 पौराणिक साहित्य और सस्कृति रामा प्र ३ ००  
 वैदिक साहित्य और सस्कृति आचार्य भास्करानंद ३ ००  
 लोहिया, राममनोहर, १९१०- अन्न समस्या नवहिंद ० ७५  
 आर्थिक नीतियाँ नवहिंद  
 इतिहास चक्र रश्मि २ ००  
 उत्तर-प्रदेश और बिहार के एक दौर के कुछ अनुभव नवहिंद  
 ० ७५  
 १३३ लेखकों के कुछ उत्तर नवहिंद ० ५०  
 कृष्ण नवहिंद ० २५  
 कृष्ण और गोदावरी के इलाके में नवहिंद ० ३०  
 केरल नवहिंद  
 क्रांति के लिए संगठन नवहिंद भा १ ५ ००, भा २  
 खोज, वर्णमाला, विपमता, एकता नवहिंद ० ३०  
 जर्मन सोशलिस्ट पार्टी नवहिंद ० ४०  
 जाति प्रथा नवहिंद  
 नया समाज नया मन नवहिंद ० ५०  
 नेहरू वनाम लोहिया नवहिंद  
 पाकिस्तान में पलटनी शासन नवहिंद ० ५०  
 भापा, और अग्नेजी हटाओ क्यों नवहिंद  
 मर्यादित, उन्मुक्त और असीमित व्यक्तित्व और रामायण  
 मेला नवहिंद १ ०० लेख  
 राजस्थान और गुजरात के दौरे के कुछ असुभव नवहिंद  
 ०.३५

वशिष्ठ और वाल्मीकि नवहिंद ० १५  
 सगुण और निर्गुण नवहिंद ० ३०  
 सच, कर्म, प्रतिकार और चरित्र निर्माण आवाहन. नवहिंद  
 ० १२  
 समाजवाद हिंदूवाद नवहिंद  
 समाजवादी आंदोलन का इतिहास नवहिंद  
 समाजवादी एकता नवहिंद ० ६०  
 सरकार से सहयोग और समाजवादी एकता नवहिंद ० ४  
 सिविलनाफरमानी की व्यापकता नवहिंद ० २५  
 सिविलनाफरमानी सिद्धांत और अमल नवहिंद ० १२  
 हिंदुस्तान की खेती नवहिंद  
 हिंदुस्तान, चीन और उत्तरी सीमाएँ नवहिंद  
 हिंदू वनाम हिंदू रश्मि २ ००  
 लौसडेल, कैथलिन क्वेकरदल रूस में पु भ ६ २५ या  
 ल्यूईस, डब्ल्यू आर्थर आर्थिक विकास के सिद्धांत राजकमल  
 ११ ५०, १५ ००

## ब

बघोपाध्याय, अक्षयकुमार गीता में भगवान श्रीकृष्ण का  
 परिचय और उपदेश. गीता १ ००  
 बघोपाध्याय, अनादिघन वन-कुसुम इ प्रे ० ५० क  
 बघोपाध्याय, चारुचंद उसे क्या मिला राष्ट्रीय प्र मंडल  
 ४ २५ उ  
 पथभ्रात पथिक इ प्रे २ ७५ उ  
 बहता हुआ फूल गंगा ६ ५० उ  
 बघोपाध्याय, ताराशंकर आरोग्य-निकेतन राजपाल. ६ ००.  
 उ  
 चापा डागा की बहू अशोक पु म ३ २५. उ  
 ना अशोक पु म २ ०० उ  
 न्यायाधीश अशोक पु म २ ५० उ  
 पंचमूर्ति अशोक पु म ४ ०० उ  
 प्रातिक अनु ठाकुरदत्त मिश्र इ प्रे ३ ००. उ  
 यतिभग वीरा ३ ०० उ  
 रति विलाप वीरा ५ ०० उ  
 राधा राजपाल ४ ०० उ  
 सप्तपदी राजकमल २ ०० उ  
 हरकारा हिंद पा १ ०० उ  
 बघोपाध्याय, राखालदास असीम अनु शंभुनाथ वाजपेयी.  
 ना प्र सभा ५ ०० उ.  
 पाषण कथा अनु शंभुनाथ वाजपेयी ना प्रा सभा ३ ००  
 उ  
 मयूख अनु बजरगवली गुप्त स ३ सा सेवक १ २५  
 बघोपाध्याय, विनयेद्र दे लाहिडी, सुधीर  
 बघोपाध्याय, विपिनकुमार एक वर्ष मनोरमा २ ७५ उ  
 बघोपाध्याय, विभूतिभूषण आरण्यक भा भ ४ ०० उ.  
 पथेर पाचाली राजपाल. ५.०० उ

वंशीधर 'राज'. इसान जाग उठा. कन्हैयालाल. २१६०. उ.  
 फिर याद तेरी आयी कन्हैयालाल ५५० उ.  
 यह ववई है कन्हैयालाल २०० उ.  
 वकील, मुख्तारसिंह. खाद हिं पु. ए. १७५  
 वकील, सूरजभान गृहदेवी. सा. रत्न भ. ०.६२  
 वचनदेवकुमार तुलसी के भक्तयात्मक गीत हिं. सा. स.  
 २०.००  
 वजीद हुसैन, सैयद. मधु के चमत्कार. श्रीराम मेहँरा. २.६०  
 वतन महाकवि अकबर इ. प्रे १२५ का.  
 वत्स. दे राकेश 'वत्स'  
 वत्स दे शिवमूर्ति सिंह 'वत्स'  
 वत्स्य, सतराम अच्छी आदते नेशनल १.००. बप्र.  
 आओ पढना सीखे. रामप्रसाद १.००. बप्र.  
 आचरण कैसा हो ? नेशनल ०.५०. बप्र.  
 कितने बजे नेशनल १.२५. बप्र.  
 गुरु-दक्षिणा. आत्माराम ०.७५. बप्र.  
 घरेलू इलाज नेशनल १.२५  
 तपेदिक से बचिये नेशनल. ०.८५  
 देश-देश की लोक कथाएँ सन्मार्ग ०.७५. बप्र.  
 पजाब की प्रेम कथाएँ. नेशनल. २००  
 पौधों की कहानी नेशनल १.२५ बप्र.  
 बाहर कहा खोजे वदे नेशनल ०.७५. बप्र.  
 भगवान बुद्ध नेशनल ०.८०  
 भारतीय शिष्टाचार सन्मार्ग. ०.७५. बप्र  
 मिर्च-मिठाई नेशनल ०.७५ बप्र.  
 मेरा देश है यह नेशनल. १.००  
 राधा भोज नेशनल. १००  
 शकुतला नेशनल ०.७५  
 शैतान की मौत. नेशनल ०.७५  
 सच्चा दान. नेशनल. ०.८०  
 सहकारी खेती नेशनल ०.७५  
 सूरज, चाद, सितारे. नेशनल. १२५. बप्र.  
 हमारा शरीर नेशनल १.२५. बप्र.  
 हमारा स्वास्थ्य नेशनल. १२५ बप्र.  
 हिमाचल की लोक-कथाएँ आत्माराम १२५  
 —सपा अच्छी कहानियाँ रामप्रसाद. ०.८६  
 वनकाम सुनील इरावती विनोद ५.६० उ.  
 धूलि और नर्तन. विनोद ४.००. उ  
 सामत बीजगुप्त विनोद ४.५०. उ.  
 वनफल. अग्नि इ. प्रे. १५०. उ  
 अनुदान वगीय ३.५० क  
 आवरण राजपाल २५०. उ  
 जोड़ी राजपाल. ३०० उ.  
 डा० सदाशिव राजपाल. ३६० उ  
 भीमपलासी हिं प्र. रत्न ३.५० उ  
 मानदड राजपाल ३५०. उ.  
 शिकारी हिंद पा १.०० उ.  
 वनलता देवी. आकाश कुसुम हिं. प्रचा. पु. २.६०. उ.

वफा. दे. मेलाराम 'वफा'.  
 वरखेडकर, वसंत सत्तावन का सेनानी आत्माराम. ५.५०. उ  
 वरदराज, आचार्य लघु सिद्धांत कौमुदी रां. वेनीमाधव भा.  
 १.०६०; भा २ १२५  
 वरेरकर, मामा, १८८३-१९६४. अछूत देवता. विद्या प्र म.  
 ३००. उ.  
 अछूता प्यार. राजपाल. ४००. उ.  
 अपूर्व बगाल आत्माराम. १५० ना  
 उडते पछी विद्या प्र म २२५. ना  
 एक रथ दो पहिए विद्या प्र. म ६००. उ  
 और भगवान देखता रहा विद्या प्र मं १५०. ना  
 कला के लिए आत्माराम १५०. ना  
 कोरी करामात आत्माराम. २०० ना  
 खिलती कली राजपाल ३२५. उ.  
 गीता. विद्या प्र म. ४५०. उ.  
 तूफान और एक ज़िदगी राजपाल. ३०० उ.  
 द्राविण प्राणायाम. विद्या प्र. म ३.०० उ  
 द्वारका का राजा. लोक जेतना २५०. ना.  
 नदिनी पजाबी पु ३०० उ; — — स्टार १.००  
 नाश का विनाश सस्ता ना.  
 पचपात्र. लोक चेतना. ३००. ए.  
 पुतलीघर सा सदन, दे १००० उ.  
 पुनर्मिलन. विद्या प्र म ४५० उ  
 भूमि-कन्या सीता. आत्माराम १५० ना  
 यही है वर का बाप लोक चेतना ३०० ना  
 लडाई के बाद विद्या प्र म. ५५०. उ.  
 विधवा कुमारी विद्या प्र म ४५०. उ.  
 शुभमगल विद्या प्र म २.००. ए.  
 श्री प्रजापति. विद्या प्र. म २५०. ए.  
 सतुलन. राजपाल. ४००. उ.  
 सर्वमगला वीरा ३००. उ.  
 सात लाख में से एक. लोक चेतना. ५.००. उ  
 सारस्वत लोकचेतना २००. ना.  
 सिगापुर से लोक चेतना. २०० ना.  
 सिपाही की बीबी सस्ता २.५०. उ.  
 हक के गुलाम विद्या प्र म २२५ ना  
 वर्की, पौनकुन्नम कैरली. भा ५ अशोक गृह प्र क  
 वर्गस, पेरी ऐसा भी क्या जीना ? अ भा सर्व. २००  
 वर्णवाल, एम एल. होमियोपैथिक मे-इजेक्शन एम एल. बुक.  
 १००  
 वर्णवाल, एम एल. दे. हैनिमेन, महात्मा.  
 वर्दाचार्य, वे शकुतला चरित. रा वेनीप्रसाद १००  
 वर्दाचार्य, वे दे वाल्मीकि.  
 वर्धमान गरणरत्नमहोदधि, सपा जुलियस एर्गलिंग मोतीलाल.  
 १०.७५  
 वर्धाचारी. सत्कथा मजरी 'रा वेनीमाधव १२५  
 वर्नवाल, वी विकास की ओर. मगध ०.६२. बप्र.  
 वर्ने, जूले. अस्सी दिन में पृथ्वी की-परिक्रमा. इ. प्रे. २७५. बप्र.

उडते अतिथि इ प्रे २.०० वप्र.  
 गुब्बारे मे अफ्रीका यात्रा इ प्रे २.०० वप्र  
 चद्रलोक की परिक्रमा इ प्रे २७५ वप्र  
 चद्रलोक की यात्रा इ प्र १७५ वप्र  
 दूढप्रतिज्ञ इ प्रे २२५ वप्र  
 द्वीप का रहस्य इ प्रे २२५ वप्र  
 नर-भक्षको के देश मे इ प्रे १७५ वप्र  
 भूगर्भ की यात्रा. इ. प्रे १७५ वप्र  
 रहस्यमय द्वीप इ प्रे १०० वप्र  
 राजदूत नेशनल ४०० उ  
 समुद्र की गहराइयो मे राजपाल ५०० उ  
 समुद्र-गर्भ की यात्रा इ प्रे १७५ वप्र  
 वर्मन, शिवब्रतलाल एक ही पतवार सहगल ३२५. उ  
 शाही लकडहारा सहगल ३५० उ  
 वर्मसेर, आद्रे सोवियत सघ दिल की आवाज. पीपुल्स ०२५  
 वर्मा प्रसूति तत्र प्रभात पब्लि ७५०  
 —तथा टडन हिंदी रचना राजीव नवयुग पु भ. १५०  
 —तथा विद्यार्थी सूरदास नवयुग पु भ २५०  
 हिंदी व्याकरण तथा अलकार नवयुग पु भ भा १.०.७५,  
 भा. १२५  
 वर्मा, अशोककुमार पाश्चात्य तत्त्व विज्ञान परिचय पु भ  
 ३००  
 सक्षिप्त सामान्य दर्शन मोतीलाल ४५०  
 वर्मा, आई बी हिंदी शिक्षण की सामान्य प्रणालिया श्रीराम  
 मेहरा.  
 हिंदी शिक्षा के सिद्धांत श्रीराम मेहरा  
 —तथा एल एन वर्मा आधुनिक शिक्षा शास्त्र श्रीराम  
 मेहरा २५०  
 शिक्षा मनोविज्ञान के मूलतत्त्व श्रीराम मेहरा २५०  
 वर्मा, आर एस स्थिति-विज्ञान अपर ४५०  
 स्थिति-विज्ञान के हल अपर ४००  
 वर्मा, आर सी तथा अन्य व्यापार पद्धति यग मैन ३५०  
 वर्मा, आशाराम चद्रलोक की यात्रा अ भा सर्व ०२५ वप्र  
 पहली रोटी अ भा सर्व ०२५ वप्र  
 वर्मा, इद्रजीत रासायनिक गणित आगरा बुक २५०  
 वर्मा, इद्रसेन गाव की सेहत और सफाई आत्माराम १००  
 वप्र.  
 रोग दानव से युद्ध शिवलाल १५० वप्र  
 वर्मा, ईश्वरीप्रसाद प्रेमिका पु भ ३०० उ  
 वर्मा, उमेश दे वर्मा, रमेशचद्र  
 वर्मा, उपा शिक्षा का स्वरूप साधना म ६००  
 वर्मा, ए के सरल आगमन तर्कशास्त्र मोतीलाल ५००  
 सरल निगमन तर्कशास्त्र मोतीलाल ५००  
 वर्मा, एम आर बुनियादी शिक्षा के सिद्धांत और प्रगति  
 आर्य बुक ४००  
 वर्मा, एम पी पैदल सेना के आधुनिक शस्त्रास्त्र. भा प्र  
 मंदिर १००  
 मैसोपोटामिया अभियान भा प्र मंदिर. ३५०

सैन्य विज्ञान. स ३ भा प्र मंदिर ३५०  
 —तथा भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव सैनिक मानचित्र विज्ञान  
 भा प्र मंदिर ४५०  
 वर्मा, एम पी दे नाथ, आर  
 वर्मा, एल एन दे वर्मा, आई बी  
 वर्मा, एल एन दे सक्सेना, डी पी  
 वर्मा, एस. आर पाक कला आर्य बुक २००  
 हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास आर्य बुक १२५  
 वर्मा, ओमप्रकाश मानव समाज का सरल अध्ययन  
 कल्याणमल ३००  
 वर्मा, कन्हैयालाल अमेरिका का सविधान नद ब्र एव नद  
 स ६००  
 नागरिक शास्त्र के मूलतत्त्व नद स. ४००  
 पाश्चात्य राजनीतिक विचारो का इतिहास २ भा नद ब्र  
 एव नद स. १००० (प्र)  
 भारत का सविधान नद स ८००  
 भारतीय नागरिकता की भूमिका सशो स नद ब्र एव  
 नद स ५५०  
 भारतीय राजनीति और शासन पद्धति नद ब्र. एव नद स  
 ८००  
 भारतीय राजनीति और शासन-विकास नद ब्र एव नद स  
 ७५०  
 राजनीतिशास्त्र प्रवेशिका नद ब्र एव नद स ०५०  
 लोकनीति और राष्ट्रीयता नद स १५०  
 हाईस्कूल नागरिक शास्त्र नद स २००  
 वर्मा, कमलाकात वारहवा सस्कार सा भवन, इ ४.००  
 क.  
 वर्मा, कामेश्वर हिंदी की समस्याए नाँवली ४५०  
 वर्मा, कृष्णचंद्र चद्रावली नाटिका सरस्व पु स १५०  
 वर्मा, कृष्णलाल सरल हिंदी व्याकरण व रचना बोध हिं ग्र  
 र भा १ १.००, भा २ ०.६२, भा ३ ०.८१  
 —तथा फूलहरीचंद्र दोशी आदर्श जीवन श्री आत्मानंद  
 ५००  
 — तथा रहमणबाई पेणकर, सपा राष्ट्रभाषा हिंदी-मराठी  
 कोष हिं ग्र र ७००  
 वर्मा, के के दे गुप्ता, ए एल  
 वर्मा, के रवि दे बशीर, वी एम  
 वर्मा, केशवचंद्र काठ का उल्लू और कवूतर सा. भवन, इ  
 ४०० उ  
 गधे की बात कि महल. ३०० हा  
 चिडी के गुलाम कि महल २५० हा  
 भरवेरिया कि महल १२५ वप्र  
 प्यासा और बेपानी के लोग कि महल ३०० हा.  
 वच्चो की कचहरी राजकमल १२५. वप्र  
 भारतीय नृत्यकला कि महल ५००  
 मुर्ग छाप हीरो भा ज्ञानपीठ २.०० हा  
 मोहब्बत, मनोविज्ञान और मूछदाढी अपर. ३५० उ  
 रस का सिरका भा. भ १५० ए





हिंदी साहित्य भा सा. परिषद. ख १: १५.००; ख. २: १६.००

—तथा अन्य, सपा तुलसी-शब्दसागर हिंदु एकेडेमी १२.००  
हिंदी साहित्य कोष ज्ञानमंडल भा १ स २ २५.००,  
भा २ २०.००

वर्मा, नगेंद्र आखो के तारे ग्रथ भ १.०० वप्र  
भूठा गौरव ग्रथ भ १.२५. वप्र  
बडा और छोटा आदमी ज्ञानपीठ १ २५. क  
वर्मा, नरेन्द्रदेव प्रयोगवाद-समीक्षा और काव्यदर्शन अनुसंधान  
१२५.०

वर्मा, निर्मल चीडो पर चादनी भा ज्ञानपीठ ३.००. या  
परिदे पीपुल्स ३५.० क

वर्मा, निहालचंद आनंद भवन हि प्रचा पु. ३.००. उ.

गुलाब कुमारी हि प्रचा पु (पा) १.०० उ

जादू का महल हि प्रचा पु ३.०० उ.

भारतीय गौरव हि प्रचा पु १.०० जी.

मोती महल हि प्रचा पु. ६.००. उ.

सोने का महल हि प्रचा पु ८.०० उ

वर्मा, परमेश्वरदीन ज्ञान दर्पण नवयुग पु भ ०.७५. वप्र-  
हमारे पथ-प्रदर्शक नवयुग पु भ १.२५. वप्र

—सपा अताक्षरी मजूषा नवयुग पु भ ०.७५ का.

वर्मा, परिपूर्णानंद, १९०७- अपराध, अपराधी और अभि-  
युक्त रामप्रसाद ७.५०

ऐसा-वैसा. मयूर २.०० उ

तीन ऐतिहासिक नाटिकाए. भा ज्ञानपीठ. ४.००. ना:

नारीरत्न नद ब्र ०.७५ वप्र.

पतन की परिभाषा हि समि ७.००

प्राण दड. मयूर. ५.००

बालरत्न नद ब्र. ०.४४ वप्र.

भारत की विभूतिया ४ भा रामप्रसाद. १.०० (प्र.) जी.

मृत्युदंड की प्रथा और इतिहास रामप्रसाद. ६.२५

मेरा प्रणाम रामप्रसाद १.५० जी

रूप और रुपया- रामप्रसाद १.५० क

वर्मा, पूरनचंद्र धर्म शिक्षा सार विनोद १.००

वर्मा, प्रवासीलाल मट्ठा या छाछ के उपयोग नद. ब्र. १.००

वृक्ष विज्ञान स ३ ज्ञानमंडल. ५.००

सौराष्ट्र की लोक-कथाए आत्माराम १.५०

वर्मा, प्रेमदत्त दे नारग, कृपालसिंह

वर्मा, फुलदेवसहाय अकार्बनिक रसायन. नद ब्र. ६.५०.

ईख और चीनी वि राष्ट्र १३.५०

कोयला हि समि ८.००

खाद और उर्वरक हि समि १०.००

पेट्रोलियम वि राष्ट्र ५.५०

प्राणारिक रसायन नद ब्र एव नद स ३.५०

प्रारंभिक रसायन काशी हिंदू ३.५०

प्लास्टिक अशोक प्रे ४.००

खर वि राष्ट्र ७.५०

रसायन-प्रवेशिका नद ब्र. एव नद. स ३.००

विज्ञान और वैज्ञानिक. नॉवल्टा १.५०

साधारण रसायन. २ भा. काशी हिंदू ५.५० (प्र.)

वर्मा, बी. बी दे प्रसाद, एम.

वर्मा, बुद्धिसागर स्त्री-सौंदर्य और स्वास्थ्य गंगा ६.००.

वर्मा, ब्रजलाल, नूरजहा समीक्षा सा नि, का २.००

वर्मा, ब्रजेश्वर सूरदास हि सा परिषद ८.००

वर्मा, ब्रजेश्वर दे. शुक्ल; उमाशंकर

वर्मा, भगवतदयाल 'आतद' उमर खय्याम की ख्वाइया रा  
वेनीप्रसाद ०.७५ का

वर्मा भगवतीचरण; १९०३- अपने खिलौने भा भ ३.५०.

उ

आखिरी दाव भा भ ४.०० उ

इन्स्टालमेट भा भ २.००, क.

एक दिन. गंगा २.५० का

चित्रलेखा. भा भ ३.०० उ.

टेढे-मेढे रास्ते भा भ ८.००, उ

तीन वर्ष. भा. भ ३.५० उ

त्रिपथगा भा भ २.०० का

थके पाव सा सदन, दे. ३.०० उ.

दो बाके. भा; भ २.००. क.

पतन गंगा ४.०० उ.

बुभुता दीपक भा भ २.०० ना.

भूले बिसरे चित्र. राजकमल. ११.००, सक्षिप्त. ४.५०. उ.

मधुकरण भू भ २.०० का

रगो से मोह भा भ ५.०० का

राख और चिनगारी भा भ १.५० क.

रुपया तुम्हे खा गया, मोतीलाल २.५०

रेखा. राजकमल ६.०० उ.

वह फिर नहीं आई राजकमल. २.२५ उ

वासवदत्ता भा भ ३.००. कथा

विस्मृति के फूल भा. भ ४.०० का

सामर्थ्य और सीमा राजकमल ७.५०. उ

साहित्य की मान्यताए. हिंदु एकेडेमी.

हमारी उलझन. भा भ १.७५ नि-

वर्मा, मदनलाल रुपया कहा है? विनोद २.०० क

वर्मा, मनोहर. भुलक्कड. आत्माराम १.७५ वप्र

वर्मा, मनोहरलाल; १९१६- क्यो और कैसे? आत्माराम-

४.०० वि.

जीवन-निर्माण की कहानिया आत्माराम १.२५ वप्र-

दक्षिणी अमेरिका की लोक-कथाए आत्माराम १.५०

फूलो की लोक-कथाए आत्माराम १.५०

बाइबिल की लोक-कथाए आत्माराम १.५०

वर्मा, महादेवी, १९०७- अतीत के चलचित्र. भा भ २.००

आधुनिक कवि भा १ हि सा सम्मे २.५०

क्षणदा. भा भ. ३.०० नि

दीप शिक्षा भा भ ४.०० का

नीरजा. भा भ २.५० का

नीहार सा भवन, इ ३.००. का

पथ के साथी. भा. भ ३००  
 यामा. भा. भ. २०००. का.  
 रश्मि सा. भवन, इ. ३००. का  
 शृङ्खला की कडिया भा भ. ३.५० नि.  
 सधिनी लोकभारती ४५०. का  
 सप्तपर्णा राजकमल ७००. का  
 साध्य-गीत भा भ २५० का  
 साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निवध. लोकभारती  
 ७५०  
 स्मृति की रेखाए भा भ. १५०  
 हिमालय लोकभारती ६००  
 वर्मा, महेन्द्रनारायण प्रारभिक यात्रिकी रा बेनीप्रसाद. १.५०  
 वर्मा, मुकुदस्वरूप मातृ-कला रा. बेनीप्रसाद. ०७५  
 मानव शरीर दीपिका. रा. बेनीप्रसाद ६००.  
 मानव शरीर रचना विज्ञान २ भा काशी हिंदू. ७०० (प्र.)  
 शरीर प्रदीपिका. रा बेनीप्रसाद ५००  
 शिशु सरक्षण रा. बेनीप्रसाद. २.००  
 सक्षिप्त शल्य-विज्ञान नद ब्र ८००  
 स्वास्थ्य परिचय रा बेनीप्रसाद २५०  
 स्वास्थ्य प्रदीपिका. रा. बेनीप्रसाद १.५०  
 स्वास्थ्य-रक्षा नद ब्र. एव नद स भा १०६२, भा.  
 २-३. ०७५ (प्र)  
 स्वास्थ्य विज्ञान. काशी हिंदू ७००  
 वर्मा, मुकुटबिहारी आज का इग्लिस्तान. सस्ता २.००. या  
 बहन को सीख आत्माराम २००  
 वर्मा, यमुना दे केसरीकुमार  
 वर्मा, योगेन्द्रप्रसाद. सचिव-कार्य की रूपरेखा बुकलेड ४.७५  
 वर्मा, रजन चचला आनंद पु, वा. २५०. उ.  
 बच्चो का महाभारत ग्रथमाला. १००. बप्र  
 वर्मा, रजनीकांत तीन हिंदुस्तान और भारतमाता. रश्मि.  
 १००  
 फूलपुर से फरखाबाद रश्मि १००  
 मैं, मेरा दोस्त, मेरे साथी राजरजना. २.००  
 लोहिया. रश्मि १५०  
 लोहिया . लोक सभा मे रश्मि १००  
 वर्मा, रमेश, १९३०- अतरिक्ष स्पर्श. प्रभात प्र. ३.००. उ.  
 इतिहास के अचल से कि महल १२५. ए  
 उडन तश्तरी. रामप्रसाद. २०० बप्र.  
 कृत्रिम उपग्रह और अतरिक्ष राकेट आत्माराम ३.००  
 खेती और घरेलू धधे सा रत्न भ. ०.७५  
 गद्दार चिनगारी १५०  
 गाव का जीवन सा रत्न भ ०७५  
 गाव की कहानिया सा रत्न भ ०७५  
 गाव की बातें सा रत्न भ ०७५  
 गाव की बोली सा. रत्न भ ०७५  
 गाव के गीत (पुरुषो के लिए). सा रत्न भ ०७५  
 गाव के गीत (स्त्रियों के लिए). सा. रत्न भ ०.७५  
 घडी की कहानी. कि महल. २.००

घरेलू इलाज सा. रत्न भ ०.७५  
 चंद्रलोक की यात्रा कि. महल. २.५०  
 चाद के वीराने मे. प्रभात प्र. ३.००.  
 जयजयवती यग मैत्र ४.००  
 झिलमिलाते सितारे प्रभात प्र २५०.  
 ढोरो का इलाज. सा रत्न भ. ०७५.  
 नए चाद का जन्म. प्रभात प्र ३००  
 रेडियम चिनगारी १५०  
 सिद्धरी ग्रह की यात्रा प्रगतिशील २५० उ.  
 सिसकती रात. चिनगारी ३.५०  
 हमारा पडोसी चाद राजपाल. १२५ बप्र.  
 वर्मा, रमेशचंद्र आधुनिक रसायन कि. महल. ३०० (अप्रा.);  
 घडी कैसे बनी. हि. भवन १५० बप्र.  
 प्रायोगिक भौतिक विज्ञान कि महल ३७५ (अप्रा.),  
 राकेट कैसे बना ? हिं भवन  
 ससार का अंत कैसे होगा ? रणजीत. २.००  
 सितारो का सफर. रणजीत. २००  
 —तथा उमेश वर्मा विकास की कहानी. रामप्रसाद. २५०.  
 बप्र  
 वर्मा, रवींद्रसहाय पाश्चात्य साहित्यालोचन और हिंदी पर-उसका  
 प्रभाव विश्वविद्यालय. ५००  
 वर्मा, राजरानी, सप्रा. हमारे सस्कार गीत. मित्र. ७.५०.  
 वर्मा, राजेन्द्र भारत पर निर्माण के पथ पर. अनु कालिका-  
 प्रसाद दीक्षित 'कुसुमाकर' मिश्र-वधु. ०७५ से १००  
 वर्मा, राजेश्वर भारतीय सभ्यता और संस्कृति का विकास,  
 श्रीराम मेहरा १५०  
 वर्मा, रामकिशोर तथा भगवतीप्रसाद. भौतिक विज्ञान, २ ख.  
 यग मैत्र ६५० (प्र)  
 वर्मा, रामकुमार, १९०५- अजलि सा. भवन, इ १.२५ का.  
 अनुशीलन. त्रिवेणी. ४.५०  
 आकाश गंगा रा बेनीमाधव १.५०. का.  
 आधुनिक कवि हिं सा सम्मे २.५०,  
 आधुनिक काव्य संग्रह. हिं. सा सम्मे १.५०  
 आशा के तारे त्रिवेणी १०० बप्र  
 इन्द्रधनुष राज किशोर ३.०० ए  
 एकलव्य भा. भ ७०० का.  
 कवीर का रहस्यवाद सा भवन, इ ४.००  
 कला और कृपाण रा बेनीमाधव १.७५ ना.  
 काव्याजली राज किशोर १५० का:  
 कुल-ललना गंगा ३०० का  
 कौमुदी महोत्सव सा भवन, इ १५० ना.  
 गद्य गौरव राज किशोर १.५०  
 चंद्र-किरण गंगा १५० का  
 चार ऐतिहासिक एकाकी सा भवन, इ २००  
 चारुमित्रा साधना सदन ३०० ए  
 चित्ररेखा हिं सा सम्मे. १.५० का.  
 जौहर हिं. भवन १२५ का  
 तीन-एकाकी. नद ब्र एव नद. सं १००

दीपदान भा भ ३०० ए  
 नाना फडनवीस रा बेनीप्रसाद २०० ना  
 पाचजन्य एस चाद २५० ए  
 पृथ्वीराज की आखें गगा २५० ना  
 बापू राज किशोर १०० ना  
 बापू न बोल त्रिवेणी ०७५ वप्र  
 वृहद् सत कवीर सा भवन, इ १०००, सक्षिप्त. ३००  
 का.  
 मयूर पख सा भवन, इ  
 मेरे सर्वश्रेष्ठ एकाकी त्रिवेणी ३२५  
 रजत-रश्मि भा ज्ञानपीठ २५० ना  
 रम्य रास रा बेनीमाधव १०० ना  
 रिमक्तिम कि महल. ४०० ए, — —सा भवन, इ  
 ६००  
 रेशमी टाई भा भ ३०० ए  
 विजय-पर्व रा बेनीमाधव २०० ना  
 शिवाजी सा भवन, इ १०० ना  
 सकेत श्री भा भारती २५० का  
 सत्य का स्वप्न कि महल २५० ना  
 साहित्य समालोचना स ८ हि भवन १७५  
 हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास स ४ रा  
 बेनीमाधव १०००  
 हिंदी साहित्य का इतिहास रा बेनीमाधव ३००  
 हिंदी साहित्य की रूपरेखा हि सा सम्मे ०३७  
 —तथा त्रिलोकीनारायण दीक्षित. एकाकी कला रा  
 बेनीमाधव २५०  
 हिंदी साहित्य का सक्षिप्त इतिहास स ६ रा बेनीमाधव.  
 २००  
 —सपा आठ एकाकी नाटक स ६ हि भवन २००  
 कवीर पदावली हि सा सम्मे १००  
 सरस एकाकी नाटक स ५ हि भवन १५०  
 र्मा, रामकृष्ण गावो को धनवान बनाइये स्वरूप ०५०  
 ग्राम सुधार नाटक माला भोपाल एव स्वरूप १२५  
 पंच परमेश्वर स्वरूप ०५०  
 हमारा सामाजिक जीवन स्वरूप ०३७  
 वर्मा, रामगोपाल उद्भवशतक प्रश्नोत्तरी सरस्व पु स १५०  
 वर्मा, रामचंद्र अच्छी हिंदी सशो स ८ सा रत्न-माला  
 ३००  
 आत्मोद्धार ना प्र सभा ३००  
 उपन्यास सम्राट प्रेमचंद व उनकी प्रतिज्ञा कमल प्र १५०  
 कर्त्तव्य ना प्र सभा ३००  
 काश्मीर दर्शन नद स ०७५ या  
 कोश-कला सा रत्न-माला १५०  
 मानक हिंदी कोश ५ भा हि सा सम्मे भा १-३ २५००  
 (प्र)  
 मानक हिंदी व्याकरण चौखवा २००  
 मित्तव्यय ना प्र सभा ३००  
 रूपक-रत्नावली सा रत्न-माला ३५०, सक्षिप्त २.५०

लका के मोती नद स ०७५ या.  
 हिंदी प्रयोग स ६ सा रत्न-माला १५०  
 —अनु अकबरी दरवार ३ भा ना प्र सभा ४०० (प्र.)  
 जी  
 करुणा ना प्र सभा ४५० उ  
 देव-लोक सा रत्न-माला एव लहरी ४०० उ  
 मानसरोवर और कैलाश ना प्र सभा ३०० या  
 हिंदी ज्ञानेश्वरी स ८ हि सा कु ५००  
 हिंदी दासबोध स ८ हि सा कु ३५०  
 —सपा आरक्षिक शब्दावली ना प्र सभा ०५०  
 देवनागरी उर्दू-हिंदी कोष हि ग्र २७००  
 प्रामाणिक हिंदी कोष सा रत्न-माला एव हि सा कु  
 १२५०  
 सक्षिप्त हिंदी शब्दसागर ना प्र सभा १८००  
 स्थानिक परिषद् शब्दावली ना. प्र सभा. ०५०  
 वर्मा, रामचंद्र दे तिलक, कमलावाई  
 वर्मा, रामचंद्र दे मुहम्मद सादिक सफवी  
 वर्मा, रामचंद्र दे सुलैमान नदवी सैयद  
 वर्मा, रामचेत एक सहारा अ भा सर्व ०३५ वप्र.  
 वर्मा, रामजीलाल अजब देश मे ग्रथमाला १००. वप्र  
 वर्मा, रामनरेश वक्रोक्ति और अभिव्यजना ज्ञानमंडल ४५०  
 सगुण साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ना प्र सभा  
 वर्मा, रामनरेश. हिंदी सगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका ना  
 प्र सभा ११००  
 वर्मा, रामनाथ एलोपैथिक गाइड स ६ मोतीलाल १२००  
 एलोपैथिक चिकित्सा मोतीलाल १२००  
 वर्मा एलोपैथिक योग रत्नाकर मोतीलाल १३००  
 वर्मा, रामलाल अग्निपुराण का काव्यशास्त्रीय भाग नेशनल.  
 ३००  
 वर्मा, रामसिंह भारतीय वीरागनाए हि पु ए १५०  
 वर्मा, लक्ष्मीकांत आदमी का जहर भा ज्ञानपीठ. २५० ना  
 कठपुतली बोली सा भवन, इ वप्र  
 खाली कुर्सी की आत्मा कि महल ८५० उ  
 तिदुबुलभ कि महल २०० ना  
 भारतीय समाज व्यवस्था कि महल ३००  
 लाला जी ने भाजी खरीदी सा भवन, इ वप्र  
 समाजशास्त्र की भूमिका कि महल ३००  
 सीमांत के वादल भृगु-वधु ३५०  
 वर्मा, लक्ष्मीकांत दे धर्मवीर भारती.  
 वर्मा, लक्ष्मीदेवी नन्हे-मुन्ने गगा ०७५ वप्र.  
 लोरिया गगा ०७५ वप्र  
 वर्मा, विजय नए एशिया के निर्माता नवयुग ग्र. कु २००  
 जी  
 वर्मा, विद्यास्वरूप धूल और चरण एस चाद उ  
 प्रकाश और छाया सा प्र २२५ उ  
 वर्मा, विश्वनाथप्रसाद राजनीति और दर्शन वि राष्ट्र  
 १४००  
 विश्वराजनीति-पर्यवेक्षण ज्ञानपीठ ५५०

वर्मा, विश्वप्रकाश सामान्य विज्ञान का सरल अध्ययन.

कल्याणमल. २५०

वर्मा, विश्वमित्र दिव्य सपत्ति कल्पवृक्ष ०५०

प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान कल्पवृक्ष १५०

प्राकृतिक ग्वास्थ्य साधन कल्पवृक्ष २००

योगिक स्वास्थ्य साधन कल्पवृक्ष १००

व्यवहारिक अध्यात्म. कल्पवृक्ष. १००

वर्मा, विष्णुनारायण तथा इकवालनारायण श्रीवास्तव. नागरिक

शास्त्र दर्शन सगो स ६. गिवलाल. ५.००

वर्मा, वृदावनलाल, १८८८- अगूठी का दान. मयूर १.००. क.

अवरपुर के अमर वीर मयूर १०० क.

अचल मेरा कोई मयूर ३७५. उ

अमरवेल मयूर ५.००. उ.

अहिल्यावाई. मयूर २.२५ उ.

आहत. मयूर. ३००. उ.

उदय-किरण. मयूर. २००. उ

ऐतिहासिक कहानिया मयूर. १.०० क

कचनार मयूर ४.५० उ.

कनेर मयूर १०० ए

कलाकार का दड. मयूर १२५ क

काश्मीर का काटा मयूर १०० ए

कुडली चक्र. मयूर २२५ उ, — —गगा ४००

केवट मयूर १.२५ ना.

कोतवाल की करामात गगा २७५ उ

खिलौने की खोज मयूर १२५ ना

गढ कुडार मयूर ४५० उ, — —गगा ७.००

जहादारबाह मयूर ०७५ ए

भासी की रानी मयूर २०० ना

भासी की रानी लक्ष्मीवाई मयूर. ६००, सक्षिप्त. २५०.

उ

टूटे काटे मयूर ४२५ उ

तोपी मयूर ०७५ क

दवे पाव मयूर. २०० क

देखा-देखी मयूर ०८७ ना

धीरे-धीरे गगा २.०० ना

निस्तार मयूर १०० ना

नीलकण्ठ मयूर १२५. ना

पीले हाथ मयूर ०.७५. ए.

पूर्व की ओर मयूर २.२५. ना

प्रत्यागत मयूर १.५० उ, — —गगा. ३.७५

प्रेम की भेंट मयूर १२५ उ, — —गगा. ३००

फूनों की धोली मयूर १२५ ना

दान की फास मयूर १००. ना

विराटा की पत्निनी. मयूर ४०० उ; — —गगा. ६००

धीरदल. मयूर १२५ ना

बूनेगढ के लोक गीत मयूर ०.५०. उ

भुवन दिग्गम मयूर ३.५०. उ.

मंगलसूत्र. मयूर १०० ना.

माधवजी सिंधिया मयूर ६००. उ

मुसाहिवजू मयूर १५० उ.

मृगनयनी मयूर ५.००. उ

मेढकी का व्याह मयूर. १०० क

युद्ध के मोर्चों से. मयूर २५०

रश्मि-समूह मयूर १.२५ क

राखी की लाज मयूर. १२५ ना.

रामगढ की रानी. मयूर २०० उ.

लगन. मयूर. १.२५ उ., — —गगा २००

ललित विक्रम. मयूर. १.७५ ना.

लो, भाई ! पचो ! ! लो ! ! !. मयूर. ०.७५. ए.

शरणागत. मयूर. १.२५ क

सगम. मयूर २०० उ., — —गगा. ४.५०

सगुन मयूर. ०.७५ ए.

सोना. मयूर ३.०० उ.

हस-मयूर मयूर. २२५ ना.

वर्मा, वैद्यनाथप्रसाद. शिक्षण विचारधारा. २ भा. दि. पु. स ४०० (प्र.)

वर्मा, ब्रजकिशोर त्रिधारा. ग्रथालय. ४००. उ

रज्जव वानी उपमा २०००

वर्मा, ब्रजेश्वर. आखिरी सलाम. इ. प्रे. ४.५० उ

सूर-मीमासा ओरिएटल ४.७५

हार या जीत. इ प्रे. २.०० उ

वर्मा, शम्भुप्रसाद उर्दू कविता कलाप हि पु ए. १००

वर्मा, शकुतला. भारत की वीर नारिया विनोद ०.५०

राजस्थान की वीरागनाए विनोद ०५०

वर्मा, शकुतलादेवी आदर्श महिलाए भा प्र मदिर. ०.६२

वर्मा, शरतकुमार. तूफान और जिदगी नवयुग पु भ. २२५. उ

वर्मा, शिवराम वेदी के फूल की कुजी रीगल ०७५

वर्मा, शुभा. अमेरिका की लोक कथाए हि भवन १५०.

वप्र

आयरलैंड की लोक कथाए हि भवन १.५० वप्र

इंगलैंड की लोक कथाए हि भवन २.०० वप्र.

नार्वे की लोक कथाए भा २. हि भवन. १.३० वप्र.

निश और चाद रामप्रसाद १.५० वप्र

न्यूजीलैंड की लोक कथाए. २ भा. हि. भवन १५०(प्र.). वप्र.

यूक्रेन की लोक कथाए २ भा. हि भवन. १.३० (प्र). वप्र.

रूसी लोक कथाए हि भवन

हैस ऐडरसन की कहानिया हि भवन.

वर्मा, शुभा दे फेड़ नू-फेड़.

वर्मा, श्यामलाकांत कवि समीक्षा आनंद पु, वा. ४.५०

रस अलकार और पिंगल आनंद पु, वा. ०.७५

नाहित्य और सिद्धांत चौखवा. ३.००

वर्मा, श्रीकांत. भाड़ी. भा. जानपीठ. क

वर्मा, श्रीकृष्ण. घरेलू औषधिया. हि. पु. ए. १.७५

वर्मा, सतीश उच्चतर सामान्य विज्ञान. प्रभात पब्लि ४५०  
 वर्मा, सत्यकाम हिंदी का आधुनिक साहित्य एस चांद ४००  
 हिंदी साहित्यानुशीलन एस चांद ६००  
 वर्मा, सत्यकाम दे. रोलिंग्स  
 वर्मा, सत्यजीवन दर्पण इ प्रे १२५ क  
 नयन रा. वेनीमाधव. ०५० का  
 प्रायश्चित्त सा भवन, इ २५० क  
 प्रेम की पराकाष्ठा सा भवन, इ २५० ना  
 —सपा काव्य कलानिधि अर्थात् हिंदी नैषध-चरित. हि. सा  
 सम्मे ३.५०  
 चित्रावली-'उसमान'. रा. वेनीमाधव १२५. का.  
 वीसलदेव रासो ना प्र सभा २५०  
 हिंदी काव्य संग्रह रा वेनीप्रसाद १२५  
 वर्मा, सत्यभूषण अमरीका की लोक-कथाए बाल सदन.  
 कोरिया की लोक कथाए बाल सदन  
 चीन की लोक कथाए बाल सदन १२५  
 जापान की लोक-कथाए बाल सदन १२५  
 टर्की की लोक कथाए बाल सदन  
 तिब्बत की लोक-कथाए बाल सदन १००  
 पंजाब की लोक-कथाए बाल सदन.  
 फ्रांस की लोक-कथाए बाल सदन  
 यूनान की लोक-कथाए बाल सदन  
 रूस की लोक-कथाए बाल सदन १.२५  
 वर्मा, सर्वदानद चेतसिंह कि महल १२५ ना.  
 प्रश्न गंगा व प्रभात पब्लि ३५० उ  
 सस्मरण. ग्रथमाला १५० उ  
 सिराजुद्दौला राष्ट्रीय प्र मडल एव राष्ट्रीय सा स. २.००.  
 ना  
 वर्मा, सर्वमंगला शिक्षण विधि मगध ५००  
 वर्मा, सावलिया विहारीलाल विश्व धर्म-दर्शन वि राष्ट्र.  
 १३५०  
 वर्मा, सालिग्राम नया खिलौना इ प्रे २०० वप्र  
 वर्मा, सावित्री अरुण हिंदी व्याकरण स २ गुप्ता प्र ४००  
 वर्मा, सावित्रीदेवी अशोक के शेर आत्माराम २०० वप्र.  
 आदर्श माता-पिता अरुणोदय १५०  
 आपका मुन्ना. ३ भा आत्माराम १६५०  
 इन्सान कभी नहीं हारा आत्माराम १००  
 उत्तर भारत की लोक-कथाए ३ भा आत्माराम. १२५  
 (प्र)  
 कथा-भारती. आत्माराम १७५ वप्र  
 कैसे पकाए क्या खाए ? अरुणोदय १२५  
 गाव की अपनी भलाई आत्माराम १००  
 चाचा के आशा दीप आर्य बुक १५०  
 जगल-ज्योति आत्माराम १५० वप्र  
 नारी का रूप शृंगार अरुणोदय ६००  
 निदिया के रथ अरुणोदय १५०  
 नीम हकीम आत्माराम १००  
 पकाइए खाइए हिंद पा १००

पारिवारिक समस्याए आत्माराम ७५०  
 पीडारहित प्रसव प्रचा पा १००  
 बीमार की सेवा अरुणोदय १२५  
 भारत की महान नारिया शिवलाल १.२५ वप्र.  
 भारतीय-पाक-विज्ञान अरुणोदय ७००  
 ये रणवाकुरे आत्माराम १५० वप्र.  
 रूप-सौंदर्य राजकमल (पा.) १००  
 सजिए सजाइए हिंद पा १००  
 सरल व्याकरण शिक्षा और निवध-रचना सर्वोदय सा १.०  
 सांगर पार के मोती अरुणोदय १५०  
 सुनो कान मे आत्माराम ८५०  
 वर्मा, सिद्धिनाथ कुत्ते की दुम कला-नि १.७५. उ  
 वर्मा, सुधींद्र खाडे की धार गंगा ३५० क  
 भारतीय चित्रकला गंगा ५००  
 वर्मा, सुरेन्द्रकुमार फ्रांस की लक्ष्मी—देवी जोन आदर्श हि  
 ३००. जी  
 विश्व के महान् आश्चर्य आदर्श हि ३००  
 वर्मा, सुवर्णसिंह दयालु दयानंद इ प्रे ०३१ ना  
 वर्मा, सूर्यकुमार सचित्र बाल-भारत २ भा इ प्रे १००  
 (प्र)  
 वर्मा, हरदयालुसिंह रावण महाकाव्य आत्माराम ६००  
 वर्मा, हरिसिंह दे राणा, धर्मसिंह  
 वर्मा, हरीराम सुमन सचय ज्ञान मडल प्र २००  
 —तथा ठाकुरप्रसाद शर्मा निवध रचना कि घर, ग्वा १००  
 वर्मा, हर्षवर्द्धन गुरुदेव रवीन्द्रनाथ ठाकुर स ३ तरुण. ०७५  
 वर्मा, हीरालाल श्रीरामचरितमानस मे वेदात दर्शन मानस  
 सघ १२५  
 सब ग्रथन को रस मानस सघ १००  
 स्वरूप दर्शन मानस सघ १००  
 वली दे शम्सुद्दीन 'वली'  
 वल्थल वल्थल की कविताए. अनु रतनमयीदेवी दीक्षित सा  
 अकादमी २५०  
 वल्लतोलजी तथा जी शकर कुरूप कविश्री माला मलयालम.  
 राष्ट्र प्रचा समि २००  
 वल्लभ स्वामी सफाई विज्ञान और कला अ भा सर्व १००  
 वशिष्ठ, एस एस सभ्यता का सरल इतिहास एस. चांद  
 ३५०  
 वशिष्ठ, रामस्वरूप भारत का आर्थिक भूगोल केदारनाथ  
 ५००  
 भूगोल के भौतिक आधार आत्माराम ७५०  
 मानचित्र-प्रेवेशिका आत्माराम ३००  
 —तथा चंद्रप्रकाश भारद्वाज चौपाल के रेडियो से कि घर,  
 ग्वा १२५  
 वशिष्ठ, विनयचंद्र चरक संहिता भाषा-भाष्य ३ ख आर्य  
 सा २४००  
 वशिष्ठ, शिवशंकर, १६३२- गीली आखे गीले गीत दि. पु.  
 स ३००  
 वसंत राग कोष. संगीत १.००

संगीत विशारद. संगीत ५००  
 वसतदेव, सपा. मराठी के नये एकाकी नीलाभ. ४००  
 वसतप्रभा साभ के साथी राजकमल ३५०. उ  
 वसावडा, अरविंद दे. युग, सी जी  
 वसावडा, इद्र उस अघेरी रात मे. वीरा. १५०. उ.  
 घर की राह वीरा १७५ बप्र  
 चदा राजकमल. २०० उ  
 वसिष्ठ निबध वल्लरी. श्री भा. भारती २००  
 वसु, एस. सी. अष्टाध्यायी मोतीलाल ४६००  
 सिद्धांत कौमुदी मोतीलाल. ७३२५  
 वसु, देवव्रत आओ विमान चलाये सस्ता २००. वि.  
 वसु, वीरेन्द्रकुमार महापुरुषो की जीवनी ग्रथ भ. १२५ जी  
 वसुनदि, आचार्य वसुनदि श्रावकाचार सपा हीरालाल शास्त्री  
 भा ज्ञानपीठ. ५००  
 वांचू, विनीता. दे जावेट.  
 वाचू, विश्वनाथ आज का चीन एस. चाद. ५५०. इति  
 वाइल्ड, आस्कर, १८५४-१९००. अपनी छाया राजपाल  
 ५०० उ  
 आस्कर वाइल्ड की कहानिया अनु धर्मवीर भारती भा  
 ज्ञानपीठ. २५०  
 ज्ञान की फुलभडिया अनु. अरुण. भा. सा प्र ०७५ बप्र.  
 सलोमी अनु ईश्वर टोपा इ प्रे १०० ना  
 सौंदर्य की रेखाए आत्माराम ५०० उ  
 वाएस, रुडाल्फ स्विस परिवार राबिसन इ प्रे २५० बप्र  
 वागीश्वर विद्यालकार कालिदास और उसकी काव्य कला.  
 मोतीलाल १०००  
 वाचस्पति न्याय पचायतो के अधिकार भा. प्र. मंदिर  
 वाजपेई, भगवतीप्रसाद अगारे पुष्पी १००. उ  
 वाजपेयी, अविकाप्रसाद, १८८०- प्रसाद जीवन और  
 साहित्य. गगा ४५०  
 समाचारपत्रो का इतिहास ज्ञानमडल ६५०  
 हिंदी गद्यकार कि. घर, का. ५००  
 हिंदी पर फारसी का प्रभाव हि सा सम्मे १५०  
 हिंदी साहित्य की आधार शिलाये कि. घर, का ०.६२  
 हिंदू राज्यशास्त्र हि. सा सम्मे. ५००  
 —सपा पृथ्वीराज रासो (पद्मावती समय) कि. घर, का.  
 २.५०  
 वाजपेयी, उमाशकर 'उमेश'. वसत और पतझड. गगा २.५०.  
 का.  
 वाजपेयी, एस आर. आयकर विधान के मूलतत्व. कि. घर, का  
 भारत का आर्थिक विकास कि घर, का  
 मुद्रा तथा वैकिंग सिद्धांत कि. घर, का.  
 राजस्व के मूल सिद्धांत. कि घर, का  
 लोक अर्थशास्त्र. कि घर, का.  
 सामाजिक अनुसंधान तथा सर्वेक्षण. सशो स. २. कि घर,  
 का १२.५०  
 वाजपेयी, एस. आर दे शर्मा, एन डी.  
 वाजपेयी, करुणोदर. करुणाचल. नव सा. प्र. २.२५. का.

मेघ माला नव सा. प्र. ५५०. उ.  
 वाजपेयी, किशोरीदास, १८६८- ब्रजभाषा का व्याकरण  
 स. २ रा बेनीमाधव. २५०  
 भारतीय भाषा विज्ञान. चौखबा एव हिमालय. ६२५  
 राष्ट्रभाषा का इतिहास. हिमालय ४.००  
 राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण हिमालय. ४००  
 लेखन-कला. रा बेनीमाधव १५०  
 संस्कृति के पाच अध्याय. हिमालय १५०  
 सरल शब्दानुशासन. ना. प्रा सभा एव हिमालय. २५०  
 साहित्य-निर्माण हिमालय २.००  
 साहित्यिक सस्मरण हिमालय २००  
 साहित्यिको के पत्र. हिमालय २००  
 सुदामा गगा. २.०० ना.  
 हिंदी शब्दमीमासा. हिमालय २.००  
 हिंदी शब्दानुशासन. ना. प्र सभा एव हिमालय. १०००  
 वाजपेयी, कृष्णदत्त. दे. दत्त, नलिनाक्ष.  
 वाजपेयी, कैलाश. आधुनिक हिंदी कविता मे शिल्प. आत्माराम.  
 १२००  
 संक्रांत. भा ज्ञानपीठ.  
 वाजपेयी, कैलाश. दे नगेद्र.  
 वाजपेयी, गुलावरत्न, १८६६- आकर्षण-शक्ति. अशोक पु.  
 म. ३.५०  
 आत्म-ज्योति कल्याणदास ३००  
 नर-नारी अशोक पु म ३२५  
 वसुधरा अशोक पु म. ४५० उ.  
 सजीवनी कल्याणदास ३५०  
 सेवा और त्याग कल्याणदास ३.०० उ.  
 वाजपेयी, चंद्रभाल 'अलिद' हिंदी के कवि. ज्ञानलोक.  
 १००  
 वाजपेयी, चंद्रशेखर प्रारंभिक व्याकरण रामप्रसाद. ०५०  
 वाजपेयी, नददुलारे, १९०६- आधुनिक काव्य : रचना और  
 विचार साथी. ३५०  
 आधुनिक साहित्य. भा. भ ८००  
 आधुनिक हिंदी कहानिया. नद. स. ३००  
 कथा-वल्लरी. लोक चेतना २५०  
 गद्य-गरिमा लोक चेतना २.००  
 जयशकर प्रसाद सशो स भा भ ५००  
 नया साहित्य : नये प्रश्न विद्या म, वा १०००  
 निबध-निचय इ. प्रे. ३००  
 प्रेमचंद साहित्यिक विवेचन स ३ हि भवन. २२५  
 महाकवि सूरदास आत्माराम ४००  
 राष्ट्रभाषा की कुछ समस्याए राजपाल २.५०  
 सूर सदर्भ इ प्रे. २.०० का  
 हिंदी की श्रेष्ठ कहानिया नद स ३००  
 हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास इ प्रे १.००  
 हिंदी साहित्य . बीसवी शताब्दी लोकभारती ६.००  
 —सपा आधुनिक हिंदी कहानिया विद्या म, वा. ३.००  
 सूरसागर. ना प्र. सभा. २५००

सुर सुपमा. ना. प्र सभा १.५०  
हिंदी कहानिया विद्या म. वा २.००  
हिंदी की श्रेष्ठ कहानियां विद्या म, वा ३.००  
वाजपेयी, नारायणप्रसाद हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक  
इतिहास कालेज १.५०  
वाजपेयी, पुरुषोत्तम तथा सुग्रीव दीक्षित वैक-परिचय नद. स  
५.००  
वाजपेयी, पुरुषोत्तमचंद्र कबीर और जायसी का मूल्यांकन.  
हिं प्रचा. पु २.२५  
वाजपेयी, भगवतीप्रसाद १८६६- आदान-प्रदान कि महल  
२.५० क  
उनसे न कहना. राजपाल ५.००. उ  
उपहार वेनीमाधव क  
एकदा रा वेनीमाधव २.०० उ  
एक प्रश्न राजपाल ३.५० उ  
कपट निद्रा नवयुग प्र ६.०० उ  
गोमती के तट पर स ३ वसल ६.५० उ  
चदन और पानी रणजीत ५.००. उ  
चलते-चलते एस चाद उ  
छलना प्रभात प्र २.५० ना  
टूटते बघन राजपाल ४.०० उ  
टूटा टी सैट सं २ भा ग्र नि ४.०० उ  
दरार और धुआ अशोक पा १.०० उ  
दूखन लगे नैन स २. भा ग्र नि. ५.५० उ  
दो बहने. भा भ ३.०० उ  
घरती की सास रा वेनीमाधव २.००. उ.  
नवीन पद्य-संग्रह हिं सा सम्मे १.५०  
निर्यातन. कि महल २.०० उ  
निरतर यग मैन २.८७  
पतवार मुशीराम ५.००. उ.  
पतिता की साधना छात्रहितकारी २.५० उ  
प्रतिनिधि कहानिया मोतीलाल ३.६२  
प्रेम-पथ. पु भ. ३.५० उ, — —रामलोलन (पा)  
१.००  
भूदान श्री भा भारती ६.०० उ  
मधुपर्क गगा. ३.७५ क  
मनुष्य और देवता. सा सदन, दे. ३.७५. उ.  
यथार्थ से आगे ओरिएंटल ५.५० उ.  
राजपथ. जिज्ञासा ६.०० उ  
रात और प्रभात हिंद पा १.००. उ.  
राय पिथौरा (पृथ्वीरास चौहान) श्री भा भारती ३.००.  
ना  
विश्वास का बल एस चाद ५.५०. उ.  
सपना विक गया. प्रभात प्र ६.५० उ.  
सूनी राह प्रभात प्र ४.०० उ.  
स्नेह, वाती और लौ प्रभात प्र. ५.०० क  
स्वप्न की गोद भा. ग्र नि उ  
हिलोर गगा. ३.०० क

—सपा. हिंदी कहानी संग्रह हिं सा सम्मे १.५०  
हिंदी की प्रतिनिधि कहानिया. हिं मा सम्मे १.५०  
(अप्रा)  
—तथा गुर्तो सुब्रह्मण्य, सपा आधुनिक वीर काव्य हिं सा  
सम्मे. १.५०  
वाजपेयी, लक्ष्मीचंद्र. मेघपुष्प विनोद ३.५० उ  
—तथा तिवारी. वैक परिचय नद स  
वाजपेयी, लक्ष्मीधर हिंदी गद्य निर्माण. हिं सा सम्मे १.७५  
वाजपेयी, विकास. बाल-विकास. चैतन्य १.५०  
हमारे महापुरुष. हिं सा. स. १.५० वप्र  
वाजपेयी, वी पी आशुकि विमोहन न्यू लिट ५.५०. का.  
गहरा पानी न्यू लिट. १.७५. उ.  
घटना चक्र न्यू लिट. १.७५. उ  
वाजपेयी, शम्भुनाथ, अनु. मयूख ना. प्र सभा ३.०० उ  
वाजपेयी, शम्भुनाथ. दे बघोपाध्याय, राखालदास  
वाजपेयी, श्रीराम. आग बुझाने का हुनर न्यू लिट. १.२५  
स्काउट  
कोमलपद शिक्षण न्यू लिट १.००, १.५० स्काउट  
खेल. न्यू लिट २.७५. स्काउट  
खेल पचासा न्यू लिट. १.०० स्काउट  
ध्रुवपद शिक्षण. न्यू लिट १.७५. स्काउट  
ध्वज निष्ठाचार न्यू लिट ०.७५ स्काउट  
नवयुवको के लिए हवाई शिक्षा. इ प्रे. १.०० वप्र  
रसोइया न्यू लिट ०.३७ स्काउट  
स्काउट ड्रिल न्यू लिट १.५०. स्काउट  
वाजपेयी, हरनामप्रसाद जिदगी. एक घाव एक फूल प्रभात  
प्र. ८.००  
वाजपेयी यह भी दे वाजपेयी  
वात्स्यायन. भारतीय दर्शन की रूपरेखा सरस्व स ६.००  
वात्स्यायन कामसूत्र अर्चना प्र (पा) १.००  
वात्स्यायन ग्रामीण समाजशास्त्र केदारनाथ ८.००  
तुलनात्मक सामाजिक सस्थाये केदारनाथ ५.००  
नागरिक समाजशास्त्र केदारनाथ  
नीतिशास्त्र केदारनाथ ५.००  
भारतीय सस्कृति. विश्वविद्यालय ३.००  
भारतीय समाज और सस्थाये सशो स ३. केदारनाथ  
५.५०  
भारतीय सामाजिक संगठन. केदारनाथ ५.००  
व्यावहारिक मनोविज्ञान केदारनाथ ४.५०  
शिक्षा मनोविज्ञान प्रवेशिका केदारनाथ.  
समाज मनोविज्ञान केदारनाथ ७.५०  
समाजशास्त्र के मूल तत्त्व सशो. स २ केदारनाथ भा १.  
५.००, भा २. ५.५०.  
समाजशास्त्र के मूल सिद्धांत (प्रश्नोत्तर) विश्वविद्यालय  
५.००  
समाजशास्त्र परिचय केदारनाथ ५.००  
समाजशास्त्रीय निवध केदारनाथ ८.००  
सामाजिक कल्याण और सुरक्षा. केदारनाथ ६.५०

सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन. केदारनाथ. ५००  
 सामाजिक समस्याओं का अध्ययन और व्यावहारिक समाज-शास्त्र केदारनाथ ६.००  
 सामान्य मनोविज्ञान. केदारनाथ ६००  
 वात्स्यायन, कृष्ण रात वाकी है रूपकमल ३२५ उ  
 वात्स्यायन, नित्यानन्द केलाबाडी स. २ हिं भवन. १२५. उ.  
 मुकुट स. ४. हिं भवन १५० ना  
 वात्स्यायन, महर्षि. कामसूत्र (भाषा टीका सहित) श्यामलाल. ३.००  
 वात्स्यायन, विमल. उठो जागो एस. चाद ३.००  
 वात्स्यायन, सच्चिदानन्द हीरानन्द 'अज्ञेय', १९११- अपने-अपने अजनबी भा ज्ञानपीठ ३००. उ.  
 अमर वल्लरी और अन्य कहानिया सरस्व. प्रे २.५०  
 अरी ओ करुणा प्रभामय भा ज्ञानपीठ ४.०० का  
 अरे यायावर रहेगा याद सरस्व प्रे ६०० या  
 आगन के पार द्वार. भा. ज्ञानपीठ ३००. का.  
 आत्मनेपद. भा ज्ञानपीठ ४.०० जी.  
 इन्द्रधनु रौंदे हुए ये सरस्व प्रे. ४.०० का.  
 एक और अनेक क्षण. सरस्व प्रे. ३०० का.  
 एक बूद सहसा उछली भा ज्ञानपीठ ७०० या.  
 कडिया तथा अन्य कहानिया. सरस्व प्रे २५०. का.  
 किरणों की खोज में सरस्व प्रे. २.००. या  
 जय-दोल स ३ भा ज्ञानपीठ ३००. क  
 नए एकाकी. राजपाल. २००  
 नदी के द्वीप. सरस्व प्रे. ८.०० उ.  
 बावरा अहेरी. सरस्व प्रे. ३००. का.  
 ये तेरे प्रतिरूप राजपाल २५० क  
 शेखर: एक जीवनी २ भा सरस्व प्रे. ५०० (प्र) उ.  
 —अनु. लिंकन-वाणी इ प्रे. २७५  
 —सपा. तीसरा सप्तक स २. भा ज्ञानपीठ ५.०० का.  
 पुष्करिणी सा. सदन, चि. सपूर्णा १२००, भा २ ४००  
 रूपावरा. भा ज्ञानपीठ १२०० का  
 हिंदी की प्रतिनिधि कहानिया सा सदन, चि. ३००  
 वादिराज सूरि दे भट्ट अकलक.  
 वारतोलिनि साइकिल चोर कि महल. ३००. उ.  
 वारलाफ, फ्राज दिव्य जीवन. कि महल २.०० उ.  
 वारान्निकोव, प अ सोवियत-सघ की लोक कथाए. नेशनल २००. वप्र.  
 वारिद. बरसात भागलपुर बुक १.५० का  
 वारिस. रूथ तथा गुट्स अनु राजद्रकुमार आत्मराम २५०  
 ना  
 वारेन, जे. एच इगलैंड में स्थानीय शासन-प्रणाली. नाँवल्टी ५.५०  
 वार्ड, वारवारा. भारत और पश्चिम अनु आर एस भारद्वाज आत्मराम ६००  
 वाष्णोय, आर पी भारतीय श्रम की समस्याए आगरा बुक २.२५

वाष्णोय, कुसुम 'निराला' का कथा-साहित्य मित्र. ३.००  
 वाष्णोय, कैलाशचंद्र कबीर प्रश्नोत्तरी सरस्व पु स. २००  
 विद्यापति. प्रश्नोत्तरी सरस्व पु स १५०  
 वाष्णोय, चंद्रगुप्त. ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती सस्ता ०४०  
 वप्र  
 वाष्णोय, लक्ष्मीसागर आधुनिक हिंदी साहित्य हिं सा परिषद ६००  
 आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका हि. सा परिषद ८००  
 उन्नीसवीं शताब्दी सा. भवन, इ ३५०  
 निबंध नवनीत सशो. स. ३ विश्वविद्यालय ३५०, — — हिं सा भ ३००  
 भारतेदु हरिश्चंद्र सा भवन, इ ५.००  
 हिंदी साहित्य का इतिहास. स ६. महामना ५००  
 हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास स ३. महामना. २००  
 —सपा भारत दुर्दशा (भारतेदु हरिश्चंद्र) विश्वविद्यालय १.००. ना.  
 श्री चद्रावली नाटिका (भारतेदु हरिश्चंद्र) विश्वविद्यालय. १.५० ना.  
 —तथा अन्य, सपा भारतीय वाङ्मय भा २. राष्ट्र. प्रचा. समि १५०  
 वाष्णोय, सुरेशचंद्र पृथ्वीराज्य भा. प्र मंदिर ०७५ का  
 प्रेमचंद और गोदान. भा प्र. मंदिर १.००  
 बालचर शिक्षा के मूल सिद्धांत भा. प्र मंदिर ०.७५  
 वाल्तेयर. कादीद राजहस. २०० उ  
 भगवान की मर्जी सरस्व प्रे. १५०. उ.  
 वाल्मीकि श्री रामचरित्र-दर्पण अर्थात् सपूर्ण वाल्मीकि रामायण श्री रामायण २०.००  
 रामायण सग्रह सपा वे वर्दाचार्य रा वेनीप्रसाद १५०  
 वावर मध्यप्रदेश का भूगोल भोपाल ०७५  
 वाशिष्ठ, राधेश्याम रामायण श्यामलाल. ४.००  
 वासतीदेवी शरणार्थी नेशनल ०७५ ना  
 वासल, सुखचैन. दे दिवाकर, सुशीलकुमार.  
 वासुदेव पत की काव्य चेतना में गुजन कि महल. ३.००  
 विचार और निष्कर्ष एस चाद ७५०  
 हिंदी कहानी और कहानीकार परि स २ ज्ञानमंडल ४५०  
 वासुदेवनारायण 'आलोक'. चढाव-उतार. अभिज्ञान ४१२ उ  
 वाघ और कगन ग्रथ भ ०५० वप्र.  
 वासुदेवगरण महामना श्री प मदनमोहन जी मालवीय जी के लेख और भाषण कागी हिंदू ५००  
 वासुदेव शास्त्री, के संगीत शास्त्र हिं समि ६५०  
 वासुदेव शास्त्री तथा कृष्णचंद्र उम्मीद. रतन हिंदी व्याकरण सूर्य प्र ३२५  
 वासू, के. पी माध्यमिक बीजगणित सरलीकृत अनु रामगोविंद पांडे रा वेनीप्रसाद ५००  
 वास्वानी, साधु टी. एल सजीवन सदेश हिं. ग्रं. २ ०.६२



सूर सुषमा ना प्र सभा १.५०  
हिंदी कहानिया विद्या म, वा २००  
हिंदी की श्रेष्ठ कहानिया विद्या म, वा ३००  
वाजपेयी, नारायणप्रसाद हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक  
इतिहास कालेज १५०  
वाजपेयी, पुरुषोत्तम तथा सुग्रीव दीक्षित बैंक-परिचय नद स  
५००  
वाजपेयी, पुरुषोत्तमचंद्र कवीर और जायसी का मूल्यांकन.  
हिं प्रचा. पु २२५  
वाजपेयी, भगवतीप्रसाद १८६६- आदान-प्रदान कि. महल  
२५० क  
उनसे न कहना राजपाल ५०० उ  
उपहार बेनीमाधव क  
एकदा रा बेनीमाधव २०० उ.  
एक प्रश्न राजपाल. ३५० उ  
कपट निद्रा नवयुग प्र ६०० उ  
गोमती के तट पर स ३ बसल ६५० उ  
चदन और पानी रणजीत ५०० उ  
चलते-चलते एस चाद उ  
छलना प्रभात प्र २५० ना  
टूटते बघन राजपाल ४०० उ  
टूटा टी सैट स २ भा ग्र नि ४०० उ  
दरार और धुआ अशोक पा १०० उ  
दूखन लगे नैन. स २ भा ग्र नि ५.५० उ  
दो बहने भा भ ३०० उ  
धरती की सास रा बेनीमाधव २०० उ  
नवीन पद्य-संग्रह हिं सा सम्मे १५०  
निर्यातन कि महल २०० उ  
निरतर यग मैन २८७  
पतवार मुशीराम ५०० उ  
पतिता की साधना छात्रहितकारी २५० उ  
प्रतिनिधि कहानिया मोतीलाल ३६२  
प्रेम-पथ पु भ ३.५० उ, — —रामलोलन (पा)  
१००  
भूदान श्री भा भारती ६०० उ  
मधुपर्क गगा ३७५ क  
मनुष्य और देवता सा सदन, दे ३७५. उ.  
यथार्थ से आगे ओरिएटल ५५० उ.  
राजपथ जिज्ञासा ६०० उ  
रात और प्रभात हिंद पा १००. उ  
राय पिथौरा (पृथ्वीरास चौहान) श्री भा भारती ३००  
ना  
विश्वास का बल एस चाद ५.५० उ.  
सपना विक गया प्रभात प्र ६.५० उ  
सूनी राह प्रभात प्र ४०० उ  
स्नेह, वाती और लौ प्रभात प्र ५०० क  
स्वप्न की गोद भा. ग्र. नि उ  
हिलोर गगा. ३०० क

—सपा हिंदी कहानी संग्रह हिं सा सम्मे १.५०  
हिंदी की प्रतिनिधि कहानिया हिं सा सम्मे १५०  
(अप्रा)  
—तथा गुर्ती सुब्रह्मण्य, सपा आधुनिक वीर काव्य हिं सा  
सम्मे. १५०  
वाजपेयी, लक्ष्मीचंद्र मेघपुष्प विनोद ३५० उ  
—तथा तिवारी बैंक परिचय नद स  
वाजपेयी, लक्ष्मीधर हिंदी गद्य निर्माण हिं सा सम्मे १७५  
वाजपेयी, विकास बाल-विकास. चैतन्य १.५०  
हमारे महापुरुष हिं सा स १५० वप्र  
वाजपेयी, वी पी आशुकवि मोहन न्यू लिट. ५५०. का  
गहरा पानी न्यू लिट १७५ उ  
घटना चक्र न्यू लिट. १७५. उ  
वाजपेयी, शम्भुनाथ, अनु मयूख ना. प्र सभा ३०० उ.  
वाजपेयी, शम्भुनाथ दे वद्योपाध्याय, राखालदास  
वाजपेयी, श्रीराम. आग बुझाने का हुनर न्यू लिट १२५.  
स्काउट  
कोमलपद शिक्षण न्यू लिट १००, १५० स्काउट  
खेल. न्यू लिट २७५ स्काउट  
खेल पचासा न्यू लिट १०० स्काउट  
ध्रुवपद शिक्षण न्यू लिट १.७५ स्टाउट  
ध्वज शिष्टाचार न्यू लिट ०७५ स्काउट  
नवयुवको के लिए हवाई शिक्षा इ प्रे १०० वप्र  
रसोइया न्यू लिट ०३७ स्काउट  
स्काउट ड्रिल न्यू लिट १५०. स्काउट  
वाजपेयी, हरनामप्रसाद जिंदगी एक घाव एक फूल प्रभात  
प्र ८००  
वाजपेयी यह भी दे वाजपेयी  
वात्स्यायन भारतीय दर्शन की रूपरेखा सरस्व स ६००  
वात्स्यायन कामसूत्र अर्चना प्र (पा) १००  
वात्स्यायन ग्रामीण समाजशास्त्र केदारनाथ ८००  
तुलनात्मक सामाजिक सस्थाये केदारनाथ ५००  
नागरिक समाजशास्त्र केदारनाथ  
नीतिशास्त्र केदारनाथ ५००  
भारतीय सस्कृति विश्वविद्यालय. ३००  
भारतीय समाज और सस्थाये. सशो स ३. केदारनाथ  
५५०  
भारतीय सामाजिक संगठन. केदारनाथ ५००  
व्यावहारिक मनोविज्ञान केदारनाथ ४५०  
शिक्षा मनोविज्ञान प्रवेशिका केदारनाथ.  
समाज मनोविज्ञान केदारनाथ ७५०  
समाजशास्त्र के मूल तत्व सशो स २ केदारनाथ. भा १.  
५००, भा २ ५.५०  
समाजशास्त्र के मूल सिद्धांत (प्रश्नोत्तर) विश्वविद्यालय  
५००  
समाजशास्त्र परिचय केदारनाथ ५००  
समाजशास्त्रीय निबन्ध केदारनाथ ८.००  
सामाजिक कल्याण और सुरक्षा. केदारनाथ ६.५०

सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन. केदारनाथ. ५००  
 सामाजिक समस्याओं का अध्ययन और व्यावहारिक समाज-शास्त्र केदारनाथ ६००  
 सामान्य मनोविज्ञान. केदारनाथ ६००  
 वात्स्यायन, कृष्ण रात बाकी है रूपकमल ३२५. उ  
 वात्स्यायन, नित्यानन्द केलाबाडी स २ हि भवन. १२५. उ  
 मुकुट स. ४. हि भवन १५०. ना  
 वात्स्यायन, महर्षि. कामसूत्र (भाषा टीका सहित) श्यामलाल. ३.००  
 वात्स्यायन, विमल उठो जागो. एस. चाद ३.००  
 वात्स्यायन, सच्चिदानन्द हीरानन्द 'अज्ञेय', १९११- अपने-अपने अजनबी. भा ज्ञानपीठ ३००. उ.  
 अमर वल्लरी और अन्य कहानिया सरस्व. प्रे २.५०  
 अरी ओ करुणा प्रभामय भा ज्ञानपीठ. ४.०० का  
 अरे यायावर रहेगा याद. सरस्व प्रे ६००. या  
 आगन के पार द्वार भा. ज्ञानपीठ ३.००, का.  
 आत्मनेपद. भा ज्ञानपीठ ४.०० जी.  
 इन्द्रधनु रौंदे हुए ये. सरस्व प्रे. ४०० का.  
 एक और अनेक क्षण. सरस्व प्रे. ३.००. का.  
 एक बूद सहसा उछली भा. ज्ञानपीठ ७०० या.  
 कडिया तथा अन्य कहानिया. सरस्व. प्रे २५०. क.  
 किरणों की खोज में. सरस्व प्रे. २.००. या  
 जय-दोल स ३. भा ज्ञानपीठ ३०० क.  
 नए एकाकी राजपाल. २००  
 नदी के द्वीप. सरस्व प्रे. ८.०० उ.  
 बावरा अहेरी. सरस्व प्रे. ३००. का.  
 ये तेरे प्रतिरूप राजपाल २.५० क.  
 शेखर : एक जीवनी २ भा सरस्व. प्रे. ५०० (प्र). उ.  
 —अनु. लिंकन-वाणी इ प्रे. २७५  
 —सपा. तीसरा सप्तक स २. भा. ज्ञानपीठ ५.००. का  
 पुष्करिणी सा. सदन, चि. संपूर्ण १२.००, भा २ ४.००  
 रूपावरा भा ज्ञानपीठ १२०० का  
 हिंदी की प्रतिनिधि कहानिया सा सदन, चि. ३००  
 वादिराज सूरि दे भट्ट अकलक.  
 वारतोलिनि. साइकिल चोर कि महल ३००. उ.  
 वारलाफ, फ्राज दिव्य जीवन. कि. महल २.०० उ  
 वारान्निकोव, प अ. सोवियत-सघ की लोक कथाए. नेशनल २००. वप्र.  
 वारिद. बरसात भागलपुर बुक १.५० का  
 वारिस. रूथ तथा गुट्स अनु राजद्रकुमार आत्माराम २५०  
 ना  
 वारेन, जे. एच. इंग्लैंड में स्थानीय शासन-प्रणाली. नाँवल्टी ५.५०  
 वार्ड, बारबारा. भारत और पश्चिम अनु आर एस. भारद्वाज आत्माराम ६००  
 वाष्णोय, आर पी भारतीय श्रम की समस्याए आगरा बुक २.२५

वाष्णोय, कुसुम 'निराला' का कथा-साहित्य मित्र. ३.००  
 वाष्णोय, कैलाशचंद्र कबीर प्रश्नोत्तरी सरस्व. पु स. २.००  
 विद्यापति. प्रश्नोत्तरी सरस्व. पु स १५०  
 वाष्णोय, चंद्रगुप्त. ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती सस्ता ०४०  
 वप्र  
 वाष्णोय, लक्ष्मीसागर आधुनिक हिंदी साहित्य. हि सा परिषद ६.००  
 आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका हि. सा. परिषद ८००  
 उन्नीसवीं शताब्दी सा. भवन, इ ३५०  
 निबंध नवनीत सशो. स. ३ विश्वविद्यालय ३५०, — — हि. सा भ ३००  
 भारतेदु हरिश्चंद्र सा भवन, इ ५.००  
 हिंदी साहित्य का इतिहास. स ६. महामना ५००  
 हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास स ३ महामना. २.००  
 —सपा भारत दुर्दशा (भारतेदु हरिश्चंद्र) विश्वविद्यालय १००. ना.  
 श्री चद्रावली नाटिका (भारतेदु हरिश्चंद्र). विश्वविद्यालय. १.५० ना.  
 —तथा अन्य, सपा. भारतीय वाङ्मय भा २ राष्ट्र. प्रचा. समि १५०  
 वाष्णोय, सुरेशचंद्र पृथ्वीराज्य भा प्र मंदिर ०७५ का.  
 प्रेमचंद और गोदान भा प्र मंदिर. १.००  
 बालचर शिक्षा के मूल सिद्धांत. भा. प्र मंदिर ०.७५  
 वाल्तेयर. कादीद राजहस. २०० उ  
 भगवान की मर्जी सरस्व प्रे. १५० उ.  
 वाल्मीकि. श्री रामचरित्र-दर्पण अर्थात् संपूर्ण वाल्मीकि रामायण श्री रामायण २०.००  
 रामायण संग्रह सपा वे वर्दाचार्य रा वेनीप्रसाद १५०  
 वावर मध्यप्रदेश का भूगोल भोपाल ०७५  
 वाशिष्ठ, राधेश्याम रामायण श्यामलाल. ४.००  
 वासतीदेवी शरणार्थी नेशनल ०७५ ना  
 वासल, सुखचैन दे दिवाकर, सुशीलकुमार.  
 वासुदेव पत की काव्य चेतना में गुजन कि. महल ३००  
 विचार और निष्कर्ष एस चाद ७५०  
 हिंदी कहानी और कहानीकार परि. स २ ज्ञानमंडल ४.५०  
 वासुदेवनारायण 'आलोक' चढाव-उतार. अभिज्ञान ४१२ उ  
 बाघ और कगन ग्रथ भ ०५० वप्र  
 वासुदेवशरण महामना श्री प मदनमोहन जी मालवीय जी के लेख और भाषण काशी हिंदू ५००  
 वासुदेव शास्त्री, के. संगीत शास्त्र. हि समि ६५०  
 वासुदेव शास्त्री तथा कृष्णचंद्र उम्मीद. रतन हिंदी व्याकरण सूर्य प्र ३२५  
 वासू, के. पी माध्यमिक बीजगणित सरलीकृत अनु रामगोविंद पाडे रा वेनीप्रसाद ५००  
 वास्वानी, साधु टी. एल सजीवन सदेश हि. ग्र. र ०.६२

बाहमा, ओमप्रकाश कृषि एव ग्राम्य अर्थशास्त्र. रामप्रसाद.

५००

प्रसार एव ग्राम कल्याण रामप्रसाद ८००

विदेश्वर परिचय दर्भगा ०७५

वेदना ग्रथालय ०७५ का

विदेश्वर सिंह यशोधरा का काव्य रूप ग्रथालय २००

विदेश्वरी सिंह सामुदायिक विकास योजना, स्वरूप और प्रगति

साधना म २२५

विध्यवासिनीदेवी. जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सा स ०५०  
वप्र.

विध्येश्वरीप्रसाद सिंह भारतीय कला को विहार की देन.

वि राष्ट्र ७५०

विकनभगत तथा भोलासिंह. माध्यमिक कलन नाँवली. ३५०

विकल दे कार्तिककुमार 'विकल'

विकल दे कृष्ण 'विकल'.

विकल दे धवन, देवीप्रसाद 'विकल'

विकल दे शंभू 'विकल'

विकल दे शर्मा, ब्रह्मनारायण 'विकल'

विकल, रूपा मोरालिन मोनरो पुष्पी ०७५ उ

विक्रम, नदकिशोर यादो के खडहर नवयुग प्र ३.५० उ

विक्रम हमारे आहार नीलाभ ३७५

विक्रमादित्य सिंह पारमाणविक विभीषिका अ भा सर्व  
०५०

विगत दे राधेश्याम 'विगत'

विचारदास शास्त्री बीजक—सद्गुरु कबीर साहब स. ३. रा

बेनीमाधव २५० का

विचित्र दुर्गम-पथ एस चाद २०० क

महाभारतीय कथाए साहनी १००

विचित्र दे सतराम विचित्र'

विजय दे पाडेय, रमाकात 'विजय'

विजय दे मिश्र, रामदास 'विजय'

विजय, आर सी टेपरिकार्डर देहाती १०५०

ट्राजिस्टर डेटासकिट देहाती १०५०

ट्राजिस्टर रेडियो देहाती ७५०

सर्विसिंग ट्राजिस्टर रेडियो देहाती ७५०

हैडवुक ऑफ विर्लिडिंग कन्स्ट्रक्शन देहाती ३४५०

विजय, ओमशरण. जयभारत विजय प्र ०७५ ना

प्रकाश की ओर विजय प्र ४०० उ

राष्ट्रनिर्माण विजय प्र ना

विजय, रमेशचंद्र सरल रेडियो विज्ञान आत्मराम ५००

विजयकुमार अलकार चार्ट अशोक प्र ०४०

अशोक निवधसागर स ४ अशोक प्र ५.००

छद चार्ट अशोक प्र ०४०

विजयकुमार पुजारी आत्मदान आत्मराम ३०० उ

नेपाल के मोर्चे पर यग मैत्र १२५

विजयकुमार सिंह छायावादी कवियों की आलोचनात्मक दृष्टि  
नारायण प्र ३००

विजयचद चेहरे प्रगतिशील ४५० का.

वेश्या. प्रगतिशील. २५०

—सपा प्रसिद्ध व्यक्तियों के प्रेम-पत्र प्रगतिशील. ६५०;

डीलक्स स १०००

प्रसिद्ध व्यक्तियों के हास्य क्षण प्रगतिशील

फासी से पहले प्रगतिशील ४००

स्वतंत्रता के बाद की सर्वश्रेष्ठ हिंदी कहानिया प्रगतिशील.

४००

विजयचद दे नीरज

विजय निर्वाध आओ बच्चो सुनो कहानी कल्याणमल १२५

वप्र

हसना मना है कल्याणमल ०७५ का

विजयपाल सिंह, १९२३- केशव लौर उनका साहित्य. राजपाल.

१२००

विजयबहादुर सिंह, ठाकुर कामकला हि. सा कु ४५०

प्राणायाम मीमासा हि सा कु २००

विजयमूर्ति, सप्रा जैन शिलालेख संग्रह. भा ज्ञानपीठ भा. २

८००, भा ३ १०००

विजयेद्रपाल सिंह माध्यमिक वैकिंग लक्ष्मी ना ६००

विजयेद्रपाल सिंह दे रघुराज सिंह

विजयेद्र स्नातक राधावल्लभ सप्रदाय सिद्धांत और साहित्य

नेशनल १८००

समीक्षात्मक निवध नेशनल ५५०

हिंदी साहित्य का सक्षिप्त इतिहास रणजीत ४.००

—तथा क्षेमचंद्र 'सुमन' आधुनिक हिंदी-साहित्य आत्मराम.  
२००

हिंदी-साहित्य और उसकी प्रगति आत्मराम ३५०

—तथा रामेश्वरलाल खडेलवाल महाकवि प्रसाद एस चाद  
३५०

विजयेद्र स्नातक दे गुलाबराय.

विजयेद्र स्नातक दे नगेंद्र

विजयेद्र स्नातक दे सिन्हा, सावित्री

विज्ञान-विशारद भारत-कल्याण गंगा ०.७५ ना

विज्ञानश्रम, स्वामी, अनु पातजल योगदर्शन भा प्राच्य ५००

विठ्ठलदास आहार चिकित्सा छात्रहितकारी १५०

दुग्ध कल्प छात्रहितकारी १००

रोगो की सरल चिकित्सा छात्रहितकारी ४००

स्वास्थ्य कैसे पाया छात्रहितकारी १५०

—सपा उपवास से लाभ छात्रहितकारी १५०

विद्या बुद्ध चरितावली मोतीलाल ०७५

विद्यादत्त रमण सस्कृति विहार दास २५०

विद्याधर रस तरंगिणी भाषा देहाती ८००

विद्यानंद विदेह, स्वामी आनंद-सुधा वेदसंस्थान ०४०

गायत्री वेदसंस्थान १००

गायत्री मंत्र का अनुष्ठान वेदसंस्थान ०.२५

गृहस्थाश्रम वेदसंस्थान ०५०

चरित्र-निर्माण वेदसंस्थान ०२०

जीवन-ज्योतिया वेदसंस्थान ०३०

दयानंद चरितामृत. वेदसंस्थान. १००

दिव्य भावना वेदसस्थान. ००६  
 भारत के अध्यापको से वेदसस्थान ०३०  
 भारत के विद्यार्थियों से. वेदसस्थान. ०३०  
 महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान. वेदसस्थान. ०.२५  
 मानव-धर्म वेदसस्थान ०२०  
 यज्ञोपवीत-रहस्य. वेदसस्थान. ००६  
 रामचरित वेदसस्थान. १.५०  
 विजय योग वेदसस्थान ०५०  
 वेदव्याख्याग्रथ वेदसस्थान. पुष्प. १. २.००; पुष्प. २. १.५०;  
 पुष्प ३. २००; पुष्प. ४. १.००, पुष्प. ५ १.५०;  
 पुष्प ६ १.००  
 वैदिक बालशिक्षा. वेदसस्थान. भा. १-२ ०५० (प्र);  
 भा. ३. ०.७०  
 वैदिक योगपद्धति. वेदसस्थान. ०.३७  
 वैदिक सत्सग वेदसस्थान ०३७  
 वैदिक स्त्री शिक्षा. वेदसस्थान. ०.४०  
 सध्या-योग वेदसस्थान ०३०  
 संस्कृत-शिक्षा. वेदसस्थान भा १ ०.१६; भा. २. ०.३७  
 संस्कृत-स्वयशिक्षक, प्रथम पुष्प वेदसस्थान. ०.७०  
 सत्यनारायण की कथा वेदसस्थान. ०३०  
 सत्सग-गीतावली वेदसस्थान. ०३७  
 साधना वेदसस्थान. १.००  
 सार्वभौम आर्य साम्राज्य. वेदसस्थान. ०.५०  
 स्वभाव और सुख दुःख वेदसस्थान ०.२०  
 स्वस्ति-योग. वेदसस्थान. ०८०  
 स्वास्थ्य और सौंदर्य वेदसस्थान. ०५०  
 विद्यानंद सरस्वती. अध्यात्म दर्पण स. २. साधना. १.५०  
 ईशोपनिषद. स २ साधन. ०.५०  
 गौराग महाप्रभु स २. साधन. १.५०  
 ज्ञानयोग साधन ०.५०  
 ध्यान योग. साधन ०५०  
 पातजली योग दर्शन विवेक. साधन १३७  
 लारेस गीता स ३. साधन ०५०  
 विद्यानंदि, आचार्य. सत्यशासन-परीक्षा सपा. गोकुलचंद्र जैन.  
 भा ज्ञानपीठ. ५.००  
 विद्यापति विद्यापति पदामृत छात्रहितकारी ०.७५  
 विद्याभास्कर. सवेरा और साया इ प्रे १.५०. का  
 विद्याभूषण 'विभु' अभिधान अनुशीलन हिंदु एकेडेमी.  
 १२.००  
 गोवर गनेस इ प्रे १.०० वप्र  
 चाद तारा सा. भवन, इ १५० वप्र  
 विद्याराम तथा रमेशचंद्र आदर्श निबन्ध सशो स. ३. विनोद.  
 २.००  
 विद्यार्थी भाषा विज्ञान नवयुग पु भ २५०  
 विद्यार्थी दे इन्द्रकुमार 'विद्यार्थी'  
 विद्यार्थी दे रामलखन 'विद्यार्थी'  
 विद्यार्थी, आर दे भास्कर, वी.  
 विद्यार्थी, आर. डी. जतु विज्ञान. श्रीराम मेहरा. ३००

प्रायोगिक जतु विज्ञान. श्रीराम मेहरा. २.००  
 प्रायोगिक वनस्पति विज्ञान श्रीराम मेहरा. २.००  
 वनस्पति विज्ञान श्रीराम मेहरा ३००  
 सरल प्राणि शास्त्र (प्रश्नोत्तर). मालवीय. ६.५०  
 सरल माध्यमिक जीव विज्ञान. श्रीराम मेहरा ५००  
 विद्यार्थी, कृष्णकुमार. उच्छ्वास अशोक प्रे १७५. का.  
 विद्यार्थी, जगदीश. कुछ करो कुछ बनो गोविंदराम. १२५  
 दिव्य दयानंद. गोविंदराम. १२५  
 विद्यार्थी, जगदीशचंद्र, सभा. ऋग्वेद शतकम्. दयानंद भाष्य.  
 गोविंदराम  
 विद्यार्थी, दीवानचंद्र लोक-परलोक सुधार. देहाती १.२५  
 विद्यार्थी, देवदूत भारतीय राष्ट्रीयता सा. रत्न भ २.००  
 —तथा भारती विद्यार्थी पाच वेत. आत्माराम. ५.०० उ.  
 विद्यार्थी, पुत्तनलाल तथा लक्ष्मीधर शुक्ल. सरल पिंगल. हि.  
 सा. सम्मे. ०.५०  
 विद्यार्थी, प्रभुदयाल. वापू के महादेव पु. भ २.२५  
 सेवाग्राम. पु भ. ३००  
 विद्यार्थी, वद्रीविशाल. आदर्श भाषा विज्ञान तत्त्व. नवयुग पु.  
 भ. ४००  
 हाईस्कूल हिंदी-पथ-प्रदर्शक नवयुग पु. भ. २.७५  
 विद्यार्थी, भारती. दे पित्तलै, तकपी शिवशकर.  
 विद्यार्थी, भारती. दे विद्यार्थी, देवदूत.  
 विद्यार्थी, रमेशप्रसाद सिंह चतुर्वेदीजी. विद्यार्थी. ०.७५ उ.  
 प्रगति और प्रयोग. विद्यार्थी २००  
 लेखक का सपना. विद्यार्थी क  
 विद्यार्थी, राधेश्याम दे आनंदराव, डी. एल  
 विद्यार्थी, रामप्रसाद 'रावी', १६११- अफनो की खोज में—  
 बुकसेलर की डायरी इ प्रे. १.००  
 किसके लिए? विनोद १००. क.  
 क्या मैं अदर आ सकता हू? भा. ज्ञानपीठ. २.५० नि.  
 जीवन प्रवेशिका रामप्रसाद. १२५  
 नए समाज की ओर लक्ष्मी ना. १.००  
 नया मानव . नया समाज सस्ता.  
 पहला कहानीकार. भा ज्ञानपीठ २५०. क.  
 पाप का पुण्य बोरा १७५ क.  
 पूर्व और पश्चिम तथा अन्य नाट्य कहानिया रामप्रसाद. १.७५  
 प्यार के बंधन भा. ज्ञानपीठ ३२५ क  
 प्रबुद्ध सिद्धार्थ. रामप्रसाद १५० ना  
 मुझे आपसे कुछ कहना है गयाप्रसाद. २००  
 मेरे कथा गुरु का कहना है भा १-२ भा. ज्ञानपीठ ६.००.  
 क  
 रावी की कहानिया. रामप्रसाद ०५० क  
 विद्यार्थी, ललिताप्रसाद भारतीय नगर. राजकमल.  
 विद्यार्थी, विश्ववीर प्रारभिक शैक्षिक मनोविज्ञान. गर्ग ब्र.  
 ३७५  
 विद्यार्थी, सुरेशचंद्र ईश्वर प्रार्थना देहाती ०.३७  
 ईश्वर भक्ति गुटका. देहाती. ०७५  
 विद्यालंकार. भारत के महापुरुष. बोरा १.००. वप्र.

महाकाव्यो की बाल-कथाए वीरा. ० ७५. वप्र.  
 विद्यालंकार, सत्यकाम दे सत्यकाम विद्यालंकार.  
 विद्यालंकार, सत्यदेव दे सत्यदेव विद्यालंकार  
 विद्यावती 'कोकिल' आरती भा भ २५० का.  
 सुहागिन भा भ २०० का  
 पुनर्मिलन श्रीअरविद १७५ का  
 सप्तक श्रीअरविद १५०  
 सोहाग गीत भा भ २५० का  
 विद्यासागरप्रसाद उपनिषदो की शिक्षा प्रणाली आत्माराम.  
 ३००  
 विद्रोही दे ठाकुर, मथुरा 'विद्रोही'.  
 विद्रोही दे हरिनारायण 'विद्रोही'  
 विद्वांस, भास्करराव हमारा देश वीरा ४०० नि.  
 विधुर. रग भूमि मे दो राम साहित्यवाणी १०० वप्र  
 विधुर दे राय, रामवृक्ष 'विधुर'.  
 विनयकुमार तुलसी दल वि ग्र कु २५०  
 तुलसीदास का प्रगीत काव्य ओरिएण्टल ७००  
 मैथिलीशरण गुप्त अशोक प्र २५०  
 विनयकुमार 'पथिक' चारुदत्त चरित्र श्री भा दिगंबर ०.३१  
 विनायक, एम हाथ चक्की अ भा सर्व ०५०  
 विनायक, बालकराम महाभागवत चरित २ भा. मानस सघ.  
 १०० (प्र)  
 विनीत. दे गोविन्ददास विनीत  
 विनोद बाल फुलवारी एस चाद ०५०. वप्र  
 भारतीय जीवन की समाजवादी समीक्षा कि महल. २००  
 सरल रामायण राजपाल. १०० वप्र  
 विनोद. दे गुप्त, सीताराम 'विनोद'  
 विनोद दे पाडेय, विनोदचंद्र 'विनोद'.  
 विनोद दे 'जनाथ सिंह 'विनोद'.  
 विनोद दे भगवानचंद्र 'विनोद'  
 विनोदकुमार आविष्कारो की कहानिया. राजपाल. १००.  
 वप्र.  
 विनोदविहारीस्वरूप तथा अन्य सुबोध शिक्षा-शास्त्र  
 प्रश्नोत्तरी कला-नि ३५०  
 विनोयादोव, न सोवियत सघ मे स्वास्थ्य सुरक्षा पीपुल्स  
 ०३१  
 विन्टरनिट्ज प्राचीन भारतीय साहित्य मोतीलाल १०००  
 विपुलादेवी पूर्व का पंडित इ प्रे २०० क  
 विप्रदास, प र चपू रामायणम् गयाप्रसाद ११०  
 विभु दे विद्याभूषण 'विभु'  
 विमल दे झा, जगदीश 'विमल'  
 विमलकुमार तर्कशास्त्र २ भा नद स ४०० (प्र)  
 नयी कविता नई आलोचना और कला भा भवन २००  
 विमलचंद्र पानी राजकमल २००  
 विमला काव्याजली एस चाद २५०  
 विमलादेवी दे सुशीलादेवी  
 विमलादेवी सुमन नारी पथ पदर्शक भाग्योदय २५०  
 नारी व्यायाम शिक्षा भाग्योदय २५०

विमलेश आधुनिक राजनीतिक विचारधाराए बुकलेड ७००  
 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एव सविधानिक विकास. लक्ष्मी  
 ना.  
 भारतीय स्वाधीनता का इतिहास साहित्यवाणी. २.००  
 सोवियत सघ की शासन प्रणाली बुकलेड ३७५  
 स्वित्जरलैंड की शासन प्रणाली बुकलेड ४००  
 विमलेश दे राधाकृष्ण शास्त्री 'विमलेश'  
 विमलेश दे शर्मा, विमलचंद्र विमलेश  
 वियोगी हरि कबीरदास सस्ता. ०.५०  
 जपुजी सस्ता ०.३५  
 ठंडे छीटे हि सा कु ० ७५ गद्य-का  
 पाव भर आटा सस्ता. ० ४० वप्र  
 प्रबुद्ध यामुन. गगा ३५० ना.  
 प्रेम-योग गीता १.५०  
 बुद्धवाणी सस्ता १००  
 यो भी तो देखिये सस्ता १२५ लेख  
 वीर सतसई सा भवन, इ १५०. का  
 शेख फरीद सस्ता ० ३५  
 श्रद्धा-करण सस्ता ० ७५  
 सतवाणी सस्ता २००  
 सत-सुधासार सस्ता सक्षिप्त ६००  
 स्वामी दादूदयाल सस्ता ० ३५  
 —सपा. बिहारी-सग्रह हि सा सम्मे ०.३७  
 ब्रजमाधुरी सार हि सा सम्मे ४.००  
 वियोगी दे महतो, मोहनलाल 'वियोगी'  
 विरजानंद, स्वामी परमार्थ-प्रसंग श्रीरामकृष्ण ३.२५  
 विरथरे सिंह. उच्चतर निवध भोपाल १५०  
 मधुसूदन सौमन भोपाल ४.५०  
 विरही दे परशुराम विरही.  
 विरागी आदर्श सेवा छात्रहितकारी ० ५०  
 हमारे हरिजन छात्रहितकारी ० ५०  
 —तथा अविनाशचंद्र हिंदी मूल और शाखा भा भ ५००  
 —तथा सक्सेना हिंदी व्याकरण व अपठित रामप्रसाद  
 १५०  
 —तथा अन्य हिंदी सार रामप्रसाद २५०  
 विरागी दे श्यामबिहारी 'विरागी'  
 विराज अभिज्ञान शाकुंतल राजपाल ३००  
 अरुणोदय नेशनल ४००. का  
 असिधारा नेशनल ३०० वप्र.  
 आविष्कार और अन्वेषण कमल-कुज प्र २५०  
 उदयन कथा हि प्र म ० ७५  
 एकलिस नेशनल २००  
 ऐनियास नेशनल २००  
 ओडीसियस नेशनल २००  
 कवि परिचय अशोक प्र १५०  
 कार्तिकेय नेशनल १५०  
 कुमारसंभव राजपाल ३००  
 गाय और बाघ आत्माराम. ०.७५. वप्र

जगल के रहस्य. राजपाल. १.२५  
 भवरी. कमल-कुज प्र. २.५०. उ.  
 तिरगा भडा नेशनल. १.२५ ए  
 नया आलोक, नयी छाया. नेशनल. ३.००. क; — — राज-  
 पाल. २००  
 पत्र लिखने की कला. हिंद पा. १.००  
 पैसा. नेशनल. १.००  
 प्रशासन शब्दावली नेशनल १.५०  
 प्रामाणिक आलेखन और टिप्पण राजपाल. २.००  
 बसत के फूल. नेशनल. ४.०० का  
 विहारी सतसई सटीक. अशोक प्र. ४.००  
 भारत के प्रमुख साप. नेशनल. २.००  
 मध्यकालीन लोक-कथाए. आत्माराम. १.५०  
 मेघनाद. नेशनल. १.५०  
 यथार्थ और कल्पना राजपाल ४.५०. क  
 रतनसेन. नेशनल. १.५०  
 वनराज के राज मे आत्माराम ४.००  
 विक्रमोर्वशी : मालविकाग्निमित्र. राजपाल. ३.००  
 समुद्र की लीला. नेशनल. ०.७५  
 सम्राट विक्रमादित्य. नेशनल. २.००. ना.  
 सरल रूपक मजरी नेशनल २.००  
 साहसी जीवन. नेशनल १.२५ वप्र.  
 सीगफ्रिड नेशनल १.५०  
 हाथियों की खोज मे राजपाल. १.५०  
 हिंदी निबध लेखन. राजपाल ५.००  
 हिंदी साहित्य का सरल इतिहास. नेशनल १.२५  
 —अनु. महान आविष्कारक एडिसन. राजपाल. २.५०. जी.  
 —सपा. एकाकी सौरभ. इ प्रे २.५०  
 चिदी, आर. एस यूरी गागरिन पैरामाऊट १.५० वप्र  
 विलियम्स चिडिया की तिग्गी प्रभात पब्लि. २.७५ उ.  
 विलियम्स, मोनियर. संस्कृत इंगलिश डिक्शनरी मोतीलाल.  
 ८०.००  
 विल्डर, लारा इग्लस बडे वन मे छोटा घर. अनु. हरवशराय  
 शर्मा. इ प्रे २.५० वप्र  
 विल्लोरे. सफाई एव आरोग्य. भोपाल ०.७५  
 विल्शाई, व सोवियत सघ मे स्त्रियों का स्थान पीपुल्स. ०.२५  
 विवेकानंद, स्वामी. आत्मानुभूति तथा उसके मार्ग. स. ५.  
 श्रीरामकृष्ण १.६०  
 ईशदूत ईसा. स. २. श्रीरामकृष्ण. ०.४०  
 कर्मयोग. अपर. २.००, — — नवयुग प्र २.००; — —  
 श्रीरामकृष्ण १.४०, — — सन्मार्ग २.००  
 कवितावली. अनु सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला'. श्रीरामकृष्ण.  
 ०.६२  
 चितनीय वाते. श्रीरामकृष्ण. १.३०  
 जागृति का सदेश छात्रहितकारी १.७५  
 जाति, संस्कृति और समाजवाद स. २. श्रीरामकृष्ण. १.२५  
 ज्ञानयोग ना प्र सभा ३.००; — — श्रीरामकृष्ण. ३.५०  
 देववाणी. सं २. श्रीरामकृष्ण. २.७५

धर्मरहस्य. सं. ३. श्रीरामकृष्ण. १.२५  
 धर्मविज्ञान. स ३. श्रीरामकृष्ण. २.००  
 पत्रावली स २ श्रीरामकृष्ण. भा. १ ५.२५; भा. २.  
 ४.२५  
 परिव्राजक (मेरी भ्रमण-कहानी). स. ५. श्रीरामकृष्ण.  
 १.५०.  
 पवहारी बाबा स ३. श्रीरामकृष्ण. ०.६०  
 प्राच्य और पाश्चात्य. स ५ श्रीरामकृष्ण १.२५  
 प्रेमयोग. स ४ श्रीरामकृष्ण २.००  
 भक्ति और वेदात सन्मार्ग. २.००  
 भक्ति योग. श्रीरामकृष्ण. १.५०, — — सन्मार्ग. २.००  
 भगवान श्रीरामकृष्ण, धर्म तथा सघ स. २. श्रीरामकृष्ण  
 ०.८७  
 भारत मे विवेकानंद. स २. श्रीरामकृष्ण. ५.००  
 भारतीय नारी स ५ श्रीरामकृष्ण १.३०  
 मन की शक्तिया तथा जीवन-गठन की साधनाएं. स. ४  
 श्रीरामकृष्ण ०.५०  
 मरगोत्तर जीवन. स. ३ श्रीरामकृष्ण ०.५०  
 महापुरुषों की जीवन गाथाएं स. ६. श्रीरामकृष्ण. १.५०  
 मेरा जीवन तथा ध्येय. स. ३ श्रीरामकृष्ण. ०.५०  
 मेरी समर-नीति. स. ३. श्रीरामकृष्ण. (पा) ०.६५  
 मेरे गुरुदेव स. ७ श्रीरामकृष्ण १.००  
 राजयोग. मातृ-भाषा. २.५०, — — श्रीरामकृष्ण ३.००  
 वर्तमान भारत स. ५. श्रीरामकृष्ण ०.५०  
 विविध प्रसंग श्रीरामकृष्ण १.१२  
 विवेकानंदजी के उद्गार स ३. श्रीरामकृष्ण. (पा) ०.५०  
 विवेकानंदजी के सान्निध्य मे श्रीरामकृष्ण ०.६०  
 विश्वशांति का सदेश सन्मार्ग २.५०  
 वेदात धर्म छात्रहितकारी २.००  
 व्यावहारिक जीवन मे वेदात स. २ श्रीरामकृष्ण. १.१५  
 शक्तिदायी विचार स ५ श्रीरामकृष्ण (पा.) ०.६५  
 शिकागो वक्तृता. स. ८. श्रीरामकृष्ण. ०.६५  
 शिक्षा स. ४. श्रीरामकृष्ण ०.८५  
 सफलता का रहस्य. अर्चना प्र १.००  
 सरल राजयोग स. २. श्रीरामकृष्ण ०.५०  
 स्वाधीन भारत ! जय हो ! स. ३ श्रीरामकृष्ण. १.५०  
 स्वामी विवेकानंदजी की कथाएं स ३. श्रीरामकृष्ण. १.  
 स्वामी विवेकानंदजी से वार्तालाप. स. २. श्रीरामकृष्ण.  
 १.३७  
 हम क्या चाहते है ? सन्मार्ग १.५०  
 हमारा भारत. स २ श्रीरामकृष्ण ०.६५  
 हिंदू धर्म स ३. श्रीरामकृष्ण १.५०  
 हिंदू धर्म के पक्ष मे स. ३. श्रीरामकृष्ण. ०.७५  
 विवेकीराय गावों की दुनिया. रामप्रसाद. २.५०  
 फिर बैतलवा डाल पर. भा ज्ञानपीठ. ३.५०. नि.  
 विशभरनाथ जिज्जा रूस मे युगातर हिं. पु. ए. २.२५  
 विशनदास 'वीर' आदर्श कटाई एवं सिलाई शिक्षा. कल्याण  
 मल. भा. १. १.२५; भा. २ १.७५

विशाखदत्त. मुद्राराक्षस सस्ता ०४० वप्र.  
 विशालमणि नारायण कर्म कांड भास्कर श्यामलाल. ५५०  
 गिरिजा शंकर गुटका श्यामलाल १५०  
 चारो धाम माहात्म्य श्यामलाल १.००  
 दुर्गापूजा पद्धति श्यामलाल १५०  
 परिवार नियोजन श्यामलाल १००  
 पितृकर्म पद्धति श्यामलाल ४.००  
 पूजा पद्धति श्यामलाल ३५०  
 पूजा भास्कर श्यामलाल २००  
 रुद्राष्टाध्याई श्यामलाल १००  
 वृत्तमाला श्यामलाल ०३७  
 शिवमहीम्न मूल श्यामलाल ०३७  
 सिद्ध महाविद्या स्तोत्र श्यामलाल ०२५  
 सूक्ति कुसुम वाटिका श्यामलाल ०३७  
 स्वतंत्र भारत श्यामलाल १५०  
 विश्वकर्मा, पी पी सरल स्वास्थ्य विज्ञान भा १. ०६२, भा  
 २ ०७५, भा ३ ०७५  
 विश्वोई भारतीय विज्ञान की कहानी लोकप्रिय ३५०  
 विश्वोई, शिवरानी उपकार नद ब्र एव नद स २५०  
 जीवन की अनुभूतिया. नद ब्र एव नद स २५०  
 दुर्भाग्य नद ब्र एव नद स २५०  
 भीगी पलके नद ब्र एव नद स ५५०  
 विश्वभर 'अरुण', १९३६- कविवर पत और उनका रश्मि-  
 बध प्रदीप ३५०  
 ध्रुवस्वामिनी एक विवेचन हि सा स १५०  
 पत की काव्य कला प्रदीप २००  
 पद्य प्रवेशिका की टीका विनोद २००  
 रश्मिबध की टीका प्रदीप २५०  
 रहीम सतसई (दोहावली) विनोद १५०  
 हिंदी कवियों की शैलिया. प्रदीप १००  
 विश्वभर 'अरुण' दे जुयाल, गुणानंद  
 विश्वभर 'अरुण' दे मिश्र, भगवतस्वरूप  
 विश्वभरनाथ कलियुगीन अभिमन्यु गयाप्रसाद २०० ना  
 नेताजी सुभाषचंद्र बोस गयाप्रसाद १७५ ना  
 विश्वभरप्रसाद देहात की समस्याए सर्व-मुलभ ४००  
 विश्वभर 'मानव' अवसाद कि महल ०७५ का  
 आधुनिक कवि लोकभारती ४००  
 उजड़े घर कि महल ५०० उ  
 ओस और किरण कि महल ३०० ए  
 कामायनी की टीका कि महल ६००, — —सशो. स ६.  
 लोकभारती ६५०  
 कावेरी. कि महल ४०० उ  
 काव्य का देवता निराला लोकभारती ४५०  
 खडी बोली के गौरव ग्रथ कि. महल ३.००  
 नदी राजपाल ३०० उ  
 नयी कविता सा भवन, इ ४००  
 निराधार कि महल १.२५ का  
 पीले गुलाब की आत्मा. भा ज्ञानपीठ. ४.००. उ.

प्रसाद और उनकी कविता कि महल ४००  
 प्राचीन कवि लोकभारती ३००  
 प्रेमचंद. कि महल ३०० आ  
 प्रेमिकाए कि महल ५०० उ  
 भाषा साहित्य और सस्कृति. कि महल ४०० नि  
 महादेवी की रहस्य साधना कि महल ३.५०  
 लहर और चट्टान कि महल २५० ए  
 साहित्य के आलोक-स्तंभ एस चाद १०० नि  
 सुमित्रानंदन पत कि महल ६०० आ  
 हमारे कवि कि महल १०० नि.  
 हमारे प्रतिनिधि कवि लोकभारती ६००  
 हमारे प्रतिनिधि लेखक लोकभारती. ६००  
 विश्वकर्मा, पी पी सरल स्वास्थ्य विज्ञान नद स भा. १  
 ०६२, भा २-३ ०७५ (प्र)  
 विश्वकर्मा, वावूलाल लोहारी शिक्षक श्री प्रभाकर १५०  
 विश्वकर्मा, रामदुलारी पाक शास्त्र-विधि राष्ट्र प्र म २००  
 विश्वनाथ गांधी-दर्शन राजपाल ०७५  
 गुलीवर की कहानी राजपाल ०.५० वप्र  
 बाल सत्यार्थप्रकाश राजपाल १०० वप्र  
 मेरी कहानी सुनो. राजपाल ०६० वप्र  
 रसीली कहानिया राजपाल ०.५० वप्र  
 शिक्षापूर्ण कहानिया राजपाल ०५० वप्र.  
 सच का बोलवाला दि प्रे २०० कथा  
 सदाचार और साहस की कहानिया राजपाल १००. वप्र  
 साहस के पुतले राजपाल ०७५ वप्र  
 हसो और सीखो राजपाल ०५० वप्र  
 —तथा चौधरी. ज्योतिष शास्त्र के मूल सिद्धात गर्ग ब्र  
 ०६२  
 —तथा अन्य मानव भूगोल के सिद्धात कि महल ७५०  
 —सपा जलते प्रश्न दि प्रे २०० क  
 बजर धरती दि प्रे ३०० क  
 मध्य शताब्दी दि प्रे २०० क  
 समाज के देवता दि प्रे २०० ए  
 हम भुके नहीं दि प्रे २०० क.  
 विश्वनाथप्रसाद अमरवेलि स २ सा सेवक ३२५  
 कृषि-कोश (ख. १ अ से घ तक) वि राष्ट्र ३००  
 —तथा अन्य भारतेदु और उनके नाटक रा वेनीमाधव  
 १२५  
 —सपा अनुसंधान के मूल तत्त्व क मु हि २००  
 नजीर का काव्य-संग्रह क मु हि  
 पिंगल-संग्रह क मु हि  
 मगही-संस्कार गीत वि राष्ट्र ६५०  
 —तथा देवेन्द्रनाथ शर्मा, सपा भारत की आर्थिक समस्याए  
 ग्रथमाला १००  
 —तथा सुधाकर भा, सपा लिंगविस्टिक सर्वे आफ् मानभूम  
 एड सिंहभूम वि राष्ट्र ४५०  
 विश्वनाथप्रसाद दे दाऊद, मौलाना  
 विश्वनाथप्रसाद. दे बनचारीलाल 'शोला'.

- विश्वनाथप्रसाद. दे मुरलीधर कविभूषण  
विश्वनाथ राहुल अरुण हिंदी व्याकरण तथा रचना यग मैत्र  
२.८७  
विश्वनाथलाल 'शैदा'. कामायनी की व्याख्यात्मक आलोचना.  
हि प्रचा पु. ८००  
विश्वनाथ विद्यालकार बाल सत्यार्थप्रकाश. सशो. स. आर्य  
सा १.००  
वैदिक गृहस्थाश्रम गोविंदराम ५.००  
वैदिक पशुयज्ञ-मीमासा आर्य सा १.००  
विश्वनाथ शास्त्री. आदर्श प्रस्ताव रत्नमाला मोतीलाल. ५ ००  
दयानंद जीवनी साहित्य. भा. प्राच्य. ०.४०  
न्याय सिद्धांत. मुक्तावली प्रश्नोत्तरी मोतीलाल. १ २५  
प्रारम्भिक पाणिनीय मोतीलाल १.००  
बाल निवधादर्श. मोतीलाल १ ५०  
लघु सिद्धांत कौमुदी मोतीलाल २.००  
—टीका. मध्य सिद्धांत कौमुदी मोतीलाल ५ ५०  
विश्वनाथ सिंह अलकारवाद तत्त्व और पद्धति अर्चना प्र, आ.  
चारुचरित चर्चा रा वेनीमाधव ० ५०  
नाटककार प्रसाद और चंद्रगुप्त अर्चना प्र, आ  
—तथा रामेश्वरनाथ तिवारी. ललित निवध. अर्चना प्र., आ.  
३ ००  
विश्ववधु, आचार्य वेद नवाह्निक. विश्वेश्वरानंद. ० ५०  
वेद-सार विश्वेश्वरानंद. १ ५०.  
वेदार्थविमर्श विश्वेश्वरानंद. ० ५०  
श्रीमन्न पुष्पाजलि सूक्त विश्वेश्वरानंद ० २५  
संस्कृत-भाषा-प्रचार विश्वेश्वरानंद ० २५  
सत्सग सार. विश्वेश्वरानंद. १ ३७  
सुखी ससार विश्वेश्वरानंद. ०.५०  
—सपा. वाल्मीकि-रामायण. ७ ख. में से ५ उपलब्ध.  
विश्वेश्वरानंद. १०.०० (प्र.)  
वैदिक-पदानुक्रम-कोष १५ ख. विश्वेश्वरानंद १२ ख कोटी.  
१.४८०.००; १२ ख. कोटी २ ३६० ००, १२ ख.  
कोटी ३ २४० ००  
हस्तलेख-संग्रह-परितालिका २ ख विश्वेश्वरानंद ८०.००  
विश्वमित्र उच्चतर समाजशास्त्र. केदारनाथ. भा. १ ६.७५,  
भा २ ४ २५  
ग्रामीण समाजशास्त्र. केदारनाथ. ६ ७५  
परिवार और समाज. केदारनाथ ५.५०  
सामाजिक अनुसंधान. केदारनाथ ७ ५०  
सामाजिक तथा सांस्कृतिक मानवशास्त्र. केदारनाथ. ६.७५  
सामाजिक विघटन. केदारनाथ ६ ७५  
सामाजिक विचारक केदारनाथ ६ ७५  
सामाजिक सस्थायें केदारनाथ ८ ७५  
विश्वमित्र, जे उपन्यास कला एक विवेचन नद. द्र. ४.५०  
विश्वमोहनकुमार सिंह, १९०२- जीवन-लहरी. पु भ. ३ ००.  
उ.  
मुक्ता के दाने ग्रथमाला. ३.००. क  
विश्वमोहनकुमार सिंह. दे. इक्सन, हेनरिंक

- विश्वेश्वर प्रपच परिचय हिं ग्र र. २.००  
विश्वेश्वर, आचार्य ध्वन्यालोक ज्ञानमंडल १२.०० ?  
मनोविज्ञान मीमासा आत्माराम ८.००  
हिंदी काव्यालकार-सूत्र आत्माराम १२.००  
हिंदी-वक्रोक्तिजीवितम् आत्माराम. १६ ००  
विश्वेश्वर, आचार्य दे. मम्मट  
विश्वेश्वरनारायण दर्शनशास्त्र की दो मूल प्रवृत्तियां. कला-  
भा. २.२५  
विश्वेश्वरप्रसाद मेहदी पिस गई सर्व-सुलभ.  
लोकतंत्र का जन्म सर्व-सुलभ  
विश्वेश्वर सिद्धांतशिरोमणि, व्या हिंदी न्यायकुसुमाजलि.  
चौखवा ६.००  
विश्वेश्वर सिद्धांतशिरोमणि. दे. केशवमिश्र  
विश्वेश्वरय्या, जी, दे कृष्णराव, एम वी  
विष्णुअनुग्रह नारायण इंग्लैंड का आर्थिक इतिहास. ग्रथमाला.  
२ ७५  
इंग्लैंड का सामाजिक इतिहास ग्रथमाला २ ५०  
विष्णुकांत शास्त्री. कवि निराला की वेदना तथा अन्य निवध.  
हि प्रचा पु ५.००  
विष्णुकिशोर 'वेचन' अध्ययन के विचार. कल्याणदास. ३ ००.  
नि  
विष्णुदत्त एकाकी विनोद श्री भा. भारती. ३ ००  
चतुर्थ्युग की कुजी रीगल १.२५  
जीनत महल देहाती २ ०० ए  
विष्णुदत्त कविरत्न. क्रांति का देवता . चंद्रशेखर आजाद. प्रेम  
प्र १.५० ना.  
क्रांति का देवता स भगतसिंह प्रेम प्र १.५० ना.  
क्रांति का देवता शिवाजी प्रेम प्र. १ ५०. ना  
तीन श्रेष्ठ नाटक प्रेम प्र. ४ ५०  
दो प्यारे मित्र प्रेम प्र २ ००. ना  
लद्दाख के आचल में प्रेम प्र २ ५० ना  
विष्णुदत्त 'तरंगी' जय कश्मीर दि प्रे ७ ५० का  
विष्णुदत्त श्रीश. ब्रह्मचर्य साधन देहाती १ ००  
विष्णुदयाल शिक्षा सिद्धांत की रूपरेखा किशोर पब्लि. ३ ७५  
विष्णु पकज सतिया पागल हो गई भाग्योदय २ ००. ए.  
विष्णु प्रभाकर १९१२- अशोक तथा अन्य एकाकी नाटक  
रा. वेनीमाधव २ ००  
ऐसे ये सरदार. सस्ता ० ४०. वप्र.  
कस्तूरवा गांधी सस्ता ० ४० वप्र.  
'कुती के बेटे सस्ता. १ ०० वप्र.  
कुम्हार की बेटा. सस्ता ० ४० वप्र  
खंडित पूजा सस्ता ३ ०० क  
जब दीदी भूत बनी सस्ता १ ०० वप्र.  
जमना-गंगा के नहर में सस्ता ५ ००  
जाने अनजाने स २. विश्वविद्यालय ३.००  
जीवन-पराग सस्ता. १ ०० कथा  
डाक्टर राजपाल. २.५० ना  
तट के वधन. सस्ता. ३.५०. उ.



दस बजे रात आत्माराम ४०० ए  
 दूर और पास रणजीत २००. ना.  
 धरती अब भी घूम रही है राजपाल ३०० क  
 नवप्रभात सस्ता १०० ना  
 निश्चिकात आत्माराम ५५० उ  
 पहला सुख निरोगी काया सस्ता ०५०  
 प्रकाश और परछाई. भा सा प्र ३०० ना.  
 बदरीनाथ सस्ता ०४० बप्र  
 बाजीप्रभु देशपांडे. सस्ता ०४० बप्र.  
 वापू की वाते सस्ता ०४० बप्र  
 वारह एकाकी भा ज्ञानपीठ ३५०  
 मन के जीते जीत सस्ता ०४० बप्र  
 मुरव्वी सस्ता ०४० बप्र.  
 यमुना की कहानी सस्ता ०४०  
 ये रेखाए, ये दायरे हिं अ र ४०० ना.  
 रवींद्रनाथ ठाकुर सस्ता ०४० बप्र  
 शंकराचार्य सस्ता ०४० बप्र  
 शरत्चंद्र पीपुल्स १५० बप्र  
 सघर्ष के बाद स २ भा. ज्ञानपीठ ३००. क  
 सफर के साथी श्रीराम मेहरा १.५० क  
 समाधि औरिएटल २५० ना  
 सरकारी नौकरी यग मैन १.८७  
 स्वप्नमयी राजकमल २०० उ  
 हजरत उमर ०४० बप्र  
 हमारे पडोसी सस्ता ०४० बप्र  
 हारू-अल-रशीद सस्ता ०४० बप्र  
 —सपा रीढ़ की हड्डी सस्ता १५० ए.  
 सप्तदशी सस्ता २०० क  
 विष्णुप्रसाद दे श्रीवास्तव, पन्नालाल  
 विष्णुप्रसाद जानी गुजराती साहित्य का नवीन इतिहास. आर्य  
 बुक २५०  
 विष्णुप्रसाद जानी दे त्रिवेदी सुरेश  
 विष्णुमित्र गीता वचनामृत गोविंदराम.  
 विष्णुशर्मा पंचतंत्र हिंद पा १००  
 सनोवर की छाह कि महल २५० उ  
 सूरज डूबने से सूरज उगने तक कि महल २५० उ  
 हितोपदेश सग्रह रा बेनीप्रसाद २५०  
 विष्णुस्वरूप, अनु ग्रिम की कहानिया हिं प्रचा पु २५०  
 बप्र  
 हेस एडरसन की श्रेष्ठ कहानिया हिं प्रचा पु २२५ बप्र.  
 विस्मिल तीरे नजर मातृ-भाषा २००  
 दर्दे दिल मातृ-भाषा ३००  
 नहू की शायरी मातृ-भाषा २००  
 विस्मिल की शायरी मातृ-भाषा २२५  
 वीटी, जान वाई लूथर बरवैक एस चाद १५० बप्र  
 वीरानाथ सदेह की आग कला-नि. २०० बप्र  
 वीर दे रामअवतार 'वीर'  
 वीर दे विशनदास 'वीर'

वीरकेश्वरप्रसाद सिंह विश्व के प्रमुख संविधान पु अ., रा.  
 ४१२  
 वीरदेव दे मजूला 'वीरदेव'.  
 वीरदेव 'वीर' गीत और नाद इ. पब्लि १०० स्काउटिंग.  
 दृश्य-सरिता इ पब्लि १२५ ए  
 न्याय इ प्रे १२५ ना  
 भूख इ प्रे १०० ना  
 सघर्ष इ प्रे १७५ ना  
 वीर राजेद्र ऋषि रूसी लोक-साहित्य आत्माराम ४००  
 वीर राजेद्र ऋषि दे पुश्किन.  
 वीरसिंह, भाई तथा अमृता प्रीतम कविश्री-माला पजावी.  
 राष्ट्र प्रचा समि २००  
 वीरा मौत का फूल एस चाद १७५ उ  
 वैभव, विलास और मनुष्य एस चाद २.०० उ  
 वीरा, सोमा, १९३२- धरती की वेटी. आत्माराम. ७.५०  
 क  
 वीरेद्र द्वारका सस्ता ०४० बप्र  
 वीरेद्रकुमार मुक्तिदूत स २ भा ज्ञानपीठ ५००. उ  
 वीरेद्रकुमार सिंह आधुनिक आदर्शपाठ टीकाए साधना म.  
 २५०  
 वीरेद्रनारायण कला की कुटिया मे ज्ञानपीठ १.२५. जी.  
 जिंदगी का नशा ग्रथमाला १२५ ना  
 धरती पर घावा ज्ञानपीठ १०० बप्र.  
 विज्ञान के पथ पर ज्ञानपीठ ०७५ बप्र  
 साहित्य-सेवा कला-नि २५० ए  
 वीरेद्र 'मृदु' प्रथम प्रयास अग्रवाल प्रि ०७५ का  
 शैशव गयाप्रसाद ०७५ बप्र  
 वुड, लार्ड चार्न लोकमान्य लिंकन एस चाद ४५० जी  
 वुडवर्थ मनोविज्ञान अपर १२५०  
 वूल्सले, रोलेड ई, सपा भारतीय पत्रकारकला ज्ञानमंडल  
 ६५०  
 वू दावन बिहारी दे राठी, एस एस  
 वेंकटेश्वर राव, काट्टूरि दे कवुले, तिष्पति वेकट  
 वेंकटेश्वर राव, नाल प्रतिनिधि रचनाए भा ज्ञानपीठ  
 ३५० ना.  
 वेट, जेराल्ड परमाणु ऊर्जा और उसके शांतिपूर्ण उपयोग.  
 अनु निवास राय इ प्रे २.००  
 वेणीप्रसाद गुरु गोविंदसिंह ना प्र सभा ३०० जी  
 सक्षिप्त सूरसागर इ प्रे ३५० का  
 वेद, विमल, १९३३- अर्चना. दि प्रे ३०० उ  
 असली हीरा नकली हीरा भा सा सदन ३००. उ  
 ज्योति-किरण राजहस ४०० उ  
 वेदज्ञ आर्य कथा-कौमुदी नेशनल. ३००. क.  
 वेदप्रकाश एम्प्लीफायर लाउडस्पीकर बनाना देहाती. १.३५  
 वच्चो का टेलीफोन देहाती १२५  
 वच्चो का रेडियो देहाती १२५  
 वच्चो का वायरलैस देहाती ११५  
 वच्चो के वैज्ञानिक खेल. देहाती -१२५

विन विजली का रेडियो. देहाती. १.२५  
 विना दिल का इसान. प्रगतिशील ३०० उ.  
 रेडियो का साधारण ज्ञान देहाती. १२५  
 लोकल रेडियो सेट देहाती १२५  
 सर्किट डायग्राम्स ऑफ रेडियो देहाती ३७५  
 वेदप्रकाश. हीर प्रगतिशील २५० उ.  
 वेदप्रकाश 'टोरी' आरती के थाल. नवीनतम ४.२५  
 काच के टुकड़े. प्रेम प्र ३५० उ.  
 तिनको की ओट में नवीनतम  
 लघु कोशिनी नवीनतम  
 वेदप्रकाश शास्त्री राष्ट्रभाषा रचना स. ८ गुप्ता प्र १२५  
 सुक्ख के वेद. स २ गुप्ता प्र. १.१५  
 हमारी कहानी स २ गुप्ता प्र १२५  
 हिंदी-अंग्रेजी शब्द कोष. गुप्ता प्र ३००  
 —तथा धर्मपाल शास्त्री निवध सरोज आर्य बुक ३७५  
 वेदप्रकाश सिंह. अफ्रीका और एशिया दि पु स १५००  
 द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् एशिया अफ्रीका. दि. पु स.  
 १५.००  
 भारत के प्रमुख उद्योग आत्माराम. ७५०  
 लोक-प्रशासन. आत्माराम. १०००  
 वेदामत्र व्रति'. कृष्णाकाव्य की रूपरेखा ओरिएण्टल. ३.५०  
 रूपक-विकास सा. रत्न-माला २५०  
 वेदव्यास. श्रीमद्भागवत २ ख इ प्रे ८०० (प्र)  
 हिंदी-महाभारत. १० ख इ. प्रे ख १-८. १०००, ख ९.  
 ५.५०, ख. १०. ४२५  
 वेदानंद, स्वामी. वैदिक धर्म. गोविंदराम २००  
 वेदानंद तीर्थ, स्वामी. जीवन की भूले. विरजानंद. ०.५०  
 वृहद् यज्ञ पद्धति. विरजानंद ०५०  
 वेदोपदेश. आर्य सा. १००  
 सत्यार्थप्रकाश (सटिप्पण) विरजानंद १५००  
 सत्यार्थप्रकाश का प्रभाव विरजानंद १००  
 सावित्री प्रकाश. विरजानंद १.००  
 स्वाध्याय विरजानंद ०५०  
 स्वाध्याय सदोह विरजानंद. ६००  
 वेदानंद सरस्वती, स्वामी वेद परिचय गोविंदराम. ०३७  
 वेदालंकार, हरिदत्त दे हरिदत्त वेदालंकार  
 वेदी, नरेश, नेहरूजी का विद्यार्थी जीवन. सस्ता. ०.४०  
 वप्र  
 राजेद्रवावू का वचन सस्ता. ०४० वप्र  
 सामान्य ज्ञान. राजकमल. (पा) १००  
 वेदी, नरेश. दे गुप्त, ब्रह्मानंद  
 वेदी, नरेश दे सक्सेना, मुनीश  
 वेदी. यह भी दे. वेदी.  
 वेपर, सी. एल राजदर्शन का स्वाध्यायन कि महल ४००  
 वेलणकर, हरि दामोदर, सपा सभाप्य रत्नमजूपा. भा  
 ज्ञानपीठ २००  
 वेलाक विल्फ्रेड गांधी : एक सामाजिक क्रांतिकारी. अ भा.  
 सर्व. ०.३७

वेलेटाइन तथा विलियम्स चिडिया की तिग्गी अपर. २.७५.  
 उ.  
 वेल्स, एच जी. आकाश में युद्ध इ. प्रे २०० वप्र.  
 दो लाख वर्ष बाद. राजपाल २००. उ  
 लोको का युद्ध राजपाल. ४.०० उ  
 वैदिक, जीन अतरिक्ष यात्रा की प्रथम पुस्तक आत्माराम.  
 ४००  
 वैद, कृष्णबलदेव, १९२७- उसका बचपन सरस्व. प्रे  
 ३०० उ.  
 बीच का दरवाजा नीलाभ ३७५ उ.  
 वैद्य, किशोरीदास कौमार्य भृत्य व बाल चिकित्सा सा. नि.  
 का १५०  
 गृह वस्तु चिकित्सा या घरेलू चीजों से इलाज. सा  
 नि., का. १००  
 वैद्य, किशोरीलाल तट के बंधन कुमारसन्ज ३१०. उ  
 सफेद प्रतिमा, काले साये. कुमारसन्ज ३०० क.  
 वैद्य, बालचंद्र एकाकी सरोवर. कल्याणमल २५०  
 —तथा हरिशंकर शर्मा. सरल माध्यमिक सामाजिक अध्ययन.  
 यग मैन. ४५०  
 वैद्य, सुरेश जगल की ओर आत्माराम. ६.००  
 वैद्यनाथ शास्त्री कर्म-मीमांसा सशो स २. आर्य सा २२५  
 वैदिक-इतिहास-विमर्श आर्य सा ८००  
 वैशपायन, प. ग र, सपा मराठी से हिंदी शब्दसंग्रह. अनाथ.  
 ६००  
 हिंदी-मराठी-लोकोक्ति-कोष अनाथ ०५०  
 हिंदी-मराठी-व्यवहारकोष स ४ अनाथ ५२५  
 वैश्य तथा गुप्ता अनिवार्य हाई स्कूल गणित. रा वेनीमाधव.  
 ३७५  
 अनिवार्य हायर सेकेंड्री गणित रा. वेनीमाधव. ४७५  
 वैश्य, आर के प्रारंभिक गति-विज्ञान. रा वेनीप्रसाद २.५०  
 वैश्य, एम. सी आर्थिक विचारों का इतिहास रतन. १३००  
 मुद्रा की रूपरेखा रतन ७५०  
 वैश्य, गायत्रीदेवी, सपा. हिंदी काव्य यग मैन २००  
 वैश्य, चट्टाल तथा देवदत्त शर्मा हाई स्कूल कृषि शास्त्र. रा.  
 वेनीप्रसाद २.५०  
 —तथा भगवतीप्रसाद शर्मा व्यवहार गणित प्रवेशिका. रा  
 वेनीप्रसाद भा १ ०५०, भा २. ०७५, भा ३ ०६२  
 वैश्य, चंद्रभूषण कुलवोरन इ प्रे. २५० उ  
 राजदुलारी इ प्रे. ११५ उ.  
 वैश्य, जयनारायण आधुनिक वही-खाता एस. चाद. भा. १.  
 ४.००, भा २. ७५०  
 वैश्य, जे डी. कुछ साधारण रोग और उनका इलाज. ज्ञान  
 भारती २.५०  
 घर में वैसिक शिक्षा नद स १००  
 तात्कालिक चिकित्सा ज्ञान भारती. २.५०  
 दैवी दुर्घटनाएँ और उपचार ज्ञान भारती. २.५०  
 नवीन स्कूल वीजगणित लक्ष्मी ना ४००  
 नवीन हायर सैकेंड्री वीजगणित. लक्ष्मी ना. ४.५०

बालक और वैसिक शिक्षा. नद स १.५०  
 बाल मनोविकास की कहानी रा वेनीमाधव. १५०  
 वैसिक शाला मे बालक नद स १२५  
 वैसिक शिक्षा नद स १५०  
 मक्की, मच्छर, चूहों की शैतानी. ज्ञान भारती. २५०  
 श्रमदान महिमा ज्ञान भारती २५०  
 हमारा स्वाधीनता दिवस पद्मह अगस्त ज्ञान भारती २५०  
 —तथा एस डी अग्रवाल घरेलू हुनर राजकमल (पा)  
 १.००  
 —तथा एस. डी वाजपेयी नवीन हायर सैकण्ड्री अकगरिणत  
 लक्ष्मी ना ३२५  
 —तथा बशीधर देश-देश के वच्चे आत्माराम १५० वप्र  
 वैसिकशाला मे सजा से कैसे छुटकारा पाए ? आत्माराम  
 १००  
 —तथा सरोज वैश्य साहसी बालक आत्माराम १००  
 —तथा हरप्रसाद गुप्त उच्चतर माध्यमिक त्रिकोणमिति नद  
 स ४५०  
 माध्यमिक निदेशाक ज्यामिति नद स ४.५०  
 वैश्य, जे डी दे बशीधर  
 वैश्य, पन्नारानी तथा बशीधर मोटीसोरी शिक्षा-पद्धति हि  
 प्रचा पु १२५  
 वैश्य, पन्नारानी दे. बसल, सरोजरानी  
 वैश्य, रामजीदास ललिता गगा ३०० उ  
 वैश्य, रूपलाल, सपा रूप निघटु ना प्र सभा. १५०  
 वैश्य, सरोज दे वैश्य, जे. डी  
 वैश्य, सोहनलाल मिलन अवध ३२५ उ  
 वैष्णव, यमुनादत्त 'अशोक' अन्न का आविष्कार इ प्रे. २२५  
 उ.  
 चाद और तारो की कहानी रा वेनीप्रसाद. १२५. वप्र  
 दीपहर को अघेरा वीरा. ३५० उ  
 भेड और मनुष्य इ प्रे. १७५ क.  
 शैलवधु आत्माराम ३०० उ  
 सूर्य की कहानी रा वेनीप्रसाद १२५. वप्र.  
 बोकडीया, एम एम दे सिंह, आर एन  
 वीरा एड कपनी गुजराती-हिंदी कोष वीरा २.००  
 हिंदी मराठी कोष. वीरा. २००  
 वोल्कोव, अ धरती और आकाश पीपुल्स ३५६  
 वोल्फ, डब्ल्यू वैरान प्रेम और विवाह राजकमल. १२५  
 व्यथित दे जयजयराम व्यथित  
 व्यथितहृदय, १९०८- अघेरे का शत्रु प्रकाश सुभाष एड क.  
 १६०  
 अच्छा बालक विनोद ०७५ वप्र.  
 आवाज की कहानी शकुन १६०  
 कथा-कल्पतरु ग्रथमाला १००. वप्र  
 कहानी-कला और कलाकार रा. वेनीप्रसाद. २००  
 काव्य वल्लरी चौखवा ४००  
 कौतुकी जीव जतु विनोद ०७५  
 खेती की कहावतें. ग्रथमाला ०.६२

गढ आया, पर सिंह गया एस चाद १५० वप्र  
 गद्य गरिमा रा वेनीमाधव १२५  
 गरम आसू साधना सा सदन २०० उ  
 गाव गाव के जागे भाग विनोद १०० वप्र  
 गुडगुडी स ४ हि भवन ०५० वप्र.  
 चरित्र निर्माण की कहानिया छात्रहितकारी १५०  
 जगल की कहानिया स ५ हि भवन ०७५ वप्र  
 जब चद्रमा धरती पर उतरा था सुरेद्र १५० वप्र.  
 जिन्हे हम याद रखते है विनोद ०७५  
 जीवन मूर्तिया ग्रथमाला ०७५ वप्र  
 जीवन रश्मिया भा प्र मंदिर १२५  
 टालस्टाय की कहानिया रा वेनीप्रसाद. ०६५  
 देश-देश के किसान कि महल १५० वप्र  
 नया निराला हिंदुस्तान नवचेतना १२५ वप्र  
 नारी आदर्श हि २०० उ.  
 निवध-मुक्तावली रा वेनीमाधव २५०  
 नीति कथाए कि महल १५०  
 नेताओ का वचपन हि पु ए ०६४ वप्र  
 पढे-लिखे किसान कि महल १५०  
 पानी और हमारा जीवन शिक्षण १६०  
 पूजा के फूल भा प्र मंदिर १०० ए.  
 प्राणदान ग्रथमाला १७५ ना  
 प्रेत के घर मे एस चाद १२५ वप्र  
 वचपन की भाकिया लोक चेतना १०० वप्र.  
 बुलबुल स ३ हि भवन ०५० वप्र  
 बौद्ध कहानिया छात्रहितकारी १५०  
 भारत की वीर नारिया स. ६ हि भवन १२५. जी  
 मिट्टी के गुरु नवचेतना १०० वप्र  
 मुक्ताफल श्रीराम मेहरा १२५  
 मैं हवा हू शिक्षण १८०  
 लोकोवित्या रा वेनीमाधव ०६२  
 शिशु-पालन रा वेनीप्रसाद ०६२  
 सकटो के सिपाही एस चाद १५० वप्र  
 सच्ची मित्रता छात्रहितकारी ११२ वप्र  
 सप्तो की लोक-कथाए आत्माराम १५०  
 सवेरे के फूल लोक चेतना १२५ वप्र.  
 साहस के पुतले एस. चाद १०० वप्र.  
 सिंह-सधिया एस चाद १२५ वप्र  
 सिंहासन कौशाबी १२५ उ  
 स्नेहवधन ग्रथमाला १०० ना  
 श्रम से स्वर्ग मिले विनोद ०७५. वप्र,  
 हमारे आधुनिक कवि और उनकी कविताए चौखवा ३५०  
 हमारे काव्यकार रामप्रसाद ३००  
 हमारे गद्यकार रामप्रसाद ३००  
 हमारे साहित्यकार. रामप्रसाद १२५  
 हमारे हरिजन रा वेनीप्रसाद ०३७  
 हाथियो के वन मे एस चाद १२५ वप्र  
 हिंदी के प्रतिनिधि कवि रा वेनीमाधव १२५

- हिंदू तीर्थ रा बेनीमाधव २२५  
व्यथितहृदय. दे पाडेय, शिवाधार.  
व्यामचंद्र, अनु ध्यान से आत्म चिकित्सा कल्पवृक्ष १००  
व्यास, अत्रिकांत आश्चर्य वृतात रामलोचन (पा) १००  
उ.  
व्यास, एस. एन. सक्षिप्त वाल्मीकि रामायण ओरिएटल  
३००  
व्यास, कृष्णशंकर. पश्चिमी घाटो की रानी, महाबलेश्वर  
हि. ग्र र ३०० वप्र  
व्यास, कृष्णानंद 'वेआस' किस ओर जा रहे हो ? वेआस  
२.०० गीत  
त्रिवेणी वेआस २.५०. गीत  
वेआस की खाइया वेआस ०.५०  
वेआस बोल वेआस १०० गीत.  
लाला हरदोल वेआस २५०  
सांस्कारिक लोकगीत वेआस १५०  
सीता के आसू वेआस. ३०० का  
व्यास, गोपालप्रसाद, १९१६- अजी सुनो आत्माराम ५.००  
का  
अरबों के देश मे आत्माराम ३५०. भ्रमण.  
कदम-कदम बढ़ाए जा आत्माराम २००; —हि भवन  
१.०० का  
कुछ सच . कुछ झूठ आत्माराम ४००  
गांधी-चरित आत्माराम ०५०  
चले आ रहे है आत्माराम ४००. का  
चित्रमय गांधी आत्माराम १००  
मैंने कहा आत्माराम ५००  
हमारे राष्ट्रपिता आत्माराम २००  
व्यास, जे पी पाठशालाओ का प्रवध लक्ष्मी ना. ४००  
व्यास, दीनानाथ तू और मैं हि सा भ १५० का  
यौन-ज्ञान गगा ३७५  
हृदय का भार गगा १५० का  
व्यास, नरोत्तम मोतीलाल नेहरू हि प्रचा पु ०७५ जी  
व्यास, नानूराम सस्कृत और उसका साहित्य राजकमल.  
२.२५  
व्यास, नारायण दुलीचंद अन्नो की खेती सस्ता २.००  
कृषिविज्ञान-कोश सस्ता ५००  
तिलहन की खेती सस्ता १००  
दलहन की खेती सस्ता १००  
फलो की खेती सस्ता ३००  
रोक-फसलो की खेती सस्ता १७५  
साग-भाजी की खेती सस्ता ३५०  
व्यास, बद्रीनाथ जीवन के पथ के चरण चिह्न. नद स १५०  
वप्र  
व्यास, बसंतलाल महाभारत की श्रेष्ठ कहानिया भाग्योदय  
३००  
व्यास, ब्रजमोहन बालकृष्ण भट्ट नेशनल. ४५० सस्म.  
महामना मालवीय. साधना सदन. ५.००

- व्यास, भरत गीत भरो ससार स्टार. (पा.) १.००. का.  
तेरे सुर मेरे गीत. प्रचा. पा. १.००  
व्यास, भोलाशंकर ध्वनि सप्रदाय और उसके सिद्धांत. ना. प्र.  
सभा १०००  
भारतीय साहित्य की रूपरेखा चौखबा ७५०  
सस्कृत कवि दर्शन स २ चौखबा ६००  
सस्कृत का भाषा शास्त्रीय अध्ययन. स २. भा. ज्ञानपीठ.  
५.००  
हिंदी कुवलयानंद चौखबा. ६५०  
हिंदी दशरूपका चौखबा ६००  
व्यास भोलाशंकर दे वरो, टी.  
व्यास, मगनलाल हरिभाई सत्सग माला. गीता ०.२५  
व्यास, मदनमोहन. भाव तेरे शब्द मेरे मानसरोवर सा.  
२५०. का.  
व्यास, माधोदास तथा अक्षयचंद्र गर्मा. हिंदी निबंध-विहार.  
गयाप्रसाद २००  
व्यास, मुरलीधर, उज्ज्वल मरिणिया नवयुग ग्र. कु. ०.७५  
वप्र  
दाढी पर टैक्स नवयुग ग्र. कु १५०. हा.  
व्यास, लक्ष्मीशंकर, १९०१- चौलुक्य कुमारपाल. स. २.  
भा ज्ञानपीठ ४५०  
पराडकरजी और पत्रकारिता. भा ज्ञानपीठ ५५०. जी.  
व्यास, लल्लनप्रसाद चरित्र निर्माण की कहानिया. शकुन.  
१२५  
व्यास, विनोदशंकर अशात प्रचा पा. १.००. उ.  
अस्सी कहानिया ना प्र सभा ११००  
उपन्यास-कला स ४. हि सा कु १.७५  
कहानी-कला स ४. हि. सा. कु. १.५०  
नवपल्लव. पु. भ. २२५ क.  
प्रसाद और उनका साहित्य हि. सा कु. ३.१२  
प्रसाद और उनके समकालीन. हि सा कु. ४.००  
मर्म कथा हि सा. कु २०० क.  
यूरोपीय उपन्यास-साहित्य सा सेवक २००  
व्यास, विष्णुप्रसाद आत्म निर्माण कि घर, ग्वा १.५०. नि.  
व्यास, वेद देव-विदेश की कहानिया आत्माराम १.००. वप्र.  
श्रीमद्भगवद्गीता अर्चना प्र. (पा) १००  
व्यास, शांतिकुमार. दे पाडेय, चंद्रगेखर  
व्यास, शांतिकुमार नानूराम क्या आप जानते है ? सस्ता.  
१५०  
रामायण कालीन समाज सस्ता ४५०  
व्यास, श्याम, १९२६- मादल का दर्द. लोक चेतना. २.५०. उ.  
व्यास, श्यामसुंदर गिलट के भुमके विनय १.५०  
पर लौटा कोई नहीं सा सदन, दे. ३५० उ.  
मुहावरो का मेला बसल. १२५ वप्र  
हिंदी महाकाव्यो मे नारी चित्रण सा सगम, म १२.५०  
हिंदी साहित्य का सक्षिप्त इतिहास मानकचंद. १.२५  
व्यास, श्रीकांत असम की लोक-कथाए. भा. १. आत्माराम.  
१.५०

कुमाऊ की लोक-कथाए. कि महल १५०  
 गुजरात की लोक-कथाए आत्माराम १.५०  
 पजाब की लोक-कथाए. कि महल १५०  
 वुदेलखड की लोक-कथाए कि महल १५०  
 महाराष्ट्र की लोक-कथाए भा १ आत्माराम. १५०  
 राजस्थान की लोक-कथाए कि महल १५०  
 —अनु अस्सी दिन मे दुनिया की सैर राजपाल. १५०. वप्र  
 कठपुतला राजपाल १५० वप्र  
 काला फूल राजपाल १५० वप्र  
 कैदी की करामात राजपाल १५० वप्र  
 खजाने की खोज मे राजपाल १५० वप्र  
 गुलिवर की यात्राए राजपाल १५० वप्र  
 चमत्कारी ताबीज. राजपाल १५० वप्र  
 चादी का बटन राजपाल १५० वप्र  
 जादू का दीपक राजपाल १५० वप्र  
 जादूनगरी राजपाल १५० वप्र  
 डेविड कापरफील्ड राजपाल १५०. वप्र  
 तीन तिलगे. राजपाल १५० वप्र  
 तीसमारखा राजपाल १५० वप्र  
 बर्फ की रानी राजपाल १५० वप्र  
 मूगे का द्वीप राजपाल १५० वप्र  
 राबिनहुड राजपाल १५० वप्र  
 राबिन्सन क्रूसो राजपाल १५० वप्र.  
 वीर सिपाही राजपाल १५० वप्र  
 व्यास, श्रीमतकुमार अलगोजो नवयुग ग्र कु २००  
 राजस्थान की लोक-कथाए नवयुग ग्र कु १००. वप्र  
 रामदूत नवयुग ग्र कु २५०  
 व्यास, सतोष कालिदास आनद पु, वा ४०० उ  
 व्यास, सूर्यनारायण विश्वकवि कालिदास ज्ञान मडल प्र  
 ३.५०  
 व्यासदेव योग दर्शन देहाती. ६००  
 व्याहार, राजेद्रसिंह, १९००- आलोचना के सिद्धात आत्मा-  
 राम ४००  
 गोस्वामी तुलसीदास की समन्वय साधना भा २ ना प्र  
 सभा ४००  
 ग्रामो का आर्थिक पुनरुद्धार हि सा सम्मे २५०  
 पंचकल्याण. एस चाद ४००. उ  
 विनोवा-सवाद अ भा सर्व ०३७  
 सर्वोदय अर्थशास्त्र कला-नि  
 प्रजविहारीशरण प्राचीन और नवीन कला-नि ३५०  
 व्रति दे. वेदमित्र 'व्रति'  
 प्रोकर, गुलाबदास तथा धनमुखलाल मेहता धूमरेखा राष्ट्र  
 प्रचा समि १२५  
 व्हीयर, के सी आधुनिक सविधान राजकमल ३५०  
 व्हीरा तथा वनमाली विक्रय कला, विक्रय सगठन तथा विज्ञा-  
 पन रामप्रसाद ४५०  
 व्हीरा तथा अन्य साहित्यकी के सिद्धात लक्ष्मी ना ६५०  
 व्हीरा, आशारानी, वस्त्र-विज्ञान. आत्माराम. ६५०

हम और हमारा समाज आत्माराम १.०० वप्र

## श

शकर कहानी से मनोरंजक सच्ची घटनाए ना. प्र सभा.  
 १५० वप्र  
 चौरंगी राजकमल उ  
 हिंदी अंग्रेजी ग्रामर रगभूमि ३००  
 शकर दे द्विवेदी, गारीशकर 'शकर'  
 शकर कुरूप, जी दे वल्लतोलजी  
 शकरदयाल मध्यकालीन भारत स ५ रस्तोगी ७००  
 शकरदयाल सिंह मूर्खराज को राज मिला पारिजात ०३७.  
 वप्र  
 हिंदी साहित्य परपरा. चिंतन तथा अनुभूति पारिजात  
 ३००  
 शकरदास. ब्रह्मज्ञान शकरदास देहाती २.५०  
 शकरदेव तथा माधवदेव वरगीत असम ०.४०. का  
 शकर वधु दिन के सपने श्रीराम मेहरा २००  
 शकरराव, के तथा श्याम खडेलवाल सरस्वती अक गणित.  
 श्री सरस्वती भा १ ०५०, भा २ ०७५, भा. ३.  
 १.००, भा ४ १२५  
 शकरराव, के दे खडेलवाल, श्याम  
 शकरलाल क्षय-रोग प्रभात पव्लि २०००  
 शकर शैलेद्र न्याता और चुनौती पीपुल्स १०० का  
 शकरसहाय भारतीय अर्थशास्त्र की रूपरेखा. गयाप्रसाद.  
 भारतीय वैकिंग की रूपरेखा गयाप्रसाद  
 शकर सुल्तानपुरी, १९३८- अघेरे का पाप उजाले का पुण्य.  
 नवयुग पु भ ४०० उ  
 इसानियत इन्साफ मागती है. नवयुग पु भ ५.०० उ.  
 उसके भी आत्मा थी नवयुग पु भ २७५ उ  
 किसके आचल मे दाग नही? नवचेतना उ  
 गाव विकास के विभिन्न पहल नवयुग पु भ. ०७५  
 जिदगी दर्द मे डूबी है रामा प्र ३५०. उ  
 जिओ और जीने दो नवचेतना उ  
 ज्ञान विज्ञान अनुपम १०० वप्र.  
 तिरगे भडे की कहानी नवयुग पु भ ०३७  
 धोखा-धडी पुष्पी. ०७५ उ, — —सुरेद्र २.००  
 पखहीन नवचेतना उ  
 प्यास जो बुझ न सकी. पुष्पी ०.७५ उ, — —सुरेद्र  
 २००  
 प्यासा रोया नदी किनारे रामा प्र ३०० उ  
 बुझा चिराग सुलगती वाती नवयुग पु भ ४.०० उ  
 वेला फूले आधी रात नवयुग पु भ ५०० उ  
 मुस्कराहट कैद है नवचेतना ५५० उ  
 मृगतृष्णा पुष्पी १०० उ, — —सुरेद्र ३००  
 यही हमारे गाव है नवचेतना  
 योजना की सिद्धि हमारी समृद्धि. नवयुग पु. भ. ०७५

वैज्ञानिक आविष्कारो की कहानिया. नवयुग पु. भ. ०.७५.

बप्र

शमा बुझ गई सुरेद्र. २२५. उ.

—रूपा. मा प्रकाश पा १००

शकरस्वामी. अपरोक्षानुभूति. गीता ०.१६

शकरा कुरूप, जी, १९०१- कविता-संग्रह अशोक प्र. गृह

शकराचार्य ग्रथावली. भा ३ मोतीलाल ११.७५

शकराचार्य, स्वामी. शिक्षा समस्या रामप्रसाद ०.५०

शकरानन्द, स्वामी ब्रह्मचर्य क्यों और कैसे. भाग्योदय. २५०

ब्रह्मचर्य-जीवन है. भाग्योदय २.५०

भोजन एवं स्वास्थ्य भाग्योदय २५०

व्यायाम शिक्षा. भाग्योदय. २.५०

सौ वर्ष क्यों और कैसे जीये. भाग्योदय. २.५०

स्वास्थ्य एवं योगासन भाग्योदय. २.५०

शंभुनाथ, वैद्य मकरध्वज सिद्धयोग संग्रह. विश्व-कल्याण.

२.५०

शंभुनाथ 'शेष'. आओ गाए राजकमल १.०० बप्र

बाल-मेला. आत्माराम. १.०० बप्र.

शभूदयाल. माध्यमिक रासायनिक गणना. अपर २.२५

शभूनाथ सिंह उदयाचल प्रभात पब्लि २०० का.

गद्य काव्य सकलन. कल्याणदास १.७५

छायालोक. प्रभात पब्लि २.०० का

छायावाद युग सशो. स नद. ब्र ७००

माध्यम मैं हिं प्रचा. पु २.७५. का

हिंदी महाकाव्य का स्वरूप विकास. हिं प्रचा. पु १२.००

—सपा हिंदी काव्य धारा भा १. हिं प्रचा पु २००

शभूलाल दोषी. समाज शास्त्र सिद्धांत और विश्लेषण.

रामप्रसाद. १०००

शभू 'विकल' अफ्रीका के आंचल मे सध्या २५०. उ.

गर्मी की छुट्टियो मे सध्या २.५० उ

विश्व विजेता सिकंदर. सध्या २.५० उ

हौवा की बेटी नवीनतम २५०

शकील बदायूनी कही दीप जले कही दिल. स्टार (पा)

१००

जीवनी और सकलन. राजपाल. १.५०

दूर कोई गाये स्टार (पा) १००

धरती को आकाश पुकारे स्टार (पा) १.००

-रंगीनिया स्टार (पा) १.०० का.

शकुतला आधुनिक काव्य मे सौंदर्य-भावना. नंद सं ४.००

मार्डन शकुतला कशीदाकारी देहाती ४.५०

शकुतलादेवी घर-गिरस्ती राजकमल. (पा.) १.००

पन्नतत्र की कहानिया. ३ भा. राजकमल १.२५ (प्र.).

बप्र.

पाकिस्तान. राजकमल. २००

बाल पचतत्र. राजकमल २००. बप्र.

बीस ऐतिहासिक कहानिया. रा. बेनीमाधव १.००. बप्र

मनपसंद भोजन राजकमल ३.२५; (पा.) १.००

शकुतलादेवी ऋषि. महिला-रत्न. एस. चाद. १.५०. जी.

शकुन और दिया जलता ही रहा. नवयुग पु. भं. ३.२५.

उ.

शक्तिपाल केवल रग बोलते है ओरिएटल. ४.००. उ

शप्पैन, कैथराइन बी. समय की प्रगति. अनु. हसरज रहबर.

आत्माराम. २०० वि

शबनम दे पद्मावती 'शबनम'.

शमशेरबहादुर सिंह आश्चर्य लोक मे एलिस. राजकमल

४००. बप्र

कुछ और कविताए. राजकमल ४००

कुछ कविताए सा. केद्र २५० का

दो आब. सरस्व प्रे. २००

प्लेट का मोर्चा. न्यू लिट. १५०. क.

शमीम हनफी. दे सज्जाद हुसेन, मुशी

शम्सुद्दीन 'वली' अर्चना प्र. (पा.) १.००

शरण कटी पतंग अशोक पा. १००. उ.

काच और कचन उमेश ३००. उ.

चगेज खां. प्रभात प्र ४००. उ.

जूही की कली. नव सा प्र. ३००. उ.

डाल का पछी सहगल ४.७५ उ

पछी, पिंजडा और उडान सहगल ३५०. उ.

प्रेमचंद : सुभाषित और सूक्तिया. सहगल. ४.२५

बचो और बताओ. सहगल. ०५० बप्र.

बवडर नवयुग प्र ५५०. उ.

बहता पानी डौर कहा अशोक पा. १.२५ उ

रवींद्र . सुभाषित और सूक्तिया सहगल ४.५०

रूप का सौदागर. पजावी पु. २००. उ

विचार और समस्याए नव सा प्र ६०० नि.

विज्ञान के मनोरजन सहगल. ०६५ बप्र.

साहित्य सुमन. नव सा प्र. ४.००. नि.

शरण. दे कालिदास

शरण. दे. दीनानाथ 'शरण'

शरणप्रसाद प्राकृतिक चिकित्सा विधि. अ. भा. सर्व.

१.५०

शरत् दे सत्येद्र शरत्.

शरत्चंद्र तथा स्वर्णकाता प्रभाकर आदर्श एकांकी. श्री भा.

भारती २५०

शरत्चंद्र. दे. चट्टोपाध्याय, शरत्चंद्र.

शरतेदु प्यार रोता है आदर्श पु. म. १.५० उ.

महामानव निराला. नवयुग पु भ. २००

मुझे प्यार से नफरत है आदर्श. पु म. १.००. उ.

हल्लो मि. जानी वाकर पुष्पी. ०.७५. उ.; — सुरेद्र.

२.००

शरद् भूपकिया. रामप्रसाद १.५०. क.

नारी, गौरव. रासप्रसाद १५०. जी.

श्रेष्ठ गल्प. राजरजना. (पा.) १.००

—अनु चरित नायक. रामप्रसाद २.५०. उ.

शरद्. दे. ओकार शरद्

शरद्. दे. मिश्र. शरदकुमार, 'शरद'.



- प्रारम्भिक रसायन. रतन. भा. १ २.५०; भा. २ ३.००;  
भा. ३. ४.५०, मपूर्णा ६.००
- शर्मा, एस. पी. नवीन वाणिज्य भूगोल नद व एव नद. स  
२ २५
- भारत में उद्योगों का प्रादुर्भाव सशो सं २ १९६२. लक्ष्मी.  
ना.
- भौतिकी परिचय. भा. भा. प्र. ३ ००
- तथा आर. पी. पुरोहित. भारत में राजस्व के सिद्धांत एवं  
व्यवहार स. १९६४ मानकचद ८ ५०
- तथा वी. एन. गुप्ता वाजार-समाचार तथा निवध-दिग्दर्शन.  
लक्ष्मी ना. २.५०
- तथा अन्य. कृषि भौतिकी भा भा प्रा ३ ००
- शर्मा, श्रीकारनाथ हिंदी-साहित्य में निवध का विकास. अनु-  
सधान. १६.००
- शर्मा, श्रीकारप्रसाद 'कृष्ण' कोर्टे मार्शल पुष्पी ० ७५. उ;  
—सुरेद्र २.००
- शर्मा, श्री. डी. तथा जी. एल. मित्तल. माध्यमिक कृषि भौतिक  
शास्त्र एवं जलवायु विज्ञान रतन ७ ००
- शर्मा, श्रीमप्रकाश. अघरे के दीप राजहस ३ ५० उ.
- श्रीसू नही मुस्कान रतन एड क ३ ०० उ
- आधुनिक साहित्य परिचय. ओरिएटल २.२५
- काता. राजहस ३ ५० उ.
- कामायनी. हि सा स. १.५०
- काव्य रसायन. ओरिएटल. ३ ००
- केशव की काव्य-साधना हि सा स. २.५०
- चाद से आगे शकुन. १ ००
- जयशकर प्रसाद सुभाषित और सूक्तिया. सहगल २.५०
- तुम्हारी कसम रतन एड क. २ ५०. उ.
- पचवटी की टीका रीगल १ ००
- भारतीय सहकारिता-आंदोलन. मध्यप्रदेश शासन. १ ३५
- साभू का मूरज दि पु स ४ ००
- स्नेहदीप. दि पु. स ४ ००
- तथा फूलचंद पाडेय हायर सेकेंडरी हिंदी शब्दकोष. सूर्य  
प्र. २.००
- शर्मा, श्रीमप्रकाश दे ट्रेन, आर्थर.
- शर्मा, श्रीमप्रकाश 'आदिल' धर्ड डिवीजन. हि सा. स ४.३७.  
का.
- शर्मा, कन्हैयालाल नप्त नग्रह कृष्णा व २ ०० ए
- शर्मा, कमला हमारा साथी टीपू. नेशनल. १.००. वप्र.
- शर्मा, कामेश्वर दिग्भूमित राष्ट्रकवि राष्ट्रीय प्र. मडल एव  
राष्ट्रीय सा न २ ५०
- सोप और व्याख्या नाँवट्टी ६ ५० नि.
- शिखरी. राष्ट्रीय प्र. मडल एव राष्ट्रीय सा. स. ३ ००.  
उ.
- शर्मा, लालीगाम. हम नव मित्र गायें सूर्य प्र (पा.)  
१ ००. का
- शर्मा, गिरराजचंद्र. आज की प्रतिनिधि कहानिया. एस. चाद  
२.००

- केगवदास. जीवनी कला और कृतित्व एस. चांद. १५ ००
- हिंदी की प्रतिनिधि कहानिया एस चाद. २.५०
- शर्मा, कुमार 'वनवासी'. उर्दू हिंदी शिक्षिका वबई हि. भा. १.  
०.७५, भा २ १.१२
- शर्मा, कृपाशकर. जब रामराज्य आ जायेगा. विनोद. १.००.  
का
- शर्मा, कृष्णकुमार. मुद्रा विनिमय अधिकोषण तथा राजस्व.  
आगरा बुक ७ ५०
- शर्मा, कृष्णचंद्र तथा देवीशरण रस्तोगी. तुलनात्मक अध्ययन.  
आत्माराम ३ ००
- भाषा-विज्ञान-दर्शन. आत्माराम. २ ००
- शर्मा, कृष्णचंद्र 'भिक्षु', १९२४- भवरजाल. नेशनल.  
३ ५० उ.
- महाश्रमण सुने. भा ज्ञानपीठ २ २५ उ.
- मृत्यु की मीनार हि प्रचा पु ४ ००. क
- रूपलक्ष्मी : अरुपाली सा भवन, इ १.५०. ना.
- सोम देवता की घाटी. राजपाल ४ ०० उ
- शर्मा, कृष्णदेव कवीर अशोक प्र २.५०
- चंद्रगुप्त समीक्षा अशोक प्र २.५०
- विद्यापति और उनकी पदावली सटीक. अशोक प्र. ५.००
- समीक्षा चार्ट. अशोक प्र. ० ४०
- स्कंदगुप्त समीक्षा अशोक प्र २ ५०
- टीका सुदामा चरित (नरोत्तमदास). हि सा. स. ०.७५
- शर्मा, कृष्णस्वरूप चमकते हीरे सा सदन, दे. १ ५०. वप्र.
- शर्मा, कृष्णानंद आटोमोबाइल इंजीनियरिंग देहाती १२ ००
- आधुनिक टिपिकल मोटर गाइड देहाती ४.५०
- कपलीट मोटरकार ट्रेनिंग मैनुअल देहाती. २४ ७५
- खेती और ट्रैक्टर देहाती ६ ००
- जनरल मैकेनिक गाइड देहाती. १०.००
- ट्रैक्टर प्राइमर देहाती १ २५
- मोटरकार इजन देहाती ८ २५
- मोटरकार इंजीनियर देहाती. ८ २५
- मोटरकार इन्स्ट्रक्टर देहाती ११ ००
- मोटरकार ओवरहॉलिंग देहाती ६.००
- मोटरकार प्राइमर देहाती. १.२५
- मोटरकार सर्विसिंग देहाती. ८ २५
- मोटर ड्राइविंग देहाती. ४ ५०
- मोटर मैकेनिक टीचर. देहाती. ६.००
- मोटर साइकिल गाइड देहाती ४ ५०
- वर्कशाप प्रैक्टिस. देहाती. १० ००
- शर्मा, के. आर. प्रकाश बेसिक गाइड कला म
- शर्मा, के. एन. तथा रघुराज गुप्त. भारतीय सामाजिक संगठन  
की स्पर्शा किशोर पब्लि २ ५०
- नमाजशास्त्र की स्पर्शा किशोर पब्लि. २ ५०
- शर्मा, के. के. अर्थशास्त्र के मूल सिद्धांत किशोर पब्लि. २.२५
- शर्मा, केदार 'मधुर'. वेणु वादन कला-भा २.५०. का.
- शर्मा, कैलानाथ भारतीय नमाज और सृष्टि. संगो. सं. ५.  
किशोर पब्लि. १०.००



शर्मा, गंगाधर पुरुषार्थ हिं पु ए १५० जी.  
 शर्मा, गंगाराम. हिंदी साहित्य की इतिहासिक चर्चा. इ प्रे १५०  
 शर्मा, गजानन साहित्य के पृष्ठ विनोद ५०० नि  
 शर्मा, गणेश रत्नप्रबोधिनी सूर्य प्र १०००  
 शर्मा, गणेशदत्त लक्यूल्स गयाप्रसाद १००  
 शर्मा, गणेशदत्त 'इंद्र' व्यवहार और सभ्यता सस्ता १५०  
 स्त्रियो के व्यायाम गंगा ३५०  
 शर्मा, गणेशलाल 'प्राणेश' प्राणेश पुष्पाजलि फीरोजावाद १२५ का  
 फीरोजावाद परिचय फीरोजावाद ६००  
 शर्मा, गयाप्रसाद आदर्श पशु पालन एव चिकित्सा ग्रथ भ १००  
 आदर्श मत्स्य पालन विधि ग्रथ भ ०७५  
 काहिल वदर ज्ञानपीठ ०७५ वप्र  
 शर्मा, गिरधारीलाल सस्कृत अनुवाद पथ प्रदर्शिका रा वेनी-प्रसाद भा १०५०, भा २ ०.७५  
 शर्मा, गिरधारीलाल 'गर्ग' कहानी—एक कला ग्रथमाला १२५  
 विमान ग्रथमाला १५०  
 शर्मा, गुलशनस्वरूप शिक्षा विधि सामाजिक विषय आगरा बुक १२५  
 शर्मा, गोकुलचंद्र अशोकवन हिं प्र म १५० का  
 निवधादर्श सा भवन, इ १२५ नि  
 रचना रत्नावली गयाप्रसाद २००  
 शर्मा, गोपाल सौंदर्य-प्रतियोगिता लोक चेतना १५० ना  
 शर्मा, गोपीनाथ यूरोप का इतिहास शिवलाल भा १ (१८१५-१८७०) ४००, भा २ (१८७०-१९१४) ३५०, (१८१५-१९१४) ६५०  
 —तथा अन्य विष्व-इतिहास की रूपरेखा लक्ष्मी ना ५००  
 शर्मा, गोवर्धन डिगल साहित्य अनुसंधान १६००  
 शर्मा, गोविंद हिंदी काव्य पिछला दशक मगल ८००  
 शर्मा, गोविंद दे रागेय राधव  
 शर्मा, गोविंदराम हिंदी के आधुनिक महाकाव्य हिं सा. स १२५०  
 हिंदी साहित्य और उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां हिं सा स ९५०  
 —तथा उमाकांत काव्य माधुरी राजकमल २५०  
 शर्मा, घमडीलाल प्रारंभिक विश्व-इतिहास गुप्ता ब्रा २५०  
 शर्मा, चडिकाप्रसाद ईसपकथा रा वेनीप्रसाद ०३१  
 शर्मा, चंद्रधर पारश्चात्य दर्शन नद ब्र एव नद स ५००  
 शर्मा, चंद्रधर 'गुलेरी' गुलेरीजी की अमर कहानिया. सरस्व प्रे १००  
 पुरानी हिंदी ना प्र सभा ३००  
 शर्मा, चंद्रशेखर दे कन्सल, भारतभूषण  
 शर्मा, चक्रधर महाकवियों की अमर रचनाए स २. चौखवा २००  
 शर्मा, चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद आदर्श महात्मागण रा. वेनीमाधव भा १ ०.९४, भा २. ०.७५. वप्र.

दस कुमारो का वृत्तात रा वेनीप्रसाद. ०.५०  
 नाटकीय कथा रा वेनीप्रसाद ०.३१  
 भारतीय उपाख्यान माला रा. वेनीप्रसाद १२५ वप्र.  
 माधव मिश्र-निवध-माला इ प्रे ३५०  
 गव्दार्थ पारिजात कोष रा वेनीमाधव ६००  
 शिष्टाचार-पद्धति रा वेनीप्रसाद वप्र  
 श्रीकृष्ण कथा रा वेनीमाधव १०० वप्र  
 श्रीमद्भागवत सग्रह रा वेनीप्रसाद ०.९४ वप्र  
 सक्षिप्त विष्णु पुराण रा वेनीमाधव  
 हिंदी-गद्य सग्रह रा वेनीप्रसाद ०.६२  
 —तथा तारिणीश भा सस्कृत शब्दार्थ कौस्तुभ रा वेनी प्रसाद १५००  
 —अनु श्रीमद्वाल्मीकि रामायण १० ख रा वेनीमाधव २४००, बालकाड २५०, अयोध्याकाड पूर्वाद्ध ३० अयोध्याकाड उत्तराद्ध ३००, अरण्यकाड ३००, किष्किंधाकाड ३००, सुदरकाड ३००, युद्धकाड पू ३००, युद्धकाड उत्तराद्ध ३००, उत्तरकाड पूर्वाद्ध. २००, उत्तरकाड २००  
 —टीका महाभारत १० ख रा वेनीप्रसाद. २०००  
 शर्मा, चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद दे तुलसीदास  
 शर्मा, चादमल तथा कृष्ण कुमार पाठक. टीका हिंदी निव विहार गयाप्रसाद ४.००  
 शर्मा, जगदीश अधी तकदीर देहाती १.२५. ना.  
 अघेर नगरी देहाती १२५ ना  
 अभागिन देहाती १२५ ना  
 आखिरी करवट देहाती १२५ ना  
 आदर्श ग्राम पंचायत देहाती १२५ ना  
 इन्कलाव देहाती. १२५ ना.  
 इल्जाम देहाती १२५ ना  
 एक रात देहाती १२५ ना  
 कलक या वेर्या देहाती १२५ ना  
 गीत मै कैसे लिखू कि महल २५०  
 गुमराह देहाती. १२५ ना.  
 ग्रेजुएट पागल देहाती १२५ ना  
 चादी का जूता देहाती १२५ ना.  
 जय-जय हिंदुस्तान देहाती १२५ ना.  
 डेढ रोटी देहाती. १२५ ना  
 तडप देहाती १२५ ना  
 तहजीब देहाती १२५ ना  
 तीन एकाकी देहाती. १२५ ना  
 तुमने निहारा हिं सा भ ४२५ का  
 दहेज. देहाती १२५ ना  
 दिवाला देहाती १२५ ना  
 धर्म ईमान. देहाती १२५ ना  
 नर्स देहाती १२५ ना.  
 पगली देहाती १२५ ना  
 पुजारी देहाती १२५ ना  
 प्यास. देहाती १.२५. ना

फर्ज और मुहब्बत. देहाती १.२५ ना.  
 फूलमाला. देहाती. १.२५ ना  
 वाप बेटी देहाती १ २५ ना.  
 रामलीला नाटक ६ भा देहाती. १ २५ (प्र.) ना  
 लक्ष्मी हरण. देहाती. १ २५ ना  
 लीट के बुद्धू घर को आये. देहाती १.२५. ना  
 विदाई. देहाती १ २५. ना  
 विधवा देहाती १ २५ ना.  
 जराफत देहाती १ २५. ना.  
 शहशाह देहाती १ २५ ना.  
 शुक्रिया. देहाती १ २५ ना.  
 सहारा देहाती. १ २५. ना  
 सिपाही. देहाती १ २५ ना.  
 सुखी कौन (हिंदुस्तान हमारा) देहाती १ २५ ना.  
 सुहागन देहाती. १ २५. ना.  
 हमारा समाज देहाती १ २५ ना.  
 शर्मा, जगदीशशरण. ज्ञान की खोज मे एस चाद. २.५०. या.  
 सिद्धिपथ राजकमल ४.०० उ  
 शर्मा, जगन्नाथ अरब की लोक-कथाए. आत्माराम. १.२५  
 जर्मनी की लोक-कथाए आत्माराम. १.२५  
 —तथा अन्य, सपा काव्य कलन रा बेनीप्रसाद. १ ००  
 अजातशत्रु समीक्षा. नद ब्र ० ६२  
 आदर्श निबंध. नद. ब्र. २ ००  
 कहानी का रचना-विधान हि प्रचा पु. ६ ००  
 गद्य काव्य तरंगिणी नद ब्र एव नद स २ २५  
 चंद्रगुप्त नद ब्र. एव नद स. १ ०० आ  
 प्रसाद के नाटको का शास्त्रीय अध्ययन नद. ब्र. ६ २५  
 स्कंदगुप्त. नद. ब्र. ० ६४ आ.  
 हिंदी गद्य के युग-निर्माता. नद ब्र ४ २५  
 हिंदी गद्य शैली का विकास ना प्र. सभा ६.०० का.  
 हिंदी गद्य-साहित्य का इतिहास हि भवन २ ५०  
 —सपा. गद्य चंद्रिका सरस्व प्रे १ ५०  
 हिंदी की अमर कहानिया. सरस्व प्रे. २ ००  
 शर्मा, जगन्नाथप्रसाद तथा श्रीकृष्ण शुक्ल, सपा रत्नावली.  
 विद्या म, वा १ २५ का  
 नव काव्य सुधा रा बेनीमाधव १ २५  
 संस्कृत सोपानम् राजकमल ० ७५  
 हमारा सांस्कृतिक साहित्य. ग्रथमाला ३ ७५  
 शर्मा, जगन्नाथप्रसाद आदर्श जीवनीया काली पु ० ५० वप्र.  
 माखन-मिश्री. काशी पु. १ ५०. वप्र.  
 शर्मा, जयगोपाल नवीन व्याकरण पत्र बोध रामप्रसाद ० ७५  
 शर्मा, जयदेव. क्या वेद मे इतिहास है ? आर्य सा २.५०  
 —तथा सूर्यदेव शर्मा. हेदरावाद-सत्याग्रह का रक्तरजित इति-  
 हास आर्य सा २ ५०  
 —अनु चारो वेदो का सरल भाषा भाष्य १४ ख आर्य सा.  
 ८ ०० (प्र.), ऋग्वेद भाषा-भाष्य ७ ख. ५६ ००,  
 अथर्ववेद भाषा-भाष्य ४ खं ३२.००, उजुर्वेद भाषाभाष्य  
 २ ख १६ ००, सामवेद भाषा-भाष्य. १ ख. ८ ००

शर्मा, जयनारायण इलेक्ट्रिक गैस वैल्विंग देहाती. १०.५०.  
 गैस वैल्विंग देहाती. ६ ००  
 फाउन्डी प्रैक्टिस देहाती. ८.२५  
 शर्मा, जयप्रकाश कलमुही पुष्पी १ २५ उ, — —सुरेद्र.  
 ३ ००  
 कुआरे सपने मनोरमा २.५० उ  
 गीत सो गये रूपकमल ३ ७५. उ.  
 तिनके का सहारा. मनोरमा ३ ०० उ  
 धरती मैया सा. नि, ब ३ २५. उ.  
 निशा डूवती है हि प्रचा पु ३ ५० उ  
 शर्मा, जयविजयनारायण सिंह चरित्र प्रदीप रा बेनीमाधव.  
 ०.७५  
 चरित्र विकास. रा बेनीमाधव १ ००  
 नवयुवक गाथा. रा बेनीमाधव १ ५०  
 विद्यार्थी विलोचन. रा बेनीमाधव. १.५०  
 शर्मा, जानकीशरण रोगो की अचूक चिकित्सा भा. भ. ८.००  
 शर्मा, जी एल दे. गुप्ता, पी. डी  
 शर्मा, जी. पी. गुजराती साहित्य का इतिहास गयाप्रसाद.  
 ३.००  
 मैथिलीशरण गुप्त और विष्णु प्रिया कि घर, ग्वा. ३.००  
 शर्मा, जी पी दे क्रांछल, कामिनी.  
 शर्मा, जीवानंद 'काव्यतीर्थ' बाल अभिनय पु. भ. ० ७५. ना.  
 शर्मा, जे डी दैहिक मनोविज्ञान. भा प्र. मदिर. १०.००  
 सुश्रुत संहिता शरीर स्थान मोतीलाल ५ ००  
 —तथा जे डी. सारस्वत मनोविज्ञान का इतिहास.  
 विनोद १० ००  
 शर्मा, जे पी कृषि-कीट विज्ञान स २ एशियन १,२.५०  
 शर्मा, ज्ञानदत्त दे शर्मा, सत्यप्रकाश.  
 शर्मा, ज्वालादत्त भवभूति और उनका काव्य गगा. १ ५०  
 शर्मा, भस्मनलाल बीजगणित. हि सा सम्मे ३ ५०  
 शर्मा, टी आर अकेशरण सा भवन, आ ६ २५  
 मनोविज्ञान सा सगम, लु ५ ००  
 व्यावहारिक काम-विज्ञान अर्चना प्र. (पा.) १ ००  
 —तथा आर एस. चौहान भारत का आर्थिक व व्यापारिक  
 भूगोल गयाप्रसाद ६ ००  
 शर्मा ठाकुरप्रसाद, टीका कवितावली. रामप्रसाद. १.५०. आ.  
 शर्मा, ठाकुरप्रसाद दे वर्मा, हरिराम  
 शर्मा, डी आर स्मृति-चित्रण के सिद्धांत अनु वद्रीप्रसाद  
 गुप्त गुप्ता ब्रा १ ००  
 शर्मा, डी एन सरल नागरिक शास्त्र. इ पब्लि. ३ ००  
 शर्मा, डी टी तथा ए पी शर्मा शिक्षा के क्षेत्र मे प्रयोग  
 और समस्याए. गयाप्रसाद  
 शर्मा, तिलकधर प्रभाकर प्रबोधिनी सूर्य प्र १२.००  
 शर्मा, तोताराम सरल कृषि-शास्त्र स २ विनोद ४.००  
 हिंदी पद्य प्रकाश की कुजी विनोद ३ ५०  
 शर्मा, दयाराम दे रणवीरसिंह  
 शर्मा, दयाव्रत. नही मरेगे मानसरोवर सा. ५.००. उ.  
 शर्मा, दयाशंकर ध्रुव तारा श्रीराम मेहरा. १.००. ना.

—तथा विद्याशकर शर्मा अंग्रेजी साहित्य परिचय. गयाप्रसाद ४.००  
 शर्मा, दिनेशकुमार हमारी माताए. नारायण प्र. १ २५  
 शर्मा, दीपकनाथ सरल-विज्ञान एस चाद ६००  
 शर्मा, दीवानचद आचार और धर्म राजपाल ० ७५  
 विचार तरंग राजपाल २ ५०  
 शर्मा, दुनीचद पहाडी लोकगीत यूनिवर्सिटी ३००  
 शर्मा, दुर्गादत्त कमल-ज्वाल प्रभात पब्लि उ.  
 धरती का सुहाग बसल १ २५ ए  
 धरती की पूजा बसल १ २५. ए  
 पुनर्जीवन बसल २ ५० ए  
 शर्मा, देव. अमर शहीद सरदार भगतसिंह देहाती १.५०. ना  
 महारानी पद्मिनी देहाती १ ५० ना  
 सरदार भगतसिंह. देहाती १ ५० ना  
 शर्मा, देवकीनदन नवीन रचना प्रणाली. नद. ब्र १ २५  
 साहित्य सरोवर गयाप्रसाद भा १. १.००, भा २ १ ००,  
 भा ३ १ २५, भा ४. १.२५  
 शर्मा, देवदत्त. दे वैश्य, चट्टालाल  
 शर्मा, देवीदत्त गाधीजी और विश्व शांति अ भा सर्व. ० ६०  
 शर्मा, देवेन्द्र जयशकर प्रसाद और 'आसू' विनोद २.५०  
 महाकवि हरिऔध और 'प्रियप्रवास' विनोद ६००  
 सुमित्रानन्दन पत और 'रश्मिवध' विनोद ४ ७५  
 —तथा कामताप्रसाद साहू लक्ष्मी नारायण मिश्र और  
 जगद्गुरु विनोद ३ ५०  
 शर्मा, देवेन्द्र 'इंद्र' बिहारी सतसई सशो स. विनोद ५ ००  
 शर्मा, देवेन्द्रनाथ. अलकार-मुक्तावली ग्रथमाला. ३ २५  
 खट्टा-मीठा. ग्रथमाला १ २५  
 छायावाद और प्रगतिवाद ग्रथमाला ३ ००  
 भामहकृत काव्यालकार वि राष्ट्र ५ ००  
 शर्मा देवेन्द्रनाथ दे धर्मद्वे ब्रह्मचारी शास्त्री  
 शर्मा, देवेन्द्रनाथ दे भामह, आचार्य.  
 शर्मा, देवेन्द्रनाथ दे विश्वनाथ प्रसाद  
 शर्मा, द्वारिकानाथ पगली पुष्पी १ २५ उ.  
 शर्मा, धर्मद्वे सुबोध हिंदी निबध सशो स. २. वर्मा. २.५०,  
 ४ ५०  
 शर्मा, नदकिशोर 'मदन' ताल-प्रबोध. दीपक प्र ३ ७५  
 शर्मा, नदकुमारदेव पजाब हरण हिं पु ए २ ५०  
 सिक्खो का उत्थान और पतन ना प्र सभा ३ ००  
 शर्मा, नदलाल म्यूजिक-मास्टर संगीत २.००  
 हारमोनियम ज्ञान-सागर प्रभात प्र २.५०  
 शर्मा, नदलाल दे बल्लुआ, पन्नालाल  
 शर्मा, नरेन्द्र, १९१६- अंतिम भेट पैरामाऊट. ५, २५. उ  
 अग्नि-शस्य भा भ २ ५० का  
 अनाडी पैरामाऊट २ ५० उ  
 आधुनिक कवि भा ९ हिं सा सम्मे ३ ००  
 उर्दू कवियों के प्रेम गीत पैरामाऊट २ ५०  
 कदली वन कि महल २ ५० का  
 कामिनी कि, महल. १ ०० का.

जन्म जला. पैरामाऊट ४ ५०. उ  
 भूटे रिश्ते. ऐडी ३.६० उ.  
 टैडे रास्ते पैरामाऊट २ ५० उ  
 द्रौपदी. राजकमल २ ५० का  
 नई सुबह पैरामाऊट ३ २५ उ  
 पलाश वन भा भ २ ०० का  
 प्रभात फेरी कि महल २ ०० का  
 प्रवासी और गीत भा भ २ ००. का  
 फूल और पत्थर ऐडी ३ ३० उ.  
 मन का मीत पैरामाऊट ४ ५० उ  
 मिट्टी और फल भा भ २ ०० का.  
 रक्त चदन भा भ २ ०० का  
 विदा पैरामाऊट २.५० उ  
 साधू जी पैरामाऊट. १ ५० बप्र.  
 सुलगते हृदय पैरामाऊट २ ५० उ  
 हसमाला. भा भ २ ५० का  
 शर्मा, नलिनविलोचन दृष्टिकोण पु. भ ३.०० आ  
 निबध-मानस पु. भ एव वि ग्र कु २ ००  
 लोककथा-कोश वि राष्ट्र. ० ३२  
 लोकगाथा-परिचय वि राष्ट्र ० २५  
 लोक-साहित्य आकार साहित्य-सूची वि राष्ट्र ०.५०  
 सत्रह छोटी कहानिया पु भ, रा ३ ७५  
 साहित्य का इतिहास-दर्शन वि राष्ट्र ५.००  
 —तथा अन्य. नकेन मोतीलाल. ५ ००  
 —तथा केशरीकुमार, सपा उपन्यास कथा कुज अशोक प्रे.  
 ० ८७ बप्र  
 रूपक कथा-कुज अशोक प्रे ० ६२ बप्र  
 —तथा शिवनन्दन प्रसाद, सपा भारतीय साहित्य पारिजात  
 ३ ५०  
 शर्मा, नाथूराम. शिक्षा मनोविज्ञान और मापन (सरल अध्ये-  
 यन) रतन ६ ५०  
 शिक्षा मनोविज्ञान का सरल अध्ययन रतन ३ ७५  
 शर्मा, नारायणदत्त निबार्क सप्रदाय और उसके कृष्ण-भक्त  
 हिंदी कवि अशोक प्र, म सिद्धांत ख ७ ८५, ख २.  
 शर्मा, नारायणप्रसाद पंचोली रचना निकुज यग मैन २ ५०  
 शर्मा, नित्यानन्द हिंदी साहित्य का सक्षिप्त इतिहास सा  
 सदन, दे २ ००  
 शर्मा, निर्विकारशरण आर्थिक भूगोल किशोर पब्लि ६.००  
 शर्मा, पतजलदेव उत्तरीय-संगीत-शास्त्र आत्माराम १ ५०  
 शर्मा, पद्मसिंह 'कमलेश', १९२०- अचल. राजपाल २ ००  
 जी  
 गुजराती और उसका साहित्य राजकमल २ २५  
 धरती पर उतरो विनोद २ ५० का.  
 मैं इनसे मिला आत्माराम भा १ ३ ००, भा २. ३, ५०  
 राधिकारमणप्रसाद सिंह बसल ६ ००  
 वृंदावनलाल वर्मा, व्यक्तित्व और कृतित्व स. २. बसल.  
 ५ ००  
 साहित्यक निबध मणि. भा. ग्र. नि. ५, ००

हिंदी गद्य विकास और परंपरा. स २. वसल. २.५०  
 हिंदी गद्य विधाए और परंपरा. स २ वसल २ ००  
 —सपा. गद्य सरिता बवई हिं २.००  
 शर्मा, पद्मसिंह 'कमलेश'. यह भी दे कमलेश.  
 शर्मा, पद्मसिंह 'कमलेश' दे. त्रिपाठी, गोवर्धनराम  
 शर्मा, पद्मसिंह, सपा पूर्णिमा बवई हिं ० ३७ का  
 शर्मा, पद्मसिंह विज्ञान प्रकाश. मरस्व. प्रे ० ६२. वप्र.  
 शर्मा, परमात्मा टेलीफोन गगा. ० ५०  
 शर्मा, परमानंद छत्रपति विश्वेश्वरानंद ३ ००. का  
 वात की वात विश्वेश्वरानंद १ ०० वप्र  
 वैरागी. इ प्रे. २ ०० का  
 स्वर्ण-पादुका. विश्वेश्वरानंद १ २५ ना  
 शर्मा, परशुराम 'वैद्य' दे. पुष्पदत्त.  
 शर्मा, पाडेय वेचन 'उग्र', १९०१- अपनी खबर राजपाल.  
 ४.५०. जी.  
 उग्र का हास्य कला-नि १ २५ हा  
 'उग्र' की श्रेष्ठ कहानिया. राजकमल (पा.) १.००  
 ऐसी होती खेलो लाल आत्माराम २ ५० क  
 कचनघट. विनोद १ ५० का  
 कला का पुरस्कार. आत्माराम ३ ०० क  
 काल कोठरी आत्माराम २ ५० क.  
 घटा. हिं. पु ए १ ७५ उ  
 चद हसीनो के खतूत हिं. पु ए १ ७५ उ; — — हिंद  
 पा. १ ००  
 चाकलेट. चिनगारी ३.५०  
 चित्र विचित्र आत्माराम ३ ००. क.  
 जब सारा आलम सोता है विमोद १ ५० क.  
 जी-जी-जी आत्माराम. ३ ०० उ  
 जुहू हिंद पा १ ०० उ  
 पजाब की महारानी गगा १ ५० क  
 पोली इमारत आत्माराम २ ५० क  
 फागुन के दिन चार रणजीत ५ ५० उ  
 मनुष्यानंद रणजीत ४ ०० उ  
 महात्मा ईसा. भा भ २ ०० ना  
 यह कचन-सी काया. आत्माराम २.५०. क.  
 रेशमी. गगा. २.२५ क  
 व्यक्तिगत गगा २ ०० क  
 शरावी आत्माराम ३ ५० उ  
 सनकी अमीर गगा ३ ०० क  
 सरकार तुम्हारी आखो मे गगा २ ५०. उ; — — राज-  
 कमल (पा) १ ००  
 शर्मा, पाडेय रामावतार वाङ्मयार्णव जानमडल.  
 संस्कृत कोश जानमडल  
 शर्मा, पी आर धूम्रपान आर्य बुक २ ००  
 शर्मा, पी डी काव्याग निरूपण तुलसी ०.५०  
 शर्मा, पी. डी. दे औदित्य, एस एल.  
 शर्मा, पी पी. नीतिगतकम्—भर्तृहरि कृत सं. २. रा  
 देनीमाधव २.००

—तथा आर. सी. पांडे शाकोत्पादन के सिद्धांत एवम् विधिया  
 एशियन ४ ५०  
 शर्मा पी पी. दे भास.  
 शर्मा, पुरुषोत्तम आदर्श ललित कला ४ भा. स २०  
 कल्याणमल ०.५० (प्र)  
 शर्मा, पुष्पाकुमारी तथा ब्रह्मदेव भल्ला. कवीर कुमारसन्ज.  
 ३.२५  
 शर्मा, पृथ्वीनाथ. अपराधी. स ३ हिं भवन. ० ७५. ना.  
 उदय-अस्त हिं भवन २ २५ क.  
 उर्मिला आत्माराम १.०० ना  
 चिडियाघर की सैर आत्माराम १.५० वप्र.  
 दुविधा स. २. हिं भवन ० ७५. ना  
 दृष्टि का दोष आत्माराम. ४ ००. ए.  
 नया रूप आत्माराम १ ५० ना.  
 पूर्ण विराम. एस चाद. ५.००. उ  
 युग-सदेश स. ३. हिं भवन ३ ७५ उ  
 विद्रूप आत्माराम ३ ००. उ  
 साध स. २. हिं. भवन ०.७५ ना.  
 शर्मा, प्यारेलाल आलोचना प्रवेश. हिं. भवन. ३.५०  
 भारतवर्ष का इतिहास नद ब्र. ३ ५०  
 विश्व इतिहास की रूपरेखा. नद ब्र ६ ५०  
 ससार का संक्षिप्त इतिहास नद ब्र. एव नद स ३ ००  
 शर्मा, प्रभुनारायण धरती के ध्रुवतारे. कल्याणमल. १.७५  
 भाषा विज्ञान तत्त्व. विनोद १ ५०  
 साहित्यालोचन सिद्धांत. विनोद १ ५०  
 हिंदी आलोचना के भिन्न-भिन्न स्रोत और उनके विकास का  
 इतिहास विनोद १ २५  
 शर्मा, प्रेमशंकर दे शर्मा, बाबूराम  
 शर्मा, फतहचंद्र 'आराधक' जन नायक. स २. वसल. २.५०.  
 जी  
 —सपा मालवीय श्रद्धा सुमनावली. मालवीय साहित्य श्रद्धा-  
 जलि समारोह समिति, १५ एफ दिलशाद कालोनी, गाह-  
 दरा-३२  
 शर्मा, वद्रीनारायण जीवन पराग कल्याणमल १ ५०  
 शर्मा, वनवारीलाल भारत-परिचय. गयाप्रसाद ३ ५०  
 शर्मा, वनवारीलाल. दे तिवारी, ए आर.  
 शर्मा, वनारसीदत्त 'सैवक' जब इन्सानियत दम तोड़ रही थी.  
 चौधरी ३.५०  
 प्यासी आखे चौधरी ३.००  
 मनोरमा. चौधरी २ २५  
 रोटी चौधरी २ ५०  
 शर्मा, बलदेवदत्त आसू और पत्थर हिं. सा केद्र ३ ५०. उ.  
 धरती की पुकार हिं सा स ३.००  
 पठान का हृदय हिं सा स. २ ७५  
 शर्मा, बाबूराम एवं प्रेमशंकर शर्मा. प्रक्रियात्मक भूगोल गिव-  
 लाल ४ ००  
 शर्मा, बाबूराम दे. द्विवेदी, सोनेलाल [का  
 शर्मा, बाबूलाल 'प्रेम'. आंचल के फल सा. भवन, इ. ३.००.

- शर्मा, वामदेव कवितावली—तुलसीदास. रा वेनीमाधव  
२००
- गीतावली—तुलसीदास रा वेनीमाधव. २००
- दोहावली—तुलसीदास रा वेनीमाधव १००
- रामललानहछू—तुलसीदास रा वेनीमाधव ०२५
- रामाज्ञा प्रश्न—तुलसीदास रा वेनीमाधव ०७५
- वैराग्य सदीपिनी—तुलसीदास रा. वेनीमाधव ०३१
- श्रीकृष्ण गीतावली—तुलसीदास रा वेनीमाधव ०४४
- शर्मा, बालकृष्ण आदर्श जीवन श्री आत्मानन्द ३५०
- होमियोपैथिक चिकित्सा-विज्ञान मिश्र-वधु ५००
- होमियोपैथिक चिकित्सा-सिद्धात. मिश्र वधु ३५०
- शर्मा, बालकृष्ण 'नवीन', १८९८-१९६० क्वासि राजकमल  
४०० का
- प्राणार्पण सरस्व प्रे २.०० का
- विनोवास्तवन सा सदन, चि १.२५
- हम विषमायी जनम के भा ज्ञानपीठ १९०० का
- शर्मा, वी एल साहित्य शिरोमणि हि पु ए १७५
- तथा एम एस त्यागी यूरोप का नवीन इतिहास रस्तोगी  
भा १ ५००, भा २ ६२५
- शर्मा, वी डी भारतीय अर्थशास्त्र तथा आयोजन केदारनाथ  
८००
- सार्वजनिक राजस्व केदारनाथ २५०
- तथा राममोहन तिवारी बुनियादी पाठन पद्धतिया विनोद  
२५०
- बुनियादी शिक्षा-सिद्धात विनोद २५०
- शर्मा, वी पी दे चद वरदाई
- शर्मा, बुद्धिनाथ 'शास्त्री' दे हरिदत्त शास्त्री
- शर्मा, वृजमोहन राजशास्त्र के मूल सिद्धात दि पु. स  
भा १ ७.००, भा २ ५५०, संपूर्ण ११५०
- लोक प्रकाशन. दि. पु स. ७५०
- शर्मा, वेदराम आगल शिक्षा प्रणाली विश्व प्र ५००
- शर्मा, वेदराम दे भिगरन वगगोपाल
- शर्मा, ब्रजभूषण कामायनी का विवेचन इ प्रे १५०
- पारचात्य काव्य-समीक्षा अगोक प्र ३००
- सिद्धराज-समीक्षा इ प्रे १००
- शर्मा, ब्रह्मदत्त हिंदी कहानियों का विवेचनात्मक अध्ययन  
सरस्व पु स १०००
- हिंदी साहित्य मे निवध गयाप्रसाद २५०
- शर्मा, ब्रह्मनारायण 'विकल ज्ञान की वाते रामा प्र ०७५  
वप्र
- वीदी कामरेड रामा प्र. ५०० उ.
- शखी माहू पापाण युग से नेहरू युग तक प्रथम पुष्प  
रामा प्र १५० वप्र
- शर्मा, ब्रह्मस्वरूप गाव पचायत रूप, कर्तव्य और अधिकार  
सर्वोदय. ०३७
- गाव सभा रूप, कर्तव्य और अधिकार सर्वोदय ०३७
- गाव समस्याये योजना और निर्माण सर्वोदय ०३७
- न्याय पचायत रूप, कर्तव्य और अधिकार सर्वोदय ०३७

- पचायतो का वार्षिक कार्य-क्रम. सर्वोदय ०३७
- प्रधान—उसके कर्तव्य और अधिकार सर्वोदय ०३७
- भूमि प्रवधक समिति सर्वोदय ०३७
- श्रमपान सर्वोदय ०३७
- शर्मा, ब्रह्मस्वरूप 'दिनकर' हिंदी मुहावरे हि पु ए. ६००
- शर्मा, भगवतशरण तालप्रकाश संगीत ५००
- पारचात्य संगीत शिक्षा संगीत  
मितार मालिका संगीत ५००
- हाईस्कूल संगीत शास्त्र संगीत १५०
- शर्मा, भगवतशरण दे भारतखडे, विष्णुनारायण
- शर्मा भगवतीप्रसाद दे वैश्य, चदूलाल
- शर्मा, भूदेव, १९००- कादविनी गयाप्रसाद २००. का  
सनयाट सेन हि सा सम्मे ०२५ जी
- सूर मुक्तावली (सक्षिप्त) गयाप्रसाद २०० का
- शर्मा, भूदेव 'चितक' वाक्य विच्छेद वाटिका भा प्र मदि  
०७५
- शर्मा, भोलानाथ भरत मुनि कृत नाट्यशास्त्र सा नि., का  
२७५
- अनु आदर्शनगर व्यवस्था हि सा सम्मे १०००
- फास्ट 'गिटे' सा नि, व ४५० ना
- शर्मा, भोलानाथ दे अरिस्तू
- शर्मा, भोलानाथ दे सेन, सुकुमार
- शर्मा, मगलीप्रसाद भापा रत्न चद्रिका रतन ३५०
- तथा सारंग भाषारत्न चद्रिका रतन ३.५०
- शर्मा, मक्खनलाल आगरा विश्वविद्यालय प्रकाशन न १७  
(पद्य पुष्पाजलि) रतन ५५०
- आचार्य केशव तथा रामचद्रिका. रतन ४००
- एकाकी-नाटक-संग्रह-समीक्षा सा रत्न भ ४००
- गुलजी की निवध कला और चिंतामणि. रतन. ४५०,  
साकेत दिग्दर्शन रतन ८००
- शर्मा, मणिराम पाक विद्या रा वेनीमाधव. १.००
- शर्मा, मथुरालाल भारत की संस्कृति का विकास शिवलाल  
६२५
- सामान्य-शिक्षा गयाप्रसाद ६००
- शर्मा, मदनमोहन दे गजाधरप्रसाद
- शर्मा, मनमोहनलाल जगन्नाथ. महाकवि माघ उनका जीवन  
तथा कृतिया नवयुग प्र २०००
- शर्मा, मनु तीन प्रश्न कल्याणदास ५०० उ.
- बप्पारावल कल्याणदास ५०० उ.
- राणा सागा हि प्रचा पु १२५ जी
- शर्मा, मनोरमा नाटककार उदयशकर भट्ट आत्माराम ४००
- शर्मा, मनोहर 'रिपु' याद अनिल प्र म ३५० उ.
- शर्मा, मनोहरलाल हिंदी के प्रमुख कवि और लेखक कालेज  
१००
- शर्मा, महादेवप्रसाद ब्रिटिश सविधान कि महल ४५०
- भारतीय गणतंत्र का सविधान कि महल ६००
- राजनीति के सिद्धात कि महल ७००, — — हि सा.  
सम्मे ८००

शर्मा, महेशकुमार आधी का दीया. चौधरी ५.००  
 जल-अल-जू कन्हैयालाल ३००. उ  
 टीपू सुलतान चौधरी ३२५  
 शर्मा, महेशचंद्र घाटिया और घुमाव नेशनल. ४.००. उ.  
 शर्मा, महेशप्रसाद दीवारे गिरा दो भाग्योदय २००. ए  
 सभी लुटेरे है भाग्योदय २००  
 शर्मा, मा ला हिंदी उपन्यास—सिद्धांत समीक्षा प्रभात प्र.  
 १०००  
 शर्मा, माधवप्रसाद आदर्श महापुरुष भा. १ सशो स कृष्णा ब्र.  
 ०.७५. जी  
 गल्प सुषमा एस चाद. २५० क  
 व्यावहारिक व्याकरण और हिंदी रचना कृष्णा ब्र १.५०  
 हमारे राष्ट्र निर्माता कृष्णा ब्र. ०.६५ जी  
 शर्मा, मालती मालतीमाला ना प्र सभा. ०.५० क.  
 शर्मा, मुशीराम जीवन दर्शन चौखवा २.५०  
 भक्ति का विकास चौखवा २०००  
 भक्ति तरंगिणी चौखवा ३.००  
 सूरदास और भगवद्भक्ति सा भवन, इ २.५०  
 —तथा बाबूराव जोशी भारतीय पद्य धारा कृष्णा व. २००  
 —तथा राधेश्याम त्रिपाठी भारतीय गद्य धारा. कृष्णा ब्र.  
 २००  
 शर्मा, मुकुंददेव इतिहास शिक्षण नद ब्र २००  
 कबीरदास नद ब्र एव नद. स. ०.७५ वप्र  
 कालिदास. नद ब्र एव नद स ०.७५ वप्र  
 कृष्ण द्वैपायन व्यास नद ब्र एव नद स ०.७५. वप्र  
 चरित्र निर्माण नद ब्र १०० वप्र  
 तुलसीदास नद ब्र एव नद स ०.७५ वप्र.  
 नन्हो के नेता नद ब्र. १०० वप्र  
 भूगोल शिक्षण विधि नद ब्र २५०  
 राष्ट्रीय एकता और नैतिकता की शिक्षा नद ब्र. ३.००  
 वाल्मीकि नद ब्र एव नद स १०० वप्र.  
 विद्यालय-व्यवस्था नद ब्र २७५  
 शिक्षण कला. नद ब्र. ५००  
 शिक्षण विधि के सिद्धांत नद ब्र. ३५०  
 सामाजिक शिक्षा नद ब्र २५०  
 सूरदास. नद ब्र एव नद स ०.७५ वप्र.  
 हरिऔध और उनका साहित्य हि सा कु ७.००  
 हरिऔध जीवन और कृतित्व नद ब्र १०००  
 शर्मा, मुरारीलाल गोदी भरे लाल रा वेनीप्रसाद ०.८१.  
 वप्र.  
 दुनिया की अचरज सस्ता. १००. वप्र.  
 बुढिया के सूझ सस्ता १०० वप्र  
 साहसी बच्चे रा वेनीमाधव ०.६४ वप्र  
 —तथा बनारसीदास 'विरही' परीक्षा नाटक रा. वेनीप्रसाद  
 ०.७५  
 शर्मा, मूलचंद्र बाल निवध माला स १२ कल्याणमल ०.७५  
 वेसिक उद्योग शिक्षा कल्याणमल ०.५०  
 व्याकरण चंद्रिका. स १६ कल्याणमल. ०.५०

शर्मा, मेहता लज्जाम आदर्श हिंदू. ३ भा. ना. प्र. सर्भा.  
 ६.०० उ.  
 शर्मा, यज्ञदत्त, १६१६- अतिम चरण सा प्र ७.५० उ  
 अच्छा बच्चा सा प्र १०० वप्र  
 अपराधिनी. सा प्र ५०० उ.  
 आदर्श पत्र लेखन आत्माराम ८००  
 आदर्श भाषण-कला आत्माराम ८००  
 इन्सान आत्माराम. ४५०. उ  
 इन्साफ सा. प्र ३०० उ  
 एक स्वप्न एक सत्य हिंद पा. १००. उ.  
 कबीर साहित्य और सिद्धांत आत्माराम. ३००  
 खून की हर बूद हिंद पा १००. उ.  
 चौथा रास्ता सा. प्र ६००. उ.  
 जायसी—साहित्य और सिद्धांत. आत्माराम ३.००  
 भुनिया की शादी सा. प्र. ३०० उ.  
 तुलसी—साहित्य और सिद्धांत. आत्माराम. ३.००  
 दबदबा सा. प्र ७५०. उ  
 देवयानी सा. प्र. २५०. उ  
 निर्माण-पथ. राजपाल ४००. उ.  
 परिवार सा प्र ६.००. उ.  
 पहला वर्ष पजाबी पु २.५० उ., — —स्टार. (पा.)  
 १००  
 प्रणय पाल सा प्र. ५००. का.  
 प्रबध-सागर आत्माराम ६५०  
 प्रायश्चित हिंद पा १०० उ.  
 फूल और काटे ऐडी ८.०० उ.  
 बदलती राहे सा. प्र ३.००. उ  
 बसती बुआ जी सा प्र ५०० उ.  
 बाप बेटी सा. ५००. उ  
 भारत सेवक ओरिएण्टल ५५०. उ  
 मगलू की मा रामप्रसाद ४.००. उ  
 मधु सा. प्र. ३०० उ  
 महल और मकान सा प्र. ३.००. उ.  
 मीरा के मधुर गीत. सा प्र. २५० का.  
 रजनी गधा सा प्र ५.०० उ.  
 ललिता सा. प्र ३.०० उ.  
 लाल किले की सैर रामप्रसाद १.२५ वप्र  
 विश्व शांति के पथ पर हि प्रचा पु ०.२५. ना.  
 विश्वासघात पजाबी पु. २.५० उ, — —स्टार. (पा.)  
 १००  
 वीणा अशोक पा. १००  
 सब का साथी सा. प्र. ४००. उ.  
 सुंदर और असुंदर राजपाल. ३.०० उ  
 सूर—साहित्य और सिद्धांत. आत्माराम ३.००  
 स्वप्न खिल उठा राजपाल ७०० उ.  
 हिंदी निवध सा प्र ४५०  
 हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास. एस चाद. १  
 हिंदी साहित्य का सरल इतिहास. एस. चाद. २.५०

हिंदी साहित्य सार सा प्र ४५०  
 हिमालय की वेदी पर सा प्र ३५० उ  
 होली का दिन रामप्रसाद १२५ बप्र  
 शर्मा, यज्ञदत्त दे मिश्र, ज्योतिप्रसाद 'निर्मल'  
 शर्मा, यज्ञपाल व्याकरण-पत्र प्रबोध गयाप्रसाद १००  
 शर्मा, यादवेन्द्र 'चंद्र', १९३२- अनावृत नेशनल. ४.००. उ.  
 आचल में दूध आखी में पानी सहगल ५०० उ  
 एक इन्सान की मौत, एक इन्सान का जन्म विद्या प्र. म  
 ५०० क  
 एक कमरे की कहानी. विद्या प्र म ३०० उ  
 एक कली दो रंग सध्या ३०० उ  
 खमा अन्नदाता नेशनल ४०० उ  
 खून की टीका विद्या प्र म ४०० उ  
 गुनाहो की देवी प्रभात प्र ४५० उ  
 जग की रीत बबई प्र २५० उ  
 टेसीटोरी नेशनल ०५० बप्र  
 ठकुरानी प्रभात प्र ६०० उ  
 तीन नकटे राजहस १२५ बप्र  
 धरती की पीर आत्माराम ४०० उ  
 नयना नीर भरे अशोक पा १२५ उ  
 नया इसान विद्या प्र म ३०० उ.  
 पथ की वशी राजपाल २२५ उ  
 प्यास खे पख राजपाल २०० उ  
 प्रोफेसर सहगल ४५० उ  
 बडा आदमी राजपाल ४०० उ  
 बर्फ की समाधि हिंदिया २७५ कथा  
 मिट्टी का कलक सहगल. ३०० उ  
 युग देवता राजहस ४०० उ  
 विश्वामित्र की खोज विद्या प्र म २०० उ  
 सपना राजपाल ४०० उ  
 सफेद बत्तख नवयुग ग्र कु १०० बप्र  
 सावित्री विद्या प्र म ५०० उ  
 सोने का घटा नवयुग ग्र कु  
 शर्मा, यू डी अपना गाव नेशनल ०७५  
 शर्मा, योगेन्द्रनाथ आदि-पुरुष हि प्रचा पु १२५ बप्र  
 गोस्वामी तुलसीदास और अयोध्या काड हि सा भ २५०  
 भाषा कैसे पढावे हि प्रचा पु २००  
 सूर प्रभा (दीनदयाल गुप्त) हि सा भ २५०  
 स्वदेश की कथा ५ भा हि प्रचा पु ०५० (प्र) बप्र  
 —तथा तेजनारायण टडन कबीर सग्रह (सम्मेलन) हि सा  
 भ १०० आ  
 जयद्रथवध टीका हि सा भ १५०  
 नहुष टीका हि सा भ ०७५  
 पंचवटी टीका स २ हि सा भ १२५  
 हिंदी व्याकरण (प्रश्नोत्तरी) हि सा भ १००  
 शर्मा, योगेन्द्रनाथ 'मधुप' हिंदी साहित्य विवेचन हि सा भ.  
 १२५०.  
 शर्मा, रघुनन्दन. तुलसी महाकाव्यम् अ. भा. अणुव्रत १५.००

धर्मशासन. जैन इवेतावर ० १५  
 प्राकृत काश्मीरम् आदर्श सा १ ३७  
 शर्मा, रतनलाल अशोक के फूल एक ग्रध्ययन. हि. सा स  
 १५०  
 हिंदी के साहित्यिक वाद हि सा स ३००  
 शर्मा, रत्नचंद्र हिंदी गद्य की विकास परंपरा दास ३००  
 हिंदी गद्य की विविध विधाए दास ३००  
 शर्मा, रत्नचंद्र उपन्यास सम्राट्—मुशी प्रेमचंद. श्री भा.  
 भारती ३००  
 शर्मा, रत्नचंद्र दे परमेश्वरानंद शास्त्री  
 शर्मा, रमाशंकर 'काक' भाषा शिक्षण संकेत सा नि, का  
 १७५  
 भाषा-शिक्षण सूत्र सा नि, का १७५  
 शर्मा, रमेशचंद्र गवन—एक समीक्षा यग मैन २००  
 —तथा शिवकुमार शर्मा बुनियादी शिक्षा—शाला प्रबंध. य.  
 मैन ५००  
 शर्मा, रमेशचंद्र दे भट्ट, केदारनाथ  
 शर्मा, रमेशचंद्र दे शर्मा, शिवकुमार  
 शर्मा, राजकिशोर ससार की प्राचीन सभ्यताए और भारत  
 से उनका संबंध आदर्श पु भ ८००  
 शर्मा, राजकुमार महाकवि निराला स ३ त्रिवेणी ५.००.  
 सस्म  
 राजर्षि टडन त्रिवेणी ७०० सस्म  
 शर्मा, राजनाथ आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उनकी 'चिंता-  
 मणि' विनोद ३५०  
 आचार्य रामचंद्र शुक्ल और त्रिवेणी विनोद २००  
 आधुनिक कवि और उनका काव्य विनोद २००  
 कबीर (प्रश्नोत्तर) विनोद २५०  
 गवन (प्रेमचंद) (प्रश्नोत्तर) विनोद १२५  
 गोदान (प्रेमचंद) (प्रश्नोत्तर) विनोद २५०  
 चित्रलेखा परिचय विनोद ०७५  
 जायसी और उनका पद्मावत एक सर्वेक्षण. विनोद. ४.००  
 जीवनयज्ञ अध्ययन विनोद १२५  
 तुलसीकृत विनय-पत्रिका विनोद ७.५०  
 द्वापर रतन ३५० आ  
 निराला (प्रश्नोत्तर) विनोद २५०  
 प्रेमचंद (प्रश्नोत्तर) विनोद २५०  
 पद्मावत (जायसी प्रथावली) सटीक विनोद १५००  
 अमरगीत सार रतन ४००  
 मध्यकालीन कवि और उनका काव्य विनोद २५०  
 महाकवि वर्मा और 'अतीत के चलचित्र' विनोद ३.००  
 महादेवी वर्मा और स्मृति की रेखाए विनोद १००  
 विद्यापति का अमर काव्य रतन ४००  
 वृंदावनलाल वर्मा और 'भासी की रानी' विनोद. ३.५०  
 शशीगुप्त रतन ३५० आ  
 सार-सचयन विनोद ६०० नि  
 साहित्यिक-निबंध स ७ विनोद ८००  
 सुमित्रानन्दन पंत (प्रश्नोत्तर) विनोद. २.५०

- हिंदी कहानिया (श्रीकृष्ण लाल) (प्रश्नोत्तर). विनोद.  
४५०
- हिंदी के गद्य लेखक और उनकी शैलिया. विनोद २.५०
- हिंदी के प्रमुख कहानीकार विनोद. ३००
- हिंदी भाषा का इतिहास (प्रश्नोत्तर) विनोद २५०
- हिंदी साहित्य का इतिहास (प्रश्नोत्तर) स ११. विनोद  
२५०
- हिंदी साहित्य का सरल इतिहास सशो स विनोद १५०
- हिंदी साहित्य के प्रमुखवाद विनोद २५०
- सपा. विनय-पत्रिका. विनोद ७५०
- शर्मा, राजेद्र, १९२३- अघे मोड एस चाद. ४०० उ.
- किसान का धन राजकमल २५० वप्र.
- ग्राम-पचायत. राजकमल (अप्रा.). वप्र
- जय भारत विशाल वसल २.००
- ज्ञान-सतसई आत्माराम. ३००. का.
- पाच घडे मोती नेशनल २.५० वप्र.
- प्रतिपदा भा. भ ०.७५ का
- मगल गीत राजकमल. २०० का.
- मणिमय कुडल नेशनल ३५० उ
- महाभारत के पशु-पक्षियों की कहानिया भा. १ नेशनल.  
१५०
- मानव-हस एस चाद. ३००. उ
- मौत भी हार गई वसल २५० लेख
- रामराज्य की ओर वसल, १.०० वप्र.
- संस्कृति के प्रहरी एस चाद २५०
- सतलुज की कहानी नेशनल. ११०
- समीक्षा के मान-दंड श्री भा भारती ४००
- सागर का साम्राज्य नेशनल १५०
- सागर सेतु राजकमल ५००. धर्म
- स्वर्ग का दीपक विद्या प्र म १.५० वप्र
- हिंदी गद्य के निर्माता—बालकृष्ण भट्ट, जीवन और साहित्य.  
विनोद १०००
- हेमा राजकमल ३.०० उ.
- तथा नगीनचद सहगल. साहित्यालोचन(प्रश्नोत्तर). रीगल.  
२५०
- हिंदी साहित्य का इतिहास (प्रश्नोत्तर) रीगल २५०
- सपा. नेवाज कृत सकुतला नाटक मगल. १०.००
- शर्मा, राजेद्र दे नरेद्र सिंह शास्त्री
- शर्मा, राजेद्रकुमार अटैची-केस आत्माराम २०० ए
- कालिख और लाली आत्माराम २.०० ना.
- पर्दा उठने से पहले आत्माराम २५० ए
- रेत की दीवार. आत्माराम १५०. ना
- सपा बुरे फसे सहगल ३२५. ना
- शर्मा, राजेद्रसिंह सामान्य ज्ञान (वृहद्) हिं. प्रचा पु ३.७५
- शर्मा, राजेश अपराधी अर्चना प्र (पा.) १.००
- उगता चाद बाल सदन वप्र
- कौए नव सा. प्र ५५० उ
- गिनी-चुनी ख्वाइया. अर्चना प्र (पा.) १.००

- गुरु अगद देव उमेश, २०००. वप्र.
- गुरु अमर दास. उमेश २०००. वप्र.
- गुरु नानकदेव उमेश. २०० वप्र
- गुलिस्ताने कत्या अर्चना प्र (पा) १.००. का.
- घर द्वार. नव सा. प्र. ३५०. उ
- जन्म-निरोध अर्चना प्र (पा) १.००
- नन्हा राजू बाल सदन. वप्र.
- बहार-ए-शायरी अर्चना प्र (पा) १००
- भालू दादा. बाल सदन. वप्र
- माओ रानी बाल सदन वप्र
- रूप और प्यास ऐडी. ३६०. उ
- जेरे-महफिल अर्चना प्र (पा) १००
- जेरे-हरम अर्चना प्र (पा) १००
- तथा अन्य गौरवमय भारत भा १. उमेश. ५००
- शर्मा, गजेश्वरी. सचित्र शब्द बोध एस चाद ०.५० वप्र.
- शर्मा, राधाकृष्ण. आधुनिक यूरोप का इतिहास (१४५३-  
१७८९) विन्विद्यालय ३५०
- ग्रेट ब्रिटेन का आधुनिक इतिहास कि. महल. (प्रारंभ से  
१६०३) ४५०, (१६०३-१८१५) ५.५०, (१८१५-  
१९६१) ५५०
- दुनिया की कहानी कि महल भा. १. ५००, भा २.  
६००
- भारत की स्वाधीनता की कहानी राजपाल १२५ वप्र.
- शर्मा, राधेग्याम दे माइकेल्सडीन, बेरा
- शर्मा, रामकृष्ण. एस्कीमी लोक-कथाए आत्माराम १.२५.  
वप्र
- गप्पी राजा सा प्र १०० वप्र
- तात्विक आधार सर्वोदय सा. ०.५०
- पुर्खों की कथाए सा प्र १५० वप्र.
- प्राचीन कथाए सा प्र. १५० वप्र.
- बल्गेरिया की लोक-कथाए आत्माराम. १.५०
- बाल कथाए हिं सा म ०.७५ वप्र.
- बिलाव राजा सा प्र १००. वप्र
- मनोरंजक कथाए सा प्र १५० वप्र; — —
- हिं सा. स ०.७५
- रोचक कथाए सा प्र ०.७५ वप्र.
- वीर सिपाही सा प्र १५० वप्र.
- शीश महल हिं सा स ०.७५ वप्र
- सत कवीर उमेश २००
- समाज सेवा सर्वोदय सा ०.५०
- सरल पत्र रचना हिं सा. स ०.७५
- सामाजिक मूल्य. सर्वोदय सा ०.७५
- शर्मा, रामगोपाल 'दिनेश', १९२७- काव्यालोचन. रतन  
१.००
- गद्य पारिजात रतन ०.८७
- गोदान समीक्षा अशोक प्र २.५०
- पद्य भारती. रतन ११२
- अमरगीत-सार (प्रश्नोत्तर). विनोद. २.५०



महाकवि विहारी हिं सा स २५०  
 मृगनयनी (प्रश्नोत्तरी). रत्न ०५० आ  
 विनय-पत्रिका (प्रश्नोत्तर) विनोद २५०  
 शकुतला नाटक (प्रश्नोत्तर) विनोद १५०  
 सस्कृत सुषमा रत्न ०५०  
 सर्वोदय के गीत सा रत्न भ ०७५  
 सोमनाथ श्रीराम मेहरा २००  
 हिंदी साहित्य का आदर्श इतिहास स ४ रत्न १५०  
 —सपा साहित्यिक निबन्ध-संग्रह सरस्व पु स ३००  
 शर्मा, रामगोपाल 'रुद्र' भागीरथी अभिज्ञान १८७ वप्र  
 मीड अभिज्ञान ३०० का  
 शर्मा, रामचंद्र सफल जीवन मोतीलाल ३००  
 —सपा एकाकी एकावली हिं भवन २५०  
 शर्मा, रामचंद्र 'किशोर' दे दीनानाथ 'शरण'  
 शर्मा, रामजीलाल बात गीता. इ प्रे १२५  
 शर्मा, रामजीवन रचना की ओर गयाप्रसाद ०७५  
 शर्मा, रामधन कूटकाव्य एक अध्ययन नेशनल १२५०  
 शर्मा, रामनाथ नीतिशास्त्र की रूपरेखा केदारनाथ ७५०  
 भारत में समाज कल्याण और सुरक्षा केदारनाथ १०००  
 भारतीय दर्शन के मूल तत्त्व सशो स २ केदारनाथ ६५०  
 भारतीय समाज और संस्कृति केदारनाथ भा १ ६००,  
 भा २ १०००  
 भारतीय सामाजिक व्यवस्था और संस्थाये केदारनाथ.  
 ८५०  
 भारतीय सामाजिक संगठन केदारनाथ ५५०  
 भारतीय सामाजिक संस्थाये केदारनाथ ७५०  
 व्यावहारिक मनोविज्ञान केदारनाथ ७५०  
 व्यावहारिक मनोविज्ञान की रूपरेखा केदारनाथ  
 व्यावहारिक समाजशास्त्र और सामाजिक समस्याए  
 केदारनाथ १०००  
 समाजशास्त्र के मूल आधार केदारनाथ ६५०  
 समाजशास्त्र के मूल तत्त्व २ भा केदारनाथ ६५० (प्र)  
 समाजशास्त्र के सिद्धांत केदारनाथ ६५० से ८००  
 सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन केदारनाथ  
 ७००  
 सामाजिक संस्थाओं का तुलनात्मक अध्ययन केदारनाथ  
 ८००  
 सामान्य मनोविज्ञान केदारनाथ ५५० उ  
 शर्मा, रामनाथ दे शर्मा, उर्मिला  
 शर्मा, रामनारायण स्वास्थ्य बोध ६ भा लक्ष्मी ना ०५०  
 (प्र.)  
 शर्मा, रामनिरजन अलाव नाटिकावली ग्रथालय २०० ना  
 गाव चलो ग्रथालय १२५ ना  
 नकली नेता ग्रथालय १५० ना  
 नया जमाना ग्रथालय. १२५ ना  
 शर्मा, रामप्रकाश गिरिव्रज राजगृह मगध ४००  
 शर्मा, रामवरन आसू की तीन बूंदें सा नि., व २५० उ  
 वैलन का धडका सा नि., व २५० क

शर्मा, रामबाबू पद्महवी से सत्रहवीं गती तक हिंदी साहित्य के  
 काव्य-रूपों का अध्ययन हिं ग्र २  
 शर्मा, रामलखन हमारा अतीत प्रभात प्र ८००  
 शर्मा, रामविलास, १९१२- आचार्य रामचंद्र शुक्ल और  
 हिंदी आलोचना विनोद ५००  
 आस्था और सौंदर्य कि महल ५०० नि  
 निराला पीपुल्स १५० वप्र, — —स ३ शिवलाल  
 ५००  
 प्रगतिशील साहित्य की समस्याए विनोद ३.५०  
 प्रेमचंद और उनका युग मुशीराम ३००  
 भारतेद्युग विनोद ३००  
 भाषा और समाज पीपुल्स. १५००  
 मानव सभ्यता का विकास विनोद ५००  
 रूप तरंग विनोद २००. का  
 लोकजीवन और साहित्य विनोद ३५०  
 विराम चिन्ह विनोद ६०० आ  
 सन् सत्तावन की राज्यक्रांति विनोद १०००  
 स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य हिं प्रचा पु ४०० नि  
 शर्मा, रामविलास दे शर्मा, श्रीराम  
 शर्मा, रामशरण ऐतिहासिक कथा-माला अशोक प्रे भा ३  
 ०५०, भा ४ ०५६ वप्र  
 विश्व-इतिहास की भूमिका २ भा ग्रथमाला १०५०  
 शर्मा, रामसरन एक प्यार एक घोखा शमा ३२५ उ.  
 कटीले तार या आजाद हिंद फौज सा नि, का १०० उ.  
 कुछ पैसे राजहस १२५ क  
 जल धारा शारदा म २०० उ  
 सफर की साथिन आत्माराम २०० ए  
 शर्मा, रामसरूप हिंदी में नीति काव्य का विकास दि. पु.  
 स २०००  
 —तथा हरब्रह्मप्रसाद पांडेय राष्ट्रभाषा सौरभ एस चाद  
 ३००  
 शर्मा, रामाधार माखनलाल चतुर्वेदी नद. व एव नद स  
 ३५० आ  
 हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा अनुसंधान १६००  
 शर्मा, रामानंद उडते धन-पटल साहित्य-विवेचन  
 कन्याकुमारी  
 कीर्ति-राका कौसल्या कन्याकुमारी १००  
 कैकेयी की कुटिलता कन्याकुमारी १००  
 गागर में सागर महाकाव्यों का सार-संग्रह कन्याकुमारी  
 गौरीशंकर कन्याकुमारी उ  
 तोरण के परां कन्याकुमारी २५०  
 पीया चाहे प्रेमरस कन्याकुमारी उ  
 पुर्नमिलन कन्याकुमारी ४५० उ  
 मरीचिका कन्याकुमारी क  
 मानस की महिलाए कन्याकुमारी ८००  
 श्रद्धा पथ के भिलमिल प्रदीप कन्याकुमारी  
 सपनों की सगिनी कन्याकुमारी उ  
 शर्मा, रामावतार भारतीय ईश्वरवाद. ग्रथमाला. ३.००

यूरोपीय दर्शन. वि राष्ट्र ३.०५  
 श्रीरामावतार जर्मा— निवधावली वि राष्ट्र. ८७५  
 शर्मा, गान्धिविहारी राय काव्य-प्रवेश जानपीठ १५०  
 नवीन दाल-मनोविज्ञान ग्रथमाला ५००  
 शर्मा, रद्रकुमार फूल और कलिया तदमी ना २५०  
 शर्मा, रुद्रदेव सन्यानी-समीक्षा हि सा. स. १.५०  
 शर्मा, रेवतीसरन, १६२४- अपनी घरती. नेशनल. २.५०  
 ना.  
 श्याम, राग और रोगनी. आत्माराम. २.०० ना.  
 चिन्मयी की ली नेशनल २००  
 देश और योजना नेशनल. ०७५  
 न मीत न मजिल. नेशनल ५०० उ.  
 पत्थर और आसू नेशनल ४०० ए.  
 नूरज का परिवार. नेशनल १.२५  
 शर्मा, लालताप्रसाद वीर-विदुषी स्त्रिया प्रभात प्र १.२५  
 शर्मा, लोकेंद्र. गुरुदेव उमेश २०० वप्र  
 पुष्कर सरता ०४०  
 रविवावू उमेश २०० वप्र  
 शर्मा, वमतीलाल दाल मनोविज्ञान ज्ञान मडल प्र. ३.००  
 शर्मा, वामदेव, टीका. जानकी मगल रा वेनीप्रसाद ०.३१  
 पार्वती मगल. रा वेनीप्रसाद ०.३१  
 वरवै रामायण. रा. वेनीप्रसाद ०.३७  
 शर्मा, वामुदेव नूरदास (प्रश्नोत्तर). विनोद २५०  
 शर्मा, वामुदेव महाय दे श्रीवास्तव, वेनीप्रसाद.  
 शर्मा, विजयकुमार. खिगावाला काव्य त्रिवेणी. १५०. का.  
 लोकप्रिय हिंदी कवि. त्रिवेणी ६.००. का  
 शर्मा, विद्याशंकर दे शर्मा, दयाशंकर  
 शर्मा, विद्यासागर. आधुनिक सहकारिता. सस्ता २००  
 उपनिषदों की शिक्षा-प्रणाली. आत्माराम  
 पचायत राज सस्ता. ३५०  
 समाज कल्याण. आत्माराम ३.००  
 शर्मा, विनयकुमार पन की काव्य-साधना. हि. ना न ५००  
 शर्मा, विनयमोहन आधुनिक हिंदी कविता के बाद विज्वेवर्ग-  
 नद. १.३१  
 गीत-गीतिका आत्माराम ६००. का  
 दृष्टिकोण नद न एव नद न ४०० या  
 भौरा की भूमिका. विद्यानाल  
 साहित्य, शोध और समीक्षा एन चाद ५५०  
 साहित्यापयोग. ना. भजन २ ३०० नि.  
 हिंदी की मगठी गती की देन वि राष्ट्र ११२५  
 —नया. साहित्य-परिचय हि सा. स २००  
 शर्मा, विनोदप्रसाद आराम और टीका रूपसी १००. उ.  
 गद्यभाष्य रूपसी चिनगारी १.५०  
 गरी गद्य की शोध गरी १.०० उ  
 चंद्रशेखर का रचित गद्य शर्मा १००. उ.  
 गरीब छात्रमाला चिनगारी. २५०  
 गद्य चिनगारी १३०  
 गद्य दो : गद्य एव. शर्मा १५०. उ

दो नितारे चिनगारी ३००  
 घरती का सूरज रूपसी. १.५० उ  
 घुप-छाह चिनगारी १.५०  
 परियों की रानी रूपसी १.५० उ  
 पर्दे के पीछे चिनगारी. १५०  
 प्यार, पैसा और इन्सान रूपसी. १५० उ.  
 प्रेतात्मा चिनगारी १५०  
 वीते दिन वीती वाते रूपसी. १५० उ.  
 भय के राज्य मे रूपसी १००. उ  
 मुर्दों के गहर मे रूपसी १००  
 लाट साहव चिनगारी १५०  
 शर्मा, विमलचंद्र, विमलेश ऋषि गाथा महाकाव्य  
 गोविंदराम ४००  
 शर्मा, विमला एक था छोटा सिपाही शकुन १२५  
 शर्मा, विश्वभरनाथ 'कौशिक', १८६१-१९४५ ईश्वरीय दड.  
 विनोद ३००. क.  
 एप्रिल फूल. विनोद ३००. क  
 कल्लोल विनोद ३०० क  
 कौशिकजी की डक्कीस कहानिया. नेशनल ५००  
 खोटा बेटा विनोद ३०० क  
 चित्रगाला गगा २२५ क  
 जीत मे हार विनोद ३००. क  
 दुवेजी की डायरी. विनोद ३००. क.  
 प्रतिशोध विनोद ३०० क  
 पेरिस की नर्तकी (तथा अन्य कहानिया) विनोद  
 ३००.  
 प्रायश्चित्त गगा ३०० क  
 भिखारिणी विनोद ४०० उ  
 मा गगा ७.०० उ.  
 रक्षावधन विनोद ३०० क.  
 बध्या विनोद ३००. क.  
 सघर्ष. मा नि, का ५०० उ  
 गध की होली गगा. ३००. क.  
 शर्मा विश्वदेव विनोदप्रसाद आत्माराम ४०० वप्र  
 शर्मा, विश्वमित्र प्रगुजन्ति की कहानी राजहंस १२५ वप्र  
 ग्रनिफ लैला राजहंस. ५०० वप्र  
 काश्मीर राजहंस १७५  
 बटो का वचन राजहंस २.२५ वप्र  
 भारत के लोक-नृत्य ज्ञानमाला. २५०  
 मराठे खगोल उमेश २००. वप्र.  
 नी की गद्य पीठिका १५० वप्र.  
 मुर्गो काली राजहंस. २००. वप्र  
 नाग की कहानिया राजहंस १५० वप्र  
 शर्मा, विश्वमित्र रुद्रदेव पटान दर्वी प्र १.२५ ना.  
 हनुमान विद्यादर नागा. ०.४० वप्र.  
 शर्मा, वी. टी. एन शैलजा. रूपसी २२५ उ  
 पीन दंडा की कृती. १२५ उ  
 —नया अन्य ज्ञानान्व शिक्षा की गद्यरेखा. शर्मा ६२५

शर्मा, वी डी तथा श्रीचद निगम सार्वजनिक राजस्व एवं आर्थिक प्रणालिया केदारनाथ २२५  
 शर्मा, वेकट आधुनिक हिंदी-साहित्य में समालोचना का विकास आत्माराम २०००  
 शर्मा, वेकटेश्वर अध्यात्मयोग और चित्त-विकलन वि राष्ट्र ७५०  
 शर्मा, वेणीमाधव दूध-वताशा हि प्रचा पु १२५ वप्र पढ लो वेटा पढ लो हि प्रचा पु ०६७ वप्र पराक्रमी दुर्गादास नद ब्र एव नद स ०८८ वप्र प्रौढ-शिक्षा के प्रयोग व विधान नद ब्र एव नद स ३५० बच्चों की शिक्षा नद ब्र २२५ विल्लो का चिडियाघर हि प्रचा पु १२५ वप्र रचनात्मक शिक्षा नद ब्र ३५० राष्ट्र और शिक्षालय नद ब्र २५० राष्ट्रनायक. नद ब्र एव नद स ०८१ वप्र विद्यालय-व्यवस्था नद स २७५ शिक्षण-विधि के सिद्धांत नद स ३५० सफलता के मंत्र हि सा कु १.५० सामाजिक अध्ययन की शिक्षा नद ब्र एव नद स २.५० हमारा हिंदी साहित्य नद ब्र एव नद स १५० शर्मा, वेदव्रत आधुनिक राजनीति की चित्यधाराए हि प्रचा पु ५०० शर्मा, शभूदत्त संस्कृत काव्य-लतिका एस चाद २०० शर्मा, शभूप्रसाद मनोविज्ञान तथा मानसिक प्रक्रियाए कि महल ७५० शर्मा, शभूलाल मानव-निर्माण कृष्णा ब्र १५० जी राजस्थान साक्षर होगा दत्तवधु १२५ —तथा मारिणक्यचंद्र जैन मानव सघर्ष यग मैन. ६२५ शर्मा, शकुतला आधुनिक काव्य में सौंदर्य भावना नद ब्र ४०० चाद खो गया. त्रिवेणी २५० क शर्मा, शक्ति तथा श्यामलाल शर्मा डोगरी भाषा, संस्कृति में साहित्य श्रीपति ३०० शर्मा, शिव धर्म शिक्षा देहाती ०२५ शर्मा, शिवकुमार अपनी कहानी की तालीम यग मैन १२५ अपनी तालीम की कहानी यगमैन १२५ —तथा रमेशचंद्र शर्मा बुनियादी शिक्षा-मनोविज्ञान यग मैन ३०० बुनियादी शिक्षा में विभिन्न विषय कैसे पढाये ? यग मैन १.७५ बुनियादी शिक्षा-शाला स्वास्थ्य यग मैन १८० बुनियादी शिक्षा-शिक्षण पद्धति यग मैन ५०० बुनियादी शिक्षा-सिद्धांत यग मैन २८० बुनियादी शिक्षा-सिद्धांत एव मनोविज्ञान यग मैन ५२५ शर्मा, शिवकुमार दे जैन, किशनचंद्र शर्मा, शिवकुमार दे शर्मा, रमेशचंद्र शर्मा, शिवकुमार 'शैल' पिकिनिक में सूरदास साहित्यवाणी १.०० वप्र.

शर्मा, शिवचंद्र ईर्ष्या और पाप सा साधना ३७५ क. कूलकिनारा कि महल ०७५ उ. नया आदमी न्यू लिट ३७५ उ पच-दश तत्र पु भ, रा ३५० हुंकार एक समीक्षा राष्ट्रीय प्र मडल एव राष्ट्रीय सा स. १५० शर्मा, शिवदत्त अग्नि होत्र विधि कल्पवृक्ष ०५० आरोग्य आनंदमय जीवन कल्पवृक्ष ०५० गायत्री महिमा कल्पवृक्ष ०५० ध्यान की विधि कल्पवृक्ष ०५० शिव सदेश कल्पवृक्ष १००० संस्कृत काव्याग प्रकाश केदारनाथ १५० साहित्यिक निवध प्रदीप सा प्र १२५० सोहम् चमत्कार कल्पवृक्ष ०५० शर्मा, शिवनाथ नागरिक शास्त्र के मूल तत्त्व. आदर्श पु भ ४५० नागरिकता तथा भारतीय शासन सशो स ३ पु. भ ६०० भारतीय संविधान आदर्श पु भ ६०० शिष्टाचार आदर्श पु भ ०७५ वप्र शर्मा शिवनारायण साहित्य ग्रथमाला ३०० शर्मा, शिवराज हिंदी साहित्य का नवीन इतिहास. आशा प्र. १५० शर्मा, शिवराम दे चौधरी, रामखेलावन. शर्मा, शिवशंकर सहयोग का बल गंगा १५० शर्मा, शिवानंद अरस्तू हिं समि ३.५० व्यापार दस्तकारी देहाती २५० हरफन मौला देहाती २५० शर्मा, शीला धरती माता दि प्रे १२५. वप्र श्मशान की शहनाई सा नि, का २.५० क शर्मा, शेषमणि 'मणिरायपुरी' कैकेयी रा वेनीमाधव. १५० का शर्मा, शेषराज मेघदूतम् चौखटा ५५० का शर्मा, श्याम दे रागेय राघव शर्मा, श्यामदत्त तथा एस सी माथुर विश्व का इतिहास. यग मैन ६२५ शर्मा, श्यामप्रसाद इटर कृषि विज्ञान स २ भा भा प्र भा १ ६५०, भा २ ५५० व्यावहारिक कृषि विज्ञान सशो स भा भा प्र २०० सचित्र कृषि विज्ञान स ११ भा भा प्र ४५० शर्मा, श्यामलाल प्रेमनाथ डोगरा श्रीपति ०७५ श्रीमद् भागवत् दिया कथा श्रीपति १५० शर्मा, श्यामलाल दे शर्मा, शक्ति शर्मा, श्यामसुंदर भौतिकी रतन भा १ ७५०, भा २ ६५० राबिनहुड की कहानी आदर्श पु भ ०५० वप्र शर्मा, श्यामसुंदर 'ब्रजेश', रूपा गुलीवर की यात्रा आदर्श पु भ २००

- शर्मा, श्रीकृष्णलाल आधुनिक हिंदी-कविता में ध्वनि. प्रथम  
१५००
- शर्मा, श्रीगणेश स्वप्नभंग अध्ययन रीगल ०.७५
- शर्मा, श्रीधर बाल अपराध दत्तवधु ५००
- शर्मा, श्रीनिवास. आधुनिक हिंदी काव्य में वात्सल्य रस अशोक  
प्र १२५०
- जायसी ग्रथावली सटीक अशोक प्र. ८००
- भारतीय काव्य समीक्षा अशोक प्र २५०
- शर्मा, श्रीपति कहानी-कला, विकास और इतिहास नद स.  
६००
- शर्मा, श्रीराम खालिकवारी ना प्र सभा २७५ का  
लोकमान्य तिलक. आत्माराम १५० जी.
- विषाद सरस्व प्रे ३०० क
- वे जीते कैसे हैं। हि ग्र. र २.५० क.
- सघर्ष और समीक्षा हि ग्र र ३०० क.
- तथा रामविलास शर्मा गालिव के पत्र भा २ हिंदु.
- सपा न्याय दर्शन संस्कृति ४०० [एकेडेमी.
- मीमांसा दर्शन. संस्कृति ४००
- योगदर्शन संस्कृति ४००
- वेदांत दर्शन संस्कृति ४००
- वैशेषिक दर्शन संस्कृति ४००
- सांख्य दर्शन संस्कृति ४००
- तथा मुबारिजुद्दीन रफत, सपा अली आदिलशाह का काव्य-  
संग्रह क मु हि ४५०
- तथा रामविलास शर्मा, सपा गालिव के पत्र हिंदु एकेडेमी.  
८००
- शर्मा, श्रीराम 'राम', १६०६- आधी साहनी २५० उ
- उठते कदम गंगा ६५० उ
- उत्सर्ग हिंदिया ३७५
- उभरते खडहर हि प्रचा पु ५०० उ
- कल्पना के आसू नवयुग प्र. ४५० उ
- काटे साहनी ६०० उ
- चित्रकार नेशनल ४०० उ
- जिंदगी की राहे ओरिएटल ४०० उ
- भरोखे उमेश ५०० उ
- टूटते बंधन अशोक पु म ५०० उ
- टेढी रेखाए नेशनल ४०० उ
- धरती का बोझ सा सदन, दे ४०० उ
- धरती के आसू सा सदन, दे ३७५ उ
- नदी का मोड़ श्री भा भारती ५०० उ
- पथ निर्देश गंगा ५००. उ
- बालू की दीवार प्रभात प्र ३०० उ
- रास्ते का मोड़. एस चाद ५५० उ
- रेणु नवयुग प्र ४७५ उ.
- साभू का मेहमान चौधरी ५००
- शर्मा श्रीलाल प्रारंभिक काष्ठ कला देहाती ०.७५
- शर्मा, सच्चिदानंद बाल दिनोद वाटिका जुगल किशोर  
प्राइमर. १००; भा १०६४

- सप्त सुमन जुगल किशोर ० ६५
- शर्मा, सत्यनारायण आमुओ का देश हि प्रचा. पु. ३.००.
- दर्शन
- आत्महता हि प्रचा. पु ४००. उ.
- टूटती हुई जजीरे हि प्रचा पु ३२५ उ.
- दुनिया मेरी दृष्टि में हि. प्रचा. पु ५०० दर्शन
- शर्मा, सत्यनारायण दे भवभूति
- शर्मा, सत्यप्रकाश तथा ज्ञानदत्त शर्मा मानव समाज का  
विकास. कृष्णा ब्र. ५००
- वर्मा, सत्यभूषण आसाम की लोक कथाए वाल सदन
- शर्मा, सत्यवती प्रथम सुमन आत्माराम १.०० का
- शर्मा, सत्यव्रत 'सुजन' प्रामाणिक प्रशासन-कोष. कला-नि  
१.५०
- शर्मा, सत्येद्र अमभररा की घाटी में प्रेम प्र. २५० उ
- आसू और चिता प्रेम प्र ४.०० उ.
- क्षितिज के उम पार प्रेम प्र. ५०० उ.
- जमुना की लहरो में प्रेम प्र ३५० उ.
- वीना की पुकार प्रेम प्र ३०० उ
- सपा बर्फ के हीरे सा सदन, दे. २५० क.
- शर्मा, सरनामसिंह 'अरुण', १६१७- कबीर एक विवेचन  
हि सा स १२५०
- कबीर-विमर्श श्री भा भारती ५.००
- पंचवटी कृष्णा ब्र. १००. ए
- पालि-साहित्य और समीक्षा हि सा स ३.१२
- विखरे फूल कृष्णा ब्र ३०० आ.
- भक्ति दर्शन कृष्णा ब्र ६५०
- भाव-करण कृष्णा ब्र २.५० नि
- राजस्थान-साहित्य परंपरा और प्रगति. हि. सा. स. २००
- विमर्श और निष्कर्ष हि सा स १२५०
- साहित्य, सिद्धांत और समीक्षा श्रीराम मेहरा. ७.५०
- स्वप्न का देवता कृष्णा ब्र १.२५ क
- हिंदी साहित्य पर संस्कृत साहित्य का प्रभाव रा. वेनीमाधव  
५००
- शर्मा, सरोजिनी हिंदी साहित्य का सरल इतिहास यग मैन.  
१५०
- शर्मा, सावित्री बदनवार. त्रिवेणी. २.५०, ४०० ना.
- शर्मा, सी पी पाश्चात्य शिक्षा का इतिहास (प्रश्नोत्तर).  
मालवीय ४८७
- भारतीय शिक्षा का इतिहास (प्रश्नोत्तर). मालवीय ४५०
- शिक्षालय संगठन तथा स्वास्थ्य (प्रश्नोत्तर) सगो. स. २  
४७५
- शर्मा, सीताराम चामुडा कला-भा २००. ना
- शर्मा, सुंदरलाल बाल-पंचतंत्र इ प्रे २००
- बालभोज-प्रबंध इ प्रे १००
- शर्मा, सुजनदत्त. निबंधानुवाद दिवाकर गुप्ता ब्रा ० ७५
- सरल संस्कृत व्याकरण गुप्ता ब्रा १.२५
- शर्मा, सुरेद्र. महाराणा राजसिंह रामप्रसाद. २०० जी.
- रण बांकुरा दुर्गादास रामप्रसाद. २.००. जी

विचार चित्र रामप्रसाद ० ६४ नि  
 विचार धारा रामप्रसाद १५० नि  
 वीरभूमि मेवाड रत्नाश्रम १७५  
 साहित्य के पुजारी रामप्रसाद १५० जी  
 —अनु जीवन ज्योति रत्नाश्रम ० ५६  
 शर्मा, सुरेन्द्रनाथ जीवन का आनंद देहाती भा १ २.५०,  
 भा २ २००  
 श्रीमद्भगवद्गीता रा बेनीमाधव १५०  
 शर्मा, सुरेशचंद्र भारत के त्यौहार आत्मराम ३००  
 व्यावहारिक मनोविज्ञान विनोद ६००  
 शर्मा, सुरेणप्रसाद आयुर्वेदिक घरेलू चिकित्सा स २  
 मेडिकल १ २५  
 इजेक्शन. स ७ मेडिकल १०००  
 एलोपैथिक चिकित्सा स ५ मेडिकल १२००  
 एलोपैथिक पाकेट गाइड स ४ मेडिकल ३००  
 कब्ज या कोष्ठवद्धता स २ मेडिकल ० ७५  
 जल चिकित्सा मेडिकल ० ५०  
 तुलसी चिकित्सा विधान स २. मेडिकल ० ३७  
 नीम चिकित्सा विधान स २ मेडिकल ० ६३  
 प्राकृतिक शिशु-चिकित्सा मेडिकल २००  
 प्लीहा चिकित्सा, मेडिकल ० ६२  
 वबूल चिकित्सा विधान स २ मेडिकल ० ३७  
 वायोकेमिक चिकित्सा स ३ मेडिकल ४००  
 वायोकेमिक पाकेट गाइड स ४ मेडिकल १००  
 भारतीय औषावली तथा होमियो पेटेट मेडिसिन स ४  
 मेडिकल १ ५०  
 मधु-चिकित्सा विधान मेडिकल ० ५०  
 मवेशियो की घरेलू चिकित्सा मेडिकल ० ७५  
 महात्मा हैनिमेन कृत हिंदी आर्गेनन स ३ मेडिकल ४००  
 मिक्चर स ७ मेडिकल २५०  
 रोगी की सेवा और पथ्य मेडिकल ३००  
 सुलभ देहाती नुस्खे मेडिकल १ २५  
 स्त्री-रोग चिकित्सा स ३ मेडिकल ४५०  
 होमियो इजेक्शन-चिकित्सा स ५ मेडिकल १७५  
 होमियो कपरेटिव प्रिसमेटेरिया मेडिका मेडिकल स ४  
 ६००  
 होमियो गृह-चिकित्सा स २ मेडिकल २५०  
 होमियो पाकेट गाइड स ५ मेडिकल १००  
 होमियो पारिवारिक चिकित्सा स ४ मेडिकल ६००  
 होमियोपैथिक मेटेरिया मेडिका स ३ मेडिकल ३७५  
 होमियो भेषजसार स ४ मेडिकल २००  
 होमियो शिशु-चिकित्सा मेडिकल ० ७५  
 शर्मा, सूरजप्रसाद तथा अन्य उच्चतर माध्यमिक वहीखाता  
 एव लेखाकर्म लक्ष्मी ना भा १-२ ७५०, भा ३  
 ४.५०  
 शर्मा, सूर्यदेव इतिहास की कहानिया आर्य सा ० ५०  
 धार्मिक शिक्षा १० भा आर्य सा ५ ४५  
 पुरुष युक्त आर्य सा ० ३१

यद्ध नीति और अहिंसा आर्य सा १ २५  
 सरल सामान्य ज्ञान आर्य सा भा १ ० २५, भा २  
 ० ३७, भा ३ ० ४४, भा ४ ४५०  
 साहित्य-प्रवेश आर्य सा भा. १-२ ० ४४ (प्र), भा ३-४.  
 १०० (प्र)  
 स्वस्थ-जीवन आर्य सा १ २५  
 शर्मा, सूर्यदेव दे शर्मा, जयदेव  
 शर्मा, सेवाराम दे जोशी, मुरलीधर  
 शर्मा, स्नेहलता यशपाल के उपन्यास कौशावी ४००  
 शर्मा, स्वामीनाथ में विद्यार्थी हू प्रभात प्र २५० लेख.  
 शर्मा, हनुमानप्रसाद नागरिक शास्त्र स ३ चौखवा ० ७५  
 शर्मा, हरद्वारीलाल कला-विज्ञान हिं सा सम्मे १००  
 काव्य और कला भा प्र मदिर ४००. नि  
 रस और रसास्वादन हिं सा सम्मे ४५०  
 विचार-विज्ञान हिंदु एकेडेमी ४००  
 साहित्य और कला हिं. सा सम्मे २.५०  
 सौंदर्य-शास्त्र सा भवन, इ. ३००  
 शर्मा, हरनारायण दे श्रीवास्तव, आर के  
 शर्मा, हरवलाल, १६१६- भागवत दर्शन भा प्र मदिर.  
 १२००  
 सूर और उनका साहित्य सशो स २ भा प्र मदिर. १०००  
 सूर-काव्य की आलोचना भा प्र मदिर २००  
 सूर-सरोवर वसल २५०  
 —तथा परमानंद शास्त्री. विहारी और उनका साहित्य भा  
 प्र मदिर ६००  
 शर्मा, हरवसराय दे विल्डर, लारा इगल्स  
 शर्मा, हरस्वरूप घन-ज्यामिति. गयाप्रसाद १७५  
 नियामक ज्यामिति के प्रश्न के हल गयाप्रसाद २००  
 समतल त्रिकोणमिति के प्रश्नों के हल गयाप्रसाद ३००  
 शर्मा, हरिदत्त अमरा के देश मे सहयोग या  
 आग और ओस सहयोग नि  
 नेहरू और नई पीढी सहगल एव सहयोग ४२५  
 यह वस्ती यह लोग सहगल एव सहयोग ३५० उ  
 रचनानुवाद चन्द्रिका आगरा बुक १ २५  
 राष्ट्रीय अनुशासन सहयोग ४००  
 राष्ट्रीय अनुशासन योजना सहयोग ४००  
 सूर्योदय के देश मे सहयोग या  
 हम भी गए मेले मे सहयोग २२५ हा  
 शर्मा, हरिनारायण, सपा ब्रजनिधि ग्रथावली ना प्र सभा  
 ३ ७५  
 शिखर वशोत्पति ना प्र सभा १००  
 सुदरसार (सुदररास) ना प्र सभा ३००  
 शर्मा, हरिप्रकाश हमारे आदिवासी. वसल २००  
 शर्मा, हरिश्चकर, १८६३- अभिनय हिंदी कोष गयाप्रसाद  
 ८००  
 गडबड गोष्ठी गयाप्रसाद २५० हा  
 घास पात रामप्रसाद २५० का  
 चमकते महकते मोती गयाप्रसाद ० ७५ वप्र.

चिडियाघर गयाप्रसाद २५०. हा.  
छद्म विज्ञान की व्यापकता रतन ३७५  
जीवन ज्योति गयाप्रसाद २५० जी.  
जीवन झाकी गयाप्रसाद २०० जी.  
पिजरापोल गयाप्रसाद २५० हा.  
भारतीय गौरव की कहानी ४ भा रामप्रसाद. १.०० (प्र.).

ब्र

मटकाराम मिश्र गयाप्रसाद. २५०. हा.  
मन की मौज गयाप्रसाद २५० हा  
महकते मोती गयाप्रसाद १५०. ब्र  
महाभारत महिमा रामप्रसाद. २००  
मेवाड महिमा गयाप्रसाद. १.२५. जी  
रस रत्नाकर. रा. बेनीप्रसाद ५००  
विज्ञान चर्चा गयाप्रसाद ०७५ ब्र.  
विश्व का इतिहास यग मैत्र ३७५  
शकर सर्वस्व. गयाप्रसाद. १२.००. का.  
शिव सकल्प रामप्रसाद ०५० का  
हाई स्कूल सामाजिक ज्ञान यग मैत्र ३.००  
हिंदुस्तानी कोष. गयाप्रसाद ६००

—सपा शिवा बावनी. रामप्रसाद ०५० का.

शर्मा, हरिशकर दे चतुर्वेदी, बनारसीदास  
शर्मा, हरिशकर दे. वैद्य, बालचंद्र  
शर्मा, हरिश्चंद्र वित्तीय व्यवस्था सा भवन, आ  
शर्मा, हृदयराम पौराणिक कथाएं. चौखवा २५०  
शर्मा, हेमदेव भाषा-विज्ञान समीक्षा. अशोक प्र २.५०  
शर्मा. यह भी दे शर्मा  
शर्मा, रामसुंदर खूनी भाई सुबोध ग्र १७५. उ  
निबंध रत्नावली सुबोध ग्र ३२५  
संस्कृत कपोजीशन एव ट्रान्सलेशन. सुबोध ग्र. २००  
सुखदा सुबोध ग्र. १७५ उ.  
सुबोध बाल महाभारत सुबोध ग्र. २००  
सुबोध बाल रामायण सुबोध ग्र २००  
सुबोध संस्कृत व्याकरण की उपक्रमणिका सुबोध ग्र १५०  
सुबोध हिंदी व्याकरण सुबोध ग्र २.००

—सपा. संस्कृत कोष सुधा-हिंदी-संस्कृत सुबोध ग्र. १.५०

संस्कृत कोष सुधा—संस्कृत-हिंदी सुबोध ग्र. ५००

—सपा. सुबोध संस्कृत व्याकरण कौमुदी सुबोध ग्र ३३०

शर्मा यह भी दे शर्मा

शलायेव, व. तथा न रीकोव. प्राणि-शास्त्र पीपुल्स. २१२  
शल्य, यशदेव, १९२८- पत का काव्य और युग. कि. महल.  
५००

मनस्तत्त्व. हिंदु एकेडेमी ८.००

शशिकला दादू की वाणी सस्ता. ०४० ब्र  
शशिभूषणप्रसाद सिंह. बुनियादी इतिहास. रा. बेनीप्रसाद.

भा. १ १२५, भा २. २००

शशि शेखर भक्त लल्लेश्वरी. विश्वेश्वरानंद. ०.५०

शशि सुमन गावो मे नव ज्योति. स २ नव-ज्योति प्र १.२५  
ए.

शाडित्य, रत्नसिंह. गोदान प्रश्नोत्तरी. सरस्व. पु. स. १.५०  
चंद्रगुप्त प्रश्नोत्तरी सरस्व. पु स. १५०  
शाडित्य, रत्नसिंह दे. जैन, अक्षयकुमार  
शाडित्य, शिवनाथसिंह काला पानी ०४० ब्र.  
कैलाश-मानवरोवर सस्ता ०४० ब्र  
नजीर की नज्मे. सस्ता ०४० ब्र  
फारस की लोक-कथाएं आत्माराम १.२५  
मछेरा और देव सस्ता ०४०  
शिकारियों की सच्ची कहानिया पु भ. २.५०  
शेख सादी ०.४०. ब्र  
हाजिर जवाबी और विनोद रूपकमल ०.८५  
शात. दे सत्यप्रिय 'शात'  
शात, महाकवि आदर्श रामायण प्रार्थना १.००  
शाताकुमार धरती है बलिदान की भा सा सदन ३.००  
शातादेवी शाता कशीदाकारी देहाती १.२५  
शाति खुला आकाश मेरे पख भा. ज्ञानपीठ ४५०  
पंच प्रदीप भा. ज्ञानपीठ २.००. का.  
पगध्वनि अवध २०० का.  
शातिनारायण महारानी भासी राजपाल. ४.००. उ  
शातिप्रकाश. सहकारिता. अशोक प्रे. ४००  
शातिलाल 'बालेदु' हिंदी काव्यशास्त्र. सा. भवन, इ ४.००  
शातिस्वरूप 'कुसुम' पद-विह्वल त्रिवेणी. २.०० का  
पदध्वनि त्रिवेणी. १५०. का  
पद-वदन त्रिवेणी. २०० का  
शा, जार्ज बर्नार्ड, १८५६-१९५० डॉक्टर की उलझन अनु  
शिवदानसिंह चौहान तथा विजय चौहान राजपाल ३.००.  
ना  
मिसेज वारेन अनु शिवदानसिंह चौहान तथा विजय चौहान.  
राजपाल २५०. ना.  
शैतान. अनु शिवदानसिंह चौहान तथा विजय चौहान  
राजपाल ३५० ना  
शाकत्य, श्रीकृष्ण हिंदी टाइप राइटिंग. नद ब्र. एव नद स.  
१५०  
शान फासला मजीत. २.५०  
शानी, १९३३- कस्तूरी प्रचा पा. १.००. उ  
डाली नहीं फूलती हस ३.०० क.  
बबूल की छाव नीलाभ ३५० क  
शामलाल मधुप अहिंसा की विजय अजता. २.५०. ना.  
शॉमिसो. बेपरछाई का आदमी मानसरोवर सा. १.००. कथा.  
शारंगदेव, आचार्य. सगीत रत्नाकर. अनु लक्ष्मी नारायण गर्ग.  
भा १. सगीत ७००  
शारदाप्रसाद विद्याभूषण संस्कृत कपोजीशन एण्ड ट्रान्सलेशन  
मैथिल्युअल. रा बेनीमाधव १.५०  
शारदाप्रसाद, विद्याभूषण दे. ईश्वरचंद्र विद्यासागर.  
शार्दूल दे मोहनलाल 'शार्दूल'.  
शार्दूलसिंह दे पलरा, के सी.  
शालिग्राम शास्त्री, व्या साहित्य दर्पण. मोतीलाल. १०.००  
शास्त्री, चतुरसेन. दे. चतुरसेन, आचार्य.

शास्त्री, पी डी, अनु मालविकाग्निमित्र ३०० ना  
शास्त्रीनी प्रेमपद सग्रह देहाती ०७५  
शाह, कातिलाल ठक्करवापा नवजीवन ३०० जी  
शाह, चद्रकात सरल शिक्षा सिद्धात नवयुग ग्र कु ०५०  
शाह, शम्भुनाथ मेरा बाप । मेरा दुश्मन हिदिया ३००  
कथा.  
शाह, शम्भुप्रसाद चीन का विश्वासघात सस्ता ०६०  
परीक्षा की घड़ी सस्ता ०७५  
शाह, श्रीनाथ पजाव परिचय हि प्रचा पु २००  
शाह, श्रीनिवास पचाग-परिचय हि प्रचा पु २००  
शिअन, विन्सेण्ट टॉमस जैफर्सन आत्मराम ३०० जी  
शिकावू, मुरासाकी गैजी की कहानी ज्ञानमडल ४५० उ  
शिक्षार्थी दो और दो साधना सदन ५०० उ  
भन भन भन कि महल ०७५ वप्र  
श्रीयुत घनचक्कर साधना सदन २५०  
शिरालकर मनोरजक खेल स्वरूप ०७५  
शारीरिक शिक्षा भोपाल एव स्वरूप १५०  
शिरीष इतिहास के चार फूल सुभाष १०० ना.  
नैना नीर भरे जवाहर ३०० उ  
वरदान के फूल जवाहर २५० उ  
शिलीमुख दे शुक्ल, रामकृष्ण 'शिलीमुख'  
शिव दे शिवमूर्ति 'शिव'  
शिवकवि दौलतबाग विलास सपा कुवर चद्रप्रकाश सिंह  
वसल ३०० क  
शिवकुमार पनघट रहा उदास हि प्रचा पु ४०० गीत  
मधुर पुष्पाजलि देहाती ०७५  
मीठी लगन हि प्रचा पु (पा) १०० उ  
हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ अशोक प्र ८००  
शिवकुमारलाल जानने की बातें अशोक प्रे भा १०५६,  
भा २०४४ वप्र  
जीवन और विज्ञान ग्रथमाला १५० वप्र  
शिवकुमार शास्त्री नेलसन की जीवनी रा बेनीप्रसाद ०७५  
वप्र  
शिवकुमार सिंह आदर्श पतिव्रताए नद ब्र एव नद स १२५  
आदर्श माताए नद ब्र एव नद स १००  
कालबोध ना प्र सभा ०२५  
सवाद और सुलेख नद ब्र १२५  
शिवचद्र प्रताप हिंदी साहित्य एक रेखाचित्र ज्ञानपीठ ३००  
शिवचैतन्यानद योग का इतिहास देहाती १२५  
शिवदत्त तथा मंगलदेव शास्त्री आर्य विद्या सुधाकर मोती-  
लाल १०००  
शिवदत्त ज्ञानी भारतीय सस्कृति. राजकमल ५५०  
शिवदास उषा गगा १०० का  
शिवदास कवि लोकोक्ति रस कौमुदी भारतजीवन. ०५०. का  
शिवधानसिंह उन्नत राष्ट्र गयाप्रसाद २००  
शिवध्यान सिंह आधुनिक परिवहन लक्ष्मी ना ४००, ६७५  
भारतीय व्यापार. लक्ष्मी ना ४५०  
वाणिज्य लेख और अपठित गयाप्रसाद. ३५०

शिवनदन प्रसाद काव्यालोचन के सिद्धात ग्रथमाला २५०  
माताए हो तो ऐसी पु भ, रा ०५०  
मात्रिक छंदो का विकास वि राष्ट्र  
साहित्य के रूप और तत्त्व पु भ ३००  
—तथा तेजनारायणसिंह, सपा निवधार्जव. पारिजात ३००  
शिवनदन प्रसाद दे शर्मा, नलिनविलोचन  
शिवनदनप्रसाद सिंह आदर्श प्राईमरी एटलस पु भ., रा १.५०  
ऐतिहासिक साहित्य अगोक प्रे भा १०५६, भा २  
०७५ वप्र  
भारतीय ज्ञान विज्ञान पु भ, रा भा १०७५, भा २  
१७५  
रचना और प्रवध पु भ, रा ३००  
लेख प्रवध पु, भ रा भा ११२५, भा २१५०  
विज्ञान की जान पहिचान २ भा पु भ, रा ०७५ (प्र)  
समाज और विज्ञान की बातें पु भ, रा १००  
शिवनदन सिंह आदर्श ऐतिहासिक कहानिया पु भ, रा  
भा. १-३०५६ (प्र), भा ४०७५  
आदर्श नागरिकता एव समाजसेवा पु भ, रा २५० वप्र  
आदर्श सामान्य मनोविज्ञान पु भ, रा भा १०६२,  
भा २०६४ वप्र  
आदर्श सामान्य विज्ञान पु भ, रा भा १०६२, भा  
२०६४ वप्र  
गाधी बाबा तो हम बनेगे पु भ, रा ०७५ वप्र.  
देशभक्त हो तो ऐसे राष्ट्रीय प्रेस ०७५ वप्र  
महापुरुषो की कहानिया भा १ पु भ, रा ०६२ वप्र.  
विदेश की जानकारी पु भ, रा ३८७ वप्र  
सामाजिक शिक्षा पु भ, रा भा ०७५, भा २०६४.  
वप्र  
हिंदुस्तान की जानकारी पु भ, रा ३८७ वप्र  
शिवनाथ अनुशीलन हि सा सम्मे १५०  
अर्थतत्व की भूमिका ना प्र सभा ६००  
आचार्य रामचद्र शुक्ल नद ब्र एव नद स ४५०  
भारतेदु युगीन निवध नद ब्र एव नद स २५०  
मीमासिका कि महल २.५० नि  
रवीन्द्रनाथ नद ब्र ७०० आ  
हिंदी कारको का विकास ना प्र सभा ३००  
शिवनाथ प्रसाद. भूमिरसायन हि मभि १०००  
शिवनारायण लाल सरल हिंदी व्याकरण हि प्रचा पु २५०  
शिवपुरी तथा हेमलता गृह-विज्ञान रा बेनीप्रसाद भा १  
१७५, भा २२००  
शिवप्रसाद अशोक निवध-माला अशोक प्र ३००  
—तथा इगले संगीत—भगवद्गीता भा भ ०७५  
शिवप्रसाद शास्त्री अशोक निवध माला अशोक प्र ३००  
अशोक पत्र लेखन अशोक प्र २५०  
कवीर सग्रह की टीका रीगल २५०  
काव्य-सग्रह द्वितीय भाग की टीका रीगल ४००  
ब्रजमाधुरी सार की टीका रीगल ४००  
शब्द रचना प्रदीप अशोक प्र १५०

सचयन : एक अध्ययन. रीगल १.२५  
 संस्कृत निबंध-मणि-माला सूर्य प्र ७.५०  
 हिंदी गद्य निर्माण की टीका. रीगल १५०  
 शिवप्रसाद सिंह, १९२९- अंतरिक्ष के मेहमान. प्रचा. पा.  
 १०० उ  
 आरपार की माला नद ब्र एव नद स २.००  
 इन्हे भी इतजार है हि. प्रचा पु. ४.०० क.  
 कर्मनाशा की हार भा. ज्ञानपीठ ३०० क  
 कीर्तिलता और वह अवहट्ट भाषा सा. भवन, इ ६.००.  
 का.  
 घाटिया गूजती है भा. ज्ञानपीठ. ४००. ना  
 विद्यापति हि प्रचा पु ५०० आ.  
 शिखरो का सेतु भा ज्ञानपीठ ३.५०. नि.  
 सूरपूर्व ब्रजभाषा और उसका साहित्य परि स. ५ हि प्रचा.  
 पु. १२.५०  
 —सपा रसरतन ना प्र सभा. १०००  
 ऐतिहासिक कथा-माला अशोक प्रै. भा १. ०.६५, भा २.  
 ०.५०. वप्र  
 शिवमूर्ति 'शिव' एशिया की आग ग्रथमाला. १५०. का.  
 खलिहान जगे अशोक पु म ४००  
 धरली के हरे लहगे. कल्याणदास. ३.००. उ.  
 भाग्य और नवग्रह प्रचा. पा १००  
 सीमारेखा आदर्श पु. भ. ३००. उ  
 शिवमूर्ति सिंह पचायत और किसान रामा प्र. १.२५  
 पशु-पक्षियों और प्रकृति की बातें रामा प्र. १.५०  
 फूलों की बातें रामा प्र २.००  
 शिशु भाषा-ज्ञान. रीगल ०७५  
 शिवमूर्ति सिंह वत्स. अवध की लोक-कथाएँ. भा २. आत्माराम.  
 १.२५  
 चालाक खरगोश प्रमात प्र १.०० वप्र.  
 नटखट चू-चू राजपाल ०७५. वप्र.  
 नटखट चूहा प्रभात प्र १०० वप्र  
 नदी का पानी लाल प्रभात प्र. १००. वप्र  
 नन्ही बीना नेशनल १.०० वप्र  
 नवग्रह और भाग्य हि प्रचा पु १.००  
 पचायत और किसान. रामा प्र १२५  
 पशु-पक्षी और प्रकृति की बातें रामा प्र १.५०  
 फूलों की बातें. रामा प्र २००  
 विहार की लोक-कथाएँ २ भा आत्माराम. १.५० (प्र.)  
 भोजपुर की लोक-कथाएँ आत्माराम. भा १. १.२५, भा.  
 २. १.५०  
 मित्रों का सर्कस २ भा एस चाद १०० (प्र.) वप्र  
 मिथिला की लोक-कथाएँ २ भा आत्माराम. १.५० (प्र)  
 लाल हाथी नेशनल १०० वप्र.  
 वीर कुणाल. उमेश २०० वप्र.  
 शेरों की भगदड. प्रभात प्र. १०० वप्र  
 साहसी मित्र एस चाद ०७५. वप्र  
 शिवराज शास्त्री. मदारमाला. विश्व प्र. ३.००. उ.

शिवरानीदेवी प्रेमचंद. प्रेमचंद घर मे. आत्माराम. ७.५०.  
 जी.  
 शिवव्रतलाल. अनमोल उपदेश शिव सा. १.००  
 आदर्श भारतीय महिलाएँ शिव सा. ०.७५  
 आदर्श भारतीय वीरागनाये. शिव सा १००  
 आनंद योग प्रकाश. शिव सा. २.५०  
 उपासना योग. शिव सा ०.७५  
 ओ३म नाविल. शिव सा. २२५. उ  
 कथा कल्पद्रुप शिव सा. १.००  
 कबीर आद्य ज्ञानप्रकाश. शिव सा. २७५  
 कबीर शब्दावली. शिव सा १५०  
 कर्मयोग. शिव सा. ०.७५  
 कानून ख्याल शिव सा. १.००  
 मिरहदार मोती शिव सा १.००  
 गुप्त रहस्य शिव सा १.००  
 जागृत जीवन शिव सा. ०७५  
 दृष्टांत सदेश शिव सा १००  
 नदूभाई की साखी शिव सा. १२५  
 नवजीवन सुधार शिव सा. ०७५  
 नानक योग शिव सा. ३००  
 महारामायण आरभ खड व सिद्धि खड. शिव सा. २.००  
 रहिमान नीति दोहावली शिव सा ०.७५  
 राजभक्त गोपीचंद व सुदामा. शिव सा १.००  
 राजस्थान की ललित जलनाये. शिव सा १००  
 राधास्वामी मत प्रकाश वचनसार. शिव सा. १.००  
 राधास्वामी योग. शिव सा. ५.००  
 विचार दर्पण. शिव सा १००  
 विवेक कला द्रुम. शिव सा. १५०  
 शब्द गुजार शिव सा. १००  
 शब्द सार. शिव सा ०७५  
 शाहवार मोती शिव सा १.२५  
 शाही जादूगरनी. शिव सा १५०. उ.  
 शाही डाकू शिव सा. १७५ उ.  
 शाही पति परायण शिव सा. १.२५. उ.  
 शाही भिखारी शिव सा. १.६२. उ  
 शाही भूत. शिव सा. १०० उ.  
 शाही लकड़हारा. शिव सा. २.६२. उ.  
 सत कबीर की साखी. शिव सा. ०७५  
 सत्सत के आठ वचन शिव सा ०.७५  
 सत्य सनातन आर्य धर्म. शिव सा. १२५  
 सप्त ऋषि वृत्तांत. शिव सा. ०.७५  
 सहज विचार. शिव सा १.००  
 सार का सार शिव सा २५०  
 स्वास्थ्य और भोजन. शिव सा. १.००  
 शिवशंकर. भाषा-विज्ञान-समीक्षा अशोक प्र २.५०  
 शिवसिंह 'सरोज'. अमर भारती जय ! गगा. ३००. का.  
 लव-कुश. गगा. १०० वप्र.  
 विप्लव और विहार. गगा. २.५०. का.



शिर्वासिंह 'सुमन' अच्छे बनो, महान बनो. छात्रहितकारी  
१२५ वप्र.

प्रभाती छात्रहितकारी १०० वप्र

बालक हो तो ऐसे छात्रहितकारी ०६५ वप्र

शिवहरे, धर्मद्वीर प्रेस कपोजिग आर्य सा १५०

सत्सग यज्ञ विधि आर्य सा ०३७

शिवहरे, व्यामवावू रसायन शास्त्र की भाषा विनोद १००

शिवानन्द भैरवानन्द कि महल ०७५ वप्र.

शिवानन्द, स्वामी, १८८७-१९६३ ब्रह्मचर्य ही जीवन है

छात्रहितकारी १७५

विद्यार्थी जीवन में सफलता योग वेदात्

साधना अनु स्वामी ज्योतिर्भयानन्द योग वेदात् १०००

शिवानी गुरुदेव और उनका आश्रम सस्ता १००

शिशु दे भगवद्दत्त 'शिशु'

शिहू येन वेद वृक्षो की छाया में राजकमल १२५ उ

सैनिक का प्रेम आधुनिक सा १५० उ.

शीतलाप्रसाद अधिक भोजन उपजाओ गंगा २५०

—तथा सूर्यभानु गर्ग. प्रायोगिक भौतिक विज्ञान एस चाद  
३२५

शीरी ए अली मूर्ति निर्माण कला २ भा कि. महल १७५

(प्र)

शील एक पग न्यू लिट १२५ का

शील दे रत्नप्रकाश 'शील'

शील दे राजेन्द्रभनोत शील

शुपीटर, जोसेफ ए. दस महान् अर्थशास्त्री आत्माराम. ६५०

शुकदेवनारायण दूध पिलाने वाले जतु इ प्रे ३००

शुकदेवप्रसाद सिंह ठीक खाओ स्वस्थ रहो हिंदू पा १००

शुकदेव सिंह 'सौरभ' दूर के दीप सन्मार्ग ८५० उ

नारी की नवचेतना सन्मार्ग. ३५० क

वाह रे आसू सन्मार्ग ७५० उ

शुक्ल दीवान चिरकीन. मातृ-भाषा १००

शुक्ल, अमरनाथ १९२९- अशोक महान् विद्या प्र म

०७५ वप्र

इस देश की मिट्टी, इस देश के लोग विद्या प्र म. २००

वप्र

कुलवधू. विद्या प्र म ३५० उ

गंगा तीरी लहर विद्या प्र म. १५० वप्र

ग्राम सेवक विद्या प्र म ३५० उ

मा वह एक कहानी विद्या प्र म ०७५ वप्र.

राही. विद्या प्र म ४०० उ

शुक्ल, अमोल अशोक लोकोक्तिया और मुहावरे अशोक प्र  
१५०

शुक्ल, अमोलचंद. आम के गुण तथा उपयोग देहाती १५०

गुलाब के फूल के गुण तथा उपयोग देहाती १००

शुक्ल, अमोलचंद्र घर का वैद्य बड़ा देहाती ७५०

धीग्वार (द्वार पाठा) के गुण तथा उपयोग देहाती २५०

टोटका चिकित्सा. देहाती ०७५

ढाक के गुण तथा उपयोग देहाती. ०७५

देहाती एकौषधि चिकित्सा. देहाती. ४००

देहाती प्राकृतिक चिकित्सा देहाती ५००

पशुओं का इलाज देहाती ६००

पाक भारती देहाती ६००

पैसे-पैसे के चुटकले देहाती ४५०

मिर्च के गुण तथा उपयोग देहाती ०६२

सन्यासी चिकित्सा शास्त्र देहाती ५००

शुक्ल, उदयनारायण जापान की शासन व्यवस्था कि. महल  
४५०

शुक्ल, उमाशंकर कवित्तरत्नाकर हिं सा परिषद ३५०

कागज की नाव इ प्रे १७५ क.

जितने मुह उतनी वाते लोक चेतना ३०० क

बुदेलखड के लोकगीत इ प्रे २२५

—तथा ब्रजेश्वर वर्मा पद्य प्रभा रा व्रेनीमाधव. १.५०

शुक्ल, उमेशचंद्र राजदर्शन (प्लेटो से गांधी तक) (प्रश्नोत्तर).

सशो स ३ मालवीय ५.७५

शुक्ल, एस एम. एडवान्टेज एकाउन्ट्स. स २ सा भवन, आ.

८७५ से १३१२

कंपनी अधिनियम एव सचिवीय पद्धति सशो स २. सा  
भवन, आ १०००

—तथा रघुवीर नारायण भारतीय कंपनी. अधिनियम  
४५०

व्यापारिक सन्धियम सशो स ३ सा भवन, आ. ६२५ से  
७५०

—तथा शिवपूजन सहाय. सांख्यिकी के सिद्धांत स. २

सा भवन, आ ९३७ से ११२५

शुक्ल, एस एस दे सिंह, एन पी

शुक्ल, ओम हिंदी-उपन्यास की शिल्पविधि का विकास.

अनुसंधान १६००

शुक्ल, कमल, १९२९- इन्सान जाग उठा हिं प्रचा पु  
२५० उ

उत्तर प्रदेश की लोक कथाए ४ भा नवयुग प्र १००  
(प्र) वप्र.

कच के कगन पैरामाऊट २५० उ

कव तक पथ निहारू हिंदिया ३०० कथा

काले नगर में औरिएटल २५० उ

काले नाग सफेद केंचुल प्रभात प्र ३०० उ

किसका कौन कि. महल २५०. उ

कुलवधू अजता एव अनुपम ४५० उ

कुश और कन्या हिंदिया. ३०० कथा

कूल और कगार नवयुग प्र ३०० उ

कोई कुछ कह गया नेशनल २०० उ

गहरी नदिया नाव पुरानी साहनी ३५० उ.

गुजाल नेशनल १५० उ

घाट घाट का पानी अनुपम ४५० उ

जब सूरज ने आखे खोली स २ भा प्र नि ५५०. उ

जिदगी एक दाव नवयुग प्र ५०० उ.

जिदगी की साभ. गंगा. २०० उ.

डगरोही. नवयुग प्र. ४०० उ.  
 देवता. ओरिएटल २२५ उ  
 धरती की बेटी सहगल ३५० उ  
 धूल के बादल ओरिएटल. ४००. उ  
 नदिया के उस पार. ऐडी. ४०० उ  
 नदी की लहरे पजाबी पु २.२५ उ., — — स्टार. (पा.)  
 १.००  
 नया अनोखा साहनी १.०० बप्र.  
 नर्तकी नवीनतम ४००  
 पछी और परदेश दि पु स एव नवयुग प्र. ४०० उ  
 पथ से दूर ओरिएटल २२५. उ.  
 पर कटे परिदे और सैलाब. नवीनतम.  
 बसरी अनुपम ३०० उ  
 मजिल, पथी और मञ्जाल एस चाद ४००. उ.  
 माभी, पतवार और किनारा. हिदिया. ३.००. कथा.  
 माटी के पुतले साहनी. ४.००. उ  
 मौलश्री. ओरिएटल. ६.०० उ.  
 रमा का देश. अनुपम ३.००. उ.  
 राख की परते सहगल ३२५ उ.  
 राग और त्याग. ओरिएटल. ५.००. उ.  
 लाल पलग अनुपम ३.०० उ  
 शिल्पी. नेशनल. ५००. उ.  
 सगम की ओर नवीनतम ३५०  
 सुबह का भूला साहनी १००. बप्र  
 शुक्ल, कुजबिहारीलाल दे. नरोत्तमदास.  
 शुक्ल, कृष्णचन्द्र. गद्य-सरोज गयाप्रसाद. २२५  
 नागरिक और समाज. गयाप्रसाद १५.००  
 —तथा अग्निहोत्री नागरिक और समाज गयाप्रसाद ६००  
 शुक्ल, कृष्णशंकर आधुनिक हिंदी-साहित्य हि सा. कु. ४५०  
 वेलिक्रिसन रुकमिणी-सटीक. सा. नि, का ३००  
 शुक्ल, के. सी नागरिक और समाज गयाप्रसाद १५००  
 शुक्ल, केदारनाथ. प्रसाद की कहानिया नद ब्र एव नद स  
 २५० आ.  
 शुक्ल, केशवप्रसाद सरल पत्र लेखन स द. हि भवन. १००  
 शुक्ल, केसरीनारायण, १९१६- आधुनिक काव्यधारा नद  
 स ६००  
 आधुनिक काव्यधारा का सांस्कृतिक स्रोत. नद. स. ४००  
 किजल्क नद ब्र ४०० आ.  
 पाश्चात्य-समीक्षा-सिद्धांत नद स ३००  
 भारतेदु के निबध नद ब्र एव नद स ५.००  
 रूसी साहित्य नद. ब्र. एव नद. स ४५०  
 हिंदी कहानी माला एक अध्ययन हि सा भ. १५०  
 —तथा भगीरथ मिश्र. हिंदी कहानी-माला नद स ३५०  
 —अनु मानस की रूसी भूमिका. हि सा भ. ३५०  
 —सपा किजल्क विद्या म, वा ४०० लेख  
 हिंदी काव्य विश्लेषण और मूल्यांकन विद्या म., वा. ५.००  
 शुक्ल, केसरीनारायण. दे फर्तुमानोव, एफ एफ.  
 शुक्ल, गगाधर. अंधेरा छट गया. आत्माराम. २.०० क.

जी हां—जी नहीं एस. चांद ५.००. ना.  
 नाट्य बेला. कल्याणमल. ए  
 सुबह होती है शाम होती है बगीच. ३७५ ए  
 शुक्ल, गणेश, अनु हमारे बच्चे : १ से ६ वर्ष. राजकमल  
 २.५०  
 —तथा मुनीश सक्सेना, सपा सौ आदर्श निबध राजकमल  
 ४.००  
 शुक्ल, गणेश. दे. सक्सेना, मुनीश.  
 शुक्ल, गिरिजादत्त 'गिरीश'. गृहलक्ष्मी एस चाद २.००. का.  
 जुगनू आदर्श पु म २००. उ.  
 तारकवध. भा भ. १०.०० का.  
 नादिरा गगा. ५०० उ.  
 प्रयाण रा वेनीमाधव १२५ का  
 बहता पानी. आदर्श पु म ३५० उ, — — रा वेनी-  
 माधव २००  
 महाकवि हरिओध स ३. रा. वेनीमाधव. ४.००  
 लबोदर त्रिपाठी स २ सा सेवक ३५०  
 समीक्षक-प्रवर श्रीरामचंद्र शुक्ल. रा वेनीमाधव. ५.००  
 साहित्य वार्ता. एस चाद ५५० नि  
 —तथा ब्रजभूषण शुक्ल सम्मेलन निबधमाला. हि. सा. सम्मे.  
 १.५०  
 —सपा. काव्य भारती रा. वेनीप्रसाद १.२५  
 सूरपदावली हि. सा. सम्मे. ०.७५  
 शुक्ल, गिरिधर पलासी का युद्ध आदर्श हि ५००  
 शुक्ल, गोवर्धननाथ. कविवर परमानंददास और बल्लभ सप्र-  
 दाय भा. प्र. मदिर १२००  
 परमानंद सागर भा प्र. मदिर १२००  
 —सपा रेवातट समय (पृथ्वीराज रासो का सत्ताईसवा समय).  
 भा. प्र. मदिर १५०  
 शुक्ल, गोवर्धननाथ दे रामस्वरूप शास्त्री  
 शुक्ल, गौरीशंकर रमणी रहस्य हि पु ए ५५० उ  
 शुक्ल, गौरीशंकर 'पथिक' व्यापार सगठन हि पु ए ३५०  
 शुक्ल, चडिकाप्रसाद नैषध परिशीलन. हिंदु एकेडेमी १०००  
 शुक्ल, चंद्रशंकर, सपा गाधीजी के जीवन-प्रसंग वीरा ६.००  
 गाधीजी के सपर्क मे वीरा. ३२५  
 शुक्ल, चंद्रशेखर. आचार्य रामचंद्र शुक्ल. नद स ८००  
 रामचंद्र शुक्ल. सपा विश्वनाथप्रसाद मिश्र. वाणी-वितान.  
 ८०० जी  
 शुक्ल, जगदीशचंद्र दे बिहारी.  
 शुक्ल, जनार्दनप्रसाद दे ब्रजकिशोर सिंह.  
 शुक्ल, ज्ञानेन्द्रनाथ. हमारा भोजन श्री प्रभाकर १५०  
 शुक्ल, तरुणोदु शेषर कामायनी दिग्दर्शन कि घर, ग्वा.  
 २००  
 शुक्ल, देवीदत्त जापान का हाल इ प्रे ०६२. बप्र.  
 पचसती इ प्रे २.००  
 बाल-कविता-माला इ. प्रे ०५०  
 बाल-गोपाल. इ प्रे ०५०  
 बाल-द्विवेदी इ. प्रे १.००

- अनु एक आत्मकथा इ प्रे २००  
 —तथा धनजय भट्ट 'सरल, सपा भट्ट निवधावली भा १  
 हि सा सम्मे १५०, भा २ सपा धनजय भट्ट 'सरल'  
 १५०  
 शुक्ल, देवेंद्रनाथ. दे पाडेय, अवधविहारी  
 शुक्ल, द्विजेंद्रनाथ चित्र-लक्षण श्री भा भारती १०००  
 प्रतिमा-लक्षण श्री भा भारती १२००  
 प्रतिमा-विज्ञान श्री भा भारती १५००  
 भारतीय वास्तु-शास्त्र श्री भा भारती ८५०  
 समरागम-सूत्रधार भा १ श्री भा भारती  
 हिंदुप्रसाद श्री भा भारती ३००  
 शुक्ल, नरसिंहराम नागकन्या आदर्श हि २५० उ  
 शुक्ल, परमेश्वरदीन दुनिया की सैर अस्सी दिन मे सस्ता  
 १२५ या  
 शुक्ल, पी डी गति विज्ञान हि सा सम्मे ३५०  
 शुक्ल, पुत्तलाल 'चंद्राकार' अनग वगीय ५०० का  
 शुक्ल, प्रयागदत्त मध्य प्रदेश का इतिहास और नागपुर के  
 भोसले हि ग्र २२५०  
 मध्य-प्रदेश की आदि जातिया गगा १५०  
 शुक्ल, प्रेमनारायण हिंदी गद्य पारिजात हि सा सम्मे  
 १७५  
 शुक्ल, फूलकुमारी बिखरी पखुडिया अवध १५० का  
 शुक्ल, बदरीनाथ मार्कंडेय पुराण एक अध्ययन चौखवा  
 ४५०  
 शुक्ल, बदरीनारायण शास्त्री शाहव गगा ३०० हा  
 शुक्ल, बलदेवप्रसाद गुजन का अनुशीलन हि भवन (अप्रा)  
 देश-दीपक हि भवन २०० जी  
 शुक्ल, बल्लभ हिंदी के वैयक्तिक निवध सा भवन, इ  
 ४००  
 शुक्ल, ब्रजभूषण दे शुक्ल, गिरिजादत्त 'गिरीग'  
 शुक्ल भानुदेव भारतेन्दु-युगीन हिंदी नाट्य-साहित्य नद स  
 ८००  
 शुक्ल, मदनमोहन महाराष्ट्र-प्रभात का इतिहास चैतन्य  
 २५०  
 शुक्ल, महावीरप्रसाद राशनकार्ड अवध १०० क  
 शुक्ल, मेहरचंद वाणिज्यिक विधि एस चाद. भा १  
 ७५०, भा २ ३७५  
 व्यवसाय सगठन और प्रवध एस चाद १३५०  
 शुक्ल, रमापति अग्रोरो का गुच्छा रामप्रसाद ०७५ वप्र  
 अर्थशास्त्र और वाणिज्य शास्त्र की शिक्षा नद ब्र एव  
 नद स ३००  
 प्रगति की ओर नद ब्र एव नद स ०७५ वप्र  
 भारतीय अर्थशास्त्र नद ब्र एव नद स ६५०  
 सुआ सवेरा नद ब्र एव नद स ०७५ वप्र  
 शुक्ल, रमेश कर्तव्य और प्रेम प्रभात पब्लि ३०० उ  
 शुक्ल, रविशंकर हिंदी वालो, सावधान ! ना प्र सभा  
 ४५०  
 शुक्ल, राजनारायण नावित्री-सत्यवान चौखवा २००

- शुक्ल, रामकृष्ण कला और सौंदर्य आत्माराम ३५०  
 बुद्धचरितम् सर्ग ३ — अश्वघोष कृत रा वेनीमाधव ०७५  
 रघुवशम् सर्ग ३, ५, ८ रा वेनीमाधव १५० (प्र)  
 शुक्ल, रामकृष्ण दे आप्टे, वामन शिवराम  
 शुक्ल, रामकृष्ण दे तिवारी लल्लाराम  
 शुक्ल, रामकृष्ण 'गिलीमुख' आर्य भापा और सस्कृति श्री  
 भा भारती २००  
 काव्य-जिज्ञासा श्री भा भारती २००  
 निवध प्रवध रीगल ४००  
 शुक्ल, रामचंद्र आदर्श जीवन ना प्र सभा ३००  
 कला और आधुनिक प्रवृत्तिया हि समि ३५०  
 गोस्वामी तुलसीदास ना प्र सभा २५०  
 चिंतामणि इ प्रे ३००, — — भा २ नद ब्र ४००  
 चित्रकला का रसास्वादन हि प्रचा पु ६००  
 त्रिवेणी ना प्र सभा २५० आ  
 नवीन चित्रकला शिक्षण पद्धति कि महल ५००  
 नवीन भारतीय चित्रकला शिक्षा पद्धति कि महल ५००  
 बुद्धचरित ना प्र सभा ३७५  
 भारतेन्दु-साहित्य पु भ १५०  
 रघुवशम् रा वेनीमाधव सर्ग २ १७५, सर्ग ६ १५०  
 रसमीमासा ना प्र सभा ६००  
 राज्य-प्रवध शिक्षा ना प्र सभा. १.२५  
 विश्वप्रपंच ना प्र सभा ५५०  
 सूरदास नद ब्र ३७५ आ  
 हिंदी साहित्य का इतिहास ना प्र सभा १०००  
 —अनु शशाक ना प्र सभा ४५० उ  
 —सपा उत्तररामचरितम् अक ३ — भवभूति कृत रा  
 वेनी- माधव १००  
 उरुभगम् — भास कृत रा वेनीमाधव १००  
 जायसी ग्रथावली ना प्र सभा ६२५  
 सुहृद्भेद (हितोपदेश) रा वेनीप्रसाद १२५  
 —तथा चंद्रवली पाडे, सपा अनुराग वासुरी हि ला सम्मे  
 १५०  
 —तथा अन्य, सपा तुलसी ग्रथावली भा २ ना प्र सभा  
 ६२५  
 शुक्ल, रामचंद्र दे चंद्रशेखर गास्त्री  
 शुक्ल, रामचंद्र दे भास  
 शुक्ल, रामचंद्र 'सरस' प्रेम-रहस्य इ प्रे २००  
 सरस-पिंगल स ६ रा वेनीप्रसाद ०५०  
 शुक्ल रामवहोरी अनमोल रत्न नद व एव नद स २००  
 वप्र  
 अलकार-प्रकाश हि भवन ०.५०  
 काव्यप्रदीप स १२ हि भवन ३७५  
 तुलसी हि भवन ३०० आ  
 लघु काव्य-प्रदीप हि भवन १५०  
 —तथा भगीरथ मिश्र हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास.  
 हि भवन १०००, सक्षिप्त स ७००  
 —सपा कविता कुसुमाकर हि भवन १.७५

शुक्ल, रामशंकर 'रसाल', १८६८- अलंकार पीयूष (पूर्वाद्ध तथा उत्तराद्ध). रा बेनीमाधव २०० (प्र.)  
 आगमन शास्त्र रा बेनीमाधव २.००  
 आलोचनादर्श इ प्रे २५०  
 गद्य-काव्यादर्श गर्ग ब्र २.००  
 चरित्र-निर्माण रा बेनीप्रसाद १००  
 छंद शास्त्र रा. बेनीमाधव. ५००  
 निगमन तर्कशास्त्र रा बेनीमाधव २५०  
 —सपा भाषा शब्द कोष रा बेनीप्रसाद. १२००  
 शुक्ल, रामशंकर 'रसाल' दे सान्याल, नलिनीमोहन.  
 शुक्ल, रामशंकर 'हृदय' शैवाल हि सा सम्मे ३०० का  
 शुक्ल, रामावतार. इटरमीडियेट सौलिड जोमेट्री पु. भ १.५०  
 शुक्ल, रामेश्वर. काव्य सरिता की कुजी रीगल ५५०  
 शुक्ल, रामेश्वर 'अचल', १९१५- अपराजिता इ. प्रे. ३००  
 का.  
 उल्का हि प्रचा पु ४५०. उ  
 प्रन्यूप की भटकी किरण यायावरी हि प्रचा. पु ४००  
 मरु-प्रदीप सा भवन, इ ४०० उ.  
 वर्षात के बादल सा भवन, इ. ३.०० का  
 विराम चिह्न. हि प्रचा पु. ३००. का  
 हिंदी साहित्य परिचय हि सा सम्मे २००  
 —सपा काव्य संग्रह भा २ हि सा सम्मे २५०  
 शुक्ल, लक्ष्मीधर दे विद्यार्थी, पुत्तनलाल.  
 शुक्ल, लल्लन हिंदी के वैयक्तिक निबंध. सा भवन, इ ४.००  
 शुक्ल, लालजीराम, १९०४- अनुभव नद ब्र एव नद स.  
 ३००  
 आधुनिक मनोविज्ञान नद स. एव सा सेवक ७००  
 नई मानसिक चिकित्सा. तारा ५५०  
 नवीन मनोविज्ञान परि स नद ब्र. एव नद स. ७.००  
 नवीन मनोविज्ञान और शिक्षा. नद ब्र. एव नद. स ३.००  
 नीतिशास्त्र नद ब्र एव नद स ५.००  
 बाल मनोविकास. नद ब्र. ६००  
 बाल मनोविज्ञान ना प्र सभा. २५०  
 बाल-शिक्षण नद ब्र एव नद स. ३५०  
 मनोविज्ञान और आरोग्य नद. स. १५०  
 मनोविज्ञान और चिंतन नद स ७००  
 मनोविज्ञान और जीवन नद. स एव सा सेवक. ७००  
 मनोविज्ञान एव जीवन तारा. ७५०  
 मनोविज्ञान परिचय नद. स ७००  
 मानसिक आरोग्य नद ब्र एव नद स ४००  
 मानसिक चिकित्सा नद ब्र एव नद स ४००  
 शिक्षा-मनोविज्ञान नद ब्र ८५०, भा १-२ ४५०. (प्र.)  
 शिक्षा-मनोविज्ञान नद स ८५०, भा १. ४.५०, भा. ३  
 ४००  
 शिक्षा मनोविज्ञान की रूपरेखा नद ब्र एव नद स. २.५०  
 शिक्षा विज्ञान नद व एव नद स ३७५  
 समाज विकास सशो स. नद ब्र एव नद. स. ३५०  
 सरल मनोविज्ञान नंद. स ६००

शुक्ल. विजयकुमार. सुदामा चरित रा बेनीमाधव. ०.५०.  
 का.  
 शुक्ल, विद्याभास्कर. बाल महाभारत स ५. हि भवन १.२५  
 वप्र  
 बालरामायण. स. ७. हि भवन १.२५ वप्र  
 शुक्ल, विश्वभरनाथ नेहू की नदी जवाहर २०० उ.  
 शुक्ल, वीरेन्द्रकुमार भारतेदु का नाट्य-साहित्य रा बेनीमाधव  
 ५००  
 —सपा चद्रावली नाटिका (भारतेदु हरिश्चंद्र) रा. बेनीप्रसाद.  
 १२५  
 शुक्ल, वेणी लदन-पेरिस की सैर. इ. प्रे २००  
 शुक्ल, शकुतला अघेरे-उजाले के फूल. भा सा. सदन (पा)  
 १००  
 पत का जल भा. सा सदन ३०० उ.  
 शुक्ल, शत्रुघ्नलाल अभिगप्ता. शारदा म ३००. उ.  
 दुर्गादास. उमेश २०० वप्र  
 दूध, खून और आसू शारदा म ३.००. उ.  
 नागमणि प्रत्यूष. २.०० उ  
 बुझती लौ शारदा म २००. उ.  
 लक्ष्मीन शारदा म उ  
 विश्वसुदरी. शारदा म २०० उ  
 सम्राट गुहादित्व प्रवीर ५०० उ  
 शैलाधीश भा ग्र नि ५०० उ.  
 सम्राट शिलादित्य उमेश २.५० वप्र.  
 —रूपा जूलियस सीजर उमेश २.०० वप्र  
 तूफान उमेश २०० वप्र  
 मैकबेथ उमेश. २००. वप्र  
 राई से पहाड उमेश २.०० वप्र.  
 राजा लियर. उमेश २००. वप्र.  
 शेक्सपियर के नाटको की कथाए उमेश. भा १-२. वप्र  
 हैमलेट उमेश २.०० वप्र  
 शुक्ल, शिवप्रसाद आओ नाटक खेले. विद्या प्र म ०७५ वप्र.  
 शुक्ल, श्यामविहारी 'तरल' मेघमाला. सा. नि, का २५०  
 का.  
 शुक्ल, श्रीकृष्ण. हिंदी सजीवनी नद ब्र. एव नद. स ३५०  
 हिंदी साहित्य का शालोपयोगी इतिहास त्रिवाजी १.७५  
 —सपा प्राचीन पद्य-प्रभाकर हि सा सम्मे. १००  
 शुक्ल, श्रीकृष्ण दे शर्मा, जगन्नाथप्रसाद  
 शुक्ल, श्रीधर अभिनव अनुवाद. नवयुग पु भ ०७५  
 शुक्ल, श्रीलाल अगद का पाव भा. ज्ञानपीठ. २५० हा.  
 अज्ञातवास राजपाल २५०. उ  
 सूनी घाटी का सूरज कि महल ३०० उ  
 शुक्ल साधुराम आशीर्वाद आनंद पु, वा ३०० उ  
 शुक्ल, मुधा. आचार्य शुक्ल हि भवन. ३५०  
 शुक्ल, सुरेश दे मनमोहन सरल  
 शुक्ल, सोमेश्वरदत्त तरल-तरंग इ प्रे १०० ना.  
 शुक्ल यह भी दे. शुक्ला.  
 शुक्ला. मैसोरिज्म विद्या के चमत्कार. देहाती. ६.००

शुक्ला समाजशास्त्रीय निवध किशोर पब्लि २५०  
 शुक्ला तथा अग्रवाल भारत मे व्यापार किशोर पब्लि ४००  
 भारत मे व्यापार एव यातायात व्यवस्था किशोर पब्लि  
 ८००  
 भारतीय यातायात व्यवस्था किशोर पब्लि ४००  
 शुक्ला, अमोलचद पाक भारती देहाती ६००  
 शुक्ला, आर एस सरल मैप रीडिंग स ५ आर्मी ३५०  
 शुक्ला वी डी दे भटनागर, कालीशकर  
 शुक्ला, सरला उर्दू साहित्य का सरल इतिहास हिं सा भ  
 १५०  
 — तथा प्रेमप्रकाश श्रीवास्तव गृहविज्ञान एव शिशु कल्याण  
 सरस्व प्र म ५००  
 शुक्ला यह भी दे शुक्ल  
 शुद्धक. मृच्छकटिकम् अनु ललित सहगल तथा उग्रसेन नारग  
 दि प्रे १२०० ना, — —सस्ता ०४० वप्र  
 शूरवीर सिंह फते प्रकाश भा प्र मंदिर ३००  
 —सपा अलकार प्रकाश भा प्र मंदिर ३००  
 शेक्सपियर, विलियम, १५६४-१६१६ अदले का बदला.  
 नव सा प्र ०५० वप्र  
 अपनी-अपनी रुचि अनु सीताराम रा वेनीप्रसाद १२५  
 ना  
 आथेलो नव सा प्र ०५० वप्र, — —अनु रागेय राघव  
 राजपाल २०० ना, — —अनु. वी शर्मा रा वेनी-  
 प्रसाद ०७५, — —अनु दिवाकरप्रसाद विद्यार्थी सा  
 अकादमी ३.०० ना  
 आदर्श मित्रता नव सा प्र ०६२ वप्र  
 एक सपना अनु रागेय राघव राजपाल २०० ना  
 कर्कशा नारी का सुधार नव सा प्र ०५०. वप्र.  
 जगल मे मगल अनु सीताराम रा वेनीप्रसाद ०५० ना  
 जूलियस सीजर रूपा शत्रुघ्नलाल शर्मा उमेश २००  
 वप्र, — —अनु रागेय राघव राजपाल २०० ना,  
 — —अनु सीताराम रा वेनीप्रसाद ०६२ ना  
 जैसा तुम चाहो अनु रागेय राघव राजपाल २०० ना  
 डेनमार्क का राजकुमार हैमलेट अनु सीताराम रा वेनी-  
 माधव ०७५ ना  
 तिल का ताड अनु रागेय राघव राजपाल २०० ना  
 तूफान रूपा शत्रुघ्नलाल शुक्ल उमेश २०० वप्र, नव सा प्र  
 ०५० वप्र, — —अनु रागेय राघव राजपाल २००. ना  
 निष्फल प्रेम अनु रागेय राघव राजपाल २०० ना  
 परिवर्तन अनु रागेय राघव राजपाल २०० ना  
 प्रेम के पुजारी नव सा प्र ०५० वप्र  
 वगुला भगत अनु सीताराम रा वेनीमाधव ०७५ ना  
 वारहवी रात. अनु कुलदीप कपूर मित्र २५० ना,  
 — —अनु रागेय राघव राजपाल २००. ना  
 भूल भुलैया अनु सीताराम रा वेनीमाधव. ०६२. ना,  
 — —अनु. रागेय राघव राजपाल २०० ना  
 मनमोहन का जाल अनु सीताराम. रा. वेनीमाधव ०६२  
 ना

मैकवेथ रूपा शत्रुघ्नलाल शुक्ल उमेश २०० वप्र, — —  
 अनु. वी शकर रा वेनीमाधव १०० ना, — —अनु  
 रागेय राघव राजपाल २००. ना.  
 राई से पहाड रूपा शत्रुघ्नलाल शुक्ल उमेश २०० वप्र.  
 राजा रिचर्ड द्वितीय अनु सीताराम रा वेनीमाधव ०.३७  
 ना  
 राजा लियर. रूपा शत्रुघ्नलाल उमेश. २०० वप्र, — —  
 अनु सीताराम रा वेनीप्रसाद ०३७ ना.  
 रोमियो जूलियट हिंद पा १०० ना, — —अनु रागेय  
 राघव राजपाल २००. ना  
 वीनिस का व्यापारी यूनिवर्सिटी १५० ना  
 वेनिस का सौदागर. अनु रागेय राघव राजपाल. २००.  
 ना, — — हिंद पा १०० ना  
 सफेद खून नव सा प्र ०१२ वप्र  
 सम्राट लियर, अनु. रागेय राघव राजपाल. २००. ना  
 सिवेलीन अनु सीताराम रा वेनीप्रसाद ०५० ना  
 हैमलेट रूपा शत्रुघ्नलाल शुक्ल उमेश २००. वप्र., — —  
 अनु. रागेय राघव राजपाल २०० ना, — —नव सा.  
 प्र ०५० वप्र  
 शेखर नाटक ग्रथालय १५० ना  
 पतझड के फूल आधुनिक पु २५० का  
 मैं भी इन्सान हू ग्रथालय १५०. ना.  
 शेखर, शिवशकरलाल कोरिया की लोक-कथाए. आत्माराम.  
 १५०  
 पशुओ की लोक-कथाए आत्माराम १५०  
 प्रकृति की लोक-कथाए आत्माराम १५०  
 शेखर कवि रसिक विनोद भारतजीवन ०७५ का.  
 शेखरचंद्र पंचचत्र की कहानिया ४ भा. नवयुग ग्र कु १.००  
 (प्र) वप्र  
 विजली नवयुग ग्र कु ०५० वप्र  
 शेखावत, कल्याणसिंह भाग्य निर्माण छात्रहितकारी. १७५  
 शेटे, मधुकर आर्थिक नियोजन कि महल १५०  
 शेर्डीन नेकी-वदी व अन्य कहानिया पीपुल्स ४००  
 शेनिन, ल सोवियत सघ मे जन-न्यायालय पीपुल्स ०३७  
 शेपली, हालों तारे और मनुष्य (ब्रह्मांड के बढ़ते हुए विस्तार  
 की मानवीय प्रतिक्रिया) अनु निहालकरण सेठी हिं समि  
 ५५०  
 शेफर, जैक वह कौन था ? स्टार (पा) १००. उ  
 शेरी, जी पी गृह-विज्ञान शिक्षण विनोद ६००  
 स्वास्थ्य शिक्षा सशो स विनोद ८००  
 —तथा रामनारायण महरोत्रा शैक्षिक मनोविज्ञान प्रताप  
 १०७५  
 शेरीडन प्रतिद्वंदी हिं प्रचा पु २०० ना.  
 शेवक भोजराज आजीवादि बोरा १२५  
 शेवडे, अनंतगोपाल, १९११- अधूरा सपना हिंद पा. १००  
 उ  
 ज्वालासुखी नीलाभ ४५० उ.  
 तीसरी भूख नीलाभ २५०. हा.



श्यामनदन किंगोर आधुनिक महाकाव्यों का शिल्प विधान  
सरस्व पु स  
श्यामनारायण पन्ना दाई चौधरी. २.५०. का  
श्यामनारायण प्रसाद कुलदीप नारायण प्र ३००. उ.  
खेत खलियान. कल्याणदास ५००. उ  
चिंता की लहर नद व एव नद स १५० का  
जय अवे. आदर्श पु भ ३.०० उ  
भांती की रानी हि प्रचा पु ५०० का.  
महारानी लक्ष्मीबाई नद स १०० का.  
श्यामनारायण लाल बुनाई गणित हि प्रचा पु २.००  
वस्त्रोत्पादन कला २ भा हि प्रचा पु. २५० (प्र.)  
हमारा कपडा हि प्रचा पु. १.१३  
श्यामविहारी 'विरागी इनको तुम जानते हो ? (प्रेमचंद)  
राष्ट्र प्र म १६६ वप्र  
इनसे कुछ सीखो (तुलसीदास) राष्ट्र प्र म १६६ वप्र.  
उजड़ी बस्ती वे सहारे लोग राष्ट्र प्र म ४.०० उ  
का सो कहू विपतिया राष्ट्र प्र म. १७५ क  
कुहासे का गाव. राष्ट्र प्र म २७५. क  
कैनुर की घाटी राष्ट्र प्र म ४०० उ  
खेती किसान की घरती भगवान की राष्ट्र. प्र. म २००  
चतुरी काका राष्ट्र प्र म २५० उ  
छुआछूत को छोडो. दिल से दिल को जोडो. राष्ट्र. प्र म  
२.००  
जिनको तुम पढते हो (कालिदास) राष्ट्र प्र म. १.६६.  
वप्र  
भोपडी का खदन राष्ट्र प्र. म २५० उ.  
तीन हाडी तेरह चूल्हे ३२५ उ  
दर्द की वानुरी राष्ट्र प्र म. २.५० का.  
घरती मुस्कराई कल्याणदास, वि प्र. कु एव राष्ट्र. प्र.  
म ३५० उ  
निराला अभिनदन-पुष्पहार राष्ट्र प्र म २.२५  
निराला. करते क्या थे ? राष्ट्र प्र म १०० वप्र  
निराला : कहते क्या थे ? राष्ट्र प्र म १०० वप्र.  
निराला चाहते क्या थे ? राष्ट्र. प्र म. १०० वप्र.  
मानस के दिखरे प्रनून राष्ट्र प्र म २०० आ  
शहीद राष्ट्र. प्र म. २५०. का  
श्यामलाल ऐतिहासिक दृश्य आत्माराम २०० वप्र.  
श्यामलाल अस्तर गर्भवती के लिए उपयोगी वाते. सर्वोदय.  
०.५०  
नन्हे बच्चो की देखभाल सर्वोदय ०.५०  
माता के लिए उपयोगी वाते. सर्वोदय ०.५०  
श्यामलाल 'मधुप अनुपम गाथाए हिंदिया १.२५ वप्र  
अर्थी की बरात. अनुपम. ६०० उ  
हिमालय के वीर अनुपम १५० वप्र.  
श्यामवदन सरदार पटेल गंगा ०७५ जी  
श्याम विमल. व्यामोह सूर्य प्र. २.५० उ.  
श्यामसुंदरदास गोस्वामी तुलसीदास इ प्रे १.५०. जी.  
भारतेंदु हरिश्चंद्र. इ प्रे. १.२५. जी.

भाषा-रहस्य. इ. प्रे ५५०  
भाषा-विज्ञान. इ प्रे ५००  
मेरी आत्मकहानी इ. प्रे २.००  
रूपक-रहस्य इ. प्रे. ३००  
सक्षिप्त पद्मावत इ प्रे. २५० का  
हिंदी निबन्ध रत्नावली इ प्रे २७५  
हिंदी भाषा. इ प्रे २००  
हिंदी भाषा का विकास. सा रत्न-माला. १००  
हिंदी साहित्य. इ प्रे. ३५०  
—तथा पीतावरदत्त बड्डुवाल गोस्वामी तुलसीदास हिंदु  
एकेडेमी ४००. जी.  
—सपा अयोध्याकांड इ. प्रे ३५०, — —ना प्र. सभा  
३००  
कवीर ग्रथावली ना प्र सभा ५००  
नासिकेतोपाख्यान. ना प्र सभा ०५०  
प्रवेशिका पद्यावली. ना प्र सभा १२५  
वृहद् हिंदी गण्डसागर न ख. ना प्र सभा ख १, २, ५  
३३००  
रत्नाकर २ भा ना. प्र सभा ४००  
रानी केतकी की कहानी. ना प्र सभा ०.५०  
रामचरितमानस इ प्रे १२००  
हम्मीर रासो (जोधराज). ना प्र सभा २.७५  
हिंदी निबन्धमाला. ना प्र सभा. भा १. २००, भा २.  
३००  
—तथा ब्रजरत्नदास, सपा. सुसरो की हिंदी कविता ना. प्र  
सभा. ०७५  
श्यामसुंदर पर्वेज. धुष अशोक पा १.०० उ  
श्यामसुंदरलाल घर की लाज चौधरी. ३.००  
त्याग चौधरी २५०  
ममता. चौधरी. ३००  
श्यामसुंदर सिंह लोकोक्तियां तथा मुहाविरे कालेज ०.४०  
श्यामसुंदर 'सुमन' कुणाल भाग्योदय २०० ना  
गोरे कौवे काले हंस आदर्श पु म. २०० उ.  
चाणक्य महान् भाग्योदय. २.००. ना  
वदचलन कलिया आवादा भवरे. आदर्श पु म १.५०. उ  
भारतीय मल्ल शिक्षा भाग्योदय २५०  
लाठी एवं गत्न शिक्षा भाग्योदय २५०  
साम्भ-सवेरा. भाग्योदय २००. क  
श्यामसुंदराचार्य. अनुपान विधि नद व ०५०  
अनुभूतयोग. भा. १ नद व १.००  
रसायनसार नद व ८.००  
श्यामसेवक वर्षा बहार भारतजीवन ०२५ का  
श्यामाचरण. शिक्षा और शिक्षा के सिद्धांत कि महल २५०  
शिक्षा के सामान्य सिद्धांत एव बाल मनोविज्ञान. कि महल  
३००  
शिक्षा के सिद्धांत तथा शिक्षा में आधुनिक प्रगति कि महल  
२.५०  
शिक्षा तथा मनोविज्ञान कि महल. ३.००

- शिक्षात्मक अनुसंधान की प्रस्तावना कि महल १२.००  
 शिक्षात्मक मनोविज्ञान कि महल. ३००  
 श्यामू सन्यासी अरब देश राजकमल २००  
 जापान. राजकमल २००  
 —अनु. भील और कमल ववई प्र ६०० उ.  
 श्रद्धानंद, स्वामी, १८५६-१९२६ हिंदू सगठन क्यों और कैसे ?  
 गोविंदराम १००  
 श्रद्धाराम फिल्लौरी भाग्यवती प्रचा पा १००. उ  
 श्रवणकुमार दिव्य, अनु मार्मिक रहस्य आत्माराम २.००.  
 क  
 श्रीकुमार शकर. शक और हकीकत ग्रथालय. ३७५. उ  
 श्रीकृष्ण. आगन के फूल. भा सा. प्र. ०५० वप्र  
 ईश्वर का मंदिर सस्ता ०४० वप्र  
 जगल की गोद में शिक्षण १२५  
 तरकज के तीर भा ज्ञानपीठ ३०० ना  
 तुम पूछो हम बताए शकुन. १.२५  
 देवता. सस्ता. ०४० वप्र  
 धार्मिक लोक-कथाएं. आत्माराम १५०  
 नन्हा अवावील सस्ता. ०४० वप्र  
 नेकी का पुरस्कार. आत्माराम १०० वप्र.  
 परीक्षा शकुन १२५  
 बहू-बेटी आत्माराम. ०.७५. ना  
 भारत का व्यापार कि महल. ३७५  
 भारत में यातायात का विकास. कि महल. ३७५  
 मुफ्त की अक्ल आत्माराम १००. वप्र  
 वसीयत. सस्ता ०.४०. वप्र  
 सबसे बड़ी सेवा सस्ता ०४० वप्र  
 सुबह का भूला आत्माराम १०० ना  
 सोने का कगन सस्ता ०४०. वप्र  
 हीरे मोती. लोकप्रिय ३०० क.  
 —तथा जयप्रकाश भारती दुनिया रगविरगी. आत्माराम.  
 ३०० क  
 —तथा मनमोहन सरल दैनिक गृहोपयोगी विज्ञान आत्माराम.  
 ४.००  
 —तथा योगेद्रकुमार लल्ला खेल-खेल में विज्ञान. आत्माराम.  
 ४००. वप्र  
 —तथा रमेश माहेश्वरी अफ्रीका की लोक-कथाएं आत्माराम.  
 १.२५  
 तिव्यत की लोक-कथाएं आत्माराम १५०  
 यूनेन की लोक-कथाएं आत्माराम १.२५  
 स्पेन की लोक-कथाएं. आत्माराम १.५०  
 —तथा मनमोहन सरल, सपा. प्रतिनिधि हास्य कहानिया.  
 आत्माराम १२५०  
 —तथा योगेद्रकुमार लल्ला, सपा प्रतिनिधि वाल एकाकी.  
 आत्माराम ६५०  
 प्रतिनिधि रंगमंचीय एकाका आत्माराम.  
 प्रतिनिधि लोक-कथाएं. आत्माराम  
 विश्व की प्रतिनिधि लोक-कथाएं आत्माराम

- तथा अन्य, सपा. प्रतिनिधि ऐतिहासिक कहानियां.  
 आत्माराम ८००  
 प्रतिनिधि हास्य एकाकी. आत्माराम १०००  
 श्रीकृष्ण दे. मनमोहन सरल  
 श्रीकृष्ण दे योगेद्रकुमार लल्ला.  
 श्रीकृष्ण कल्याणकारी प्रथम किरण दक्षिणायन. १००. गीत.  
 श्रीकृष्ण गोपालन मलयालम की कहानिया. ज्ञानपीठ ०.७५.  
 वप्र.  
 श्रीकृष्णदास लोकगीतो की सामाजिक व्याख्या. सा भवन, इ.  
 ४००  
 श्रीकृष्णदास दे लुई, पियरे  
 श्रीकृष्ण 'मायूस' चित्ररेखा राज पब्लि. ३५० उ  
 नई डगर राज पब्लि ४०० उ  
 पियौरा की पद्मिनी राज पब्लि ३५० उ  
 श्रीकृष्णलाल मानस-दर्शन आनंद पु, वा. ४.००  
 मीरावाई हिं सा सम्मे १.५०  
 हिंदी कहानिया सा भवन, इ २५०  
 —सपा. श्यामा स्वप्न ना प्र सभा २७५. उ  
 श्रीनिवास ग्रथावली ना प्र सभा ७५०. ना  
 —तथा कहरणापति त्रिपाठी, सपा हीरक-जयती-ग्रथ. ना प्र.  
 सभा १२.५०  
 श्रीकृष्ण सरल, १९२१- स्नेह सौरभ कि. घर, ग्वा. २.००.  
 का.  
 श्रीखडे, मालती मातृत्व और बाल सगोपन साथी ३.००  
 वीरागना साथी ३.०० ना  
 शरीर विज्ञान की रूपरेखा साथी. ३००  
 श्रीगोपाल योगामृत शारदा म १.२५  
 श्रीगोपाल आचार्य विपथगामी नवयुग ग्र कु. ४.००  
 श्रीचंद्र, मुनिश्री भिक्षु साहित्य की लोक कथाएं. आदर्श सा.  
 १५०  
 श्रीचंद्र, मुनिश्री 'कमल' स्मृति विज्ञान. जैन श्वेतावर ०.५०  
 श्रीचंद्र रामपुरिया अर्हत अरिष्टनेमि और वामुदेव कृष्ण. जैन  
 श्वेतावर १२५  
 बाल-दीक्षा जैन श्वेतावर ०.२५  
 ब्रह्मचर्य (छोटी). जैन श्वेतावर ०.७५  
 —अनु अचाराग के सूक्त जैन श्वेतावर ३००  
 दृष्टांत और धर्म कथाएं जैन श्वेतावर ०.७५  
 —सपा चरित्रावली जैन श्वेतावर. १००  
 तत्त्व-बोध. जैन श्वेतावर ०.३६  
 तेरापथ आचार्य चरितावली. जैन श्वेतावर. ख. १ ६.००;  
 ख २. ७००  
 प्रवचन डायरी जैन श्वेतावर. १९५३ ६००, १९५४-५५.  
 ७००; १९५६-५७ ७००  
 श्रमण भगवान महावीर जैन श्वेतावर. ०.५०  
 धावकाचार जैन श्वेतावर ०.७५  
 श्रीचंद्र रामपुरिया दे भीखण, आचार्य.  
 श्रीचंद्र जयहिंद-काव्य. एम. चाद. २००  
 नीतिशास्त्र का परिचय. लक्ष्मी ना ४५०



- वाल-सूरसागर रा वेनीप्रसाद १५०  
 श्री जी हिंदी साहित्य एक अध्ययन (प्रश्नोत्तर) रीगल  
 ३००  
 श्रीधर शास्त्री भारतीय चलचित्र का इतिहास साधना सदन  
 १५०  
 श्रीधर शास्त्री दे प्रभात शास्त्री  
 श्रीधर सिंह मानस का कथा-शिल्प आनंद पु, वा ४५०  
 श्रीधरानंद काव्य-कौमुदी मुशीराम ३५०  
 लघु सिद्धांत कोमुदी मोतीलाल १२००  
 सिद्धांत कौमुदी (कारक) विभक्ति प्रकरण मोतीलाल  
 २५०  
 श्रीधरानंद शास्त्री दे. भास  
 श्रीधरराणी, कृष्णलाल, १९११-१९६० बरगद वोरा. २००  
 ना  
 श्रीनाथ बाल-रत्न अमिताभ ०७५  
 श्रीनाथ सिंह भासी की रानी कि महल २०० जी  
 श्रीनाथ सिंह, ठाकुर, १९०१- कवि और क्रांतिकारी गगा  
 २५० उ  
 जागरण गगा ५०० उ  
 परी देश की सैर रामलोचन (पा) १०० उ  
 सोमनाथ गगा ३०० उ  
 श्रीनारायण करेसी तथा वैकिंग कि महल ५००  
 भारत का आर्थिक भूगोल कि महल २००  
 श्रीनिधि मचान पर उनचास दिन आत्मराम ६००  
 मालिनी के वनो मे आत्मराम ६००  
 शिवालक की घाटियों मे आत्मराम ५००  
 श्रीनिवास ग्रथावली सपा श्रीकृष्णलाल ना प्र सभा ७५०  
 ना  
 श्रीनिवासदास परीक्षा गुरु ज्ञान प्र ६२५ उ  
 श्रीनिवास मूर्ति दे खडेलवाल, श्याम  
 श्रीनिवास मूर्ति, एम जी प्राथमिक सामान्य विज्ञान भा २  
 श्री सरस्वती ०६०  
 श्रीनिवासाचारी तथा एम एस रामस्वामी आयुगर आधुनिक  
 भारत अनु उमापति राय तथा सुमित्रा भार्गव रा  
 वेनीप्रसाद ३००  
 प्राचीन भारत अनु गोरखनाथ चौवे रा वेनीप्रसाद ३००  
 मध्यकालीन भरात अनु गोरखनाथ चौवे रा वेनीप्रसाद  
 ३००  
 मुगल भारत अनु गोरखनाथ चौवे रा वेनीप्रसाद ३००  
 श्रीपतराय, सपा गल्प ससार माला सरस्व प्रे १५० क  
 श्रीप्रकाश अकार्बनिक रसायन शास्त्र आगरा बुक ८००  
 गृहस्थ-गीता सा सदन, चि १२५  
 नागरिक शास्त्र सा सदन, चि २००  
 व्यक्तिगत आचरण अ भा काग्रेस ०१९  
 हमारी आंतरिक गाथा सा सदन, चि २००  
 —तथा हरप्रसाद खरे कार्बनिक रसायन शास्त्र  
 गयाप्रसाद ७००  
 श्रीप्रकाश, रूपा वहादुर टाम राजपाल १५०. वप्र.

- श्रीप्रकाश दे ट्वेन, मार्क.  
 श्रीप्रसाद भारत को विभूतिया नद. ब्र. एव नद स १५०.  
 वप्र  
 श्रीभानु. भारतेदु नाट्य रूपक ना प्र सभा ३००  
 श्रीमन्नारायण, १९१२- अमर आशा. किताबिस्तान. ३७५.  
 का  
 इतनी परेशानी क्यों ? सस्ता २५०. नि  
 गाधीवादी सयोजन के सिद्धांत सस्ता ५००  
 ग्राम अर्थ-व्यवस्था सभावनाएँ और समस्याएँ अ भा. काग्रेस.  
 ०३०  
 भारत की मौजूदा समस्याएँ अ भा काग्रेस ०२५  
 भारतीय सयोजन मे नई दिशाएँ. शिवलाल १०००  
 रजनी मे प्रभात का अकुर आत्मराम ४०० का  
 विनोबा से साथ सात दिन सस्ता ०७५  
 समाजवादी ढंग का समाज अ भा काग्रेस ०५०  
 सैद्धांतिक स्पष्टता की आवश्यकता अ भा काग्रेस ०५०  
 श्रीमाताजी आदर्श बालक श्रीअरविंद ०२५  
 २९ फरवरी १९६० श्रीअरविंद ०५०  
 कथामजरी श्रीअरविंद ३००  
 नारी-शरीर श्रीअरविंद ०.२५  
 प्रश्न और उत्तर श्रीअरविंद भा १ २.००, भा. २.  
 ३.००  
 प्रार्थनाएँ और ध्यान २ ख श्रीअरविंद ३५०  
 प्रार्थना और ध्यान श्रीअरविंद सक्षिप्त ०३०  
 भविष्य की ओर श्रीअरविंद ०५० ना  
 मातृवाणी श्रीअरविंद भा १ ३००, भा. २ ०.५०;  
 भा ३ ०३७  
 वार्षिक प्रार्थनाएँ श्रीअरविंद ०३७  
 शिक्षा श्रीअरविंद १५०  
 श्रीमाताजी की बातचीत भा १-२ श्रीअरविंद ६.००  
 श्रीमाताजी की वार्ताएँ श्रीअरविंद ०३०  
 श्रीमाताजी के प्रवचन श्रीअरविंद १५०  
 श्रीमाताजी के स्फुट वचन श्रीअरविंद ०३०  
 श्री मातृमुक्तावली श्रीअरविंद ०५०  
 सर्वोत्तम आविष्कार श्रीअरविंद ०३७  
 सुंदर कहानियाँ श्रीअरविंद १५०  
 सूक्तिमुधा श्रीअरविंद ०७५  
 श्रीमाली, वीरबाला कलकल छलछल नवयुग ग्र कु १००  
 वप्र  
 देश हमारा नवयुग ग्र कु १०० वप्र  
 नीला अवर नवयुग ग्र कु १०० वप्र  
 भूचालो का देश—जापान नवयुग ग्र कु १०० वप्र  
 मैं मतवाला सागर नवयुग ग्र कु १०० वप्र  
 मैं हूँ पर्वत नवयुग ग्र कु १०० वप्र  
 सितारो तक नवयुग ग्र कु १०० वप्र  
 श्रीरजन विश्व कथा साहित्य साधना सदन ३००  
 श्रीराम, सद्गुरु पजीकरण प्रभात प्र ३००  
 श्रीरामअधर सिंह. लहरपथी. विश्वविद्यालय. १२५. नि.

श्रीलाल 'भानु' ऐतिहासिक उपन्यासकार वृंदावनलाल वर्मा.

- शारदा प्र. (पा.) १००  
 कथाकार प्रेमचंद शारदा प्र (पा) १००  
 कविप्रसाद समीक्षा शारदा प्र (पा) १००  
 कामायनी दर्शन. शारदा प्र (पा.) १००  
 काव्यांग निरूपण. शारदा प्र (पा) १००  
 गद्यकार प्रसाद शारदा प्र. (पा) १.००  
 गोदान दर्शन. शारदा प्र. (पा.) १.००  
 चंद्रगुप्त : समीक्षा शारदा प्र. (पा) १००  
 चिंतामणि दर्शन शारदा प्र (पा) १००  
 प्रिय प्रवास दर्शन शारदा प्र. (पा) १००  
 भाषा-विज्ञान दर्शन शारदा प्र (पा) १००  
 मृगनयनी . समीक्षा शारदा प्र (पा.) १.००  
 साकेत दर्शन. शारदा प्र (पा) १.००  
 साहित्यालोचन सिद्धांत शारदा प्र (पा) १००  
 साहित्यिक निबंध. शारदा प्र.  
 हिंदी उपन्यासकार शारदा प्र  
 हिंदी नाटककार शारदा प्र.  
 श्रीवल्लभ अमावस. अग्रवाल प्रि १००. क  
 नटराज गिरगिट अग्रवाल प्रि ०७५. क.  
 श्रीवास्तव जे. टी सी प्रश्नोत्तरी नद ब्र एव नद. स.  
 ५००  
 माध्यमिक कार्बनिक रसायन एस. चाद. ६००  
 शिक्षा मनोविज्ञान प्रश्नोत्तरी नद ब्र एव नद. स ३००  
 —तथा आई. सी. निगम प्रारंभिक रसायनिक गणना कि.  
 घर, का २५०  
 —तथा तिवारी मुद्रा साख तथा वैक-व्यवस्था नद ब्र. एव  
 नद स ३००  
 —तथा श्रीवास्तव सरल नागरिक शास्त्र रामप्रसाद १७५  
 —तथा अन्य. मुद्रा, अधिकोपण, विदेशी विनिमय, अंतर्राष्ट्रीय  
 व्यापार तथा राष्ट्रीय आय. प्रकाश बुक ८५०  
 श्रीवास्तव, आनंदस्वरूप रेगने वाले ग्रथमाला १७५ वप्र  
 श्रीवास्तव, आनंदप्रसाद आत्मघात हिं सा. सम्मे १.००  
 क  
 आत्मत्याग हिं ना मम्मे. १.०० ना  
 श्रीवास्तव, आर एस मातृभाषा शिक्षण गयाप्रसाद एव  
 लायल ५००  
 विश्व के महान शिक्षा-शास्त्री गयाप्रसाद एव लायल ५.००  
 श्रीवास्तव, आर एस. दे श्रीवास्तव, कृष्णमुरारीजाल  
 श्रीवास्तव, आर एस दे निघल, वी एल.  
 श्रीवास्तव, आर के तथा हरनायन वर्मा. उच्चतर माध्य-  
 मिक रसायनशास्त्र गयाप्रसाद ६००  
 श्रीवास्तव, आनीबेदीजाल अदध के प्रथम दो नवाव (१६८०-  
 १७५४) शिवलाल १२५०  
 शिनी नवतनत (७११-१५२६) नगी न. ४ शिवलाल.  
 १०.००  
 मुगलरानीन भारत (१५२६-१८०६). नगी न. शिवलाल.  
 १२५०

- श्रीवास्तव. इकवालनारायण. नागरिक शास्त्र और भारतीय  
 सविधान तथा प्रशासन. रतन १७५  
 राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धांत रतन भा १-२. ७.००  
 (प्र.), संपूर्ण १३००  
 श्रीवास्तव, इकवालनारायण दे वर्मा, विष्णुनारायण.  
 श्रीवास्तव, उदयप्रकाश भारतीय प्रशासन और नागरिक जीवन.  
 ग्रथमाला ५७५  
 श्रीवास्तव, उमाशंकर पशु से मानव. रामप्रसाद १००. वप्र.  
 मिल का मालिक नवयुग ग्र कु ०७५. ना  
 श्रीवास्तव, ए एल तथा एम एम लवानिया नागरिक शास्त्र  
 तथा भारतीय सविधान गयाप्रसाद. २.००  
 —तथा मालिगराम चतुर्वेदी नागरिक विज्ञान तथा भारतीय  
 सविधान गयाप्रसाद २.५०  
 श्रीवास्तव, एम डी दे घोषाल, पी एन  
 श्रीवास्तव, एल एन माध्यमिक ज्यामिति कला. गुप्ता ब्रा.  
 २७५  
 श्रीवास्तव, एल पी तथा आर सी सिंघल नागरिक शास्त्र  
 का अध्ययन यग मैन ५००  
 हाई स्कूल नागरिक शास्त्र यग मैन ३७५  
 —तथा रामचंद्र गुप्ता सरल नागरिक शास्त्र यग मैन भा.  
 १३००, भा २ ३५०  
 श्रीवास्तव, एस आर तथा के. पी सारावाई सरल जीव  
 विज्ञान. कि घर, का  
 श्रीवास्तव, एस एन तथा एस के मिश्र मुद्रा अधिकोपण  
 विदेशी विनिमय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किशोर पब्लि.  
 ८५०  
 श्रीवास्तव, एस के आर्थिक विचारधाराए आत्मराम.  
 श्रीवास्तव, एस डी उद्यान स २ रामप्रसाद. ३००  
 श्रीवास्तव, एस पी. प्रायोगिक प्राणीशास्त्र बुकलैड ५००  
 श्रीवास्तव, ओकारनाथ. आराम हराम है. सस्ता. ०४०. वप्र.  
 काल सुदगी राजकमल ३०० क.  
 भासी की रानी सस्ता ०.४० वप्र.  
 देवताओं का प्यारा सस्ता. ०.४०. वप्र.  
 स्वामी विवेकानंद सस्ता. ०४० वप्र.  
 हुआ सपेरा सस्ता ०४० वप्र.  
 श्रीवास्तव, ओम्प्रकाश लकीरे. नीलाभ २५०. उ.  
 श्रीवास्तव, कपिलदेव अभिनापा. स २. हि प्रचा म.  
 ३००. उ  
 श्रीवास्तव, कामताप्रसाद. एगिया जाग उठा नुभाप १.२५  
 श्रीवास्तव, काजीप्रसाद नेपाल की कहानी आत्मराम. ८००.  
 भ्रमण.  
 श्रीवास्तव, कृष्ण भारतीय अर्थशास्त्र एव नियोजन. सगी  
 न २. आगन बुक ८००  
 श्रीवास्तव, कृष्णकिशोर. आदमी के टुकड़े. रा वेनीप्रसाद.  
 १.५०. ना.  
 उदघाटन मंत्री तथा अन्य एकाकी. हि. भवन. २.६०  
 नीव की दरारे राजपाल २.५०. ना  
 परमाणु शक्ति. रा. वेनीप्रसाद १.००. वप्र.

- मछली के आसू विद्या प्र म ३.०० ए  
 रास्ते, मोड और पगडंडी रामप्रसाद १७५ ना  
 श्रीवास्तव, कृष्णामुरारीलाल वाल मनोविज्ञान और शिक्षा का  
 सबध (प्रश्नोत्तर) लायल, ११०  
 शिक्षा सिद्धांत और बुनियादी शिक्षा (प्रश्नोत्तर) लायल  
 ११०  
 —तथा आर एस श्रीवास्तव शिक्षा सिद्धांत एव वाल मनो-  
 विज्ञान लायल २००  
 श्रीवास्तव, के चार प्रमुख देगो की शासन प्रणालिया. विनोद  
 ६००  
 भारत का राष्ट्रीय आंदोलन विनोद ५००  
 भारत का राष्ट्रीय आंदोलन तथा भारतीय संविधान. विनोद  
 ६००  
 भारतीय संविधान विनोद २५०  
 श्रीवास्तव, के एल सरस्वती नागरिक शास्त्र सरस्व प्र.  
 ४५०  
 श्रीवास्तव, गोरखप्रसाद. रसायनिक तत्ता विश्लेषण काशी  
 हिंदू ६००  
 —अनु उद्योग और रसायन हि समि ७००  
 श्रीवास्तव, जगदीशप्रसाद 'नवीन' और उनका काव्य विनोद  
 १०००  
 पत काव्य का विवेचन मालवीय ४४०  
 प्यार का भोका सुरेद्र. २०० उ  
 लडखडाते कदम सुरेद्र २०० उ  
 श्रीवास्तव, जी पी., १-६१- अपना पराया आनंद पु,  
 वा  
 आकाश-पाताल राजहंस २२५  
 उडनखटोला ज्ञानमडल एव भा प्र मडल १.५०  
 उलट-फेर हि पु ए २०० ना  
 एकलौता जूता आनंद पु, वा २५० क.  
 कमवस्ती को मार ज्ञानमडल एव भा प्र मडल. २५०.  
 क  
 कानूनी मल आनंद पु, वा.  
 चुटकिया ज्ञानमडल एव भा प्र मडल २५० व्यग्य  
 तोपसिंह ज्ञानमडल एव भा प्र मडल ३००  
 दिल ही तो है. हिंद पा १०० व्यग्य  
 दुमदार आदमी हि पु ए ३०० प्रहसन  
 नकदम हि पु ए १२५ ना.  
 नोक भोक हि पु ए २०० प्रहसन  
 बौछार ज्ञानमडल एव भा प्र मडल ४०० प्रहसन  
 भक्तिन ज्ञानमडल एव भा प्र मडल १५० प्रहसन  
 भडामर्मिह शर्मा हि पु ए. २०० उ  
 भय्या अकिल बहादुर ज्ञानमडल एव भा प्र मडल २५०.  
 उ.  
 मरदानी औरत हि पु ए २७५ ना  
 मार मार कर हकीम हि पु ए २५० प्रहसन  
 मिट्टी का गेर रामप्रसाद ०५० हा  
 मीठी हसी हि पु ए. २.७५ उ

- लकडबध्धा. ज्ञानमडल एव भा प्र. मडल. १५० प्रहसन  
 विलायती उल्लू हि पु ए २.२५ उ  
 साहब बहादुर हि. पु ए २५० ना  
 हवाई लीला हि पु ए १.७५  
 हास्य-रस गगा २००  
 श्रीवास्तव, दुर्गाप्रसाद आदर्श पशुपालन मगध  
 श्रीवास्तव, देवकीनदन चित्रकूट के पथ पर. हि. सा भ  
 १२५ का  
 श्रीवास्तव, देवेन्द्रनाथ. इटरमीडियेट सामान्य मनोविज्ञान.  
 रतन २५०  
 श्रीवास्तव, द्वारकाप्रसाद कण्ठिय प्रमुख राजनीतिक विचारक.  
 कि घर, ग्वा ८५०  
 श्रीवास्तव नदलाल तथा रामकृष्ण श्रीवास्तव. रसायन परि-  
 चय गयाप्रसाद ३.२५  
 —तथा रामविलास त्रिपाठी सरल हिंदी व्याकरण रस और  
 अलंकार हि. प्रचा पु १२५  
 श्रीवास्तव, नरेन्द्रबहादुरलाल वैसिक-शिक्षा-सिद्धांत की रूप-  
 रेखा सर्वोदय सा ५००  
 श्रीवास्तव, नारायण दे केला, ओमप्रकाश  
 श्रीवास्तव, पन्नालाल तथा विष्णुप्रसाद भारतीय शासन की  
 रूपरेखा बुकलेड ५००  
 श्रीवास्तव, परमानंद उजली हसी के छोर पर नया सा प्र  
 ३०० का.  
 श्रीवास्तव, पी पी भूगोल शिक्षण गयाप्रसाद  
 श्रीवास्तव, पुरुषोत्तमलाल आदर्श और यथार्थ ना प्र. सभा  
 ३००  
 कवीर साहित्य का अध्ययन सा रत्न-माला ४५०  
 श्रीवास्तव, पूरनचंद आर्थिक भूज्ञान मिश्र-बधु. ३५०  
 दुर्गावती लोक चेतना ०७५ का.  
 प्राकृतिक भूज्ञान मिश्र-बधु ३५०  
 सामान्य भूज्ञान मिश्र-बधु ३७५  
 श्रीवास्तव, प्यारेलाल गति-विज्ञान अनु योगेन्द्रबिहारीलाल  
 रा वेनीप्रसाद. ६००  
 हाई स्कूल ज्योमेट्री एंड मैन्सुरेशन रा वेनीप्रसाद २००  
 श्रीवास्तव, प्रतापनारायण, १६०४- आगीर्वाद गगा ३००  
 क  
 पाप की ओर गगा ३.०० उ  
 वधन विहीना जिज्ञासा ५०० उ  
 वयालिस जिज्ञासा ६५०, — —ज्ञानमडल ४५०. उ.  
 विदा गगा ६०० उ  
 वेकसी का मजार आनंद पु, वा १३०० उ  
 वचना जिज्ञासा ७०० उ  
 वदना एस चाद १००० उ  
 विकास गगा १००० उ  
 विजय गगा १००० उ  
 विधाता का विधान गगा ३५० क  
 विनाश के बादल हिंद पा. २०० उ  
 विपथगा जिज्ञासा ३०० उ

त्रिवाह-विभ्राट. हिंदिया. २७५ ना  
 विश्वास की वेदी पर ओरिएण्टल. ५.७५. उ  
 विपमुखी गंगा ६५०. उ  
 विसर्जन जिज्ञासा ८००. उ.  
 वेदना एस चाद. ६५० उ.  
 व्यावर्तन जिज्ञासा ८.०० उ  
 सहयोग रामप्रसाद ० ६५  
 श्रीवास्तव, प्रेम तथा अन्य गृह-विज्ञान. कि महल. ३.५०  
 श्रीवास्तव, प्रेमचंद धर्म-चक्र लोक चेतना ० ७५  
 श्रीवास्तव प्रेमप्रकाश इतिहास शिक्षण मगध.  
 गृहविज्ञान गरीर एव स्वास्थ्य सरस्व प्र म ४००  
 समुदाय सगठन नद ब्र एव नद स. १५०  
 —तथा अन्य. परिवार तथा बालक. रामा प्र ५००,  
 ६५०  
 श्रीवास्तव, प्रेमप्रकाश. दे. शुक्ला, सरला  
 श्रीवास्तव, वशीधर हम भारतीय है सर्वोदय सा १.००  
 श्रीवास्तव, वच्चन, १९३१- भारतीय फिल्मो की कहानी  
 राजपाल ४५०, — हिंद पा १००  
 श्रीवास्तव, बद्रीनारायण रामानंद सप्रदाय तथा हिंदी साहित्य  
 पर उसका प्रभाव हि सा परिषद. ८००  
 श्रीवास्तव, बाकेविहारीलाल प्रारंभिक जीव विज्ञान. नद. ब्र  
 २५०  
 श्रीवास्तव, बालगोविंदप्रसाद बेला रामप्रसाद १२५ क.  
 श्रीवास्तव, बालचंद बीमा का प्रारंभिक अध्ययन. नद ब्र.  
 ७००  
 बीमा प्रवेशिका नद ब्र ४५०  
 श्रीवास्तव, बी पी तथा अन्य बहु-उद्देशीय सामान्य विज्ञान  
 यग मैत्र ७.७५  
 श्रीवास्तव, बी पी दे भिंगरन, बी जी  
 श्रीवास्तव, बेनीप्रसाद स्मृति चित्रण आगरा बुक. १.००  
 —तथा बासुदेव सहाय शर्मा इंटरमीडियेट रचनात्मक ज्यामिति  
 आगरा बुक ३००  
 श्रीवास्तव, बेनीप्रसाद 'भाई' बेला विज्ञान संगीत ४००  
 श्रीवास्तव, वैजनाथलाल इतिहास शिक्षण शैली नद स  
 २२५  
 चंद्रलोक की यात्रा नद ब्र एव नद स १७५ या  
 चित्रकला पाठक शैली नद व एव नद. स १५०  
 प्रसन्नता की साधना नद ब्र ० २५  
 श्रीवास्तव, ब्रजवासीलाल करुण रस हि सा. स १२.५०  
 श्रीवास्तव, ब्रजविलास पृथ्वीराज रासो मे कथानक रूढिया  
 राजकमल ३५०  
 श्रीवास्तव, ब्रह्मनंद जमाने की हार आनंद पु, वा. २२५  
 क  
 श्रीवास्तव, भगवतीप्रसाद, १९११- आविष्कार कथा. पीपुल्स  
 ३००  
 आविष्कार जगत्. बसल ३००  
 घरेलू बिजली ज्ञानमडल ४००  
 परमाणु शक्ति. ज्ञानमडल. ३००

पृथ्वी आर आकाश भा प्र मंदिर. १२५  
 वायु की कहानी. भा. प्र. मंदिर ०७५ वप्र  
 विज्ञान की प्रगति ज्ञानमडल ३.५०  
 विज्ञान के चमत्कार. परि स २ ज्ञानमडल ३००  
 सरल विज्ञान ज्ञानमडल १०६  
 सामान्य भौतिक विज्ञान. यग मैत्र ५५०  
 श्रीवास्तव, भगवतीप्रसाद दे मिनेट, एम  
 श्रीवास्तव, भगवतीप्रसाद. दे वर्मा, एम पी  
 श्रीवास्तव, भगवतीप्रसाद दे वर्मा, रामकिशोर  
 श्रीवास्तव, भागवतलाल तथा पलकधारी त्रिपाठी 'पलक'. शिशु-  
 प्रबोध-प्रणाली रा बेनीमाधव २००  
 श्रीवास्तव, मंगलाप्रसाद चद्रा. चिन्नगारी ३२५ उ.  
 श्रीवास्तव, मनबोधनलाल होमियोपैथिक चिकित्सा कृष्णा  
 होमियो १०.००  
 श्रीवास्तव, मुकुदीलाल, सपा ज्ञान शब्द कोश ज्ञानमडल  
 १५००, २२००  
 पारिभाषिक शब्दकोश. ज्ञानमडल. ४००  
 श्रीवास्तव, मुरलीधर चद्रगुप्त रा बेनीप्रसाद १.२५ आ  
 ध्रुवस्वामिनी. एक अध्ययन रा बेनीमाधव. १२५  
 बिहार के आधुनिक गद्य-निर्माता अशोक प्रे. ४००  
 मीरा दर्शन सा भवन, इ २५०  
 श्रीवास्तव, रघुनाथप्रसाद विज्ञान शिक्षण रा बेनीमाधव  
 ३.००  
 श्रीवास्तव, रमाकांत भारतीय शिक्षा गर्ग ब्र ५००  
 श्रीवास्तव, रमेशचंद्र भूगोल शिक्षण. गर्ग ब्र. १.००  
 श्रीवास्तव, रवींद्रनाथ प्रगतिशील आलोचना सा भवन, इ  
 ५००  
 श्रीवास्तव, राजाराम अर्चना न्यू लिट. १५० का  
 जीवन कण रा. बेनीमाधव. ०७५. क.  
 प्रतिमा. इ प्रे. १.०० का  
 मधुसूदा इ प्रे १२५ का  
 लक्ष्मण-शक्ति इ प्रे ०७५ का  
 वनवास इ प्रे १०० का  
 श्रीवास्तव, राधेकृष्ण एकलव्य : एक अध्ययन रा. बेनीमाधव  
 ४.००  
 श्रीवास्तव, रामकृष्ण. रासायनिक विश्लेषण गयाप्रसाद २५०  
 श्रीवास्तव, रामकृष्ण दे. श्रीवास्तव, नदलाल  
 श्रीवास्तव, रामचंद्र. वच्चो की फुलवारी सा सदन, दे. ०.७५  
 वप्र.  
 रचना रहस्य. २ भा. गयाप्रसाद १.७५  
 हिंदी काव्य मे प्रकृति. नद. ब्र एव नद स. २००  
 श्रीवास्तव, रामचंद्र 'चंद्र' कवीर साखी सुधा सशो स. ३.  
 श्रीराम मेहरा. ३७५  
 गांधी विमर्ग लक्ष्मी ना ० ८७  
 दिनकर और कुरुक्षेत्र कि घर, ग्वा २००  
 —टीका रामायण अरण्यकांड रामप्रसाद १५०  
 विद्यापति पदावली. रामप्रसाद. ५५०  
 श्रीवास्तव, रामसुरेशप्रसाद. दे. राय, जयनाथ.

श्रीवास्तव, रामस्वरूप अफ्रीका की विजय नद ब्र. एव नद स १५० या  
 रस, अलकार और पिंगल मालवीय १२५  
 श्रीवास्तव, रामानुजलाल जगल की सच्ची कहानिया लोक चेतना १५० वप्र  
 हम इश्क के वदे है नेशनल २७५ क  
 श्रीवास्तव, रुद्रप्रकाश दे लेखराजसिंह कनौजिया  
 श्रीवास्तव, रुद्रप्रसाद 'प्रवीण' गदी मछलिया, साफ तालाव पुष्पी १५० उ, — सुरेद्र ४२५  
 मुस्कान का मूल्य पुष्पी ०७५ उ, — सुरेद्र २००  
 सौदर्य का सौदा पुष्पी १५० उ, — सुरेद्र ३५०  
 श्रीवास्तव, लक्ष्मीनारायण बाल पचशील आशा पव्लि १२५ बाल महाभारत ३ भा आशा पव्लि १२५ (प्र)  
 वुनियादी शिक्षा रूपक यग मैन १००  
 श्रीवास्तव, ललितकुमार प्रारम्भिक नागरिक शास्त्र मिश्र-बधु २२५  
 श्रीवास्तव, लालबहादुरलाल प्राथमिक सहायता नद ब्र एव नद स २००  
 श्रीवास्तव, विश्वनाथप्रसाद गद्य-दीप-मालिका मिश्र-बधु २००  
 श्रीवास्तव, वी पी दे भडारी, के सी  
 श्रीवास्तव, वीरेद्र, सपा हिंदी प्रवेशिका रा वेनीप्रसाद २०० क  
 श्रीवास्तव, शकरदयालु प्रिय प्रवास प्रबोधिनी रा वेनीमाधव २००  
 श्रीवास्तव, शारदाप्रसाद. ससार का नवीन भूगोल रा. वेनीमाधव ३७५  
 श्रीवास्तव, शालिग्राम. प्रयाग प्रदीप हिंदु एकेडेमी ६०० इति  
 श्रीवास्तव, शिवकुमारलाल भारतीय प्रजातंत्र शासन का नागरिक रामप्रसाद १००  
 श्रीवास्तव, शिवनारायण, १९१३- उपन्यासकार प्रेमचंद और गवन नद स २००  
 उपन्यासकार प्रेमचंद और गोदान नद स २००  
 कविता की शिक्षा नद स २००  
 गद्य माधवी नद ब्र एव नद स २२५  
 निवध निधि नद ब्र एव नद स २३७  
 नूतन गद्य भारती नद ब्र २००  
 प्रबध पयोधि नद ब्र एव नद स २५०  
 हिंदी उपन्यास नद ब्र ८००  
 श्रीवास्तव, श्रीकृष्ण आर्थिक विचारधाराए आत्माराम १०००  
 श्रीवास्तव, श्रीनारायण अर्थशास्त्र के सिद्धांत (प्रश्नोत्तर) भा १ आगरा बुक ४००  
 श्रीवास्तव, श्रीनारायण पत्र व्यवहार, सक्षिप्तीकरण तथा बाजार भाव नद ब्र एव नद स ३००  
 वैकिंग प्रवेशिका कि महता २००  
 भारतीय आर्थिक, जीवन तथा नियोजन (प्रश्नोत्तर) आगरा बुक ७००

श्रीवास्तव, श्रीमन्नारायण तीमारदारी रा वेनीप्रसाद ०६०  
 श्रीवास्तव, स द वैज्ञानिक उद्यान शास्त्र रामप्रसाद ३००  
 श्रीवास्तव, सतगुरूशर सामुद्रिक बीमा के सिद्धांत गर्ग ब्र २७५  
 श्रीवास्तव, सी पी रोगनी की कहानी सा साधना ०७५  
 —तथा अन्य औद्योगिक मगठन एव प्रबध किंगोर पव्लि ८००  
 श्रीवास्तव, सी पी दे नागर, जी डी  
 श्रीवास्तव, सी पी दे निरजनकुमार  
 श्रीवास्तव, सुधीरा दे पाडे  
 श्रीवास्तव, सुरेद्रकुमार अनागता सा केद्र २०० का  
 श्रीवास्तव, सुरेद्रकुमार जागरण के गीत आनंद पु, वा २०० का  
 श्रीवास्तव, सुशीला बाल मनोविज्ञान के मूलतत्त्व नद ब्र. १५०  
 श्रीवास्तव, सूर्यदेवनारायण लोक नाटक भा प्रौढ ३००  
 श्रीवास्तव, स्नेहलता नददास का भवरगीत विवेचन और विश्लेशण चैतन्य ७५०  
 हिंदी मे भ्रमर-गीत काव्य और उसकी परपरा भा प्र मदिर १२००  
 श्रीवास्तव, हरिकांत भारतीय प्रेमाल्यान काव्य हि प्रचा पु १०००  
 श्रीवास्तव, हरिमोहन आजाही की प्रथम किरण साहनी १५० वप्र  
 मध्यकालीन हिंदी-गद्य राजकमल ३००  
 अलकार पिंगल और रस नवीन सशो स कि घर, ग्वा ०५०  
 श्रीवास्तव, हरिमोहनलाल धन और धरती कि घर, ग्वा ०७५  
 नारी जीवन की लोक कथाए मानकचद ०७५ वप्र  
 फूलो जैसे नन्हे मुन्हे नव-ज्योति प्र ०७५ वप्र  
 हमारा गाव कि घर, ग्वा ०७५  
 श्रीवास्तव, हरिशकर हुमायू श्रीराम मेहरा  
 श्रीवास्तव, हरिशकरलाल दे मिश्र, बाबूराम  
 श्रीवास्तव, हिमाशु अकबर-वीरवल के चुटकुले ज्ञानपीठ. १५० वप्र  
 अजब शहर गजब ठग नारायण प्र १०० वप्र  
 अतीत की विभूतिया सन्मार्ग ३००  
 अमृत की खोज वि ग्र कु १००  
 आचल का दीप सुभाष २२५ उ  
 आदमी और पैसा दि पु स १२५  
 उठो, हिम्मत करो कल्याणदास एव वि ग्र कु २००  
 उपनिषदों की कथाए सन्मार्ग १२५ वप्र  
 उसे फासी दे दी गई कला-नि १५० उ  
 कथासूर्य की नई यात्रा हि प्रचा पु ३००  
 कलाकार की आखे मगध ३५० उ  
 कारवा बढता जायेगा राजधानी २०० ना.  
 खजाने की खोज ज्ञानपीठ १५० वप्र.

चदामामा दूर के. कल्याण एवं वि. ग्र. कु १२५. वप्र.  
 चरित्र निर्माण की कथाए. सन्मार्ग. १२५ वप्र.  
 चित्र और चरित्र. सुभाष ५००. उ  
 जगमग दीप जले नारायण प्र. १००. वप्र  
 जहाज चलता रहा नारायण प्र ३.००. ना.  
 जूही रानी नारायण प्र १०० वप्र  
 ज्ञान-सरोवर नारायण प्र १०० वप्र.  
 धर्मचेता हि प्रचा पु (पा) १०० उ  
 नदी फिर वह चली हि प्रचा पु ७००. उ  
 नया इन्सान चौधरी ३००. उ, — — हि प्रचा म.  
 २५०; — — स २ राष्ट्रीय प्र मंदिर ३.०० उ  
 पछी और परदेशी. दि पु. स. १२५  
 पुरुषार्थ के बोलते चित्र. राष्ट्रीय प्र मडल एव राष्ट्रीय सा.  
 स ३२५ जी  
 पूर्वजो की सीख सन्मार्ग ०७५. वप्र  
 बडो के व्यग्य विनोद सन्मार्ग ०७५ वप्र  
 बापू ने कहा था कला-नि. ०७५ वप्र.  
 बोलती लोक कथाए सन्मार्ग ०.७५ वप्र.  
 मगल-ज्योति नारायण प्र ३०० नि  
 मगल ध्वनि नारायण प्र २५०  
 महानता की सच्ची कहानिया. सन्मार्ग ०७५. वप्र.  
 महान नागरिक कैसे बने ? राजधानी ३.५०  
 मेजर की पत्नी चौधरी ४००  
 यात्री का परिचय चौधरी एव राजधानी ३५० उ.  
 रवींद्र की बाल-कथाए ज्ञानपीठ १०० वप्र  
 रवींद्र बाल-भारती ज्ञानपीठ १०० वप्र.  
 रात और राही चौधरी ४००  
 राष्ट्रीय सुरक्षा के स्वर सन्मार्ग ३५०  
 लोहे के पख ज्ञानपीठ ७२५ उ  
 सिंदूर का जखम स २ राष्ट्रीय प्र मंदिर एव हि. प्रचा. म.  
 ३५० उ  
 सिकंदर कल्याणदास ७०० उ, — — वि. ग्र. कु.  
 ६५०  
 स्वयसेवक से राष्ट्रपति मगध ०६२ वप्र  
 हस चुगे ज्यो सीप से मोती वि ग्र कु. ३५० क  
 श्रीश. दे ईशदत्त शास्त्री  
 श्रीश दे विष्णुदत्त श्रीश  
 श्रीसत्य मुडे-मुडे मतिभिन्ना बवई प्र २.५०. हा  
 श्रीहरि हिंदी का सामान्य ज्ञान कि महल. २.००  
 हिंदी साहित्य प्रश्नोत्तर. कि महल ५.७५  
 श्रुतसागर सूरि तत्त्वार्थवृत्ति. सपा महेद्रकुमार न्यायाचार्य. भा.  
 ज्ञानपीठ १६००  
 श्रुतिकात आदर्श हिंदी निबंध. सा सदन, दे. ३००  
 हिंदी कवि परिचय सा सदन, दे. २००  
 हिंदी साहित्य और उमके अग. सा. सदन, दे २५०  
 श्रेष्ठ, आनदसागर. वाजिदअली ग्राह. नेशनल ६.०० उ.  
 थोत्रिय तथा भनावत, सपा अतर्भारती. रामप्रसाद. २७५.  
 क.

स

सगर, सत्यप्रकाश, १९१७- अफ्रीका का आदमी राजकमल.  
 ३७५ क  
 अवगुठन अवध २.०० क, — — राजकमल २.२५  
 उदयाचल के आचल मे राजकमल. ३.००  
 कली मुस्कराई राजकमल ४०० उ  
 काफी हाऊस वाली लडकी पैरामाऊट २७५ ना; — —  
 राजकमल ३००  
 कितना ऊचा कितना नीचा राजकमल २२५ क  
 चाद रानी राजकमल. २.५० उ  
 नया मार्ग राजकमल. २५० क  
 बरगद की छाया पैरामाऊट एव राजकमल. २.५०. उ.  
 मजिल से दूर राजकमल २०० उ  
 लबे दिन जलती राते राजकमल २२५ क.  
 हमदमे देरीना का मिलना. राजकमल २५० क.  
 सग्रामसिंह दे चद्रभानसिंह  
 सधवी, सुखलाल धर्म और समाज. हि ग्र. र. १.५०.  
 सधी, कमला साहित्यिक निबंध चैतन्य ४००  
 सोने की चक्की. हि सा स ०७५. वप्र  
 सधी, रामस्वरूप. सामाजिक-बधन कल्याणमल. १.००  
 सजीवनचद्र. भाग्यचक्र हि ग्र र ०१२ वप्र.  
 सड, रामगोपाल. शिक्षाशास्त्र की रूपरेखा रा. वेनीप्रसाद  
 २००  
 सत दे दीक्षित, सिद्धिनाथ 'सत'.  
 सत दे सतराम सत  
 सत, गोकुलचद्र आदर्श चरितावली ओरिएटल. २५०  
 आदर्श निबंध माला नया स ओरिएटल २.५०  
 आदर्श हिंदी व्याकरण ओरिएटल २००  
 आदर्श हिंदी व्याकरण तथा रचना ओरिएटल २.७५  
 आधुनिक एकाकी ओरिएटल ३००  
 आलोक स्तभ ओरिएटल २५० जी.  
 गाधी दर्शन ओरिएटल. ०७५. वप्र  
 गौरव-गाथा. ओरिएटल २५० जी  
 चमकते तारे ओरिएटल ०७५ वप्र.  
 पर्दे के खेल ओरिएटल. ०७५ वप्र  
 फूट का फल ओरिएटल १०० वप्र  
 वच्चो का मच ओरिएटल ०७५ वप्र.  
 बापू की वाते ओरिएटल ०७५ वप्र.  
 विल्ली मौसी ओरिएटल. ०७५ वप्र  
 मीरा ओरिएटल १७५ ना  
 यात्रा के आविष्कारो की कहानिया ओरिएटल ०.७५. वप्र  
 राम जीवन की भाकिया. ओरिएटल. १५० वप्र.  
 वीरता की अमर कहानियां ओरिएटल. ०७५ वप्र.  
 सरल पत्र शिक्षक. सशो स ओरिएटल ०.७५.  
 सुनहली सीखे ओरिएटल ०.७५. वप्र.  
 सैर सपाट. ओरिएटल. ०७५ वप्र.

सोने की चिडिया ओरिएटल ० ७५ वप्र  
हिंदी व्याकरण प्रभा तथा रचना ओरिएटल ३ ७५  
हिंदी व्याकरण प्रवेशिका तथा रचना ओरिएटल २ २५  
हिरौल ओरिएटल १ २५ ना  
—तथा गणपतराय मैनुअल आफ सस्कृत ग्रामर ओरिएटल  
१ ००

सत, गोकुलचंद्र दे सरकार, एम के  
सत, धर्मचन्द्र एकाकी सौरभ ओरिएटल. ३ ००  
गल्पिका ओरिएटल ४ ५० क.  
चार चयनिका ओरिएटल ३ ०० क  
नवीन लोकोक्तिया और मुहावरे ओरिएटल १ ५०  
साहित्य समीक्षण ओरिएटल २ ७५  
हिंदी गद्य का आविर्भाव और विकास ओरिएटल २ २५  
हिंदी साहित्य का इतिहास एक दृष्टि में ओरिएटल १ ००  
—तथा बलदेव कृष्ण सिद्धातालोचन ओरिएटल ४ ५०

सत, शाता ओजभरे गीत बाल सदन ० ७५ वप्र  
गीत भारती बाल सदन ० ७५ वप्र  
गीत माधुरी बाल सदन ० ७५ वप्र  
देखी-सुनी कहानिया बाल सदन ० ७५ वप्र.  
बबुआ के बोल बाल सदन ० ७५ वप्र  
बाल रागिनी बाल सदन ० ७५ वप्र  
मच के दृश्य बाल सदन ० ७५ वप्र  
मधुर गान ओरिएटल ० ७५ वप्र  
वर्ण गीतिका बाल सदन १ ०० वप्र  
विविध कथाए बाल सदन १ ५० वप्र  
शिशु गान बाल सदन ० ७५ वप्र  
सदाचार की कथाए बाल सदन ० ७५ वप्र.  
सरल गान ओरिएटल ० ७५ वप्र  
सरस गीत बाल सदन ० ७५ वप्र  
साहित्यकारों की कथाए बाल सदन ० ७५ वप्र.  
सतदास, स्वामी वेदात दर्शन इ प्रे ५ ००  
सतवत्स शास्त्री गीता प्रबोध हि प्रचा पु २ ०० का.  
सतवहादुर सिंह तथा भानुप्रताप सिंह गहन खेती हि. समि.  
५ ००

सतबाल, मुनि ब्रह्मचर्य साधना अनु माला जैन.  
श्री आत्मानंद ० ५०  
सतराम अच्छी अच्छी कहानिया विश्वेश्वरानंद ० ८७  
अलवेरूनी का भारत इ प्रे भा १ १ ७५, भा २  
२ ७५, भा ३ ४ ७५  
आदर्श पत्नी राजपाल एव विश्वेश्वरानंद २.५०  
उद्बोधिनी इ प्रे ३ ००  
कौतहल भंडार मिश्र-बधु १ ००  
गल्प-तरगिनी इ प्रे १ ५० क  
चमत्कारिक अनुभूतिया प्रचा पा १ ००  
चमत्कारों की दुनिया विश्वेश्वरानंद ० ७५  
जादू की नाव हि भवन ० ५० वप्र.  
जीने की कला राजपाल ३ ५०  
दयानंद. इ. प्रे १ ००. जी.

दादी की कहानिया इ प्रे ० ७५ वप्र  
नए युग की कहानिया विश्वेश्वरानंद १ ७५  
नदी किनारे की कहानिया हि भवन ० ६५ वप्र  
नदी की कहानी हि भवन ० ५० वप्र  
पजाब की कहानिया स २ हि भवन भा १ ० ६०, भा.  
२ ० ६०, भा ३ ० ७५ वप्र  
पद्य-समुच्चय की टीका मिश्र-बधु १ ००  
पहाडी प्रदेश की कहानिया राजकमल २ ०० वप्र  
फलाहार विश्वेश्वरानंद १ २५  
बच्चों की कहानिया विश्वेश्वरानंद १ ६६ वप्र  
बड़े लोग विश्वेश्वरानंद १ २५ जी  
विक्री कैसे बढ़ाए राजपाल ३ ५०  
भारत के महापुरुष स ५ हि भवन १ ५० जी  
भारत में वाइविल गंगा ८ ००  
मनबहलाव की कहानिया हि भवन ० ६५ वप्र  
महिला मणिमाला श्री भा भारती १ ५०. जी  
मेरे जीवन के अनुभव हि प्रचा पु ४ ५० सस्म  
रणजीत चरित स ३ हि भवन १ ५० जी  
रसवती विश्वेश्वरानंद २ ०० क  
लोक-विजय विश्वेश्वरानंद ३ २५  
लोक-व्यवहार डी वी तारापोरवाला ६ ००  
व्यावहारिक ज्ञान विश्वेश्वरानंद २ ७५  
शिष्टाचार विश्वेश्वरानंद २ ००  
सद्गुणी बालक इ प्रे १ ५०  
सुदरी सुबोध इ प्रे २ ५०  
सुख और सफलता के साधन राजपाल २ ००, — हिंद  
पा १ ००  
सुखी जीवन का रहस्य राजकमल (पा) १ ००  
सुनहली कहानिया हि भवन ० ७५ वप्र  
सेवा कज. विश्वेश्वरानंद १ ५०  
स्काउट बच्चों की कहानिया हि भवन १ ००. वप्र  
हमारा समाज विश्वेश्वरानंद ४ ००  
हमारे बच्चे विश्वेश्वरानंद ३ ७५  
—तथा रामेश्वरी नेहरू स्वदेश-विदेश यात्रा इ प्रे. १.७५  
—सपा रस धारा विश्वेश्वरानंद ० ७५ का  
सतराम 'विचित्र' आदर्श हिंदी एकाकी हि सा स. ३.५०  
बालको के चलन आत्माराम २ ०० वप्र  
सरल कहानिया आत्माराम १ २५ वप्र  
हम सुखी कैसे रहे? सस्ता ० ४० वप्र  
सतराम सत एकादशीमहात्म्य भाषा देहाती १ ५०  
खेती-बाड़ी (किसान गाइड) देहाती १ ५०  
व्यायाम शिक्षा देहाती २ ५०  
सतोष किरण माला आत्माराम भा १ १ ००, भा. २  
१ ५०  
बाल अक्षर-बोध आत्माराम ० ८५  
—तथा परितोष गार्गी एटम दैत्य आत्माराम. १.००. वप्र.  
सतोष दे अग्रवाल, सुनीता.  
सतोषकुमार गुरु नानकदेव विश्वेश्वरानंद. ०.५०

मनोविज्ञान के प्रयोग तारा. ३००  
 मेरी काश्मीर यात्रा चौधरी २५०  
 हिंदुओं के व्रत, पर्व, और त्योहार प्रमात पब्लि. ३.००  
 नतोपकुमारी सलवार की वेले देहाती २५०  
 सतोषदाता प्रेमी स्नेह और स्वप्न चैतन्य २५० उ  
 सथानम्, के आठ सेर चावल अनु महावीरप्रसाद अग्रवाल.  
 रा. वेनीप्रसाद २५०  
 सपूर्णानंद अंतर्राष्ट्रीय विधान सशो. स ३ ज्ञानमडल.  
 ११००  
 आर्यों का आदि देस भा भ ३.००  
 घाघ और भड्डरी आनंद पु, वा १५०  
 चिद्विलास स ३ ज्ञानमडल. ५०० दर्शन  
 दर्शन और जीवन ड प्रे ३५०  
 ब्राह्म्य काड (अथर्ववेद का १५वा काड) मोतीलाल. ३००  
 व्यक्ति और राज हि पु ए १.६२  
 सप्तर्षि मडल नद स २५० या.  
 समाजवाद भा ज्ञानपीठ. ५.००  
 हिंदू विवाह मे कन्यादान का स्थान स २ भा ज्ञानपीठ  
 १०० नि  
 सयमी टे वृहद्वल सयमी  
 मसारचंद्र, १९१७- अलकार प्रदीप श्री भा भारती. २.५०  
 एक्स किरण राजकमल २००  
 गद्य सुपमा श्री भा भारती २५०. नि.  
 निबन्ध-पारिजात. एस. चाद २००  
 मेघदूत. मोतीलाल ५००  
 सक्षिप्त केव-चन्द्रिका श्री भा भारती २.००. का.  
 सटक सीताराम. ओरिएटल एव दास ३००  
 साहित्य अनुभूति और विवेचन. एस चाद ६००  
 सोने के दात राजपाल २.५०. हा  
 हमारे आदर्श प्रतिनिधि श्री भा. भारती ३.००. जी.  
 हिंदी काव्य मे ग्रन्थोक्ति राजकमल १२.५०  
 —टीका नागानंद श्री भा भारती ३००  
 स्वप्नवासवदत्त. श्री भा भारती ३००  
 —सपा मेघदूत मोतीलाल ५००  
 सस्कृती, नानूराम कलाप्रण नवयुग ग्र कु ३५०  
 सआदत हमन 'मटो' प्रतिम उपन्यास. पैरामाऊट २५०. उ.  
 एक औरत, एक नर्स रूपसी. १५० उ  
 मटो की कहानिया रूपसी १००, — —सा प्र ३००  
 मटो की महान कहानिया रणजीत. ४५० क  
 मीनाबाजार (फिल्मी सस्मरण). राजकमल ३.५०; (पा.)  
 १००  
 ये मर्द ये औरते हिंद पा १००. उ  
 राजो और मिस फरिया. सरस्व प्रे. १५० उ  
 लायसेंस सहगल ३५० क  
 सड़क के किनारे नवयुग प्र ३.५० क  
 हवा के घोडे नव सा. प्र. २७५ उ.  
 सईद अमृत एक औरत एक नागिन. पुष्पी ०.७५. उ., — —  
 सुरेद्र. २००

गौरत और सपने. पैरामाऊट. २.५०. उ.  
 वहके कदम. नव सा. प्र. ३५०. उ, — —पैरामाऊट.  
 ३.२५  
 सकसेना, कृष्णा. बालको के सुनहरे लेख-पत्र नवयुग ग्र. कु.  
 ०.६०  
 सरल निबन्ध व पत्र लेखन नवयुग ग्र. कु १००  
 सकसेना, प्रहलाचंद्र बालभारती नवयुग ग्र कु ०५०. वप्र.  
 सिद्दाद की कहानी. नवयुग ग्र कु ०.५० वप्र.  
 सकसेना, गभूदयाल अगारो की मौत. नवयुग ग्र कु ४.०० ना.  
 अमरलता. नवयुग ग्र. कु ०७५ का  
 आदर्श पत्र लेखन. नवयुग ग्र कु १५०  
 आर्यमार्ग तथा अन्य एकाकी नवयुग ग्र. कु २.५०. ना.  
 काव्यलोचन नवयुग ग्र. कु १५०  
 गंगाजलि. नवयुग ग्र कु १५०. ना.  
 गावो को सुधारो नवयुग ग्र. कु १००  
 गुलदस्ता. स. ४ हि भवन. ०.५० वप्र.  
 चरणो मे. नवयुग ग्र कु ४.००. का.  
 चित्रपट नवयुग ग्र कु ४००  
 चीवरधारिणी नवयुग ग्र. कु २५०. ना.  
 जलपरियो के साथ नवयुग ग्र कु. १०० वप्र.  
 ज्ञान की कहानिया नवयुग ग्र कु ०५० वप्र  
 टाम काका की कुटिया नवयुग ग्र. कु १.०० वप्र  
 दिगत रेखा. नवयुग ग्र कु १२५.  
 दो नगरो की कहानी नवयुग ग्र कु २५०. वप्र.  
 धूपछाह नवयुग ग्र कु. ४००  
 नदरानी तथा अन्य एकाकी नवयुग ग्र. कु. २.५०. ना.  
 नए एकाकी नवयुग ग्र कु ३०० ए  
 नया खेत नवयुग ग्र. कु. १००  
 नया गाव नवयुग ग्र कु १००  
 नया बैल. नवयुग ग्र. कु १००  
 नया समाज नवयुग ग्र कु १००  
 नया हल. नवयुग ग्र. कु १००  
 नाचो गाओ नवयुग ग्र कु. १००. वप्र.  
 निवेदन के आसू नवयुग ग्र कु ४००. का.  
 नीहारिका नवयुग ग्र कु २५० का  
 नेहरू के बाद तथा अन्य एकाकी नवयुग ग्र. कु ४.००. ना.  
 पचवटी नवयुग ग्र कु १५०. ना.  
 पराकुटी नवयुग ग्र. कु. ०७५. ना.  
 पालना नवयुग ग्र. कु ०६३  
 प्रतिवेदन के स्वर नवयुग ग्र कु ४.००. का.  
 प्रवध प्रकाश स ७ हि भवन २५०  
 प्रीति की रीति नवयुग ग्र. कु २७५  
 फूलो की कहानिया नवयुग ग्र कु. ०५०. वप्र  
 फूलो की जन्म कथा नवयुग ग्र. कु ०५०. वप्र.  
 फूलो की सुनहरी कहानिया नवयुग ग्रं कु. ०५०. वप्र.  
 फूलो के गीत नवयुग य कु ०७५. वप्र.  
 वदनवार नवयुग ग्र कु ४००. उ.  
 बहुरानी. नवयुग ग्र. कु ४.००



वाप वेटे की कहानी. नवयुग ग्र. कु ०५०. वप्र  
वापू का स्वराज्य अभी नहीं आया नवयुग ग्र कु.  
१००  
वापू ने कहा था नवयुग ग्र. कु ३०० ना  
वाल कवितावली नवयुग ग्र कु ०५० वप्र  
विच्छू का डक नवयुग ग्र कु ६००  
भगवान बुद्ध नवयुग ग्र कु ०.७५ जी  
भाभी नवयुग ग्र कु २००  
भालू की हार नवयुग ग्र कु १०० वप्र  
मगरमच्छ नवयुग ग्र. कु ६००  
मधुलोरी नवयुग ग्र कु ०५०  
मन की रानी नवयुग ग्र कु ५००  
मन्वतर. नवयुग ग्र कु १५० का  
मेघदूत नवयुग ग्र कु २५० ना  
मौत की जिदगी. नवयुग ग्र कु ४०० ना  
रणवाकुरा राजकुमार नवयुग ग्र कु १०० वप्र  
राजकुमारियों की कहानिया. २ भा नवयुग ग्र कु १.००  
(प्र). वप्र  
राजकुमारों की कहानिया २ भा. नवयुग ग्र कु १.००  
(प्र). वप्र  
रैनबसेरा नवयुग ग्र कु १७५ का  
लोरी और प्रभाती नवयुग ग्र कु ७००  
वत्कल नवयुग ग्र कु १५० ना  
विजया और वारुणी नवयुग ग्र कु ३०० ना  
विद्यापीठ नवयुग ग्र कु ०६२ ना  
विश्व रचना की कहानी नवयुग ग्र कु १०० वप्र  
वीर सतान नवयुग ग्र कु ०५० वप्र  
शांति और एकता का मसीहा नवयुग ग्र कु २०० ना  
शिशुलोरी नवयुग ग्र कु ०५०  
सगाई नवयुग ग्र कु २५० ना  
सजला नवयुग ग्र कु ३००  
समाज शिक्षण काव्यामृत नवयुग ग्र कु १५०  
सलाइया नवयुग ग्र कु २५०  
साधनापथ नवयुग ग्र कु ३५० ना  
हवाई किला नवयुग ग्र कु ०.५० वप्र  
—तथा कन्हैयालाल शास्त्री सक्षिप्त जायसी लक्ष्मी ना.  
३५०  
सकसेना, शेखरचंद्र चाचा नेहरू नवयुग ग्र कु १०० जी  
सकसेना यह भी दे सकसेना, सकसेना.  
सकसेना. वनस्पति शास्त्र अपर  
सकसेना हायर सेकंडरी वनस्पति-शास्त्र अपर  
—तथा द्विवेदी, टीका महाकवि रत्नाकर और उद्धव शतक  
रामप्रसाद २५०  
—तथा सकसेना. भारतीय विपणन का अध्ययन. किशोर पब्लि.  
१०.००  
—तथा हुक्कू सरल बाजार, समाचार एव पत्र लेखन.  
गयाप्रसाद १५०  
सरल वाणिज्य प्रणाली गयाप्रसाद ५००

सकसेना, अमरनाथ पाकिस्तान का आर्थिक भूगोल आशा  
पब्लि २२५  
भारत का आर्थिक भूगोल आशा पब्लि ३५०  
सकसेना, अमरनाथ दे गुप्त, रघुवरदयाल  
सकसेना, आर के तथा के. एस भागव. प्रारंभिक वनस्पति  
विज्ञान नद ब्र ४५०  
सकसेना, उमेशकिशोर प्रयोगात्मक भूगोल लक्ष्मी ना  
मानचित्र चित्रण एव प्रयोगात्मक भूगोल लक्ष्मी ना ६५०  
सकसेना, उषा बहते बादल राज किशोर. २.०० क  
सकसेना, ए पी दे गुप्ता, गिरधारीलाल  
सकसेना, एच सी साख्यिकी एस चाद १००  
सकसेना, एम. बी टाइपरटिंग अभ्यास की नूतन विधि. सशो.  
स लक्ष्मी ना ३७५  
सकसेना, एम बी तथा अन्य. प्रारंभिक वाणिज्य शास्त्र २ भा  
गयाप्रसाद ६००  
सकसेना, एस बी दे बहुगुणा, सुरेन्द्रदत्त  
सकसेना, एस. सी अर्थशास्त्र के मूलतत्त्व. मानकचद ६५०,  
८.५०  
औद्योगिक सन्नियम रस्तोगी २५०, ५५०  
कारखाना प्रबंध एव व्यवसाय व्यवस्था. सा. भवन, आ  
७५०  
बुक-कीपिंग एंड ऐकाउन्टेन्सी स २. मानकचद. भा १-२.  
५५० (प्र)  
भारत की आर्थिक समस्याये सशो स २ सा गवन, आ.  
८.००  
भारत में उद्योग सशो स ३ सा भवन, आ ५००  
भारत में यावायात स ३. रस्तोगी ७००  
भारत में यातायात के सिद्धांत एव समस्याये रस्तोगी  
१०.००  
भारत में व्यापार एव प्रशुल्क नीति रस्तोगी ७५०  
भारत में व्यापार एव यातायात रस्तोगी १०००  
भारतीय कंपनी अधिनियम एव सेक्रिटेरियल प्रैक्टिस  
रस्तोगी १२००  
भारतीय प्रशुल्क नीति रस्तोगी १२५  
भारतीय वाणिज्य सन्नियम रस्तोगी १४००  
भारतीय व्यापारिक सन्नियम रस्तोगी ५५०, १०.००  
वाणिज्य के मूल तत्व आगरा बुक १०००  
वाणिज्य सन्नियम रस्तोगी ५००, ७५०  
व्यवसाय व्यवस्था एव प्रबंध सा भवन, आ. १३७५  
व्यापारिक सन्नियम रस्तोगी ४५०, ७००  
व्यावसायिक शिक्षा के प्रारंभिक सिद्धांत सा भवन, आ.  
५६२  
श्रम समस्याये एव सामाजिक कल्याण रस्तोगी ७०० से  
१२५०  
समाजशास्त्र के मूल तत्व विनोद ६.००  
सरकार एव उद्योग सा भवन, आ ५००  
हायर सेकेन्डरी आर्थिक एव वाणिज्य भूगोल. १९६२ स.  
मानकचद ८.००

हायर सेकेन्डरी व्यापार पद्धति एवं पत्र व्यवहार मानकचद.

भा. १. ३.५०, भा. २. ५.२५; राजस्थान. स. ५.५०

सक्सेना, कमलेश ग्रहण लगा. सा भवन, इ, ३.००. का.

सक्सेना, काति वायुयान. राजकमल २००

सक्सेना, कुमुद आग जो बुझी नहीं. वीरा. २.७५ वप्र.

सक्सेना, कृष्णवहादुर तथा अन्य हाई स्कूल वैज्ञानिक गणनाए.

भा. भा. प्र २.५०

सक्सेना, कैलाशवहादुर तथा विश्वनाथ हुक्कु बाजार-समा-

चार, पत्र-लेखन तथा साराग लेखन एस चाद ३५०

भारत की भौगोलिक समीक्षा आगरा बुक. ८००

सक्सेना, गिरिजा. सोन चिरैया सा. भवन, इ ३००. क.

सक्सेना, गिरिजा दे भूपेद्र स्नेही

सक्सेना, गुरुशरण भारत रत्न हिं प्रचा पु १५० जी.

सक्सेना, चन्द्रनारायण. गुरुधाम एकाकी गोविंदराम. ०५०

सक्सेना, जितेंद्रप्रसाद दे मेहरोत्रा

सक्सेना, डी पी तथा एल एन. वर्मा. भारत का आर्थिक एवं वाणिज्यिक भूगोल सा भवन, आ.

सक्सेना, द्वारिकानाथ, १९२२- कवि-सम्राट हरिऔध और

उनकी कलाकृतिया सरस्व पु. स ३२५

कामायनी-भाष्य विनोद १५००

प्रतिनिधि महाकाव्य विनोद १२००

प्रियप्रवास मे काव्य, संस्कृति और दर्शन. विनोद ८.००

साकेत मे काव्य. संस्कृति और दर्शन विनोद. १०.००

हिंदी के प्रतिनिधि महाकाव्य. विनोद. १०००

सक्सेना, नरेन्द्रमोहन 'नादान' रेशमी साडी आनद पु., वा २५०. उ.

सक्सेना, निर्मला. सूरसागर शब्दावली. हिंदु. एकेडेमी १२.००

सक्सेना, पी. एन दे दत्त, ए सी.

सक्सेना, पी. डी स्पये का अवमूल्यन. गुप्ता ब्रा १.००

व्यापारिक ढग तथा पत्र व्यवहार २ भा गुप्ता ब्रा ३५० (प्र.)

सक्सेना, प्रकाश. धरती विहसी. मयूर २००. क.

सक्सेना, प्रेमचन्द्र. गाव की ओर सहकारिता का नया कदम.

सरस्व. प्र. म १२५

सक्सेना, वद्रीप्रसाद पक्षी पालन. भाग्योदय. २००

भवन निर्माण कला भाग्योदय २.५०

सक्सेना, दादूराम अर्थविज्ञान रा देनीमाधव ४००

दक्खिनी हिंदी हिंदु एकेडेमी. ३००

भूदान का आर्थिक आधार ना. प्र सभा. ३.००

नसूत व्याकरण प्रवेगिना रा. देनीमाधव ५००

सामान्य भाषा-विज्ञान हिं सा सम्मे ६००

हाईस्कूल नसूत व्याकरण स ८. रा देनीमाधव १.५०

सक्सेना, दादूराम दे. ठादुर, विजापति

सक्सेना भुवन. जनरल हिंदी ना नि., द ०६४

सक्सेना. भुवनेश्वरीचरण प्रसाद और अज्ञातमनु पु भ, ५५ : २५

नगल हिंदी भाषा विज्ञान. पु. भ., अ. २२५

— टीका. निर्देशी अज्ञातमनु. रामप्रसाद ३.००

सक्सेना, महिमाचरन अर्थशास्त्र के सिद्धांत सा नि, का. ३५०

सक्सेना, महेशनारायण नवीन बाल-सगीत महेशनारायण सक्सेना, नेतरहाट विद्यालय, पो. नेतरहाट (राची). १२५

शिव-गीतिका उर्मिला, द्वारा महेशनारायण सक्सेना...२००

सगीत शास्त्र महावीर प्रसाद खरे, गणेश भवन, अहियापुर, इलाहाबाद. भा १ १.००, भा. २ २.५०

—तथा लक्ष्मीनारायण गर्ग, सपा. कल्याण अक सगीत २५०

विलावल अक सगीत २.५०

भैरव थाट अक. सगीत २.५०

सक्सेना, मुनीश आस्ट्रेलिया. राजकमल २.००

शरीर यत्र राजकमल. २००

—तथा नरेग वेदी. किस्ता हातिमताई राजकमल (पा.) १०० उ.

—अनु गर्भवती की देखभाल. राजकमल १७५

हमारे वच्चे ६ से १२ वर्ष तक राजकमल ३००

—तथा गणेश शुक्ल, सपा सौ आदर्श निबंध. राजकमल ५००

सक्सेना, मुनीश. दे शुक्ल, गणेश

सक्सेना, मोहनचंद्र भेड वकरी पालन. जवाहर. १.५०

मछली पालन एवं व्यवसाय जवाहर. २.००

मधुमक्खी पालन. स ४ जवाहर १.५०

सक्सेना, रघुवीरप्रसाद तथा अन्य माध्यमिक वनस्पति विज्ञान. गयाप्रसाद १०००

सक्सेना, राजीव टेलीविजन की कहानी. रामप्रसाद. १.२५. वप्र.

प्रफुल्लचंद्र राय पीपुल्स १.५०. वप्र.

सक्सेना, राजेश्वरदयाल छायावाद स्वरूप और व्याख्या अनुसंधान. १०.००

सक्सेना, रामचंद्र. सफल कपाउन्डर कैसे बने. भाग्योदय ३.००

सक्सेना, रामजीसरन निर्भरिणी सा नि, व ५५० क

सक्सेना, रामनारायण. आदर्श एलोपैथिक मेटेरिया मेडिका. मेडिकल ११.००

सक्सेना, रामप्रताप वधेलखट की लोक-कथाए. आत्माराम. १२५

सक्सेना, रामवावू उर्दू साहित्य का इतिहास अनु रामचंद्र टंडन तथा शालिग्राम श्रीवास्तव २ भा हिंदु एकेडेमी ७२५

सक्सेना, लाडलीप्रसाद. शासन व्यवस्था की प्रारंभिक पुस्तक रामप्रसाद. ०.५०

सक्सेना, लालताप्रसाद हिंदी काव्य में मानव और प्रकृति हिं सा भ. १६००

सक्सेना लोकेश्वरनाथ बान्ह वपं ना नि, का १८५

सक्सेना, वीरेंद्रकुमार अनमोल मणिया. नवयुग श कु

ऐतिहासिक कहानिया. नवयुग श कु.

कवीर की वाणी नवयुग श कु

तुलसी मगह नवयुग श कु.

पद्मलोक. नवयुग श कु.

भारत की उषन नवयुग श कु.

मिट्टी का घर नवयुग ग्र कु  
मीरा के पद नवयुग ग्र कु  
विश्वभारती नवयुग ग्र कु  
सुर सकलन नवयुग ग्र कु  
हिंदी पद्य पारिजात नवयुग ग्र कु  
सक्सेना, शकरसहाय अर्थशास्त्र के सरल सिद्धांत रा वेनी-  
माधव २००  
अर्थशास्त्र के सिद्धांत सशो स २ श्रीराम मेहरा  
१०००  
अर्थशास्त्र प्रवेशिका श्रीराम मेहरा ६००  
आर्थिक भूगोल रा वेनीमाधव ७००  
आर्थिक विकास की कहानी श्रीराम मेहरा २००  
ऐलिमेट्री एकनामिक्स रा वेनीमाधव २००  
औद्योगिक अर्थशास्त्र रा वेनीमाधव ४००  
औद्योगिक तथा व्यापारिक भूगोल हिंदु एकेडेमी ७००  
औद्योगिक सगठन रा वेनीमाधव ३००  
खोज की कहानिया नवयुग ग्र कु ५००  
गृह अर्थशास्त्र तथा गृह-प्रबंध रा वेनीमाधव ३५०  
भासी की रानी शिवलाल ०५० वप्र  
पृथ्वी का आर्थिक तथा वाणिज्य भूगोल रा वेनीमाधव  
४००  
प्रारंभिक अर्थशास्त्र श्रीराम मेहरा ५०० से ७५०  
वैकिंग रा वेनीमाधव भा १ २५०, भा २ ४००,  
संपूर्ण ६००  
भव्य विभूतिया रा वेनीमाधव १०० वप्र  
भारत का आर्थिक तथा वाणिज्य भूगोल रा वेनीमाधव  
४००  
भारत की आर्थिक समस्याए रा वेनीमाधव ५००  
भारतीय ग्राम्य अर्थशास्त्र हि सा सम्मे ७००  
महात्मा गांधी शिवलाल १०० वप्र  
लोकमान्य तिलक शिवलाल ०७५ वप्र  
वाणिज्य भूगोल रा. वेनीमाधव ७००  
वीरता की कहानिया शिवलाल १०० वप्र  
व्यापारिक भूगोल स ३ रा वेनीमाधव ३५०  
सरल वैकिंग रा वेनीमाधव १५०  
—तथा प्रेमनायण माथुर गावो की समस्याए हि सा सम्मे  
२२५  
—तथा रतनलाल नाहर सामाजिक ज्ञान रा वेनीप्रसाद  
३१२  
सक्सेना, शकरसहाय दे दुवे, दयाशकर  
सक्सेना, शिवदयाल प्रारंभिक कृषि-विज्ञान रा वेनीप्रसाद  
भा १ १००, भा २ ०२४, भा ३ ०७५  
सक्सेना, सदोहिनी दे जायसवाल, सीताराम  
सक्सेना, सर्वेश्वरदयाल, १९२७- काठ की घटिया भा  
ज्ञानपीठ ७००  
सक्सेना, सुरेशचंद्र अकेशन के सिद्धांत कि महल ६००  
औद्योगिक सगठन स २ आगरा बुक ५५०  
औद्योगिक सगठन का सरल अध्ययन आगरा बुक २००

व्यापार प्रणाली एव यत्र आगरा बुक भा १ ३५०, भा  
२. ४००  
—तथा रामचंद्र पुरोहित श्रौद्योगिक सगठन सशो. स ३  
आगरा बुक ५००  
सक्सेना यह भी दे सकसेना, सक्सेना  
सक्सेना, अदिकाप्रसाद विज्ञान और जीवन विनय १००  
विज्ञान विहार विनय ०७५  
सक्सेना, आर एन भारतीय सामाजिक परंपरा पु भ, आ  
सक्सेना, राजेश्वरप्रसाद समाजशास्त्र के सिद्धांत २ भा  
पु भ, आ  
सक्सेना यह भी दे सकसेना, सक्सेना  
सचदेव तथा गुप्ता अर्थशास्त्र के सिद्धांत गुरदास ३६५  
भारतीय अर्थशास्त्र गुरदास २५०  
सचदेव, टी एन माध्यमिक सरल अर्थशास्त्र एस चाद ४.५०  
सचदेवा, सतोष रूप और छाया नव सा प्र २२५ उ  
सच्चिदानंद आधुनिक गीतकाव्य कि महल २५०  
भारत की सामुदायिक विकास योजनाए राजकमल ३००  
सच्चिदानंद सिंह पलको के मोती अभिज्ञान ३५० वप्र  
वनस्थली अभिज्ञान. १००. वप्र  
वन हमारी सपति है अभिज्ञान ०७५ वप्र  
सज्जनसिंह, कर्नल लदाख-यात्रा की डायरी सस्ता २५०  
सज्जाद हुसेन, मुन्शी तरहदार लोडी अनु शमीम हनफी  
मित्र ३०० उ  
सतिश भारतीय शासन विधान कल्याणदास ३५०  
सतीश जौनसार-बाबर की लोक-कथाए आत्माराम १२५  
पत्थर बोलते हैं सुभाष एड क १२५  
पशु-पक्षी सबधी लोक कथाए आत्माराम १२५  
रग विरग पक्षी शकुन १५०  
सतीशचंद आदर्श आहार छात्रहितकारी १००  
सत्यकाम गोदान एक अध्ययन (प्रश्नोत्तर) रीगल १००  
तीन प्रमुख योग देहाती २५०  
तुलमी के गुण तथा उपयोग देहाती १५०  
पंचतंत्र देहाती ३५०  
योगासन बडा देहाती ०५०  
हम स्वस्थ कैसे रहे ? देहाती ६००  
सत्यकाम विद्यालकार, १९०५- चरित्र-निर्माण राजपाल  
२५०  
जीवन-साथी राजपाल ३५०  
देवता हिंद पा १०० उ  
पंचतंत्र राजपाल ३५०  
महात्मा गांधी राजपाल ०७५  
मानसिक शक्ति के चमत्कार राजपाल २२५  
मुक्ता हिंद पा १०० उ  
मेघदूत राजपाल २००  
राष्ट्रपुरुष राजपाल ३००  
सफल जीवन राजपाल २२५  
सरल महाभारत राजपाल १०० वप्र  
सीमा. राजपाल ३५० उ

—संपा. देश-देशांतर. राजकमल. ३.५०. या  
 सत्यकाम शास्त्री आर्य भजन पुष्पाजलि. देहाती. १.२५  
 कार्तिक महात्म्य अध्याय ३५ देहाती ४ ६२  
 भक्तवाणी देहाती ४ ५०  
 महिला मजरी देहाती. ६००  
 स्त्री भजनमाला देहाती ३००  
 सत्यकाम मिह्यातशास्त्री वैदिक मनुस्मृति देहाती ४ ५०  
 सत्यकेतु विद्यालकार, १९०३- अतर्दाह. सरस्व स. ३.७५.  
 आचार्य चाणक्य स ५ सरस्व म. ४०० उ  
 एशिया का आधुनिक इतिहास. सशो स २ सरस्व स  
 भा १. १०.२५, भा २ ५००, संपूर्ण १४.००  
 नागरिकशास्त्र के सिद्धांत स १९६२ सरस्व स ४००  
 पाटलीपुत्र की कथा हिंदु एकेडेमी १०००  
 प्राचीन भारतीय शासन व्यवस्था और राजशास्त्र सरस्व  
 स १० २५  
 फ्रेच स्वयं शिक्षक राष्ट्र. प्रचा. समि ५ ००  
 भारत का इतिहास स ७ १९६३ सरस्व स ४ ५०  
 भारत का प्राचीन इतिहास सशो स २ सरस्व स ११ ००  
 भारत का राष्ट्रीय आंदोलन और नया संविधान सरस्व स  
 ८.५०  
 भारत की शासन व्यवस्था और नागरिक जीवन स १९६२  
 सरस्व स ४ ५०  
 भारतीय संस्कृति और उसका इतिहास सशो स ३. सरस्व  
 स ६००  
 यूरोप का आधुनिक इतिहास सशो स ४ सरस्व स  
 भा १ (१७८६-१८७१) ६ ५०, भा २ (१८७१-  
 १९३६) ६ ५० संपूर्ण (१७८६-१९५८) १५ ००  
 राजनीतिशास्त्र सशो म ५ सरस्व. स भा. १ ७.००,  
 भा २ ६००, संपूर्ण १२ ००  
 विदेशी राज्यों की शासन विधि सशो स. सरस्व. स ७ ५०  
 समाजशास्त्र सरस्व स. १२ ५०  
 स्वतंत्र भारत का संविधान स. १३६३ सरस्व स ६ ००  
 होटल मीडर्ज सरस्व स ३ ५० उ  
 सत्यदेव ईजावास्योपनिषद्-दर्पण विश्वेश्वरानंद १ ००  
 कठोपनिषद्-दर्पण विश्वेश्वरानंद १ ३१  
 कहानी कल्पद्रुम औरिएटल ४ ५०  
 केनोपनिषद्-दर्पण विश्वेश्वरानंद ० ७५  
 मध्यभारत अभिनदन ग्रंथ देहाती १२ ००  
 सत्यदेव शांतिप्रिय सीमांत. गथ भ वप्र.  
 सत्यदेव सिंह अचल प्रत्युप ६ ०० उ.  
 सत्यदेव, स्वामी प्रमरीना के विचारों रामप्रसाद ० ५०  
 रामकीका चिन्तन नवयुग न. कु १.५०, — —रामप्रसाद  
 ० ६४  
 रामकीका भरण नवयुग न कु ०.६४  
 भारतीय समाजवाद की स्वरूपता ना प्र नभा ० २५  
 सत्यन् कर्ता-नास्त्वं न भा नर्व २००  
 तात वनाता न भा नर्व ० ६०  
 स्वामी नागय्या गुरु की जीवनी न भा. नर्व ०.२५

सत्यनारायण. खूखारो के बीच. प्रभात पब्लि. ४ ०० उ.  
 गरजती गंगा प्रभात पब्लि ४ ५० उ  
 तुषार-कन्या प्रभात पब्लि २ ०० क.  
 नवगृह विज्ञान मातृ-भाषा २ ००  
 पगला भरना अशोक प्रे १ २५. क.  
 सत्यनारायण दे सिन्हा, कृष्णकुमार  
 सत्यनारायण प्रसाद पशु जीवन का मानवीय रूप कि  
 महल. २ ००  
 विलुप्त जतुग्रो की कहानी कि महल  
 सत्यनारायण सिंह तुलसी आर उसका काव्य आत्माराम ० ७५  
 सत्यपाल वैज्ञानिक मालिश सस्ता  
 सत्यपाल 'निराश'. काव्य-संग्रह प्रथम भाग की टीका. रीगल  
 ३ ००  
 रश्मिबंध की आलोचना रीगल ५.००  
 सत्यपाल विद्यालकार अजगर, बाघ और देवता हिंद पा  
 १ ०० उ  
 ईरान राजकमल २ ००  
 गुलमुहम्मद दि. प्रे २.५० उ  
 वर्मा राजकमल २ ००  
 सत्यप्रकाश आधुनिक आवागमन रा वेनीमाधव. १ २५. वप्र  
 कुछ आधुनिक आविष्कार हिंदु एकेडेमी ५ ००  
 प्राचीन भारत में रसायन का विकास हिं समि १४ ००  
 भोजन और स्वास्थ्य गंगा २ ५०  
 रसायन दीपिका एस चाद ६ ५०  
 लाला लाजपत राय उ पब्लि १ ०० जी  
 वैज्ञानिक विकास की भारतीय परंपरा वि राष्ट्र ८ ००  
 साधारण विज्ञान रसायन शास्त्र रा वेनीमाधव. १.५०  
 सामान्य रसायन शास्त्र भा भ १४ ००  
 सृष्टि की कथा हिं सा सम्मे १ ५० (ग्रंथा)  
 हाई स्कूल त्रिकोणमिति रा वेनीमाधव. १ ००  
 हाई स्कूल रसायन शास्त्र रा वेनीमाधव. २ ५०  
 —सपा समाचार पत्र शब्द कोष हिं सा सम्मे. १.७५  
 सत्यप्रकाश 'महताव' गीता. नवीनतम २ ५०  
 सत्यप्रकाश 'मिलिड', १९२२- आओ बच्चू गाए गीत  
 राजीव, दि १ ००  
 काटो की छाह. एस चाद २.२५ उ.  
 काम की वाते दास ० ७५  
 गाव की ओर राजीव, दि एव सूर्य प्र १.०० ए.  
 चौधरी की चौपाल राजीव, दि एव सूर्य प्र ० ७५. ए.  
 दश दीप दास २ २५  
 पुराने रास्ते, नए मोड़. दास. ० ५६  
 बदलती दिशाए नूर्य प्र ३ ००. ना  
 भारतीय मजदूरों की समस्याए एन चाद. ४ ००  
 मधु को पत्र दास ० ५६  
 धर्मदान नस्ता. ० ३०  
 नाहित्य-ममागोचन नूर्य प्र ० ५०  
 हम पहले और अब दास १ २५  
 हमारी योजनाए दास ०.७५

—संपा. जैनेन्द्र : व्यक्तित्व और कृतित्व. सूर्य प्र. ७००  
 हिंदी की महिला साहित्यकार रूपकमल ५.००  
 सत्यप्रिय 'शांत'. मुलतानी लोक-कथाएँ. आत्मराम. १.५०  
 सत्यवतीदेवी भय्या विखरी आशा पुष्पी ०.७५ उ  
 सत्यवत. गृह विज्ञान. सा भवन, ३ भा १. ०.७५; भा २.  
 १ १३  
 सत्यव्रत आर्य. आधुनिक निवघ संग्रह मीतल. ३५०  
 'केशव' का आलोचनात्मक अध्ययन मीतल २.५०  
 जायसी : आलोचनात्मक अध्ययन मीतल २.५०  
 बिहारी आलोचनात्मक अध्ययन मीतल. २.५०  
 सत्यवत वानप्रस्थी, स्वामी. हिन्दू धर्म रक्षक स. ३ नेचर.  
 ०.२५ जी.  
 सत्यवत सिंह कर्णवादनम् गयाप्रसाद ०.८०  
 काव्य किरणावलि गयाप्रसाद १.५०  
 संस्कृत काव्य मजूषा. गयाप्रसाद १.५०  
 हिंदी काव्य प्रकाश चौखवा. १०.००  
 हिंदी साहित्यदर्पण चौखवा १२.५०  
 सत्यवत सिद्धांतकार, १-६८- आर्य-संस्कृति के मूल-तत्व.  
 विजयकृष्ण ४००  
 एकादशोपनिषद. विजयकृष्ण १२.००  
 प्रारम्भिक समाज-शास्त्र विजयकृष्ण ३५०  
 ब्रह्मचर्य जीवन और वीर्य नाश मृत्यु गोविंदराम. ०.३७  
 ब्रह्मचर्य-संदेश विजयकृष्ण ४.५०  
 भारत की जन-जातिया तथा संस्थाएँ विजयकृष्ण. १२.५०  
 भारतीय सामाजिक संगठन विजयकृष्ण. ३००  
 समाज-कल्याण तथा सुरक्षा विजयकृष्ण. १२.५०  
 समाज-शास्त्र के मूल-तत्व विजयकृष्ण. १५.००  
 समाज-शास्त्र तथा बाल-कल्याण विजयकृष्ण. ४.००  
 सामाजिक मानव-शास्त्र विजयकृष्ण २.५०  
 सामाजिक-विचारों का इतिहास विजयकृष्ण १२.५०  
 —तथा चद्रावती लखनपाल. शिक्षा-शास्त्र विजयकृष्ण. ४.००  
 सन्या. कन्नो, मन्तो और मैं त्रिवेणी १२५ वप्र  
 सत्याचरण, सपा काव्य कल्पतरु मिश्र-वधु २००  
 सन्यानंद, स्वामी आर्य समाज के नियमों की व्याख्या गोविंदराम.  
 ०.५०  
 श्रीमद्भयानंद प्रकाश. गोविंदराम १२००  
 सरल स्वास्थ्य-योगासन प्रभात प्र २००  
 सत्यार्थ बालूपुरी प्रायश्चित्त पुष्पी. ०.७५ उ, — सुरेन्द्र  
 २.२५  
 सत्येन्द्र, १९०७- कला, कल्पना और साहित्य. स २. सा  
 रत्न भ ५००  
 कुणाल. रामप्रसाद ०.७५ ए.  
 गुप्तजी की कला सा रत्न भ. ३००  
 जीवन यज्ञ. गयाप्रसाद. २००. ना.  
 प्रेमचंद. उनकी कहानी-कला सा रत्न भ ४.५०  
 बगला साहित्य का संक्षिप्त इतिहास हिं समि ५००  
 बच्चों के बापू. सा रत्न भ ०.७५ वप्र  
 ब्रजलोक साहित्य का अध्ययन स. २. सा. रत्न भं. १०.००


मध्ययुगीन हिंदी साहित्य का लोक तात्विक अध्ययन. विनोद.  
 १५.००  
 मृगनयनी मे कला और कृतित्व संगो स कि. घर, न्वा.  
 २५०  
 लोक साहित्य विज्ञान शिबलाल. १५.००  
 समीक्षा के सिद्धांत मुन्शीराम एव विनोद ३.५०  
 समीक्षात्मक निवघ विनोद. ८००  
 सूर की झाकी शिबलाल ६००  
 हिंदी का मान मंदिर. गयाप्रसाद २००  
 —तथा चुमन कल्लोलिनी लक्ष्मी ना १५०  
 —सपा जाहरपीर गुरु गुग्गा. क. मु हिं ३५० आ.  
 बगल की बज बोली क मु. हिं.  
 ब्रज-लोकवार्ता-कोश क मु हिं  
 सत्येन्द्र दत्त दे नजरुल इस्लाम  
 सत्येन्द्र शरत् अघूरा चित्र सा सदन, दे ३००. उ.  
 इन्द्र धनुष. हिं. भवन ४२५. ना  
 कुदमाला नीलाभ १२५ ना  
 नया सफर सुषना ३००. क  
 स्वयंवर हिंद पा १०० उ  
 —सपा नये चित्र भा ज्ञानपीठ ३००. क.  
 नवरंग सा सदन दे ३५० ना.  
 सत्संगी, जी. डी इतिहास शिक्षण विनोद. २००  
 सदरुद्दीन ऐनी अदीना अनु राहुल साकृत्यायन सा केंद्र  
 ३०० उ.  
 सूरखोर की मौत. अनु. राहुल साकृत्यायन. सा केंद्र. २५०. उ  
 सदनमिश्र ग्रथावली. वि राष्ट्र ५००  
 नासिकेतोपाख्यान. सपा. श्यामसुंदरदास ना प्र सभा ०.५०.  
 क.  
 सदानंद रस तरंगिणी स ६ मोतीलाल. १०.००. चि  
 सदानंद सिंह मैथिलीगरण गुप्त और उनकी विष्णुप्रिया  
 कमल प्र २.२५  
 सघारू, कवि. प्रद्युम्नचरित्र सपा. चैनसुखदास तथा कस्तूरचंद  
 कासलीवाल जैन सा ४००  
 सनक. दे पूर्णचंद्र 'सनक'  
 सनयातसेन जनता के तीन सिद्धांत. ग्रथमाला ६००  
 सनाढ्य तथा दीक्षित निवघ पूर्णमा भा प्र. मंदिर ३००  
 सनाढ्य, देवर्षि ईसप की नीति कथाएँ २ भा वत्तल १२५  
 (प्र.). वप्र.  
 वीसवी गती हिंदी काव्य—प्रतिनिधि कवि. विश्वविद्यालय  
 एव सरस्व. स. ५००  
 मदाकिनी. चौखवा १२५  
 हिंदी के पौराणिक नाटक चौखवा. १०.००  
 —तथा रमाशंकर जैतली आधुनिक काल के चार श्रेष्ठ कवि  
 भा प्र मंदिर १.५०  
 मध्यकाल के पांच श्रेष्ठ कवि भा प्र मंदिर १.५०  
 सनातन देव, स्वामी योग सार संग्रह मोतीलाल. २००  
 सन्नूलाल स्त्री सुबोधनी देहाती ७००  
 सप्रे, ना. वि. 'खिक् खिक्'. ललित २.००

सत्रे, माधव राव आत्मविद्या. सा. भवन, इ. ४.००  
 सफडिया, भगवानदास, १९२६- डक्कीसवी सदी वाइसवी  
 सदी सन्मार्ग ४.००. ना  
 वाल्मीकि तुलसी भये मानस सघ. ० ७५. ना  
 सवलसिंह तथा एम वी लाल कृषि गणित एव साख्यकी  
 गयाप्रसाद ४.५०  
 सवाईन्. राजनीतिक दर्शन का इतिहास एस. चाद  
 सब्बरवाल, उर्मिल वनवासी पाडव आत्माराम. १ ००  
 वप्र  
 हमारी आजादी की लड़ाई आत्माराम. ३.००  
 सब्बरवाल, कचनलता, १९१८- अनता. कि महल २.५०.  
 ना  
 अनचाहा. कि. महल. ६ ००. उ  
 अनजानी राहे इ प्रे ३ ०० उ  
 अमिया सा सदन, दे २ ०० ना  
 त्रिवेणी सा सदन, दे. ५ ०० उ  
 नया मोड राजपाल ४.००. उ.  
 पुनरुद्धार आत्माराम ३ ५०. उ  
 भीगी पलके. इ प्रे. १ ०० ना  
 भूख. हिं प्रचा पु. २ ५० क  
 मूक तपस्वी स. ४ हिं. भवन ३.५० उ.  
 लक्ष्मीबाई. कौशाबी. १ २५. ना  
 शिष्टाचार सस्ता ० ५० वप्र.  
 सकल्प एस. चाद. ४ ०० उ, — — नद ब्र. एव नद स.  
 ३ ५०  
 सरल बाल मनोविज्ञान. हिं भवन. १ ७५  
 स्नेह के दावेदार राजपाल ३ ५० उ  
 —सपा काव्य निर्भरिणी सरस्व प्रे २.००  
 सभरवाल, हृदयनारायण तथा रामगुलाम गुप्त. प्रमुख विदेशी  
 सविधान प्रकाश बुक. ६.५०  
 भारत का सवैधानिक विकास (१८५८-१९६२). प्रकाश  
 बुक. ७ ००  
 भारतीय राजनीति और शासन प्रकाश बुक ७.५०  
 राजनीतिशास्त्र के सिद्धांत. प्रकाश बुक भा. १. ६ २५;  
 भा २ ५ ००  
 सभामोहन अवधिया. दे द्विवेदी, शालग्राम  
 समतभद्र, स्वामी. रत्नकरण्डश्रावकाचार. टीका प्रभावद्राचार्य.  
 भा ज्ञानपीठ २ ००  
 समरवहादुर सिंह. अर्दुरहीम खानखाना सा सदन, चि  
 १०.००  
 समाधान कवि लक्ष्मण शतक. भारतजीवन. ० २५. का  
 समीर दे द्विवेदी, रामाजा 'समीर'.  
 सरकार, एम. के तथा गोकुलचंद सत व्याकरण प्रदीप  
 औरिएटल. भा. १. ४ ००; भा २. ५ ५०  
 सरकार, एस सी तथा के. के. दत्त आधुनिक भारतवर्ष का  
 इतिहास इ प्रे. भा. १. ५.००; भा २. ७ ००  
 सरकार, जदुनाथ. औरगजेव. हिं ग्र र. १०.००  
 मुगल शासन पद्धति. शिवलाल. ६.२५

मुगल साम्राज्य का पतन. शिवलाल भा. १. (१७३६-  
 १७५४) १२ ५०, भा २-४  
 युगयुगीन भारत. शिवलाल. ३ ०० इति  
 शिवाजी हिं. ग्र र ३ २५ इति  
 शिवाजी का राजवंश. शिवलाल  
 सरकार, जे. के तर्कविद्या (अवरोह) बुकलेड. ३.५०  
 मनोविद्या बुकलेड ४ ००  
 सरकार, पी सी सम्मोहन-विद्या. ग्रथमाला. ० ७५  
 सरकार, समर जनगण अधिनायक. हिं प्रचा पु २.०० ना.  
 सरकार, सोरीद्र सामाजिक शिक्षा मे वयस्क मनोविज्ञान  
 मगध. १.७५  
 सरदेसाई, गो. सा मराठो का नवीन इतिहास शिवलाल भा.  
 १ (१६००-१७०७) सशो. सं. २. ?, भा. २. (१७०७  
 १७७२) १७ ५०, भा ३ (१७७२-१८४८)  
 राजा शिवाजी. शिवलाल. राज स ३.५०; साधारण स.  
 २ ५०. इति  
 सरदेसाई, सखाराम. मराठो का इतिहास अपर. ६ ००  
 सरन तथा दीक्षित स्थिति विज्ञान बुकलेड. ४ ५०, कुजी  
 ४ ००  
 सरन, पी ग्रेट ब्रिटेन की शासन पद्धति. रस्तोगी ३.७५  
 चीन की शासन पद्धति रस्तोगी २.००  
 जापान की शासन पद्धति. रस्तोगी. २ ००  
 दिल्ली की कहानी. गुरदास. २ ५०  
 प्राचीन व मध्यकालीन भारत १९५६ तक रणजीत. ६.५०  
 फ्रांस की शासन पद्धति. रस्तोगी. २ ५०  
 भारत की शासन पद्धति रस्तोगी ४ ००  
 भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन एव सविधान. रस्तोगी ७.००  
 भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन, सवैधानिक विकास एव सवि-  
 धान. रस्तोगी ८ ५०  
 भारतीय शासन और राजनीति का विकास रस्तोगी १०.००  
 राजनीतिक सगठन एव विग्व के प्रमुख सविधान. रस्तोगी  
 १२ ५०  
 राजशास्त्र के सिद्धांत २ भा रस्तोगी ६.२५ (प्र.)  
 विश्व की प्रमुख शासन पद्धतिया रस्तोगी ८.००  
 —तथा डी. आर. भडारी भारतीय इतिहास का प्रवाह. रण-  
 जीत ५.५०  
 सरनाम सिंह. दे. गर्मा, सरनाम सिंह 'अरुण'.  
 सरयूप्रसाद आर्य. मानव या दानव. एस चाद २.७५. उ  
 सरयूप्रसाद 'विदु'. भयकर भूत. हिं. पु. ए. १.७५. ना.  
 सरल. दे अजितकुमार 'सरल'.  
 सरल दे भट्ट, धनजय 'सरल'.  
 सरल. दे वरजोर सिंह 'सरल'.  
 सरल. दे. मनमोहन सरल  
 सरल दे. महेशचंद्र सरल.  
 सरल दे. श्रीकृष्ण सरल  
 सरला बहन. संत फ्रांसिस सस्ता. ०.४०. वप्र.  
 सरला बहन. दे. एडर्सन, हैंस.  
 सरला मोहनबाब. दे. लॉक, जॉन.

संस्कार. दे रतननाथ 'संस्कार'  
 सरस दे हूवे, सुरेश 'सरस'  
 सरस दे शुक्ल, रामचंद्र 'सरस'  
 सरस्वतीकुमार 'दीपक' गुडिया का देश आत्माराम १.५०  
 चुन्नु-मुन्नु आत्माराम २०० वप्र [वप्र  
 सरस्वतीसरन 'कैफ' उडे पन्ने. हि प्रचा पु (पा) १००  
 ऊची-नीची राहे कि महल ३०० उ  
 जौक की शायरी प्रचा पा १०० का  
 भख और तृप्ति हि प्रचा पु ६०० उ  
 वनमाला हि प्रचा पु ३.०० उ, — — प्रचा पा १००  
 सरहपाद, सिद्ध दोहा कोग अनु तथा सपा राहुल साकृत्या-  
 यन वि राष्ट्र १३२५  
 सरहिदी, आर जे हिदी मुहावरा कोष रा वेनीमाधव ३००  
 सरावगी, धर्मचंद तदुस्त रहने के उपाय सस्ता १२५  
 सरल योगसन सस्ता २५०  
 स्वस्थ रहना सीखे प्रचा पा १००  
 सरिता सरिता कशीदाकारी देहाती २५०  
 मरीन तथा जगदीशचंद्र ओझा बाजार-समाचार एव पत्र  
 लेखन कृष्णा व्र २००  
 — तथा अन्य माध्यमिक अर्थशास्त्र कृष्णा व्र ८५०  
 सरीन, धर्मपाल सस्कृति-दर्पण आत्माराम २००  
 सरोज प्रबोध चंद्रोदय और उसकी हिदी परपरा हि सा सम्मे.  
 १०००  
 मौत की रोशनी चिनगारी १५० उ  
 रक्त-सघ चिनगारी २५० उ  
 सरोज. दे भारतभरण 'सरोज'  
 सरोज दे मुकुटबिहारी 'सरोज'  
 सरोज दे लक्ष्मीनारायण 'सरोज'  
 सरोज दे शिवसिंह 'सरोज'  
 सर्व, एस एस आदर्श प्रकृति चित्रण गुप्ता व्रा १५०  
 सर्वटे, आर आर दे अनलिकर, बाबूराव  
 सर्वटे, आर आर दे काकोडकर, चंद्रकांत  
 सर्वटे, आर आर दे पिटके, व ह  
 सर्वदानद, १९१५- भूमिजा भा. ज्ञानपीठ १५० ना.  
 माटी खाई जनावरा हिंदु एकेडेमी ५०० उ  
 सर्वदानद, स्वामी सन्मार्ग दर्शन आर्य सा ४००  
 सर्वदेव सिंह गावो मे सहकारिता राष्ट्रीय प्र मंदिर ५००  
 सलाममछली शहरी अजता की गूज यग मैन २००  
 सब्यसाची कोणार्क सस्ता ०४० वप्र  
 गीता-प्रवेशिका सस्ता ०४० वप्र  
 तदुस्ती हजार नियामत. सस्ता ०४० वप्र  
 पशु की परपरा सा भा सदन ४००, (पा) १.००. उ  
 वीमारी कैसे दूर करे? सस्ता ०४० वप्र  
 सस्कार ससद भा सा सदन १७५, (पा) १००  
 हारिये न हिम्मत सस्ता ०४० वप्र  
 सहगल तथा स्नातक कामायनी दर्शन आत्माराम ४००  
 सहगल, चंद्रभान छपाई पारचाजात (कैलिको प्रिंटिंग.) देहाती  
 ३५०

तवाकू की दुकान देहाती २५०  
 पान की दुकान देहाती २५०  
 प्रैक्टिकल फोटोग्राफी देहाती ४५०  
 हलवाई मास्टर देहाती २५०  
 सहगल, नगिनचंद कामायनी दीपिका रीगल. ७५०, ३ सर्ग  
 ३००  
 साकेत सौरभ रीगल १०००, सर्ग ६ ३००  
 सहगल, नगिनचंद दे शर्मा, राजेद्र  
 सहगल, नयनतारा मेरे वचपन की कहानी ज्ञानमडल ६००  
 सस्म  
 सहगल, मनमोहन, १९३२- आधुनिक शिक्षा शास्त्री दि  
 पु स २५०  
 शिक्षा दर्शन दि पु स ५००  
 समाज मनोविज्ञान दि पु स १५००  
 — तथा निमर्म पाठशाला प्रवध दि पु स ६००  
 भारतीय शिक्षा का इतिहास दि पु स ६००  
 स्कूल प्रवध दि पु स ८००  
 सहगल, ललित, अनु कागज की दीवार नेशनल ना  
 सहगल. ललित तथा उग्रसेन नारग दे शूद्रक  
 सहगल, सुरेशचंद्र सोप मेकर्स गाइड देहाती ६००  
 सहजानंद, स्वामी किसान सभा के सस्मरण न्यू लिट ३७५  
 गीता हृदय कि महल १२०० (अप्रा.)  
 सहजोवाई सहजोवाई के पद्य देहाती ०५०  
 सहयोगी दे हरिदास 'सहयोगी'  
 सहराई दे हरनामदास 'सहराई'  
 सहल, कन्हैयालाल, १९११- आलोचना के पथ पर एस.  
 चाद ५०० नि  
 दृष्टिकोण आत्माराम १५० नि  
 राजस्थानी कहावते एस चाद ८५०, — — भा. भ  
 ५००  
 लोक कथाओ की कुछ प्रकृतिया रामप्रसाद ३००  
 वाद समीक्षा आत्माराम ०७५  
 विवेचन साहनी ३००  
 समीक्षण आत्माराम ३००  
 साकेत के नवम सर्ग का काव्य वैभव सा सदन, चि. २५०  
 हिंदी गद्य संग्रह कल्याणमल १७५  
 — सपा द्रौपदी-विनय भा भ ७७५ का  
 सहल, सुरेशचंद्र नयी कविता और उसका मूल्यांकन  
 आत्माराम ८००  
 सहस्रबुद्धे, अनंत वासुदेव, १८९७- कोरापुट मे ग्राम-विकास  
 का एक प्रयोग अ भा सर्व. २००  
 सहस्रबुद्धे, अ वा दे जाजू, कृष्णादास  
 सहाय, गोविंद आर एस एस — ध्येय, नीति और प्रचार कला.  
 अ भा काग्रेस ०७५  
 काग्रेस ही क्यों स २ राष्ट्रीय प्र मंदिर ०६२  
 सहाय, चतुर्भुज अलौकिक भक्ति योग स २ साधन. १७५  
 आध्यात्मिक विषय मीमासा साधन २५०  
 गुरु भक्ता सहजोवाई के उपदेश. स ३ साधन. १००



मृत्यु और मृत्यु के पश्चात्. स. ३. साधन. ० ७५  
 योग फिलासफी और नवीन साधन स. ४ साधन. १ ७५  
 शारीरिक और आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य स ३ साधन २ २५  
 समर्थ गुरु श्री महात्मा रामचन्द्रजी की सक्षिप्त जीवनी व  
 उपदेश साधन १ ००  
 साधना के अनुभव. साधन. ख. १, ४, ६ १.७५ (प्र.),  
 ख २, ३. २.२५ (प्र), ख ७ १५०  
 सहाय, डी एन हिंदू आचार दर्शन मोतीलाल १ ५६  
 सहाय, पाडेय नर्मदेव्वर शतरूपा अशोक प्रे २ ००. का.  
 सहाय, प्रमनाथ बुनियादी शिक्षा के अर्थ एव सिद्धात. दि. पु  
 स ४ ५०  
 सहाय, विशभर मार्केट रिपोर्टस् एव सारांश लेखन. रामप्रसाद  
 २ ००  
 मुद्रा एव अधिकोषण कि महल ७ ५०  
 सहाय, विशभर दे पल्सुले, एन आर.  
 सहाय, विशभर दे मालीराम  
 सहाय, महाजोत जीववृत्ति-विज्ञान. हिंदु एकेडेमी १ ५०  
 सहाय, रघुपति 'फिराख गोरखपुरी' उर्दू भाषा और साहित्य  
 हि समि ७ ५०  
 जीवनी और सकलन राजपाल १ ५०  
 —सपा कामरूप आत्माराम ७ ५० का  
 रगारग राजकमल (पा) १.०० का  
 सहाय, रघुपति 'फिराक' दे ग्रिम्स  
 सहाय, रघुवीर लागत न्नाता मोतीलाल. ३ ००  
 सीढियो पर धूप मे. भा. ज्ञानपीठ ४ ००  
 सहाय, रामजी इंगलैंड का आर्थिक विकास. नद ब्र. एव नद  
 स. ३ २५  
 भारत का आधुनिक आर्थिक विकास कि महल ३ ००  
 सहाय, रामसिंहासन 'मधुर'. ऐतिहासिक कथाए सा साधना.  
 ०.७५  
 सहाय, वासुदेव आधुनिक आविष्कार रा वेनीमाधव. ०.८८.  
 वप्र  
 सहाय, विश्वभर 'प्रेमी' गगोत्री. सा. प्र ०.५० वप्र  
 गोलकुडा का किला सस्ता ० ४० वप्र  
 चित्रकूट सस्ता ० ४० वप्र  
 जमनोत्री. सा प्र ० ५० वप्र.  
 हरिद्वार सस्ता ० ४० वप्र.  
 सहाय, शिवनदन कैलाश-दर्शन पु भ. ३ ००. या.  
 गोस्वामी तुलसीदास वि. राष्ट्र ५ ५०  
 सहाय, शिवपूजन, १८६३- अमर सेनानी कुअर सिंह. सा.  
 साधना ० ७५ जी.  
 बिहार का बिहार ग्रथमाला २ ००  
 मंगलकलश सा साधना ३ ०० क.  
 मेरा वचन सा साधना ० ७५ जी  
 राष्ट्रपति राजेद्र प्रसाद ग्रथमाला २.५० सस्म.  
 व्याकरण-दर्पण अशोक प्रे २ ००  
 शिवपूजन-रचनावली वि राष्ट्र ख १ ८ ७५, ख. २.  
 ६ ००, ख. ३. १०.००, ख. ४. ८ ५०

श्रीराजेद्र-ग्रभिनदन-ग्रथ ग्रथमाला. २५ ००  
 सरोज-रचनावली पु. भ १२ ५०  
 हिंदी गद्य और गद्यकार सा साधना ६ ००  
 —सपा सारिका अशोक प्रे १ ५० क.  
 साहित्य-सरिता ग्रथमाला १ ७५  
 हिंदी-साहित्य और बिहार वि राष्ट्र ख. १ ५ ५०; ख. २.  
 सहाय, शिवपूजन दे शुक्ल, एस एम  
 सहाय, शिवस्वरूप हिंदू सामाजिक सस्थाए कि. महल  
 १०.००  
 सहाय, शीतल, अनु महात्मा टालस्टाय के विचार हि सा.  
 सम्मे ० ३७  
 सहाय, श्यामनदन 'सेवक' एक रात और अन्य कविताए.  
 अशोक प्रे १ ५० का  
 सहाय, श्यामसुंदर, सपा सामान्य-ज्ञान-कोष. भागलपुर बुक  
 २.००  
 सहाय, हरनाथ. चिंतन. अशोक प्रे. १.२५  
 सहारिया, जी एस तथा ए के. सहारिया भोजन और  
 स्वास्थ्य नेशनल. ३ ००  
 सहृदय दे त्रिपाठी, हवलदार 'सहृदय'.  
 साकृत्यायन अमर वेदना प्रभात पब्लि. २ ५० का  
 साख्यधर तथा पालीवाल. बुनियादी शिक्षण नवयुग ग्र. कु  
 २ ००  
 साख्यधर, श्यामकुमार. हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक  
 सक्षिप्त इतिहास भा प्र. मंदिर २.००  
 साभर, बाबूलाल. बापू. अ. भा अणुव्रत ०.१६  
 साभरलाल तथा गुप्ता. प्रमुख विदेशी सविधान. किशोर पब्लि.  
 ६ ५०  
 भारत का सवैधानिक विकास किशोर पब्लि ७.००  
 राजनीति शास्त्र के सिद्धात. किशोर पब्लि. भा. १. ६.२५;  
 भा. २ ५ ००  
 साइक्स, मार्जरी. विदेशो मे शांति के प्रयोग अ भा सर्व.  
 ० ७५  
 साइपल, पॉल. दक्षिण ध्रुव-विजय आत्माराम १०.००  
 भ्रमण.  
 साउथगेट आधुनिक यूरोप का इतिहास (१७८६ से अब तक).  
 एस चाद. ६ ००  
 इंगलैंड का आर्थिक इतिहास. एस चाद. ६.००  
 सागर तथा सिंह भूगोल शिक्षण. पु भ, आ. ३ ००  
 सागर, निर्मला भगवान बुद्ध रणजीत ०.७५ वप्र.  
 सागर, रामचंद्रसिंह इंगलैंड का शिक्षा विधान, १६४४.  
 अनिल प्र.  
 कार्यालय कार्य-विधि. आत्माराम. ६.००  
 कार्यालय पद्धति निर्देशिका. अनिल प्र. ४ ००  
 प्रारंभिक आलेखन अनिल प्र. ०.६२  
 सरल हिंदी व्याकरण. ३ भा पु भ, आ.  
 हिंदी व्याकरण परिचय. भा १. अनिल प्र. १.५०  
 हिंदी शिक्षण. पु. भ, आ ३.००  
 सागर बालूपुरी. आखिरी काटा. देहाती. २.५०



एक सपेरा देहाती २५० उ  
 वेगुनाह. देहाती ४५० उ  
 मधुकरी देहाती १५० उ  
 मुजरिम देहाती २५० उ  
 लपटे देहाती ३०० उ  
 सिद्धरी वेला देहाती २२५ उ  
 सुनहरी राह देहाती २५० उ.  
 सागरमल, मुनिश्री नया युग. आदर्श सा १०० का  
 —सपा सीप और मोती अ भा अगुवत ३५०  
 सागरमल 'श्रमण', मुनिश्री कुछ कलिया कुछ फूल  
 आत्माराम २५० का  
 सातवलेकर, श्रीपाद दामोदर, १८६६- सस्कृत स्वय शिक्षक  
 राजपाल भा १ २००, भा २ ३००  
 सादिक अली अपना देश अ भा कांग्रेस ० ३०  
 कांग्रेस की विचारधारा तथा कार्यक्रम अ भा कांग्रेस ० ३०  
 भारत की सस्कृति अ भा कांग्रेस ० २५  
 सादी, शेख गुलिस्ता स्टार (पा) १००  
 गुलिस्ता की कहानिया आत्माराम १२५ वप्र  
 बोस्ता भा ज्ञानपीठ २५० क  
 बोस्ता की कहानिया आत्माराम १२५ वप्र  
 साधना प्रतापी (काश्मीरीलाल ओझा), १९३८- अधूरी  
 कल्पना ऐडी २७० उ  
 कठपुतली अजय ४०० उ  
 कानून और इन्सान नवयुग प्र. ५०० उ  
 क्या पाया स्टार (पा) १००  
 खोटा सिक्का दि पु स ४००  
 पतिव्रता गिरिधर २७५ उ  
 मैं दुल्हन बनूंगी दि पु स ४०० उ, — —नवयुग प्र  
 ३५०  
 साधना सोपान गिरिधर ३००  
 साधुराम अमर मानव. श्री भा भारती २०० जी  
 नागानदम आत्माराम ५००  
 मेघदूत (पूर्वमेघ) आत्माराम २५०  
 —तथा गोविंदराम पुरातन काव्य लहरी श्री भा भारती  
 २.२५  
 साधुराम शास्त्री आदर्श महापुरुष. इ प्रे १२५ वप्र  
 सत कवीर. इ प्रे ० ७५ ना  
 साधुशरण मालिन हि प्रचा पु ५००. उ  
 साने गुरुजी, १८९९-१९५० आस्तीक स ३. राष्ट्रीय प्र  
 मंदिर ३५० उ  
 भारतीय सस्कृति सस्ता ३५०  
 यात्रा बबई प्र ४०० उ  
 श्यामू की मा कि महल ३०० उ  
 सती स २ शिवाजी ३०० उ  
 सान्याल, एस एन भारत-विभूति साहनी २०० जी  
 सान्याल, चारुचंद्र खरबूजे-तरबूज की खेती गगा ० ३१  
 मसालो की खेती गगा ० ६२  
 हल्दी-अदरक की खेती गगा ० ३७

सान्याल, नलिनीमोहन उच्चविषयक लेखमाला रा वेनीप्रसाद  
 एव रा वेनीमाधव १५०  
 बिहारी भाषाओ की उत्पत्ति और विकास रा वेनीमाधव  
 भवत-शिरोमणि महाकवि सूरदास. सशो रामशकर गुवल  
 'रसाल' रा वेनीमाधव १५०  
 रामानुज राष्ट्रीय सा स ० ५० वप्र  
 सान्याल, प्रबोधकुमार आका-वाका अनु जगत शखधर सा  
 केद्र ३५० उ  
 महाप्रस्थान के पथ पर सरस्व प्रे ३०० पर्यटन  
 हुस्नवानू राजकमल ६०० उ.  
 सान्याल, भूपेद्रनाथ आदिम मानव समाज नेशनल ४००  
 हमारे देश की नदिया नेशनल २५०  
 सान्याल, शचीद्रनाथ वदी जीवन आत्माराम १०००  
 सामर देवीलाल चंद्र लोक मानकचद १५० ना  
 भारतीय ललित कथाए मानकचद १७५ नि  
 —तथा गीडाराम वर्मा राजस्थान का लोक-सगीत भा  
 लोककला ३००  
 राजस्थान के लोकानुगजन भा लोक-कला १५०  
 राजस्थानी लोक-नाट्य भा लोक-कला २००  
 राजस्थानी लोक-नृत्य भा लोक-कला २००  
 सारग दे जैन फूलचद 'सारग'  
 सारग, आदर्शमोहन प्रयास के सुमन सन्मार्ग ५५० उ  
 सारदानद, स्वामी गीतातत्त्व स २ श्रीरामकृष्ण. २८०  
 भारत मे शक्ति पूजा श्रीरामकृष्ण (पा) १२५  
 वेदात—सिद्धात और व्यवहार स २ श्रीरामकृष्ण (पा)  
 ० ५०  
 श्रीरामकृष्णलीलाप्रसंग श्रीरामकृष्ण ख १ ६००, ख  
 २ १०००, ख ३ ७००  
 सारभाई तथा अग्रवाल वनस्पति विज्ञान रतन  
 सारस्वत, उमादत्त किरण हि प्रचा म ० ७५ का  
 भैय्या केचुलबदल हि प्रचा म १७५ हा  
 सारस्वत, उमादत्त 'दत्त' मस्तराम का चिट्ठा हि प्रचा म  
 १५० हा  
 सारस्वत, ओमानद रू आलाप-प्रलाप सरस्व पु स ० ५०  
 क  
 चिता सरस्व पु स १०० क  
 सारस्वत, केदारनाथ शर्मा दे राजशेखर  
 सारस्वत, केदारनाथ शर्मा दे सोमदेव भट्ट  
 सारस्वत, गोपालदत्त आधुनिक हिदी काव्य मे परपरा तथा  
 प्रयोग सरस्व प्र म १५००  
 सारस्वत, जे डी दे शर्मा, जे डी  
 सारस्वत, बट्टीप्रसाद दे नरोत्तमदास  
 सारस्वत, श्रीनारायण नवीन पद्य सग्रह की कुजी रीगल  
 १५०  
 हिदी भाषा सार की कुजी रीगल २००  
 साराभाई, के पी माध्यमिक वनस्पति विज्ञान आगरा बुक  
 साराभाई, के पी दे श्रीवास्तव, एस आर  
 सावत, रघुवशदयाल नीद और सपने. गगा. ३.५० उ.

सावरकर, वीर काला पानी. कि महल. ५००. उ.  
सावरकर, वीर विनायक दामोदर. हिंदू-पद-पादशाही.

राजधानी. ६००

सावल, रामलाल एवरेस्ट विजय श्री भा भारती. १०० या

कहानी कुसुमाकर श्री भा भारती ३००

गद्य-सोपान एस. चाद २.२५

भासी की रानी एक अध्ययन. श्री भा. भारती. २.००

दूतवाक्यम् गयाप्रसाद. १५०

निबन्ध-मजरी श्री भा. भारती २.५० नि

प्राचीन महाकवि. श्री भा भारती २.५०

महाभियान श्री भा. भारती. ३००. या

वैजयंती. श्री भा भारती २.०० का

सावित्री सिंह हिंदी शिक्षण गयाप्रसाद. ५००

साहनी, गोविंद दे मल्होत्रा, गोवर्धनलाल

साहनी, पी आर आधुनिक भारतीय सस्कृति का इतिहास.

प्रकाश बुक १४००

इंग्लैंड का सविधान लक्ष्मी ना. ५००

जापान का सविधान लक्ष्मी ना. ५.००

राजनीति और इतिहास के निबन्ध प्रकाश बुक. ७००

सोवियत समाजवादी गणराज्य सघ का सविधान. लक्ष्मी ना

४.५०

साहनी, पी आर दे टडन, बी आर के

साहनी, भारतभूषण 'सेवक'. मित्रता और बलिदान सुरेद्र.

२.०० उ

साहनी, भीष्म. पहला पाठ साहनी २.५०. क

भाग्यरेखा राजहस १७५. क.

साहर, जी आर इद्र धनुष. सा सगम, लु २.५० ना

साहा, अक्षयलाल तथा चित्तरजन प्रसाद प्रवेशिका प्रायोगिक

भौतिक शास्त्र नाँवली ३२५ .

प्रायोगिक भौतिक शास्त्र. नाँवली भा १ ६५०, भा २

३७५; भा. ३ ३२५

भौतिक शास्त्र. २ भा नाँवली

साहा, कुसुमकुमारी शरीर विज्ञान. स २ राजकमल ३००

स्वास्थ्य विज्ञान स २ राजकमल ३५०

साहा, महादेव नवीन सामान्य ज्ञान कि महल १५०

शरद् के लतीफे हि प्रचा पु २२५ जी

—अनु स्वदेश और साहित्य (शरत्). हि प्रचा पु ०६७

नि

साहा, महादेव दे मित्र, दीनबधु

साहित्य अकादमी आज का भारतीय साहित्य राजपाल ७००

भारत गीत सा अकादमी ०२५

भारतीय कविता सा अकादमी १६५३ ५००, १६५४-

५५ १२००

साहिर लुधियानवी गाता जाए बजारा राजपाल २००. का,

— —हिंद पा १००

जीवनी और सकलन राजपाल १५०

मेरे गीत तुम्हारे हैं राजपाल. २००. का, — —हिंद पा.

१.००

साहिर की शायरी स्टार (पा) १००

साहू स्नातक अकार्बनिक रसायन शास्त्र. मोतीलाल ५००

—तथा अग्रवाल. स्नातक प्रायोगिक रसायन शास्त्र मोतीलाल.

५.००

—तथा प्रसाद. माध्यमिक रसायनिक गणना स ३. मोतीलाल

३००

—तथा अन्य अकार्बनिक रसायन स २ मोतीलाल ६००

साहू, कामताप्रसाद गुप्त जी और द्वापर नव-ज्योति प्र.

४.५०

साहू, कामताप्रसाद दे शर्मा, देवेद्र

साहू, किशोर अभिसार. कि महल. ३५०. का

घोसला हिंद पा १.००. उ.

टेसू के फूल कि महल. ३०० क

धुए की लकीर हिंद पा. १०० उ

नागिने और बुलबुले कि महल. ४.००. क

पर्दे के पीछे कि. महल ६०० उ.

शादी या ढकोसला. कि महल २.५० ए, — —हिंद पा.

१००

हठीली राजकुमारी कि. महल १७५ बप्र

साहू, जगदीश माध्यमिक प्रायोगिक रसायन स ५ मोतीलाल.

३७५

स्नातक कार्बनिक रसायन मोतीलाल. ५००

साहू, शिवनदन भारत का शासन. बुकलेड ४००

राज्य विज्ञान के सिद्धांत. बुकलेड ६२५

सिंघल तथा गोयल. प्रारंभिक भौतिकी रतन ३००

सिंगविंग पाजामे की कहानी. लोकप्रिय १००. बप्र

सिंघल तथा मित्तल एशिया का भूगोल. स ४ सुरेश. १२५०

प्रक्रियात्मक भूगोल की रूपरेखा सुरेश १०००

भारत का भूगोल सुरेश ३००, ६.००

विश्व भूगोल सुरेश. ३००

सिंघल, आर. पी. माडर्न हाई स्कूल बुक कीर्पिंग गयाप्रसाद

३००

सिंघल, आर. सी माडर्न आर्ट ज्योमेट्री स. ११ रा. वेनीप्रसाद

१५०, भा २ १००

सिंघल, आर. सी दे श्रीवास्तव, एल पी

सिंघल, एस सी प्रक्रियात्मक भूगोल की रूपरेखा. सुरेश ३५०

सिंघल, ओम्प्रकाश चिंतामणि-चिंतन हि सा स २५०

नवीन निबन्ध रचना नेशनल ३००

प्रियप्रवास. हि सा स १५०

मृगनयनी-समीक्षा हि सा स १५०

साकेत हि सा. स १५०

सिंघल, जे पी आलेखन कला स २ भा भा प्र ०७५

सिंघल, जे सी तथा एस सी मित्तल एशिया का भूगोल.

सुरेश ७५०

सिंघल, बी. एल शाला प्रबन्ध, स्वास्थ्य शिक्षा एव सामाजिक

संगठन (प्रश्नोत्तर). गयाप्रसाद. २००

—तथा आर एस श्रीवास्तव शाला-प्रबन्ध, स्वास्थ्य शिक्षा

एव सामाजिक संगठन लायल. २.००

सिंहल, सतीशचन्द उच्चतर माध्यमिक भूगोल का सरल

अध्ययन सुरेश ६००

माध्यमिक विश्व भूगोल रा बेनीप्रसाद ७५०

सिंधी, दिलीप अणुयुग और हम अ भा सर्व ०५०

सिंह समाज अध्ययन और उसकी शिक्षा विधि ओरिएट  
२.५०

—तथा प्रसाद प्रवेशिका नियामक ज्यामिति बुकलेड २५०

—तथा वोकडिया भौतिक एव अकार्बनिक रसायन शास्त्र  
सशो स २ आगरा बुक ५५०

—तथा मुन्डले माध्यमिक प्रायोगिक कृषि रसायन-शास्त्र  
लक्ष्मी ना २५०

—तथा श्रीवास्तव विश्व भूगोल की रूपरेखा कि महल  
४००

सिंह, आर एन कार्बनिक रसायन लक्ष्मी ना ५००

मृदा-भूगर्भ विज्ञान तथा मृदा-भौतिकी गयाप्रसाद. ३५०

—तथा आर सी राय कृषीय प्रयोगात्मक भौतिकी गयाप्रसाद  
३५०

माध्यमिक भौतिकी गयाप्रसाद. भा १. ८००, भा २

—तथा एम एम वोकडीया कार्बनिक रसायन. आगरा बुक  
८००

—पी डी भारद्वाज माध्यमिक कृषीय भौतिक विज्ञान तथा  
जलवायु अध्ययन गयाप्रसाद १०००

—तथा मुकुटविहारीलाल प्रायोगिक रसायन विनोद २५०

सिंह, आर एल आधुनिक राजनीतिक विचारधाराये रतन.  
६७५

सिंह, आर के दे छोकर, एन एस

सिंह, आर के हास-परिहास राजपाल (पा) १०० हा

सिंह, आर पी दे चौहान, एन एस

सिंह, एच एन इगलैंड की शिक्षा प्रणाली विनोद ४५०

भूगोल शिक्षण विनोद ४००

सिंह, एन पी तथा एस एस शुक्ल सरल नागरिक ज्ञान मिश्र  
बधु १३७

सिंह, एम पी अर्थशास्त्र के सिद्धांत सा भवन, आ ८००

मनोविज्ञान एव शिक्षा मे सांख्यिकी लक्ष्मी ना ४५०

सांख्यिकी के मूल सिद्धांत एव उनके प्रयोग किशोर पव्लि  
१०००

सिंह, एल नूतन अर्थशास्त्र हि प्रचा पु ८८७

सिंह, एल एस भौतिक विज्ञान प्रश्नावली नॉव्लेटी ६००

सिंह, एस पी शिक्षा के दार्शनिक आधार कि महल २५०

सिंह, के एन तथा सूरतसिंह चौधरी सुगम अकगणित भा भा  
प्र २५०

सिंह, वी दे भा, टी

सिंह, वी के अमेरिका का आर्थिक विकास नद ब्र एव नद  
स २००

सिंह, वी डी दे सैलिसवरी

सिंह, वी डी तथा भूदेव शास्त्री विद्यालय सगठन एव  
संचालन विनोद ६००

सिंह, सी पी दे भा, ए जी

सिंहल, ग्रामप्रकाश अनुपम याकिक भौतिकी कि महल

३००

अनुपम सामान्य ज्ञान कि महल भा १ ३.००, भा. २.  
२५०

नागरिक शास्त्र के सिद्धांत एस चाद ३५०

प्रायोगिक भौतिक विज्ञान कि महल ४२५

सिंहल, कृष्ण हिंदी गीति नाट्य भा ज्ञानपीठ ४००

सिंहल, वी एस नियामक ज्यामिति नद ब्र एव नद स.  
४५०

सिंहल, त्रिजमोहन दे गर्मा, एन के

सिंहल, मदनगोपाल आदर्श विद्यार्थी भा सा प्र ०५० वप्र.

सिंहल, रोशनलाल कालेज निवध स २. हि भवन ५००

गांधी जी की जीवन भाकिया २ भा यूनिवर्सिटी ०.६२

(प्र)

नेहरू जी की जीवन भाकिया यूनिवर्सिटी ०.६२

पृथ्वी का स्वर्ग कश्मीर यूनिवर्सिटी १२५

प्यारा उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी १२५

हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी १२५

हिंदी के प्रसिद्ध महाकाव्य राजपाल १२५

सिंहल, शशिभूषण उपन्यासकार—नृ दावनलाल वर्मा. विनोद.  
१०००

सिकद, पी सी भौतिक भूगोल रतन ८००

सिद्धीकी, मकसूद अहमद दे प्रभाकर सिंह

सिद्धीकी, शौकत दो गुडे रूपसी १५० उ

रात की आखे रूपसी २०० उ

सिद्धीकी, सलमा विद्या हि ग्र र ३०० क

सिद्ध दे. विरथरे 'सिद्ध'

सिद्धकुमार सपनो की फसल कल्याणदास १०० वप्र

सिद्धगोपाल, वाचस्पति मित्रो की वाते गोविंदराम १२५

वैदिक सिद्धांतो पर—वहिनो की वाते स १० गोविंदराम

१.२५

सिद्धनाथकुमार, १९२७- टूटा हुआ आदमी दि. पु स.

३.००

नये चरण नयी दिशा ज्ञानपीठ १७५

रग और रूप आत्माराम २०० ए

रेडियो नाट्य शिल्प स २ भा ज्ञानपीठ ३००

रेडियो-वार्ता-शिल्प भा ज्ञानपीठ २००

सपनो की फसल बि ग्र कु १००

सिद्धेश दे राय, सिहासन 'सिद्धेश'

सिद्धेश्वर शास्त्री कालचन्द्र शारदा म ०५०

सिद्धेश्वर सिंह पाठशाला प्रबंध एव सामुदायिक जीवन का

सिद्धांत मगध २५०

सिद्धेश्वरी वल्लभ नागरिक शास्त्र के सिद्धांत पु भ, रा.

३५०

भारतीय शासन प्रणाली पु भ, रा ३२५

सिनहा, महेन्द्रनाथ दे चौवे, विजयनारायण

सिनहा, लक्ष्मीसहाय महादेवी वर्मा नद ब्र एव नद स.

२५०, आ.

सिन्हा, हरिश्चकर. भारत का सविधान बुकलेड. ४५०  
 सिन्हा. यह भी दे सिन्हा.  
 सिन्क्लेयर, आण्टन. जगल ज्ञानमडल ३.००. उ  
 सघर्ष अनु छविनाथ पाडेय कला-नि ५५०. उ  
 सिन्हा तथा अन्य सामान्य मनोविज्ञान की रूपरेखा भा भवन  
 ६५०  
 सिन्हा, अ क कथानिका पु भ १.७५  
 चयनिका पु भ ०.७८  
 सिन्हा, अनुराधा रामायण की बालकथाए. आदर्श पु. भ  
 १००  
 सिन्हा, अवधेगकुमार प्रवेशिका आर्थिक और वारिण्य भूगोल  
 नावल्टी २५०  
 माध्यमिक आर्थिक और वारिण्य भूगोल नावल्टी ४.००  
 व्यापार मगठन और पत्र व्यवहार नावल्टी १५०  
 सिन्हा, अहल्या. भारत की वीर ललनए कला-नि १.००  
 मीराबाई कला-नि ०.७५ वप्र  
 सिन्हा, आनदस्वरूप. नवीन इटरमीडियेट बीजगणित.  
 एस चाद ३.००  
 निर्देशक ज्यामिति लक्ष्मी ना ४००  
 सिन्हा, ए एस. आधुनिक ठोस-ज्यामिति गयाप्रसाद २००  
 आधुनिक हाईस्कूल ज्यामिति गयाप्रसाद. २२५, ३००  
 प्रारम्भिक गति विज्ञान गयाप्रसाद ४.००  
 प्रारम्भिक गति विज्ञान के प्रश्नों के हल गयाप्रसाद २००  
 प्रारम्भिक स्थिति विज्ञान गयाप्रसाद. ५.००  
 प्रारम्भिक स्थिति विज्ञान के प्रश्नों के हल गयाप्रसाद ३.००  
 सिन्हा, एम एम. 'कात' कविता हि प्रचा पु. १५०  
 सिन्हा, कमलिनीकुमारी दे कमरुन्निमा वेगम  
 सिन्हा, काता अतृप्ता राजमाल २०० उ  
 सिन्हा, कृष्णकुमार आधुनिक कवि पत नावल्टी. १२५,  
 ४५०  
 गुप्तजी की यशोधरा. नावल्टी. ३५०  
 नेताओं की कहानिया रवि ०.६२  
 पत और उनकी ग्रथि नावल्टी २.००  
 प्रसादजी का अजातशत्रु नावल्टी ३५०  
 प्रसादजी का चद्रगुप्त नावल्टी ३५०  
 ब्रजभाषा के प्रतिनिधि कवि नावल्टी ४००  
 सत्य हरिश्चद्र नाटक रवि १६०  
 सुदामा-चरित नावल्टी १२५  
 हिन्दी कवियों की आलोचना नावल्टी ४५०  
 —तथा सत्यनारायण ब्रज-काव्य माधुरी रवि. ६५०  
 सिन्हा, कृष्णानन्दन नृत्य का बुलावा अशोक प्रे १५० क.  
 सिन्हा, कैलास नवीन त्रिकोणमिति एस चाद ४००  
 सिन्हा, चद्रभूषण, सपा भोजपुरी कहानी सग्रह लेखक-मडल.  
 १००  
 भोजपुरी सगम लेखक-मडल १०० गद्य-पद्य  
 सिन्हा, जे पी मध्यकालीन भारत २ भा केदारनाथ.  
 सिन्हा, तारकेश्वरनाथ इगलैंड में स्थानीय शासन मोतीलाल.  
 ५००

सिन्हा तारकेश्वरप्रसाद शिक्षण विधिया दि पु स १५००  
 सिन्हा तेजनारायण. माध्यमिक न्यायिक ज्यामिति मोतीलाल.  
 २.००  
 सिन्हा, दयाप्रकाश पचतत्र त्रिवेणी १५० वप्र  
 सिन्हा, प्रकाशवता एक, दो, तीन. अशोक प्रे. ०.७५. वप्र  
 सिन्हा, प्रभा कुणाल शिवलाल १२५ वप्र.  
 सिन्हा, बी पी विश्व सभ्यता का सक्षिप्त इतिहास मोतीलाल.  
 ११००  
 सिन्हा, मनोरजनप्रसाद सगिनी पु भ २०० का.  
 सिन्हा, मिथलेशकिशोर आधुनिक शासन और राजनीति.  
 भा. १ बुकलेड ६७५  
 सिन्हा, मुकुलकुमार गोल-गोल गप्पा. साधना म १.५०. हा  
 घेरे के अदर पु भ रा १.८७  
 सिन्हा, यदुनाथ भारतीय दर्शन लक्ष्मी ना. ८५०  
 मनोविज्ञान सशो स ५ १६६२ लक्ष्मी ना ८.००  
 सिन्हा, योगेन्द्रनाथ आसमान तारा अभिज्ञान. २.००. क.  
 चलो वादलो में छिप जाय अभिज्ञान २०० क.  
 दुबी हो अभिज्ञान. १५० वप्र.  
 पथेर पाचाली के विभूति बाबू अभिज्ञान २००  
 पहाड की पुकार अशोक प्र २.००. क.  
 मूछ की लडाई अभिज्ञान १५० वप्र  
 वन के मन में आत्माराम २५०. उ  
 वनलक्ष्मी हस २.७५. उ  
 सिन्हा, रणधीर कविवर विहारी और उनका युग. अनुसधान.  
 १६००  
 सिन्हा, राजेश्वरीप्रसाद. विकासात्मक बाल मनोविज्ञान.  
 भा भवन ५.२५  
 सिन्हा, रामपूजन हायर सेकेडरी जैविकी. नागरी प्र. वप्र.  
 सिन्हा, लक्ष्मणप्रसाद. भारत का सविधान एस चाद ४.००  
 सिन्हा, विश्वमोहन गुफा से महल ग्रथमाला ३००  
 सिन्हा, विश्वमोहनकुमार जीवन लहरी पु भ. ३००  
 सिन्हा, शत्रुघ्नप्रसाद शिक्षक और उनका प्रशिक्षण. ज्ञानपीठ  
 ३५०  
 शिक्षा-सिद्धांत प्रवेशिका ज्ञानपीठ ५००  
 हिंदी भाषा की शिक्षण विधि दि पु स ६५०  
 सिन्हा, सत्यव्रत भारत दुर्दशा—भारतेदु हरिश्चद्र रा  
 वेनीमाधव ०.७५ ना.  
 भोजपुरी लोक गाथा हिंदु एकेडेमी ८००  
 मिट्टी की गाडी स. २ परिमल ३०० ना  
 सिन्हा, सावित्री अनुसधान के स्वरूप आत्माराम ३.५०  
 एकाकी सचयन यूनिवर्सिटी २५० ना  
 ब्रजभाषा के कृष्णभक्ति काव्य में अभिव्यजना-शिल्प.  
 नेशनल. २०.००  
 मध्यकालीन हिंदी-कवयित्रिया आत्माराम ८००  
 युगाचरण दिनकर. नेशनल १०००  
 —तथा विजयेद्र स्नातक, सपा अनुसधान की प्रक्रिया.  
 नेशनल ५००  
 सिन्हा, सुमित्राकुमारी. दादी का मटका नेशनल १५०. वप्र.

सिन्हा, सुरेश तुमने मुझे पुकारा तो नहीं पुष्पी १.२५. उ.  
हिंदी आलोचना का विकास रामा प्र ८००  
हिंदी उपन्यासों में नायिका की परिकल्पना अशोक प्र  
१२५०  
सिन्हा, हरेद्रप्रताप भारत को प्रयाग की देन रा वेनीप्रसाद  
४००, — — रा वेनीमाधव ३००  
सिन्हा यह भी दे सिन्हा  
सिमोनोफ इकवाली चीन हस २.००  
सियारामशरण हिंदी साहित्य के सितारे भा प्र मंदिर  
२००  
सियारामशरण प्रसाद कौन विश्वास करेगा कला-भा. १५०  
ना  
मधु-सचय कला-भा १.५०. का  
मोती और पत्थर कला-भा (पा) १०० उ.  
राजा राधिकारमण कृतित्व और व्यक्तित्व कला-भा  
विचार और अध्ययन कला-भा २५०  
वृंदावन लाल वर्मा साहित्य और समीक्षा सा प्र १२५०  
—सपा प्रकाश स्तम्भ कला-भा २५०  
प्रतिनिधि साहित्य कला-भा १९६० ४००, १९६१  
३००  
सिरोठिया, शकुंतला, १९१५- आरी निदिया सर्वोदय सा  
१०० वप्र  
काले मेघा पानी दे न्यू लिट १००  
गा ले मुन्ना सा भवन, इ १२५ वप्र  
गीतो भरी कहानिया इ प्रे १५० वप्र  
चाद इनना हसा कि महल ३०० का  
जाग पहरेण कि महल ०६२ का  
नन्ही चिडिया कि महल ०७५ वप्र  
बाल-मंदिर के चटकीले फल सर्वोदय सा १००. वप्र  
मोतीलाल नेहरू कि महल १५० जी  
विनोवा कि महल ०७५ जी  
सारंगा सदावृज कि महल ०७५ वप्र  
सुधि के स्वर कि महल २५० का.  
सिलाकारी दे द्विवेदी, लोकनाथ 'सिलाकारी  
सिलोनी, इग्नैजियो फाटामारा सरस्व प्रे २५० उ  
सिसौदिया, रामावतार सिंह समाज के समोसे आनंद पु, वा.  
सीता धूलि धूमरित मणिया नेगनल १५००  
भारत की लोक कथाए नेशनल ८००  
सीतादेवी रामायण की अत कथाए २ भा प्रभात पब्लि  
२.०० वप्र  
—तथा बालकृष्ण आधुनिक राष्ट्र निर्माता यग मैन २००  
सीतारमैया, पट्टाभि काग्रेस का इतिहास सस्ता भा १-२  
(अप्रा), भा ३ १०००, सक्षिप्त ६००  
गांधी और गांधीवाद २ भा गिदनाल ५०० (प्र)  
भारत का आर्थिक गोपण मातृ-भाषा १००  
म गांधी का समाजवाद मातृ-भाषा २५०  
हमारी पारिवारिक व्यवस्था. मातृ-भाषा १२५  
सीताराम अयोध्या का इतिहास हिंदु एकेडेमी ६००

प्रेम-कसौटी इ प्रे १२५ ना  
महात्मा अक्षर अनन्य-कृत प्रेमदीपिका हिंदु एकेडेमी १००  
का  
मालविकाग्निमित्र भाषा रा वेनीप्रसाद  
मीर साहब कि महल १५० हा  
मृच्छकटिक भाषा रा वेनीप्रसाद ०६२  
रघुवंश भाषा रा वेनीप्रसाद ०५०  
सीता-राम सग्रह इ प्रे २५० का  
सीताराम शास्त्री एक कला, एक जीवन चंद्रलोक ४५० आ  
बीसलदेव रासो एक गवेषणा हिंदु एकेडेमी  
सीताराम शास्त्री, टी असम का इतिहास स. ५ टी सीताराम  
१.००  
असम का नवीन भूगोल स ८ टी सीताराम १००  
सीताराम सिंह भारतीय राष्ट्रीय चेतना का पुनर्विकास  
पु भ ०५० .  
विजयी शेखर पु भ १.०० वप्र  
सीन्कीविक्रम, हेनरिक जव रोम जल रहा था कि महल  
६०० उ  
सुंदर दे ओझा, जगदीश 'सुंदर'  
सुंदरदास गीता और कुरान देहाती २५०  
सुंदरदास, स्वामी सुंदर विलास व्यामलाल २५०  
सुंदरम् कविश्री-माला गुजराती राष्ट्र प्रचा समि  
—तथा आन्डले लोक अर्थशास्त्र रतन १३.००  
—तथा वैश्य अर्थशास्त्र के सिद्धांत रतन. १४००  
सुंदरलाल भारत का विधान देहाती ७५०  
सभ्यता महारोग हिं पु ए ३५०  
सुंदरलाल दे भगवानदास  
सुंदरलाल 'अग्रेक' तितली विश्वेश्वरानंद १५० वप्र  
सुंदरसिंह ऐतिहासिक घटनाए राष्ट्रीय प्रेस. भा १ ०६२,  
भा २ ०६६, भा ३ ७५ वप्र  
ऐतिहासिक महापुरुष पु भ, रा भा १ ०७५, भा २  
०८७, भा ३ ८७, भा ४. १२५  
समाज की वाते राष्ट्रीय प्रेस भा १ ०७५, भा २ १००  
हिंदी बाल सखा राजहस ०६५ वप्र.  
सुकुमारन, टाटापुरम् कैरली भा ४ अशोक प्र गृह क  
सुकुल, चंद्रमौलि १८८३- रचना तथा व्याकरण हिं सा  
सम्म १७५  
शरीर और शरीर-रक्षा इ प्रे ०७५ वप्र  
संस्कृत-साहित्य की प्रसिद्ध कथाए गंगा ४०० क  
सुकुल, ललिताप्रसाद इनसे हिं प्रचा पु. २५० नि  
काव्यचर्चा वगीय २५०  
साहित्य चर्चा हिं पु ए १५०  
साहित्य-जिज्ञासा आत्माराम ३५०  
—अनु नव कथा वगीय १०० क  
—सपा बुंदेले हर बोलों के मुह 'जिसने' सुनी कहानी वगीय  
५०० आ  
भारतेदु के दो नाटक वगीय २५०  
मेघदूत वगीय ५०० नि.

—तथा अन्य, सपा भारतेदु कला बगीय ४५०  
मीरा स्मृति ग्रथ बगीय १५००  
सुकुल, ललिताप्रसाद दे देवीप्रसाद, मुशी  
सुखठाणकर जाई जुही सरस्व प्रे. १०० क  
सुखतनकर. वदेमातरम् ओरिएट. १७५  
सुखरामदास बूटीप्रचार श्यामलाल १.५०  
सुखराम सिंह उपदेश की कहानिया भा १ अशोक पु. म  
१.०० बप्र  
सुखलाल तत्वार्थ सूत्र श्री आत्मानद ६५० ?  
सुखलाल, मुनिश्री प्रश्न और समाधान आत्माराम १२५  
सुखवाल, एन के दे मामोरिया, चतुर्भुज  
सुखिया तथा शेरी बाल कल्याण के मूल सिद्धात लक्ष्मी  
ना ३५०  
समाजशास्त्र तथा पारिवारिक व्यवस्था लक्ष्मी ना. २२५  
सुखिया, एस पी तथा जी पी शैरी सुव्यवस्थित गृह सशो  
स ५ शिवलाल २५०  
सुखिया, कुवर कृष्ण हिंदी भाषा की ध्वनिया और उनका  
शिक्षण रा बेनीमाधव. २५०  
सुजन दे शर्मा, सत्यव्रत 'सुजन'.  
सुथार, छोट्भाई धरती और आकाश मस्ता १५० वि.  
हमारा आकाश उमेश. ५००  
सुथार, सी एस. समाज शास्त्र सरदार ५००  
सुदक्षिणा बाल-राम कथा सस्ता. २.०० बप्र  
सुदर्शन, १८६६- अगूठी का मुकदमा वीरा १२५. बप्र  
प्रजना. वीरा एव हिं ग्र र. २५० ना  
आनरेरी मजिस्ट्रेट सरस्व प्रे १.५० प्रहसन  
खटपटलाल वीरा १५० बप्र  
गाधी बाबा वीरा ०८७ बप्र  
चार कहानिया हिं ग्र र ३५०  
भरोखे हिं ग्र र २५०. क  
तीर्थयात्रा. वीरा ४०० क  
दिल के तार वीरा. १२५ गीत  
दीपावली वीरा २५० क.  
धर्मवीर दयानद वीरा १०० वीरा.  
नगीने वीरा ३०० क  
पनघट वीरा. ४.०० क  
परिवर्तन सरस्व प्रे १०० क., — — वीरा. १.२५.  
बप्र.  
पारस राजपाल १०० बप्र.  
पुष्पलता. वीरा २५० क  
प्रेम पुजारिन. अशोक पा १०० उ, — — सहगल. २.२५  
फलवती. वीरा १००. बप्र.  
फलो का गुच्छा राजपाल. ०५०. बप्र  
बच्चो का हितोपदेश हिं ग्र र. १०० बप्र.  
भाग्यचक्र वीरा २.०० ना.  
मीठा पेड—कडवा फल. हिं ग्र र ३००. उ.  
रसभरी कहानिया. ३ भा वीरा १.०० (प्र). बप्र.  
राजकुमार सागर. हिं ग्र र १.५०. बप्र.

सबकी बोली. वीरा भा. १ ०६२, भा २. ०७५, भा ३.  
०६४, भा. ४. ०६४, भा ५. १०६, भा ६ ११६  
सबकी बोली छोटी किताब. वीरा ०.३५  
सात कहानिया. स ७ हिं भवन ०७० बप्र  
सिकदर वीरा १७५ ना  
सुदर्शन की श्रेष्ठ कहानिया वीरा. २५०  
सुदर्शन सुधा वीरा ४.०० क  
गुदर्शन सुमन राजपाल ३५० क  
सुप्रभात वीरा ३००. क  
सोहराब-रुस्तम इ. प्रे १०० बप्र  
—सपा फूलमाला वीरा भा १ १५०, भा २ २००,  
भा ३ २५० बप्र  
सुदर्शनसिंह 'चक्र', १९११- चैतन्य महाप्रभु विश्वेश्वरानंद  
महर्षि दयानंद विश्वेश्वरानंद ०७५ जी [०.५०  
शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा मानस सघ ३००  
श्रीकृष्ण चरित मोतीलाल १०००  
श्री हनुमान चरित मानस सघ ३.२५  
सुदेश शरण बच्चो की समस्याए रूपकमल १५०  
सिकदर महान हिंदिया ०६२. बप्र  
सुधन्वा जन स्वास्थ्य और योगासन सुभाष २२५  
सुधाशु दे लक्ष्मीनारायण सुधाशु  
सुवाशु भूषण. धूप-छाह. कि महल ०.६२. बप्र  
सुधा दे ओम्भा, चंद्रमुखी 'सुधा'.  
सुधाकर आनदामृत शारदा म ०५६  
सुधाकर चकबदी और किसान रामा प्र १.२५  
जीवनामृत शारदा म. १२५  
सुधाकर. दे. तिवारी, नकछेदी  
सुधाकर, आचार्य नृत्य-भारती सगीत ३००  
सुधि दे. पद्मा 'सुधि'  
सुधींद्र. काव्य-श्री (रस-अलंकार) सरस्व. पु स ३००  
रासपचाध्यायी तथा भवरगीत (नददास कृत) विनोद  
२.००  
साहित्य-समीक्षाजलि विनोद. ५०० नि.  
हिंदी कविता मे युगांतर आत्माराम ८००  
सुधीरकुमार. उपनिषदो की कथाए २ भा ओरिएटल. १.२५  
(प्र). बप्र  
सुधीर 'क्षीरज'. वह मा थी ? अशोक पा १००. उ.  
सुन, अलेक्जेंडर. फूल और काटे. लोकप्रिय. २५० उ.  
सुनहरीलाल 'पराग'. अतीत के आलोक मे भा प्र. मदिर.  
२.०० पद्य.  
सुबधु वासवदत्ता सस्ता ०.४०. बप्र  
सुबोध ग्रथमाला स्टुडेंट मॉडल डिक्शनरी सुबोध ग्र अंग्रेजी-  
हिंदी, हिंदी-अंग्रेजी. ७५० (प्र)  
स्टुडेंट मॉडल पॉकेट डिक्शनरी सुबोध ग्र. अंग्रेजी-हिंदी  
३५०, हिंदी-अंग्रेजी ३.५०  
सुब्रह्मण्य, गुर्ती वीसवी सदी की राजनैतिक विचारधाराए.  
हिं सा. सम्मे. २००  
—सपा. हिंदी साहित्य समीक्षा. हिं. सा सम्मे २.५०

सुत्रहाण्य, गुर्ती दे वाजपेयी, भगवतीप्रसाद  
 सुत्रहाण्यम्, चिदंबर हृदयनाद सस्ता ३५० उ  
 सुभद्रादेवी जव हिमालय बोला. नेशनल १२५  
 सुभाषिणी भारत के हस्त-शिल्प आत्माराम २५०  
 सुभाषिणीदेवी सिलाई कटाई शिक्षा कल्याणदास २००  
 सुमन दे अवाप्रसाद 'सुमन'  
 सुमन दे क्षेमचंद्र 'सुमन'  
 सुमन दे रामनाथ 'सुमन'  
 सुमन दे. विमलादेवी सुमन  
 सुमन दे शशि सुमन  
 सुमन दे शिवसिंह 'सुमन'  
 सुमन दे श्यामसुंदर 'सुमन'  
 सुमेरसिंह 'दइया' चबल के किनारे मनोरमा ३०० उ  
 जाग उठा इन्सान हिंदिया ३०० वप्र  
 सुरजीतकौर समाज मनोविज्ञान परि स २ १९६२. लक्ष्मी  
 ना १२५०  
 सुरजीतसिंह दे ड्यूवेट, केवलकृष्ण  
 सुरीरवाला, रोशनलाल खाट पर हजामत हि सा स ४३७  
 सुरेद्रकिशोर छोड़ गए बालम पुष्पी ०७५ उ.  
 सुरेद्रकुमार फ्रैंच क्रांति और नेपोलियन भा १. कि महल  
 ३५०  
 सुरेद्रकुमार अरुण आदमी की कहानी यग मैन ०.७५  
 सुरेद्रदेव शास्त्री काव्य-मीमासा विनोद ०७५  
 सुरेद्रनाथ जीवन का आनंद देहाती ४५०  
 भोजन, क्या, क्यों और कैसे? अवध ४००  
 विटामिन, हीनता-जनित रोग अवध २२५  
 सुरेद्रनाथ शास्त्री विश्व गुणादर्श चपू चौखवा. १०००  
 का  
 सुरेद्रपाल चली हो गगा होरी नीलाभ उ  
 मोर्चे का तमगा नीलाभ ना  
 लोक लाज खोई नीलाभ ५०० उ  
 सिपाही काका नीलाभ उ  
 सुरेद्रपाल सिंह एकाकी सप्तक कि महल २५०  
 बाल-हितोपदेश नया सा प्र १५०  
 शीत भीगा भोर नीलाभ ३५० का  
 सुरेद्रपाल सिंह दे ड्यूई, जान  
 सुरेद्रसिंह अनुभूत पशु-चिकित्सा गगा २५०  
 सुरेश आखो की प्यास पुष्पी ०७५ उ, — सुरेद्र २००  
 आर-पार की सीमा पुष्पी ०६० उ, — सुरेद्र २००,  
 (पा) १००  
 और चिराग बुझ गया पुष्पी ०७५ उ, — सुरेद्र  
 २२५  
 कील-काटे पुष्पी ०६० उ, — सुरेद्र २५०  
 घोसला और भटका पक्षी सुरेद्र २०० उ  
 छलावा सुरेद्र २५० उ  
 तूफान जिदगी और बहार पुष्पी ०.७५ उ.; — सुरेद्र  
 २००  
 दिखावा. सुरेद्र २५० उ

नई जिदगी, नई सुबह पुष्पी ०७५ उ, — सुरेद्र  
 २००  
 नई भोर मुस्काई सुरेद्र ३०० उ  
 वीत गए दिन प्यार के पुष्पी ०६० उ, — सुरेद्र २५०  
 भूख प्यार और बेवसी पुष्पी १२५ उ, — सुरेद्र  
 २५०  
 मोह सुरेद्र २५० उ  
 रोटी रोजी और प्यार पुष्पी ०७५ उ, — सुरेद्र  
 सुरेशकुमार हम इनसे सीखे ! अशोक प्रे भा १०६२,  
 भा २०७५  
 सुरेशचंद्र वेदालकार प्रार्थना मंत्र गोविंदराम १००  
 मन की अपार शक्ति गोविंदराम १२५  
 सुरेशराम पोस्टर-आंदोलन अ भा सर्व ०७५  
 सुरेशराम प्रायश्चित्त अ भा सर्व ०२५ ना  
 विनोबा के पावन प्रसंग सस्ता ०४० वप्र  
 'सर्व भूमि गोपाल की' सस्ता ०४० वप्र  
 सुरेश रामभाई विनोबा और भूदान सस्ता ०४० वप्र  
 सुरेशसिंह, कुवर, १९१०- असली मुर्गा छाप स २ राष्ट्रीय  
 प्र मंदिर २५० हा  
 आओ गिने राष्ट्रीय प्र मंदिर ०७५ वप्र  
 कीडे-मकोडे सस्ता २००  
 चिडियाखाना ग्रथमाला १७५ वप्र  
 जानवरो का जगत सस्ता २००  
 जीव-जगत हि समि १४००  
 जीवो की कहानी ना प्र सभा ४००  
 पक्षियों की दुनिया सस्ता १५०  
 समुद्र के जीवजतु सस्ता १५०  
 सुरेश्वरप्रसाद स्टुअर्ट काल का सर्वैधानिक इतिहास कि  
 महल २५०  
 सुलिवान, वाल्टर, १९१८- अज्ञात महाद्वीप की खोज  
 आत्माराम ६५० अमरा  
 सुलैमान नदवी, सैयद अरब और भारत के सबध अनु राम-  
 चंद्र वर्मा हिंदु, एकेडेमी ८००  
 सुल्तानपुरी दे शकर सुल्तानपुरी  
 सुशील आधिया चौधरी ३७५  
 चिता की राख चौधरी ४००  
 जला डालो चौधरी ३७५  
 लहरे, माभी और किनारा रूपसी १५० उ.  
 सुशील दे रामगोपाल 'सुशील'  
 सुशील, एच एल विमाता पुष्पी ०७५ उ, — विमाता.  
 सुरेद्र २५०  
 सुशीलकुमार त्रिकोणमिति एस चाद ३५०  
 स्थिति विज्ञान एस चाद ३५०  
 हाई स्कूल अकगणित एस चाद २७५  
 सुशीलकुमार लाल आदर्श तकली परिचय पु भ, रा.  
 ०५०  
 सुशील जाना सूर्यग्रास हि प्रचा पु ४०० उ  
 सुशील ज्ञानी, सपा उत्तम गद्य. बबई हि. १२५

सुशीला. देश यो आगे बढेगा. सस्ता ०४० वप्र  
 पढेगे-लिखेगे सस्ता ०४० वप्र  
 रचनात्मक ज्यामिति. रा वेनीप्रसाद. २.००  
 शाक रत्नाकर. देहाती २२५  
 सुशीला करण बाल-मंदिर सर्वोदय सा १०० वप्र.  
 सुशीलाकुमारी, सपा. पद्य-प्रवाह राजकमल २५० का  
 सुशीलादेवी. चित्रकला तथा दस्तकारी. रा वेनीमाधव.  
 ०३७  
 सुशील कास स्टिच वर्क. देहाती ३००  
 —तथा विमलादेवी प्रसाद के उपन्यास तथा कहानिया. नद.  
 व. एव नद स ३००  
 सुशीलादेवी. दे आद्र जीद  
 सुषमारानी बालकथा. एस चाद १२५. वप्र  
 सुषमा कशीदाकारी देहाती १२५  
 सुहृद दे कपिलदेव सिंह 'सुहृद'  
 सुहैल अजीमावादी रेत के फूल ग्रथमाला १०० वप्र.  
 सूथार, छोटूभाई आकाश दर्शन सस्ता २.०० वि  
 सूद तथा मेहता राज्य-विज्ञान के मूल सिद्धांत २ भा लक्ष्मी  
 ना ६५० (प्र)  
 सूद, शिवदत्त रणभेरी ब्रज उठी गिरिधर १.५० का.  
 सूवेदार दे ईश्वरीप्रसाद  
 सूर तथा दुवे. भारतीय शिक्षा का इतिहास कि महल ८.५०  
 सूरज धरती माता कि महल. २००  
 रूप किरण मिश्रा पु भ ४००. उ  
 सूरजभान. शिक्षा मे नये प्रयोग. राजपाल ४००  
 सूरदास नल-दमन. सपा वासुदेवशरण अग्रवाल तथा दीलत-  
 राम जुयाल क मु हिं. ७००  
 सक्षिप्त सूरसागर देहाती ०७५  
 सूरदास के भजन देहाती ०.५०  
 सूर-पदावली. प्रभात प्र २५० का  
 सूर रामायण भारतजीवन ०५०. का.  
 सूर शतक नद ब्र एव नद स ०.५० का  
 सूरसागर. प्रभात प्र ५.०० का  
 सूरमचद आयुर्वेद का इतिहास भा १ आत्मराम एव भा  
 प्राच्य ८००  
 सूरि, अमितगति. पचसग्रह सपा दरबारीलाल. भा ज्ञानपीठ  
 ०.८१  
 सूरि, जिनसेन हरिवंशपुराण. सपा दरबारीलाल. भा. ज्ञान-  
 पीठ. भा. १ २००, भा २ १५०  
 सूरि, वादिराज दे भट्ट, अकलक  
 सूरि, वादीभसिंह. स्याद्वादसिद्धि सपा. दरबारीलाल भा ज्ञान-  
 पीठ १५०  
 सूरिदेव, रजन (राजकुमार पाठक रजन), १९२६- अन-  
 मोल माला. कला-नि. १५० वप्र.  
 आटे का मुर्गा कला-नि. १०० वप्र  
 आसानी घोडा कला-नि १७५ वप्र  
 उल्लू की दोस्ती. नागरी प्र वप्र.  
 कहानी मे कहानी नागरी प्र वप्र

काठ की तलवार कला-नि १.५०. वप्र  
 गीत-सगम पारिजात. ३०० का  
 चार पापी. कला-नि. १.५०. वप्र.  
 चित्रकार की बेटी कला-नि १.५०. वप्र  
 पेटारी की रानी. कला-नि. १.५० वप्र  
 बैताल का बदला कला-नि. १.५० वप्र  
 बैल की जोड़ी. नागरी प्र वप्र.  
 मेघदूत . एक अनुचितन. कला-नि १००  
 शहद का लोभी नागरी प्र वप्र  
 —तथा मुक्तिनाथ मिश्र पद्य-सग्रह. कला-नि २५० का.  
 सूरेश्वर, विजयवल्लभ नवयुग निर्माता श्री आत्मानंद.  
 ६००  
 सूरेश्वर, विजयानंद नव तत्व सग्रह तथा उपदेश वावनी  
 श्री आत्मानंद ४००  
 सूर्य दे गुप्त, मुन्नूलाल 'सूर्य'  
 सूर्यकांत आठ एकाकी नाटक एस चाद. २.००  
 गल्प पारिजात श्री भा भारती. ३००. क  
 टकसाली हिंदी एस चाद ४५०  
 वैदिक धर्म एव दर्शन भा १ मोतीलाल २५००  
 सात महामानव श्री भा. भारती ३०० जी  
 हिंदी काव्य-कलाप श्री भा भारती. २.५०  
 हिंदी के सपूत एस. चाद ३७५. का  
 —सपा. सुमन सचय हिं भवन २७५ क  
 सूर्यकांत शास्त्री वैदिक देवशास्त्र श्री भा भारती ३०.००  
 सूर्यदेव सिंह, ठाकुर. महाराणा हम्मीर सिंह हि प्रचा. पु.  
 १५० जी  
 सूर्यनारायण दे जोला, एमिल.  
 सूर्यनारायण सिंह समाज कल्याण. पु भ १.२५  
 सूर्यप्रसाद सिंह निबंध निचय राष्ट्रीय प्र मडल ३००  
 सूर्यवली सिंह. आधुनिक मराठी साहित्य नद स ३.००  
 कांग्रेस का इतिहास. काशी पु ३५०  
 जीवन ज्योति नद ब्र. एव नद स १५०  
 ब्रह्मचर्य की महिमा काशी पु २००  
 राजनीति परिचय नद. ब्र एव नद. स २५०  
 रामधुन वापू की प्रार्थना. काशी पु १००  
 विद्यापति. नद स ३.५०  
 हिंदी कविता. नद ब्र. एव नद. स. ३५०  
 —तथा सरोज ओडेकर आधुनिक मराठी साहित्य नद. व  
 ३.००  
 सूर्यभान नाट्यभानु ओरिएटल २.७५ ना.  
 सूर्यमल्ल मिश्रण वीर सतसई. भा. भ ५०० का  
 सूर्य भानु रसवती स ३ बसल १७५ का  
 सूर्य्या कमलानी अपराधो की छाया मे. कि. महल १.००.  
 उ  
 आस्तीन का साप. कि महल १००. उ.  
 कठपुतली का रहस्य कि महल १०० उ.  
 खून का प्यासा. कि. महल १००. उ  
 खूनी कौन. कि. महल. १.००. उ.



खूनी चक्कर कि महल १.०० उ.  
 जाली बसीयत कि महल १.०० उ  
 नागिन कि महल १.०० उ  
 पीतावर का खून कि महल १.०० उ  
 प्रेम का चक्कर कि महल १.०० उ  
 वैक मे डाका कि महल १.०० उ  
 मौत के मुह मे कि महल १.०० उ  
 वासना का जहर कि महल १.०० उ  
 हीरे की चोरी कि महल १.०० उ  
 सृजन ? धरती का चाद. अग्रवाल प्रि ०.७५ उ  
 मुक्ति मंत्र अग्रवाल प्रि ०.७५ उ  
 सेगर, मोहनसिंह, १९१२- खगेन बाबू भा पु म २५०  
 उ  
 जीवन का सत्य कि महल २.७५ (अप्रा) क  
 डूबता सूरज कि महल ३.०० क  
 नया स्वर प्रचा पा १.०० क  
 नरक का न्याय आत्मराम २.०० क  
 सेगर, राजेन्द्रदेव सारधा (वीर काव्य) विनोद ५.००  
 सरल प्रयोगात्मक रसायन गयाप्रसाद २.००  
 सेट्टिया, कन्हैयालाल दीप किरण आदर्श सा १.५० का  
 मेरा युग आदर्श सा २.२५ का  
 सेठ, अचलविहारी परिचर्या प्रणाली ना प्र सभा १.००  
 सेठ, एम एल आधुनिक अर्थशास्त्र रामचद्र ७.५०  
 सेठ, एम एल दे ड्यूवेट, केवलकृष्ण  
 सेठ, जगद्विहारी दे सोमरफील्ड, आर्नाल्ड.  
 सेठ, जवाहरनाल 'पागल' एकागीपुर का दगोगा सुरेद्र. २.५०  
 उ  
 तिकडम सुरेद्र २.२५ उ  
 दो चित्ताए आनद पु, वा ३.०० उ  
 मुझे जला डालो आनद पु, वा ३.७५ उ  
 सेठ, प्यारेलाल आरोग्य-ज्ञान-प्रदीपिका मिश्र-बधु २.५०  
 सेठ, प्राणनाथ हमारा भारत स ३ वसल १.२५ वप्र  
 सेठ, प्राणनाथ दे खुशवतसिंह  
 सेठ, वी के डी व्यापार प्रणाली एव सगठन कि घर, का  
 भा १.३५०, भा २.२.७५  
 सेठ, विमला, सपा काव्य सुषमा एस चाद १.००  
 सेठ, वीणा नई पडोसन तथा अन्य कहानिया पारिजात ३.००  
 सेठ गोविन्ददास दे गोविन्ददास, सेठ  
 सेठना, के डी श्रीअरविंद का महाप्रयाण श्रीअरविंद १.००  
 सेठी तथा महाजन ब्रिटिशकालीन भारत का इतिहास एस  
 चाद १०.००  
 मुगलकालीन भारत का इतिहास एस चाद ६.००  
 सेठी, आर आर तथा आर सी अग्रवाल भारतवर्ष का नवीन  
 इतिहास मानकचद ६.५०  
 —तथा चावला यूरोप का इतिहास सुरजीत १२.००  
 —तथा अन्य नागरिक शास्त्र के सिद्धात एस चाद  
 ४.५०  
 भारतीय सविधान तथा नागरिक जीवन. एस चाद. ५.५०

भारतीय सविधान तथा प्रशासन एस चाद ४.००  
 सेठी, एम. के दे चौहान, शिवध्यान सिंह  
 सेठी, निहालकरण चुक्कत्व और विद्युत हिंदु एकेडेमी  
 १६.००  
 ताराभौतिकी या तारो की दुनिया हि समि ८.००  
 ध्वनि अथवा शब्द-विज्ञान आगरा बुक ७.००  
 प्रकाश विज्ञान एस चाद १.०००  
 प्रारभिक भौतिकी काशी हिंदू ८.००  
 सेठी, निहालकरण दे ब्रोगली, लूई दे  
 सेठी, निहालकरण दे. शोपली, हार्लो  
 सेठी, विनोदकरण साख्यिकी के सिद्धात और उपयोग हि  
 समि ६.००  
 सेन नागरिक शास्त्र ओरिएट ४.००  
 प्रारभिक अर्थशास्त्र बुकलेड ६.२५  
 —तथा दास अर्थशास्त्र परिचय बुकलेड ११.००  
 सेन, अरुणकुमार दे भातखडे, विष्णुनारायण  
 सेन, क्षितिमोहन भारतवर्ष मे जाति-भेद सा भवन, इ २.००  
 सस्कृति-सगम सा भवन, इ ३.००  
 सेन, गोपालनारायण किशोरावस्था गगा २.००  
 सेन, चडीचरण अवध की नवावी छात्रहितकारी २.५० उ  
 महाराज नदकुमार को फासी आदर्श हि ४.५० उ  
 सेन, जिन आदि पुराण अनु पन्नालाल जैन भा ज्ञानपीठ  
 १.०००  
 सेन, दिनेशचद्र वैदिक भारत ग्रथमाला १.००  
 सेन, देवीदयाल मानव की परख आत्मराम ३.०० उ  
 सेन, नरेद्र प्रमाणप्रमेयकलिका सपा दरवारीलाल कोठिया  
 भा ज्ञानपीठ १.५०  
 सेन, नरेशचद्र दर्द न जाने कोय पुष्पी ०.७५ उ  
 सेन, साधना स्त्री शिक्षा देहाती २.५०  
 सेन, सुकुमार वगला साहित्य की कला अनु भोलानाथ शर्मा  
 हि सा सम्मे १.५०  
 रविद्रनाथ और लोक साहित्य हि ग्र २.०.७५  
 —तथा अन्य, सपा भारतीय वाङ्मय भा ३ राष्ट्र प्रचा  
 समि २.००  
 सेनगुप्त, एस सी, सपा प्रत्यक्ष शारीर कोश हि सा सम्मे  
 ८.००  
 भूतत्व विज्ञान कोश हि सा सम्मे २.५०  
 —तथा एस सी कपूर, सपा चिकित्सा-विज्ञान कोश हि  
 सा सम्मे ७.५०  
 सेनगुप्त, नरेशचद्र दर्द न जाने कोय सुरेद्र २.०० उ  
 सेनगुप्त, सुबोधचद्र शरत्-प्रतिभा दे चट्टोपाध्याय, शरत्चद्र  
 शरत्-साहित्य भा ३७-३८  
 सेनापति कवित्त सरसी छात्रहितकारी १.००  
 सेनापति फकीर मोहन छ बीधा जमीन अनु युगजीत नवल-  
 पुरी सा अकादमी ३.०० उ  
 सेनी खेती और खादी ओरिएट १.००  
 सेवैस्वियन, मिहेल छपते-छपते अनु विनोद रस्तोगी आत्मा-  
 राम. ३.००. ना.

सेमट, हेनरी तथा हार्वी ह्वाइट परमाणु युगीन भौतिकी  
 आत्माराम. ५००  
 सेमिओ, अलेनी प्यारे वापू ३ भा. अ भा सर्व ०५० (प्र)  
 वप्र.  
 सेम्योनोव, व सोवियत सघ १९६५ मे. पीपुल्स ०२५  
 सेवक दे निरकारदेव 'सेवक'  
 सेवक. दे भारतभूषण 'सेवक'  
 सेवक. दे. वनवारीलाल सेवक  
 सेवक दे शर्मा, वनारसीदत्त 'सेवक'.  
 सेवक दे सहाय, श्यामनदन 'सेवक'.  
 सेवक दे. साहनी, भारतभूषण 'सेवक'.  
 सेवक दे हुक्कू. सपूर्णनाथ 'सेवक'  
 सेवकराम 'वाल सेवक'. आदर्श वालक भा सा प्र ०५० वप्र  
 सेहीवाल, दाऊलाल. दे गहलोत, सुखवीरसिंह  
 सैड, जार्ज. जादूगरनी नेशनल. ४०० उ  
 सैड, जार्ज मायनी मानसरोवर सा. ४.००  
 सैंगल, राजकुमार कागज के हुनर श्री प्रभाकर १५०  
 सैयदैन, के. जी शिक्षा की पुनर्रचना राजदमन ७.००  
 शिक्षा-शास्त्र. राजकमल ६००, ९००  
 सैयदैन, सईदा आओ दोस्त बनाए. राजकमल ०.७५. वप्र  
 सैलिसवरी प्राकृतिक भूगोल अनु वी डी सिंह लक्ष्मी ना  
 सोधी, के के कारपेट्री मैनुअल. देहाती ४.५०  
 सोती, महेशचंद्र भूखा अकुर ग्रोरिएटल २.०० क.  
 सोत्निक, यू तूफानी टोली पीपुल्स. १.१२. वप्र.  
 सोनकर, राजनाथ भूले राही सुभाष ३७५  
 सोनकर, राजनाथप्रसाद आसू और जिंदगी कन्हैयालाल.  
 ३.५०. उ  
 नये रास्ते. कन्हैयालाल ३०० उ  
 सोनवलकर, दिनकर अकुर की कृतज्ञता लोक चेतना. ३.००  
 का  
 सोनी, दयालचंद्र बुनियादी शिक्षा क्या और कैसे ? अ भा  
 सर्व १.२५  
 सोनी, पन्नालाल दे जिनेद्राचार्य  
 सोनी, पन्नालाल दे देवसेनसूरि  
 सोनी, पी एल कार्वनिक रसायनशास्त्र एस चाद. ५.७५  
 सचित्र रसायन. एम चाद ३००  
 सोनी, रमणलाल मीनाक्षी ववई प्र १.५० उ  
 सोफोवलीज ईडीपस पाप, प्रेम और मृत्यु अनु रागेय  
 राघव आत्माराम ३०० ना  
 ऐन्टीगोने अनु रागेय राघव आत्माराम १२५ ना  
 सोवती, कृष्णा उर से निछुडी राजकमल. (पा) १००. उ.  
 सोम, यामिनीदात वच्चो के रवीद्रनाथ इ प्रे २२५ वप्र.  
 वाल रवीद्रनाथ इ प्रे १००  
 सोमण वाल महाभारत पु भ १०० वप्र  
 सोमतीप्रसाद त्रिदी के गद्य निर्माता सा सदन, दे २००  
 सोमदेव यगस्तिनक सन्ता ०४० वप्र  
 सोमदेवभट्ट. कथानरिस्तागर अनु केदानाथ जर्मा सारन्वत.  
 वि गण्ट भा. १ १०००, भा २ १०५०

सोमनाथ अधखिला फूल. पजाबी पु. २०० उ.  
 देखी अनदेखी गयाप्रसाद ०.६५  
 मैं बुरी नहीं हू पजाबी पु २.००. उ  
 सोमनाथ 'अकेला'. अधियारी रात कन्हैयालाल. ३०० उ.  
 अरमान कन्हैयालाल. ४०० उ  
 काहे नैना लडाये कन्हैयालाल २२५ उ.  
 घुटी मुस्कान राजधानी ३५०  
 चादनी. चौधरी २५०  
 जख्मी. कन्हैयालाल ३००. उ  
 जवानी कन्हैयालाल २७५. उ  
 डगमगाती जिंदगी. सुभाष २७५. उ  
 पछी कन्हैयालाल. ३७५. उ.  
 पतन कल्याणदास ३०० उ  
 पाप के रास्ते. पुष्पी १०० उ.  
 पिंजरे का पछी सुभाष २७५ उ.  
 बधन. चौधरी. ३००  
 बदचलन. कन्हैयालाल २५० उ.  
 बदनाम कन्हैयालाल. ४०० उ  
 बागी कन्हैयालाल. २.५०. उ.  
 बिछुडे साजन. कन्हैयालाल २००. उ.  
 वेदर्दी कन्हैयालाल २७५ उ  
 भद्दे लोग कन्हैयालाल २७५. उ  
 मीठा जहर. कन्हैयालाल २.२५. उ.  
 मुजरिम. कन्हैयालाल. ४५०. उ.  
 मुझे सहारा दो सुभाष ३०० उ.  
 वह भाग गई. शमा ३००. उ.  
 शमा बुझ गई. कन्हैयालाल. २.५०. उ  
 शिकस्त. पुष्पी २०० उ  
 सनम. कन्हैयालाल. २७५ उ  
 साकी. कन्हैयालाल. २७५. उ.  
 साहिल की ओर भा. ग्रथमाला ३.२५. उ.  
 त्विस्की की वोतल कन्हैयालाल ३०० उ.  
 सोमरफील्ड, आर्नाल्ड यात्रिकी अनु. जगद्विहारी सेठ हिं.  
 समि ११००  
 सोमरस मट्ठा (छाछ) के गुण तथा उपयोग देहाती ०७५  
 सोमसुंदरम्, पूर्ण कावेरी. सस्ता. ०४०. वप्र  
 तमिल और उसका साहित्य राजकमल. २.२५  
 तिरुवल्लुवर सस्ता. ०.४० वप्र.  
 रामेश्वरम् सस्ता ०.४० वप्र  
 सोमेश्वर सिंह शाहजादा खुसरो इ प्रे २२५ का  
 सरोज. इ प्रे २०० का  
 सोराया, विलियम. वापसी राजकमल ३००, (पा) १००  
 उ  
 सोरेनसन, एस महाभारत की नामानुक्रमिका मोतीलाल  
 ७३-२०  
 सोरोकिन, पी. ए. मानवता की नव-रचना अ भा सर्व. २५०  
 समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत. अनु. आर वी. एस.  
 तोमर. गयाप्रसाद.

सोलकी, अमरसिंह बुनियादी शिक्षा में अनुबोध की कला  
नवजीवन २५०

सोलकी, एम एल आर्थिक एवं वाणिज्य भूगोल लक्ष्मी ना.  
६५०

भौतिक भूगोल की सरल रूपरेखा लक्ष्मी ना २५०

माध्यमिक आर्थिक एवं व्यापारिक भूगोल लक्ष्मी ना ६५०

विश्व एवं भारत का भूगोल लक्ष्मी ना २७५

सोलकी, कोमलसिंह नीले पीले गुब्बारे सा सगम, ग्वा  
४.५० उ

विकृत रेखाएं कि घर, ग्वा ४०० उ

सतह के नीचे हिं प्रचा पु ३०० उ

सोलकी, प्रेमसिंह माध्यमिक व्याकरण विचार. कल्याणमल.  
भा २०६०, भा ३०७५

सोलकी, सूरज जूनी वाता. नवयुग ग्र कु ०७५

सोलोवयेव, लियोनिद दास्तान-ए नसरुद्दीन पीपुल्स ५००  
उ

सोल्यानिक, अ अतार्कतिक में ह्वेलमार अभियान पीपुल्स.  
०३७

सोहनलाल अतीत स्मृतिया ओरिएटल १३७

सोहनलाल, मुनिश्री कविता रो कठो आदर्श सा २२५ का  
त्रिवेणी आदर्श सा २०० का

देव-गुरु स्तोत्रम् जैन श्वेतावर ०१६

सोहनसिंह गुरु नानक सस्ता ०४० वप्र  
हमारा सविधान सस्ता ०४० वप्र

सोहल, ज्योति काले पख कन्हैयालाल. ३०० उ

सौदा जीवनी और सकलन राजपाल १५०

सौनरिक्सा, कातिचद्र अनातोले फ्रास की चुनी हुई कहानिया  
इ प्रे. १००

चौराहा नद व एव नद स १५०

सौनरेक्शा, चद्रकिरण चदन चादनी मित्र ४०० उ

सौरभ दे शुक्देव सिंह 'सौरभ'.

सौली, गुरचरण सिंह मुकद्दमो से बचो सा सगम, लु ०६२  
वप्र.

हमारा नेहरू सा सगम, लु ०६२ वप्र

हमारा पटेल सा सगम, लु ०६२ वप्र

स्कदकुमार भारतीय संस्कृति का इतिहास मोतीलाल ३००

स्काट, वाल्टर आइवन्हो सा प्र १५० वप्र

केनिलवर्थ सा. प्र १५० वप्र

टेलिस्मेन सा प्र १५० वप्र

स्काॅफ, एल्विन एच गोल सीढी एस चाद ४५० उ

फिलिपियन का विजय युद्ध. एस चाद ४००

राजा चल वसा, राजा चिरजीवी हो एस चाद ४५० उ

रोम से उत्तर में एस चाद ४०० उ

स्टर्नबाक्, एल गणिका-वृत्त-सग्रह विष्णेश्वरानंद २०००

स्टीवेन्सन डा जैकिल और मि हाइड अपर २०० उ

स्टीनवर्ग, एलफ्रेड एडमिरल वर्ड का दक्षिणी ध्रुव अभियान  
एस चाद १०० वप्र

एलीनोर रूजवेल्ट एस चाद १००. वप्र.

डैनियल वेन्स्टर एस. चाद. १०० वप्र

स्टीवेन्स, डब्लू ओ प्रसिद्ध वैज्ञानिक इ प्रे ३५० जी

स्टीवेन्सन इसान या शैतान हिंद पा १०० उ

स्टीवेन्सन, आर एल गुलाब के दो फूल राजपाल ५००  
उ.

स्टेनवेक, जान, १६०२- ऊँचे पर्वत हिंद पा १०० उ

एक मछुवा एक मोती अनु राजेद्र यादव हिंद पा १००

स्टेफर्ड, मेरी पियरी उत्तरी ध्रुव-विजेता आत्माराम. ४००  
भ्रमण

स्टैकपोल नीली भील इ प्रे २०० वप्र

स्टो, वीचर टाम-काका की कुटिया श्री प्रभाकर सक्षिप्त.  
१५०

स्टोकर, ब्रैन, १८४७-१९१२. पिशाच की प्यास. अनु.  
परमानंद गौड मित्र. ५०० उ

स्टोन, इरविंग अमर प्रेम राजपाल ४०० उ

लालसा सा सदन, दे ६०० उ

स्टोप्स, मेरी परिवार नियोजन राजकमल (पा) १.००

विवाह और प्रेम राजकमल (पा) १००

सतति नियमन राजकमल २००

स्थायी प्रेम राजकमल ३०० काम

स्ट्रॉङ्ग, सी एफ. आधुनिक राजनीतिक सविधान गयाप्रसाद  
१२५०

स्ताधाल सुख और स्याह रणजीत १००० उ.

स्तोपानोव, ई कार्ल मार्क्स पीपुल्स १५० जी.

स्नातक दे विजयेद्र स्नातक

स्नेहलता चतुराई की कहानिया सस्ता ०४० वप्र

वगाल का वीरवल सस्ता ०४०. वप्र

श्रीलका राजकमल २००

—सपा जयशकर प्रसाद विचार एवं सूक्तिया. विद्या प्र म.  
२००

स्नेही श्रेष्ठ कवयित्रियों की प्रतिनिधि रचनाएं अशोक पा  
१००, — —सहगल २५०

—तथा सक्सेना हिंदी के लोकप्रिय प्रणय गीत सहगल  
३००

स्पिनोजा, बैरुक स्पिनोजा नीति अनु दीवानचद हिं समि  
६५०

स्माइल्स, सैमुअल चरित्र-निर्माण कैसे करे? सुबोध प्र ३००

स्मिथ, गोल्ड अनोखी तृप्ति प्रभात पब्लि ४२५ उ

स्यामुस्किन, तीखोन पहाडियों की शरण में. पीपुल्स ३००  
उ

स्याल, बलवर्तसिंह आदर्श शरीर तथा स्वास्थ्य विज्ञान रा  
वेनीमाधव ०७५

स्याल, सुखदेव इलाचद्र जोगी और उनके उपन्यास सा सगम,  
लु ५००

स्वदेशकुमार चीटो का बदला आत्माराम १२५ वप्र

स्वदेशकुमारी हिंदी-साहित्य का सक्षिप्त इतिहास सूर्य प्र.  
११०

हिंदी-साहित्य-परिचय सूर्य प्र १२५

स्वदेशी, आचार्य राबिन्सन क्रूसो अ. भा नव-लेखक. ०.४०  
 वप्र  
 —तथा कपिला पटेल अरब की कहानिया आ. भा नव-  
 लेखक ०.५०  
 स्वप्नकुमार चैतन्य महाप्रभु नेशनल. ०.७५ वप्र  
 स्वयम्भू, कवि पउमचरिउ सपा देवेद्रकुमार जैन. ३ भा. भा  
 ज्ञानपीठ १००  
 स्वर्ण. चाचा चाग-चाग गगा ०.७५. वप्र.  
 टर्न-टर्न मामा. गगा ०.७५ वप्र.  
 स्वर्णकाता प्रभाकर दे शरत्चंद्र  
 स्वर्णमयीदेवी अधखिली कली. हि प्रचा पु ३५० उ  
 स्वर्णलता तथा नाहर. बालक के प्रति निर्दयता कि. महल.  
 २५०  
 स्वर्ण सहोदर. हमीरराव कि महल. १.५० का.  
 स्वामी. दे. दयानदनारायण 'स्वामी'.  
 स्वामी दे भूषण 'स्वामी'.  
 स्वामी, पी. डी रत्न विज्ञान कि महल  
 स्विफ्ट, जोनाथन गुलीवर की यात्राए. इ प्रे. २२५ वप्र

## ह

हडू, जियालाल तथा रघुनाथ सफाया भाषा और साहित्य का  
 विवेचन एस. चाद ३००  
 हस. दे कृष्णलाल 'हस'  
 हस दे शरसोदे, कृष्णलाल 'हस'  
 हसराज दर्शक अमरनाथ दर्शन दि. पु स १५०  
 बर्फ का ससार दि. पु स ३००  
 हसराज 'रहवर' आके-वाके पीपुल्स ४२५ उ  
 उन्माद हिद पा १०० उ  
 ककर नवयुग प्र ६००. उ  
 चीन की लोक-कथाए आत्माराम १२५  
 जापान की लोक-कथाए भा. १ आत्माराम. १.५०  
 जीवन-मत्र साहनी. १०० वप्र  
 परेड-ग्राउड आत्माराम १५० उ  
 प्रेमचंद—जीवन, कला और कृतित्व आत्माराम ८००  
 योरोप की लोक कथाए नवयुग प्र १०० वप्र  
 रूस की लोक-कथाए आत्माराम ११५  
 सकल्प हिद पा १०० उ  
 हम लोग नवयुग प्र. ३७५ क  
 —तथा पछी हमारी लोक-कथाए २ भा आत्माराम २५०  
 (प्र)  
 —सपा उर्दू की इश्किया गायरी रामप्रसाद २००  
 उर्दू की मजाहिया गायरी रामप्रसाद २००  
 उर्दू के हिदू शायर और उनके कलाम ३ भा रामप्रसाद  
 २०० (प्र)  
 मुस्लिम कवियत्रिया और उनकी शायरी. रामप्रसाद २००  
 रौचक कहानिया साहनी ३.००

हसराज 'रहवर'. दे. कॉनेट, जैम्स वी  
 हसराज 'रहवर'. दे. शप्पैन, कैथराइन वी.  
 हक्सले, अल्डुअस पशु और मानव रणजीत. ३५०. उ.  
 हचिन्सन विद्युत् विज्ञान एस चाद  
 हजारीप्रसाद, आचार्य कल्पलता ज्ञानमडल. २.५०  
 हजारी सिंह. आदर्श भूगोल हि प्रचा पु. १.५०  
 भूगोल भूमिका हि प्रचा पु ३८७  
 हजारी सिंह दे गर्ग, डी सी  
 हजुरा सिंह, खालसा. नवीन रचनात्मक ज्यामिति स २  
 १९६२ लक्ष्मी ना २.५०  
 हजेला, उर्मिला. आर्थिक विचारो का इतिहास सरस्व स.  
 ६००  
 हजेला, तिलकनारायण राजकीय अर्थशास्त्र स १९६२  
 सरस्व. स १३५०  
 राजस्व १९६३ सशो स. सरस्व स ६५०  
 हजेला, तिलकनारायण दे भटनागर, कालकाप्रसाद  
 हजेला, पी. डी. दे परमार, एम एल  
 हठी राधा सुधा शतक भारतजीवन ०३१ का  
 हमीर हठ. भारतजीवन ०.७५ का.  
 हनुमच्छास्त्री 'अयाचित' तेलुगु और उसका साहित्य.  
 राजकमल. २२५  
 हनुमानप्रसाद. दृष्टात सागर ५ भा देहाती १०.५०  
 हवीव अहमद खा दे धर्मभानु  
 हवीव तनवीर गधे आत्माराम. १५० वप्र  
 परपरा मक्तवा ०६२. ना.  
 हफीज जालधरी जीवनी और सकलन. राजपाल १५०  
 हमीद वारिश आ गई बेला १५० उ.  
 हमीद, ए जहा बर्फ गिरती है. ववई प्र ३५० उ.  
 हरगोविंद शास्त्री, व्या अभिधान चिंतामणी चौखवा २०.००  
 हरदयाल आत्म-निर्माण एस चाद ४००  
 सारुक्तावली देहाती १२५  
 हरदयाल सिंह, १९२६- तिनके और लहरे सन्मार्ग ५००.  
 उ  
 सामाजिक कारा के वदी सन्मार्ग ४.०० उ  
 हरदयाल सिंह अयोध्याकाड लक्ष्मी ना १७५  
 देव-दर्शन इ. प्रे २००  
 द्विजदेव और उनका काव्य गगा २५०  
 निवध निरूपण. रा बेनीप्रसाद २००  
 पूर्ण पराग इ प्रे २०० का  
 विहारी-विभव इ प्रे २०० का  
 भास ग्रथावलि गयाप्रसाद २०० ना  
 भूषण-भारती इ प्रे २२५ का.  
 मतिराम-मकरद इ प्रे १२५ का  
 हरदयाल सिंह दे भास  
 हरनदन प्रसाद अमर भारत ग्रथमाला १५०  
 हरनामदास विवाहित ग्रानद स्टार (पा) १००  
 हरनामदास 'सहराई' राजगुरु. लहरी. ४०० उ.  
 सफेद पोश, कल्याणदास ३५०. उ.

हरनामदेव शास्त्री आदर्श हिंदी व्याकरण साहनी १००

हिंदी पथ-प्रदर्शक साहनी १२५

हरनामदेव शास्त्री दे अर्जुनदेव शास्त्री

हरनारायण मिह छायावाद काव्य तथा दर्शन ग्रथम १५००

हरवस वख्श रात रोती है शमा ३०० उ

हरभजन सिंह गुरुमुखी लिपि में उपलब्ध हिंदी-काव्य का

विवेचनात्मक अध्ययन एस चाद

—तथा सत्यपाल चुघ सात कहानिया एस चाद १७५

हरमदर सिंह दे गुप्ता, अमृतलाल

हरि दे गुप्त, हरिकृष्णदास 'हरि'

हरि दे हरिप्रसाद 'हरि'

हरिऔध दे उपाध्याय, अयोध्यासिंह 'हरिऔध'

हरिकृष्ण डेढ अरब हिंदिया १७५ ना

भारतवर्ष में विवाह एव परिवार मोतीलाल १०००

हरिकृष्ण जौहर अनजाने देश में चौधरी ३५०

रे इन्सान इन्सान बन ! चौधरी ३५०

हरिकृष्ण 'प्रेमी', १९०८- अनत के पथ पर लोक चेतना १५०

अमर आन हिं भवन १५० ना

आखी में आत्माराम २५० का

आन का मान कौशाबी २०० ना

आहुति स. १४ हिं भवन १००. ना

उद्धार आत्माराम २०० ना

कीर्ति स्तभ राजपाल ३०० ना

छाया आत्माराम १२५ ना

पजाब की प्रीत-कहानिया आत्माराम ३५०

प्रकाश स्तभ हिं भवन १५० ना

प्रतिशोध स ३ हिं भवन १७५ ना

वधन स ५ हिं भवन १२५ ना

बादलो के पार आत्माराम ३५० ए

भग्न प्राचीर मानकचद २५० ना

ममता राजपाल २५० ना

माखनलाल चतुर्वेदी राजपाल २०० जी

रक्तदान राजपाल ३५० ना

रक्षावधन स २९ हिं भवन १२५ ना

रूप-दर्शन आत्माराम ६०० का

रूप-रेखा आत्माराम ५०० का

वदना के बोल आत्माराम २५० का

विदा स ४ हिं भवन १७५ ना

विषपान आत्माराम २०० ना

शतरज के लिखाडी आत्माराम २०० ना

शपथ आत्माराम २५० ना

शिवासाधना स ६ हिं भवन २०० ना

शीशदान वसल ३५० ना

सरक्षक एस चाद २५० ना

सवत् प्रवर्तन मानकचद २५० ना

सापो की सृष्टि स २ वसल २५० ना

स्वप्न-भग. आत्माराम २००. ना

हम आजाद हुए स २ वसल १२५ वप्र.

हरिचंद्र, कवि जीवधरचपू सपा पन्नालाल साहित्याचार्य  
भा ज्ञानपीठ ८००

हरिदत्त वेदालकार, १९१४- अंतर्राष्ट्रीय कानून सरस्व स  
१२५०

अंतर्राष्ट्रीय सवध (१९१९-१९६२) सरस्व म १०.२५

पाश्चात्य राजनैतिक चिंतन का इतिहास सरस्व स १०००

भारत का सांस्कृतिक इतिहास आत्माराम ८००, प्रश्नोत्तर  
२००

भारत की सांस्कृतिक दिग्विजय आत्माराम १००

भारतीय संस्कृति का संक्षिप्त इतिहास आत्माराम २३०

हिंदू परिवार मीमासा भा भ १०००, — —स. १९६३  
सरस्व स १२५०

हरिदत्त शास्त्री अनुवाद दीपिका गयाप्रसाद १२५

अश्वघोष और उनका काव्य सा नि, का ४.७५

दशकुमार चरित गयाप्रसाद १५० जी

भारतीय साहित्य और संस्कृति मुशीराम ६००

महाकवि अश्वघोष और उनका काव्य सा नि, का ५००

मूल रामायण सटीक सा रत्न भ ० ३७

लोकोक्ति रत्नमाला गयाप्रसाद ० ७५

सुकवि समालोचना श्री भा भारती २५०

—तथा बुद्धिनाथ शर्मा 'शास्त्री' रचना रत्नाकर रा

वेनीप्रसाद १७५

—टीका कथा पंचदशी— क्षमा रावकृत सा नि, का १००

हरिदत्त शास्त्री दे नरेन्द्रदेव सिंह शास्त्री

हरिदास 'सहयोगी' खाद नद ब्र. एव नद स २००

ग्रामीण उद्योग धंधे नद ब्र २५०

ग्रामोदय नद ब्र एव नद स ३२५

ग्राम्य सहकार समितिया (कार्य-पद्धति और लेखा) नद

ब्र ३५०

पशु पालन और चिकित्सा नद ब्र एव नद स २२५

प्रौढ शिक्षण विधि नद ब्र २००

राष्ट्र पिता बापू नद ब्र एव नद स ० ६२ वप्र

राष्ट्र रत्न नेहरू नद ब्र एव नद स १०० वप्र

वाटिका विज्ञान नद ब्र एव नद स २२५

शाक और तरकारियों की खेती नद ब्र एव नद स १७५

सत विनोबा भावे नद ब्र ० ७५ वप्र

सहकारिता सर्वोदय सा २२५

सहकारिता आंदोलन और समाजवादी समाज रचना

नद ब्र एव नद स ३२५

सहकारिता और पंचायती राज अ भा सर्व १००

स्वास्थ्य स्वच्छता और स्वास्थ्य विज्ञान नद ब्र २००

हरिदेव मयराजपराजयचरिउ सपा हीरालाल जैन भा

ज्ञानपीठ ८००

हरिनारायण, पुरोहित धर्म-वलि स ३ नेचर ० ५०

हरिनारायण 'विद्रोही' चरवाहा तुलसी २०० का

हरिनारायण सिंह सुधाशु हिं प्रचा पु १०० ना

हरिप्रकाश मिट्टी की लोथ वसल ४०० क.

हरिप्रसाद जीवन सघर्ष प्रभात प्र. ४००. उ.  
 हरिप्रसाद 'हरि', १९१४- रत्नावली भा जानपीठ २.००  
 का  
 हरिवश सात सागर सात गागर. अर्चना प्र (पा.) १००  
 हरिभगवान् दैनिक जीवन मे विज्ञान अपर ४.००; — —  
 प्रभात पब्लि ४५०  
 हरिभगवान. दे फार्वर, एडुअर्ड.  
 हरिभगवान दे ब्रिम्ले, ग्रा. सी. तथा एफ. सी. वैरेट  
 हरिमोहनलाल राजनीतिक लोक-कथाए आत्माराम १२५  
 हरिराय सूरदास की वार्ता सपा. प्रभुदयाल मीतल सा  
 सस्थान १५०  
 हरिवश, अनु सात उपन्यास सात कहानिया. हि प्रचा. पु  
 (पा) १००. क  
 हरिवश, पी के दलाईनामा का देश भा सा सदन ३००  
 हरिवशराय 'बच्चन', १९०७- आकुल अतर राजपाल.  
 २५०. का  
 आधुनिक कवि भा ७ हि सा सम्मे ३००  
 ओरती और अगारे राजपाल ४०० का  
 ओथेलो राजपाल ३५० का.  
 उमर खैयाम की ख्वाइया हिद पा १०० का.  
 एकांत सगीत राजपाल. २५० का  
 कवियों मे सौम्य सत राजपाल ५००  
 खादी के फूल राजपाल ३०० का.  
 खैयाम की मधुशाला राजपाल २०० का  
 चार खेमे चौसठ खूटे राजपाल ४.०० का.  
 जन गीता राजपाल २०० का  
 त्रिभंगिमा राजपाल ४०० का  
 धार के इधर-उधर राजपाल २२५ का  
 नये-पुराने भरौखे राजपाल. ४५० सस्म  
 निशा निमंत्रण राजपाल २.५० का  
 नेहरू राजनीतिक जीवन चरित. मोतीलाल. ६००  
 प्रणय-पत्रिका राजपाल २.५० का  
 प्रारम्भिक रचनाए भा भ भा. १ १५०; भा २ १.५०,  
 भा ३ २०० का.  
 वगाल का काल राजपाल २०० का  
 बुद्ध और नाच घर राजपाल ३००. का  
 मधुकलश. राजपाल २०० का  
 मधुवाला राजपाल २०० का., — —हिद पा.  
 १.००  
 मधुशाला राजपाल. २०० का., — —हिद पा  
 १००  
 मिलन-यामिनी राजपाल ३५० का  
 मैकवेथ. राजपाल. ३००. का.  
 सूत की माला राजपाल. ३००. का.  
 गोपान भा भ. ५००. का  
 हनाहल राजपाल २५० का  
 — अनु गीतठ रत्ती कविताए. राजपाल ३००  
 — सपा. सुमित्रानन्दन पत. राजपाल. २.००. जी.

हरिवशराय 'बच्चन'. दे ब्रीचर, माइकेल.  
 हरिवशलाल गल्प-विहार श्री भा भारती. ५०० क.  
 हरिशकर स्नेहदान कि महल १५० क.  
 — सपा कुसुमाजलि बवई हि. १.२५ गद्य.  
 चित्रा. हि. सा भ २.००. क.  
 दस कहानिया. बवई हि १००  
 हरिश्चंद्र देशरत्न एस. चाद. २.५० वप्र  
 गुरु और एलेकजेडर इ प्रे १००. ना  
 फूल और धाराये अशोक पा १०० उ.  
 भ्रम जाल प्रगति प्र उ  
 सघर्षमय जीवन स. २. वसल २५०  
 हरीशचंद्र. दे. वुडबरी, डेविड ओ.  
 हरिश्चंद्र दे हेक्ट, सेलिंग  
 हरिश्चंद्र भारतीय. सामान्य विज्ञान आशा पब्लि ५.००  
 — तथा रणजीतसिंह दरडा सामान्य-शिक्षा २ भा सशो.  
 स २ आशा पब्लि १४.००  
 हरिश्चंद्र विद्यालकार मिल जुलकर काम करो सस्ता. ०.४०.  
 हरिश्चंद्र वेदालकार. दे हुई, एडवर्ड जी. [वप्र  
 हरिहरनाथ. भारतीय शिक्षा के अनुभव अनु ब्रह्मदत्त दीक्षित  
 रा बेनीप्रसाद २.००  
 हरीमोहन तथा अन्य अभिजात हि. प्रचा पु. ३०० नि  
 हरीश अनजानद्वीप बदनाम घाटी गुल्लूप्रसाद. १५०  
 आसुओ का मूल्य. चिनगारी. १.५०  
 आदिकाल का हिंदी गद्य साहित्य रामा प्र ८.००  
 आदिकाल के अज्ञात हिंदी रासकाव्य. मगल ६.००  
 काम कला और दापत्य विज्ञान गुल्लूप्रसाद ७००  
 चौराहा चिनगारी १.५०  
 टूटे तारे अग्रवाल प्रि ०.७५ क  
 पथ की प्रेरणा. चिनगारी १५०  
 बदलती तस्वीरे चिनगारी. ३५०  
 मुन्नू किसान की दुनिया. हि प्रचा पु. ०.६७ वप्र.  
 राणा प्रताप. नया सा प्र ४०० का  
 सतति-निरोध एव गर्भ विज्ञान मेडिकल २५०  
 हरीश. दे. दयाशकर 'हरीश'  
 हरीश कर्ण. ग्रीक साहित्य-शास्त्र भारतेदु भवन ५५०  
 स्मृति. गिरिधर १.००. का., — — दिशा. १५०  
 हरीश नायक कच्छु-बच्छु अनु राजगोपाल माथुर. आत्माराम  
 १२५ वप्र.  
 हरेद्रदेव नारायण महात्मा बुद्ध. राष्ट्रीय सा स. ०.५० वप्र.  
 हरेद्रप्रसाद सिंह भारतीय दर्शन की रूपरेखा बुकलेड. ५.००  
 हरेश्वरीप्रसाद रक्त के छीटे दि. पु स २५० जी  
 हर्डीकर, श्रीनिवास बालाजी, १९०६- अठारह सौ सत्तावन.  
 सस्ता. १२५  
 १८५७ की चिनगारिया. सा. नि., का. १.००. जी.  
 मराठी सीखो सा. नि., का १४०  
 हर्ष. नागानंद. सस्ता. ०.४०. वप्र.; — — अनु. गगाधर  
 इदूरकर. हि. सा सम्मे ०.८८  
 नैपथ चरित. सस्ता. ०.४०. वप्र.

प्रियदर्शिका सस्ता ०४० वप्र, — — अनु गगाधर  
इद्वरकर. हि सा सम्मे ०६२  
रत्नावली सस्ता ०४० वप्र, — — अनु गगाधर  
इद्वरकर हि सा सम्मे ०६२  
हर्षचदजी, मुनिश्री विद्यार्थी और अणुव्रत आत्माराम  
२००  
हर्षनाथ उडती धूल चौधरी २००  
कमीने और शरीफ नद ब्र एव नद स २००  
गवनेस प्रचा पा १०० उ  
जजीरे टूटती है रूपसी १००  
टूटते वधन चौधरी ३५०  
धरती • धूप और बादल चौधरी ३५०  
रवत के आसू चौधरी ६००  
राजा रिपुमर्दन हि प्रचा पु ३०० उ  
रेखाये और रेखाये भा पु म ३५० उ  
हर्षवर्धन रत्नावलीनाटिका रा वेनीप्रसाद २००  
हलधर चट्टान और ठोकरे अगोक पु म ३०० उ  
हलवे, कृ र पत्र लेखन कला कृष्णा ब्र १००  
हलवे, के आर दे चौहान, शिवध्यान सिंह  
हसरत मोहानी जीवनी और सकलन राजपाल १५०  
हस्तिमल्ल अजनापवनजय सपा. वासुदेव पटवर्धन भा  
ज्ञानपीठ ३०० ना  
हाडा, राजेद्रलाल चील का घोसला कि महल २५० क  
दिल्ली मे दस वर्ष आत्माराम ३५० इति  
मैं और मेरी मोटर कि महल २५० हा  
राजधानी के अचल से कि महल २५० क  
राजधानी मे साहनी ३००  
हासल, चादनारायण वेसिक शिक्षा सर्वोदय सा २००  
हाइड, मागरेट ओ आवादी की समस्या अनु वी आर  
जोबार आत्माराम २५०  
हाडा, यस सी दे अग्रवाल, आर के  
हाथार्न, नैथेनियल, १८०४-१८६४ कलक राजपाल ३००  
उ, — — हिद पा. १००  
हाथर्न की श्रेष्ठ कहानिया राजकमल ४००, (पा)  
१००  
हादी 'रुसवा', मिर्जा उमराव जान अदा पुष्पी १२५ उ,  
— — अनु गिरीश माथुर राजकमल (पा) १००,  
सुरेद्र ४००  
गुरु घटाल पुष्पी १२५ उ, — सुरेद्र ४००  
हावल आदि ससार मे मनुष्य दत्तवधु  
हायेट, गिलवर्ट पढाने की कला आत्माराम ६५०  
हारलो, साल्विन एफ निर्धन बालक से महान उद्योगपति  
राजपाल २५० जी  
हारीत, ताराचद्र दमयती आत्माराम ८०० का  
हार्डी जय-पराजय कि महल ३०० उ  
हार्डी, गेथोर्न अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सक्षिप्त इतिहास  
(१९२६-१९३७) एस. चाद १२५०  
हार्नेले. हिंदी घातु-सग्रह. क. मु हि २००. नि.

हाल, कैल्विन एस फ्रायड मनोविज्ञान प्रवेशिका राजकमल  
२७५, ४५०  
हालकेन कटीले तार सरस्व प्रे. १५० उ  
हाल्दार, असिलकुमार, १८६०- भारतीय चित्रकला चद्रलोक  
६००  
रूपदर्शिका चद्रलोक १००० चित्रकला  
ललितकला की धारा चद्रलोक ७५०  
हाशमी, जमीला आग पुरानी नीलाभ ३.०० उ  
हाशमी, मुजतर एक तिल सौ तूफान सहगल ४०० उ  
एक लडकी फूल, एक लडकी काटा सहगल ४०० उ  
मभदार सहगल ४२५ उ  
हाशमी, शौकत नीमा जो विक गई शमा ३६५ उ  
हिंदी साहित्य सम्मेलन पाडुलिपिया (हिंदी सग्राहलय की हस्त-  
लिखित पुस्तको का विवरणात्मक परिचय) हि सा सम्मे  
१२००  
मानक हिंदी कोश ५ भा. हि सा सम्मे. भा १-३.  
२५०० (प्र)  
हिंदुस्तानी एकेडेमी अभिधर्म कोग अनु नरेद्रदेव हिंदु एके-  
डेमी भा १ १२००, भा २-३  
हिकमतुल्लाह खा मिलन नीलाभ ३२५ उ  
हिकस लोकवित्त एस चाद ७५० अर्थ  
हिकस, जे आर सामाजिक रूपरेखा मोतीलाल ५००  
हिंदी अरव का सक्षिप्त इतिहास श्री प्रभाकर ८००  
हिनशा, सेसिल ई अहिंसात्मक प्रतिरोध अ भा सर्व ०५०  
हिमाशु मुक्ति की खोज गुल्लूपसाद ५२५  
हिमाशु, दे रामनरेश 'हिमाशु'  
हिमाशु दे श्रीवास्तव, हिमाशु  
हिरण्मय हिंदी और कन्नड मे भक्ति आदोलन का तुलनात्मक  
अध्ययन विनोद १०००  
हिरण्मय दे अय्यर, के वी  
हिरण्मयी अच्छी बुनाई न्यू लिट ३००  
हिरियन्ना भारतीय दर्शन की रूपरेखा राजकमल.  
हीरालाल आप को जानना चाहिए निरोगी १२५  
आहार और स्वास्थ्य २ भा निरोगी ४०० (प्र)  
उपवास और स्वास्थ्य निरोगी ३००  
जल चिकित्सा निरोगी ३००  
ज्ञान गुचडी कल्याणदास ०७५  
तदुस्ती हजार नियामत है निरोगी १००  
नवीन प्राकृतिक चिकित्सा स ४ निरोगी ३००  
वापू और प्राकृतिक चिकित्सा स २ निरोगी. ०२५  
ब्रह्मचर्य विवाह के पहले और विवाह के बाद निरोगी  
३००  
मध्यप्रदेश का इतिहास ना प्र सभा २००  
रोगो की सरल प्राकृतिक चिकित्सा निरोगी ७००  
विटामिन द्वारा स्वास्थ्य है निरोगी १००  
वैज्ञानिक सूर्य किरण चिकित्सा स २ निरोगी १००  
श्याम सरोज माला कल्याणदास १२५ आध्यात्मिक  
सफलता के पथपर निरोगी. १५०

सर्वोदय स्वास्थ्य दर्शन निरोगी. १०००  
 सोने की कला स. २ निरोगी १००  
 स्वस्थ कैसे रहे जिज्ञासा २.००. वप्र  
 स्वस्थ सतान निरोगी ३००.  
 हीरालाल शास्त्री. जैन धर्माभूत भा ज्ञानपीठ. ३.००  
 —सपा पचसग्रह भा ज्ञानपीठ १५००  
 हीरालाल शास्त्री दे आत्माराम, जैनाचार्य  
 हीरालाल शास्त्री दे आशधर.  
 हीरालाल शास्त्री दे नेमिचंद्र, आचार्य.  
 हीरालाल शास्त्री दे वसुनदि, आचार्य  
 हीरालाल सिंह आधुनिक यूरोप का इतिहास विष्वविद्यालय  
 हीरालाल सिंह दे रामवृक्ष सिंह  
 हुई, एडवर्ड जी भौतिकी का प्रामाणिक परिचय. अनु.  
 हरिश्चंद्र वेदालकार आत्माराम ३५०  
 हुकुमचंद्र बैद. श्रावक रूपचंद्र जी जैन श्वेतावर १२५  
 हुकुमचंद्र 'बुखारिया'. मेरे बापू. भा ज्ञानपीठ २५० का  
 हुक्कू, विश्वनाथ. मुद्रा तथा बैकिंग लक्ष्मी ना २५०  
 हुक्कू, विश्वनाथ. दे सक्सेना, के वी  
 हुक्कू, सपूर्णनाथ 'सेवक'. जीवन की नींव. आर्य सा. २.००  
 हुमायू कबीर. १६०६- नदी और नारी राजकमल (अप्रा.)  
 उ.  
 वगला काव्य की भूमिका. राजकमल. ४००  
 भारतीय शिक्षा-दर्शन राजकमल ७००  
 विज्ञान, जनतंत्र और इस्लाम अभिताभ ५००  
 स्वतंत्र भारत में शिक्षा राजपाल ५५०  
 हृदय दे. शुक्ल, रामशंकर 'हृदय'.  
 हृदयनाथ मोटा स्वतंत्रता का जन्म. गंगा २.५०  
 हृदयेश दे. चंडीप्रसाद 'हृदयेश'  
 हृदयेश दे राय, श्रीकृष्ण 'हृदयेश'.  
 हृदेश. डा. राधाकृष्णान् अजता ०५० वप्र  
 हेक्ट, सेलिंग परमाणु का रहस्य अनु हरिश्चंद्र इ. प्रे ३५०  
 हेनरी, ओ अतिम पत्नी पजाबी पु २०० क, — —स्टार  
 १.००  
 स्नेह दीप एस चांद ३.००. क  
 हेमचंद्र, आचार्य अपभ्रंश व्याकरण राजकमल २.००  
 हेम बरवा. लौहित्य और नीलाचल. असम ३५०  
 हेमराज संस्कृत कुसुमाजलि. मोतीलाल १७५  
 हेमराज 'निर्मम' आधुनिक भारतीय शिक्षा टि पु स  
 ५.००  
 बसंत फिर आयेगा भारतद्रु भवन. ६५० उ  
 मुझे भूल जाना इ पब्लि एव दि पु स ४०० उ  
 हेमलता दे शिवपुरी  
 हेमिंग्वे, अर्नेस्ट. पुल राजपाल ६.०० उ

सागर और मनुष्य राजपाल २.०० उ; — —हिंद पा.  
 १००  
 हेलब्रोनर विष्व के महान अर्थशास्त्री एलाइड ८००  
 हेस, हरमन. सिद्धार्थ. आत्माराम ३०० उ, — —प्रभात  
 प्र. २.००  
 हैगार्ड, राइडर. गुप्तधन इ प्रे २७५ वप्र.  
 रहस्यमयी राजपाल ५००. उ  
 सूर्यलोक गंगा १०००. उ.  
 हैनिमेन, महात्मा हैनिमेन्स क्रानिक डिजिज अनु एम. एल.  
 वर्णवाल एम एल बुक ३००  
 हैमसन, न्यूट. भूख कि. महल ४००. उ.  
 हैरीसन तथा स्मिथ कला-प्रशिक्षण के सिद्धांत गयाप्रसाद.  
 ६.००  
 हैलन, जी सी भारतीय प्रजातिया एव सस्थाये स. ४  
 रस्तोगी ५५०  
 समाजशास्त्र की रूपरेखा २ भा. रस्तोगी ४०० (प्र)  
 समाजशास्त्र के मूल आधार रस्तोगी  
 समाजशास्त्र के मूल तत्व. रस्तोगी ४००  
 समाजशास्त्र के सिद्धांत २ भा स ४ रस्तोगी. ५.००  
 (प्र)  
 सामाजिक कल्याण एव सुरक्षा स. ४. रस्तोगी ५.००  
 हैलन, योगेशचंद्र लोक अर्थशास्त्र. केदारनाथ. ८.००  
 लोक वित्त केदारनाथ. ६.५०  
 वैक्तिक व्यवस्था केदारनाथ ६५०  
 होमवती स्वप्न-भग आत्माराम २.०० क.  
 होमस, एडमंड शिक्षा का रोग और उसका इलाज अनु. वशी-  
 धर तथा जे डी वैश्य रा बेनीप्रसाद. १००  
 ह्यू गो, विक्टर, १८०२-१८८५ अनोखा. अनु लक्ष्मणसिंह  
 चौहान सस्ता २५० उ  
 ग्रभागे का भाग्य आदर्श हि. ८००. उ.; — —रामलोचन  
 (पा) १००  
 क्रांति की ज्वाला नवयुग पु भ १५० उ  
 पेरिस का कुबडा आदर्श हि ६०० उ., — —हिंद पा  
 १००  
 वलिदान आदर्श हि ४५० उ.  
 ह्यूजेज, लैस्टन प्रसिद्ध अमरीकी नीग्रो ड प्रे ३७५ जी.  
 ह्वैइट, ई वी, १८६६- सरला, विल्लू और जाला. रूपा  
 मुद्राराक्षस आत्माराम २००  
 ह्वैइट, मारगरेट मूर नारीत्व ज्ञानमंडल ३५०  
 ह्वैइट, हार्वी, दे सेमट, हेनरी.  
 ह्वैइट, टी डब्लू वीद्ध भारत कि महल ५००  
 ह्विटनी, विलियम ड्वाइट. भाषा-वैज्ञानिक संस्कृत-व्याकरण  
 चौखवा.



Handwritten scribbles or marks in the bottom left corner.

A small handwritten mark or character.

# बृहद् हिंदी ग्रंथ-सूची

## विभाग २

### अ

- अंकगणित दर्पण. रस्तोगी, जे. पी .. श्रीराम मेहरा. ३.००  
 अक रत्नाकर. शर्मा . २ भा. रत्न १७५ (प्र)  
 अक स्मृति के प्रकार महेद्रकुमार, मुनिश्री 'प्रथम' आत्माराम  
 १००  
 अकित होने दो. अजितकुमार. भा ज्ञानपीठ ४.००  
 अकुर. गुप्त, कृष्णानंद. सा. सदन, चि १.००  
 अकुर जोला, एमिल मित्र. १०००  
 —का सपना धर्मपाल शास्त्री आत्माराम १००  
 —की कृतज्ञता. सोनवलकर, दिनकर लोक चेतना ३००  
 अकेक्षण मनमोहन प्रसाद वुकलेड. ५००  
 अकेक्षण शर्मा, टी. आर. सा भवन, आ ६२५  
 —अध्ययन गुप्ता, आई. सी किशोर पब्लि. ५००  
 —के सिद्धांत. गुप्ता, एस आर. रत्न. ६२५  
 —के सिद्धांत गुप्ता, रूपराम. संशो स. ३. आगरा बुक ६.२५  
 —के सिद्धांत वाजपेयी, ओमप्रकाश लक्ष्मी ना. ५.७५  
 —के सिद्धांत. सक्सेना, सुरेशचंद्र कि महल ६००  
 अको का जादू गुरुदयालु सिंह गंगा १२५  
 अस्तिया दरसन की प्यासी. त्रिवेदी, रश्मिकांत. सांस्कृतिक.  
 १०००  
 अगडाई प्यारेलाल 'आवारा' चौधरी. ४.५०  
 अगडाई मोहनलाल 'शादूल' आत्माराम १५०  
 अगद का पाव. शुक्ल, श्रीलाल भा ज्ञानपीठ २.५०  
 अगना फूले कचनार. मित्र, छविनाथ 'पागल' मिलन-मंदिर  
 ३००  
 अंगरेजी भाषा की शिक्षा. ओकलो, ई एस. इ प्रे २.००  
 अंगार पचौरी, भगवानमहाय दालेज १००  
 अंगारे. कृष्णचंद्र मुभाप २.५०  
 अंगारे. दत्त भारती रत्न एड कं २.५०  
 अंगारे. नागर, नरोत्तम. हिंदिया. ३००  
 अंगारे वाजपेयी, भगवतीप्रसाद. पुष्पी. १००  
 —न नुम्मे रामेय राघव. कि मूल. २५०  
 अंगारो की मौन गवनेना. शम्भुदयाल नवयुग प्र. कु ४००  
 —की सदिया गौरीसंकर 'लहरी'. मध्यप्रदेश ज्ञानन

- अंगारो के दूत. अरुण. अवध. २.५०  
 अगूठी का दान. वर्मा, वृंदावनलाल मयूर. १.००  
 —का मुकदमा. सुदर्शन वीरा १.२५  
 —के नगीने रामाशीर्षसिंह हिं. पु ए. १५०  
 अगूर की वेटी पत, गोदिवल्लभ. गंगा २५०  
 —के गुण तथा उपयोग दीक्षित, रामसनेही. देहाती. ०.७५  
 अगूरो का गुच्छा. शुक्ल, रमापति रामप्रसाद. ०.७५  
 अग्नेज अपने मुल्क में जैन, महेद्र राजा. चौधरी ४.५०  
 अग्नेजी उपन्यास का विकास और उसकी रचना पद्धति. मिश्र,  
 श्रीनारायण. हिं समि ८००  
 —के माध्यम से हिंदी सीखिए चतुर्वेदी. राजकिशोर. १.००  
 —भाषा और साहित्य द्विवेदी, रामअवध.. हिं समि. ३.५०  
 —मिठाइयो का व्यापार वर्मा, चंद्रलाल 'चंद्र'. चंद्र कार्या.  
 ०.३७  
 —शिक्षण-विधि टडन, तेजनारायण, सपा हिं. सा भं. १२५  
 —साहित्य का इतिहास हिं समि. ७००  
 —साहित्य का इतिहास खत्री, एस पी हिं. सा. सम्मे.  
 ३००  
 —साहित्य की रूपरेखा उपाध्याय, भगवतशरण. राजपाल  
 २.५०  
 —साहित्य परिचय शर्मा, दयाशकर... गयाप्रसाद ४.००  
 —हिंदी दीपिका तल्लूर, वायगणकर बबई. हिं. भां. १.  
 ०.६२, भा २ ०.७५  
 अग्नेजो का आगमन तथा उसके बाद गोविंददास, सेठ. एम.  
 चांद. २.७५  
 —का देव पाडेय, देवकी. हिं प्रचा. पु. १२५  
 —की शिक्षा-नीति हिंदी भाषा और साहित्य के विकास में  
 योग मुदमगल सिंह. सरस्व. पु. स १६.००  
 अचल शर्मा, पद्मसिंह 'कमलेश' राजपाल. २.००  
 अचल. सत्यदेव सिंह. प्रत्यूष. ६००  
 अजना. नुदर्शन वीरा एव हिं. प्र. र. २५०  
 अजनापवनजय हस्तिमल भा ज्ञानपीठ ३.००  
 अजलि. वर्मा. राजकुमार सा भवन, इ १.२५  
 —और अर्घ्य गुप्त, मैथिलीशरण. सा सदन, चि. ०.७५  
 अजीर वेदी, रामेय आत्माराम १७५

- अंजो दीदी उपेद्रनाथ 'अस्क' नीलाभ ३.००  
 अडर सेक्रेट्री मेहता, रमेश देहाती २५०  
 अत पुर का छिद्र पत, गोविन्दवल्लभ गंगा १५०  
 अतडियो की ऐठन प्यारेलाल 'आवारा' रूपसी ३००  
 अतरगिरणी पाडे, तारा अवध २२५  
 अतर की वात राधाकृष्ण प्रसाद पु भ २५०  
 —द्वद दास ३.००  
 —निरीक्षण पोरबदर, महाराज राजकमल २५०  
 —भाषा पाठावली गिरिराजकिशोर ..  
 अतराल भटनागर, महेद्र प्रबुद्ध २००  
 —की लहरे एमिमोव, आइजक नेशनल ५००  
 अतरिक्ष. गोविर्दसिंह आदर्श पु म २००  
 —एक परिचय ब्रिज एस चाद १५०  
 —का रहस्य ज्योतिस्वरूप रूपसी १००  
 —की लहरे चतुर्वेदी, सत्यदेव हि सा सृजन ४००  
 —के मेहमान शिवपसाद सिंह प्रचा पा. १००  
 —के यात्री धीर, नरेद्र आत्मराम २५०  
 —यात्रा की प्रथम पुस्तक वैडिक, जीन आत्मराम ४००  
 —यात्री से भेट अवस्थी, रमेशचंद्र भालोटिया  
 —विजय. जयप्रकाश नवयुग प्र २५०  
 —स्टेगन काक्स, डानल्ड आत्मराम ४००  
 —स्पर्श वर्मा, रमेश प्रभात प्र ३००  
 अतदर्शन तीन चित्र भट्ट, उदयशकर भा प्र मदिर. २००  
 अतर्दाह. सत्यकेतु विद्यालकार सरस्व स ३७५  
 अतर्द्वन्द्व चैखव, एन्टन कि महल ३५०  
 अतर्ध्वनि चदनमल, मुनिश्री आत्मराम ०७५  
 अतर्ध्वनि देवेद्र इ प्रे २५०  
 अतर्प्रतीय भारती जोशी, भानचंद्र नयाप्रसाद १२५  
 अतर्भरिती श्रोत्रिय .. रामप्रसाद २७५  
 अतर्मथन भट्ट उदयशकर आत्मराम १५०  
 अतर्मिलन की कहानिया रागेय राधव कि महल ६००  
 अतराष्ट्रीय एकता अनत, अ अ आर्य बुक २५०  
 —कहानिया हिंदु टाइम्स १०००  
 —कानून हरिदत्त वेदालकार सरस्व स १२५०  
 —राजनीति वर्मा, दीनानाथ गथमाला १२२५, —  
 दि. पु स १०००  
 —राजनीति शर्मा, एफ एल गयाप्रसाद २०००  
 —राजनीति का संक्षिप्त इतिहास (१९२६-१९३७) हार्डी,  
 गेथोर्न एस चाद, १२५०  
 —व्यापार कपूर, अमरनाथ भा भवन ३००  
 —व्यापार ठाकुर, मूर्धनारायण मोतीलाल २७५  
 —व्यापार, विदेशी विनिमय एवं प्रगुलक नीति मित्तल एस  
 सी सशो स २ ओरियन्टल पब्लि १२५०  
 —सगठन का इतिहास खरे, दिनेश दि पु स ७००  
 —सवध कर्मगील, के एस मोतीलाल ७५०  
 —सवध गुप्त, डी सी भा १ १९१९-१९४५, भा २  
 १९४६-१९६० मैट्रोपोलिटन. १२०० (प्र)  
 —सवध गोविल, एस. पी स २ रस्तोगी ७००

- अतराष्ट्रीय सवध चतुर्वेदी रस्तोगी १०००  
 —सवध. द्विवेदी, जी एन पु भ, आ  
 —सवध जैलेचरनाथ भा भवन =००  
 —सवध (१९१९-१९६२) हरिदत्त वेदालकार सरस्व स  
 १०२५  
 अतर्वाणी विनोद जनक अरविंद विद्या प्र भवन १२५  
 अतर्हीन कहानी देवीप्रसाद, सपा. ३ भा पीपुल्स १५० (प्र)  
 अताक्षरी मजुपा वर्मा, परमेश्वरदीन, सपा नवयुग पु भ  
 ०७५  
 अताराष्ट्रीय विधान संपूर्णानिद सशो स. ३. जानमडल  
 ११००  
 अतार्कतिक मे ह्वेलमार अभियान सोल्यानिक अ पीपुल्स  
 ०३७  
 अतिम-आकाक्षा गुप्त सियारामगरण सा सदन, चि २००  
 —उपन्यास सत्यादत्त हसन 'मटो' पैरामाऊट २५०  
 —कविता ठाकुर, रवीद्रनाथ प्रभात प्र. २००  
 —गीत भटनागर सपतिराय. नवयुग प्र कु २५०  
 —चरण. शर्मा, यजदत्त सा प्र ७५०  
 —चित्र दत्त भारती पजावी पु ४५०  
 —भाकी गाधी, मनुबहन अ भा. सर्व १५०  
 —दीक्षा रवि श्रीराम मेहरा १२५  
 —निर्णय कवविद, बर्डी लहरी १.५०  
 —पत्ती हेनरी, ओ पजावी पु २.००, — स्टार. १००  
 —पत्र अमृता प्रीतम हिंदिया ३००  
 —पत्र दशरथराज. प्रभात प्र. २००  
 —भेट शर्मा, नरेद्र पैरामाऊट ५२५  
 —यात्रा गुरुदत्त भा सा सदन १००  
 —सम्राट ओकारनाथ 'दिनकर'. ओरिएण्टल २७५  
 अतू सरदार इ प्रे ०७५  
 अत्याक्षरी कामताप्रसाद 'गुरु'. मिश्र-चघु १००  
 —प्रसून रामप्रसाद १२५  
 अदर मिट्टी, बाहर चूना प्यारेलाल 'आवारा' रूपसी  
 ३००  
 अध कवि चक्रवर्ती नारायण कृष्णा व १.००  
 अधकार गौड, सरयू पडा. चौधरी ३५०  
 अधकार पाडेय, छविनाथ ज्ञानपीठ ३००  
 —और प्रकाश भट्ट, उदयशकर साहनी २७५  
 —का अत मेहरोत्रा, हरिशकर न्यू लिट १७५  
 —के पथिक बलदेव सिंह ३ भा ग्रथमाला ०६२ (प्र)  
 —युगीन भारत का इतिहास. जायसवाल, काशीप्रसाद ना  
 प्र सभा. ५००  
 अधड राजन् कन्हैयालाल ३५०  
 अधा कुआ लक्ष्मीनारायण लाल भा. भ २५०  
 —युग धर्मवीर भारती कि महल २५०  
 —सगीतज कोरोलेन्को पीपुल्स ०८१  
 अधियारी पूनम की रात रत्नप्रकाश 'शील' अशोक पा  
 १००  
 अधी गली उपेद्रनाथ 'अस्क'. नीलाभ ३.२५

- अधी तकदीर शर्मा, जगदीश. देहाती १ २५  
 —दृष्टि टउन, प्रतापनारायण राजपाल २.००  
 अधे मोड शर्मा, राजेद्र एम चाद ४००  
 अधे नगरी. गुप्त, मन्मथनाथ आत्मराम ३००  
 अधे नगरी. शर्मा, जगदीश. देहाती १.२५  
 अधरा उजाला अहमद अब्बास, स्वाजा हिंद पा १००  
 —उजाला. नानकसिंह राजपाल ६००  
 —और गुनाह गोविंदसिंह कन्हैयालाल. ४ २५  
 —छट गया शुक्ल, गगाधर आत्मराम २.००  
 —सवेरा. जैन, यादवचंद्र राजहंस ४००  
 अधेरी गलिया रस्तोगी, विनोद अशोक पा १.००  
 अधेरे अखतर आदिल रूप शमा ३ ६५  
 —उजाले. डे, सतीश देहाती १ २५  
 —उजाले के फूल शुक्ल, शकुतला भा सा सदन (पा)  
 १००  
 —का पाप उजाले का पुण्य शकर सुल्तानपुरी. नवयुग पु भ  
 ४.००  
 —का शत्रु प्रकाश व्यथितहृदय सुभाष एड क १ ६०  
 —की भूख. रागेय राघव कि महल ३०० (अप्रा)  
 —के जुगनू रागेय राघव कि महल ५००  
 —के दीप. शर्मा, ओमप्रकाश राजहंस ३ ५०  
 —चिराग. नदा, गुलशन नवयुग प्र ४ ५०, — —स्टार.  
 (पा) २००  
 —बद कमरे मोहन राकेश राजकमल १ १००  
 —मे उजाला टालस्टाय सस्ता. १ ५०  
 अधो की दुनिया दत्त भारती पजाबी पु ३ ५०  
 अधपाली. रामवृक्ष वेनीपुरी. पु. भ २००  
 —आलोक मल्लिनाथ नाँवली १ २५  
 अधर चरखा ओमप्रकाश सर्वोदय ० ५०  
 —चरखा (सपूर्णा) तरुणभाई सर्वोदय सा ३००  
 अधरपुर के अमर वीर वर्मा, वृदावनलाल मयूर १००  
 अधबर विनियोन प्र विभाग १ ७५  
 अधबर राहुल साकृत्यायन कि महल ७ ७५  
 —इलाहवादी जीवनी और सकलन राजपाल १ ५०  
 —और वीरवल की कथाए चतुर्वेदी सत्यदेव २ भा हि. सा  
 सृजन. १ २५ (प्र)  
 —की राज्य व्यवस्था. त्रिपाठी, नेपमणि हि ना सम्मे.  
 २ ५०  
 —की जायरी गौट जगदीश भानू-भापा २ २५  
 —वीरवत के चूटफुले श्रीवास्तव, हिमाशु ज्ञानपीठ १.५०  
 —वीरवत-विनोद भा भ १००  
 —वीरवत-विनोद नामगा ० ५०, २ ०  
 अधरी दरवार वर्मा, रामचंद्र, मनु ३ भा. ना प्र नभा.  
 ४०० (प्र.)  
 पकन बरानुर गर्ग, किशोर न. ३. गनी १.५०  
 पकनभात मृगभे विद्यानी व पीपल १ ६६  
 पकनभात रसायन जे, पचानन .. अर ४ ७५ (प्र)  
 —रसायन सुरतल सिंह... श्रीराम मेहता. १ २.५०

- अकार्बनिक रसायन वर्मा, फूलदेवसहाय. नद. व्र एवंनंद सं. ६.५०  
 —रसायन शर्मा, एस जी २ भा. रतन ४ ५० (प्र)  
 —रसायन शर्मा.. ८००  
 —रसायन साहू स २ मोतीलाल. ६००  
 —रसायन की रूपरेखा. कृष्णवहादुर .. न. २ रा. वेनीप्रसाद  
 ७००  
 —रसायन डायजैस्ट जैन, के डी त्रागरा बुक. २ ५०  
 —रसायन शास्त्र. जिंडल, शकरलाल रा वेनीप्रसाद. ७००  
 —रसायन शास्त्र तुली एस चाद ७ २५  
 —रसायन शास्त्र श्रीप्रकाश आगरा बुक ८.००  
 अकिली की कहानी थत्ते, यदुनाथ अ भा सर्व ०.६०  
 अकेली कुशवाहा 'कात' चौधरी ३००  
 अकेली यादव, राजेद्र .. हिंद पा. १.००  
 अकेले कठ की पुकार अजितकुमार राजकमल ३००  
 अक्षर अमर रहे गैरोला, वाचस्पति चौखवा ५००  
 —गीत कमला रतनम् सस्ता २००  
 —बोध भगतसिंह हेमकुट १ २५  
 —शास्त्र गणेशदत्त 'इंद्र' प्रभात पब्लि ३००  
 अक्षरो का आरम आगा हैदर हुसेन राजकमल २००  
 अखड भाग्योदय दर्पण व्यामलाल ३००  
 —भाग्योदय दर्पण मित्तल, भगवानदास भृगु ज्योतिष. ३००  
 असलेश काव्य मुधा विवेचन शर्मा एम एस लायल ५००  
 अस्तर-उल-ईमान जीवनी और सकलन राजपाल. १.५०  
 अस्तर शीरानी जीवनी और सकलन राजपाल १.५०  
 अग्रवत्ती. ओमप्रकाश सर्वोदय ० ५०  
 अगर मैं डिकटेटर होता गांधी, मो क सस्ता ०.३०  
 अगला कदम महताव, हरेकृष्ण आत्मराम १ २५  
 अगकदम राधाप्रसाद चिनगारी २ ५०  
 —ले पाच साल पथिक, जी एस आत्मराम ५.००  
 अगस्य मिश्र, जगन्नाथप्रसाद राजकमल ० ७५  
 अगुआ और वनपणे का फूल खनील जिवान राजहंस. ३.००  
 अग्नि वनफूल उ प्रे १ ५०  
 —दीक्षा औस्त्रोव्स्की, नि पीपुल्स ५००  
 —परीक्षा चौहान, देवीसिंह जवाहर १ ५०  
 —परीक्षा तुलसी, आचार्यश्री आत्मराम ६ ५०  
 —पुराण का काव्य शास्त्रीय भाग वर्मा, रामलाल नेशनल  
 ३००  
 अग्निमा गिरधर गोपाल न्यू लिट. २.७५  
 अग्नि-अस्य वर्मा, नरेद्र भा भ. २.५०  
 —गिखा तिवारी देवेन्द्रदत्त 'देवेद्र' सर्वोदय सा ३.००  
 —होत्र विधि. वर्मा, निवदत्त वरवृक्ष ० ५०  
 अचरज लोक. वर्मा, किशोर न ८ गनी १.५०  
 अचल मेरा दोर के श्रीनाथ हि ना भ. १ २५.  
 —मेरा होई वर्मा, वृदावनलाल. नयूर ३ ७५.  
 अचला राममूर्ति 'अचल' गन चाद ३.०५  
 अचार, चटनी, मुरब्बा बहार गुप्ता, छविरानी देहाती. २.५०  
 —बनाना कानीचरगा देहाती. ०.५०  
 —मुरब्बे, चटनी. सर्वोदय ०.५०

अचूक चिकित्सा प्रयोग वर्मा, जानकीशरण भा. भ २५०  
 —चिकित्सा के प्रयोग जा श छात्रहितकारी २५०  
 अच्छा आलू अधिक आलू सर्वोदय १५०  
 —किया या बुरा आत्माराम देतकी सस्ता ०४०  
 —कौन नीरव सा नि, का १२५  
 —खाद अच्छा खेत सर्वोदय १५०  
 —वच्चा शर्मा, यज्ञदत्त सा प्र १००  
 —बालक व्यथितहृदय विनोद ०७५  
 अच्छी अच्छी कहानिया थानी, योगराज आर्य बुक १५०  
 —अच्छी कहानिया सतराम विश्वेश्वरानन्द ०८७  
 —आदते चतुरसेन, आचार्य राजपाल ०७५  
 —आदते वन्स्य, सतराम नेशनल १००  
 —आदते शर्मा, एस आर नव सा प्र ०६५  
 —कहानिया वन्स्य, सतराम, सपा रामप्रसाद ०८६  
 —खाद रामेश्वर अशात देहाती २५०  
 —खेती. २ भा मातृ-भाषा ६००  
 —चाल मिश्र, रामदहिन ग्रथमाला ०६२  
 —बुनाई हिरण्मयी न्यू लिट ३००  
 —हिंदी वर्मा, रामचंद्र सशो स ८ सा रत्न-माला ३००  
 —हिंदी कैसे लिखे मिश्र, भगीरथ प्रभात प्र ४००  
 अच्छे निबंध गोयल, मुरलीमनोहर सगो स ४ कल्याणमल ३००  
 —पडोसी परसाई, हरिशंकर सा भवन, इ १००  
 —बच्चे राजपाल ०५०  
 —बनो, महान बनो शिवसिंह 'सुमन' छात्रहितकारी १२५  
 —बीज रामेश्वर अशात देहाती ०७५  
 अच्छूत. आनंद, मुल्कराज राजकमल (पा) १००  
 —कौन अविचल दास १२५  
 —कौन और कैसे अवेदकर, भीमराव देहाती ४००  
 —देवता वरेरकर, मामा विद्या प्र म ३००  
 —समस्या गांधी, मो क गंगा एव प्रभात पब्लि २००  
 अच्छता प्यार वरेरकर, मामा राजपाल ४००  
 अच्छूती धरती तुर्गेनेव प्रभात प्र ६००  
 अजता चतुर्वेदी, सीताराम स २ अ भा विक्रम १५०  
 —ऐलोरा जैन, यज्ञपाल सस्ता ०४०  
 —की गज सलाममछली शहरी यग मैन २००  
 —की बोलती तस्वीरे दत्त, विमला नेशनल २५०  
 —के चित्रकूट रायकृष्णदास राजकमल १००  
 अजगर वेदी, रामेश आत्माराम १५०  
 —, बाघ और देवता सत्यपाल विद्यालकार हिंद पा १००  
 अजनवी कामू, आल्वेयर राजकमल ३००, (पा) १००  
 अजनवी जोशी, सूर्यकुमार राजपाल २५०  
 अजन्मा की आत्मकथा प्रताप चौधरी २५०  
 अजब देश मे वर्मा, रामजीलाल ग्रथमाला १००  
 —शहर गजब ठग श्रीवास्तव, हिमाशु नारायण प्र १००  
 अजय आलोक भटनागर, महेंद्र बसल २४०  
 —की डायरी देवराज राजपाल ५००  
 अजस-मोचन. रसाल. गर्ग ब्र २००

अजातशत्रु प्रसाद, जयशंकर भा भ. २००  
 अजातशत्रु (जयशंकरप्रसाद) शर्मा, अंबिकाचरण रत्न २.२५  
 —एक अध्ययन (प्रश्नोत्तर) कोकचा, हरनारायण रीगल. २५०  
 —एक अध्ययन टडन, प्रेमनारायण स ६ हि सा. भ २.००  
 —और प्रसाद की नाट्यकला मिश्र, शिवकुमार नारायण बुक २५०  
 —तथा अन्य एकाकी टडन, प्रेमनारायण हि सा भ २००  
 —समीक्षा शर्मा, जगन्नाथप्रसाद नद ब्र ०६२  
 अजित गुप्त, मैथिलिशरण सा सदन, चि १५०  
 अजीजन वाम, शंकर सस्ता ०४०  
 अजीतसिंह चतुरसेन, आचार्य प्रभात प्र ३५०  
 अजीब सफर जयप्रकाश नवयुग प्र १५०  
 अजी मैंने कहा कत्याल, मोहन रूपकमल २००  
 —सुनिये जरा राधेमोहन चेतन पुष्पी ०७५, —सुरेद्र २२५  
 —सुनो व्यास, गोपालप्रसाद आत्माराम ५००  
 अजेय तारा पथिक चौधरी २५०  
 अज्ञात के दिन चतुर्वेदी, सत्यदेव हि सा सृजन ३००  
 —महाद्वीप की खोज सुलिवान, वाल्टर आत्माराम ६५०  
 अज्ञातवास लहरी १००  
 अज्ञातवास शुक्ल, श्रीलाल राजपाल २५०  
 अज्ञेय मिश्र, विद्यानिवास राजपाल २००  
 —का काव्य भा, सुमन अनुसंधान १०००  
 अटके आसू रेड्डी, बालशौरि कला-नि २५०  
 अटैची-केस शर्मा, राजेंद्रकुमार आत्माराम २००  
 अट्टाइस दिन की कहानी चतुर्वेदी, नारायण रामप्रसाद २००  
 अठारह वर्ष बाद पाडेय, गिरिजाशंकर आनंद पु, वा ४००  
 अठारहवीं शती के ब्रजभाषा काव्य मे प्रेमाभक्ति अवस्थी, देवीशंकर हि अ र १८५७ गोविंदसिंह कन्हैयालाल १०००  
 अठारह सौ अत्तावन हर्डीकर, श्रीनिवास बालाजी सस्ता. १२५  
 १८५७ का स्वतंत्रता संग्राम एस चाद  
 —की चिनगारिया हर्डीकर, श्रीनिवास बालाजी सा नि, का १००  
 —की भाकिया राजकुमार कल्याणदास १००  
 —की दिल्ली महेश्वरदयाल एस चाद २५०  
 अणु पर विजय पीपुल्स ०५०  
 अणुयायनी जीवत दि पु स ४५०  
 अणुयुग और हम सिंधी, दिलीप अ भा सर्व ०५०  
 अणुव्रत और अणुव्रती सघ नथमल, मुनिश्री आदर्श सा ०२५  
 —की ओर महेंद्रकुमार, मुनिश्री 'प्रथम' २ भा आत्माराम २०० (प्र)  
 —गीत तुलसी, आचार्यश्री आदर्श सा १२५  
 —जीवन-दर्शन नगराज, मुनिश्री आत्माराम २००  
 —दर्शन नथमल, मुनिश्री आदर्श सा १००  
 —दृष्टि अ भा अणुव्रत ०५०

अणुव्रत विचार नगराज, मुनिश्री. आत्माराम ०.७५  
 —विचार-दर्शन बुद्धमल्लजी, मुनिश्री आत्माराम ०.५०  
 अणुशक्ति की कहानी शर्मा, विश्वमित्र राजहंस १ २५  
 अणु से पूर्ण की ओर. नगराज, मुनिश्री आत्माराम. ० ७५  
 अतलातिक के उस पार. वजाज, रामकृष्ण. सस्ता २ ५०  
 अतिमा पत, सुमित्रानन्दन राजकमल ४ ००  
 अतिरिक्त परिशिष्ट राजस्थान सविधान लक्ष्मी ना ० ७५  
 अतीत की ओर कृष्णानन्दप्रसाद सिंह मगध १ २५  
 —की परछाइया. अमृता प्रीतम राजपाल ३ ५०  
 —की विभूतिया श्रीवास्तव, हिमाशु सन्मार्ग. ३.००  
 —के आलोक मे सुनहरीलाल 'पराग' भा. प्र. मंदिर २ ००  
 —के कपन जैन, आनन्दप्रकाश भा ज्ञानपीठ ३ ००  
 —के चलचित्र वर्मा, महादेवी भा भ २ ००  
 —के चलचित्र . एक समीक्षा नीलमणि रवि. २ २५  
 —के चलचित्र समीक्षा प्रताप हि सा भ १ ००  
 —के चित्र. महतो, मोहनलाल 'वियोगी' राजहंस ४ ००  
 —के विखरे पन्ने मिश्र, उमेशचन्द्र श्रीराम मेहरा १ ००  
 —से वर्तमान. राहुल साकृत्यायन. हि प्रचा पु ३.५०  
 —स्मृतिया, सोहनलाल औरिएटल १ ३७  
 अतुकात गोविंदसिंह कन्हैयालाल ३ ५०  
 अतृप्त मग, आचार्य हि प्रचा पु ४ ७५  
 अतृप्ता. सिन्हा, काता राजपाल. २.००  
 अथर्ववेद २ ख सस्कृति. १२.००  
 —मूल. आर्य सा ५ ५०  
 —शतकम्. त्रिवेदी, क्षेमकरणदास, भाष्य गोविंदराम १ ००  
 अथर्ववेदीय दत्योष्ठ्व विधि रामगोपाल शास्त्री विश्वेश्वरानन्द.  
 २ ५०  
 अदम : जीवनी और सकलन राजपाल १ ५०  
 अदल-बदल चतुरसेन, आचार्य चौधरी २ २५  
 अदले का बदला शेक्सपियर, विलियम नव सा प्र ० ५०  
 अदालत, बकालत, हजामत अरुण आत्माराम १ २५  
 अदिति माता श्रीअरविद १.००  
 अदीना. सदरुद्दीन ऐनी सा केद्र ३.००  
 अदृश्य जीवजगत पीपुल्स १ ००  
 —शत्रु मिश्र, नवलविहारी इ प्रे १ ००  
 अद्भुत आख्यान दुवे, अमृतलाल मिश्र-वधु १.६२  
 —आलाप द्विवेदी, महावीरप्रसाद गंगा ३ ००  
 —कथा दे, श्यामाचरण. इ प्रे २ ००  
 —कहानिया इ प्रे ० ७५  
 —कुर्सी गर्ग, किशोर रानी. १ ५०  
 —जतु चतुर्वेदी, जगपति कि महल २ ००  
 —बालक जगतनारायण नारायण प्र १ ५०  
 —मणि मिश्र, ठाकुरदत्त कि महल १.५०  
 —ससार की अनोखी घटनाए कोमल नवचेतना १.००  
 अधखिला फूल सोमनाथ पंजाबी पु २ ००  
 अधखिली देवेशदास आत्माराम ४ ००  
 —कली स्वर्णमयीदेवी हि प्रचा पु ३ ५०  
 अधिक भोजन उपजाओ. शीतलाप्रसाद गंगा. २ ५०

अधिकार. दत्त भारती अर्चना प्र (पा.) १.००; — —पंजाबी  
 पु २ ५०  
 अधिकार मित्र, प्रेमेश्वर राजपाल २.००; (पा) १ ००  
 —का रक्षक उपेन्द्रनाथ 'अशक' नीलाभ ०.७५  
 अधियापिका तथा अन्य कहानिया राजकुमार दास  
 अधियारी रात सोमनाथ 'अकेला' कन्हैयालाल ३ ००  
 अधूरा आविष्कार मिश्र, नवलविहारी इ प्रे ४ ५०  
 —उपन्यास मुक्तिदत्त, जनार्दन हि अ र. २ ००  
 —चित्तन ज्ञानवती ज्ञानालोक १ ५०  
 —चित्र धिल्लियाता, रमाप्रसाद 'पहाडी' प्रकाशगृह ४ ००  
 —चित्र निर्मला खुशदिल समाज ३ ००  
 —चित्र. सत्येश्वर शरत् सा. सदन, दे ३ ००  
 —सपना शेवडे, अनंतगोपाल हिद पा १ ००  
 —स्वप्न फलावेयर, गस्ताव राजपाल ६ ००  
 ग्रधूरी आवाज कमलेश्वर आत्माराम १ ५०  
 —कल्पना साधना प्रतापी ऐडी २ ७०  
 —तस्वीर वसंतप्रभा आत्माराम. ३ ००  
 —नारी. उदयरज सिंह अगोक प्रे २.७५  
 अधूरे रिश्ते गोविंदसिंह पुष्पी १.२५  
 —सपन उपाध्याय, भगवतीस्वरूप सूर्य प्र. २ ५०  
 —सपनो का देश दीनानाथ 'शरण' सा. सगम, प ३.७५  
 अध्ययन मिश्र, भगीरथ. हि सा भ ३ ००  
 —आलोक. राय, विवेकी आदर्श पु भ. २.००  
 —और आलोचना. भटनागर, रामरतन सा. सदन, दे.  
 ६.००  
 —और आस्वाद गुलाबराय. आत्माराम ७ ५०  
 —के विचार विष्णुकिशोर 'वेचन'. कल्याणदास. ३ ००  
 —कैसे करे कार्नाहॉसर, आर्थर डब्ल्यू राजकमल. १.२५  
 अध्यात्म ज्योतिष विचार काटवे, ह ने नागपुर प्र. १० ००  
 —दर्पण विद्यानन्द सरस्वती स. २ साधन १ ५०  
 —दर्शन. कृष्णानन्द, स्वामी विश्वेश्वरानन्द ४ ००  
 —पदावली जैन, राजकुमार भा ज्ञानपीठ ४.५०  
 —योग और चित्त-विकलन. शर्मा, वेकटेश्वर. वि राष्ट्र.  
 ७ ५०  
 —रामायण सटीक गीता ३ ००  
 —विषयक पत्र गोयदका, जयदयाल गीता ० ५०  
 अध्यापक. ठाकुर, रवीन्द्रनाथ प्रभात प्र २.००  
 —और उसके छात्र वर्न, हरवर्त जे गयाप्रसाद. ६ ००  
 अध्यापन. मूर्ति, ए एन एस आर्मी २ ००  
 —कला. चतुर्वेदी, सीताराम नद स ४ २५  
 —कला. चौवे, सरयूप्रसाद लक्ष्मी ना ५ ००  
 —कला और विधिया जैन, एम एल शिवलाल  
 —के सिद्धात एव विशिष्ट पद्धतिया वशीधर सिंह  
 गयाप्रसाद ५ ००  
 —विधिया चौवे, सरयूप्रसाद, मुख्य सपा. नवीन स १९६२.  
 लक्ष्मी ना ७ ५०  
 —सिद्धात एव पद्धतिया मिश्र, चंद्रभानु 'प्रभाकर' हि सा.  
 भ. २.५०

अध्यापन सूत्र मिश्र, आत्मानन्द गर्ग ब्र ० ६२  
 अध्यापिका ऐन सलिवा मेमी कैलर, हैलेन इ प्रे. २.५०  
 अनग शुक्ल, पुत्तलाल 'चद्राकार' वगीय ५००  
 अनगरग (भाषा टीका सहित) श्यामलाल २००  
 अनत के पथ पर हरिकृष्ण 'प्रेमी' लोक चेतना १५०  
 अनता सव्वरवाल, कचनलता कि महल २.५०  
 अनघ गुप्त, मैथिलीशरण सा सदन, चि १२५  
 अनचाहा सव्वरवाल, कचवलता कि महल ६००  
 अनजान द्वीप वदनाम घाटी हरीश गुल्लूप्रसाद १५०  
 —रास्ता रायचौधरी, डी के 'आनन्द' राज किशोर  
 १५०  
 अनजानी राहे सव्वरवाल, कचनलता इ प्रे ३००  
 अनजाने देश मे ओमप्रकाश राजहस १५०  
 —देश मे हरिकृष्ण जौहर चौधरी ३५०  
 अनथ के प्राण परशुराम विरही कीर्ति १६५  
 अनदेखे अनजाने पुल यादव, राजेद्र राजपाल ३००  
 अनधिकृत डगर प्रवेश एकट तथा नियम. मालसिंह नवयुग ग्र  
 कु ० ७५  
 अनबुभी प्यास. मेहता, दुर्गाशिकर सा भवन, इ ७५०  
 अनमोल उपदेश शिवब्रतलाल शिव सा १००  
 —कहानिया आनन्दकुमार आत्माराम १५०  
 —बोल चतुरसेन, आचार्य चौधरी २००  
 —मणिया कमलादेवी 'कमल' नवयुग ग्र कु १७५  
 —मणिया सक्सेना, वीरेद्रकुमार नवयुग ग्र कु  
 —माला सूरिदेव, रजन कला-नि १५०  
 —मोती मानसहस हिंद पा १००  
 —रत्न शुक्ल, रामवहोरी नद ब्र एव नद. स २००  
 अनर्घ राघव मिश्र, ठाकुरदत्त, कि महल १५०  
 अनल प्रकाश गुप्तवधु सर्व-सुलभ  
 अनलशलाका माधवन, आनदशकर अमरावती २००  
 अनव्याही मा गुरवस्त्रासिंह सा सगम, लु १२५  
 अनास्या रायकृष्णदास भा भ १५०  
 अनागता श्रीवास्तव, सुरेद्रकुमार सा केद्र २००  
 —की आखे जैन, वीरेद्रकुमार अशोक पु म ४५०  
 अनाजो की खेती रामेश्वर अगात देहाती ४५०  
 अनाडी शर्मा, नरेद्र पैरामाऊट २५०  
 अनातोले फ्रास की चुनी हुई कहानिया सौनरिक्सा, कातिचद्र  
 इ पे १००  
 अनाथ गुप्त, सियारामशरण सा सदन, चि ० ४०  
 अनाथ राहुल साकृत्यायन कि महल २५०  
 अनाथिनी मिश्र, रामगोविंद अशोक पु म ३७५  
 अनाधिकार प्रवेश ठाकुर, रवीन्द्रनाथ राजरजना २००  
 अनामत्रित मेहमान माधवन, आनदशकर अमरावती  
 १०००  
 अनामिका त्रिपाठी, सूर्यकांत 'निराला' भा भ ५००  
 अनारकली चतुर्वेदी, सीताराम अ भा विक्रम १५०  
 अनारकली प्यारेलाल 'आवारा' चौधरी ३००  
 —की वापसी. डॅ, सतीश देहाती १२५

अनार के गुण तथा उपयोग दीक्षित, रामसनेही देहाती  
 ० ६२  
 —शहजादी गुट्टू शचीरानी मैट्रोपोलिटन ० ७५  
 अनावरण पाडेय, वीरेद्र हिंदिया २७५  
 अनावृत शर्मा, यादवेद्र 'चद्र' नेशनल ४००  
 अनासक्तियोग गाधी, मोहनदास करमचद सस्ता ० ७५  
 अनिता सर्कस गयी वालवधु हि प्रचा पु १२५  
 अनिवार्य माध्यमिक गणित माथुर कल्याणमल ४००  
 —सामान्य हिंदी प्रकाशन गौड, सोहनलाल सशो स भा प्र  
 मदिर २००  
 —हाई स्कूल गणित वैश्य. रा वेनीमाधव ३७५  
 —हायर सैकेंडी गणित वैश्य... रा वेनीमाधव ४७५  
 अनीति की राह पर गाधी, मो क सस्ता १००  
 अनुकरण काव्य-दर्शन रसिकत्रय गगा ४५०  
 अनुक्षण माचवे, प्रभाकर भा ज्ञानपीठ २००  
 अनुगूज मेघराज मुकुल आशा पटिल ३००  
 अनुदान वनफूल वगीय ३५०  
 अनुपम आकिक भौतिकी सिंहल, ओमप्रकाश कि महल  
 ३००  
 —गाथाए श्यामलाल 'मधुप' हिंदिया १२५  
 —सामान्य ज्ञान सिंहल, ओमप्रकाश कि महल भा १.  
 ३००, भा २ २५०  
 अनुपान विधि श्यामसुदराचार्य नद व ० ५०  
 अनुभव प्रकाश बुद्धराय देहाती २५०  
 —प्रकाश शुक्ल, लालजीराम नद ब्र एव नद स. ३००  
 —गतकम् चदनमल, मुनिश्री आदर्श सा ० ६४  
 अनुभूत पशु-चिकित्सा सुरेद्रसिंह गगा २५०  
 —मुलम्मा साजी वर्मा, चद्रूलाल 'चद्र' चद्र कार्या १५०  
 —योग पाठक, केदारनाथ भा २ नद ब्र १००  
 —योग श्यामसुदराचार्य भा १ नद ब्र १००  
 —सत्य राधाकृष्ण प्रसाद ज्ञानपीठ २००  
 अनुराग पदावली गीता १००  
 —वासुरी नूरमोहम्मद हि सा सम्मे १५०  
 अनुरागिनी पत, गोविंदवल्लभ शिवाजी ४५०  
 अनुराधा ओमीलाल 'इलाहावादी' राष्ट्र प्रचा, इ २५०  
 अनुराधा चट्टोपाध्याय, शरतचद्र नवयुग पु म १२५, —  
 प्रभात प्र १५०, — —श्यामलाल. १५०  
 अनुवाद कला चारुदेव शास्त्री मोतीलाल २.५०  
 —चद्रिका स १४ मोतीलाल ३००  
 —तरगिणी देवशर्मा शास्त्री श्री भा भारती १५०  
 —दीपिका हरिदत्त शास्त्री गयाप्रसाद १२५  
 अनुशासन ठाकुर, केशवकुमार सा सेवक १५०  
 अनुशीलन वर्मा, रामकुमार त्रिवेणी ४५०  
 अनुशीलन शिवनाथ हि सा सम्मे १५०  
 अनुष्ठान पाडेय, रामाचार्य राष्ट्र प्र म ३००  
 अनुसंधान और आलोचना नगेद्र नेशनल ४००  
 —की प्रक्रिया सिन्हा, सावित्री नेशनल ५००  
 —के मूल तत्त्व विश्वनाथ प्रसाद, सपा क मु. हि २.००

- अनुसंधान के स्वरूप सिन्हा, सावित्री. आत्माराम ३.५०  
 अनेक देश एक इन्सान. कुलभूषण. नेशनल. ६.००  
 अनेकार्थ और नाममाला नददास भारतजीवन. ०.३७  
 अनोखा ह्यूगो, विक्टर सस्ता. २.५०  
 —आदमी. पाडेय, छविनाथ ज्ञानपीठ ३.००  
 —द्वीप. सरस्व. प्र म १.००  
 —बलिदान माणिक, हरिदास चौधरी ४ ५०  
 अनोखी तृप्ति गोल्डस्मिथ अपर एव प्रभात पब्लि. ४.२५  
 —शर्त काकोडकर चिनगारी १ ५०  
 अन्न का आविष्कार. वैष्णव, यमुनादत्त 'अशोक' इ प्रे.  
 २ २५  
 — का देवता. महेशचंद्र सरल. सरल १ २५  
 अन्नदाता. कृष्णचंद्र राजपाल. ३ ००  
 अन्नपूर्णा. मडल, अनूपलाल कलानि ५ २५  
 —का मंदिर निरुपमा देवी हि ग्र र. २ ००  
 —धरती मैकमिलन, ह्वीलर आत्माराम. ३.५०  
 अन्न समस्या लोहिया, राममनोहर. नवहिंद. ० ७५  
 —समस्या का हल कृष्णचंद्र विद्यालकार सस्ता. ० ३०  
 अन्ना केरेनिना. टालस्टाय अर्चना प्र (पा) १ ००, — —  
 प्रभात प्र ३ ००, — —सा सगम, लु. ६ २५  
 अन्नो की खेती व्यास, नारायण दुलीचंद सस्ता. २ ००  
 अन्याय का प्रतिकार ठाकुर, देववली सिंह हि प्रचा पु ४ ००  
 अन्योक्ति कल्पद्रुम. गिरि, दीनदयाल नद न एव भारतजीवन  
 ० ३७, — —ना. प्र. सभा ० ७५, — —रा वेनीप्रसाद.  
 २.००  
 अन्वेषण-यात्री राय, महेशचंद्र. इ. प्रे. १ ५०  
 अपटुडेट इक मास्टर कालीचरण. देहाती. २ ५०  
 —टैलरिंग फैशन बुक उषा देहाती ६ ००  
 —फैशन बुक उषा देहाती ६ ००  
 —बूट पालिश दास, जे सी देहाती २ ५०  
 अपठित विहार तथा हिंदी रचना गोयल, मुरलीमनोहर. स. २.  
 कल्याणमल १ ००  
 —साहित्य और निवध प्रयाग. १.२५  
 अपना इलाज अपने हाथ रामजीलाल शास्त्री विनोद ० ५०  
 —इलाज आप खुद कीजिये चतुरसेन, आचार्य राजहस.  
 २ ५०  
 —कौल पाडेय, सच्चिदानंद हि प्रचा म. २ ५०  
 —गाव शर्मा, यू डी नेशनल ० ७५  
 —घर दि लायब्रेरी ० ६२  
 —घर. मीरा महादेवन राजकमल ५ ००, (पा) १ ५०  
 —देश भा. भ १ ००  
 —देश. तिवारी, रामचंद्र राजपाल १ २५  
 —देश सादिक अली अ भा काग्रेस. ० ३०  
 —देश अपने दुश्मन ओमीलाल 'इहालावादी' राष्ट्र प्रचा,  
 इ १ २५  
 —देश महान्. मिश्र, वीरेद्र शकुन १ २५  
 —पराया. चतुर्वेदी, देवीदयाल 'मस्त'. इ प्रे १.५०  
 —पराया. दास, कमलचंद्र. ग्रथमाला १.२५

- अपना पराया. राधिकारमणप्रसाद मिह, राजा. अशोक प्रे. २ ००  
 —पराया श्रीवास्तव, जी. पी आनंद पु., वा.  
 —भारत. भारतदास, जे. राजकमल ० ७५  
 —विकास आप कीजिए कपूर, श्याम आर्य बुक १.५०  
 अपनी अपनी रुची शेक्सपियर, विलियम रा. वेनीप्रसाद १.२५.  
 —उन्नति आप कीजिए मार्टेन, स्वेट. हिंद पा. १.००  
 —करनी रमेश चौधरी, ए 'आरिगपूडि' राजपाल. २.००  
 —कहानी की तालीम. शर्मा, शिवकुमार. यग मैन १ २५  
 —खबर. शर्मा, पाडेय वेचन 'उग्र' राजकमल ४ ५०  
 —छाया. वाइल्ड, आस्कर राजपाल ५ ००  
 —तालीम की कहानी. शर्मा, शिवकुमार यग मैन १ २५  
 —दुनिया. ठाकुर, रवींद्रनाथ ज्ञान प्र. २.५०  
 —दुनिया (पाच सदस्य). ठाकुर, रवींद्रनाथ प्रभात प्र २.००  
 —धरती. शर्मा, रेवतीसरन नेशनल. २ ५०  
 —वात चंद्रभूषण. इ प्रे ०.७५  
 —भूमि एक चक करो सर्वोदय १ ५०  
 अपने अपने अजनवी वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद 'अज्ञेय'.  
 भा. ज्ञानपीठ. ३.००  
 —आपको पहचानिये अधिकारी, महावीर. सहगल ३ ००  
 —को पहिचानो गोविंद कल्याणदास २.००  
 —खिलौने वर्मा, भगवतीचरण. भा भ ३ ५०  
 —गीत वल्दुआ, बालकृष्ण गगा १ ५०  
 —दुख मुझे दे दो. वेदी, राजेद्रसिंह नीलाभ  
 —देश का इतिहास. मोतीलाल. १ ५०  
 —पराये. रमेश चौधरी, ए 'आरिगपूडि' हि प्रचा पु २.५०  
 —बच्चे से कैसे कहें द्वारकाप्रसाद. नीलाभ १.५०  
 —बच्चो को पहचानिए युधिष्ठिरकुमार आत्माराम २.००  
 —हुए पराये जमनादास 'अस्तर'. सहगल. ३.२५  
 अनो की खोज में—बुकसेलर की डायरी विद्यार्थी, रामप्रसाद  
 'रावी' इ प्रे. १ ००  
 अपभ्रंश-पाठमाला नरोत्तमदास स्वामी भा. १ इ प्रे १.००  
 —व्याकरण हेमचंद्र, आचार्य राजकमल २ ००  
 —साहित्य. कोछड, हरिवंश एस चाद १० ००  
 अपमान दत्त भारती. पजाबी पु ३.००  
 अपरा त्रिपाठी, सूर्यकांत 'निराला' भा भ ३.५०  
 अपराजित गुप्त, मन्मथनाथ राजपाल. ५ ००  
 अपराजित मिश्र, लक्ष्मीनारायण कौशावी २.५०  
 अपराजिता. चतुरसेन, आचार्य आत्माराम २.००  
 अपराजिता भगवतीशरण सिंह भा ज्ञानपीठ २.५०  
 अपराजिता. लुई, पियरे रूपसी. १.५०  
 अपराजिता शुक्ल, रामेश्वर 'अचल' इ प्रे ३ ००  
 अपराध दुवे, हरिदत्त. प्रतिमा ४.५०  
 —, अपराधी, और अभियुक्त वर्मा, परिपूर्णानंद रामप्रसाद  
 ७.५०  
 —और दड दोस्तोवस्की कि. महल. ४ ००; — —गगा  
 ७ ००, — —प्रभात प्र. ४ ००  
 —विज्ञान एव दड विधान की रूपरेखा पाडेय, गिरजाशकर.  
 साथी. १०.००



अपराध शास्त्र रागेय राघव . विनोद १०००  
 अपराधिनी शर्मा, यज्ञदत्त सा प्र ५००  
 अपराधी चतुर्वेदी, सीताराम अ भा विक्रम ०५०  
 अपराधी शर्मा, पृथ्वीनाथ स ३ हि भवन ०७५  
 अपराधी शर्मा, राजेश अर्चना प्र (पा) १००  
 —कौन ? इद्र विद्यावाचस्पति राजपाल ५००  
 —कौन मेहता, रमेश देहाती २००  
 अपराधो की छाया मे सूर्या कमलानी कि महल १००  
 —के भगवान गौड, पुरुषोत्तमदास 'कोमल' सुरेद्र २५०  
 अपरिचिता ठाकुर, रवीन्द्रनाथ कि महल २००  
 अपरोक्षानुभूति शकरस्वामी गीता ०१६  
 अपवाद रमेश चौधरी, ए 'आरिगपूडि' भा सा सदन ४५०  
 अपूर्ण कथा दिनेश्वरलाल 'आनन्द' ग्रथ भ  
 अपूर्व प्रतिकार गगार्सिंह स ३ नेचर ०७५  
 —वगाल वरेरकर, मामा आत्माराम १५०  
 अप्टूडेड कशीदाकारी गुप्त, मिथिलेशकुमारी, सग्रा भाग्योदय  
 ३.००  
 अप्रकाशित तीन उपन्यास चट्टोपाध्याय, शरत्चन्द्र चौधरी  
 ३००  
 —राग पत्की, ज दे ३ भा सगीत १५० (प्र)  
 अप्सरा त्रिपाठी, सूर्यकांत 'निराला' गगा ४००  
 अप्सरा मधुर कल्याणदास १५०  
 अफगानिस्तान दि लायन्नेरी ०६२  
 अफगानिस्तान शर्मा ओरिएटल ०७५  
 अफसर, वीविया और मेरे दोस्त की कहानी गुप्त, भैरवप्रसाद,  
 सपा धारा  
 अफसाना गोविंदसिंह कन्हैयालाल  
 अफीम का अड्डा डायल, कानन ज्ञान प्र २००  
 अफीका मदनगोपाल राजकमल २००  
 —और एशिया वेदप्रकाश सिंह दि पु स १५००  
 —का आदमी सगर सत्यप्रकाश राजकमल ३७५  
 —की लोक-कथाए श्रीकृष्ण . आत्माराम १२५  
 —की विजय श्रीवास्तव, रामस्वरूप नद ब्र एव नद स  
 १५०  
 —के आचल मे शभू 'विकल' सध्या २५०  
 —जागा एन्क्रमा सस्ता ३५०  
 —मे गाधी डोक, जोसेफ जे अ भा सर्व १००  
 अब, तब और जब प्यारेलाल 'आवारा' रूपसी ३००  
 —तुम ही बताओ प्यारेलाल 'वेदिल' एस चाद ५००  
 —न कहना मातृ-भाषा २२५  
 अबला की आत्मकथा पाठक, चन्द्रशेखर आदर्श हि २००  
 —क्या ऐसी सबला राधिकारमणप्रसाद सिंह, राजा अशोक  
 प्रे २५०  
 अब हम आजाद हैं भारतदास, जे राजकमल ०.७५  
 अब्दुरहीम खानखाना समयवहादुर सिंह सा सदन चि  
 १०००  
 अब्वास की सर्वश्रेष्ठ कहानिया उपेन्द्रनाथ 'अस्क', सपा नीलाभ  
 अब्राहम वीरा २००

अब्राहम लिंकन मदान, वद्वनाथ राजकमल १००  
 अभागा गोर्की, मैक्सिम नवयुग प्र ३५०  
 अभागिन शर्मा, जगदीश देहाती १२५  
 अभागिनी अन्ना इ प्रे भा १ २२५, भा २ २००  
 अभागी का स्वर्ग चट्टोपाध्याय, शरत्चन्द्र प्रभात प्र २००  
 —बहनो की आत्म-कहानी कृष्णकुमारी देवी आदर्श हि २५०  
 अभागे का भाग्य ह्यूगो, विक्टर आदर्श हि ८००, —  
 रामलोचन (पा) १००  
 अभिजात हरीमोहन . हि प्रचा पु ३००  
 अभिज्ञान शकुतला कालिदास सहगल १२५  
 —शकुतला नाटक लक्ष्मणसिंह, राजा अनु ग्रथमाला १.००,  
 — —रामप्रसाद ०६४  
 —शाकुतल इदुशेखर, अनु आत्माराम ३.००  
 — शाकुतल कालिदास ज्ञानपीठ १७५  
 —शाकुतल मिश्र, ठाकुरदत्त कि महल १५०  
 —शाकुतल राधाकृष्ण, रूपा भा ज्ञानपीठ १७५  
 —शाकुतल विराज राजपाज ३००  
 —शाकुतल—केवल चतुर्थ अक जगदीशलाल. शास्त्री, टीका  
 मोतीलाल १००  
 —शाकुतलम् (चतुर्थ अक) कालिदास रा वेनीप्रसाद  
 १००  
 —शाकुतलम् (अक चतुर्थ) त्रिपाठी, बाबूराम रतन २२५  
 —शाकुतलम् चतुथ अक द्विवेदी, कपिलदेव रा वेनीमाधव  
 ६००  
 अभिधर्म कोश नरेन्द्रदेव, अनु हिंदु एकेडेमी भा १ १२००,  
 भा २-३  
 अभिधान अनुशीलन विद्याभूषण 'विभू' हिंदु एकेडेमी  
 १२००  
 —चितामणी. हरगोविंद शास्त्री, व्या चौखवा २०००  
 अभिनय तिवारी, गोपीनाथ नद ब्र १५०  
 अभिनय राजेश्वरप्रसाद सिंह मोतीलाल ३००  
 अग्रेजी-हिंदी कोष भट्ट, केदारनाथ गयाप्रसाद ७२५  
 —एकाकी सुमन जोशी, विष्णु अबालाल कृष्णा ब्र १५०  
 —के चित्र गणेशदत्त 'इद्र' मानकचद ०८७  
 —चतुर्वेदी गणेशदत्त 'इद्र' पु भ ३५०  
 —दर्पण देवदत्त शास्त्री कि महल २५० (अप्रा)  
 —भारती ओभा, प्रफुल्लचन्द्र 'मुक्त' ज्ञानपीठ ०.७५  
 —हिंदी कोष शर्मा, हरिशंकर गयाप्रसाद ८००  
 अभिनव अनुवाद शुक्ल, श्रीधर नवयुग पु भ ०७५  
 —एकाकी प्रसाद, राजकुमारी नेशनल ३.५०  
 —एकाकी भटनागर, महेंद्र लायल ४००  
 —गीत सुधा भट्ट, चन्द्रशेखर एस चाद १.२५  
 —दर्पणम् उमानाथ बली भातखडे ३००  
 —नाट्यशास्त्र चतुर्वेदी, सीताराम अ भा विक्रम. १२.००  
 — —कि महल २०००  
 —नीति कथा. मिश्र, देवनाथ गयाप्रयाद १२५  
 —पर्यायवाची कोश गुप्त, सत्यपाल आर्य बुक. ६.५०  
 —प्राकृतिक चिकित्सा मुखर्जी, कुलरजन. आरोग्य ४.००

- अभिनव भारत के प्रकाश स्तम्भ. गुलाबराय लक्ष्मी ना १.२५  
 —भाषा विज्ञान नरेन्द्रनाथ, आचार्य. रामा प्र ६००, ८.००  
 —शवच्छेद विज्ञान कुलश्रेष्ठ, हरिस्वरूप मेडिकल १५.००  
 —शिक्षण-शास्त्र चतुर्वेदी, सीताराम हि सा कु ६२५  
 —संस्कृत व्याकरण तथा अनुवाद विधि. आर्य बुक ४.००  
 —हिंदी व्याकरण पाठक, लक्ष्मणदत्त हि सा स. भा १  
 ०.५०, भा २ ० ७५  
 —हिंदी व्याकरण तथा नवीन रचना आर्य बुक ४००  
 अभिमन्यु की आत्महत्या यादव, राजेन्द्र. राजकमल ३००  
 अभिमान भरी अवस्थी, मणिलाल 'रसिक'. आदर्श पु म  
 १.५०  
 अभियान भटनागर, महेन्द्र प्रबुद्ध १.५०  
 —का पथ मडल, अनूपलाल ग्रथमाला ५५०  
 अभिलाषा श्रीवास्तव, कपिलदेव स. २. हि प्रचा म ३००  
 अभिशप्त यशपाल विप्लव ३५०  
 अभिशप्ता शुक्ल, शत्रुघ्नलाल. शारदा म ३००  
 अभिशाप दत्त भारती पजावी पु ३५०  
 अभिशाप मुशी, क मा नवयुग प्र. ६००  
 —की छाया चट्टोपाध्याय, वकिमचन्द्र कि महल २.५०  
 अभिषेक चतुर्वेदी देवीदयाल 'मस्त सरस्व प्रे २००  
 अभिषेक मिश्र, ठाकुरदत्त. कि महल १५०  
 अभिषेकिता पत, सुमित्रानन्दन राजकमल. ३००  
 अभिसार साहू, किशोर. कि महल. ३.५०  
 अभी तो मैं जवान हू. स्टार. (पा) १००  
 —पुण्य शेष है ब्रोकर, गुलाबदास हि ग्र २ ३५०  
 —, बिल्कुल अभी केदारनाथ सिंह नया सा. प्र ३.५०  
 अभ्युद्यति श्रेयसद निर्वाणपदम् गोविंद राजानक.  
 विश्वेश्वरानन्द ० २५  
 अमभरा की घाटी में. शर्मा, सत्येन्द्र प्रेम प्र २.५०  
 अमन की उगलिया कृष्णचन्दर नवयुग प्र. ३००  
 अमर अभिलाषा चतुरसेन, आचार्य. ज्ञान प्र. ५.००  
 —आत्माए महेन्द्र, रामचरण विश्वेश्वरानन्द १ २५  
 —आन हरिकृष्ण 'प्रेमी' हि भवन. १ ५०  
 —आशा. श्रीमन्नारायण किताबिस्तान. ३ ७५  
 —कथाए आनंदकुमार राजपाल १.२५  
 —कथाये रतिभानु सिंह 'नाहर'. छात्रहितकारी. १ २५  
 —काव्य गहलोत, जगदीशसिंह स. ३ हि सा म, जो  
 ४००  
 —जवाहरलाल. नगायच, प्रकाश. पजावी पु १ ५०  
 —ज्योति मदान, इन्द्रनाथ हि भवन. २ ५०  
 —ज्योति मोहन. ववई प्र. १ २५  
 —ज्योति. राय, निशीथकुमार इ. प्रे १.००  
 अमरनाथ चट्टोपाध्याय, शरत्चन्द्र वीरा. २ ५०  
 अमरनाथ जैन, यशपाल. सस्ता. ० ४०  
 —दर्शन हसराम दर्शक दि पु स १ ५०  
 अमर प्रेम ललितेग हि सा सृजन. १ ००  
 —प्रेम. स्टोन, इरविंग. राजपाल ४ ००  
 —बलिदान. नरेन्द्र 'राव' लोक चेतना १.५०

- अमर वापू. अवस्थी, जगमोहननाथ न्यू लिट. १ २५  
 —वापू प्रधान, कमलापति राष्ट्रीय प्र मडल एव राष्ट्रीय  
 सा. स २ ५०  
 —बेल खन्ना, हरिश्चन्द्र. नेशनल ३.००  
 —बेल. वर्मा, वृ दावनलाल. मयूर ५ ००  
 —बेलि. विश्वनाथ प्रसाद स २. सा सेवक. ३.२५  
 —भारत हरनन्दन प्रसाद ग्रथमाला. १ ५०  
 —भारती जय ! शिवसिंह 'सरोज'. गंगा ३ ००  
 —मानव साधुराम श्री भा भारती २.००  
 —रहे यह देश रघुवीरशरण मित्र'. भा. सा. प्र. १ ५०  
 —राठौर पथिक. चौधरी. २ ००  
 —लता सकसेना, शम्भूदयाल नवयुग प्र कु ०.७५  
 —लती अर्जुनकुमार 'अशान्त' अशोक प्रे ० ७५  
 —लालसा देसाई, रमणलाल वसतलाल हि पु ए ३.५०  
 —वल्लरी और अन्य कहानिया वात्स्यायन, सच्चिदानन्द  
 हीरानन्द 'अज्ञेय'. सरस्व प्रे २.५०  
 —वाणिया. भाग्योदय. १.५०  
 —वाणी. मानसहस हिंद पा १ ००  
 —वेदना साकृत्यायन प्रभात पब्लि. २ ५०  
 —शहीद सरदार भगतसिंह शर्मा, देव देहाती १ ५०  
 —सदेश आनन्द ओरिएटल ० ७५  
 —साहित्यकार पाडेय, सुधाकर. राष्ट्रीय प्र मंदिर भा १.  
 ० ७५, भा २. १ ००, — — हि प्र म १.००  
 अमरसिंह चतुरसेन, आचार्य प्रभात प्र २ ५०  
 —राठौर न्यादरसिंह 'वेचैन' देहाती ० ७५  
 अमर सुहागिन मेघाणी, भवेरचन्द. वीरा १.५०  
 —सेनानी दिवाकर ज्ञानालोक १ ५०  
 —सेनानी कुअर सिंह. सहाय, शिवपूजन. सा. साधना. ० ७५  
 अमरा के देश में शर्मा, हरिदत्त सहयोग.  
 अमरीका दि लायवेरी ० ६२  
 —उसका भूगोल और विकास एस चाद.  
 —की लोक-कथाए वर्मा, सत्यभूषण वाल सदन.  
 —के विद्यार्थी. सत्यदेव, स्वामी रामप्रसाद ० ५०  
 —दिग्दर्शन सत्यदेव, स्वामी नवयुग प्र कु १.५०; — —  
 रामप्रसाद ० ६४  
 —भ्रमण सत्यदेव, स्वामी नवयुग प्र. कु ० ६४  
 अमरीकी चित्रकला का सक्षिप्त इतिहास फ्लेक्सनर, जेम्स  
 टामस आत्माराम २ ५०  
 — दर्शन तथा दार्शनिक ब्लो, जोसेफ एल. भा. भ १० ००  
 अमरुगतकम्. अमर, महाकवि मित्र १० ००  
 अमरुद, खीरा, ककडी, नीबू, अनार, वेर सर्वोदय १.५०  
 अमानत. कुशवाहा, जयत. चिनगारी ३ ५०  
 अमा निगा. दुग्गल, कर्तारसिंह सा सगम, लु ३.००  
 अमावस प्यारेलाल 'आवारा' स ४ रूपसी २ ५०  
 अमावस श्रीवल्लभ. अग्रवाल प्रि १ ००  
 —का चाद गोविंदसिंह आदर्श पु. म २ ५०  
 अमिट रेखाए. जैन, अक्षयकुमार कमल-कुंज प्र. एवं नेगनल  
 ३.५०

- अमित रेखाए. मल्लिक, सत्यवती, सग्रा सस्ता ३५०  
 अमितवेग चतुर्वेदी, सत्यदेव हिं सा सृजन ४५०  
 अमिता ओमीलाल 'इलाहाबादी' राष्ट्र प्रचा, इ २७५  
 अमिता यशपाल विप्लव ५००  
 अभिताभ पत, गोविंदवल्लभ गगा. ५५०  
 अमिया सव्वरवाल, कचनलता सा सदन, दे २००  
 अमीर इरादे गरीब इरादे चतुर्वेदी, माखनलाल स २  
 भा ज्ञानपीठ २००  
 अमूल्य उपदेश स २ कल्पवृक्ष २००  
 —औद्योगिक रहस्य कालीचरण देहाती ०५०  
 —रत्न भट्ट, लक्ष्मीनारायण रामप्रसाद ०७५  
 अमृत और विष अरुण आत्माराम २५०  
 —और विष दत्त भारती शारदा म ३५०, — —स्टार  
 (पा) १००  
 —और विष भट्ट, उदयशंकर आत्माराम २००  
 अमृतकन्या अज्ञात गगा ५००  
 अमृत का भरना त्रिपाठी, लक्ष्मण आत्माराम ०२५  
 —की खोज कल्याणदास १००  
 —की खोज श्रीवास्तव, हिमाशु वि ग्र कु १००  
 —की वृद्धे आनंदकुमार, सपा सस्ता १००  
 —की वृद्धे छत्रमल, मुनिश्री अ भा अगुवत १२५  
 —की वृद्धे ध्रुवमल, मुनिश्री आदर्श सा ११५  
 —की वर्षा रामवृक्ष वेनीपुरी कला-नि ०७६  
 —के घड़े अग्रवाल, पृथ्वीकुमार राजकमल १००  
 —के घूट. महेद्र, रामचरण गीता १००  
 —गीत मिश्र, गगाधर राष्ट्र प्र म २००  
 अमृतपुत्र गुप्त, सियारामगरण सा सदन, चि १५०  
 अमृतप्रभा राजेश्वरप्रसाद नारायणसिंह आत्माराम ०६२  
 अमृत वाणी गाधी, मो क साधना सदन १५०  
 —वेला नरूला, सुरेद्रसिंह राजकमल ४५०  
 —सतान महाती, गोपीनाथ भा भ १२००  
 अमेरिकन जन-शिक्षा का स्वरूप चौहान, एन एस गयाप्रसाद  
 ५००  
 अमेरिका मजुमदार, विमानविहारी ग्रयमाला १००  
 —का अभ्युदय नेव्हिस एस चाद ६००  
 —का आर्थिक विकास सिंह, वी के नद ब्र एव नद स  
 २००  
 —का सविधान (प्रश्नोत्तर) मोतीलाल ०६४  
 —का सविधान वर्मा, कन्हैयालाल नद ब्र एव नद स  
 ६००  
 —की लोक कथाए वर्मा, शुभा हिं भवन १५०  
 —के अभिप्रायासी वीरो की कहानिया आदर्श पु म २५०  
 —के दस आधुनिक महापुरुष कूपर, एलाइस सिसिलिया  
 एस चाद २००  
 —के महान् उदारवादी मेसन, नेत्रील रिचर्ड इ प्रे २५०  
 —मे नेहरू राजकुमार हिं प्रचा पु १७५  
 —मे शिक्षा चौधे, सरयूप्रसाद रा वेनीमाधव ५००  
 अमेरिकी सभ्यता लर्नर, मेक्स आत्माराम १०००

- अयोध्याकांड श्यामसुंदरदास, सपा इ प्रे ३५०, — — ना  
 प्र सभा ३००  
 अयोध्याकांड हरदयालु सिंह लक्ष्मी ना १७५  
 —का काव्य-सौंदर्य राकेश लक्ष्मी ना ५००  
 अयोध्याकांड (मूल तथा टीका) मोतीलाल ४००  
 —रामायण रत्नाश्रम १७५, — —स्वरूप १००  
 अयोध्या का इतिहास सीताराम हिंदु एकेडेमी ६००  
 अयोध्याप्रसाद कृतित्व विश्लेषण उमाशंकर कला भा ३००  
 अयोध्याप्रसाद खत्री स्मारक-ग्रंथ वि राष्ट्र ५००  
 अयोध्याप्रसाद व्यक्तित्व विश्लेषण उमाशंकर कला भा  
 २००  
 अरड के गुण तथा उपयोग दीक्षित, रामसनेही देहाती १.२५  
 अरक्षणीया चट्टोपाध्याय, शरतचंद्र कि महल एव नवयुग  
 पु भ १२५  
 अरक्षिता धवन, देवीप्रसाद 'विकल'. गगा २७५  
 अरण्यकांड हिं प्रचा पु १.००  
 अरव और भारत के सवध सुलैमान नकवी, सैयद हिंदु  
 एकेडेमी ८००  
 —का सक्षिप्त इतिहास हिंदी श्री प्रभाकर ८००  
 —की कहानिया स्वदेशी, आचार्य . आ भा नव-लेखक  
 ०५०  
 —की लोक-कथाए शर्मा, जगन्नाथ. आत्माराम १२५  
 —के बहू गुप्त, योगेन्द्रनाथ इ प्रे २७५  
 —देश श्याम सन्यासी राजकमल. २००  
 अरबो के देश मे व्यास, गोपालप्रसाद आत्माराम ३५०  
 अरमान सोमनाथ 'अकेला' कन्हैयालाल ४.००  
 अरमानो की दुनिया कृष्णसिंह, कुवर सा सेवक ३५०  
 अरस्तू शर्मा, शिवानंद हिं समि ३५०  
 —का काव्यशास्त्र नगेद्र भा भ ५००  
 —का काव्यशास्त्र चतुर्वेदी, सीताराम, सपा सा सेवक  
 १००  
 अरावली का शेर चतुर्भुज स ४ साधना म १५०  
 अरिस्तू की राजनीति अरिस्तू हिं समि ८००  
 अरी ओ करुणा प्रभामय वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद  
 'अज्ञेय' भा ज्ञानपीठ ४००  
 अरुण हिंदी व्याकरण वर्मा, सावित्री स २ गुप्ता प्र ४००  
 अरुण हिंदी व्याकरण तथा रचना विश्वनाथ राहुल यग मैत्र  
 २.८७  
 अरुणोदय विराज नेशनल ४००  
 अरे मेरे भैया पाठक, अनसूयाप्रसाद राष्ट्र पु भ २५०  
 —यायावर रहेगा याद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद  
 'अज्ञेय' सरस्व प्रे ६००  
 अरेरे के पर्वत पर स्वरूप ०७५  
 —के पर्वत पर भटनागर महेद्र भोपाल ०७५  
 अर्घ मार्तण्ड मुकुंदवल्लभ मोतीलाल १२००  
 अर्चन गुप्त, हरगोविंद गृहपति ०६२  
 अर्चना आनंद, रामकुमार, सपा गिरिधर ३००  
 अर्चना पालीवाल, हरिदत्त 'निर्भय' शारदा साधना २५०

- अर्चना. मालविका, विद्यावती. हि प्रचा. पु २५०  
 अर्चना वेद, विमल दि. प्रे ३००  
 अर्चना श्रीवास्तव, राजाराम न्यू लिट. १५०  
 अर्जन और विसर्जन गुप्त, मैथिलीशरण. सा सदन, चि.  
 ०४०  
 अर्जुन चोपडा, सुदर्शन. उमेश २.००  
 —, कर्ण कि महल. १५०  
 अर्थतत्व की भूमिका शिवनाथ. ना प्र सभा ६००  
 अर्थनैतिक वाणिज्य भूगोल. राय, एल बुकलेड. ३५०  
 अर्थमानव गोर्की, मैक्सिम प्रभात प्र ६००  
 अर्थ वाणिज्य निवध निदर्शन किशोर पब्लि ३००  
 अर्थविज्ञान सक्सेना, बाबूराम रा. वेनीमाधव ४००  
 —और व्याकरणदर्शन द्विवेदी, कपिलदेव हिंदु एकेडेमी  
 १२००  
 अर्थ-व्यापार शब्दावली मजुमदार, एम्. बुकलेड १५०  
 अर्थशास्त्र जोशी, मुरलीधर अपर १०००  
 अर्थशास्त्र. प्रमानद प्रसाद पु भ ५००  
 —और विहार के किसान अग्रवाल, अमरनारायण. कि. महल.  
 १.५०  
 —और वाणिज्य शास्त्र की शिक्षा चुक्ल, रमापति नद ब्र  
 एव नद स ३००  
 —का दिग्दर्शन. जोशी, जी एल सशो. स ३. आगरा बुक  
 ८००, वाणिज्य स. ६५०  
 —का परिचय अग्रवाल, अमरनारायण कि महल ७००  
 —का परिचय गुप्त, रामप्रकाश यग मैन ३००  
 —का परिचय लवानिया, गौरीशकर.. नद. ब्र. एव नद स  
 ५००  
 —का प्रारम्भिक ज्ञान नागर, गिरिजाशकर नद ब्र एव नद  
 स. २.५०  
 —का सरल अध्ययन. केला, ओमप्रकाश भा प्र. १७५  
 —का सरल अध्ययन. त्रिपाठी, जगदीशनारायण आगरा बुक  
 ६००  
 —का सरल ज्ञान अग्रवाल, श्रीनारायण... रा वेनीमाधव  
 २००  
 —की पृष्ठ भूमि. अग्रवाल, श्रीनारायण . रा वेनीमाधव.  
 ८००  
 —की भूमिका रघुवर्ण सिंह मोतीलाल ५००  
 —की रूपरेखा दुवे, दयाशकर स. ३ रा. वेनीमाधव ६००  
 —की रूपरेखा मित्तल, सतीशचद्र. स १९६३ लायल.  
 भा १ २८०, भा २ २००, भा. ३ ४००; संपूर्ण  
 ७००  
 —की रूपरेखा राधारमण पु भ, रा. २७५  
 —की विवेचना चतुर्वेदी, दूधनाथ कल्याणदास ७००  
 —की सरल रूपरेखा देराश्री, सत्यदेव. लक्ष्मी ना ७५०  
 —के आधुनिक सिद्धांत ड्यूवेट, केवलकृष्ण एस चाद ११००  
 —के प्रारम्भिक नियम जैन, एल भी एन चाद ३७५  
 —के प्रारम्भिक सिद्धांत ड्यूवेट. केवलकृष्ण. एस चाद ७२५  
 —के प्रारम्भिक सिद्धांत देराश्री, सत्यदेव लक्ष्मी ना ६००

- अर्थशास्त्र के मूल आधार गौड, कृपाशकर. केदारनाथ.  
 ७.५० से ६००  
 —के मूलतत्त्व मिश्र, सच्चिदानंद. आदर्श पु भ ८.००  
 —के मूलतत्त्व सक्सेना, एस सी मानकचद ६.५०, ८.५०  
 —के मूल सिद्धांत अग्रवाल, श्रीनारायण. स ३. रा  
 वेनीमाधव ७.००  
 —के मूल सिद्धांत. अवस्थी, भगवानदास हिंदु एकेडेमी.  
 ३००  
 —के मूल सिद्धांत शर्मा, के. के किशोर पब्लि २२५  
 —के सरल सिद्धांत सक्सेना शकरसहाय रा. वेनीमाधव  
 २००  
 —के सिद्धांत. अग्रवाल, अमरनारायण. कि महल ५.००  
 —के सिद्धांत. केला, ओमप्रकाश... भा. प्र ५००  
 —के सिद्धांत खोसला, रोशन यूनियर्सिटी. ४.१०  
 —के सिद्धांत. गुप्त... गयाप्रसाद ४.५०  
 —के सिद्धांत. गुप्त, रघुवरदयाल यग मैन. ७२५  
 —के सिद्धांत गोयल. भा २ रस्तोगी. ६००  
 —के सिद्धांत. जैन, रघुवीरसिंह.  
 —के सिद्धांत जैन, रघुवीरसिंह रस्तोगी. १५.००  
 —के सिद्धांत. द्विवेदी, आर एस आगरा बुक ६.००  
 —के सिद्धांत भटनागर रस्तोगी  
 —के सिद्धांत भटनागर, क प . कि. घर, का भा. १  
 ६२५, भा. २ ४.५०; १०५०  
 —के सिद्धांत भट्टाचार्य, ए. बी भा. १ विनोद ५००  
 —के सिद्धांत. मल्होत्रा, गोवर्धनलाल... रतन. ५.५०  
 —के सिद्धांत मित्तल, एस सी. ओरियन्टल पब्लि. १५.००  
 —के सिद्धांत मित्तल, सतीशचद्र लायल ४.५०  
 —के सिद्धांत मुखर्जी, परिमलचद्र. मोतीलाल ३.५०  
 —के सिद्धांत. राधारमण पु भ, रा. ४००  
 —के सिद्धांत श्रीवारतव, श्रीनारायण भा. १  
 आगरा बुक. ४००  
 —के सिद्धांत सक्सेना, महिमाचरन. सा नि, का ३५०  
 —के सिद्धांत सक्सेना, गकरसहाय सगो स. २ श्रीराम  
 मेहरा १०००  
 —के सिद्धांत सचदेव गुरदास ३६५  
 —के सिद्धांत सिंह, एम पी सा भवन, आ ८.००  
 —के सिद्धांत सुदरम् रतन १४००  
 —के सिद्धांत तथा विश्लेषण उपाध्याय, कपिलदेव लक्ष्मी ना.  
 १०००  
 —परिचय तेला .. कृष्णा ब्र ६.००  
 —परिचय सेन बुकलेड ११००  
 —प्रवेगिका अग्रवाल, अमरनारायण कि महल १.७५  
 —प्रवेगिका देराश्री, सत्यदेव २ भा लक्ष्मी ना. २.७५ (प्र)  
 —प्रवेगिका पाडेय, के एन कला-नि १.५०  
 —प्रवेगिका सक्सेना, गकरसहाय श्रीराम मेहरा. ६.००  
 —प्रश्नोत्तरी पारासर, उमाशकर आगरा बुक ५.००  
 —विवेचन निगम, दुर्गादयाल... न. २ आगरा बुक. ६.००  
 —शिक्षण. त्यागी, गुरुनारायणदास. विनोद. ४.००

- अर्थशास्त्र शिक्षण शर्मा, ए पी गयाप्रसाद ५००  
 — शिक्षण-विधि मिश्र चंद्रभानु 'प्रभाकर' हिं सा भ १५०  
 — निष्ठात का विकास त्रे, अलेग्जैंडर एस चाद ७५०  
 अर्थशास्त्रीय विष्लेषण महेशचंद्र एस चाद ४००  
 अर्थहीन रघुवज नेशनल ४५०  
 अर्थान्तर श्रीभा, मन्हीयालाल अशोक पु म ६००  
 अर्थों की वरात ज्यामलाल 'मधुप' अनुपम ६००  
 अर्थ-कथा गुप्त, माताप्रसाद हिं सा परिपद १००  
 अर्थकथानक नाथूराम प्रेमी, सपा हिं य र ३५०  
 अर्थनारीश्वर रामधारी मिह 'दिनकर' उदगाचल ५००  
 अर्थशताब्दी इतिहास (सभा का) मिश्र, विज्वनाथप्रसाद, सपा ना प्र सभा ३००  
 अर्वाचीन भारत का इतिहास ईश्वरीप्रसाद तथा सूवेदार इ प्रे १२००  
 — भारतीय शिक्षा का विकास तथा समस्याए योगेद्रजीत, भाई सरस्व म ८००  
 — यूरोप भटनागर, कालीशकर. २ भा प्रकाश बुक ६०० (प्र)  
 — यूरोप का इतिहास (प्रश्नोत्तर) रामगिह नद स भा १६००, भा २५००  
 — यूरोप भटनागर, कालीशकर किशोर पव्लि ६००  
 — यूरोप (१४४३-१६६२) मेहरोत्रा, प्रभुदयाल अपर ११००  
 — लोक-कथाए मनमोहन सरल. आत्माराम १५०  
 अर्थ राधेश्वरी 'प्रतिभा' त्रिवेणी ३००  
 अर्थ मल्लियानी जीवनी और मवलन राजपाल १५०  
 अर्थ अरिष्टनेमि और वासुदेव कृष्ण श्रीचद रामपुरिया जैन श्वेतावर १२५  
 — का शाप जान ओ' हिंद दि प्रे ३७५  
 अलकार कुशवाहा, श्रीतेज नारायण एम एल बुक १००  
 — कौमुदी परमेस्वरानंद शास्त्री श्री भा भारती २५०  
 — चंद्रिका भगवानदीन 'दीन', लाला रा वेनीप्रसाद १००  
 — चार्ट गभीर हिं सा म ०३७  
 — चार्ट विजयकुमार अशोक प्र ०४०  
 — छद परिचायिका अगवाल, रामदुलारी सुरेद्र ०३७  
 — परिचय चंद्रेशर शास्त्री रा वेनीमाधव ०६२  
 — परिचय नरोत्तमदास स्वामी लक्ष्मी ना १२५  
 — पारिजात टेकचद शास्त्री श्री भा भारती २५०  
 — पारिजात नरोत्तमदास स्वामी लक्ष्मी ना २७५  
 — रिगल शौर रस श्रीवास्तव, हरिमोहनलाल नवीन सगो स ति घर, न्वा ०५०  
 — पीषप (प्रवाहं तथा उत्तगर्द) नुन, रामगजर 'रसात' रा वेनीमाधव २०० (प्र)  
 — प्रताप शुक्ल, रामचहोरी हिं भवन ०५०  
 प्रताप सुस्ती-मिह, सपा भा प्र म्दिन ३००  
 प्रताप और पिता-जानुदी शर्मा, आर्षेद्र हिं सा सम्मे ०५०

- अलकार प्रदीप गौतम, जयनारायण रीगल १५०  
 — प्रदीप ससारचंद्र श्री भा भारती २५०  
 — प्रबोध पाडेय, शम्भुनाथ विनोद १००  
 — प्रश्नोत्तरी टडन, मायारानी, सपा हिं सा भ १००  
 — मज्जा भगवानदीन 'दीन', लाला स १० रा वेनीप्रसाद २२५  
 — मुक्तावली शर्मा, देवेद्रनाथ ग्रथमाला ३२५  
 — रस और छद दीक्षित, श्यामसुंदरलाल कृष्णा ब्र ०५०  
 अलकारवाद तत्त्व और पद्धति विश्वनाथ सिंह अर्चना प्र, आ  
 — विवेचन तिलकधर शास्त्री हिं सा स ११२  
 अलकारिका मनोहर प्रभाकर कल्याणमल ०६०  
 अलका चतुर्वेदी, सीताराम स २ अ भा विक्रम २००  
 अलका त्रिपाठी, सूर्यकान्त 'निराला' गगा ३७५  
 अलका मुसाफिर लायलपुरी अजय २५०  
 अलख निरजन आचार्य, गुणवत चौधरी ४५०  
 अलग-अलग रास्ते उपेद्रनाथ 'अशक' नीलाभ ३००  
 — अलग रास्ते, सराय के बाहर गाइड हिं सा भ १२५  
 अलगोजी व्यास, श्रीमनकुमार नवयुग अ कु २००  
 अलगयोभा प्रेमचद सरस्व प्रे ०५०  
 अलफलैला अर्थात् सहस्र रजनी चरित्र जैन, रूपकिशोर, अनु श्यामलाल ४००  
 अलवेस्ती का भारत सतराम इ प्रे भा ११७५, भा २ २७५, भा ३ ४७५  
 अलवेला जयप्रकाश नवयुग प्र १५०  
 अलवेली कहानिया जैन, श्रीचंद्र ओरिएटल ०७५  
 — पक्षी त्रिपाठी, रमाकात मजु ३५०  
 — वल्लिया जैदी, कुदसिया आत्माराम २००  
 अलमोडा की लोक-कथाए मटियानी, शैलेश आत्माराम. १५०  
 अलसाई आखे दीक्षित, राजेश कि महल ३००  
 अलाव नाटिकावली शर्मा, रामनिरजन ग्रथालय २००  
 अलिफ लैला शर्मा, विश्वमित्र राजहस ५००  
 अली आदिलशाह का काव्य-संग्रह शर्मा, श्रीराम क मु हिं ४५०  
 अलीबाबा और चालीस चोर दीक्षित, जगदीश 'आनंद' राजपाल ०७५  
 — चालीस चोर मिश्र रमेशचंद्र फ्रैंक ०७५  
 अलौकिक चिकित्सा विज्ञान रामचरक, बाबा कतपवृक्ष २००  
 — भस्तियोग सहाय, चतुर्भुज म २ साधन १७५  
 अवतिकामारिया देवदत्त शास्त्री चौखवा २००  
 अवतीनाथ धूमकेतु वीरा ५५०  
 अवगुठन सगर, सत्यप्रकाश अवध २००, — — राजकमल २०५  
 अवतरण गुरुदत्त भा सा सदन एव सा सदन, दे ६००  
 अवतार कथाए देवदत्त शास्त्री माहनी. ०७५  
 — पुरुष श्रीगुरु गोविंदसिंहजी निराला म २ नेचर ०.२५  
 अवध की नवावी सेन, चडीचरण. छात्रहितकारी. २५०

- अवध की लोक-कथाएँ कौल, गोपालकृष्ण भा. १. आत्माराम १ २५
- की लोक-कथाएँ भिवमूर्तिसिंह 'वत्म' भा २ आत्माराम १ २५
- की शाम अहमद अन्वाम, रवाजा नीलाभ ३ २५
- के प्रथम दो नवाब (१=६०-१७५४) श्रीवास्तव, आजीर्वादीलाल जिवलाल १० ५०
- अवधी और उनका साहित्य दीक्षित, त्रिलोकीनारायण राजकमल २ २५
- कोष द्विवेदी, रामाज्ञा 'ममीर' हिंदु एकेडेमी ७.५०
- लोकगीत और परंपरा पांडेय इंदुप्रकाश, सपा रा वेनीप्रसाद. ५ ००
- अवला. कृष्णानंदप्रसाद सिंह मगध २ ५०
- अवशेष. पांडेय, मुधाकर रामप्रसाद २.००
- अवसाद ममता, श्रीमती ड प्रे. १ २५
- अवसाद. विठ्ठलभर 'मानव' कि महल ० ७५
- अवहेलना प्रकाश 'भारती' भा सा सदन १ ७५, (पा) १ ००
- अवेस्ता राजाराम गान्धी विश्वेश्वरानंद १ २५
- अशफाक, लाहिडी गुप्त, मन्मथनाथ कि. महल ० ४०
- अज्ञात व्यास, विनोदशंकर प्रचा पा १ ००
- विश्व को शांति का नदेश तुलसी, आचार्यश्री जैन श्वेताम्बर. ० २५
- अक्ष अमृता पीतम आत्माराम ३ ००, — —हिंद पा. १ ००
- अशोक. गोविंददास, सेठ एस चाद २.५०
- अशोक चंद्रगुप्त विद्यालकार राजपात २ ५०
- अशोक पांडेय, रामदयाल ज्ञानपीठ १ ५०
- अशोक पावरी, भगवतीप्रसाद सा केन्द्र ५ ००
- अशोक धेदी, रामेश आत्माराम १ ००
- अशोक भंडारकर एन चाद ७ ५०
- अशोक मिश्र, लोनीनारायण पु भ २ ५०
- के अभिनेता पांडेय, राजवली ज्ञानमंडल
- के धर्म लेख प्र विभाग १ ००
- के पुत्र एक विवेचन पाठक, कृष्णकुमार अशोक प्र. १ ५०
- के पुत्र द्विवेदी हजारीप्रसाद हस्ता ३ ००
- के पुत्र एक आययन शर्मा रतननाथ हि ना. म. १ ५०
- के पुत्र एक नमीक्षा मिश्र, विहारीलाल नदि १ ००
- के पुत्र शर्मा लालबिरेदी आत्माराम २.००
- तथा अन्य एंगोली नाटक वि ७ प्रभाकर रा वेनी-प्रसाद २ ००
- विशेष नाटक भिवमूर्तिसिंह गान्धी अशोक प्र ३ ००
- विशेष नाटक दिव्यकृष्ण, न. १. अशोक प्र ५ ००
- एक लेखक भिवमूर्तिसिंह गान्धी अशोक प्र २ ५०
- एक हिंदी शब्दकोश 'भारती' जगन्निन्दर हि ना. म. ३.७५

- अशोक महान्. शुक्ल, अमरनाथ विद्या प्र. मं. ० ७५
- माला (कथामरित्सागर से) भा भ ० ५०
- लोकोक्तियाँ और मुहावरे. शुक्ल, अमोल अशोक प्र. १ ५०
- वन शर्मा, गोकुलचंद्र हि प्र म १ ५०
- वन बदनी तथा अन्य गीतिनाट्य. भट्ट, उदयशंकर एस. चाद ३ ००
- वैद्य विशारद गाइड पांडेय, ज्ञानेन्द्र अशोक प्र भा १ ६ ००, भा २ ६ ००
- मक्षिप्त हिंदी शब्द सागर दयानंदनारायण 'स्वामी' हि. सा स ६ ००
- अशोभनीय पोस्टर्स भावे, विनोवा, अ भा सर्व ० ६०
- अस्क एक रगीन व्यक्तित्व कौशल्या अस्क नीलाभ. १०.००
- की श्रेष्ठ कहानियाँ उपेन्द्रनाथ 'अस्क' राजकमल. (पा) १ ००
- की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ उपेन्द्रनाथ 'अस्क' नीलाभ. ३.००
- अशु-गंगा गौड, सरयूपड़ा चौधरी ३ ००
- अशुमाल कवींद्र 'माहोर' रा वेनीमाधव ० ६२
- अशु-वीणा नथमल, मुनिश्री आदर्श सा १ ५०
- अश्वघोष और उनका काव्य हरिदत्त शास्त्री सा. नि, का ४.७५
- अश्वघोषकालीन भारत लाल, ए. विश्वविद्यालय.
- अष्टछाप. वर्मा, वीरेन्द्र रा वेनीमाधव १ ७५
- और वल्लभ सप्रदाय गुप्त, दीनदयालु २ भा. हि सा. सम्मे २० ००
- काव्य सांस्कृतिक मूल्यांकन टडन, मायारानी हि. सा. भ २५ ००, मक्षिप्त ६ ००
- परिचय मीतल, प्रभुदयाल सगो स २ सा सस्थान. ५ ००
- अष्टदल नद व. एव नद. स १ ००
- अष्टदल श्रेष्ठ 'मुमन' एस चाद १ ५०
- अष्टदल गोविंददान, सेठ रा धेनीप्रसाद १ २५
- अष्टदल राव, बालकृष्ण, सपा काशावी ३ ००
- अष्ट-मंगल. चतुरसेन, आचार्य श्री भा भारती ५ ००
- अष्टाध्यायी. वसु, एन नी मोतीलाल ४६ ००
- प्रकाशिका. पातजल, देवप्रकाश भा. प्राच्य ६ ००; — — मोतीलाल. ६.००
- मूल भा प्राच्य ० ६२
- अनंत्य नकल्प मिश्र, बलदेवप्रसाद लोक चेतना ०.६७
- असम. माचवे, प्रभाकर राजहंस १ ७५
- का इतिहास सीताराम गान्धी, टी न : टी. सीताराम. १.००
- का नवीन भूगोल सीताराम गान्धी, टी स ६. टी सीता-राम १ ००
- की लोक-कथाएँ 'ममता' अन्वाम १ ५०
- की लोक-कथाएँ. व्यास, श्रीजान भा १ आत्माराम १.५०
- असवी इन्तान पोन्डेरी, वीरिस पीपुन. २ ६२
- बड़ा हारमोनियम गाइड श्यामलाल. २.००

अननी मुर्गा छाप नुरेगसिंह, कुवर न २ राष्ट्रीय प्र मंदिर.  
२५०  
—हीन नकली हीरा वेद, विमल भा सा नदन ४००  
अनामान्य मनोविज्ञान पाडेय, जगदानद नवीन स तारा.  
७००, — —ग्रथमाना २००  
अनामान्य मनोविज्ञान भाटिया, हसगज परि न २ राज-  
कमल ६५०, ६००  
—मनोविज्ञान राय, रामकुमार चौखवा १०००  
असिधारा विराज नेशनल ३००  
अनीम बड़ोपाध्याय, राखानदान ना प्र सभा ५००  
—की नीमा जैन, यादवचंद्र औरिएटल ३००  
अस्थिदान. मिथ, जयकुमार कला नि २००  
अस्पताल मे पाडेय, छविनाथ जानपीठ ३००  
अस्पृश्यता गाधी, मो क नवजीवन. ०२०  
अस्पुट कलिया केडिया, वैजनाथ हि पु ए १५०  
अस्वीकृत गोविर्दिह नुभाप ५००  
अस्मी कहानिया व्याम विनोदगकर ना प्र सभा ११००  
—दिन मे दुनिया की सैर व्यान, श्रीकांत अनु राजपाल  
१५०  
—दिन मे पृथ्वी की परिक्रमा वर्ने, जुले. इ प्रे २७५  
अहंकार प्रेमचंद हस २५०  
अहवादी दोन्तोवन्की नाधना नदन ३००  
अहमद नदीम कासमी की सर्वश्रेष्ठ कहानिया उपेद्रनाथ  
'अरक', सपा नीलाभ  
—नदीम कासमी जीवनी और सकलन राजपाल १५०  
अहल्या राय, द्विजेद्रनाथ हि ग र १५०  
अहिमक आनि कृपलानी, आचार्य नाधना सदन ०६२  
—क्रांति की प्रक्रिया पत्राधिकारी, दादा अ भा सर्व ३००  
—शक्ति की सोज भावे, विनोवा अ भा सर्व ०.७५  
—नमाजवाद की शेर गाधी, मो क नवजीवन १००  
अहिंसा गाधी, मो क सा नाधना ०००  
—और उसके विचारक नथमल, मुनिश्री आदर्श सा ०७५  
—का पहला प्रयोग गापी मो क नवजीवन. १.५०  
—की विजय गामलाल मधुप अजना. २५०  
—की शक्ति प्रेग रिचर्ड डी सन्ना १५०  
—की सही नमक नथमल, मुनि गी आदर्श सा ०२५  
—के चचन मे नगराज, मुनिश्री आत्माराम १२५  
—तत्त्व दर्शन नथमल, मुनिश्री. आदर्श ना. ६००  
अहिंसात्मक प्रतिरोध हिनजा, सेनिल ई अ भा सर्व ०५०  
अहिंसा विदेक नगराज, मुनिश्री जैन श्वेतावर ७००  
अहिल्याबाई देजनाय मस्ता ०४०  
अहिल्याबाई वर्मा, वृ दावनगाज मयूर २०५  
आकाशका सान्याल, प्रबोधकुमार ना केंद्र ३५०  
आकिक भौतिक विज्ञान गर्ग, सर्वमान एन चाद ३.५०  
भौतिकी अथवान प्रजगजकिनोर रतन ४५०  
भौतिकी गुन... रदि ६२५  
वे चाके. हनराज 'हृदय पीपुल्स ६०५  
अ ओभा, मानचंद्र अभिज्ञान २००

आख का प्रचक इलाज पाडेय, महेद्रनाथ छात्रहितकारी २.२५  
—नी किरकिरी. ठाकुर, रवींद्रनाथ अर्चना प्र (पा) १.००,  
— —चिनगारी २००, — —प्रभात प्र ५००,  
— —श्यामलाल ४००, — —सन्मार्ग ५.००;  
— —सा. अकादमी ५००, — —हि ग र ३००,  
— —हिंद पा १००, — —हि प्रचा पु ४००  
—मिचौनी गाडगिल, नारायण द एस चाद ४५०  
—मिचौनी ट्वेन, मार्क. वर्ड प्र २००  
आखे गुप्त मन्मथनाथ राजपाल २५०  
—खोलो नथमल, मुनिश्री आदर्श सा. ०५०  
आखी का डाक्टर रामनारायण. देहाती २५०  
—की प्याम सुरेश पुष्पी ०७५, — —सुरेद्र २००  
—के तारे वर्मा नगेद्र ग्रथ भ १००  
—देखा केरल मालवीय, हर्षदेव पीपुल्स ०७५  
—देखा रूस नेहरु, जवाहरलाल. नवयुग प्र २५०  
—देखा रूस मजूमदार, सत्येन्द्रनाथ आत्माराम २५०  
—मे हरिकृष्ण 'प्रेमी' आत्माराम २५०  
आगन बल्लुआ बालकृष्ण गगा २००  
—का पछी बनजारा मन मिश्र, विद्यानिवास भा जानपीठ.  
३००  
—के पार द्वार वात्स्यायन, नच्चिदानद हीरानद 'अज्ञेय' भा.  
जानपीठ ३००  
—के फूल श्रीकृष्ण भा सा प्र ०५०  
आगल शिक्षा प्रणाली. गर्मा, वेदराम विचव प्र ५००  
आगुर वागुर चौधरी ०७५  
आचल ठाकुरप्रसाद सिंह कल्याणदान ३५०  
—और आसू निगम शिक्षारानी सहगल ३५०  
—का दीप अक्स्थी, मणिलाल 'रसिक' आदर्श पु. म १००  
—का दीप श्रीवास्तव, हिमागु सुभाप २२५  
—की आग अरोरा, ओमप्रकाश, शारदा म ५००  
—के फूल गर्मा, वाबूलाल 'प्रेम' ना भवन, इ ३००  
—मे दूध आखी मे पानी गर्मा, यादवेद्र 'चंद्र' सहगल  
५००  
आजनेय त्रिपाठी, जयशंकर कौशादी २००  
आधिया. सुशील चौधरी ३७५  
आधी गर्मा, श्रीराम राम' माहनी २५०  
—का दीया शर्मा महेगकुमार चौधरी ५००  
—की नीवे रागेय राधव आत्माराम २५०  
—के वाद टडन, लक्ष्मीनारायण 'प्रेमी' प्रेमी प्र एव हि  
सा भ ५००  
आध्र धानी, योगराज राजहन १७५  
—का सामाजिक इतिहास रेड्डी, मुखरम प्रताप सा अकादमी  
६००  
—की लोक-कथाए रमेश चौधरी, ए 'आरिगपूडि'. भा २  
आत्माराम १२५  
—की लोक कथाए राजशेणगिरिगव, के भा १. आत्माराम.  
१.५०  
—के महापुस्त. रेड्डी, बालगौरी सा साधना १.२५

- आध्र देश की कवीर श्रीवेमना. राममूर्ति, वारणासि 'रेणु'  
हि मा नम्मे १७५  
—भारती रेणु, वानजीरि. कला-नि ८५०  
—सातवाहन साम्राज्य का इतिहास. पाडेय, चद्रभान. नेगनल  
१०.००  
—हिंदी रूपक राव, पाटुरंग कला-नि ७.५०  
आवला वेदी, रामेश आत्माराम १२५  
आसुओ का देश. शर्मा, सत्यनारायण हि. प्रचा. पु. ३००  
—का मूल्य. हरीश चिनगारी १५०  
—का मगम वरगी, हृदयस नव सा. प्र ३५०  
आसू गाडेकर, वि स देशमुख ६००  
आसू जमनादास 'अर्तर' सहगल ३२५  
आसू प्रगाद, जयशकर भा भ १२५  
—श्रीर उसका कवि मिश्र, शिवकुमार मालवीय २.५०  
—श्रीर चिता. शर्मा, सत्येन्द्र प्रेम प्र ४००  
—श्रीर जिदगी सोनकर, राजनाथप्रसाद कन्हैयालाल ३.५०  
—श्रीर पत्थर शर्मा, वलदेवदत्त हि सा फेद ३५०  
—श्रीर पसीना रामप्रताप बहादुर सा भवन, ड २००  
—श्रीर मुस्कान खलील जिब्रान सस्ता १००  
—श्रीर मुस्कराहट खलील जिब्रान सहगल २७५  
—श्रीर मुस्काने श्रीमप्रकाश पजाबी पु २००  
—की तीन बूदे. शर्मा, रामवरन सा नि, व. २५०  
—की लकीर रामध्यान सिंह 'रोद्र' कन्हैयालाल ३७५  
—नही मुस्कान शर्मा, श्रीमप्रकाश रतन एड क ३००  
आ अथ लोट चले आनद, सुरेंद्र आनद प्र २५०  
आइस्टीन युगजीत नवलपुरी. पीपुत्स. १५०  
आइजनहोवर. कोनित्तर, वेला. एस चाद १.००  
आइये सयुगताक्षर पढे गालवीय, सोमदत्त आत्माराम ३५०  
—हिंदी पढे गालवीय, सोमदत्त आत्माराम २५०  
—हिंदी सीखे गालवीय, सोमदत्त आत्माराम ६००  
आइवन्हो रकाट, वाल्टर सा प्र १.५०  
आइस प्लाट (वर्क मशीन) कपूर, एच सी देहाती ४५०  
आइना (दर्पण) साजी वर्मा, चट्टाल 'चद्र' चद्र कार्या  
१.००  
—नामने रह कुज अलकापुरी भगध १००  
आइने के सामने तथा अन्य मस्मरणा उपेन्द्रनाथ 'त्ररक' नीनाभ  
आओ करे सचारी तिवारी, रामचद्र राजपाल ०७५  
—कहानी बनाए देवराज 'दिनेश' राकुन १५०  
—तेले मदाकिनी श्रीरिण्टल ०.७५  
—गाए शभुनाथ 'शेष' राजकमल. १.००  
—गिने सुरेगसिंह, कृष्ण राष्ट्रीय प्र मदिन ०७५  
—नले गावों की ओर गोपल. मुरलीमनोहर कल्याणमल  
०७५  
—जगमग दीप जलाये पाडेय, विष्णुकान्त ना गगम, मो  
१००  
—श्रीर अनाथ. मयूरन, नरिण राजकमल. ०७५  
—गाइत सेने सुन, मिदप्रसाद विजा प्र म ०७५  
—पदना नीरे वत्स्य, नतराम. रामप्रसाद. १.००

- आओ, पुस्तकालय चले. मित्तल, आर. एस. आत्माराम. १.००  
—बच्चो नाटक खेले. अनिलकुमार ३ भा. लोक चेतना.  
२५०  
—बच्चो सुनो कहानी. विजय निर्वाध. कल्याणमल. १२५  
—बच्चू गाए गीत. सत्यप्रकाश 'मिलिंद' राजीव, दि.  
१००  
—मिल कर गाए धर्मपाल शास्त्री राजपाल ०७५  
—लिखे. स २. आजाद १५०  
—विमान चलाये. वसु, देवव्रत. सस्ता २००  
—, सरकस देखे. पंडित, प्रकाश. राजपाल ०.७५  
—सुनो कहानी पाडेय, विष्णुकान्त सा. गगम, मो १.००  
आक के गुण तथा उपयोग दीक्षित, रामसनेही देहाती २.५०  
आकर्षण-शक्ति वाजपेयी, गुलावरत्न अशोक पु म. ३५०  
आकाश की भाकी. उपाध्याय, देवनाथ कि. महल १.००  
—की वाते श्रीमप्रकाश. सस्ता. ०.४०  
—की सीमा. त्रिपाठी, हीराप्रसाद पुष्पी १.२५; — सुरेंद्र.  
३५०  
—कुसुम. वनलता देवी हि. प्रचा पु. २००  
—के अचरज. अन्ना दीदी राजहस २२५  
—के तारे घरती के फूल मिश्र, कन्हैयालाल 'प्रभाकर'  
स ३ भा ज्ञानपीठ २००  
—खाली है दत्त भारती ऐडी. ४६०  
—गगा खूशदिल, एम. समाज. १००  
—गगा वर्मा, राजकुमार. रा वेनीमाधव १५०  
—तले घरती पर. उमाशकर. उमेश. ३५०  
—दर्शन सूथार, छोटूभाई सस्ता २.००  
—दीप प्रसाद, जयशकर भा भ ३.००  
—पर चढाई. मेहरा, आनद हिंदिया. ०६०  
—पाताल श्रीवास्तव, जी पी राजहस. २२५  
—मे देखे भारतदास, जे रालकमल ०७५  
—मे युद्ध. वेल्म, एच जी ड प्रे २००  
—लोक चतुर्वेदी, जगपति ग्रथमाला १५०  
आकाशवाणी विविधा—१९६२ प्र विभाग. ३.५०  
आकाशीय रचना व्याल फकीर शिव सा. ०५०  
आकुल अतर हरिवशराय 'वच्चन'. राजपाल २.५०  
आकृति निदान लुईकूने हि पु. ए २.००  
आकृतिया उभरती हुई आलोक १.५०  
आकृति विज्ञान खत्री, दुर्गाप्रसाद लहरी १००  
—से रोग की पहिचान लुईकूने सस्ता २००  
आँक्सिजन और जीवन भटनागर, रामेश्वर आत्माराम २.००  
आन्वरी सलाम. गदिल रवींद्र नुरेंद्र ५५०  
आग्निरी काटा सागर बालूपुरी देहाती २५०  
—आवाज रागेय राघव राजपाल ७००  
—करवट शर्मा, जगदीश. देहाती. १.०५  
—चट्टान नव. मोहन गजेल. राजकमल. (पा) १.००  
—दाव वर्मा, भगवतीचरण भा. भ. १.००  
—देवता रजीत राही. मजीत. २५०  
—सलाम वर्मा, द्रजेश्वर इ प्रे. ४.५०





- आचार्य श्री तुलसी अभिनदन ग्रंथ जयप्रकाश नारायण .. जैन  
श्वेतावर ४०००
- श्री तुलसी जीवन और दर्शन नथमल, मुनिश्री  
आत्माराम ५००
- श्री तुलसी जीवन पर एक दृष्टि नथमल, मुनिश्री. आदर्श  
सा. २००
- सायण और माधव. उपाध्याय, बलदेव. हिं. सा  
सम्म. ६.००
- हजारीप्रसाद द्विवेदी व्यक्तित्व एव साहित्य गुप्त,  
गणपतिचंद्र, सपा भारतेदु भवन ६५०
- आज और कल कैरोल, ग्लैडिस एच पजावी पु, — —स्टार  
(पा) १००
- का आदमी भट्ट, उदयशंकर हिं भवन. २५०
- का इंग्लिस्तान वर्मा, मुकुटविहारी सस्ता २००
- का गाव छात्रहितकारी ०६०
- का चीन वाचू, विश्वनाथ एस चाद ५५०
- का ताजा अखवार भटनागर, कणादकृपि आत्माराम.  
३.००
- का भारतीय साहित्य राजपाल. ७००
- का भारतीय साहित्य. माचवे, प्रभाकर... सा. अकादमी  
७००
- का विचार गाधी, मो क. २ भा सस्ता. ०.७४
- की उर्दू शायरी पंडित, प्रकाश हिंद पा १००
- की नईमें अब्बासी, नूरनबी... अशोक पा १.००
- की प्रतिनिधि कहानिया. शर्मा, किरणचंद्र एस चाद.  
२.००
- की राजनीति. राहुल साकृत्यायन आधुनिक पु ६.००
- की लोक-कथाए मदारिया, मनमोहन नेशनल १००
- की वैज्ञानिक महिलाए योस्ट एडना राजपाल. ३.००
- की समस्याए. राहुल साकृत्यायन. कि महल ०७५
- के उर्दू शायर और उनकी शायरी पंडित, प्रकाश. राजपाल.  
८००
- के कवि और उनकी कविताए. प्रभात शास्त्री, सपा. हिं.  
भवन २५०
- के निबंध कृष्णचंद्र विद्यालकार एस चाद
- के महापुरुष जब वच्चे थे. देसराज . २ भा सहगल.  
०६५ (प्र)
- के शौहर शौकत थानवी पुष्पी १००, — —सुरेद्र.  
२.५०
- फिर सुनो ! ब्रजविहारी २ भा अशोक प्रे ०.७५ (प्र.)
- आजमाइश मोहम्मद मुजीब मक्तवा १००
- आजाद कथा प्रेमचंद नरस्व प्रे १५.००
- पार्क गुप्तबधु सर्व-सुलभ
- उनो भगवानदीन, महात्मा सस्ता
- हिंदी व्याकरण तथा रचना आजाद. ३२५
- आजादिए हिंद गाधी ३ भा सर्व ०८०
- आजादी का नाच माइकन, जार्ज पुष्पी १.२५
- का वारहवां वर्ष. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी.

- आजादी किस कीमत पर मोदक, सिरिल. न्यू लिट. ३७५
- की प्रथम किरण. श्रीवास्तव, हरिमोहन साहनी १५०
- की राह मे भा, रमेशचंद्र सुभाष १७५
- की लडाई चैनसुख वेताव देहाती. १५०
- की लडाई और सुभाष बाबू जैन, जगदीशचंद्र हिं. ग्र र.  
२५०
- के दस साल नेहरू, जवाहरलाल. सस्ता. ०.३०
- के सत्रह कदम (नेहरूजी के स्वतंत्रता दिवस के भाषण).  
प्र विभाग १००
- कन सकी धर्मपाल शास्त्री औरिएटल १.००
- आज्ञाकारी वच्चे प्रकाशचंद्र साधना म. १००
- आटे का मुर्गा. सूरिदेव, रजन. कला-नि. १००
- आटोमोबाइल इजीनियरिंग. शर्मा, कृष्णानंद देहाती १२००
- आठ एकाकी दीक्षित, त्रिलोकीनारायण रा वेनीप्रसाद १७५
- एकाकी नाटक वर्मा, रामकुमार, सपा. स ६. हिं भवन  
२००
- एकाकी नाटक सूर्यकांत एस चाद २.००
- कहानिया अवस्थी, एस डी हि पु ए १५०
- कहानिया ओमप्रकाश यूनिवर्सिटी २.५०
- सालो मे सपूर्ण शिक्षा-क्रम ग्र भा सर्व. १.५०
- सेर चावल सथानम्, के रा वेनीप्रसाद २५०
- सौ चालीस शौकत थानवी कि महल ३५०
- आडवर प्रकाश 'भारती' भा. सा सदन ३२५
- आतश की शायरी द्रुपद मातृ-भापा २००
- आतापी. गोविंदसिंह चिनगारी १५०
- आतिशवाजी का व्यापार दास, जे सी देहाती. २५०
- आत्मकथा गाधी, मोहनदास करमचंद अ भा सर्व. २००,  
सक्षिप्त ०७५, .— —सस्ता सपूर्ण. ४.००, सक्षिप्त  
१००
- आत्मकथा. चट्टोपाध्याय, शरत्चंद्र चौधरी २००
- आत्मकथा राजेंद्रप्रसाद. सस्ता १२००
- रामप्रसाद 'द्विस्मिल' चतुर्वेदी, बनारसीदास, सपा.  
आत्माराम २५०
- आत्म घात श्रीवास्तव, आनदिप्रसाद हिं. सा. सम्मे १००
- ज्योति वाजपेयी गुलावरत्न कल्याणदास ३००
- ज्ञान और विज्ञान भावे, विनोवा अ भा सर्व १००
- ज्ञान प्रवेशिका तथा जैन तत्व बोध जैन, हीरालाल दुगड.  
श्री आत्मानंद १२५
- तत्त्व प्रकाश कृष्णानंद स्वामी विश्वेश्वरानंद. १.५०
- त्याग श्रीवास्तव, आनदिप्रसाद. हिं. सा. सम्मे. १.००
- दान विजयकुमार पुजारी. आत्माराम ३.००
- दाह चतुरमेन, आचार्य चौधरी. ५.५०
- निर्माण हरदयाल एस चांद ४.००
- निरीक्षण. गोविंददास, मेठ ३ भा एस चाद २२००
- निर्माण गुलावराय गयाप्रसाद २००
- निर्माण व्यास, विष्णुप्रसाद. कि घर, ग्वा. १.५०
- आत्मनेपद वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद 'अज्ञेय'.  
भा ज्ञानपीठ. ४००

- धात्म पथ कृष्णानन्द, स्वामी विश्वेश्वरानन्द २.००  
 —रचना अथवा आश्रमी शिक्षा दवे, जुगताराम ३ भा  
 नवजीवन १५० (प्र)  
 —रहस्य. जैन, रतनलाल सस्ता ३५०  
 —लहरी अ. भा अणुव्रत ०५०  
 —विकास आनन्दकुमार राजपाल ५००  
 —विद्या सप्रे, माधव राव सा भवन, इ ४००  
 —विश्वासी बनो गधर्व सहगल ३५०  
 —सयम गाधी, मोहनदास करमचन्द प्रभात प्र २००,  
 —सस्ता ३००, —सा साधना २.००  
 —समर्पण दत्त भारती. पजावी पु. ३००  
 —समर्पण योग आचार्य, केशवदेव श्रीअरविन्द ०७५  
 —साधना अ भा अणुव्रत ०२५  
 —हता शर्मा, सत्यनारायण हि प्रचा. पु ४००  
 —हत्या से पहले चन्द्रदेव सिंह राजपाल २००  
 —हितैषी बने एलेन, जेम्स कल्याणदास ०६२  
 आत्मा की आखे रामधारीसिंह 'दिनकर' उदयाचल ४००  
 —की कथाए कामताप्रसाद सिंह 'काम' पारिजात २२५  
 आत्मानुभूति कृष्णानन्द, स्वामी विश्वेश्वरानन्द २००  
 —तथा उसके मार्ग विवेकानन्द, स्वामी स ५ श्रीरामकृष्ण  
 १६०  
 आत्मा राम पंच रगम काव्यम् नित्यानन्द शास्त्री श्री  
 आत्मानन्द १५०  
 आत्मिक माहर्ष्य राधाकृष्णन, सर्वपल्ली रजन १५०  
 आत्मोत्सर्ग गुप्त, सियारामशरण सा सदन, चि ०८०  
 आत्मोद्धार वर्मा, रामचन्द्र ना प्र सभा ३००  
 आत्मोपदेश एपिस्टेटस सस्ता १००  
 आथेक्रेटिक जूनियर डिक्शनरी पाठक, वी. सी . हि प्रचा  
 पु ४००  
 —सीनियर डिक्शनरी पाठक, वी सी हि प्रचा पु  
 १४००  
 आथेले गेक्सपियर, विलियम नव सा प्र ०५०, —  
 राजपाल २००, —सा अकादमी ३००  
 आथोग्राफिक प्रोजेक्शन और स्केल ड्राइंग. थपलियाल,  
 मयादत्त रा वेनीमाधव ०६२  
 आदमगोर नानकसिंह नेशनल ५००  
 —टीला शर्मा, विनोदशकर रूपसी १००  
 आदमी द्वारकाप्रसाद सा माधना १२५  
 आदमी मोहम्मद खलीक राजपाल ०७५  
 —और जिदगी. राजेश्वरप्रसाद सिंह नीलाभ ६.००, —  
 मोतीलाल ५००  
 —और पत्थर आनन्द, सत्यपाल दीपक पब्लि  
 —और पैना श्रीवास्तव, हिमाशु दि पु स १२५  
 —और भेडिया गोर्गी, मौक्तम मुभाप २००  
 —कहा मे आया ? चतुर्वेदी, जगपति हि भवन १००  
 —. गुप्त, मन्मथनाथ आत्माराम १२५  
 —वर्मा, लक्ष्मीनान भा ज्ञानपीठ २५०  
 —यगपाल अशोक पा १००

- आदमी की कहानी ओमप्रकाश सर्वोदय १.५०  
 —की कहानी सुरेन्द्रकुमार अरुण यग मैत्र ०७५  
 —के टुकड़े श्रीवास्तव, कृष्णकिशोर रा वेनीप्रसाद १५०  
 —साप और बच्चा गोविन्दसिंह गुल्लूप्रसाद ३००  
 आदरणीय रमेश चौधरी, ए 'आरिगपूडि' भा सा सदन  
 ४००  
 आदर्श अध्यापक गिरधारीदान नवयुगत्र कु २००  
 —आलोचना ओभा, दशरथ एस चाद २५०  
 —आहार दास सतीशचन्द्र स ५ आरोग्य १२५  
 —आहार सतीशचन्द्र छात्रहितकारी १००  
 —एकाकी शरत्चन्द्र श्री भा भारती २.५०  
 —एलोपैथिक मेटेरिया मेडिका सक्सेना, रामनारायण मेडि-  
 कल ११००  
 —ऐतिहासिक कहानिया शिवनदनसिंह पु भ., रा. भा  
 १-३ ०५६ (प्र), भा ४ ०७५  
 —और यथार्थ मिश्र, गगाप्रसाद प्रभात पब्लि २००  
 —और यथार्थ श्रीवास्तव, पुरुषोत्तमलाल ना प्र सभा  
 ३००  
 —और समाज वर्कसन एस चाद  
 —कटाई एव सिलाई शिक्षा विशनदास 'वीर' कल्याणमल  
 भा १ १२५, भा २ १७५  
 —कथाए आनन्दकुमार राजपाल १२५  
 —कथाए युधिष्ठिरकुमार आत्माराम. १५०  
 —कविता-कुज बालासहाय शास्त्री श्री भा भारती १७५  
 —कशीदाकारी लाजवती, कुमारी देहाती ४००  
 —कहानिया वारमेडा, के एन राजपाल ०.८०  
 —कहानिया भटनागर, महेन्द्र सा प्र मंदिर १५०  
 —कहानिया भीमसेन एस चाद १७५  
 —गाव शैलकुमारी कल्याणमल ०५०  
 —गृह विज्ञान गुरु, एल वी नद न्न २५०  
 —ग्राम मुखराज यूनिवर्सिटी ०५०  
 —ग्राम पचायत शर्मा, जगदीश देहाती १२५  
 —चरितावली ६ भा गीता ०२५ (प्र)  
 —चरितावली मायादेवी नद स १२५  
 —चरितावली सत, गोकुलचन्द्र औरिएटल २५०  
 —जीवन वर्मा, कृष्णलाल श्री आत्मानन्द ५००  
 —जीवन शर्मा, बालकृष्ण श्री आत्मानन्द ३५०  
 —जीवन शुक्ल, रामचन्द्र ना प्र सभा ३००  
 —जीवनिया शर्मा, जगन्नायणदेव काशी पु ०५०  
 —तकली परिचय मुशीलकुमार लाल पु भ., रा. ०५०  
 —देविया राजपाल ०५०  
 —नगर व्यवस्था शर्मा, भोलानाथ, अनु हि सा सम्मे.  
 १०००  
 —नागरिता एव समाजसेवा शिवनदन सिंह पु भ., रा  
 २१०  
 —नारी पाडेय, रमाशकर सुभाप. ०६२  
 —नारी सुशीला गोयदका, जयदयाल गीता ०२०  
 —निव्व विद्याराम . सशो स. ३. विनोद २००



- आदिकाल के अज्ञात हिंदी रासकाव्य हरीश मंगल ६००  
 —के बालक सर्वोदय १७५  
 आदित्यनाथ ठाकुर, बलभद्र नेशनल ५५०  
 आदिपुराण जिनमेन, आचार्य २ भा भा ज्ञानपीठ २०००  
 आदि पुरूप गर्मा, योगेन्द्रनाथ हि प्रचा पु १२५  
 —भारत काश्यप ज्ञानमंडल १२००  
 आदिम मानव समाज सान्याल, भूपेन्द्रनाथ नेशनल ४००  
 —युग और अन्य नाटक भट्ट, उदयशंकर आत्माराम ४००  
 आदि मानव पाठक, सुरेश्वर ज्ञानपीठ ०७५  
 —मार्ग उपेन्द्रनाथ 'अरक' नीलाभ ५००  
 आदिवासियो की लोफ-कथाए जैन, श्रीचंद्र आत्माराम १५०  
 आदिवासी भारत योगेश अटल राजकमल  
 आदि विद्रोही फास्ट, हावर्ड हम ६५०  
 —संसार मे मनुष्य हॉवेल दत्तवधु  
 —सम्राट जैन, यादवचंद्र एम चाद ४५०  
 आद्योमि कन्हैया अभिज्ञान ३००  
 आधा डसान अहमद अब्बास, राजा नीलाभ २५०  
 आधान द्विवेदी, शांतिप्रिय हि प्रचा पु २५०  
 आधारभूत शिक्षा भा प्रीठ १६५  
 आधी प्रसाद, जयशंकर भा भ २५०  
 आघो मूछ गायव राधेमोहन चेतन पुष्पी ०७५, —सुरेद्र.  
 २००  
 —रात मिश्र, लक्ष्मीनारायण हि प्रचा पु २००  
 —रात का मूरज नरुला, शमशेरसिंह राजकमल २५०  
 आधुनिक अकगणित गगराडे, एम एल लक्ष्मी ना ५००  
 —अंतर्राष्ट्रीय समस्याए जगतनारायण कि महल ३००  
 —अर्थशास्त्र केदारनाथ प्रसाद पु भ १०००  
 —अर्थशास्त्र जैन, पी सी नद ब्र ७००  
 —अर्थशास्त्र भगवानस्वरूप कि महल २००  
 —अर्थशास्त्र सेठ, एम एल, रामचंद्र ७५०  
 —आदर्शपाठ टीकाए वीरेन्द्रकुमार सिंह नाथना म २५०  
 —आर्थिक एव वारिण्य निवध अग्रवाल, रमेशचंद्र स २  
 रतन ४५०  
 —आर्थिक एव वारिण्य निवध यादव, डी एम आगरा बुक  
 २००  
 —आर्थिक व वारिण्य भूगोल गुप्ता, ए दास एम  
 चाद ७००  
 —आर्थिक सिद्धांत खोमला, रोगन यूनिवर्सिटी ७५०  
 —आलोचना और नाहित्य जायसवाल, नीताराम नद ब्र  
 २२५, —नद स ३००  
 —आवागमन मत्प्रकाश रा वेनीमाधव १२५  
 —आविष्कार महाय, वामुदेव रा वेनीमाधव ०८८  
 —इंग्लैंड का इतिहास रामसिंह रस्तोगी १४८५-१७१४.  
 ५००, १७१४-१८५० ६५०, १८१५-१८५० ६००  
 —ज्ञान बुक द्वारकाप्रसाद देहाती ५००  
 विज्ञान अग्रवाल, कृष्णकुमार भा पब्लि १०००  
 —टी चाद मोहम्मद आधुनिक ना २५०  
 चौहान, विजय, सपा आत्माराम. २००

- आधुनिक एकाकी दुग्गल, वैकुण्ठनाथ इं प्रे १७५  
 —एकाकी वच्चन सिंह विद्या म, वा ३००  
 —एकाकी सत, गोकुलचंद्र, ओरिएटल ३००  
 —एलोपैथिक गाइड द्वारकाप्रसाद देहाती १२००  
 —श्रीपथि आविष्कार एवॉल, इर्मनगार्ड इ प्रे २५०  
 —कढाई कला बीना देहाती १२५  
 —कवि उपाध्याय, अयोध्यासिंह 'हरिऔध' हि सा सम्मे  
 २५०  
 —कवि गोपालशरण सिंह, ठाकुर हि सा सम्मे २५०  
 —कवि वर्मा, रामकुमार हि सा सम्मे २५०  
 —कवि विश्वभर 'मानव' लोकभारती ४००  
 —कवि भा १ वर्मा, महादेवी हि सा सम्मे २५०  
 —कवि भा २ पत, सुमित्रानंदन हि सा. सम्मे २५०  
 —कवि भा ६ चतुर्वेदी, माखनलाल हि सा सम्मे ३००  
 —कवि भा ७ हरिवशराय 'वच्चन' हि सा सम्मे ३००  
 —कवि भा ८ त्रिपाठी, रामनरेश हि सा सम्मे ३००  
 —कवि भा ९ शर्मा, नरेद्र हि सा सम्मे ३००  
 —कवि (गोपालशरण सिंह) मिश्र, दुर्गाशंकर हि सा भ  
 ३००  
 —कवि (महादेवी वर्मा) टडन, लक्ष्मीनारायण स २  
 हि सा भ ३००  
 —कवि (रामकुमार वर्मा) हि. सा भ ३००  
 —कवि और उनका काव्य शर्मा, राजनाथ विनोद २००  
 —कविताजलि त्रिवेदी, भवानीशंकर श्री भा. भारती  
 २७५  
 —कविता जगदीशचंद्र शास्त्री आर्य बुक २००  
 —कविना का मूल्यांकन मदान, इन्द्रनाथ हि भवन ६५०  
 —कविता की प्रवृत्तिया वोग ५००  
 —कविता की प्रवृत्तिया पत, एम वी, सपा सरदार ५००  
 —कवि पत मिश्र, दुर्गाशंकर हि सा भ ३५०  
 —कवि पत मिन्हा, कृष्णकुमार नावल्टी १२५, ४५०  
 —कवि पत-टीका जोशी, विद्यासागर मालवीय २१०  
 —कवि पत नोट मोतीलाल ३७५  
 —कवि पत समीक्षा एव व्याख्या भाटी, देशराजसिंह अशोक  
 प्र ३५०  
 —कवियों की काव्य साधना गौड, राजेद्रसिंह सशो स ६  
 श्रीराम मेहरा ३००  
 —कवियों की काव्य-साधना मिश्र, गगाधर राष्ट्र प्र म  
 —कशीदाकारी गुप्त, मिथिलेशकुमारी, सपा भाग्योदय  
 ३००  
 —कहानिया आनंद, राजकुमार गिरिधर ३००  
 —कहानिया चौहान, शिवदानसिंह आत्माराम. ४००  
 —कहानिया वाहरी, हरदेव, सपा मुशीराम  
 —कहानिया भटनागर, राजेद्रमोहन, सपा नवकमल २५०  
 —कहानिया मत्ल, विजयशंकर नद ब्र एव नद स २५०  
 —कहानीकार और उनकी सर्वश्रेष्ठ कहानिया मिश्र, रमाकांत,  
 सपा हि प्रचा म ३५०  
 —कार्वनिक रसायन भागवत, पृथ्वीनाथ. नद ब्र ५००



- आधुनिक महाकवि त्रिवेदी, भवानीशकर. श्री भा भारती २००
- महाकाव्यो का शिल्प विधान श्यामनदन किशोर सरस्व पु स
- युग मे भारत चौबे, गोरखनाथ रा वेनीमाधव १००
- यूरोप का इतिहास त्यागी, एम एस
- यूरोप का इतिहास (१७८६ से आगे) महाजन, विद्याधर एम चाद ११००
- यूरोप का इतिहास रामवृक्ष सिंह.. नद स ८००
- यूरोप का इतिहास (१४५३-१७८६) शर्मा, राधाकृष्ण. विश्वविद्यालय ३५०
- यूरोप का इतिहास (१७८६ से अब तक) साउथगेट एस चाद ६००
- यूरोप का इतिहास हीरालाल मिह विश्वविद्यालय
- यूरोप का इतिहास लाल, के एम इ प्रे भा १ ६००, भा २ ८००
- यूरोप मेहता, वी एन
- यूरोप. मेहता, वी एन भा १ लक्ष्मी ना ७००
- यूरोप (१७८६-१९६२) मेहरोत्रा, प्रभुदयाल अपर ८००
- यूरोप का इतिहास राजनारायण भा १ कि महल ३००
- यूरोप का सरल इतिहास (१७८६-१९४५) चार सुरजीत १०००
- रसायन वर्मा, रमेशचंद्र कि महल ३०० (अप्रा)
- रसायन शास्त्र गुप्ता, महीपाल स ६ भा भा प्र ३००
- राजनीतिक चिंतन. कोकर लक्ष्मी ना १२००
- राजनीतिक विचारधाराए जगतनारायण कि महल २५०
- राजनीतिक विचारधाराए विमलेश बुकलेड ७००
- राजनीतिक विचारधाराए सिंह, आर एल रतन ६७५
- राजनीतिक सविधान स्ट्रॉङ्ग, सी एफ गयाप्रसाद १२५०
- राजनीति की चिंत्यधाराए शर्मा, वेदव्रत हि प्रचा पु ५००
- राजनीति मे विभिन्नवाद त्यागी, एम एस. भा २ स ६ रस्तोगी ५००
- राज्य तथा स्वतंत्रता गाडगिल, नरहर विष्णु. एस चाद ७००
- राष्ट्र निर्माता सीतादेवी. यग मैन २००
- रोजगार तथा आय सिद्धांत ड्यूवेट एस चाद ११००
- वाणिज्य प्रणाली गुप्त, रघुवीरशरण २ भा स १९६३ फ्रेंक. ३५० (प्र)
- वाणिज्य शिक्षा गुप्त, श्रीराम २ भा. गुप्ता ब्रा ३ २५ (प्र)
- विज्ञान और अहिंसा गणेशमुनि शास्त्री आत्माराम ३५०
- और आधुनिक मानव कनिट, जेम्स वी आत्माराम ५

- आधुनिक विज्ञान की कहानी मुहम्मद हुसेन 'दीन', सैयद २ भा पु भ, रा ० ६२ (प्र)
- विद्यालय संगठन. चौधरी, रामखेलावन हि सा. भ. ६.००
- विश्व की प्रमुख शासन प्रणालिया. गैद, डी. एन . सशो. स ६ रतन ७००
- वीर काव्य वाजपेयी, भगवतीप्रसाद हि सा सम्मे १५०
- व्यापार. गर्ग, कातानाथ कि महल ५७५
- व्यापार पद्धति बलवानसिंह किशोर पन्डि ३००
- व्यावसायिक संगठन रस्तोगी, जयप्रकाश आत्माराम ७.६०
- शासन और राजनीति सिन्हा, मिथिलेशकिशोर भा १ बुकलेड ६७५
- शासन-विधान महाजन एस चाद १२५०
- शिक्षण मुनेश्वरप्रसाद ग्रथमाला १५०
- शिक्षा का विकास जायसवाल, सीताराम नद ब्र ४००
- शिक्षा का विकास पाडेय, रामशकल मैट्रोपोलिटन ६००
- शिक्षा की समस्याए माथुर, वी एस दि पु स २.५०
- शिक्षा के तात्विक सिद्धांत. चौबे सरयूप्रसाद लक्ष्मी ना ५५०
- शिक्षा मनोविज्ञान गुप्त, लक्ष्मीनारायण गर्ग ब्र २३०
- शिक्षा-मनोविज्ञान रतिभानु सिंह 'नाहर' कि महल ३००
- शिक्षा-मनोविज्ञान शर्मा, ईश्वरचंद्र आत्माराम ५००
- शिक्षा-शास्त्र रतिभानु सिंह 'नाहर' कि महल ३००
- शिक्षा शास्त्र वर्मा, आई वी श्रीराम मेहरा २५०
- शिक्षा शास्त्री सहगल, मनमोहन दि पु स २५०
- शिक्षा सिद्धांत और आधुनिक शिक्षण सिद्धांत गुप्त, लक्ष्मीनारायण गर्ग ब्र २६०
- सविधान अर्गल, आर परि स २ १९६३ लक्ष्मी ना. ८००
- सविधान महाजन एस चाद ६००
- सविधान व्हीयर, के सी. राजकमल ३.५०
- सविधानो का सरल अध्ययन लक्ष्मी ना २५०
- संसार का संक्षिप्त इतिहास कालूराम कि महल २५०
- संस्कृत काव्यम् भवालकर, वनमाला रा वेनीमाधव १५०
- संस्कृत-हिंदी कोष भट्ट, ऋषीश्वरनाथ, सपा रामप्रसाद. ५००
- समाज मनोविज्ञान का परिचय तिवारी, जयगोपाल भा प्र मदिर ४००
- समीक्षा देवराज राजपाल ४५०
- सहकारिता शर्मा, विद्यासागर सस्ता २००
- सामान्य मनोविज्ञान रामबालेश्वर सिंह दि पु स ६५०
- साहित्य वाजपेयी, नददुलारे भा भ ८००
- साहित्य की प्रवृत्तिया नामवरसिंह कि महल १५०, — —लोकभारती ३५०
- साहित्य की व्यक्तिवादी भूमिका तिवारी, बलभद्र. नद स ८००
- साहित्य परिचय. शर्मा, ओमप्रकाश. ओरिएण्टल. २२५

- आधुनिक सोवियत रूस की शिक्षा पद्धति. चौबे, सरयूप्रसाद.  
रा बेनीमाधव. २००
- स्वास्थ्य, सामुदायिक तथा पाठशाला प्रबन्ध गुप्त, लक्ष्मी-  
नारायण गर्ग ब्र २३०
- हाईस्कूल ज्यामिति. सिन्हा, ए एस गयाप्रसाद २२५,  
३.००
- हाईस्कूल बीजगणित. टडन, हरद्वारीलाल. गयाप्रसाद  
२२५
- हिंदी कथा-साहित्य और मनोविज्ञान. उपाध्याय, देवराज.  
सा. भवन, इ. १२००
- हिंदी कवि और काव्य तिवारी, रामचंद्र, सपा नया सा  
प्र ६००
- हिंदी कविता गिरिराजकिशोर.. गुजरात १००
- हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां त्रिपाठी, जगदीश-  
नारायण. प्रत्युष ३५०
- हिंदी कविता की मुख्य प्रवृत्तियां. नगेंद्र नेशनल ४००
- हिंदी कविता की स्वच्छंद धारा त्रिभुवन सिंह हिं. प्रचा  
पु ५००
- हिंदी कविता के बाद शर्मा, विनयमोहन विश्वेश्वरानंद  
१३१
- हिंदी कविता में अलंकार विधान त्रिपाठी, जगदीशनारायण.  
अनुसंधान. १५००
- हिंदी कविता में चित्र-विधान रामयतनसिंह 'अमर' नेशनल
- हिंदी कविता में ध्वनि शर्मा, श्रीकृष्णलाल ग्रथम. १५००
- हिंदी कविता में प्रेम और शृंगार रागेय राघव. राजपाल.  
६.००
- हिंदी कविता में प्रेम और सौंदर्य खडेलवाल, रामेश्वरलाल  
'तरुण' नेशनल १२५०
- हिंदी कविता में विषय और शैली रागेय राघव राजपाल  
१०००
- हिंदी कविता में शिल्प वाजपेयी, कैलाश आत्माराम  
१२००
- हिंदी कविता सिद्धांत और समीक्षा उपाध्याय, विश्वभर-  
नाथ प्रभात प्र १६००
- हिंदी कवियत्रियों के प्रेमगीत. क्षेमचंद्र 'सुमन', सपा.  
राजपाल ७००
- हिंदी कवियों के काव्य-सिद्धांत गुप्त, सुरेशचंद्र हिं. सा.  
स २५.००
- हिंदी कहानियां. वाजपेयी, नददुलारे नद स ३००, —  
विद्या म, वा ३००
- हिंदी कहानी लक्ष्मीनारायण लाल हिं ग्र २.५०
- हिंदी काव्य की भूमिका पाडेय, शम्भुनाथ विनोद. १०००
- हिंदी काव्य-कृति और विधा माथुर, सुरेंद्र हिं सा. भ  
६००
- हिंदी-काव्य में नारी-भावना शैलकुमारी हिंदु एकेडेमी  
७००
- हिंदी काव्य में निराशावाद. पाडेय, शम्भुनाथ आगरा बुक  
८.००

- आधुनिक हिंदी काव्य में परंपरा तथा प्रयोग. सारस्वत,  
गोपालदत्त सरस्व प्र. म. १५००
- हिंदी-काव्य में रहस्यवाद गौड़, विश्वनाथ. नद सं. ७००
- हिंदी-काव्य में रूप-विधाएँ जैन, निर्मला. नेशनल. २५.००
- हिंदी-काव्य में वात्सल्य रस. शर्मा, श्रीनिवास... अशोक प्र.  
१२५०
- हिंदी काव्य में विरह-भावना मधुरमालती सिंह. आत्माराम.  
१५००
- हिंदी कोष भट्ट, केदारनाथ, सपा रामप्रसाद ४.५०
- हिंदी गद्य-संग्रह मिश्र, बैजनाथ एस चाद २२५
- हिंदी नाटक नगेंद्र. स. १० सा रत्न भ. २.५०
- हिंदी निबंध गुप्त, सुरेशचंद्र. एस. चाद ४५०
- हिंदी निबंध चौरसिया, केशनीप्रसाद भा प्र. ३५०
- हिंदी बंगला स्वयं शिक्षक प्रभात प्र १५०
- हिंदी मराठी में काव्य शास्त्रीय अध्ययन काले, मनोहर.  
हिं. ग्र. २ २१००
- हिंदी महाकाव्यों का शिल्प-विधान. किशोर. सरस्व पु. स.  
१६००
- हिंदी व्याकरण तथा रचना धर्मेंद्रनाथ सा सदन, दे  
२००
- हिंदी साहित्य नामवरसिंह हिं ग्र. २.
- हिंदी साहित्य. वाष्णोय, लक्ष्मीसागर. हिं. सा परिषद.  
६००
- हिंदी-साहित्य. विजयेन्द्र स्नातक... आत्माराम. २.००
- हिंदी-साहित्य शुक्ल, कृष्णशंकर. हिं सा कु. ४५०
- हिंदी साहित्य (१९००-१९५०). मिश्र, कृष्णबिहारी.  
एस चाद
- हिंदी साहित्य का विकास. कृष्णलाल हिं सा. परिषद.  
६००
- हिंदी साहित्य की भूमिका. वाष्णोय, लक्ष्मीसागर हिं सा.  
परिषद ८००
- हिंदी साहित्य की रूपरेखा मनुदेव शास्त्री. श्री भा भारती.  
१६२
- हिंदी साहित्य में नारी दुआ, सरला सा नि., का १५००
- हिंदी साहित्य में समालोचना का विकास शर्मा, वेकट  
आत्माराम. २०००
- हिंदी हास्य-व्यंग्य वर्मा, केशवचंद्र, सपा भा. ज्ञानपीठ  
४००
- आधुनिक मिश्र, उग्रनारायण ज्ञानोदय २००
- आर्धे रास्ते मुशी, कन्हैयालाल माणिकलाल राजकमल  
५.००
- आध्यात्मिक विषय मीमासा. सहाय, चतुर्भुज साधन २५०
- आध्यात्मिकी द्विवेदी, महावीरप्रसाद इ प्रे १५०
- आनंद का राजपाथ दीक्षित, सीताचरण आत्माराम २२५
- की मजिल राधेमोहन चेतन. पुष्पी. ०७५, — सुरेंद्र  
२००
- गायत्री कथा आनंदस्वामी. गोविंदराम ०७
- निकेतन. रामनाथ 'सुमन'. साधना सदन.



आनंद प्रकाश प्रकाशानंद, स्वामी छात्रहितकारी ० ७५  
 —भगवत् कथा मत्स्यनारायण व्रत कथा आनंदस्वामी गोविंद-  
 —भवन वर्मा, निहालचंद हि प्रचा पु ३०० [राम ० ६२  
 —मठ चट्टोपाध्याय, वकिमचंद्र इ प्रे १५०, — —कि  
 महल २५०, — —भाग्योदय (पा) १००, — —  
 राजपाल २००, — —श्यामलाल २००, — —श्री  
 प्रभाकर २००, — —हि पु ए २००, — —हि प्रचा  
 पु २५०, — —हि प्रचा म २५०  
 —मठ भट्ट, पातीराम ना नि, का १००  
 आनंदमय जीवन महेंद्र, रामचरण गीता ० ८१  
 आनंद मार्ग कृष्णानंद, स्वामी विश्वेश्वरानंद २००  
 —योग प्रकाश शिवव्रतलाल शिव सा २५०  
 —सुंदरी उपाध्ये, ए एन, सपा मोतीलाल ५००  
 —मुधा विद्यानंद विदेह, स्वामी वेदसस्थान ० ४०  
 आनंदामृत सुधाकर शारदा म ० ५६  
 आनंदी बड़ी परशुराम स २ शिवलाल २५०  
 आन का मान हरिकृष्ण 'प्रेमी' कौशावी २००  
 आनंदान के रखवारे अजित सस्ता ० ४०  
 आनंदेरी मजिस्ट्रेट सुदर्शन सरस्व प्रे १५०  
 आपकाज महाकाज रामजीलाल शास्त्री विनोद ० ५०  
 आपका बच्चा भला आदमी कैसे बने सर्वोदय ० ५०  
 —बालक, उसका स्वास्थ्य तथा पालन पोषण मोगा, पी राज  
 मवतवा ४५०  
 —बालक क्या बनेगा ? अनंत, अ अ कि महल २००  
 —मुन्ना वर्मा, सावित्रीदेवी ३ भा आत्माराम १६५०  
 —व्यवितत्व आनंदकुमार सहगल ४००  
 —शरीर आनंदकुमार हिंद पा १००  
 —शिशु जोशी, हेमागिनी हि प्रचा पु ३५०  
 आपको जानना चाहिए हीरालाल निरोगी १२५  
 आप क्या करें ? मेजिनी, जोजफ सुबोध प्र ३००  
 —नया नदी कर सकते ? मार्टेन, स्वेट सुबोध प्र २२५  
 —भला जग भला अशोक सस्ता ० ४०  
 आपरेशन चट्टोपाध्याय, शरत्चंद्र चिनगारी २००  
 —का रहस्य गौड, वी वी सुरेद्र (पा) १००  
 आप मफल कैसे हो ? एलेन, जेम्स सुबोध प्र ० २५  
 आपसी फूट जहर है और मेल अमृत गुप्त, मन्मथनाथ आर्य  
 बुत ० ७५  
 आपेक्षित का अभिप्राय आइन्स्टाइन, ऐलवर्ट हि समि ४००  
 आवादी की समस्या हाइड, मानरेट ओ आत्माराम २५०  
 आभा चतुरसेन, आचार्य हिंद पा १००  
 आभूपण पर मोने के चित्र बनाना वर्मा, चट्टलाल 'चंद्र'  
 चंद्र कार्या १५०  
 आमक गांधी दिनेश्वरलाल 'आनंद' ग्रंथ भ १२५  
 आम की दागवानी रामेश्वर अग्रवाल देहाती ३००  
 के गुण तथा उपयोग चुकल, अमोलचंद देहाती १५०  
 —र गेह डास्टाय सर्वोदय ० ६०  
 —कनाटगर्निह 'केगरी' पु भ १२५, २००  
 नहीं है निपाठी, हीराप्रनाद रूपनी. १५०

आम्रपाली ठाकुर, रामचंद्र बोरा ४५०  
 आयकर विधान गुप्ता, रूपराम स ७ आगरा बुक ५००  
 —विधान के मूलतत्त्व वाजपेयी, एस आर कि घर, का  
 —विधान तथा खाता गुप्त, लक्ष्मीनारायण कि महल  
 ३००  
 —विधान तथा लेखे मेहरोत्रा, एच सी स २. सा भवन,  
 आ १०००  
 आयनोस्फियर की कहानी चेस्तनोव, एफ आई पीपुल्स  
 १२५  
 आयरन फर्नीचर रामअवतार 'वीर' देहाती १२००  
 आयरलैंड की लोक-कथाए रमेशचंद्र 'प्रेम' आत्माराम  
 १५०  
 —की लोक-कथाए वर्मा, शुभा हि भवन १.५०  
 आयल इजन गाइड नरेद्रनाथ देहाती ६००  
 —इडस्ट्री भगवतराय देहाती १०५०  
 —व गैस इजन नरेद्रनाथ देहाती १०५०  
 आया द्वार तिहारे गुप्त, छैलविहारी रामप्रसाद २५०  
 आयाम रमण हि प्रचा पु. ३००  
 आयुर्वेद का इतिहास अत्रिदेव विद्यालकार हि सा सम्मे.  
 ३५०  
 —का इतिहास सूरमचंद भा १ आत्माराम एव भा प्राच्य  
 ८००  
 —का बृहत् इतिहास अत्रिदेव विद्यालकार हि समि ११२५  
 —परिचय प्रयाग १६२  
 —विज्ञान मिश्र, कमलाप्रसाद मेडिकल ३५०  
 आयुर्वेदादर्श सग्रह गौड, दामोदर शर्मा काशी हिंदू २००  
 आयुर्वेदिक धरेलू चिकित्सा शर्मा, सुरेशप्रसाद स २ मेडि-  
 कल १२५  
 —गाइड गुप्त, अत्रिदेव मोतीलाल ५००  
 आर एस एस —ध्येय, नीति और प्रचार कला सहाय,  
 गोविंद अ भा काप्रेस ० ७५  
 आरक्षिक शब्दावली वर्मा, रामचंद्र, सपा ना प्र सभा ० ५०  
 आरजू की शायरी राजवहादुरसिंह 'नसीब', सपा प्रचा पा  
 १००  
 आरण्यक वद्योपाध्याय विभूतिभूषण भा भ ४००  
 आरती पाडेय, श्यामनारायण आनंद पु, वा ८००  
 आरती विद्यावती 'कोकिल' भा भ २५०  
 —और अगारे हरिवंशराय 'वचन' राजपाल ४००  
 —के थाल वेदप्रकाश 'टोरी' नवीनतम ४२५  
 —सग्रह गीता ० २५  
 आरपार की माला शिवप्रसाद सिंह नद ब्र एव नद स २००  
 —की सीमा सुरेश पुष्पी ० ६०, — —सुरेद्र २००,  
 (पा) १००  
 आराधना त्रिपाठी, सूर्यकांत 'निराला' भा भ २५०  
 आराधना रजनीश मानसरोवर सा १५०  
 —की घडियों में गुप्त, केदारनाथ, अनू छात्रहितकारी १००  
 आराम हराम है श्रीवास्तव श्रीनारायण सस्ता ० ८०  
 आरी निंदिया सिरोठिया, शकुंतला सर्वोदय सा १.००

- आरोग्य आनन्दमय जीवन. शर्मा, शिवदत्त कल्पवृक्ष ० ५०  
 —की कुजी गाधी, मोहनदास करमचंद आरोग्य एव नवजीवन ०.४४  
 —ज्ञान प्रदीपिका सेठ, प्यारेलाल मिश्र-बंधु. २.५०  
 —निकेतन वद्योपाध्याय, ताराशंकर राजपाल ६ ००  
 —पथ चतुर्वेदी, सुरेशचंद्र आत्माराम ३ ००  
 —लेखाजलि पाठक, केदारनाथ. नद ब्र १ ००  
 —विज्ञान लक्ष्मीनारायण 'सरोज' मेडिकल. २ ००  
 —शास्त्र भावे, विनोबा अनाथ २ ०८  
 —साधन. गाधी, मोहनदास करमचंद हिं पु ए ० ८८  
 आर्कटिक में नये सोवियत अनुसंधान. बुर्खानोव, व पीपुल्स ० २०  
 आकिमीदिज मुले, गुणाकर पीपुल्स. १ ५०  
 आर्ट की कहानी. पसरौचा, रामनाथ नेशनल २ ००  
 आर्थिक अध्ययन केदारनाथ प्रसाद पु. भ ४ ००  
 —एव वारिण्यक निबंध चौहान, शिवध्यान सिंह. सशो स २ सा भवन, आ. ३ ४०, ४ ००  
 —एव वारिण्य भूगोल. तिवारी, शोभनाथ. नंद. ब्र ८ ५०  
 —एव वारिण्य भूगोल सोलकी, एम एल लक्ष्मी ना ६ ५०  
 —और औद्योगिक जीवन उसकी समस्याए और हल गाधी, मोहनदास करमचंद नवजीवन ४ ००  
 —और वारिण्य भूगोल मामोरिया, सी वी गयाप्रसाद. २०.००  
 —और व्यापारिक निबंध उपाध्याय, रूपनारायण आदर्श पु भ ५ ००  
 —चितन का विकास. त्रिपाठी, जगदीशनारायण. कि. घर, का  
 —तथा वारिण्य भूगोल दुवे. कि महल  
 —तथा व्यापारिक निबंध निगम रस्तोगी ३.००  
 —तथा व्यापारिक भूगोल रामप्रवेश सिंह रा वेनीप्रसाद. २ ५०  
 —नियोजन शेठे, मधुकर. कि महल १.५०  
 —नीतिया लोहिया, राममनोहर नवहिंद  
 —पद्धतिया हिं समि ६ ५०  
 —प्रगति की कुजी कसूलस, डी जी आत्माराम १ ००  
 —प्रबंध. ड्यूवेट, केवलकृष्ण. एस चाद ७ ५०  
 —भूगोल तिवारी, जिवकुमार केदारनाथ ६ ००  
 —भूगोल. शर्मा, निर्विकारशरण किशोर पब्लि. ६ ००  
 —भूगोल सक्सेना, शकरसहाय रा. वेनीमाधव ७ ००  
 —भूगोल की समीक्षा जैन, पी. स २. रस्तोगी १२.५०  
 —भूगोल प्रवेशिका दुवे कि महल २ ००  
 —भूज्ञान. श्रीवास्तव, पूरनचंद मिश्र-बंधु. ३ ५०  
 —विकास का इतिहास. पाडे. बुकलेड भा १ ६ २५, भा २. ५.००  
 —विकास का साक्षेप चित्रण गैलब्रेथ, जॉन कैनेथ आत्माराम २ ००  
 —विकास की कहानी. सक्सेना, शकरसहाय श्रीराम मेहरा. २ ००

- आर्थिक विकास की कूटनीति ब्लैक, यूजीन एस चाद ३ ००  
 —विकास के सिद्धांत. ल्यूईस, डब्ल्यू आर्थर राजकमल ११.५०, १५ ००  
 —विचारधारा उदय से सर्वोदय तक भट्ट, कृष्णादत्त अ भा. सर्व. ६ ००  
 —विचारधाराए श्रीवास्तव, श्रीकृष्ण आत्माराम १०.००  
 —विचारधाराए जैन, रघुवीरसिंह स ३ रस्तोगी. १० ००  
 —विचारो का इतिहास गुप्ता, शांतीस्वरूप प्रकाश बुक १० ००  
 —विचारो का इतिहास. मित्तल, एस. सी ओरियन्टल पब्लि. १२.५०  
 —विचारो का इतिहास (प्रश्नोत्तर) मित्तल, सतीशचंद्र. लायल. ४.५०  
 —विचारो का इतिहास वैश्य, एम सी. रतन. १३ ००  
 —विचारो का इतिहास हजेला, उर्मिला. सरस्व स. ६.००  
 —विचारो का विकास यतेंद्रकुमार. भा प्र मंदिर ५ ००  
 —विश्लेषण एव नीति मित्तल, एस सी. सा भवन, आ. ७ ००  
 —व्यवस्था और विकास १९६३ स रुद्रदत्त रतन ६ ५०  
 —सगठन पलरा, के सी. यूनिवर्सिटी ७.००  
 —समीक्षा—गणतंत्र दिवस १९६३—विशेषांक अ भा काग्रेस १ ५०  
 —सिद्धांत ब्रजकिशोर सिंह. विश्वविद्यालय ८ ००  
 आर्द्रा गुप्त, सियारामशरण. सा सदन, चि १ ५०  
 आर्मैचर वाइडर्स गाइड नरेन्द्रनाथ देहाती ११ २५  
 आर्य-निबंधमाला. राजपाल १ ००  
 —पर्व पद्धति भवानीप्रसाद आर्य सा १ ५०  
 —भजन पुष्पाजलि सत्यकाम शास्त्री देहाती १ २५  
 —भाषा और संस्कृति. शुक्ल, रामकृष्ण 'शिलीमुख'. श्री भा. भारती २ ००  
 —भाषा पुस्तकालय का सूचीपत्र. भा १. ना. प्र सभा ३ ७५  
 —महिला धर्म शिक्षा प्रयाग १ २५  
 —मार्ग तथा अन्य एकाकी सक्सेना, शंभुदयाल नवयुग ग्र कु २ ५०  
 —योग प्रदीप ब्रह्ममुनि, स्वामी गोविंदराम. ३ ५०  
 —विद्या सुधाकर शिवदत्त. मोतीलाल १० ००  
 —संस्कृति के आधार-ग्रंथ उपाध्याय, बलदेव नद स ८.००  
 —संस्कृति के मूल तत्व सत्यव्रत सिद्धातालकार विजयकृष्ण ४ ००  
 —सत्संग-गुटका. गोविंदराम ० ४०  
 —समाज के नियमों की व्याख्या. सत्यानंद, स्वामी गोविंदराम. ०.५०  
 —समाज के नेता वसल, रघुवीरशरण. देहाती. ३ ००  
 —समाज क्या है? नारायणस्वामी गोविंदराम. ०.७५  
 —समाज दर्शन जावेद, रामचंद यूनिवर्सिटी २ ००  
 —सिद्धांत दीप मदनमोहन विद्यासागर गोविंदराम. १ २५  
 आर्याना. रघुनाथ सिंह ज्ञानमंडल ३.००

- आर्यावर्त महतो, मोहनलाल 'वियोगी' ग्रथमाला ३००  
 आर्यों का आदि देग सपूर्णानिद भा भ ३००  
 आर्ष प्राकृत व्याकरण वर्मा, जगन्मोहन ना प्र सभा ०२५  
 आलाप-प्रलाप सारस्वत, त्रोमानद रु सरन्व पु स ०५०  
 आलिंगन उमादेवी हि. प्रचा पु १५०  
 आलिपक खेल-कूद छगारणी, शिवकरण नवयुग अ कु ७००  
 आलू की खेती जोशी, शंकरराव विनोद १५०  
 —की खेती रामप्रसाद गंगा १००  
 —की खेती रामेश्वर अगात देहाती ०७५  
 आलेखन कला दीक्षित, चन्द्रोदय राष्ट्रीय प्र मंदिर २००  
 —कला सिंघल, जे पी स २ भा भा प्र ०७५  
 —कला दर्शन नदलाल खुशतर कि महल १५०  
 —प्रतिबोध नदलाल खुशतर कि महल १५०  
 आलोक आरोह आलोक पारिजात २५०  
 —स्तभ सत, गोकुलचंद्र ओरिएटल २५०  
 आलोचक रामचंद्र शुक्ल गुलावराय आत्माराम ८००  
 आलोचन द्वादसी मिस्त्री, लक्ष्मीप्रसाद 'रमा' हि साहित्यालय २००  
 आलोचनाजलि द्विवेदी, महावीरप्रसाद इ प्रे १५०  
 आलोचना : इतिहास तथा अध्ययन खत्री, एस पी. स २ राजकमल १०००  
 —उसके सिद्धांत गुप्त, सोमानाथ श्री भा भारती २५०  
 —और आलोचक मोहनलाल एस चाद ३००  
 —और आलोचना अवस्थी, देवीशंकर सा नि, का ४००  
 —की और ओमप्रकाश एस चाद ४००  
 —कुमुमाजली गुलावराय रूपकमल ४५०, — —श्री भा भारती ४००  
 —के द्वार पर कुलश्रेष्ठ, ओमप्रकाश एस चाद ४५०  
 —के पथ पर सहल, कन्हैयालाल एस चाद ५००  
 —के मान चौहान, शिवदानसिंह रणजीत ३७५  
 —के सिद्धांत चौहान, शिवदानसिंह राजकमल ३५०  
 —के सिद्धांत व्योहार राजेशसिंह आत्माराम ४००  
 —तथा काव्य मदान, इन्द्रनाथ राजपाल २५०  
 आलोचनादर्श शुक्ल, रामशंकर 'रसाल' इ प्रे २५०  
 आलोचना प्रवेश वर्मा, प्यारेलाल हि भवन ३५०  
 —गार्सन पत, एम वी श्री भा भारती ३५०  
 —साहित्य दीक्षित, त्रिलोकीनारायण अवध १००  
 आत्हखड २३ लडाई ५२ गड की मारका श्यामलाल ५००  
 —बटा ५० लडाई मित्र, भोलानाथ श्यामलाल १०००  
 आत्हा. गुप्त, नर्मदाप्रसाद नेशनल ५००  
 —उदल चतुर्वेदी, देवीदयाल 'मस्त' इ प्रे ०५०  
 —रामायण श्यामलाल २००  
 —रामायण ७ ख श्री रामायण ४००  
 —रामायण. गुरुदत्त भा सा नदन ५००  
 —रामायण राजपाल २५०  
 —रामायण, मुनिश्री आत्माराम ३००

- आवश्यकता और लेख रघुवीरशरण 'मित्र' भा सा प्र २००  
 आवागमन दत्त भारती शारदा म ४५०  
 आवागमन उर्फ जीवन रहस्य दयाल फकीर शिव सा १००  
 आवाज केगवसागर. राजपाल १२५  
 —की कहानी व्यथितहृदय शकुन १६०  
 —की दुनिया राजपाल २००  
 —तेरी है यादव, राजेश भा ज्ञानपीठ ३००  
 —सुरीली कैसे करे गर्ग, लक्ष्मीनारायण संगीत ३००  
 आवाजे ? जिंदगी चंद्रदेव सिंह अशोक पु म २५०  
 आवाजो के घेरे दुष्यंतकुमार राजकमल ४००  
 आवारा गोविंदसिंह चौधरी ३२५ [१००  
 'आवारा' की कहानिया प्यारेलाल 'आवारा' रूपसी (पा)  
 आवारो की दुनिया मडल अनूपलाल कला-नि ३५०  
 आवहन मिश्र, रामदास 'विजय', सपा हि प्रचा म १२५  
 आविष्कार और अन्वेषण विराज कमल-कुंज प्र २५०  
 आविष्कारक और आविष्कार कृष्णचंद्र विद्यालकार हि भवन (अप्रा)  
 आविष्कार कथा श्रीवास्तव, भगवतीप्रसाद पीपुल्स ३००  
 आविष्कारको की कहानिया गुप्ता, वैजनाथ इ. पब्लि ०७५  
 —की कहानी चतुर्वेदी, जगपति कि महल २००  
 आविष्कार जगत् श्रीवास्तव, भगवतीप्रसाद वसल ३००  
 आविष्कारो की कहानिया द्विवेदी, रामश्रवण नद व एव नद स ०.६२  
 —की कहानिया रामायणशरण मगध भा १ ०७५, भा २ १००  
 —की कहानिया विनोदकुमार राजपाल १००  
 —की दुनिया चतुर्वेदी, जगपति. आदर्श पु म १५०  
 —की सच्ची कहानिया नेशनल  
 —के खेल मेहरोत्रा, कृष्णमूर्ति सा भवन, इ २००  
 आवेदन प्रातप केंद्रीय ० १५  
 आशा गुप्त, भैरवप्रसाद धारा ५००  
 —का एकमात्र मार्ग ग्रेग, रिचर्ड वी. नवजीवन २००  
 —की नयी किरणें महेंद्र, रामचरण गीता १२५  
 —के तारे वर्मा, रामकुमार त्रिवेणी १००  
 आशियाना गोविंदसिंह चौधरी २५०  
 आशीर्वाद शुक्ल, साधुराम आनंद पु, वा ३००  
 आशीर्वाद शैवक भोजराज वीरा १२५  
 आशीर्वाद श्रीवास्तव, प्रतापनारायण गंगा ३००  
 आशुकि मोहन वाजपेयी, वी पी न्यू लिट ५.५०  
 आश्चर्य लोक मे एलिस कैरील, लुई राजकमल ४००, (पा) १००  
 —वृतात व्यास, अशिकादत्त रामलोचन (पा) १.००  
 आपाठ का एक दिन मोहन राकेग राजपाल २५०  
 आपाटभूति तुलसी, आचार्यश्री आत्माराम २.५०  
 आश्रम जीवन गाधी, मोहनदास करमचंद नवजीवन ०७५  
 —दिग्दर्शन भावे, विनोवा अ भा सर्व १००  
 —प्रज्ञोपनिषद् भावे, विनोवा अ भा सर्व १००

- आश्रम भजनावलि नवजीवन. ०५०  
 —वासियो से गाधी, मोहनदास करमचंद. सस्ता ०४०  
 —सहिता कालेलकर, काका गाधी हिंदु २५०  
 आसन चिकित्सा. गाधी, हरकिशनदास हि ग्र ४००  
 आस-निरास राजबहादुर सिंह राजपाल. २.००, — —हिंद  
 पा १००  
 आसपास की दुनिया कामताप्रसाद सिंह 'काम' पारिजात.  
 १००  
 आसमान तारा सिन्हा, योगेन्द्रनाथ अभिज्ञान २००  
 —भी रो देगा बाजपेयी, प्रेमचंद्र आदर्श पु. म १००  
 आसमानी घोडा सूरिदेव, रजन कला-नि १.७५  
 आसाम की लोक कथाए वर्मा, सत्यभूषण बाल सदन  
 आसावरी गोपालदास 'नीरज'. आत्माराम २५०  
 —थाट अक गर्ग, लक्ष्मीनारायण, सपा संगीत २५०  
 आसुरी माया टाल्स्टाय. सा केद्र ०७५  
 आस्कर वाइल्ड की कहानिया वाइल्ड, आस्कर भा  
 ज्ञानपीठ २५०  
 आस्ट्रेलिया मिश्र, ठाकुरदत्त इ. प्रे ०५०  
 आस्ट्रेलिया रघुनाथ सिंह. ज्ञानमंडल ४००  
 आस्ट्रेलिया सक्सेना, मुनीश राजकमल २००  
 —का सविधान गैद डी एन रतन ०७५  
 —के आचल मे नरेन्द्रनाथ, आचार्य एस चाद ५५०  
 आस्तीक साने गुरुजी स ३ राष्ट्रीय प्र मंदिर ३५०  
 आस्तीन का साप सूर्या कमलानी कि. महल १००  
 आस्था और सौंदर्य शर्मा, रामविलास कि महल. ५००  
 आह राजन सुभाष ३००  
 —क्यू. लुहसू नेगनल २००  
 —चाह डाह बाजपेयी, प्रेमचंद्र आदर्श पु म १००  
 आहट. प्यारेलाल 'आवारा'. रूपसी ३००  
 आहत वर्मा, वृंदावनलाल मयूर. ३००  
 आहार और आरोग्य ठाकुर, ज्योतिर्मयी स ३ सा सेवक  
 ४००  
 —और आहार-सुधार केदारनाथ सिंह गगा १५०  
 —और पोषण पटेल, भवेरभाई अ भा सर्व ०६०  
 —और स्वास्थ्य हीरालाल २ भा निरोगी ४०० (प्र)  
 —चिकित्सा. इहरिट, अर्नाल्ड आरोग्य १५०  
 —चिकित्सा गाधी, हरकिशनदास हि ग्र २  
 —चिकित्सा विट्टलदास छात्रहितकारी १५०  
 —निरूपण. जोशी, शकुन लोक चेतना ७००  
 —, समय और स्वास्थ्य भगवतीप्रसाद रा वेनीप्रसाद. ३००  
 —सूत्रावली पाठक, केदारनाथ नद ब्र ०५०  
 आहुति कुशवाहा 'कात' चौधरी ३७५  
 आहुति. हरिकृष्ण 'प्रेमी' स १४ हि भवन १००  
 —और अन्य कहानिया ओभा, प्रफुल्लचंद 'मुक्त' ग्रथमाला  
 ०.७५  
 आहुतिया प्रयाग १३८  
 आहुतिया. पाडेय, गणेश छात्रहितकारी १००  
 आह्लिक स्तव कपाली शास्त्री. श्रीअरविंद १.००

इ

- इकबाली चीन सिमोनोफ. हस २००  
 इगिलश कशीदाकारी मोहनी. देहाती ५००  
 —प्रवेशिका रीडर कुजी निगम, सी. डी विनोद. ३.००  
 —फूल. रानी देहाती १२५  
 इंगलैंड और अमेरिका के सविधान भा, मनोरजन . नावल्टी.  
 ६००  
 —का आर्थिक इतिहास विष्णुअनुग्रह नारायण ग्रथमाला.  
 २७५  
 —का आर्थिक इतिहास साउथगेट एस चाद. ६००  
 —का आर्थिक और सामाजिक इतिहास. कमार, अ मोतीलाल.  
 ३.७५  
 —का आर्थिक विकास जोशी. एस. चाद ३००  
 —का आर्थिक विकास स ३ मामोरिया, चतुर्भुज... सा  
 भवन, आ. ४.५०  
 —का आर्थिक विकास सहाय, रामजी. नद ब्र. एव नद. स  
 ३२५  
 —का इतिहास. गुप्त, केदारनाथ . रा. वेनीमाधव १५०  
 —का इतिहास त्रिवेदी, आर के .. लायल ४००  
 —का इतिहास प्राणनाथ विद्यालकार गगा ६००  
 —का इतिहास महाजन, विद्याधर एस चाद १०.००  
 —का इतिहास (१४८५-१९३९) (प्रश्नोत्तर). गुप्ता, एल.  
 एन .. गयाप्रसाद ३५०  
 —का राजदर्शन. गूच कि महल ४००  
 —का राजदर्शन डेविडसन कि महल ४००  
 —का राजदर्शन वारकर, सर अर्नेस्ट कि महल. ४००  
 —का राजदर्शन लास्की कि. महल ४००  
 —का शिक्षा विधान, १९४४. सागर, रामचंद्र सिंह अनिल प्र.  
 —का सविधान साहनी, पी आर. लक्ष्मी ना ५.००  
 —का सवैधानिक इतिहास रामसिंह रस्तोगी ७००  
 —का ससदीय शासन लास्की. एस चाद ६५०  
 —का सरल इतिहास (१६८८-१९४५) चार सुरजीत.  
 १२.००  
 —का साविधानिक इतिहास पत, त्रिलोचन. २ भा नद. ब्र.  
 १०००  
 —का सामाजिक इतिहास विष्णुअनुग्रह नारायण. ग्रथमाला.  
 २५०  
 —की लोक कथाए वर्मा, शुभा. हि भवन. २००  
 —की शिक्षा प्रणाली भागवतप्रसाद कि महल  
 — की शिक्षा प्रणाली सिंह, एच. एन विनोद ४५०  
 —मे गाधीजी देसाई, महादेव हरिभाई सस्ता १.५०  
 —मे शिक्षा चौवे, सरयूप्रसाद. रा. वेनीमाधव ३००  
 —मे स्थानीय शासन सिन्हा, तारकेश्वरनाथ मोतीलाल  
 ५.००  
 —मे स्थानीय शासन-प्रणाली वारेन, जे. एच नावल्टी.  
 ५.५०

- इंग्लैंड से पत्र ईशकुमार. स २ बसल १.००  
 इजेक्यन शर्मा, सुरेशप्रसाद स ७ मेडिकल १०.००  
 ईट ओमप्रकाश सर्वोदय ०.५०  
 इटर काव्य सग्रह प्रदीपिका देवीप्रसाद कुसुम स २ लायल ४५०  
 —कृपि विज्ञान शर्मा, श्यामप्रसाद स २ भा भा प्र भा १ ६५०, भा २ ५५०  
 —चलन कलन गोविल, वी एल स ४ भा भा प्र १ २५  
 —ज्यामितीय ड्राइंग टडन, आर एन. भा भा प्र २ २५  
 —प्रारम्भिक हिंदी दिग्दर्शन राकेश लायल २५०  
 इटरमीडियेट कलन रे एस चाद १ २५  
 —काव्य सग्रह डेविड, सी डब्ल्यू गयाप्रसाद २ २५  
 —कैलक्यूलस रस्तोगी, जगदीशरण आगरा बुक १.००  
 —ठोस ज्यामिति दत्त, उपेन्द्र चंद्र रा वेनीप्रसाद १ ५०  
 —त्रिकोणमिति गुप्त, सुशीलकुमार एस चाद ३ ५०  
 —बीजगणित बट, एम-ए एस चाद ३ ७५  
 —बीजगणित रे, मनोहर शिवलाल ३ ५०  
 —वैकिंग गर्ग, कातानाथ कि महल ५.००  
 —रचनात्मक ज्यामिति श्रीवास्तव, वेनीप्रसाद आगरा बुक ३.००  
 —सामान्य मनोविज्ञान श्रीवास्तव, देवेन्द्रनाथ रतन २ ५०  
 —सौलिड जोमेट्री शुक्ल, रामावतार पु भ १ ५०  
 —स्मृति-चित्रण. किरण आत्माराम १ २५  
 इटर स्मृति-चित्रण टडन, आर एन स ३ भा भा प्र इडोनेशिया दि लायब्रेरी ०.६२ [१ ५०  
 इडोनेशिया राव, उमा राजकमल २.००  
 इडोनेशिया शर्मा ओरिएटल ०.७५  
 —की लोक-कथाए अग्रवाल, सविता आत्माराम १ ५०  
 इदिरा. भाग्योदय (पा) १.००  
 इदिरा चट्टोपाध्याय, वकिमचंद्र कि महल १ ७५, — श्री प्रभाकर. २.००, — हि पु ए १ २५, — हि प्रचा पु १ ५०, — हिंद पा १.००  
 इदिरा मिश्र, जगदीशचंद्र त्रिवेणी ३ २५  
 इद्रुमति गोविंददास, सेठ एस चाद ७.००, — कि महल १ ५.००, — हिंद पा १.००  
 इद्रजाल प्रसाद, जयशंकर भा भ २ ५०  
 इद्रजाल रघुनाथ सिंह प्रचा पा १.००  
 इद्रधनु रौते हुए ये वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद 'अज्ञेय' सरस्व प्र ४.००  
 इद्र धनुष भगवतिह हेमकुट १ ६५  
 —धनुष रागेय राघव विनोद १ ५०  
 —धनुष वर्मा, रामकुमार राज किशोर ३.००  
 —धनुष सत्येन्द्र शरत् हि भवन ४ २५  
 —धनुष साहर, जी आर मा नगम, लु २ ५०  
 —धनुष (टीका) राज किशोर १ २५  
 —धनुष भारतजीवन ०.२५  
 —धनुष निह भा भ २ ५०  
 —यज्ञदत्त आत्माराम. ४ ५०

- इसान और शैतान डे, सतीश देहाती १ २५  
 —कभी नहीं हारा वर्मा, सावित्रीदेवी आत्माराम १.००  
 —का दिल रूप कमल २.००  
 —की कहानी आनंद, मुल्कराज राजकमल ३.००  
 —जाग उठा वशीधर 'राजू' कन्हैयालाल २.००  
 —जाग उठा शुक्ल, कमल हि प्रचा पु २ ५०  
 —पैदा हुआ गोर्की, मैक्सिम पीपुल्स १ १२  
 —पैदा हुआ रागेय राघव कि महल ४.००  
 —या शैतान स्टीवेन्सन हिंद पा १.००  
 इसानियत इसाफ मागती है शंकर सुल्तानपुरी नवयुग पु भ ५.००  
 —के भरने भावे, विनोवा सर्वोदय सा ०.५०  
 —फिर भी जीवित है करुणोदर आत्माराम ३.००  
 —मौत के दरवाजे पर अबुल कलाम आजाद, मौलाना रा वेनीप्रसाद १.००  
 —से आगे पंडित, रामप्रीत कन्हैयालाल ३.००  
 इसाफ शर्मा, यज्ञदत्त सा प्र ३.००  
 —के मालिक कुकरेती सा नि, व १.००  
 —चीख उठा वाजपेयी, प्रेमचंद्र पुष्पी १ २०, — सुरेन्द्र २ २५  
 इकवाल की शायरी चोपडा, हीरालाल प्रचा पा १.००  
 इकवाल जीवनी और सकलन राजपाल १ ५०  
 —शायरी हिंद पा १.००  
 इक्का, तागा, मोटर भा भ १.००  
 इक्कीस कहानिया पाठक, वाचस्पति भा भ ४ ५०  
 —कहानिया (पाठक) समीक्षा प्रताप हि सा भ १ ५०  
 २१ रूसी कहानिया पीपुल्स ५.००  
 इक्कीसवीं सदी वाइसवीं सदी सफडिया, भगवानदास सन्मार्ग ४.००  
 इच्छा शक्ति ओझा, भालचंद्र भा पु म १ ७५  
 —शक्ति कनेडी, जान रूपकमल १ ५०  
 —शक्ति कैसे बढ़ाये? केनेडी, जान सुबोध प्र २ २५  
 इटली की कथाए गोर्की, मैक्सिम पीपुल्स १ ५०  
 इतना तो जानिए आनंदकुमार सस्ता  
 — तो जानो कि महल ०.६२  
 — तो जानो परीख, नरहरि द्वारकादास हि सा मम्मे ०.३१  
 इतनी परेगानी क्यों? श्रीमन्नारायण सस्ता २ ५०  
 इतस्तत जैनेंद्रकुमार पूर्वोदय १.००  
 इतिहास अमृतराय हम २ ५०  
 — और आलोचना नामवरसिंह नया सा प्र ५.००  
 — और कल्पना प्रिय दर्शन शिवलाल २.००  
 — और कल्पना शर्मा, अविनाशकांत, सपा मुशीराम ३.००  
 — की कहानिया जहूरखान गंगा १.००  
 — की कहानिया शर्मा, सूर्यदेव आर्य सा ०.५०  
 — के अचल से वर्मा, रमेश कि महल १ २५  
 — के आसू रामधारी सिंह 'दिनकर' उदयाचल ३.००  
 — के चार फूल शिरीष सुभाष १.००

- इतिहास के देवता. रघुवीरशरण 'मित्र' भा. भा. प्र. १७५  
 —के पन्ने नाहर २ भा. कि महल. २.५० (प्र)  
 —के पन्ने प्रशात २ भा बाल सदन ०.७५ (प्र.)  
 —के विखरे पन्ने. गोपाल. साहनी ०.५०  
 —के बोलते पृष्ठ छत्रमल, मुनिश्री अ भा अणुव्रत २७५  
 —के बोलते पृष्ठ ध्रुवमल, मुनिश्री आदर्श सा. २७५  
 —के महापुरुष नेहरू, जवाहरलाल सस्ता. १.५०  
 —गाथा दीक्षित, ब्रह्मदत्त. २ भा. सरस्व प्रे. ०.५० (प्र)  
 —चद्रिका, चिश्ती, एस ए नद ब्र १५०  
 —चक्र लोहिया, राममनोहर. रश्मि २००  
 —दर्शन बुद्धप्रकाश हि समि १२००  
 —प्रवेश. स. ५ हि भवन. ११००  
 —प्रवेश उत्तरार्द्ध. हि भवन ६००  
 —प्रवेश पूर्वार्ध हि भवन. ५००  
 —प्रवेशिका प्रयाग २.६२  
 —प्रश्नोत्तरी अग्रवाल, कृष्णमोहन रीगल. १.७५  
 —मे भारतीय परंपराए गुरुदत्त. ओरिएण्टल एव भा सा सदन. ८००  
 —मे व्यक्ति की भूमिका प्लेखानावे, जी पीपुल्स. ०.७५  
 —रत्नसागर चमनलाल भजनीक देहाती ०.८७  
 —शिक्षण त्यागी, गुरुसरनदास. स २ विनोद ४५०  
 —शिक्षण परमात्मा सिंह रा वेनीमाधव ४००  
 —शिक्षण भारद्वाज, एल. पी गयाप्रसाद  
 —शिक्षण शर्मा, मुकुददेव नद ब्र २००  
 —शिक्षण श्रीवास्तव, प्रेमप्रकाश मगध  
 —शिक्षण सत्सगी, जी डी विनोद २००  
 —शिक्षण विधि टडन, तेजनारायण, सपा हि सा भ १.२५  
 —शिक्षण शैली श्रीवास्तव, वैजनाथलाल. नद ब्र. १.५०;  
 — —नद सं २२५  
 —साक्षी है उपाध्याय, भगवतशरण. भा ज्ञानपीठ ३.००  
 इत्ता-इत्ता पानी ब्रह्मदत्त. भा सा सदन २.५०, (पा)  
 इत्यादि भट्ट, उदयशंकर आत्माराम ३५० [१००  
 इनकी भी कहानी है. आनदकुमार. हि प्र. म १५०  
 इनको तुम जानते हो? (प्रेमचंद) श्यामविहारी 'विरागी'  
 राष्ट्र प्र म १.६६  
 इनसे सुकुल, ललिताप्रसाद हि प्रचा. पु २५०  
 —कुछ सीखो (तुलसीदास) श्यामविहारी 'विरागी' राष्ट्र  
 प्र म १.६६  
 —क्या सीखो. आनदकुमार एस चाद १००  
 इन्कलाव अहमद अब्बास, खाजा राजपाल ६००  
 इन्कलाव पुष्पा 'भारती' भा. स प्र २.००  
 इन्कलाव शर्मा, जगदीश देहाती १२५  
 इन्शा अल्लाह. शौकत थानवी सहगल ३००  
 इन्स्टालमेट वर्मा, भगवतीचरण भा भ २००  
 इन्हे भी इतजार है शिवप्रसाद सिंह हि प्रचा. पु ४.००  
 इन्ने खलदून का मुकद्दमा या विश्व-इतिहास की प्रस्तावना  
 अब्दुलरहमान इन्ने खलदून हि हि समि १.०००

- इरावती. प्रसाद, जयशंकर भा भ. २००  
 इरावती बनकाम सुनील विनोद. ५.००  
 इर्या और पाप शर्मा, शिवचंद्र सा साधना. ३७५  
 इलाचंद्र जोशी और उनके उपन्यास न्याय, सुखदेव. सा. सगम,  
 लु ५.००  
 —जोशी के उपन्यास तिवारी, बलभद्र रणजीत ३७५  
 —जोशी, साहित्य और समीक्षा. भटनागर, प्रेम सा. प्र  
 ६००  
 इलेक्ट्रान विवर्तन वीचिंग, आर हि समि २५०  
 इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग बुक नरेद्रनाथ देहाती १५.००  
 —गाइड नरेद्रनाथ देहाती १०००  
 —गैस वैल्विंग शर्मा, जयनारायण देहाती १०.५०  
 —परीक्षा पेपर्स नरेद्रनाथ २ भा देहाती १२००  
 —वैट्रीज नरेद्रनाथ देहाती ४५०  
 —मीटर्ज नरेद्रनाथ देहाती ८२५  
 —मोटर्स नरेद्रनाथ. देहाती ८२५  
 —मोटर्स आट्टरनेटर्स नरेद्रनाथ. देहाती १६५०  
 —लाइटिंग. नरेद्रनाथ देहाती ८२५  
 —वायरिंग. नरेद्रनाथ देहाती ४५०  
 —वैल्विंग नरेद्रनाथ देहाती. ६००  
 —सुपरवाइजर परीक्षा पेपर्स. नरेद्रनाथ. देहाती ७५०  
 —सुपरवाइजरी शिक्षा नरेद्रनाथ. देहाती ६००  
 इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियरिंग मायूर, किशनचंद रतन एड क.  
 ६००  
 —रूलज १६५६ नरेद्रनाथ. देहाती १.५०  
 इलेक्ट्रोप्लेटिंग गुप्ता, कालीचरण देहाती ०.५०, ४५०  
 —का काम वर्मा, चट्टलाल 'चंद्र' चंद्र कार्या १.५०  
 इत्जाम शर्मा, जगदीश देहाती १२५  
 इवान वेल्किन की कहानिया पुश्किन, अ. से पीपुल्स.  
 ११२  
 इशारा कुशवाहा 'कात' चौधरी ३.००  
 इशारा फडके, ना सी ववई प्र ५५०  
 इशारे पंडित, रामप्रीत. कन्हैयालाल ३.००  
 इश्क पर जोर नहीं आदिल रशीद पजाबी पु ४.००  
 —पर जोर नहीं चगनाई रूपसी (पा.) १.००  
 इस जगत की पहली घोष, अरविंद श्रीअरविंद १.२५  
 —देश को राजा में युगल सा भवन, इ १.००  
 —देश की मिट्टी, इस देश के लोग शुक्ल, अमरनाथ. विद्या  
 प्र. म २००  
 इसन्नीति कथा मित्र, रामदहिन २ भा रा. वेनीमाधव  
 ०.५० (प्र)  
 इस्पात प्रताप चिनगारी २५०  
 —का उत्पादन दयास्वरूप. . हि समि. ५००  
 इस्मत की सर्वश्रेष्ठ कहानिया उपेद्रनाथ 'अश्क', सपा  
 नीलाभ  
 इस्लाम के सूफी साधक निकलसन, रेनाल्ड ए मित्र ४.००  
 —धर्म की रूप रेखा राहुल साकृत्यायन. कि महल ३.००  
 इस्लामी दुनिया का सिरताज. इ प्रे २.००

इ

- ईस और चीनी वर्मा, फूलदेवसहाय वि राष्ट्र १३५०  
 ईडीपस पाप, प्रेम और मृत्यु सोफोकलीज आत्माराम ३.००  
 ईमान और ईजाद गोविर्दासिंह कन्हेयालाल ५ २५  
 ईमानदारी जाकिर हुसैन मकतवा ० ५०  
 ईरान दि लाइब्रेरी ० ६२  
 ईरान गहल साकृत्यायन इ प्रे १ ७५  
 ईरान सत्यपाल विद्यालकार राजकमल २ ००  
 —की लोक कथाए रमेशचंद्र 'प्रेम' कि महल १ ५०  
 ईशदूत ईसा विवेकानंद, स्वामी स २ श्रीरामकृष्ण ० ४०  
 ईशान वर्मन नाटक मिश्र, श्यामविहारी रा वेनीप्रसाद  
 ० ७५  
 ईशावास्यवृत्ति भावे, विनोवा सस्ता ० ७५  
 ईशावास्योपनिषद् भावे, विनोवा सस्ता ० १२  
 —दर्पण सत्यदेव विश्वेश्वरानंद १ ००  
 —, शकरभाष्य सहित गीता ० २०  
 ईशु ख्रिस्त मगरुवाला, किशोरलाल नवजीवन ० ६२  
 ईशोपनिषद गोपाल म २ वसल ० ६०  
 ईशोपनिषद विद्यानंद सरस्वती स २ साधन ० ५०  
 ईश्वर और धर्म—विज्ञान की कसौटी पर कैलाशनाथ  
 प्रगतिशील.  
 —का भजन और दूसरी कहानिया कौशल, रामस्वरूप  
 आत्माराम २ ००  
 —का मंदिर श्रीकृष्ण सस्ता ० ४०  
 —की सत्ता और महत्ता पोद्दार, हनुमानप्रसाद, सपा गीता.  
 १ २५  
 —के सपर्क मे ट्राइन, राफ वाल्डो छात्रहितकारी २ ००  
 ईश्वरचंद्र विद्यासागर जैन, राजाराम सस्ता ० ४०  
 ईश्वर धर्म-नीति पर गाधीजी के विचार मिश्र, रामदास  
 'विजय' हि प्रचा म ० ८७  
 —पैदा हुए ओझा, भालचंद्र अभिज्ञान २ ००  
 —प्रार्थना विद्यार्थी, सुरेशचंद्र देहाती ० ३७  
 —भक्ति न्यादरसिंह 'वेचन' देहाती ० ७५  
 —भक्ति गुटका विद्यार्थी, सुरेशचंद्र देहाती ० ७५  
 —मीमाना कर्मानंद श्री भा दिगवर ५ ००  
 ईश्वरीय दंड शर्मा, विश्वभग्नाथ 'काशिक' विनोद ३ ००  
 —त्रोच रामकृष्ण परमहंस छात्रहितकारी १ ७५  
 ईसप की कहानिया ना. नि, वा २ ००  
 —की कहानिया जह्मनाथ राजपाल १ ५०  
 —की नीति कथाए ननाइय, देवपि २ भा वसल १ २५  
 (प्र)  
 ईसकथा शर्मा, चंद्रिकाप्रसाद ना वेनीप्रसाद ० ३१  
 ईसा की न टाल्लाय मन्ना १ ००  
 —मे गागी, मो क नवजीवन ० ३५  
 ईसु १, गौरीशकर 'शकर' बुदेल १ ५०

उ

- उखडे विरवे इटुमती सरस्व प्रे ३ ००  
 —हुए लोग यादव, राजेद्र राजकमल १० ००, — —सा  
 सदन १० ००  
 उगता चाद शर्मा, राजेश वाल सदन  
 उगते नक्षत्रो से ठाकुर, मथुरा 'विद्रोही' कला-नि ० ७५  
 उग्र का हास्य शर्मा, पांडेय वेचन 'उग्र' कला-नि १ २५  
 —की श्रेष्ठ कहानिया शर्मा, पांडेय वेचन 'उग्र' राजकमल  
 (पा) १ ००  
 उग्रतारा नागार्जुन राजपाल २ ५०  
 उग्रवादी कम्युनिज्म एक वचकाना मर्ज लेनिन, व्ला ई  
 पीपुल्स १ २५  
 उच्च गणित के प्रश्नोत्तर नाँवली ३ ००, ५ ००  
 —जीवन मिश्र, उमेशचंद्र श्रीराम मेहरा १ २५  
 उच्चतर निबंध विरथरे सिंह भोपाल १ ५०  
 —निबंध भारती राय, सिंहासन सिद्धेश आदर्श पु, भ  
 —बीजगणित गुप्ता, जी पी यग मैन ३ ७५ [५.००  
 —माध्यमिक अर्थशास्त्र गुरुदेवशरण गयाप्रसाद ५ ००  
 —माध्यमिक अर्थशास्त्र देराश्री, सत्यदेव लक्ष्मी ना ७ ५०  
 —माध्यमिक अर्थशास्त्र बल्दुआ, पन्नालाल मिश्र-बधु  
 भा १ १ २०, भा २ २ ५०, भा ३ २ ००  
 —माध्यमिक अर्थशास्त्र. रामकमल सिंह अशोक पु म  
 ४ ००  
 —माध्यमिक घन ज्यामिति नदा, के एन लायल १ २५  
 —माध्यमिक त्रिकोणमिति वैश्य, जे डी नद स ४.५०  
 —माध्यमिक नागरिक शास्त्र रामकमल सिंह अशोक पु म.  
 ४ ००  
 —माध्यमिक नागरिक शास्त्र तथा भारतीय शासन लूनिया,  
 वी एन लक्ष्मी ना ७ ००  
 —माध्यमिक पथ प्रदर्शिका कमलेश हि पु ए ३ ००  
 —माध्यमिक प्रायोगिक भौतिकी दुवे, विद्यासागर मानकचंद.  
 ४.००  
 —माध्यमिक वहीखाता गुप्ता, रूपराम आगरा बुक  
 ६ ००  
 —माध्यमिक वहीखाता एव लेखाकर्म शर्मा, एन के आगरा  
 बुक ६ २५  
 —माध्यमिक वहीखाता एव लेखाकर्म शर्मा, सूरजप्रसाद .  
 लक्ष्मी ना भा १-२ ७ ५०, भा ३ ४ ५०  
 —माध्यमिक भारत इतिहास द्विवेदी, कमलकृष्ण मिश्र-बधु  
 भा १-३  
 —माध्यमिक भूगोल का सरल अध्ययन मिश्र, मतीशचंद्र  
 सुरेज ६ ००  
 —माध्यमिक भूगोल की रूपरेखा मित्तल, जगदीशचंद्र  
 सुरेज ७ ५०  
 —माध्यमिक भौतिक शास्त्र कानडे, श्रीपाद विष्णु. मिश्र-बधु-  
 भा १-२. ३.०० (प्र), भा ३. ३ ५०

- उच्चतर माध्यमिक भौतिकी कुलश्रेष्ठ, बी एल. आगरा बुक  
भा १ ५.००, भा २ ६.००
- माध्यमिक रसायनशास्त्र श्रीवास्तव, आर के ...  
गयाप्रसाद ६.००
- माध्यमिक वाणिज्य प्रणाली रस्तोगी, धनप्रकाश  
केदारनाथ भा १ २.७५, भा. २ २.५०, भा ३  
२.७५
- माध्यमिक शिक्षा की ऐतिहासिक भूमिका राघवप्रसाद सिंह  
हिं सा भ ६.००
- माध्यमिक सामाजिक अध्ययन इद्रु परिहार मिश्र-बधु.  
भा १ १.३७, भा २ २.५०, भा ३ १.२५
- समाज शास्त्र विश्वमित्र केदारनाथ भा १ ६.७५,  
भा २ ४.२५
- सामान्य विज्ञान वर्मा, सतीश प्रभात पब्लि ४.५०
- उच्च माध्यमिक आकिक-भौतिकी बैनरजी, एन एल मिश्र-  
बधु
- माध्यमिक नागरिक शास्त्र उपाध्याय, कमलाकर मिश्र-  
बधु भा १. १.६०, भा २ २.५०, भा ३. २.००
- माध्यमिक रसायन परिचय बैनरजी, एन एल मिश्र-बधु
- माध्यमिक रासायनिक गणनाए बद्रोपाध्याय, न मिश्र-बधु
- लेखा-कर्म बलदुआ लक्ष्मी ना ८.५०
- लेखा कर्म के सिद्धांत बलदुआ, पन्नालाल. . रा बेनीमाधव  
१५.००
- विषयक लेखमाला सान्याल, नलिनी मोहन रा बेनीप्रसाद  
एव रा बेनीमाधव. १.५०
- शिक्षा के ध्येय राजकमल
- उच्छ्वास गुप्त, मैथिलीशरण सा. सदन, चि. २.५०
- उच्छ्वास विद्यार्थी, कृष्णाकुमार अशोक प्रे १.७५
- उच्छ्खल निरुपमा देवी सुभाष २.००
- उजडा घर ठाकुर, रवींद्रनाथ चौधरी १.५०, — —सुरेद्र  
२.००, — —स्टार (पा) १.००
- घोसला भटके पख पटेल, पीतावर आत्माराम १.५०
- उजडी बस्ती वे सहारे लोग श्यामविहारी 'विगगी' राष्ट्र  
प्र म ४.००
- उजड घर विश्वभर 'मानव' कि महल ५.००
- उजला कफन रघुवीरशरण 'मित्र' भा सा प्र ४.००
- उजली आग रामधारी सिंह दिनकर' उदयाचल ३.००
- हमी के छोर पर श्रीवास्तव, परमानंद नया सा प्र ३.००
- उजले-काले कपिल बेला २.००
- दाग गोविंदसिंह चौधरी ३.५०
- उजाला कृष्णावहादुर चंद्रा कि महल १.७५
- उज्जैन की लोक-कथाए प्यारेताल आत्माराम १.२५
- उज्जैनी दर्शन त्रिपाठी, सच्चितानंद मानकचंद १.५०
- उज्ज्वल मणिभा द्याम, मुरलीधर नवयुग प्र कु ०.७५
- उठती दिवारे हिलती नीव निश्रानिग, स्कॉट रूपकमल  
५.५०
- उठते कदम शर्मा, श्रीराम राम' गगा ६.५०
- उठो. कृष्णानंद, स्वामी. स ३ आरोग्य १.२५

- उठो ! जागो ! ! वृद्धमल्लजी, मुनिश्री आत्माराम १.००
- जागो. वात्स्यायन, विमल एस चाद ३.००
- विकास देवता ! अमरवहादुर सिंह 'अमरेश' गगा १.५०
- वीर सतान ! गोस्वामी, वासुदेव. गोस्वामी ०.२५
- हिम्मत करो. श्रीवास्तव, हिमाशु कल्याणदास एव बि. प्र  
कु २.००
- उडजा पछी, शिकारी आया त्रिवेदी, रश्मिकात सांस्कृतिक.
- उडती धून हर्षनाथ चौधरी २.००
- उडते अतिथि वर्ने, जूले इ प्रे २.००
- उडते कुशवाहा 'कात'. चिनगारी ३.००
- घन-पटल . साहित्य-विवेचन शर्मा, रामानंद कन्याकुमारी.
- छीटे गोस्वामी, वासुदेव. गोस्वामी १.२५
- पछी वरेरकर, मामा विद्या प्र म २.२५
- श्री अवध २.००
- पत्ते चतुर्वेदी, देवीदयाल 'मस्त' इ प्रे २.५०
- पत्ते प्रकाशशकर आशा पब्लि. एव जुही-कुज ५.००
- फूल कालेलकर, काका वीरा. २.००
- उडन खटोला. श्रीवास्तव, जी पी ज्ञानमडल एव भा. प्र  
मडल. १.५०
- तश्तरी वर्मा, रमेश रामप्रसाद २.००
- उडने के पख मिश्र, जगदीशचंद्र त्रिवेणी २.००
- उडम घुडम बालकृष्ण रणजीत. ०.७५
- उडाने कृष्णचंदर. सहगल. ३.५०
- उडे पन्ने सरस्वती सरन 'कैफ' हिं प्रचा पु. (पा.) १.००
- उत्कलमणि गोपबधु पाठक, अनसूयाप्रसाद, अनु राष्ट्र पु भ  
०.५०
- उत्कल साहित्य का इतिहास पाठक, अनसूयाप्रसाद राष्ट्र पु  
भ १.००
- साहित्य की सर्वश्रेष्ठ कहानिया पाठक, अनसूयाप्रसाद  
राष्ट्र पु भ १.८७
- उत्तम एकाकी बबई हिं ०.८०
- गद्य सुशील ज्ञानी, सपा बबई हिं १.२५
- निवध कैसे लिखे केला, ओमप्रकाश . भा प्र १.२५
- पद्य मन्त्री, ना ह , सपा बबई हिं १.००
- उत्तमी की मा यशपाल. विप्लव ३.००
- उत्तरकाड स्वरूप ०.७५
- उत्तरकाड ग्रवस्थी, हरिकृष्ण, सपा हिं सा. भ. १.७५
- सटीक त्रिवेदी, भवानीशकर रीगल २.००
- सटीक दीक्षित, विश्वप्रकाश 'बटुक' राजहम १.८७
- उत्तर की दिवारे कालेलकर काका नवजीवन ०.८७
- उत्तरपाडा अभिभाषण घोष, अरविद श्रीअरविद. ०.३७
- उत्तरपुराण गुणभद्र भा ज्ञानपीठ १.००
- उत्तर प्रदेश अग्रवाल, रामनारायण गजहस १.७५
- प्रदेश और बिहार के एक दौरे के कुछ अनुभव. लोटिया,  
राममनोहर नवहिंद ०.७५
- प्रदेश का सांस्कृतिक इतिहास वाजपेयी, कृष्णदत्त रा २.  
शिवलाल २.५.
- प्रदेश की लोक कथाए. सर्वोदय. १.००



- उत्तर प्रदेश की लोक कथाएँ शुक्ल, कमल ४ भा नवयुग प्र १०० (प्र)
- प्रदेश में बौद्ध धर्म का विकास दत्ता, नलिनाक्ष हिं समि ६००
- बिहार भूवनेश्वर सिंह ग्रथालय ०३७
- भारत की लोक-कथाएँ वर्मा, सावित्रीदेवी आत्माराम १२५ (प्र)
- भारतीय मगीत का संक्षिप्त इतिहास भातखंडे, विष्णु-नारायण मगीत २००
- उत्तररामचरित आनंदस्वरूप मोतीलाल ६००
- उत्तररामचरित इंद्र विद्यावाचस्पति राजपाल २००
- उत्तररामचरित भवभूति मोतीलाल ६००, — —सस्ता ०४०
- उत्तररामचरित मिश्र, ठाकुरदत्त कि महल १५०
- नाटक भवभूमि रत्नाश्रम २२५
- उत्तररामचरितम् भवभूति रा वेनीप्रसाद ४५०, — — अंक ३ रा वेनीमाधव १००
- उत्तररामचरितम् अंक ३ भवभूति शुक्ल, रामचंद्र, सपा रा वेनीमाधव १००
- उत्तररामचरित्र गुरदाम. २५०
- उत्तरा पत, सुमित्रानंदन भा भ ५००
- उत्तरखंड की यात्रा गीता २००
- के पथ पर जैन, यशपाल सस्ता २५०
- यात्रा दर्शन डबरान, शिवप्रसाद श्यामलाल १०००
- उत्तराधिकार. धवन, देवीप्रसाद 'विकल' हिंदिया ३००
- उत्तराधिकार भट्ट, उदयशंकर राजकजल (पा) १००
- उत्तराधिकारी यशपाल विष्णु ३००
- उत्तरी अफ्रीका युद्ध काल का संक्षिप्त इतिहास नाथ, आर . भा प्र मंदिर २७५
- अमरीका तिवारी, शिवकुमार केदारनाथ ५५०
- अमेरिका का भूगोल वागला, सीताराम स २ कि घर, का
- अमेरिका की भौगोलिक समीक्षा गौड़, कृपाशंकर हिं प्रचा पु १५००
- और और दक्षिणी ध्रुवों की कहानी राजपाल २००
- ध्रुव की कहानियाँ प्रभात प्र ३००
- ध्रुव की महत् कालवर्ट जेम्स आत्माराम २००
- ध्रुव के नीचे सर्वप्रथम एडर्सन, आर आत्माराम २५०
- ध्रुव बर्फ की दुनिया एडर्सन, विलियम आर आत्माराम ५५०
- ध्रुव-विजेता स्टेफर्ड, मेरी पियरी आत्माराम ४००
- ध्रुव से गंगा पटेल, परमानंद राजकमल ८००
- भारत की नत परंपरा चतुर्वेदी, परशुराम भा भ १५००
- उत्तरीय-मगीत-शास्त्र वर्मा, पतजलदेव आत्माराम १५०
- उत्तरीय दक्षिणी ध्रुव की रोज. सर्वोदय ०५०
- उत्पत्ति । जागृत । बुद्धमन्त्रजी, मुनिश्री आत्माराम १००
- उत्थान मानी, तोपिल अगोक प्र गृ २५०
- अंक मानवधर्म ४००

- उत्सर्ग ओझा, प्रफुल्लचंद 'मुक्त' ग्रथमाला १२५
- उत्सर्ग चौहान, लक्ष्मणसिंह इ प्रे १०५
- उत्सर्ग मौलियर गंगा १००
- उत्सर्ग शर्मा, श्रीराम 'राम' हिंदिया ३७५
- उथल पुथल का युग गोविंददास प्र. विभाग ३००
- उथले जल के पक्षी चतुर्वेदी, जगपति कि महल २००
- उदय अस्त. शर्मा, पृथ्वीनाथ हिं भवन. २.२५
- किरण वर्मा, वृंदावनलाल मयूर. २००
- उदयन मिश्रवधु गंगा ५००
- कथा विराज हिं प्र म ०७५
- उदयाचल शंभूनाथ सिंह प्रभात पब्लि २००
- के आचल में सगर, सत्यप्रकाश राजकमल. ३००
- उदयास्त चतुरसेन, आचार्य राजपाल ४००
- उदात्त सिद्धांत और शिल्पन पांडेय, जगदीश अर्चना प्र, आ १६००
- उदारता की घड़ी गैलब्रेथ, जान कैनेथ आत्माराम ४००
- उद्घाटन मंत्री तथा अन्य एकाकी श्रीवास्तव, कृष्णाकिशोर हिं भवन २६०
- उद्भव शतक उपाध्याय, विश्वभरनाथ रतन ३५०
- शतक जगन्नाथदास 'रत्नाकर' इ प्रे २००
- शतक दीक्षित, रामप्रकाश पु भ, आ ५००
- शतक (रत्नाकर) (प्रश्नोत्तर) भारतभूषण 'सरोज'. विनोद २५०
- शतक अनुशीलन गुप्त, शिवस्वरूप नवयुग पु भ २५०
- शतक, एक अध्ययन चतुर्वेदी, राजेश्वरप्रसाद रतन १५०
- शतक परिशीलन अशोककुमार सिंह आत्माराम २००
- शतक प्रश्नोत्तरी वर्मा, रामगोपाल सरस्व पु स १५०
- शतक समीक्षा मिश्र, रामनारायण विनोद २००
- उद्धार चट्टोपाध्याय, शरत्चंद्र वीरा ०.७५
- उद्धार हरिकृष्ण 'प्रेमी' आत्माराम २००
- उद्बोधिनी सतराम इ प्रे ३००
- उद्भ्रात जैन, जैनकुमार भागलपुर बुक ३००
- प्रेम मुखोपाध्याय, चंद्रशेखर ग्रथमाला ०७५
- उद्यान जोशी, शंकरराव गंगा ४००
- कृषि-दर्शन राय, रामसागर कला-नि
- शास्त्र श्रीवास्तव, एस डी स २ रामप्रसाद ३००
- उद्योग और रसायन श्रीवास्तव, गोरखप्रसाद, अनु हिं समि ७००
- घधा काशी पु २००
- नियंत्रण रावर्टसन मोतीलाल ४५०
- उद्योग का पति भवालकर, वनमाला आत्माराम १००
- उनका पथ हमारा निर्माण जैन, फूलचंद 'सारंग' शिवलाल ०५०
- पथ हमारे चरण जैन, फूलचंद 'सारंग' कि घर, गवा २००
- वचनपन यू दीता जयप्रकाश 'भारती' शिक्षण १२५
- उनतालीस वर्ष नरेंद्रसिंह सा सगम, तु ५००
- उनमन डालमिया, दिनेशनदिनी सा भवन, इ ३००

- उनमे न कहना. वाजपेयी, भगवतीप्रसाद. राजपाल. ५००  
 उन्नत कृषि की ओर जायसवाल, प्यारेलाल. राजकमल. २००  
 — कृषि विज्ञान राय, जयनाथ... साधना म. ७३७  
 — फल उत्पादन सर्वोदय १.५०  
 — बीज. सर्वोदय. १५०  
 — राष्ट्र शिवधान सिंह गयाप्रसाद. २००  
 — सिंचाई रामेश्वर अशात देहाती २००  
 उन्नति का मार्ग एलेन, जेम्स चौधरी १५०  
 — का विधान देवदत्त शास्त्री साहनी ०७५  
 — की आस अच्छी कपास सर्वोदय १.५०  
 — की ओर गुप्ता, वैजनाथ २ भा दास ०५० (प्र.)  
 २६ फरवरी १९६० श्रीमाताजी श्रीअरविंद ०५०  
 १९वी तथा २०वी सदी मे यूरोप लिप्सन, ई गयाप्रसाद.  
 १६००  
 उन्नीसवी शताब्दी वाष्ण्येय, लक्ष्मीसागर सा भवन, इ.  
 ३५०  
 — सदी का नया आविष्कार नथमल, मुनिश्री. अ भा. अणुव्रत.  
 ०१९  
 उन्नीस सौ इकसठ एक सिंहावलोकन अमरनाथ, सपा  
 ज्ञानालोक १५०  
 १९८४ आर्वेल, जॉर्ज राजपाल ३००  
 १९७५ और आगामी परिवर्तन २ भा. एस चाद  
 उन्माद चौधरी, कमला आत्माराम ३००  
 उन्माद. हसरज 'रहवर'. हिंदू पा १००  
 उन्मादिनी चौहान, सुभद्राकुमारी हस. २५०  
 उन्मुक्त गुप्त, सियारामशरण सा सदन, चि. २५०  
 उपकार विश्वोई, शिवरानी नद ब्र एव नद स. २५०  
 उपदेश की कथाए मिश्र, देवदत्त आदर्श पु म १००  
 — की कहानिया भा, शुकदेव भा ३ अशोक पु म ०६४  
 — की कहानिया मिश्र, देवदत्त आदर्श पु. म १००  
 — की कहानिया रामसकल सिंह भा २ अशोक पु म  
 ०६४  
 — की कहानिया सुखराम सिंह. भा. १. अशोक पु म  
 १००  
 — पूर्ण कहानिया भा, कमलनारायण 'कमलेश'  
 ग्रथ भ ०५०  
 — मजरी दयानंद, स्वामी. देहाती २.५०  
 उपदेशामृत ४ भा शारदा म भा १०५०, भा. २  
 ०६३, भा ३ ०८७, भा ४ १००  
 उपदेशी गायन सग्रह भैयालाल श्री भा दिगंबर ०.३१  
 उपनिषद् राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती हिंदु टाइम्स २२५  
 — आर्य-भाष्य आर्य मुनि गोविंदराम  
 — कथा दासगुप्त, सुधीरकुमार ग्रथमाला १५०  
 — की कथाए पांडेय, छविनाथ कला-नि २५०  
 — के आदर्श बालक राय, रामखेलावन मगध ०७५  
 — चिंतन देवदत्त शास्त्री कि महल २५०  
 — ज्ञान भागवत, दीनानाथ 'दिनेश' ख १. मानवधर्म १.००  
 — दिग्दर्शन. दीवानचंद विश्वेश्वरानंद २.७५

- उपनिषद् प्रकाश. दर्शनानंद, स्वामी. देहाती. ६.००, — —  
 प्रभात प्र ३५०  
 — मदाकिनी देवदत्त शास्त्री कि महल ५००  
 — सग्रह देवेद्रनाथ शास्त्री, अनु सशो स आर्य सा. ६.००  
 उपनिषदों का अध्ययन भावे, विनोवा सस्ता. १.००  
 — का सदेश आनंदस्वामी गोविंदराम १२५  
 — की कथाए देव, शकरराव हिं प्र म. १००  
 — की कथाए. श्रीवास्तव हिंमाशु, सन्मार्ग १.२५  
 — की कथाए सुधीरकुमार. २ भा. ओरिएण्टल १२५ (प्र.)  
 — की कहानिया दिवाकर आर, आर राजहस. १.७५  
 — की कहानिया रामप्रताप शास्त्री २ भा सा भवन, इ.  
 २५० (प्र)  
 — की शिक्षा-प्रणाली गर्मा, विद्यासागर आत्माराम.  
 — के चौदह रत्न गीता ०३७  
 उपनिषद्वाक्य कोश जैकब, कर्नल मोतीलाल १९४०  
 उपन्यास और लोक-जीवन फाक्स, रैल्फ. पीपुल्स ४००  
 — कथा कुज शर्मा, नलिनविलोचन . अशोक प्रे. ०.८७  
 — कला व्यास, विनोदशकर स ४ हि सा कु १७५  
 — कला एक विवेचन विश्वमित्र, जे नद ब्र ४५०  
 उपन्यासकार अशक मदान, इन्द्रनाथ, सपा नीलाभ ५.००  
 — प्रेमचंद घोष, श्यामसुंदर एस चाद  
 — प्रेमचंद और गबन श्रीवास्तव, शिवनारायण नद. स  
 २००  
 — प्रेमचंद और गोदान श्रीवास्तव, शिवनारायण नद. स  
 २००  
 — वृ दावनलाल वर्मा गुप्त, सोमनाथ श्री भा भारती ३.००  
 — वृ दावनलाल वर्मा सिंहल, शशिभूषण. विनोद १०.००  
 उपन्यास सम्राट प्रेमचंद व उनकी प्रतिज्ञा वर्मा, रामचंद्र  
 कमल प्र १५०  
 — सम्राट—मुशी प्रेमचंद शर्मा, रत्नचंद्र श्री भा भारती  
 ३००  
 उपमन्यु के पत्र बधौतिया, रामजीलाल विनोद १००  
 उपमा कालिदासस्य गुप्त, शशिभूषणदास नेशनल ३००  
 उपयोगी कहानिया गीता ०३१  
 — सग्रह अनेक भागो मे लूणिया, जीतमल. हि. सा म.  
 — हिंदी शब्द कोष न्यू टिट २.००  
 उपवन (नीरजा या सरला) ठाकुर, रवींद्रनाथ प्रभात प्र  
 २००  
 — मे जगन्नाथ प्रभाकर नेशनल १२५  
 उपवास ठाकुर, ज्योतिर्मयी छात्रहितकारी २.००  
 — और स्वास्थ्य हीरालाल निरोगी ३००  
 — से लाभ विट्टलदास, सपा छात्रहितकारी १.५०; — —  
 स ५ आरोग्य १.५०  
 उपसहार ठाकुर, रवींद्रनाथ. प्रभात प्र २.००  
 उपहार. वेढव बनारसी हिं प्रचा. पु १७५  
 उपहार. रत्नकांत आनंद पु, को २५०  
 उपहार. वर्मा, गजानंद, सपा अ भा अणुव्रत ०.५६  
 उपहार. वाजपेयी, भगवतीप्रसाद रा. वेनीमाधव.

- उपासकाव्ययन कैलाचन्द्र, मपा भा ज्ञानपीठ  
उपासना योग शिवव्रतलाल शिव सा ० ७५  
—हवन विधि कल्पवृक्ष ० ५०  
उपेक्षित भगवद्गत 'मिशु' सस्ता १ ००  
उपेक्षिता त्रिपाठी, वाल्मीकि प्रत्युप ४ ५०  
उवान रागेय राघव राजकमल १ ७५  
उभगते खट्टर शर्मा, श्रीराम 'राम' हि प्रचा पु ५ ००  
उमग गोपालसिंह 'नेपाली' ज्ञान प्र ३ ००  
उमटती घटाए गुरुदत्त औरिएटल ६ ००  
उमर खय्याम की रुवाइया वर्मा, भगवतदयाल 'आनंद' रा  
वेनीप्रसाद ० ७५  
—नैयाम को रुवाइया गुप्त, रघुवरा कित्ताविस्तान ३ ००  
—खैयाम की रुवाइया हरिवशराय वच्चन' हिंद पा १ ००  
उमराव जान अदा हादी रुमवा', मिर्जा पुष्पी १ २५,  
— — राजकमल (पा) १ ००, — — सुरेद्र ४ ००  
उरवाती डानमिया, दिनेगनदिनी नद व एव नद म १ ००  
उरु-ज्योति अग्रवाल, वामुदेवशरण भा प्राच्य ३ ००  
उरुभगम्—भास कृत शुक्ल, रामचंद्र, मपा रा वेनीमाधव  
१ ००  
उर्दू और उसका साहित्य गोपीनाथ 'अमन' राजकमल  
२ २५  
—कविता कलाप वर्मा, शमुप्रसाद हि पु ए १ ००  
—कवियों के प्रेम गीत शर्मा, नरेद्र पैरामाउट २ ५०  
—काव्य की एक नयी धारा उपेद्रनाथ 'अशक' हिंदु एके-  
डेमी २ ५०  
—की इत्किया शायरी हसराज 'रहवर', सपा रामप्रसाद  
२ ००  
—की तेरह श्रेष्ठ कहानिया गोड, रमेश, सपा उमेश  
४ ००  
—की प्रतिनिधि हास्य कविताए वालमुकुद अर्श मनसियानी,  
मपा आत्माराम ७ ५०  
—की प्रसिद्ध हिंदू कवयित्रिया नमीर फरीदी, शाह, सपा  
रामप्रसाद ७ ५०  
—की वेहतरिन कहानिया उपेद्रनाथ 'अशक', मपा नीलाभ  
३ ००  
—की वेहतरिन गजले उपेद्रनाथ 'अशक' नीलाभ ३ ००  
—की वेहतरिन नरमे नीलाभ ३ ००  
—की वेहतरिन रुवाइया और कतए पडित, प्रकाश, सपा  
प्रगतिशील ३ ००  
—की मजाहिया शायरी हसराज 'रहवर', मपा रामप्रसाद  
७ ००  
—की श्रेष्ठ गजलें इस्मर, देवेद्र सा प्र २ ५०  
—की सर्वश्रेष्ठ कह निहा पडित, प्रकाश राजपाल २ ००,  
(पा) १ ००  
—की सर्वश्रेष्ठ गजलें नूरनती अन्वानी महगल  
—की हास्य रस कहानिया जगन्नाथ प्रभाकर सम्मार्ग ३ ५०  
—की वेहतरिन एककी उपेद्रनाथ 'अशक' नीलाभ ३ ००  
—की वेहतरिन नस्मरण उपेद्रनाथ 'अशक' नीलाभ ३ ००

- उर्दू के वेहतरिन हास्य व्यंग उपेद्रनाथ 'अशक' नीलाभ ३ ००  
—के मधुर गीत व गजल चाद मोहम्मद आधुनिक सा  
१ ५०  
—के हिंदू शायर और उनके कलाम हसराज 'रहवर', सपा.  
३ भा रामप्रसाद २ ०० (प्र)  
—गुलिस्ता की बुलबुले रामनाथ 'सुमन' राजपाल ४ ००  
—पोएट्स एड पोएट्री भा, अमरनाथ भा भ ७ ००  
—भाषा और साहित्य सहाय, रघुपति 'फिराख गोरखपुरी'  
हि समि ७ ५०  
—रुवाइया पडित, प्रकाश राजपाल २ ००, — — हिंद पा  
१ ००  
—शायरी के सात रंग पडित, प्रकाश हिंद पा १ ००  
—साहित्य का इतिहास एजाज हुसेन राजकमल ६ ००  
—साहित्य का इतिहास बजरत्नदास मशो स ५ हि सा  
कु ३ ७५  
—साहित्य का इतिहास सक्सेना, रामबाबू २ भा हिंदु एके-  
डेमी ७ २५  
—साहित्य का सरल इतिहास टडन, प्रतापनारायण हि सा  
भ २ ५०  
—साहित्य का सरल इतिहास शुक्ला, सरला हि सा भ  
१ ५०  
—हिंदी कोप भट्ट, केदारनाथ रा वेनीमाधव ८ ००  
—हिंदी शब्दकोप मुहम्मद मुस्तफा खा 'महाह' हि समि  
१ ६ ००  
—हिंदी शिक्षिका शर्मा, कुमार 'वनवासी' ववई हि भा १  
० ७५, भा २ १ १२  
उर्दूला शर्मा, पृथ्वीनाथ आमागम १ ००  
—कशीदाकागी उर्मिलागनी देहाती १ २५  
उर्वशी रामधारी सिंह 'दिनकर' स २ उदयाचल ६ ००  
उलभन गुप्त, मन्मथनाथ राजपाल ४ ००  
उलभन मेहता, रमेश देहाती २ ००  
उलभी अलके मदनमोहन 'उपेद्र' प्रगति प्र १ ००  
उलभे प्रश्न पालीवाल, हरिदत्त 'निर्भय' शारदा साधना  
२ ५०  
—प्रश्न अधूरे उत्तर महेद्र वावा नवयुग प्र ५ ००  
—वच्चे जगदीशसिंह नेशनल १ ५०  
—रिश्ते नीटियाल, विद्यसागर वेला २ ५०  
उलट फेर चतुर्वेदी, देवीदयाल 'मस्त' गंगा २ ७५  
—फेर श्रीवास्तव, जी पी हि पु ए २ ००  
उलटा-उस्तुरा गुप्त, विध्याचलप्रसाद चिनगारी २ ५०  
—वृक्ष कृष्णचंदर राजपाल ३ ००  
उलटी गंगा मेड, राजेंद्रलाल नद व एव नद स १ २५  
उलूकतत्र मिश्र, बलदेवप्रसाद जानमडल २ ००  
उल्का खाडेकर, वि स देशमुख ६ ००  
उल्का शुक्ल, रामेश्वर 'अचल' हि प्रचा पु ४ ५०  
उल्कापात तिवारी, भगवानदास हि सा भ २ ००  
उल्कापात द्वारकानाथ माधवराव हिंदिया ३ ००  
उल्क की दोस्ती मूरिदेव, रजन नागरी प्र

- उषा बलवत सिंह सरस्व प्रे ३००  
 उषा शिवदास गंगा १००  
 —कॉटिंग कला उपादेवी देहाती ८२५  
 —कशीदाकारी उपादेवी. देहाती ३.००  
 —काल आप्टे, हरिनारायण हि पु ए ८००  
 —की निस्तब्धता श्यामलाल २००  
 —गीत मानमलजी मुनिश्री आत्मग्राम १५०  
 उस अवेरी रात मे वसावडा, इद्र बोरा. १५०  
 —का बचपन वैद, कृष्णवलदेव सरस्व प्रे ३००  
 —के भी आत्मा थी शंकर सुल्तानपुरी नवयुग पु भ. २.७५  
 —के साजन कुशवाहा 'कात' गुल्लूप्रसाद एव चिनगारी २.५०  
 —ने कहा खलील जिज्ञान रूपकमल २००  
 —पार बुद्धमल्लजी, मुनिश्री आत्माराम ०७५  
 —पार राय, द्विजेद्रलाल हि ग्र र १७५  
 —पार के पडोसी कालेलकर, काका नवजीवन ३५०  
 —रात के बाद ग्रीन, ग्रेहम राजकमल (पा) १५०  
 उससे कपिल. रूपसी १५०  
 उसे क्या मिला वद्योपाध्याय, चारुचद राष्ट्रीय प्र मडल. ४२५  
 —धमा करना शर्मा, अरुणकुमार आदर्श पु भ २५०  
 —फासी दे दी गई श्रीवास्नव, हिमाशु कला-नि १५०

## ऊ

- ऊच-नीच मिश्र, जगदीश किजोर प्र १५०  
 ऊची-नीची राहे प्यारेलाल आंवारा'. रूपसी ३००  
 —नीची राहे सरस्वती सरन 'कैफ' कि महल ३००  
 —नीची लहरे नमीर फरीदी, शाह रामप्रसाद २००  
 ऊचे और ऊचे मेहरोत्रा, वैकुण्ठनाथ इ प्रे २.००  
 —पर्वत स्टेनब्रेक, जान हिंद पा १००  
 ऊटपटाग प्रलवर्त कृष्ण अली अशोक प्रे १७५  
 ऊटपटाग राय. मुकुमार सर्वोदय सा १००  
 ऊपर-नीचे पुरोहित, सपतलाल युगछाया ३००  
 ऊषा चट्टोपाध्याय, शरत्चंद्र श्यामलाल २००  
 —कशीदाकारी गुप्त, मिथिलेगकुमारी, सग्रा भाग्योदय १००  
 ऊसर भूमि और उसका मुधार सर्वोदय १५०  
 —मे हरियाली वेदी, वी पी एल आत्माराम ३.००

## ऋ

- ऋग्वेद ४ ख. सस्वृति २४००  
 —की ऋक्संह्या युधिष्ठिर मीमामक. भा प्राच्य ०.५०  
 —की कतिपय दानस्तुतियों पर विचार भा प्राच्य ०.२५  
 —प्रातिशाख्यम् मंगलदेव शास्त्री इ प्रे ८७५

- ऋग्वेद भाष्य उद्गीथाचार्य विश्वेश्वरानंद. ४००  
 —मूल आर्य सा ७००  
 —शतकम् विद्यार्थी, जगदीशचंद्र, सग्रा गोविंदराम.  
 —सहिता ७ मडल तक लक्ष्मण स्वरूप, सपा ४ भा  
 मोतीलाल २००००  
 ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका महर्षि आर्य सा ३००  
 ऋग्वेदिक आर्य राहुल साकृत्यायन कि. महल. ८.००  
 ऋग्वेदे छंद परामर्श राजा, सी के. १६६  
 ऋचाए—नई कविता वाणी-वितान ३००  
 ऋतभरा चाटुज्या, सुनीतिकुमार सा भवन, इ ३५०  
 ऋतभरा पाडेय, देवनाथ 'रसाल' सर्वोदय सा २.००  
 ऋतभरा भारद्वाज, रामदत्त भा. सा सदन. ३५०  
 ऋतु और स्वास्थ्य गुप्त, गौरीशंकर नद ब्र ०.५०  
 —सहार जगमोहन सिंह बगीच १२५  
 ऋषि का शाप भाटी, देशराजसिंह उमेश २००  
 ऋषिकेश से मीनार की रिपोर्ट भा प्रौढ. १००  
 ऋषि गाथा महाकाव्य शर्मा, विमलचंद्र 'विमलेश' गोविंदराम ४००  
 —दयानंद की पदप्रयोग-शैली युधिष्ठिर मीमासक. भा. प्राच्य. १५०  
 —दयानंद के ग्रंथों का इतिहास. युधिष्ठिर मीमासक. भा. प्राच्य ४००  
 —दयानंद के पत्र और विज्ञापन परिशिष्ट सहित. भगवद्दत्त, सपा. भा प्राच्य ७७५  
 —दयानंद सरस्वती का स्वलिखित और स्वकथित जीवन चरित दयानंद, स्वामी भा प्राच्य ०.५०  
 ऋषियो नुनियो की कहानिया त्रिपाठी, रामप्रताप... कौशावी १२५  
 ऋषीकेश से दिल्ली. आनंद प्र. २५०

## ए

- एग्लो-हिंदी-डिक्शनरी पाडेय, छविनाथ कला-नि ४.२५  
 एटन चेकव की कहानिया नीरज. . भा प्र. मंदिर.  
 एक अकेला स्वर द्विवेदी, प्रभाकर वि ग्र कु.  
 —अनजान औरत का खत. ज्विग, स्टीफेन हिंद पा. १.००  
 —आत्मकथा शुक्ल, देवीदत्त, अनु इ प्रे. २००  
 —आदमी दो चेहरे गोविंदसिंह गुल्लूप्रसाद ४.५०  
 —इच मुस्कान यादव, राजेद्र राजपाल ६.००  
 —आदर्श महिला तिवारी, विनायक सस्ता. १.००  
 —आलोचक की नोट बुक देवडा, शरद अपरा. ४.५०  
 —आवारे की डायरी तुर्गनेव प्रचा पा १००  
 —इसान जयत वाचस्पति राजपाल २५०  
 —इसान की मौत, एक इसान का जन्म शर्मा, यादवेद्र 'चन्द्र'. विद्या प्र म ५००  
 —उक्रइनी सामूहिक फार्म. दुब्कोवेत्स्की, पयो. पीपुल्स. ०.५०  
 —और अनेक. गुरुदत्त. भा सा सदन ६.००

- एक और अनेक क्षण वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद 'अज्ञेय'।  
 नरस्व प्रे ३००  
 — और ज़िदगी. मोहन राकेश राजपाल ३००  
 — औरत, एक नर्म सभ्रादत हसन 'मटो' रूपसी १५०  
 — औरत, एक नागिन सईद अमृत पुष्पी ०७५, — —  
 मुर्रेद्र २००  
 — औरत एक पहेली गोविंदसिंह रतन एड क ३५०  
 — औरत की ज़िदगी मोपासा. राजपाल ३५०  
 — कठ विषपायी दुष्यंतकुमार लोकभारती ५००  
 — कदम आगे लीफ मनरो राजकमल २००  
 — कमरे की कहानी गर्मा, यादवेद्र 'चंद्र'. विद्या प्र म  
 ३००  
 — कला, एक जीवन सीताराम शास्त्री चंद्रलोक ४५०  
 — कली दो रग गर्मा, यादवेद्र 'चंद्र' सध्या ३००  
 — कली मुस्काने को मुरभाई सारी रात जैन, यादवचंद्र  
 एस चाद २७५  
 — क्रांतिकारी के सम्मरण गुप्त, मनमोहन इ प्रे २७५  
 — क्रांतिकारी के सम्मरण चतुर्वेदी, बनारसीदास सस्ता  
 १००  
 — खत एक खुगवू कृष्णचंदर सहगल ३२५  
 — खाऊ, दो खाऊ वालकृष्ण रणजीत ०७५  
 — गधा नेफा में कृष्णचंदर राजपाल ३५०  
 — गधे की आत्मकथा कृष्णचंदर हिंद पा १००  
 — गधे की वापसी कृष्णचंदर राजपाल ३००, — — हिंद  
 पा १००  
 — गाव की कहानी भट्टाचार्य, एस एन मंटोपोलिटन ३००  
 — गाव. मेरा स्वप्न राधेमोहन चेतन पुष्पी ०७५, — —  
 सुरेद्र २००  
 — गोली तीन शिकार गुप्त विजयकुमार फ्रंक १७५  
 — गोली दो शिकार तिवारी रमेशनारायण नेशनल १२५  
 — घिसा हुआ चेहरा बकी, रमेश हिंद पा १००  
 — घट प्रसाद, जयशंकर भा म १००  
 — चादर मैली नी वेदी, राजेद्रमिह नीलाभ ३५०, — —  
 हिंद पा १००  
 — चेहरा राजकुमार राजपाल २५०  
 — छाती हजार वज्र जनक अविद दास ०६५  
 — छोड़ एक रागेय राघव आत्माराम ३००  
 — जीवत अधिकार पत्र डगलस विलियम ओ आत्माराम  
 २००  
 — डब्बा प्यार गुप्त, छेदीलाल अभिज्ञान २००  
 — डर. पांच निडर अत्रवाल, सत्यप्रकाश आत्माराम २५०  
 — डल तीन फूल पाडेय विष्णुकांत म २ सा नगम, मो  
 १००  
 एकना पाटे, चंद्रवली हि ना नम्मे ३००  
 — जा फल दुर्गावती मिह अमिताभ १००  
 एकतारा महतो, मोहनलाल 'वियोगी' पु भ २००  
 एक तिल सौ नूफान हादामी, मुजतर महगल ४००  
 — या छोटा निपाही गर्मा, विमला शकुन १२५

- एक था जादूगर गुप्त, विंध्याचलप्रसाद ग्रथ भ ०५०  
 — था बालक मनोहर प्रभाकर आगा पब्लि १००  
 — था राजा बालगोविंदप्रसाद गगा. १००  
 — था राजा, एक थी रानी चिरजीत आत्माराम १२५  
 — था शहर. ताजवर, सामरी नेशनल ६००  
 — थी अनीता अमृता प्रीतम राजपाल २५०  
 — थी चिडिया जैन, यशपाल सस्ता १००  
 — थी सुनीता ओमीलाल 'इलाहावादी' राष्ट्र प्रचा, इ  
 ४००  
 एकदा वाजपेयी, भगवतीप्रसाद रा वेनीमाधव २००  
 एक दिन वर्मा, भगवतीचरण गगा २५०  
 — दिल तीन जन्म वाजपेयी, प्रेमचंद्र आदर्श पु म १५०  
 —, दो, तीन सिन्हा, प्रकाशवती अशोक प्रे ०७५  
 — धरोहर पड्या, करुणाशंकर रामप्रसाद १७५  
 — धर्मयुद्ध देसाई, महादेव हरिभाई नवजीवन ०७५  
 — नगर के सुरभीत सात जेतली, लालचंद आर्थेटिक ३००  
 — नदी दो पाट नदा, गुलशन सहगल ३७५  
 — नया पैसा गुरुमुखसिंह मुनाफिर विद्या प्र भवन ३७५  
 — नही सौ प्यार ओमप्रकाश कन्हैयालाल २५०  
 — नीड दो पछी भट्ट, उदयशंकर राजकमल ८५०  
 — पग शील न्यू लिट १२५  
 — पर कटे परिदे की कहानी भटनागर, राजेद्रमोहन. नव  
 कमल १००  
 — परछाई दो दायरे ब्रोकर, गुलाबदास भा ज्ञानपीठ  
 ३००  
 — परदेशी के नाम अस्वी, राजेद्र बर्वई प्र १२०  
 — पुरुष एक नारी यादव, राजेद्र हिंद पा १००  
 — प्यार एक घोखा गर्मा, रामारन शमा ३२५  
 — प्रश्न वाजपेयी, भगवतीप्रसाद राजपाल ३५०  
 — फूल तीन रग अनंत, अ अ ओरिएटल १५०  
 — वनो और नेक वनो भावे, विनोवा अ भा सर्व ०२५  
 — वर्ष वधोपाध्याय, विपिनकुमार मनोरमा २७५  
 — वाग के तीन माली पुरुषोत्तमलाल यूनिवर्सिटी ०५०  
 — विदु दो भवर भटनागर, ज्ञानेद्रकुमार वेला ३००,  
 — — सा सेवक २२५  
 — वूद सहसा उछली वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद 'अज्ञेय'.  
 भा ज्ञानपीठ ७००  
 — भीनी गध पाडे, विनोदचंद्र राजकमल २२५  
 — भेट दीक्षित, रा अ भा, सर्व ०६२  
 — मजिल दो राही श्यामचंद्र आदर्श पु म १००  
 — मछुवा एक मोती स्टेनवेक, जान हिंद पा १००  
 — महात्मा का प्रसाद गीता ०७५  
 — महान वकील ट्रेन, आर्थर आत्माराम ४००  
 — मामूली लडकी बलवर्तमिह हिंद पा १००  
 — मिनट की राती रविंद्र ग्रथालय १००  
 — मूठ सरसो मटियानी गैलेज आत्माराम २००  
 — म्यान में दो तलवार नानकमिह राजपाल ५००  
 — युग एक प्रतीक देवेद्र सत्यार्थी राजहंस. ४००

- एक रथ दो पहिए वरेरकर, मामा. विद्या प्र. म ६.००  
 —रात शर्मा, जगदीश देहाती १ २५  
 —रात और अन्य कविताए सहाय, श्यामनदन 'सेवक'  
 अशोक प्रे १ ५०  
 —रात के साथी गोविंदसिंह सुभाष २ ५०  
 —राही दो रास्ते शैलकुमारी 'शैल' कन्हैयालाल २ २५  
 —रूप तीन चित्र गौड, पुरुषोत्तमदास 'कोमल' पुष्पी  
 १ ००, — सुरेद्र २ ५०  
 —लडकी एक जाम अमृता प्रीतम राजकमल. (पा) १ ००  
 —लडकी, एक समस्या आदिल रशीद सहगल. ३ ७५  
 —लडकी और हजार दीवाने कृष्णचंदर. वीरा. ३ ००  
 —लडकी, दो रूप पनिकर, रजनी हिंद पा १ ००  
 —लडकी फूल, एक लडकी काटा हाशमी, मुजतर सहगल  
 एकलव्य वर्मा, रामकुमार भा ७ ०० [४ ००  
 —एक अध्ययन श्रीवास्तव, राधेकृष्ण रा वेनीमाधव ४.००  
 एकला चलो रे गाधी, मनुबहन नवजीवन. २ ००  
 —चलो रे भट्ट, उदयशंकर आत्माराम १ ००  
 एकलिस विराज नेशनल २ ००  
 एक लोटा पानी गीता ० ७५  
 —लौ एक दर्द त्रिपठी, रमाकांत मजु ३ ५०  
 एकलौता जूता श्रीवास्तव, जी पी आनंद पु, वा २ ५०  
 एक वायलिन समदर के किनारे कृष्णचंदर राजकमल ४.००,  
 (पा) १ ५०  
 —बासती रात मदारिया, मनमोहन नेशनल. ३ ००  
 —व्यक्ति एक युग नागार्जुन परिमल २ ७५  
 —सडक सत्तावन गलिया कमलेश्वर प्रचा पा १ ००  
 —सत्य अनेक रूप गर्ग, किजोर म २ रानी २ ५०  
 —सत्य एक धोखा जैन, हरीश नव सा प्र २ ००  
 —सत्यवीर की कथा गाधी, मोहनदास करमचंद सस्ता  
 —सपना शेक्सपियर, विलियम राजपाल. २ ०० [० २५  
 —सपेरा सागर बालूपुरी देहाती २ ५०  
 —समय की बात भा, रमेशचंद्र सुभाष. १ २५  
 —सवाल अमृता प्रीतम हिंद पा १ ००  
 —सहारा. वर्मा, रामचैत अ भा सर्व ० ३५  
 —साभ, एक मीत इंदिरा 'नूर' चंद्रलोक २ ५०  
 —साहित्यिक की डायरी मुक्तिबोध, गजानन माधव भा  
 ज्ञानपीठ  
 —सूत्र पत, गोविंदवल्लभ गगा ३ ५०  
 १०८ उपनिषदे ३ ख सस्कृति २१ ००  
 १०१ सामूहिक खेल. गोपालसिंह कृष्णा व्र १ २५  
 १३३ लेखको के कुछ उत्तर लोहिया, राममनोहर नवहिंद.  
 ० ५०  
 एक स्वप्न त्यागी, टीकाराम स. २ राष्ट्रीय प्र मंदिर. २ ००  
 —स्वप्न एक सत्य शर्मा, यज्ञदत्त हिंद पा १.००  
 १००१ गेर अन्वामी, नूरनवी, अशोक पा १ ००, —  
 सहगल २ ५०  
 एक हजार वर्ष बाद गाडगिल, काका रणजीत ३ ००  
 —हस्ताक्षर और दुवे, राजा नवहिंद. ३ ००

- एक ही पतवार वर्मन, शिवव्रतलाल सहगल ३ २५  
 —ही रास्ता आनंदस्वामी गोविंदराम ० ८०  
 एकाकी नगेद्र, सपा एस चाद १ ७५  
 —एकावली शर्मा, रामचंद्र, सपा हि भवन २ ५०  
 —कला. रामयतनसिंह 'भ्रमर' कि महल २ ५०  
 —कला वर्मा, रामकुमार रा वेनीमाधव २.५०  
 एकाकीका भटनागर, महेद्र, सपा एस चाद २ २५  
 एकाकी नाटक संग्रह समीक्षा शर्मा, मखनलाल सा रत्न भ  
 ४ ००  
 —रत्न बबई हि १ २५  
 —विनोद विष्णुदत्त श्री भा भारती ३.००  
 —श्री राजेद्रभनोत शील, सपा राजकमल ३ ००  
 —सगम क्षेमचंद्र 'सुमन' एस चाद १ २५  
 —सचयन. सिन्हा सावित्री यूनिवर्सिटी २ ५०  
 —सप्तक. हिं प्रचा म १ २५  
 —सप्तक पाडेय, रूपनारायण स. ४ राष्ट्रीय प्र मंदिर.  
 १.५०  
 —सप्तक सुरेद्रपाल सिंह कि महल २ ५०  
 —समुच्चय चंद्रकाता प्रभाकर एम चाद ३ २५  
 —सरोवर बसल, रघुवीरशरण बसल ३ ००  
 —सरोवर वैद्य, बालचंद्र कल्याणमल २ ५०  
 —सर्वस्व भनोत, सरनदास श्री भा. भारती ३.००  
 —सुधा तोमर, ओमनारायण, सपा बबई हि. १ ५०  
 —सुमन जगन्नाथ आर्य बुक ३ ००  
 —सुषमा लूथरा, जी एल ओरिएटल २ ५०  
 —सौरभ विराज, सपा इ प्रे २ ५०  
 —सौरभ सत, धर्मचंद ओरिएटल ३ ००  
 —स्तवक गोस्वामी, शरणबिहारी, ओरिएटल. ३ ००  
 एकागीपुर का दरोगा सेठ, जवाहरलाल 'पागल'. पुष्पी  
 १ २५; — सुरेद्र २ ५०  
 एकात संगीत हरिवंशराय 'वच्चन' राजपाल २ ५०  
 एकाकी पालीवाल, हरिदत्त 'निर्भय' शारदा साधना १ ५०  
 एकाकी महतो, मोहनलाल 'विद्योगी' छात्रहितकारी ३ ००  
 एकादशी कपूर, पद्म श्रीराम मेहरा २ ००  
 एकादशी. गुलाबराय गयाप्रसाद २ ००  
 एकादशी बसल, रघुवीरशरण इ पब्लि ३ ००  
 —माहात्म्य (केवल भाषा) श्यामलाल १ ००  
 —महात्म्य भाषा सतराम सत देहाती १ ५०  
 —माहात्म्य भाषा टीका सहिन श्यामलाल २ ००  
 एकादशोपनिषद् सत्यव्रत सिद्धातालकार विजयकृष्ण १ २ ००  
 एक्स किरण. ससारचंद्र राजकमल ० ००  
 एग्रीकल्चर इजिनियरिंग गर्ग, जगदीशशरण कि महल ४ ००  
 एग्रोनोमी गाइड (प्रश्नोत्तर) अग्रवाल कृष्णकुमार भा. पब्लि  
 ५ ००  
 एटम की कहानी राजपाल २ ००  
 —दैत्य सतोष आत्माराम १ ००  
 एडवान्सड एकाउन्ट्स बुक, एस एम स. २. सा. भवन, आ  
 ८.७५ से १३ १२

- एडवॉन्ड एकाउन्टेन्ली मालीराम लक्ष्मी ना [११ २५  
—द्विजनैम इजाॅनाॅमिषम मिस्तल, एस नी ओरियन्टल पब्लिश  
एडमिरल वर्ट का दक्षिणी ध्रुव अभियान स्टीनवर्ग, एलफ्रेड  
एस चाद १००  
गडिसन. पारीक, गण्डरलाल पीपुल्स १५०  
एनीमा और कैथेटर न ४ मेडिकल ०.५०  
एनैटीकल नीलीड ज्योमैट्री दाम . नुबोध ग्र ४५०  
एप्रिल फूल चितावरे नागनरा व्यामराव त्रिवाजी ३००  
—फूल गर्मा, विश्वभरनाथ 'वैजिक' विनोद ३००  
एब्राहम लिंकन कामराफ, मेनुअल एस चाद १००  
ए मैनअल आफ मस्कृत कपोजीवन तिवारी, लल्लाराम रा  
वेनीप्रसाद ०७५  
एम्प्लीफायर लाउटस्पीकर बनाना वेदप्रकाश देहाती १२५  
एलवम पुष्पी ०७५  
एला दीदी ठाकुर, रवीद्रनाथ कि महल २००  
एलीनोर रजवेल्ड स्टीनवर्ग, एलफ्रेड एस चाद १००  
एलोपैथिक चिकित्सा गर्मा, नुरेशप्रसाद मेडिकल १२००  
—निघट्ट रामनाथ न ४ मोतीलाल १२००  
—पाकेट गाइड गर्मा, नुरेशप्रसाद न ४ मेडिकल ३००  
—पेटेंट चिकित्सा पाडेय, त्रयोध्यानाथ स २ मेडिकल.  
२००  
—पेटेंट मेडिसिन पाडेय, त्रयोध्यानाथ न ४ मेडिकल ४२५  
—मेटेरिया मेडिका गुप्त, शिवदयाल न २ मेडिकल  
१२००  
—सफल औषधिया गुप्त, शिवदयाल मेडिकल ३५०  
एल्वर्ट आइनस्टाइन फ्रीमेन, मे ब्लेकर एम चाद १००  
एवरेस्ट उपाध्याय बालकृष्ण, सपा ग्रथमाला २५०  
एवरेस्ट की कहानी अलि अहमद मत्तर मकतबा ०५०  
—की कहानी गोविंद चातक सस्ता ०४०  
—विजय सर्वोदय ०५०  
—विजय सावल, रामलाल. श्री भा भारती. १००  
—विजेता डेरपा तेनमिह कपूर, व्यामनारायण सा नि,  
का ०७५  
एगिया जाग्रमदात, मत्यनारायण कि महल १०००  
एगिया टिक्का, आन गन न ३ रस्तोगी ५००  
एगिया तिवारी, सिद्धबुभार मशो न २ वेदारनाथ ६००  
एगियाई नमाज्जाद मेहना, अशोक अ भा सर्व १५०  
एगिया और अफ्रीका मे युगानकारी परिवर्तन पीपुल्स ०२५  
का आधुनिक इतिहास मन्त्रकेतु विद्यालकार मशो न २  
मन्त्र न भा १ १००, भा २ ५००, मन्त्र  
१४००  
का भ्रमोन कपूर मन्त्रनाथ एम चाद ६००  
ता भ्रमोन कुचवेष्ट ज प त ३ कि प्र, का १५००  
ता भ्रमोन मोगोन्विया कुचवेष्ट ना भवन, आ  
ता भ्रमोन तिजन के नी नुरेश ७५०, १२५०  
—की आग निरमति शिप्र प्रथमाना १५०  
—दो भौगोलिक मनीजा गौड, के पी रस्तोगी १२५०  
—की राजनीति परदेगी भा ज्ञानपीठ ६००

- एगिया के दुर्गम भूखंडो मे राहुल साहत्यायन स २. साधना  
सदन ५.००  
—जाग उठा श्रीवान्तव कामताप्रसाद सुभाष १२५  
—महान् जैन, पुरपोत्तम आगरा बुक १२५०  
एमशियल ज्योयाफी राय, वी एन नद व एव नद स ४५०  
ए सी. जेनरेटर्स नरेद्रनाथ देहाती न.२५  
एस्कमो का जीवन सर्वोदय ०५०  
एस्कीमी लोक-कथाए गर्मा, रामकृष्ण आत्माराम १२५  
एटन चेखव अरुण, अनु आत्माराम १५०

## ऐ

- एटम और नेहरू चटर्जी, दत्तकुमार सहगल २५०  
—के युग मे दुर्गाशकरप्रसाद मिह 'नाथ' नव सा म. ६००  
ऐतरेय ब्राह्मण उपाध्याय, गंगाप्रसाद, अनु हि सा मम्मे  
५००  
ऐतरोयोपनिषद्, गकरभाष्य सहित गीता ०३७  
ऐतिहासिक उपन्यास और उपन्यासकार तिवारी, गोपीनाथ  
सा रत्न म ३००  
—उपन्यासकार वृ दावनलाल वर्मा तिवारी, गोपीनाथ  
सरस्व पु स १७५  
—उपन्यासकार वृ दावनलाल वर्मा श्रीलाल 'भानु' शारदा  
प्र (पा) १००  
—उपन्यासकार वृ दावनलाल वर्मा और मृगनयनी पाठक,  
जितेन्द्रनाथ नद व ४५०  
—उपन्यास की सीमा और वाणभट्ट की आत्मकथा त्रिभुवन  
सिंह नद व १५०  
—उपन्यासो मे कल्पना और सत्य चित्तामणि, वी एम  
चौखन्ना ३००  
—एटलस कोहली. ड प्रे. २५०  
—कथाए जोगी, इलाचंद्र हि सा मम्मे ०७५  
—कथाए सहाय, रामसिंहासन 'मधुर' सा साधना ०७५  
—कथा-माला गर्मा रामशरण अशोक प्रे भा. ३. ०५०,  
भा ४ ०५६  
—कथा-माला शिवमगल सिंह अशोक प्रे भा १ ०६५,  
भा २ ०५०  
—कहानिया अग्रवाल, प्रह्लाददास रा वेनीप्रसाद २५०  
—कहानिया वर्मा, वृ दावनलाल मयूर १००  
—कहानिया नक्सेना वीरेन्द्रकुमार नदयुग य कु  
—घटनाए नुदरमिह राष्ट्रीय प्रेस भा १ ०६२, भा २  
०६६, भा ३ ०७५  
—तिथि पत्रक भा १ गहलोत, जगदीशमिह हि सा म,  
जो २५००  
—दृश्य श्यामलाल आत्माराम २००  
—महापुरुष नुदरमिह पु भ, रा भा १ ०७५, भा २  
०८७, भा ३ ०८७, भा ४ १२५  
—सज्जन टंडन, लक्ष्मीनारायण हिदिया १७५

- ऐतिहासिक साहित्य शिवनदनप्रसाद सिंह. अगोक प्रे. भा १  
० ५६, भा २ ० ७५  
एनियास. विराज नेशनल २००  
एन्टीगोने सोफोकलीज. आत्माराम १.२५  
ऐय्याश मुर्दे रागेय राघव कि महल. ३ २५  
ऐलिमेट्री एकनामिक्स सक्सेना, शकरसहाय रा वेनीमाधव.  
२००  
—डिजाइन देवसरे, श्रीकृष्ण रा वेनीमाधव २.००  
—बुक कीर्पिंग. राधारमण रा. वेनीप्रसाद २ ५०  
ऐगमहल गुप्त, बदरीप्रसाद हिं पु ए २ ७५  
ऐसा भी क्या जीना ? वर्सेस, पेरी अ. भा सर्व. २ ००  
—भी होता है श्यामचंद्र आदर्श पु म १ ००  
—वैसा वर्मा, परिपूर्णानंद मयूर २ ००  
ऐसी होली खेलो लाल शर्मा, पाडेय वेचन 'उग्र' आत्माराम.  
२ ५०  
ऐसी थे वापू प्रभु, आर के नवजीवन १ ७५  
—थे सरदार. विष्णु प्रभाकर सस्ता ० ४०

## ओ

- ओ अप्रस्तुत मन अग्रवाल, भारतभूषण राजकमल. ४ ००  
—आकाशी कानोडिया, सतोप अपोलो २ ५०  
ओइकुमेना. येफेमोव, इवान पीपुल्स. २ ०६  
ओइम नाविल शिवव्रतलाल शिव सा २.२५  
ओज भरे गीत सत, शाता वाल सदन ० ७५  
ओडीसियस विराज. नेशनल २ ००  
ओथेलो शेक्सपियर, विलियम रा वेनीप्रसाद ०.७५  
ओथेलो. हरिवशराय 'वचन' राजपाल. ३ ५०  
ओ भैरवी ! यशपाल विप्लव ३.००  
—मत्स्यगधा राजेद्रकिशोर कि महल ३ ००  
—मेरे सपने माथुर, जगदीशचंद्र नीलाभ ३ ००  
ओस और अगारे जमनादास 'अखतर' सहगल ३ ७५  
—और आमू प्यारेलाल 'आवारा' कल्याणदास २ ००  
—और किरण विश्वभर 'मानव' कि महल ३ ००  
ओ हैनरी की श्रेष्ठ कहानिया त्यागी, भीमसेन अर्चना प्र  
(पा.) १ ००

## औ

- औचित्य विचार चर्चा नारायण सिंह राष्ट्र प्र. म २ ००  
—विचार चर्चा क्षेमद्र. मोतीलाल ४ ००  
औद्योगिक अर्थशास्त्र सक्सेना, शकरसहाय रा वेनीमाधव  
४ ००  
—ईधन दयास्वरूप... ना. प्र सभा १ ० ००  
—तथा व्यापारिक भूगोल सक्सेना, शकरसहाय हिंदू. एकेडेमी  
७.००

- औद्योगिक नुस्खे. कालीचरण देहाती १ ५०  
—मनोविज्ञान पाडेय, जगदानंद दि पु. स. ८.५०  
—सगठन अग्रवाल, के के कि महल २ ५०  
—सगठन अग्रवाल, रमेशचंद्र आगरा बुक ६.२५  
—सगठन पाटनी, आर एल रस्तोगी ४.००  
—सगठन. सक्सेना, शकरसहाय रा वेनीमाधव ३ ००  
—सगठन. सक्सेना, सुरेशचंद्र स २ आगरा बुक ५ ५०  
—सगठन. सक्सेना, सुरेशचंद्र सगो स ३ आगरा बुक  
५ ००  
—सगठन एव प्रवध गुप्ता, वी. एन सा भवन, आ ८ ००  
—सगठन एव प्रवध बहुगुणा, सुरेन्द्रदत्त लक्ष्मी ना ७ ५०  
—सगठन एव प्रवध श्रीवास्तव, सी पी किशोर पब्लि.  
८ ००  
—सगठन का सरल अध्ययन सक्सेना, सुरेशचंद्र आगरा बुक  
२ ००  
—सन्नियम खान, आई ए मा भवन, आ. ५ ६२  
—सन्नियम जैन, एल सी... लक्ष्मी ना ५ ५०  
—सन्नियम सक्सेना, एस सी. रस्तोगी २ ५०, ५ ५०  
औरगजेव. सरकार, जदुनाथ. हिं ग्र २ १०.००  
और कुछ वल्ली, पदुमलाल पुन्नलाल नद ब्र ३ ००  
—खाई बढती गई अग्रवाल, भारतभूषण. भा ज्ञानपीठ  
२ ५०  
—चिराग बुझ गया सुरेश पुप्पी ० ७५; — सुरेद्र.  
२ २५  
औरत और अरस्तू मिश्र, रामप्रिय 'लालधुआ' ज्ञानपीठ.  
—और सपने सईद अमृत पैरामाऊट २ ५० [२ ००  
—जब गिर जाती है वाजपेयी, प्रेमचंद्र पुष्पी १ २५  
—पानी है रौबिन गा 'पुष्प' नव सा. प्र ३ ००  
और दिया जलता ही रहा. शकुन नवयुग पु भ ३ २५  
—भगवान देखता रहा वरेरकर, मामा विद्या प्र म १ ५०  
—मजिल नहीं मिली नीरज... भा प्र मंदिर  
—राह न रुकी पाडे, मुनीवर मा सदन, दे १ ००  
—वह हार गई मिश्र, जगदीशचंद्र त्रिवेणी १ ७५  
—सुबह होने तक ओमप्रकाश कन्हैयालाल ३ ००  
औषधियों का भंडार. देहाती १२ ००

## क

- ककर हसराम 'रहवर' नवयुग प्र ६ ००  
ककाल ठाकुर, रवीन्द्रनाथ श्यामलाल २ ००  
ककाल प्रसाद, जयशकर भा भ ५.००  
—एक अध्ययन टडन, लक्ष्मीनारायण . हिं. सा. भ. १ २५  
कगाली ऐसे दूर होगी गाधी, मोहनदास करमचंद सस्ता.  
० ३०  
कच के कगन गुवल, कमल पैरामाऊट २ ५०  
कचनघट गर्मा, पाडेय वेचन 'उग्र' विनोद १ ५०  
कजूस. मोलियर, एम आर स. २. वसल २.००



कटीले तार वाजपेयी, प्रेमचन्द्र आदर्श पु. म १.५०  
 —तार हालकेन सरस्व प्रे १.५०  
 —तार या आजाद हिंद फौज शर्मा, रामसरन सा नि, का  
 कट्रोल. अरुण गंगा ३०० [१००  
 कठहार ड्यूमा, अलेक्जेंडर ज्ञान प्र ५००  
 कतक थैया घुनू मनइया राष्ट्रवधु अ भा सर्व ०.७०  
 कथक कोहली, द्रोणावीर राजकमल १.४०  
 कपनी अधिनियम एव सचिवीय पद्धति जेन, डी सी सा  
 भवन, आ ८००  
 —अधिनियम एव सचिवीय पद्धति शुक्ल, एस एम सशो  
 स २ भा भवन, आ १०००  
 कपफायर की तकले २ भा भवतवा ०.७५ (प्र)  
 कपलीट कट वर्क वृजलता देहाती ४.५०  
 —मोटरकार ट्रेनिंग मनुषल शर्मा, कृष्णानंद देहाती  
 २४८५  
 कपाउडरी जिक्षा (एलोपैथिक) मेडिकल ८००  
 कपाउडर्ज गाडड द्वारकाप्रसाद देहाती ३००  
 कव रामायण (तमिल) राजगोपालन, एन वी, अनु  
 वि राष्ट्र ६००  
 कवुज और भारत पुरी, वैजनाथ एस चाद ४००  
 कस-बघ द्विवेदी, रामशंकर पु भ ०.७५  
 कस वही उपाध्ये, ए एन हि ग्र र २००  
 कई प्रश्न एक उत्तर रमणलाल. दि पु स २००  
 कक्षा-न्यायन एथ पाठ सूत्र निर्माण वशीधर सिंह गयाप्रसाद  
 ५००  
 क ख भगतसिंह हेमकुट १.२५  
 कच-देवयानी गुलाब पारिजात २००  
 कचनार वर्मा, वृंदावनलाल मयूर ४.५०  
 कच्चायन व्याकरण तिवारी तारा १.५००  
 कच्ची कली गोविंदसिंह गुल्लूप्रसाद ३.५०  
 —नीद ओरार शरद न्यू लिट १.२५  
 —मिट्टी मिश्र, शकुंतला त्रिवेणी ४००  
 कच्चे घागे आनंद, धर्मप्रकाश नीनाभ ३.७५  
 —घागे जमनादास 'अरतर' अशोक पा १.२५  
 —घागे प्रारेलाल 'आवाग' रूपसी ३००  
 कच्छु-बच्छु हरीश नायक आत्मागम १.२५  
 कच्छुन का नगर भ्रमण अजित पुष्कल साहित्यवाणी १.५०  
 कजरा वह गया राज मजुन मध्या ५००  
 कली गामगीत वैजनाथलाल नंद व ०.६२  
 कली टाट्टाय पीपुल्ल १.६६, — —प्रभात प्र ३००  
 कली के पुकारनी वारी रामनाथ 'मुमन' साधना सदन  
 १००  
 कली रानी देहाती ०.५०  
 कली जिक्षा काना, मुजीना देहाती ३.२५  
 कली की उज्ज कस्त दमानी, नागयन जुही-कुज  
 कली कला नानकविह हि प्रचा पु ६००  
 —पत्तग दरुण अशोक पा १००  
 कलीनी राष्ट्र के फन अमरकांत राजकमल ४००

कठघरे अमृतराय हस २.००  
 कठ घोडा हूवे, सुरेश 'सरस' राष्ट्र प्र म १.२५  
 कठपुतला गर्ग, किशोर स ४ रानी १.५०  
 कठपुतला व्यास, श्रीकांत, अनु राजपाल १.५०  
 कठपुतलियो का इतिहास वधोपाध्याय, मानिक सरस्व प्रे  
 ५००  
 कठपुतली ठाकुरप्रसाद सिंह स २ राष्ट्रीय प्र मंदिर १००  
 कठपुतली साधना प्रतापी अजय ४००  
 —का रहस्य सूर्या कमलानी कि महल १.००  
 —वोली वर्मा, लक्ष्मीकांत सा भवन, इ  
 कठोपनिषद् घोष, अरविद श्रीअरविद १००  
 कठोपनिषद् मिश्र, विद्यावती विश्वेश्वरानंद ०.८१  
 —दर्पण सत्यदेव विश्वेश्वरानंद १.३१  
 —गकरभाष्य सहित गीता ०.५६  
 कठोर कृपा घुमकड गाधी हिंदु ०.५०  
 कडवी शंकर पत, मोहनवल्लभ रा वेनीप्रसाद १.२५  
 कडवे मीठे घूट मेहरोत्रा, गगानारायण हि सा भ १.२५  
 कडिया तथा अन्य कहानिया वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद  
 'अज्ञेय' सरस्व प्रे २.५०  
 कढाई सर्वोदय ०.५०  
 कणिका. भट्ट, उदयशंकर आत्माराम १.५०  
 कणिका माहेश्वरी, शंकरलाल जुही-कुज २.५०  
 कताई गरिणत गाधी, कृष्णदास अ. भा सर्व. भा. १.१००,  
 भा २-४ ०-७५ (प्र)  
 —यज्ञ है गाधी, मोहनदास करमचंद सस्ता ०.३०  
 —शास्त्र सत्यन् अ भा सर्व २००  
 कतिपय सदेश (श्रीमा तथा श्रीअरविद के). घोष, अरविद  
 श्री अरविद ०.२५  
 कतील शिफाई जीवनी और सकलन राजपाल १.५०  
 कथक-नटवरी-नृत्य श्री प्रभाकर ३.५०  
 कथे की खेती रामेश्वर अशांत देहाती १.५०  
 कथक नृत्य गर्ग, लक्ष्मीनारायण संगीत ८००  
 कथकलि-नृत्यकला पाडेय, अविनागचंद्र संगीत २.५०  
 कथा कलश खरे, नर्मदाप्रसाद गयाप्रसाद १.५०  
 —कल्पतरु व्यथितहृदय ग्रथमाला १००  
 —कल्पद्रुम शिवव्रतलाल शिव सा १००  
 —कहानी मानवधर्म ४००  
 —कहो उर्वशी देवेद्र सत्यार्थी राजकमल ७००  
 कथाकार प्रसाद माथुर, हरस्वरूप सा नि, का २००  
 —प्रेमचंद श्रीलाल 'भानु' शरदा प्र (पा) १००  
 —वृंदावनलाल वर्मा इन्द्रकुमार 'विशार्थी' सूर्य प्र २००  
 कथाकुज २ भा हि प्रचा स १.५० (प्र)  
 कथाकुज अशोक २ भा भा प्र मडल ०.७५  
 कथाकुज भट्टाचार्य, पराशर कत्यागदास १.२५  
 कथाकुज भारतभूषण आर्य वृक २००  
 कथा कुमुदावली नरेन्द्रनाथ शास्त्री गयाप्रसाद २.५०  
 —कुमुमाजलि गुलावगाय गयाप्रसाद २००  
 —कुमुमाजलि विहारीदाम, सत विनीत मानस मध ०.७५

- कथा के तन्त्र उपाध्याय, देवगज ग्रामाला. ५ २५  
 —कौमुदी अचल लोक चेतना. ३.००  
 —कौमुदी. वेदज्ञ आर्य. नेशनल ३.००  
 —गुन्ठ. जैनेन्द्रकुमार हि. ग्र २ २००  
 —चक्र वरुणी, पद्मनाल पुन्नालाल. लोक चेतना २.५०  
 कथानिका मिन्हा, अ. क पु भ १७५  
 कथा पन्धरी—क्षमा राजकृत हरिदत्त शास्त्री, टीका.  
 ना नि, का १००  
 —पञ्चीमी देहाती १००  
 —भान्नी वर्मा, नावित्रीदेवी आत्माराम. १७५  
 —मजरी. नागार्जुन आत्माराम १.००  
 —मजरी यश राजहस २५०  
 —मजरी श्रीमाताजी श्रीअर्चविद ३००  
 —माना जैनेन्द्रकुमार हि ग्र २ २००  
 —रत्न मन्त्री, ना ह... ववर्ण हि. १२५  
 —कलरी वाजपेयी, नददुलारे लोक चेतना २.५०  
 —वाटिका वग्गी, पद्मलाल पुन्नालाल, सपा लोक-चेतना  
 १.२५  
 —सगम मनोहर प्रभाकर कल्याणमल. २५०  
 कथानरिन्नागर सोमदेव भट्ट वि राष्ट्र. भा. १ १०.००,  
 भा. १२५०, — — मस्ता ६००  
 —कां कथानिया राजबहादुर सिंह ३ भा. एस चाद ३.७५  
 कथानुर्य की नई यात्रा श्रीवास्तव, हिमायु हि प्रचा पु  
 ३.००  
 कवित्त कथाए उपाध्याय, शिवराम राष्ट्र पु भ ०५०  
 कदव कलवटर्सिह 'केसरी'. पु भ ४२५  
 कदम-कदम बटाए जा व्याम, गोपालप्रसाद. आत्माराम. २००;  
 — — हि भवन. १००  
 —की फूनी जल मिश्र, विद्यानिवाम न्यू लिट ३००  
 —मिन्नान बडे नलो रघुवीररक्षण 'मित्र' भा. सा. प्र  
 १५०  
 कदती वन शर्मा, नरेन्द्र कि महन २.५०  
 कशीमी पयपाल विवाह प्रवा गुप्न, किरणकुमारी रामप्रसाद  
 ३५०  
 कदू के गुण तथा उपयोग दीक्षित, रामनन्दी देहाती. ०६२  
 कदाज का नविशन गैद, जी एन. . रत्न ०.७५  
 —का नविशन नागपाल, ओ पी कि महन १७५  
 —की पानन प्रगाली इरलेट  
 क. पुपिया शर्मजीर भान्ती भा जानपीठ ३००  
 कनर शर्मा, व दापनमान गयूर १००  
 कर्ना जी गये राहन नाहरखयत वि महन ३००  
 कनर प्राणीय नाट्यश्रीय पय मुन्ती भुज्यनी शान्नी, नपा  
 भा जानपीठ १३००  
 कानि का नन्दि शक्तिमन अना प्र ३.००  
 कानर शक्ति प्र पा नरीन शक्तिमन. आर्य कुय ३००  
 कानर शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति शक्ति १२५  
 कानर शक्ति (शक्ति शक्ति) दान. के की देवानी २५०  
 —उपदेश. शक्तिशक्ति देवानी ०५०

- कन्या. रामनाथ 'सुमन' साधना सदन. १५०  
 कपट निद्रा. वाजपेयी, भगवतीप्रसाद नवयुग प्र. ६.००  
 कपडा छपाई ओमप्रकाश. सर्वोदय ०७५  
 कपडे की कहानी भा भ १.००  
 —की वनावट व डिजाइन. चोपडा, एन एस देहाती ३.७५  
 कपाल कुडला चट्टोपाध्याय, वकिमचन्द्र अर्चना प्र (पा)  
 १००, — — इ. प्रे १.५०; — — भाग्योदय (पा)  
 १००, — — श्री प्रभाकर २००, — — हि पु ए.  
 १५०; — — हि. प्रचा पु १.५०, — — हि प्रचा पु.  
 २.२५, — — हि प्रचा म २५०, — — हिद पा. १००  
 कपास नाईक, दादाभाई अ भा. सर्व २५०  
 —का जन्म जहूरवर्ग मिश्र-वधु ०.७५  
 —की खेती जोशी, गकरराव विनोद १५०  
 —की खेती पचौली, गगाशकर रा वेनीप्रसाद ०.७५  
 —की खेती रामेश्वर अशात. देहाती १००  
 —रानी तरुणभाई. सर्वोदय सा ०७५  
 कपितय प्रमुख राजनीतिक विचारक. श्रीवास्तव, द्वारकाप्रसाद.  
 कि घर, ग्वा ८.५०  
 कपूर मजरी नाटक भारतेदु हरिश्चन्द्र विनोद १२५  
 —मजरी (भारतेदु हरिश्चन्द्र) नगीनचद, सपा रीगल.  
 १२५  
 कप्तान की बेटी पुष्किन, अलेगजडर प्रभात प्र ३.००,  
 — — रणजीत ३२५  
 —लाल राहुल साकृत्यायन राजपाल. २००  
 कफन डे, सतीश. देहाती १.२५  
 कफन. प्रेमचद हस २००  
 कफ परीक्षा रमेशचद मोतीलाल १२५  
 कव तक निहारू. जनक अरविद ड पव्लि एव दि. पु. स  
 ४००  
 —तक पय निहारू शुक्ल, कमल हिंदिया. ३००  
 —तक पुकारू. रागेय राघव राजपाल ८००  
 कवीर चौधरी, यमुनाप्रसाद 'नीरज' जानपीठ १२५  
 कवीर. द्विवेदी, हजारीप्रसाद हि ग्र २ ५५०  
 कवीर बालकृष्ण नेशनल १००  
 कवीर शर्मा, कृष्णदेव अजोक प्र २५०  
 कवीर शर्मा, पुष्पाकुमारी . कुमारनन्ज ३२५  
 —(प्रमोन्नर) शर्मा, राजनाथ विनोद २५०  
 —आद्य जानप्रकाश. शिवरतन्नाल शिव मा २७५  
 —एक अध्ययन दीक्षित. पु भ, आ २.२५  
 —एक विवेचन शर्मा, नरनामनिह 'अरण्य' हि ना न.  
 १२५०  
 —श्रीर उनका काव्य निवारी, भोतानाथ राजकमन. ४५०  
 —श्रीर जायमी का मूल्याकन. वाजपेयी, पुरुषोत्तमचद्र हि  
 प्रचा. पु २.२५  
 —श्रीर जायमी का रहस्यवाद एवं तुलनात्मक विवेचन  
 शिगुणायन, गोविंद ना मदन. ३ ६००  
 —का रहस्यवाद शर्मा, नगबुमान. ना भवन, उ ४.००  
 —की वाणी. मासेना, वीरेंद्रकुमार. नवयुग प्र ३

कवीर की विचार धारा त्रिगुणायत, गोविंद सा नि, का  
६५०

—श्री साखी तथा बोल देहाती ० ३७

—के बोल अशोक सन्ता ० ४०

—ग्रथावली पुष्पपाल सिंह, टीका अशोक प्र १२५०

—ग्रथावली श्यामसुंदरदास, सपा ना प्र सभा ५००

कवीरदान उपाध्याय, विश्वभरनाथ रत्न ३७५

कवीरदास वियोगी हरि सस्ता ० ५०

कवीरदास शर्मा, मुकुन्ददेव नद ब्र एव नद स ० ७५

—गव्दावली देहाती ० ५०

कवीर दोहावली देहाती ० ५०

—पदावली प्रभात प्र २५०

—पदावली चतुर्वेदी, वरसानेलान सा सगम, म २५०

—पदावली वर्मा, रामकुमार, सा हि सा सम्मे १००

—परिचय अग्रवाल, ताकनाथ वगीय ० ६२

—प्रश्नोत्तरी वाष्णोय, कैलाशचंद्र सरस्व पु म २००

—भजनमाला देहाती १५०

—भजनावली देहाती ० ५

—वचनावली उपाध्याय, अयोध्यासिंह, 'हरिऔध', सपा ना  
प्र. सभा ३००

—विमर्श शर्मा, सरनामसिंह 'अरुण' श्री भा भारती ५००

—गव्दावली शिवब्रतलाल शिव सा १५०

—सगीत भजनामृत रामअवतार 'वीर'. देहाती २५०

—सग्रह चतुर्वेदी, मीताराम हि सा सम्मे १००

—सग्रह (सम्मेलन) शर्मा, योगेन्द्रनाथ हि सा भ १००

—सग्रह की टीका शिवप्रसाद शास्त्री रीगल २५०

—सांगी नमीशा पुष्पपाल सिंह अशोक प्र ३५०

—सांगी सार रामवाशिष्ठ विनोद ३५०

—साखी मुघा श्रीवास्तव, रामचंद्र 'चंद्र सशो स ३  
श्रीराम मेहरा ३७५

—साहित्य और मित्रात गर्मा, यज्ञदत्त आत्माराम ३००

—साहित्य का अध्ययन श्रीवास्तव, पुरुषोत्तमलाल सा रत्न-  
माला ४५०

—साहित्य की परख चतुर्वेदी, परशुराम सशो स भा. भ  
७००

—साहित्य की भूमिका भटनागर, रामरत्न रा वेनीमाधव  
२००

साहित्य नमीशा गुप्त, शिवस्वरूप नवयुग पु भ ४२५  
नर के सन कृष्णचंदर हि अ र ३००

साना मटियानी, शैलेश आत्माराम २५०

श और मनावगेध पाडेय, महेंद्रनाथ छात्रहितकारी ० ५०

श्रीर विकार दूर करने के उपाय भावे, बालकोवा अ भा  
मंत्र ० २५

शरण और निवारण पोद्दार, महावीरप्रनाद आरोग्य एव  
सस्ता १००

—श कोष्ठवद्धता बालेश्वरप्रसाद सिंह भा भ १००

—श कोष्ठवद्धता शर्मा, गुरेशप्रनाद म २ मेडिकल ० ७५

शत्रु का विनाश जोशी, श्रीपाद सन्ता ० ४०

कमनीय किनौर कौशल, रामकृष्ण कुमार सन्ज ३२५

कमवरती की मार श्रीवास्तव, जी पी ज्ञानमंडल एव भा प्र  
मंडल २५०

कर्मशियल पोलट्टी कालीचरण देहाती ४००

कमल और केतकी प्र विभाग ० ७५

—कुलिश त्रिपाठी, रमानाथ भा सा सदन १७५,  
(पा) १००

—ज्वाल शर्मा, दुर्गादत्त प्रभात पब्लि

कमला पाडेय, रूपनारायण, अनु स ३ हि प्रचा म. ४५०

कमलाकात का पोथा चट्टोपाध्याय, बकिमचंद्र श्री प्रभाकर  
२००

कमला काकी दशोरा, भवरलाल आशा पब्लि १००

कमलेश कशीदाकारी कमलेश देहाती २५०

कमलेश्वर की कहानिया यादव, राजेन्द्र राजपाल २५०

—के बाल नाटक कमलेश्वर २ भा आत्माराम १५०  
(प्र)

कमाल अतातुर्क इ प्रे ० ३१

कमीने और शरीफ हर्षनाथ नद ब्र एव नद स २००

कम्युनिज्म एक संगठित पडयत्र ब्रजमोहन 'तूफान' विद्यार्थी  
१००

—और किसान रामस्वरूप विद्यार्थी १५०

कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा-पत्र मार्क्स, कार्ल पीपुल्स  
० ७५

—पुराण गोयल, सीताराम विद्यार्थी ० ५०

—शिक्षा के बारे मे कालिनिन, म इ पीपुल्स ० ७५

कम्युनिस्टो का भविष्य, भास्कर, वी विद्यार्थी

करकडुचरिड जैन, हीरालाल, सपा भा ज्ञानपीठ

करकट दमनक मिथितेश प्रभाकर रामप्रसाद ० ६०

करघे की पुकार कातप्रसाद राष्ट्र प्र म २२५

कर भला होगा भला भगवानचंद्र 'विनोद' सस्ता १५०

करलखण मोदी, प्रफुल्लकुमार, सपा भा ज्ञानपीठ ० ७५

करामाती कद्दू चान तडव-यी आत्माराम २००

—सितार गिरीशनाथ गगा ० ७५

करील-कुज गोस्वामी, वासुदेव गोस्वामी १००

करुण रस श्रीवास्तव, ब्रजवासीलाल हि सा स १२५०

करुणा नरेशचंद्र सा सावना ३००

करुणा वर्मा, रामचंद्र, अनु ना प्र सभा ४५०

करुणालय प्रसाद, जयशंकर भा भ १००

करुणाचल वाजपेयी, करुणेंद्र नव सा प्र २२५

करेमी तथा वैकिंग श्रीनारायण कि महल ५००

करेला रानी लक्ष्मीनारायण गगा ० ७५

कर्कशा नागी का सुधार जेम्सपियर, विलियम नव सा प्र

कर्ण चतुर्भुज स २ साधना म १५० [० ५०]

कर्ण चौपडा, सुदर्शन उमेज २००

कर्ण (कविवर प्रभात) एक अध्ययन मिश्र, दुर्गाशंकर हि  
सा भ २००

कर्णवादनम् सत्यव्रत सिंह गयाप्रसाद ० ६०

कर्णभरण गोविंद कवि भारतजीवन ० २५

कर्णाविति. धूमकेतु. वीरा ६००  
 कर्तव्य चद्रप्रकाश अग्रवाल प्रि ० ७५  
 कर्तव्य वर्मा, रामचद्र, ना प्र सभा ३००  
 —और प्रेम शुक्ल, रमेश प्रभात पब्लि. ३००  
 —दर्पण देहाती १२५  
 —दर्पण नारायणस्वामी आर्य सा १००, —  
 गोविंदराम १२५, ——शारदा म १५०  
 —वोध-अक मानवधर्म ४००  
 कर्तव्याघात. द्विवेदी, देवनारायण स ४ ज्ञानमडल ४.५०  
 कर्नाटक की लोक-कथाए भटनागर, ज्ञानेन्द्रकुमार आत्माराम.  
 १.५०  
 कर्वाला प्रेमचद्र गंगा एव सरस्व प्रे ४५०  
 कर्म और योग कृष्णानंद, स्वामी विश्वेश्वरानंद २५०  
 कर्म कांड भास्कर विशालमणि नारायण श्यामलाल ५५०  
 कर्मक्षेत्र श्रीमीलाल 'इलाहाबादी' विद्या भवन, इ  
 कर्मचक्र. मिश्र, रामेश्वरनाथ हि प्रचा पु १५०  
 कर्मठ गुरु मुकुदवल्लभ मोतीलाल ६००  
 कर्मनाशा की हार शिवप्रसाद सिंह भा ज्ञानपीठ ३००  
 कर्मपथ भा, दयानाथ हि भवन २००  
 —तथा अन्य एकाकी टडन, प्रेमनारायण हि सा भ २५०  
 कर्मभूमि प्रेमचद्र हंस ६००  
 —एक अध्ययन टडन, प्रेमनारायण . हि सा भ १७५  
 —एक समीक्षा मिश्र, रामकृष्ण. रवि ३३७  
 —समीक्षा माधुर, हरस्वरूप सा नि, का १७५  
 कर्मभोग या मौज दयाल फकीर २ भा शिवसा १०० (प्र)  
 कर्म-मीमांसा वैद्यनाथ शास्त्री सगो स २ आर्य सा २२५  
 कर्मयोग विवेकानंद, स्वामी अपर २०० — नवयुग प्र  
 २००, — श्रीरामकृष्ण १८०, — सन्मार्ग  
 २००  
 कर्मयोग शिवव्रतलाल, शिव सा ० ७५  
 —का तत्त्व गोयदका, जयदयाल गीता ११२  
 कर्मयोगी घोष, अरविद श्रीअरविद २५०  
 कर्मवाद और जन्मांतर. पाडेय, ललीप्रसाद, अनु ना. प्र  
 सभा ३७५  
 कलक पाडेय, छविनाथ कला-नि २५०  
 कलक. राजेश्वरप्रसाद सिंह. इ प्रे १००  
 कलक हॉथॉर्न, नैयेनियल राजपाल ३००, — हिंद पा  
 १००  
 —कालिमा खत्री, दुर्गाप्रसाद लहरी १००  
 —या वेश्या शर्मा, जगदीश देहाती १२५  
 कलकित श्रीमार्थ गोड, पृष्ठोत्तमदास 'कौमल'. सुरेद्र ४००  
 कलकिनी नदा, गुताशन षडी ३.७०  
 कलदरो की आत्म-कथा जैन, हरजसराय. राजहम १५०  
 कलकत्ता के नजदीक ही मित्र, गजेन्द्रकुमार आत्माराम ७५०  
 कलकत्ते का चमत्कार गाधी, मनुवहन नवजीवन १००  
 कलकत्त छलछल श्रीमाली, वीन्बाला नवयुग ग्र कु १००  
 कल कौन देगा अभयकुमार दाम ३७५  
 फातरव वैनर्जी, एम इ पब्लि ३००

कलम का सिपाही. प्रेमचद्र हंस २०.००  
 —की कमाई कौतुक बनारसी आनंद पु, वा २.५०  
 —कुल्हाडा कौतुक बनारसी आनंद पु, वा. २५०  
 —, तलवार और त्याग प्रेमचद्र सरस्व प्रे भा १ २००,  
 भा २ २.००  
 कलमुही शर्मा, जयप्रकाश पुष्पी १२५, — सुरेद्र. ३००  
 कलयुग की महाप्रलय मेहता, विजय सा प्र २००  
 कलवार की करतूत टाल्स्टाय सस्ता ० ३५  
 कला गुरुदत्त भा सा सदन ६००  
 —एक अध्ययन मनोहरलाल रा वेनीप्रसाद ३००  
 —एव उद्योग देव, वीरेनचद्र साधना म १००  
 —और आसू थानी, योगराज अर्चना प्र (पा) १००  
 —और आधुनिक प्रवृत्तिया शुक्ल, रामचद्र हि समि ३५०  
 —और कलाकार दत्त भारती पजावी पु २५०, —  
 स्टार (पा) १००  
 —और कृपाणा वर्मा, रामकुमार रा वेनीमाधव १.७५  
 —और बूढा चाद पत, मुमित्रानंदन राजपाल ६००  
 —और संस्कृति अग्रवाल, वासुदेवशरण सा. भवन, इ ५००  
 —और साहित्य प्र विभाग १००  
 —और सौंदर्य शुक्ल, रामकृष्ण आत्माराम ३.५०  
 —कल्पना और साहित्य सत्येद्र म २ सा. रत्न भ ५००  
 —का अनुवाद चतुर्वेदी, माखनलाल. विश्वविद्यालय. २२५  
 —का पुरस्कार शर्मा, पाडेय वेचन 'उग्र'. आत्माराम ३.००  
 कलाकार जोशी, जीवनप्रकाश दि. पु स ४००  
 —का दड वर्मा, वृ दावनलाल मयूर १.२५  
 —का प्रेम राजबहादुर सिंह हिंद पा १००  
 —की आखे श्रीवास्तव, हिमागु मगध ३५०  
 —कैदी ड्यूमा, अलेक्जेंडर हि ग्र २ ३५०  
 कलाकारो की फुलभडिया त्रिवेणीप्रसाद कला-नि १.००  
 कला की कलम रघुवीरशरण 'मित्र'. भा सा प्र. ४००  
 —की कुटिया मे वीरेन्द्रनारायण ज्ञानपीठ १२५  
 —की भाकी पाठक, कृपानारायण. रा वेनीप्रसाद  
 १००  
 —की परख जसवानी, के के आत्माराम ४००  
 —के प्राण बुद्ध. जगदीशचद्र मध्यप्रदेश शासन ७.५०  
 —के लिए वरेरकर, मामा आत्माराम १५०  
 —के सोपान नागर, मदनलाल २ भा सरस्व प्रे. १५०  
 (प्र)  
 —के हस्ताक्षर देवेद्र सत्यार्थी आत्माराम २.५०  
 —क्या है? टाल्स्टाय हि प्रचा पु ० ६७  
 —दर्शन गुट्टू, शचीरानी साहनी २०००  
 कलापी आरसीप्रसाद सिंह ग्रथमाला २००  
 कलापूर्णा एकाकी ओभा, दशरथ. राजपाल ४००  
 —एकाकी (दशरथ ओभा) प्रश्नोत्तर मिश्र, दुर्गाशंकर. हि.  
 सा भ. २००  
 कला-प्रशिक्षण के सिद्धांत हेरीसन .. गयाप्रसाद ६००  
 कलायण सरकर्ता, नानूराम नवयुग ग्र कु ३५०  
 कला रूप और प्रेम. खुल्लर, मदनमोहन. सा सदन, दे १.५०

कलावंतो की गायिकी संगीत ३.००  
 कला विज्ञान कादरी, मुहम्मद अंसगरप्रली ३ भा कि. महल.  
 १ ०० (प्र)  
 —विज्ञान. गर्मा हरद्वारीलाल हि सा सम्मे. १ ००  
 कलाविलासिनी वानवदत्ता देवदत्त शास्त्री चौखट. २ ५०  
 कलावे जयनिह लोक चेतना ४ ००  
 कला शिल्प तथा रचना कौशल मुकजी के के गुप्ता ब्रा  
 ६ ००  
 —, माहित्य और नमीक्षा मिश्र, भगीरथ एस चाद १० ००  
 —माहित्य शाप ? दुवे हरिदत्त प्रतिमा ६ ५०  
 कलिंग नरेज की जय मुन्निदत्त, आचार्य नारायण प्र १ ००  
 —विजय चतुर्भुज स न नाधना म १ ५०  
 कलिका खाडेकर, वि न देगमुख ६ ००  
 कलिया खिलकर फूल बनी है महेशचन्द्र 'नक्शा' आत्माराम  
 १ ५०  
 —तीन भवरा एक चगताई, अजीमदेग पुष्पी ० ७५,  
 — — नुरेद्र २ ००  
 कलियुग की कहानिया मिश्र, गौरीशकर इ प्रे १ २५  
 —के सतयुगी सप्त मिश्र नर्मदाप्रनाद मिश्र-त्रधु १.१२  
 कलियुगीन अभिमन्यु विश्वभरनाथ गदाप्रसाद २ ००  
 कली जो मुरभा गयी ओम्प्रकाश कन्हैयालाल. २ २५  
 —मुस्कराई सगर, सत्यप्रकाश राजकमल. ४ ००  
 कल्कि पुराण हास्य अलवर्त कृष्ण अली अभिज्ञान २ ००  
 कल्पना कौशल, रामकृष्ण सन्मार्ग २ ५०  
 कल्पना दत्त भारती पजावी पु २ ५०, — — स्टार (पा)  
 १ ००  
 कल्पना परदेशी कल्याणमल  
 कल्पना पालीवाल, हरिदत्त 'निर्भय'. शारदा साधना २ ५०  
 कल्पना प्रतिभाजरा भागलपुर बुक २ ००  
 कल्पना मिश्र उपनारायण जानोदय. २ ००  
 कल्पना रागेय राघव राजपाल २ ५०  
 —और छायावाद केदारनाथ निह हन ३ ००  
 —कानन बियाणी विजलाल. भा भ २ ००  
 —कुज दुलीचद, मुनिथी आदर्श सा १ ००  
 —के श्रान् गर्मा, श्रीनाम 'राम'. नवयुग प्र ४ ५०  
 कल्पलता उपाध्याय अयोध्यानिह हरिऔध' गंगा ३ ००  
 कल्पलता खाडेकर, वि स देगमुख ५.००  
 कल्पलता हजारीप्रनाद, आचार्य जानमडल २ ५०  
 ५५० अग्रवाल, वानुदेवशरण नन्ता २ ५०  
 ५५० एक नन्नेना महेशनारायण संगीत. २ ५०  
 ५५० गीता भा १ ० २५; भा २ ० ३१, भा ३  
 ०.३७  
 ५५० जैनेन्द्रकुमार पूर्वोदय २ ५०, — — राजकमल  
 (पा) १.०० — — हि प्र २ २ ००  
 , चध्ययन. मिश्र, दुर्गाशकर हि सा भ १ ५०  
 —: एक नमीक्षा नीलमणि. रवि २.००  
 कल्प का वाक्ता गुप्त, विद्याचलप्रनाद जानपीठ ० ७५  
 कल्पाल. गर्मा, विश्वभरनाथ 'बौधिक' विनोद ३.००

कल्लोलिनी. सत्येंद्र... लक्ष्मी ना १.५०  
 क्वार की साभ पाठक, रामनरेश पारिजात २.५०  
 कवि वद्योपाध्याय, ताराशकर नवयुग प्र ४ ००  
 —अनूप गर्मा कृतिया और कला टडन, प्रेमनारायण, मपा  
 हि सा भ १५ ००  
 —और काव्य द्विवेदी, शांतिप्रिय. इ प्रे २ ००  
 —और क्रांतिकारी श्रीनारायसिंह ठाकुर गंगा २ ५०  
 —और छवि राव, बालकृष्ण इ प्रे २ ००  
 —और लेखक त्रिपाठी रामफेर स ३ मालवीय २ २५  
 —कथा मजूमदार, लीला सा अकादमी ० ५०  
 —कर्म-बोध प्रभात शास्त्री . कौशावी ० ६२  
 —कालिदान द्विवेदी, गणेशप्रसाद हि सा सम्मे १ २५  
 —की वाणी पालीवाल, हरिदत्त 'निर्भय' शारदा साधना  
 २ ५०  
 —कुल-कठाभरण. मिश्रवधु. गंगा १ ५०  
 —चडीदास पांडेय, शारदारजन अभिज्ञान. १ ६५  
 —चरित चर्चा जैन, गुलजारीलाल श्री भा भारती १ ००  
 कविताजलि घोष, अरविंद श्रीअरविंद १.००  
 कविता सिन्हा, एम एम 'कात हि प्रचा पु १ ५०  
 कविताए चौधरी, कीर्ति राजकमल ३ ५०  
 —'५७ चंद्रदेवसिंह, सपा भा पु म ३.००  
 —'५८ चंद्रदेवनिह, सपा भा पु म ३ ००  
 —१६६३ अजितकुमार . नेगनल ४.००  
 —सकलन. अवस्थी, देवीशकर. सा नि, का २ ७५  
 कविता काकली गौड, कृष्णदेवप्रसाद नद ब्र १ ५०  
 —कानन पांडेय, रामसेलावन जानपीठ १ ५०  
 —कानन एक समीक्षा मोतीलाल १ ५०  
 —की रिमभिम रात मोहनलाल विद्यालकार कला-भा  
 —की शिक्षा श्रीवान्तव, शिवनारायण. नद स २ ००  
 —कुसुम-माना पांडेय, लोचनप्रसाद मिश्र-त्रधु ३ ५०  
 —कुसुमाकर. शुक्ल, रामबहोरी, मपा हि भवन १ ७५  
 कवि तानमेन और उनका काव्य चतुर्वेदी, नर्मदेश्वर सा  
 भवन, इ ३ ००  
 कविता निकुंज अग्रवाल, शांति, सपा रा वेनीप्रनाद १ ७५  
 कवितामयी मिश्र, हरिमोहन जानोदय. २ ००  
 कविता मे प्रकृति-चित्रण खडेलवाल, रामेश्वरलाल 'तरण'  
 नेशनल. ४ ००  
 कवितायन मनोहर प्रभाकर कल्याणमल १ ५०  
 कविता रो कठो सोहनलाल मुनिथी आदर्श सा २ २५  
 कवितावली गुप्त, माताप्रनाद, मपा हि सा सम्मे १ २५  
 कवितावली चंद्रशेखर शम्भू, टीका सा भवन, इ ६ ००  
 कवितावली तुलसीदान, गोस्वामी गीता ० ५६  
 कवितावली. मिश्र, चपाराम इ प्रे २ ७५  
 कवितावली विवेकानंद, स्वामी श्रीरामकृष्ण ० ६२  
 कवितावली भगवानदीन 'दीन' लाला . न ४ रा. वेनी-  
 प्रनाद २ ००  
 कवितावली गर्मा, ठाकुरप्रनाद, टीका रामप्रसाद १.५०  
 —तुलसीदास शर्मा, वामदेव रा वेनीमाधव २.००

- कवितावनी रामायण तथा हनुमान बाहुक रत्नाश्रम. २.२५  
 —(गुरुर काठ, लका काठ) टउन, प्रेमनारायण, सपा हि  
 ना भ ०.५०  
 कविता-संग्रह. शरणा कुरव जी. अशोक प्र गृह  
 कविता रत्नाकर ज्ञान, उमाशंकर हि सा परिपद ३५०  
 —गरनी मेनापति छात्रहितकारी १००  
 कवि नाट्यम्. अश्वान, रामनारायण एम चाद. ४.००  
 —निराला और उनकी काव्य तिवारी, गिरीशचंद्र सा  
 भवन, ३ ३००  
 —निराला की वेदना तथा अन्य निबंध विष्णुकांत शास्त्री  
 हि. प्रचा पु. ५००  
 —पत और उनकी अथि नागे-वरलान. कमल प्र. १.५०  
 —परिचय विराज अशोक प्र १५०  
 —प्रसाद तिवारी, भोलानाथ राजकमल ४००  
 —प्रसाद (प्रज्ञानर मे) पाडेय, मधुनाथ विनोद. २.५०  
 —प्रसाद भटनागर, रामरतन कि. महल २.५०  
 —प्रसाद भारतभूषण 'सरोज' अशोक प्र २५०  
 —प्रसाद और आनू. टउन, लक्ष्मीनारायण स २. हि. सा  
 भ. २.५०  
 —प्रसाद की काव्य गाधना. रामनाथ 'मुमन' छात्रहितकारी.  
 ३५०  
 —प्रसाद . समीक्षा श्रीनाथ 'भानु' शारदा प्र. (पा) १००  
 कविप्रिया केशव मातृ-भाषा. ४५०  
 कविप्रिया एकाकी चौबे, अर्जुन सरस्व प्र म ३००  
 कवि-भारती सा सदन, चि १५.००  
 —भारतेंद्र मिश्र, लक्ष्मीनारायण हि. प्रचा. पु २००  
 कवियों का विवेचनात्मक अध्ययन गुप्त, सोमनाथ २ भा  
 श्री भा भारती ६००  
 —की ठिठोनी त्रिपाठा, रमाकांत भा. २ हि. पु ए १५०  
 —मे मौम्य गत हरिवंशराय वचन' राजपाल ५००  
 कवि रहस्य भा, गगनाथ हिंदु एकेडेमी २००  
 कविवर पत और उनकी 'आधुनिक कवि'. द्विवेदी, रामरज-  
 पाल हि सा न ७.५०  
 —पत और उनकी रसिबद्ध विजयभर 'अश्रु'. प्रदीप  
 ३५०

- कविश्री भास सा. सदन, चि ०७५  
 —महादेवी वर्मा सा. सदन, चि. ०.७५  
 —माला . आसामी चौधरी रघुनाथ. . राष्ट्र प्रचा. समि.  
 —माला . उडिया. मेहेर, गगाधर. . राष्ट्र प्रचा. समि.  
 २.००  
 —माला उर्दू इकबाल राष्ट्र. प्रचा समि २००  
 —माला कन्नडी. वेद्रे, द रा. राष्ट्र प्रचा समि. २.००  
 —माला कश्मीरी परमानंद. राष्ट्र प्रचा समि  
 —माला गुजराती दयाराम राष्ट्र प्रचा. समि. २००  
 —माला गुजराती. सुदरम् राष्ट्र प्रचा समि  
 —माला तमिल. भारती, सु... राष्ट्र प्रचा समि २००  
 —माला तेलगु. कवुले तिरुपति वेकट... राष्ट्र. प्रचा  
 समि. २.००  
 —माला . पजाबी वीरसिंह, भाई राष्ट्र प्रचा. समि २.००  
 —माला बंगला नजहल इस्लाम... राष्ट्र प्रचा. समि  
 —माला . मणिपुरी कमलसिंह लमावम. राष्ट्र. प्रचा. समि  
 —माला मराठी केशवसुत . राष्ट्र प्रचा समि २.००  
 —माला मलयालम वल्लतोलजी.. राष्ट्र. प्रचा. समि.  
 २००  
 —माला सिंधी वेवसि, किसनचंद. राष्ट्र. प्रचा समि. २.००  
 —माला हिंदी प्रसाद, जयजकर राष्ट्र प्रचा. समि.  
 —मैथिलीशरण गुप्त सा सदन, चि. ०७५  
 —सियारामशरण गुप्त सा सदन, चि ०७५  
 —सुमित्रानंदन पत. सा सदन, चि ०७५  
 —सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' सा सदन, चि ०७५  
 कवि समीक्षा वर्मा, श्यामलाकांत आनंद पु, वा ४.५०  
 —सम्राट हरिप्रोव और उनकी कलाकृतिया. सक्सेना,  
 द्वारिकानाथ मरस्व. पु स ३२५  
 कश्मीर भगवतीशरण सिंह हिंदु एकेडेमी.  
 कश्मीर. राजकुमार. हि प्रचा पु ४००  
 —की कहानिया कृशचंदर कि महल २.७५, —  
 राजपाल. ३००  
 —की बेटा जमनादास 'अन्तर' सहगल २७५  
 —की सैर. मलिक, सत्यवती रणजीत १.५०  
 — विजय पाडेय, सत्यनारायण इ प्रे १५०  
 कश्मीरी गुलाब. फडके, ना. सी रामप्रसाद ४००  
 कपादपाहुट जयधवला भा २-२ श्री भा दिगवर. १२०० (प्र)  
 कलक अमृता प्रीनम हिंद पा १००  
 कमक केजर चौबनी २५०  
 कमम कुंगन की रस्तोगी विनोद अपर ३००  
 कनाई महतो, मोहनलाल 'वियोगी'. ज्ञानपीठ. २००  
 कसौटी के चिन्. हृष्णमोहन 'मधुकर'. कला-भा. २५०  
 —पर उदाधाय, भगवतशरण रीगल. २.००  
 कन्वरवा नैयर, सुमीला शिवलाल २००  
 कन्वरवा राधेश्याम 'प्रगतभ'. शरुन १००  
 —गांधी विष्णु प्रभाकर. नस्ता ०.५०  
 कर्तुनी. गान्ध प्रचा पा १००  
 कस्वे का एत दिव अमृतनाथ. हम २.५०

- कहते चलो मुनते चलो भा, रमेगचद्र नारायण प्र १५०  
 —है जिनका इक अहमद अब्बाम, खाजा राजकमल (पा)  
 १००  
 कह मुकरणी चद्रसिंह नवयुग प्र कु ०६३  
 कहरानामा, मसलानामा (मलिक मुहम्मद जायसी कृत)  
 अमरखहादुर सिंह 'अमरेश हिंदु एकेडेमी २५०  
 कहा आ गए ? गुट्टे, अरविद आत्माराम २००  
 —और कैमे मुहम्मद हुनेन दीन, सैयद २ भा पु भ, रा  
 ०७५ (प्र)  
 —कौन और कितना आनदकुमार हि प्र म ०७५  
 —या क्यों ? मिश्र, रामप्रसाद सा रत्न भ २५०  
 —से कहा मिश्र, जगदीश किशोर २२५  
 कहानिया टाल्स्टाय पीपुल्स ३२५  
 कहानिया मिश्र, ज्योतिप्रसाद, सपा हि भवन ३००  
 —अमर हैं रघुश्रीरंगण 'मित्र' भा सा प्र १५०  
 कहानियो की कुर्जी गुप्त, त्रिलोकचद रीगल १००  
 कहानी—एक कला शर्मा, गिरधारीलाल 'गर्ग' ग्रथमाला  
 १२५  
 —और कहानीकार मोहनलाल 'जिज्ञासु' आत्माराम ३५०  
 —कलश रामसकलसिंह अशोक पु भ भा १ ०७५, भा  
 २ ०६६  
 —कला व्याम विनोदगकर हि सा कु १५०  
 —कला और कलाकार व्यथित हृदय रा वेनीप्रसाद २००  
 —कला तथा उसका विकास त्रिपाठी, छविनाथ जुगलकिशोर  
 —कलानिधि धिल्डियाल, रमाप्रसाद 'पहाटी' रा वेनी-  
 माधव १७५  
 —कलाप टडन, हरिहरनाथ ४ भा गयाप्रसाद २००  
 —कला, विकास और इतिहास शर्मा, श्रीपति नद स ६००  
 —कल्पद्रुम सत्यदेव औरिएटल ४५०  
 —कहने की रीति रामलोचनशरण पु भ १००  
 —का रचना विधान शर्मा, जगन्नाथप्रसाद हि प्रचा पु  
 ६००  
 —कुमुम धिल्डियाल, रमाप्रसाद 'पहाडी', सपा रा वेनी-  
 प्रसाद १५०  
 —कुमुम (पहाडी) गाइड कमलनारायण हि मा भ १५०  
 —कुमुमाकार सावल, रामलाल श्री भा भारती ३००  
 —के रूप और तत्व देवमित्र नावट्टी १५०  
 —कैमे वनी ? दुग्गन, कर्तारसिंह भा जानपीठ २५०  
 —कर्म हो गई चनु-नेन, आचार्य राजपान ४००  
 दर्शन गो-वामी भल्लचद्र 'प्रयर' ना रत्न भ १०००  
 नई पुननी रघु-सिंह, नपा राजकमल २००  
 नई पुनी (प्र-सिंह) प्रताप हि मा भ ०७५  
 नून श्री-ज्ञान पाडेय, मुधाकर नपा हि प्रचा पु  
 मे कृतानी मन्दिरे रजत नागी प्र [२००  
 नेगिन यो-नेन के मात पुन उपेद्रनाथ 'अयक'  
 नीलाभ ३१०  
 —विविधा प्रग्धी देवीगकर, सपा राजकमल ३००  
 —नरह हि प्रचा म ११२

- कहानी सरोवर प्रभात प्र २००  
 —सुधा भोसले, बालकृष्ण ववई हि २००  
 —से मनोरजक सच्ची घटनाए शकर ना प्र सभा. १५०  
 कहावत-कोश वि राष्ट्र  
 —चद्रिका दर्यासिंह भा प्र मदिर. ०७५  
 कहावती कहानिया नदकिशोर प्रसाद ३ भा भागलपुर बुक  
 ०६२ (प्र)  
 कहावतो की कहानिया पोशर, महावीरप्रसाद सस्ता २२५  
 कहिये समय विचारि विडला, लक्ष्मीनिवास सस्ता १००  
 कही की ईद, कही का रोडा प्यारेलाल 'आवारा' रूपसी  
 ३००  
 —दीप जले कही दिल शकील बदायूनी स्टार (पा) १००  
 कही और अनकही प्यारेलाल 'आवारा' रूपसी ३००  
 कहै पैरुडीदास चिरजीत आत्माराम २५०  
 काग्रेस और उसका भविष्य गाधी, मोहनदास करमचद.  
 नवजीवन ०४०  
 —का इतिहास सीतारमैया, पट्टाभि सस्ता भा १-२  
 (अप्रा), भा ३ १०००, सक्षिप्त ६००  
 —का इतिहास सूर्यवली सिंह काशी पु ३५०  
 —का सरल इतिहास राजहस ३००  
 —की देश सेवा नेने, एल जी गयाप्रसाद १२५  
 —की विचारधारा तथा कार्यक्रम सादिक अली अ भा  
 काग्रेस ०३०  
 —सविधान अ भा काग्रेस ०२५  
 —सविधान की धाराओं के अंतर्गत नियम अ भा काग्रेस.  
 ०२५  
 —ही क्यों सहाय, गोविंद राष्ट्रीय प्र मदिर ०६२  
 काच और कचन शरण उमेश ३००  
 —का रास्ता राविन शा 'पुष्प' हेमकुट १५०  
 —के टुकडे कश्नचदर हिंद पा १००  
 —के टुकडे वेदप्रकाश 'टोरी' प्रेम प्र ३५०  
 —के पुतले भारद्वाज, कृपाशकर नवयुग प्र ५००  
 —के सपने गोविंदसिंह गुल्लूप्रसाद ३५०  
 —विज्ञान चरण, आर हि समि ६००  
 काटा भी महक उठे अविनाग रामप्रसाद २५०  
 काटे महेशचद्र सरल सरल  
 काटे शर्मा, श्रीराम 'शर्मा' साहनी ६००  
 —और कलिया भा, रमेगचद्र मुशाप २५०  
 काटो का ताज मिश्र, गगाप्रसाद नद ब्र एव नद म २५०  
 —की छाह मत्यप्रताग 'मिलिद' एस चाद २२५  
 —की माना चौधरी ०७५  
 काता शर्मा, ओमप्रकाश राजहस ३५०  
 कादीद वाल्तेय राजहस २००  
 कापती आवाज रघुश्रीरंगण मित्र' ना मा प्र ४००  
 का महाति कान्हूचरन जिवलाल ४००  
 काकटा तैती उपेद्रनाथ 'अयक' नीलाभ १००  
 काता रागेय राघव आत्माराम ३००  
 —की कचहरी काका हाथरसी संगीत २००

काका की शशी. मुशी, कन्हैयालाल मारिकलाल कि. महल.

२.५०

- काग उडानी. बालकृष्ण नेशनल ० ७५  
 कागज और घागो के खेल कोठारी, लक्ष्मण शकुन. १ ६०  
 —का फूल. गोविर्दासिह चौधरी ३ ००  
 —की किश्तिया जैन, लक्ष्मीचंद्र भा ज्ञानपीठ २ ५०  
 —की दीवार सहगल, ललित अनु नेशनल  
 —की नाव गौड, वृजेन्द्रनाथ. अरवध. १ ५०  
 —की नाव पंत, गोविंदवल्लभ अशोक पा. १ ००  
 —की नाव शुक्ल, उमाशकर इ प्रे १ ७५  
 —के फूल अग्रवाल, भारतभूषण भा ज्ञानपीठ २ ००  
 —के हुनर सैगल, राजकुमार श्री प्रभाकर १ ५०  
 काजल गोविर्दासिह. चौधरी. ३.००  
 —रेखा जगन्नाथ प्रभाकर नेशनल. ० ७५  
 काठक गृह्यसूत्र कैलेड, विलियम विश्वेश्वरानंद १०.००  
 काठ का उल्लू और कवूतर वर्मा, केशवचंद्र सा भवन, इ.  
 ४ ००  
 —का घोडा भा, सदानंद ज्ञानपीठ १.००  
 —का हाथी देवासे, मुन्नालाल लोक चेतना. २ ५०  
 —की घटिया सक्सेना, सर्वेश्वरदयाल भा ज्ञानपीठ ७.००  
 —की तलवार मूरिदेव, रजन कला-नि १.५०  
 —के तावूत और जिंदा लाशे. दीक्षित, प्रकाश प्रचा. पा  
 १ ००  
 कादविनी शर्मा, भूदेव गयाप्रसाद. २ ००  
 कादवरी उपाध्याय, भगवतशरण. राजपाल. ३ ००  
 कादवरी गदाधर सिंह इ. प्रे. ० ७५  
 कादवरी. वाराणभट्ट प्रचा पा १ ००, — —भा भ ५.००,  
 — —सस्ता. ०.४०  
 —, एक सांस्कृतिक अध्ययन अग्रवाल, वासुदेवशरण चौखवा  
 १३ ७५  
 —कथा पाठक, रानकिशोर. पु. भ, रा. १ ००  
 —कथामुखप्रकरणम्—वाण कृत. रामस्वरूप शास्त्री. .  
 रा वेनीमाधव. ५.००  
 —परिचय पाडेय, राजनाथ रा वेनीमाधव २ ५०  
 कानन जानकीवल्लभ शास्त्री पु. भ ३ ००, — —  
 रामलोचन (पा.) १.००  
 —कुसुम प्रसाद, जयशकर. पु भ १ ००, — —भा. भ  
 २ ००  
 कानून और इन्सान. साधना प्रतापी नवयुग प्र ५.००  
 —रयान शिवव्रतलाल शिव सा १ ००  
 कानूनी मल. श्रीवास्तव, जी पी आनंद पु, वा.  
 कापर करों सिंगार ओकार शरद राजरजना २.००  
 काफी घाट अक. गर्ग, लक्ष्मीनारायण, सपा नगीत २ ५०  
 —हाउस वाली लकी सगर, सत्यप्रकाश राजकमल. ३.००,  
 — —पैरामाऊट २ ७५  
 कावा और कवना गुप्त, मैथिलीशरण सा सदन, नि  
 १.२५  
 कावुली वाला ठाकुर, रवीन्द्रनाथ. चौधरी. ४ २५

कावुली वाला ठाकुर, रवीन्द्रनाथ. प्रभात प्र २ ००; — —

— —हिंद. पा १ ००

- वाला तथा अन्य श्रेष्ठ कहानिया. ठाकुर, रवीन्द्रनाथ.  
 राजधानी. ४ ५०  
 कावूर. उपाध्याय, हरीभ.ऊ, अनु हि ग्र र. १ ००  
 काम और कामिनी कटक, प्रेमा. वीरा ६ ००  
 कामकला. २ भा. दि. प्रे ३.०० (प्र)  
 कामकला विजयवहादुर सिंह, ठाकुर हि सा कु. ४.५०  
 —और दांपत्य विज्ञान गुल्लूप्रसाद. ७.००  
 —की कहानिया. आनंदकुमार आत्माराम १ ५०  
 —की बाते. सत्यप्रकाश 'मिलिंद' दास ०.७५  
 कामना प्रसाद, जयशकर. भा. भ १.७५  
 काम प्रेम और परिवार. जैनेन्द्रकुमार. पूर्वोदय. ३.००  
 —मनोविज्ञान तथा यौन-व्याधिया द्वारकाप्रसाद. प्रचा पा  
 १ ००  
 कामरूप. सहाय, रघुपति 'फिराख गोरखपुरी', सपा  
 आत्माराम ७ ५०  
 —कथा-महाकाव्य. द्विवेदी, गौरीशकर 'शकर'. बुदेल. ७ ५०  
 कामरेड ज्वालाप्रसाद 'केशर'. चिनगारी २ ५०  
 काम विज्ञान वेरी, देवीचंद्र हि प्रचा पु ५.००  
 —विज्ञान और विवाहित जीवन. चाद मोहम्मद 'आधुनिक मा  
 ३ ००  
 —विज्ञान स्त्री-पुरुष यौन-विज्ञान स्टार १.००  
 कामसूत्र देहाती ३ ००  
 कामसूत्र. देवदत्त शास्त्री, टीका. चौखवा १६ ००  
 कामसूत्र वात्स्यायन अर्चना प्र. (पा) १ ००  
 —भाषा टीका सहित. वात्स्यायन. श्यामलाल. ३ ००  
 कामायनी प्रसाद, जयशकर भा भ ५ ००  
 कामायनी. भटनागर, रामरतन कि महल. २.५०  
 कामायनी शर्मा, ओमप्रकाश. हि सा स. १.५०  
 —अनुशीलन. रामलाल सिंह. इ प्रे ४ ००  
 — एक अध्ययन चतुर्वेदी, राजेश्वरप्रसाद. रतन २ ००  
 —: एक परिचय. पाडेय, गयाप्रसाद स. २. रा. वेनीमाधव  
 २.००  
 —और प्रसाद की कविता गगा मिश्र, शिवकुमार. कि घर,  
 का ७ ५०  
 —का विवेचन शर्मा, ब्रजभूषण इ प्रे. १ ५०  
 —की टीका वाली, तारकनाथ. विनोद ५.००  
 —की टीका विश्वभर 'मानव' कि. महल ६ ००, — —  
 सशो स ६ लोकभारती ६ ५०  
 —की भाषा गुप्त, रमेशचंद्र. अशोक प्र ७ ५०  
 —की व्याख्यात्मक आलोचना विश्वनाथ लाल 'गैदा'. हि  
 प्रचा पु. ८ ००  
 —की सरल व्याख्या (लज्जा सर्ग तक) मिश्र, दुर्गाशंकर  
 हि सा भ ३ ००  
 —के अध्ययन की समस्याए. नगेंद्र नेशनल. ३ ००  
 —के तीन सर्ग दीक्षित, विश्वप्रकाश 'बटुक' हि भवन २ ७५  
 —दर्शन श्रीलाल 'भानु'. गारदा प्र. (पा) १ ००



- कामायनी दर्शन सहगल. आत्माराम ४००  
 —दिग्दर्शन नरनिहाचारी, एस टी सरस्व पु स - -  
 —दिग्दर्शन गुप्त, तरुणेंद्रु जेपर कि घर, ग्वा २००  
 —दीपिका सहगल, नगीनचद रीगल ७५०, ३ सर्ग ३००  
 —प्रश्नोत्तरी मिश्र, दुर्गाशंकर सरस्व पु स १५०  
 —(प्रसाद) (प्रश्नोत्तर) भारतभूषण 'सरोज' विनोद १००  
 —भाष्य मक्सेना, द्वारिकाप्रसाद विनोद १५००  
 —मे काव्य, ससृष्टि और दर्शन द्वारिकाप्रसाद विनोद १०००  
 —मे शब्द-शक्ति चमत्कार जैन, विमलकुमार हि सा. स ५००  
 —वस्तु और गिल्प दीक्षित, विष्णुप्रकाश 'बटुक' हि भवन ३००  
 —समीक्षा कुनुम, आचार्य अशोक प्र २५०  
 —समीक्षा गुप्त, सुरेशचंद्र हि सा स १५०  
 —समीक्षा पाडेय, सुधाकर कल्याणदास ३००  
 —सौंदर्य फतहसिंह भा भ ६५०  
 कामिनी रतननाथ 'सरजार' सरस्व प्रे ५००  
 कामिनी गर्मा, नरेद्र कि महल १००  
 —कशीदाकारी कामिनी देहाती ४५०  
 काय चिकित्सा पाडेय, गंगासहाय चौखवा २५००  
 कायाकल्प प्रेमचंद सरस्व प्रे १०००  
 —योग नरेद्र शास्त्री गंगा १२५  
 काया की माया पाडेय, अनिरुद्ध भा भ ८००  
 कारक दीपिका पत, मोहनवल्लभ रा वेनीमाधव ४००  
 कारखाना अनिलकुमार दि पु स २००  
 —प्रवध एव व्यवसाय व्यवस्था सक्सेना, एस सी सा भवन, आ ७५०  
 कारपेट्री मास्टर ताशी, निरजनसिंह देहाती ६७५  
 —मैनुअल मोधी, के के देहाती ४५०  
 कारवा वदता जायेगा श्रीवास्तव, हिमाशु राजधानी २००  
 कारावाम दोग्तोवस्की नेशनल ७५०  
 कारावास यश आत्माराम २००  
 कार्टून शीकत थानवी. सहगल ४.२५  
 कार्मिक महात्म्य अध्याय ३५ सत्यकाम शास्त्री देहाती ४६२  
 —माहात्म्य भाषा टीका महित ज्यामलाल १५०  
 —माहान्य भाषा नपूर्ण जगन्नाथ देहाती १५०  
 कार्मिक विगज नेशनल १५०  
 कार्मिक रसायन डे, पचानन अपर ५५०  
 —नायन त्रिवाणी, रामदान... मशो म ४ श्रीराम मेहरा ४००  
 —नायन मिह, आर एन लक्ष्मी ना ५००  
 —नायन मिह, आर एन आगरा बुक ८००  
 —नायन टिप्री पार्ट १-३ एव ओड वी एम सी राय, आर दी बुलेंड १५००  
 —नायनशास्त्र बहल एम चाद ६.००

- कार्मिक रसायन शास्त्र श्रीप्रकाश. गयाप्रसाद ७००  
 —रसायन शास्त्र सोनी, पी एल एस चाद ५७५  
 कार्य और कारण ऊपित्स, अद्वेयस पीपुल्स ०७५  
 कार्यकर्ता क्या करे? भावे, विनोवा अ भा सर्व ०७५  
 —पाथेय भावे, विनोवा अ भा सर्व ०५०  
 कार्यालय कार्य-विधि सागर, रामचंद्र सिंह आत्माराम ६००  
 —क्रियाविधि चिरजीलाल नेशनल १००  
 —पद्धति निर्देशिका सागर, रामचंद्र सिंह अनिल प्र ४.००  
 —सहायिका केंद्रीय ३००  
 कार्यालयों के हिन्दी नाम केंद्रीय ०२५  
 कार्ल और अन्ना फ्रैंक, लियन हार्ड सरस्व प्रे १५०  
 —मावर्स राहुल साकृत्यायन कि महल ६००  
 —मावर्स स्तेपानोव, ई पीपुल्स १५०  
 —स्टीनमिट्ज टामस, हेनरी एस चाद १००  
 काल के पख जैन, आनंदप्रकाश भा ज्ञानपीठ ३००  
 —कोठरी शर्मा, पाडेय वेचन 'उग्र' आत्माराम २.५०  
 —गढी कुशवाहा, त्रिलोक चिन्गारी २२५  
 —गढी गोविंदसिंह गुल्लूप्रसाद ३५०  
 कालचक्र सिद्धेश्वर शास्त्री शारदा म ०५०  
 कालटी जोशी, श्रीपाद सत्ता ०४०  
 काल पाशक पर विजय अभयकुमार 'यौधेय' दास ०६५  
 —बोध शिवकुमार सिंह ना प्र सभा ०२५  
 —विजय रागेय राघव लक्ष्मी ना २००  
 —सुदरी. श्रीवास्तव, ओकारनाथ राजकमल ३००  
 काला गुलाव अमृता प्रीतम. राजकमल ४००  
 —चश्मा प्रमोद राजा राज्यश्री १५०  
 —चोर खत्री, दुर्गाप्रसाद लहरी ३००  
 —निशान लहरी २००  
 —पानी पेटलीकर, ईश्वर वीरा ३००  
 —पानी शाडित्य, शिवनाथ सिंह सस्ता ०४०  
 —पानी सावरकर, वीर कि महल ५००  
 —फूल व्यास, श्रीकांत, अनु राजपाल १५०  
 —भूत कुशवाहा 'कात' गुल्लूप्रसाद १००  
 —सूरज कृष्णचंदर राजपाल २५०  
 —सूरज सफेद साये अहमद अब्बास, रवाजा नीलाभ  
 —हस मान, टॉमस रूपा ३००  
 कालिदी गुप्त, भैरवप्रसाद धारा ५००  
 कालिख और लाली गर्मा, राजेद्रकुमार आत्माराम २००  
 कालिदाम ईशदत्त शास्त्री 'श्रीग' ग्रथमाला १००  
 कालिदास कमलेश नया सा प्र १५०  
 कालिदास चौधरी, जयकृष्ण आत्माराम ३००  
 कालिदास तिलक भागलपुर बुक ५००  
 कालिदास भट्ट, उदयशंकर आत्माराम २००  
 कालिदास मिराजी, वामुदेव विष्णु हि ग्र र ५००  
 कालिदास व्यास, सतोप आनंद पु, वा ४००  
 कालिदास शर्मा, मुकुंददेव नद व एव नद न ०७५  
 —, एक अनुशीलन देवदत्त शारत्री चौखवा २.५९

- कालिदास और उनकी कला. बागीश्वर विद्यालंकार. मोतीलाल  
१०.००
- और भवभूति राय, द्विजेद्रलाल. हिं प्र. २ ३००
- और हूण बुद्धप्रकाश त्रिवेणी ५५०
- का भारत उपाध्याय, भगवतशरण स. २ २ भा.  
भा ज्ञानपीठ ८००
- की कहानी मिश्र, ठाकुरदत्त इ प्रे ०.५०
- की निरकुशता द्विवेदी, महावीरप्रसाद इ प्रे ०.५०
- के ग्रंथों पर आधारित तत्कालीन सस्कृति वर्मा, गायत्री.  
हिं प्रचा पु १०००
- के नाटक दीक्षित, जगदीश 'आनन्द' राजपाल १ २५
- के सुभाषित उपाध्याय, भगवतशरण भा ज्ञानपीठ ५.००
- ग्रथावली चतुर्वेदी, सीताराम, सपा स. ३ अ भा विक्रम  
२०००, — — भा प्र मंदिर.
- रघुवशम् पाडे, एस सी गयाप्रसाद
- शाकुतलम् उषा गयाप्रसाद.
- काली आकृति. राजकुमार हिं प्रचा पु १५०
- घटा आदिल रशोद हिं प्रचा पु. ४.५०
- घटा गोविंदसिंह चौधरी. २५०
- लडकी पनिकर, रजनी आत्माराम ३००
- कालु-कौमुदी चौथमन, मुनिश्री आदर्श सा सयुवत ४५०,  
पूर्वाद्ध २००, उत्तराद्ध २५०
- कालू पहलवान चौधरी, ०८०
- काले कारनामे. त्रिपाठी, सूर्यकांत 'निराला' प्रचा. पा. १.००
- कोस बलवत्सिंह सरस्व प्रे ८००
- कौवे : गोरे हस रस्तोगी, विनोद ओरिएटल. २.००
- कालेज की कहानिया चतुर्वेदी 'अज्ञान' रीगल २.५०
- निबंध सिंहल, रोशनलाल स २. हिं भवन ५.००
- काले नगर मे शुक्ल, कमल ओरिएटल. २५०
- नाग सफेद कंचुल शुक्ल, कमल प्रभात प्र. ३.००
- पख सोहल, ज्योति कन्हैयालाल. ३००
- फूल का पौदा लक्ष्मीनारायणलाल भा भ ३००
- मेघा पानी दे सिरोठिया, शकुतला न्यू लिट १००
- साये जमनादास 'अस्तर' अशोक पा. १.००
- साहब्र उपेन्द्रनाथ 'अस्क' नीलाभ ३५०
- स्मालर सस्कृत ग्रामर काले रा वेनीप्रसाद ३५०
- हायर सस्कृत ग्रामर काले रा वेनीप्रसाद. ६००
- कावेरी उपाध्याय, शचींद्र अर्चना प्र (पा) १००
- कावेरी विश्वभर 'मानव' कि महल ४.००
- कावेरी सोमसुंदरम्, पूर्ण सस्ता ०४०
- के कमल मिश्र, लक्ष्मीनारायण. हिं प्रचा पु. २.००
- के किनारे उमाशकर सहगल ४७५
- काव्य और कला शर्मा, हरद्वारीलाल भा प्र. मंदिर ४००
- और कला तथा अन्य निबंध प्रसाद, जयशकर. भा. भ.  
२००
- और सगीत का पारस्परिक संबंध. मिश्र, उमा दि पु. स  
१२.००
- कलना. पाडेय, गंगाप्रसाद. रा. वेनीमाधव. १.००

- काव्य कलश मिश्र. भोपाल भां. १ २५०, भा. २. ३.५०
- कलश. रागेय राघव. कल्याणमल. २००
- कलश शर्मा, जगन्नाथ... रा. वेनीप्रसाद. १००
- कला खन्ना, गोपाललाल इ प्रे २००
- कला रागेय राघव, रूपा. दि. विश्व. २.५०
- कलाधर. रायकृष्णदास गयाप्रसाद १७५
- कलाधर दीपिका—रामकृष्णदास. त्यागी, भारतभूषण  
लायल ३००
- कला-निधि वगीय १.७५
- कलानिधि अर्थात् हिंदी नैषध-चरित वर्मा, सत्यजीवन,  
सपा. हिं सा सम्मे ३५०
- कलाप खन्ना, गोपाललाल इ प्रे १००
- कलाप. मिश्र, बलदेवप्रसाद रा वेनीमाधव १.५०
- कलिका रामचंद्र हिं सा स २.५०
- कल्पतरु सत्याचरण, सपा. मिश्र-बधु. २००
- कल्लोलिनि निरजनलाल, सपा यग मैन १.८७
- कादवरी दीपिका कुमुद विद्यालंकार रीगल ४५०
- का देवता निराला. विश्वभर 'मानव' लोकभारती ४५०
- किरणावलि. सत्यव्रतसिंह. गयाप्रसाद १.५०
- की भूमिका रामधारी सिंह 'दिनकर' उदयाचल ४००
- कुज अग्रवाल, नरोत्तमदास, सपा रा वेनीप्रसाद ०८७
- कुज की कोकिलाए गुप्त, बलभद्रप्रसाद 'रसिक' नद. व.  
एव नद. स २.००
- कुसुमाजलि महेन्द्रकुमार एस चाद २५०
- कुसुमाकर अग्रवाल, महावीरप्रसाद, सपा रा. वेनीप्रसाद  
२.००
- कुसुमावली टडन, तेजनारायण, टीका हि. सा भ १५०
- कुसुमावली टडन, प्रेमनारायण, सपा हिं सा. भ.  
२००
- के रूप गुलाबराय. आत्माराम. ५००
- के रूप प्रश्नोत्तर मायारानी हिं सा भ २००
- के बाद अशोककुमार सिंह ओरिएटल २००
- कौमुदी टडन, प्रेमनारायण, सपा हिं सा भ २.५०
- कौमुदी श्रीधरानंद मुशीराम ३५०
- चंद्रिका. जगदीश शास्त्री एस चाद ३७५
- चर्चा सुकुल, ललिताप्रसाद वगीय २५०
- चिंता तिवारी, रमाशकर चौखवा ७००
- जिज्ञासा शुक्ल, रामकृष्ण 'शिलीमुख'. श्री भा. भारती.  
२.००
- तत्त्व समीक्षा चौधरी, एन. एन मोतीलाल. २०००
- तरगिनी. वगीय २१२
- दर्पण पाडेय, शभूनाथ रामप्रसाद १००
- दर्पण. मिश्र, रामदहिन ग्रथमाला १०००
- दीपिका (अष्टम शिखा) रामकृष्ण आचार्य. सगो. स. २.  
विनोद. ०७५
- दीपिका अष्टम शिखा पाडेय, चंद्रशेखर सा नि, का.  
०.८०
- धारा. चौहान, शिवदानसिंह... आत्माराम. ६.००

- काव्य धारा तिवारी, गोपीनाथ . विश्वविद्यालय ३००  
 —धारा मदान, इन्द्रनाथ, सपा आत्माराम ४५०  
 —नाट्यामृतम नोरोत्तमदास स्वामी, सपा. श्रीराम मेहरा.  
 १२५  
 —निकप द्विवेदी, लोकनाथ, 'सिलाकारी' साथी १००  
 —निर्भरिणी सव्यरवाल, कचननता, सपा सरस्व प्रे २००  
 —निर्णय (भिखारीदास) चतुर्वेदी, जवाहरलाल, सपा  
 कल्याणदाम १५००  
 —परिचय चंद्रशेखर शास्त्री रा वेनीप्रसाद १००  
 —परिचय मिश्र, बालगोविंद सा नि, का १२५  
 —प्रकाश मम्मट सशो स २. ज्ञानमंडल १६००  
 —प्रकाश (दशम उल्लास) —मम्मट कृत. भा, तारिणीश  
 रा वेनीमाधव, २००  
 —प्रदीप गीतम, जयनारायण रीगल १८७  
 —प्रदीप शुक्ल, रामबहोरी स १२ हि भवत ३७५  
 —प्रबोध मिश्र, बालगोविंद सा नि, का १००  
 —प्रवेश अग्रवाल, नरोत्तमदास, सपा रा वेनीप्रसाद १२५  
 —प्रवेश शर्मा, रासविहारी राय ज्ञानपीठ १५०  
 —भारती चंद्रकाता प्रभाकर एस चाद २२५  
 —भारती शुक्ल, गिरिजादत्त 'गिरीश', सपा रा वेनीप्रसाद  
 १२५  
 —मजरी खरे, नर्मदाप्रसाद रा वेनीमाधव १७५  
 —मजूपा चंद्रकाता प्रभाकर एस चाद २००  
 —मदाकिनी लहू, आर डी गयाप्रसाद २००  
 —मकरद मिश्र, भगीरथ हि प्रचा पु ३५०  
 —माधुरी शर्मा, गोविंदराम राजकमल २५०  
 —मीमामा राजशेखर वि राष्ट्र ६५०  
 —मीमासा मुरेददेव शास्त्री विनोद ०७५  
 —मे अग्रस्तुत योजना मिश्र, रामदहिन ग्रथमाला ५००  
 —मे अभिव्यजनावाद लक्ष्मीनारायण मुधाशु ज्ञानपीठ ५००  
 —मे उदात्त तत्त्व नगेद्र राजपाल ३५०  
 —, यथार्थ और प्रगति रागेय राधव विनोद ३००  
 —रत्नाकर अग्रवाल, जनार्दनस्वल्प रा वेनीमाधव २००  
 —रश्मि चौधरी, सत्यदेव एस चाद २.५०  
 —रसायन लक्ष्मीधर शास्त्री एस चाद. १५०  
 —रसायन. शर्मा, ओमप्रकाश ओरिएटल ३००  
 —रूपो का मूल स्रोत और उनका विकास दुवे, शकुतला  
 हि प्रचा पु १०००  
 —रक्षण अग्रवाल, रघुवीरशरण मशो स २ आगरा बुक  
 लतिका जैन, गुलजारीलाल एस चाद २०० [१७५  
 —रहरी रामस्वरूप एम चाद २००  
 —रत्नगी उपाध्याय, चित्तामणि मानकचद २००  
 —रत्नरी टेकचद शास्त्री एस चाद १.५०  
 —रत्नरी व्यथितहृदय चौखवा ४००  
 —विमर्श मिश्र, रामदहिन ग्रथमाला ७००  
 —विवेचन. भाटी, देशराजसिंह हि सा स. १.५०  
 —शास्त्र अरन्तू सा सेवक १००  
 —शास्त्र पाडेय, शभुनाथ. विनोद ३००

- काव्य शास्त्र भारतभूषण 'सरोज' हि सा. केद्र. ५००  
 —शास्त्र मिश्र, भगीरथ परि स २ विश्वविद्यालय ८००  
 —शास्त्र का आलोचनात्मक अध्ययन पाडेय, शभुनाथ, सपा.  
 सरस्व पु स ५००  
 —शास्त्र की रूपरेखा टडन, मायारानी हि सा भ १५०  
 —शास्त्र की रूपरेखा भारद्वाज, रामदत्त सूर्य प्र. ७००  
 —शास्त्रीय निबध चौधरी, सत्यदेव वासुदेव परपरा तथा  
 सिद्धांत पक्ष ७००, सिद्धांत पक्ष ५००  
 —श्री (रम-अलकार) सुधींद्र सरस्व पु स ३००,  
 —सग्रह अली आदिलशाह क मु हि ४५०  
 —सग्रह ओभा, दशरथ आत्माराम २००  
 —सग्रह त्रिपाठी, करुणापति, सपा भा १ हि सा. सम्मे  
 १७५  
 —सग्रह शुक्ल, रामेश्वर 'अचल', सपा भा २ हि सा  
 सम्मे २५०  
 —सग्रह द्वितीय भाग की टीका शिवप्रसाद शास्त्री रीगल.  
 ४००  
 —सग्रह प्रथम भाग की टीका. सत्यपाल 'निराश'. रीगल  
 ३००  
 —सग्रह भाग १ की टीका द्वारिकेश विनोद ४००  
 —सग्रह भाग, २ की टीका जैन, फूलचंद्र 'सारंग' विनोद.  
 ४००  
 —सप्रदाय अशोककुमार सिंह ओरिएटल ३००  
 —सप्रदाय और वाद अशोककुमार सिंह ओरिएटल. ४.५०  
 —समीक्षा त्रिपाठी, गिरिजादत्त पु भ ७५०  
 —सरिता गुप्त, सोमनाथ. एस चाद १५०  
 सरिता की कुजी शुक्ल, रामेश्वर रीगल ५५०  
 —सुधा वरशी, पदुमलाल पुन्नालाल रा वेनीप्रसाद १२५  
 —सुधा कैलाशसिंह रा वेनीमाधव १२५  
 —सुधा भोसले, बालकृष्ण ववई हि ३००  
 —सुषमा सेठ, विमला, सपा एस चाद १००  
 काव्याग कल्पद्रुम प्रभात शास्त्री हि सा सम्मे ०७५  
 —कौमुदी मिश्र, विश्वनाथप्रसाद नद ब्र एव नद स कला.  
 १ १२५, कला २ १७५, कला ३ ३२५  
 —निरूपण राकेश कि घर, ग्वा १२५  
 —निरूपण शर्मा, पी डी तुलसी ०५०  
 —निरूपण श्रीलाल 'भानु' शारदा प्र (पा) १००  
 —निर्णय मिश्र, जगवहादुर चौखवा १००  
 —परिचय टडन, प्रेमनारायण, सपा हि सा भ १५०  
 —परिचय पचोली, बंदीप्रसाद एस चाद १६२  
 —परिचय राय, मिहासन 'सिद्धेश' आदर्श पु भ १.००  
 —प्रकाश दुवे, शुकदेव ग्रथमाला १२५  
 —प्रकाश भार्गव, दादूलाल लोक चेतना ०.७५  
 काव्याजलि त्रिपाठी, विश्वनाथ 'कवि' हि पु ए १००  
 काव्याजली वर्मा रामकुमार राज किशोर. १५०  
 काव्याजली. विमला एस चाद २५०  
 काव्यात्ममीमामा मिश्र, जयमत चौखवा  
 काव्याधार मिश्रा, राजनारायण, सरस्व प्र. म ५००

काव्यानुशीलन चतुर्वेदी, राजेश्वरप्रसाद रतन २.७५  
 काव्यानुशीलन रत्नकांत आनंद पु, को २००  
 काव्यालकार. भामह, आचार्य बि राष्ट्र ५.००  
 काव्यालोक मिश्र, रामदहिन ग्रथमाला ७००  
 काव्यालोचन शर्मा, रामगोपाल 'दिनेश'. रतन. १.००  
 काव्यालोचन सकसेना, शभूदयाल नवयुग ग्र कु १५०  
 —के सिद्धांत. शिवनदन प्रसाद ग्रथमाला २५०  
 काव्योन्मेष लद्दू, आर डी गयाप्रसाद. २००  
 काश अस्थी, मणिलाल 'रसिक' आदर्श पु. म १००  
 काशी अतीत और वर्तमान. मुखर्जी, विश्वनाथ. चिनगारी  
 २.५०  
 —का इतिहास मोतीचंद्र हि ग्र र २२००  
 —का मान मंदिर. चंडीप्रसाद. ना प्र सभा ०५०  
 काशीनाथ चट्टोपाध्याय, शरत्चंद्र प्रचा पा १.००, — —  
 वोरा ०७५, — —श्यामलाल २५०  
 काशी प्रदर्शन परमात्माशरण ना प्र सभा ०१२  
 —हिंदू विश्वविद्यालय की इंटरमीडिएट परीक्षा के बीजगणित  
 के प्रश्नोत्तर ब्रजमोहन काशी हिंदू ०७५  
 काश्मीर न्यादरसिंह 'वेचैन' देहाती ०७५  
 काश्मीर शर्मा, विश्वमित्र राजहस १७५  
 —का काटा. वर्मा, वृंदावनलाल मयूर. १००  
 —का लोक-साहित्य दर, मोहनकृष्ण आत्माराम  
 १०००  
 —की लोक-कथाए चत्ता, नदलाल आत्माराम भा. १.  
 १.२५, भा. २. १.५०  
 —के बारे में. भावे, विनोबा अ भा सर्व ०.५०  
 —दर्शन वर्मा, रामचंद्र नद स ०७५  
 —पर हमला मेहता, कृष्णा. सस्ता २००  
 —प्रिसेस कार्णिक, अनंत श्रीधर रामप्रसाद ६२५  
 काश्मीरी कढाई कला चद्रा देहाती १२५  
 काष्ठ कला परिचय. रब, एम के. कि महल. २५०  
 —कला विज्ञान कथूरिया, जी. एल गृरदास २५०  
 —परिरक्षण पाडे, जगन्नाथ हि समि १०००  
 —शिल्प. रब, एम के कि महल. भा. १-२. ०.६२ (प्र.),  
 भा. ३. ०७५  
 का सो कहू विपतिया श्यामबिहारी 'विरागी'. राष्ट्र प्र. म  
 १७५  
 कास्मेटिक्स इंडस्ट्री कालीचरण देहाती ६००  
 काहिल बदर शर्मा, गयाप्रसाद ज्ञानपीठ ०७५  
 काहे जिया डोले गोविंदसिंह आदर्श पु म २५०  
 —नैना लडाये सोमनाथ 'अकेला' कन्हैयालाल २२५  
 किंजल्क शुक्ल, केसरीनारायण नद ब्र ४००  
 किंजल्क शुक्ल, केसरीनारायण, सपा विद्या म, वा, ४००  
 कि तत्त्वम् तुलसी, आचार्यश्री जैन श्वेतावर ०१२  
 किचन गार्डन कातऋषि. देहाती. १७५  
 किट कार्सन और जगली सीमात मूडी, राल्फ ड प्रे २७५  
 कितना ऊचा कितना नीचा सगर, सत्यप्रकाश राजकमल.  
 २.२५

कितना सुदर देश हमारा. उपाध्याय, भगवतशरण राजपाल  
 १२५  
 कितनी जमीन ? टाल्स्टाय सर्वोदय ०६५, — —सस्ता.  
 ०.४०  
 कितने बजे. वत्स्य, सतराम नेशनल १२५  
 कित्तर की रानी कृष्णाराव, अ न सस्ता २.००  
 किनारे के पेड मुकुटबिहारी 'सरोज' आत्माराम २५०  
 —से किनारे तक यादव, राजेद्र राजपाल ३२५  
 —से धार तक जयकुमार 'जलज' त्रिवेणी ४५०  
 किन्नर देश राहुल सास्कृत्यायन कि महल ५.७५  
 किरण सारस्वत, उमादत्त. हि प्रचा म ०७५  
 —गाधारी. उपाध्याय, चद्रमौली आशा पब्लि एव जुही-कुज.  
 ३००  
 —जादू के देश में देवराज 'दिनेश' नेशनल. १२५  
 —प्रभा चतुर्वेदी, सत्यदेव हि सा सृजन ४००  
 —माला जयप्रकाश 'भारती', सपा आत्माराम. भा ३.  
 २००, भा ४ २५०, भा ५ २५०  
 —माला सतोष आत्माराम भा. १ १००; भा. २ १५०  
 —वधू नीरज प्रभात पब्लि. २००  
 किरणों की खोज में. वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद 'अज्ञेय'.  
 सरस्व. प्रे २००  
 किरात और अर्जुन मिश्र, ठाकुरदत्त. कि महल. ०.७५  
 किरातार्जुनीय इंद्र विद्यावाचस्पति राजपाल २.५०  
 किरातार्जुनीय. भारवि सस्ता ०४०  
 किरातार्जुनीय मल्लिनाथ टीका मोतीलाल २.००  
 —प्रथम सर्ग जगदीशलाल शास्त्री, टीका मोतीलाल १७५  
 —महाकाव्य रामप्रताप शास्त्री, अनु कि महल ६००  
 किरातार्जुनीयम् मालवीय, बंदीप्रसाद, सपा सर्ग १-२  
 रा वेनीमाधव. १२५ (प्र)  
 किशमिश चिकित्सा फील्ड, जोशिया ओल्ड छात्रहितकारी  
 ०.७५  
 किशोर अभिनय प्रशांत बाल सदन १५०  
 —जीवन की कहानिया कपूर, मस्तराम 'उर्मिल' ३ भा.  
 हि ग्र र १२५ (प्र)  
 —नाटकावली मिश्र, लक्ष्मीनारायण हि भवन.  
 —मनोविज्ञान की भूमिका चौबे, सरयूप्रसाद परि स २.  
 आगरा बुक ४.५०  
 —रूपक प्रशांत बाल सदन १५०  
 —लाल भाई की जीवन साधना परीख, नरहरिभाई. अ. भा  
 सर्व २००  
 —हिंदी व्याकरण त्रिपाठी, कालिकाप्रसाद श्री प्रभाकर  
 १००  
 किशोरावस्था सेन, गोपालनारायण गगा २.००  
 किशोरी पाराशर, चिरजीलाल दि पु. स. ६.००  
 किशोरो का मच प्रशांत बाल सदन १५०  
 किष्किधाकाड हि प्रचा पु १००  
 किस और जा रहै हो ? व्यास, कृष्णानंद 'वेआसा' वेआस.  
 २.००

- किस का अपराध ? मुन्नी, कन्हैयालाल मारिगलाल कि महल ३००  
 —का कौन शुभल, कमल कि महल २५०  
 —की चादर में दाग नहीं वाजपेयी, प्रेमचंद्र आदर्श पु म १५०  
 —के आचन में दाग नहीं ? शंकर सुल्तानपुरी. नवचेतना  
 —के लिए ? विद्यार्थी, रामप्रसाद 'रावी' विनोद १००  
 —ने क्या गीखे माथुर, कृष्णगोपाल गंगा ३००  
 किमान गुप्त, मैथिलीशरण ना सदन, चि ०५०  
 —कल्पवृक्ष आदर्श पु म १००  
 —का धन शर्मा, राजेंद्र राजकमल २५०  
 —की कहानी माचवे, प्रभाकर साहनी ०५०  
 —की डायरी सर्वोदय १५०  
 —चरखा अ भा सर्व १००  
 —सभा के नस्तरण सहजानंद, स्वामी न्यू लिट ३७५  
 किसानों की संपत्ति पशुधन सर्वोदय १५०  
 किसी से न कहना अवस्थी, मणिलाल 'रसिक' आदर्श पु म. १००  
 किस्सा चहार द्वेष मीर अम्मन मित्र ५००  
 —तोना मैना रंगीलाल श्यामलाल २००  
 —नर्मदावेन, गगुवाई मटियानी, शैलेश आत्माराम २५०  
 —शुकवहत्तरी श्यामलाल ०६२  
 —साडे तीन यार श्यामलाल २००  
 —सारगा सदावृक्ष श्यामलाल ०७५  
 —हातिमताई सक्मेना, मुनीश राजकमल (पा) १००  
 किस्से ऊपर किस्सा वक्षी, रमेश अपोतो ३५०  
 कीचड़ वध खाडिलकर मध्यप्रदेश शासन १४०  
 —वध पालीवाल, हरिदत्त 'निर्भय' शारदा साधना ५५०  
 कीचड़ का फूल डे, सतीश देहाती १.२५  
 कीट पतंग तरुणभाई सर्वोदय सा ३००  
 —पतंगों का नमार चतुर्वेदी जगपति कि महल ४००  
 कीटागुथों की कहानी चतुर्वेदी, जगपति कि महल २००  
 कीटागु और सामान्य रोग अग्रवाल, धीरेन्द्र आत्माराम २००  
 कीटों में नामाजिक जीवन रक्षपाल, आर आत्माराम ३.००  
 कीड़े-मकोड़े दीक्षित, भूपनारायण गंगा १००  
 —मकोड़े नुरेशसिंह, कुवर सस्ता २००  
 मकोड़ों की क्या दीक्षित, भूपनारायण ग्रथमाला १७५  
 ओ की विचित्र दुनिया रमेश प्रभाकर, कुमारी शकुन १.७५  
 ओ भजन मगह देहाती ३००  
 ओ के फूल तैगग, शिवरत्न तुलनी १२५  
 मंदिर काकोडकर, चंद्रकांत आनंद पु, वा ३२५  
 राजा कौमल्या शर्मा, रामानंद कन्याकुमारी १००  
 राजा टाकुर, विद्यापति ना प्र सभा २००  
 और अवहट्ट भापा शिवप्रसाद सिंह सा भवन, इ. ६००  
 राजा स्तभ त्रिपाठी, राधेश्याम वृष्णा अ ४५०  
 —स्तभ. हरिकृष्ण 'प्रेमी'. राजपाल ३.००

- कील-काटे सुरेश पुष्पी ०६०;——सुरेंद्र २.५०  
 कीलर इदिरा, रूपा पुष्पी १००  
 कुअर निहाल दे चंद्रशेखर शास्त्री कि महल ०७५  
 कुआरी चगताई, इस्मत नीलाभ ३५०  
 —धरनी तुर्गनेव रणजीत ६५०  
 कुआरे का घर ताहिर, एस ए राजकमल १५०  
 —सपने शर्मा, जयप्रकाश मनोरमा २५०  
 कुकुम. कुशवाहा 'कात' चौधरी ३२५  
 कुडलिया रामायण पाडेय, सत्यनारायण इ प्रे ४००  
 कुडली चक्र वर्मा वृदावनलाल गंगा ४००, ——मयूर २२५  
 कुती के बेटे विष्णु प्रभाकर सस्ता १००  
 — गाधारी भट्ट, नानाभाई हि प्र म ०७५  
 —, गाधारी, पाचाली कि महल १५०  
 कुदकुदाचार्य के तीन रत्न पटेल, गोपालदास जीवाभाई भा ज्ञानपीठ २००  
 कुदमाना दिङ्नाग सस्ता ०४०  
 कुदमाला सत्येंद्र शरत् नीलाभ १२५  
 कुवरसिंह चतुर्भुज दि पु स १२५  
 कुवरसिंह भा, रमेशचंद्र सुभाष १७५  
 —अमरसिंह दत्त, कालीकिंकर वि राष्ट्र ५००  
 —नाटक कात आदर्श पु भ २५०  
 कुवारे सपने गोविंदसिंह कन्हैयालाल ३५०  
 कुकरी बुक (अग्नेजी खाने) कालीचरण देहाती ४००  
 कुकुरमुत्ता त्रिपाठी, सूर्यकांत 'निराला' कि महल ०६२,  
 ——राष्ट्र प्र म १२५  
 कुछ बस्ती, पदुमलाल पुन्नलाल इ प्रे १५०  
 —आत्मकथाए अग्रवाल, महावीरप्रसाद रा. वेनीमाधव १२५  
 —आधुनिक आविष्कार सत्यप्रकाश हिंदु एकेडेमी ५००  
 —उथले कुछ गहरे गुलाबराय शिवलाल ५००  
 —और कविताए शमशेरवहादुर सिंह राजकमल ४००  
 —करने योग्य बातें गुप्ता, वैजनाथ दास ०५६  
 —करो कुछ बनो विद्यार्थी, जगदीश गोविंदराम १२५  
 —कलिया कुछ फूल सागरमल श्रमण, मुनिश्री आत्माराम २५०  
 —कविताए शमशेरवहादुर सिंह सा केन्द्र २५०  
 —देखा, कुछ सुना टडन, पुरुषोत्तमदास इ प्रे १५०  
 —देखा, कुछ सुना, कुछ समझा नयमल, मुनिश्री आदर्श सा २००  
 —पुरानी चिट्ठिया नेहरू, जवाहरलाल सस्ता १०.००  
 —पैसे शर्मा, रामसरन राजहंस १२५  
 —फीचर कुछ एकाकी उपाध्याय, भगवतशरण भा ज्ञानपीठ ३५०  
 —मोती कुछ सीप गोयलीय, अयोध्याप्रसाद भा. ज्ञानपीठ २५०  
 —राग कुछ रग भास्कर, दुर्गादास. वीरा १७५  
 —रूपक कुछ एकाकी बटुक सा सगम, लु ५००

- कुछ विचार प्रेमचंद. सरस्व प्रे ४००  
 —सच कुछ भूठ व्यास, गोपालदास. आत्माराम ४००  
 —साधारण रोग और उनका इलाज वैश्य, जे डी ज्ञान भारती २५०  
 —स्मरणीय मुकदने. कटाजू, कैलाशनाथ ज्ञानमडल ८००  
 —हारे, कुछ जीते प्यारेलाल 'आवारा' रूपसी ३००  
 कुट्टनीमत काव्यम् गुप्त, दामोदर मित्र ७५०  
 कुणाल द्विवेदी, सोहनलाल इ प्रे. ३००  
 कुणाल. श्यामसुंदर 'सुमन' भाग्योदय २००  
 कुणाल. सत्येन्द्र रामप्रसाद. ० ७५  
 कुणाल सिन्हा, प्रभा शिवलाल १२५  
 —गीत गुप्त, मैथिलीशरण सा. सदन, वि १.५०  
 —गीत-आलोक मल्लिनाथ नाँवली. १ ७५  
 —गीत टीका टडन, लक्ष्मीनारायण हिं सा भ २.५०  
 कुणाल रत्नशंकर प्रसाद भा. भ १५०  
 कुतिया शैकत थानवी सहगल ४२५  
 कुत्ते की कहानी प्रेमचंद सरस्व प्रे. १२५  
 —की दुम वर्मा, सिद्धिनाथ कला-नि १७५  
 —वाली महिला चेखव, अ. प पीपुल्स ०५६  
 कुदरत की मिठाइया भगवानदीन, महात्मा सस्ता ०.४०  
 कुदरती उपचार गाधी, मोहनदास करमचंद नवजीवन ०.८०  
 कुदसिया कशीदाकारी शमा १००  
 कुप्रिन की कहानिया कुप्रिन पीपुल्स. ६५०  
 कुबडा धोबी रमेश चौधरी, ए 'आरिगपूडि' बबई प्र. १२५  
 कुवेर धवन, देवीप्रसाद 'विकल' गगा ३५०  
 कुब्ज-सुदरी. राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती सस्ता २२५  
 कुब्जा सुदरी ठाकुरप्रसाद सिंह प्रचा पा. १००, —  
 हि प्रचा पु ३.००  
 कुमाऊ राहुल साकृत्यायन ज्ञानमडल १५.००  
 —की लोक कथाए मटियानी, शैलेश आत्माराम १५०  
 —की लोक कथाए व्यास, श्रीकांत कि. महल १५०  
 कुमार देवी मुशी, लीलावती कि महल २५०  
 कुमारसभव कालिदास सस्ता ० ४०, — —सहगल १२५  
 कुमारसभव द्विवेदी, महमवीरप्रसाद इ प्रे. १.२५  
 कुमारसभव विराज राजपाल ३००  
 कुमारसभवम् कालिदास रा वेनीप्रसाद सर्ग १ १००,  
 सर्ग ५ १७५  
 कुमारसभवम् महेन्द्रप्रताप शास्त्री सर्ग १ रा वेनीमाधव  
 १००  
 कुमारसभवम् महेन्द्रप्रताप शास्त्री सर्ग ५ रा वेनीमाधव  
 २००  
 कुमारिका गीत मिश्र, गगाधर राष्ट्र प्र म १२५  
 कुमारिल गोविर्दमिह गुत्लूप्रसाद ३५०  
 कुमुदिनी ठाकुर, रवीन्द्रनाथ प्रभात प्र ४००, —  
 श्यामलाल ४००, — —सन्मार्ग ४००, — —सा  
 सेवक ४००, — —हि प्रचा म ३००, — —हिद  
 पा १००  
 कुम्हार की वेटी, विष्णु प्रभाकर. सस्ता ० ४०

- कुरान और धार्मिक मतभेद अबुल कलाम आजाद, मौलाना  
 आत्माराम २००  
 —का पारा अम्म हिंदी लिपि मे श्री प्रभाकर ० ३७  
 —की लोक-कथाए त्यागी, भीमसेन. आत्माराम. १२५  
 —पर एक दृष्टि अवस्थी, नदकुमार. श्री प्रभाकर ० ३१  
 कुरुक्षेत्र त्रिपाठी, वाबूराम रतन २५०  
 कुरुक्षेत्र मिश्र, अवधभूषण स २ जवाहर १२५  
 कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह 'दिनकर' उदयाचल ३५०  
 — एक अध्ययन त्रिपाठी, लालधर 'प्रवासी' आनंद पु., वा  
 ०.७५  
 —दिनकर, नोट मोतीलाल ३००  
 —समीक्षा गौतम, लक्ष्मणदत्त हि सा स १५०  
 —सरल अध्ययन त्रिपाठी, गगाचरन रस्तोगी ४००  
 —हिमालय आनंद वसल २५०  
 कुरु-प्रदेश की लोक-कथाए भटनागर, सुरेश आत्माराम.  
 १२५  
 कुअन मे हिंदी. पाडे, चंद्रबली नद ब्र एव नद स ० ६२  
 कुलटा. यादव, राजेन्द्र राजकमल. २५०, — —हिंद पा.  
 १००  
 कुलदीप दीक्षित, रा अ भा. सर्व. ० २५  
 कुलदीप श्यामनारायण प्रसाद नारायण प्र ३.००  
 कुलवीरन. वैश्य, चंद्रभूषण. इ प्रे २५०  
 कुल-ललना वर्मा, रामकुमार गगा. ३००  
 कुलवधू शुक्ल, अमरनाथ विद्या प्र म ३५०  
 कुलवधू शुक्ल, कमल अजता एव अनुपम. ४५०  
 कुली आनंद, मुल्कराज भा भ ६००  
 कुलीन घराना तुर्गनेव. आत्माराम ३००  
 नवयुग प्र. ४.००, — —पीपुल्स १.१६  
 कुलीनता गोविंददास, सेठ हिं ग्र र १.७५  
 कुल्ली भाट त्रिपाठी, सूर्यकांत 'निराला' गगा. २५०  
 कुश और कन्या शुक्ल, कमल हिंदिया ३००  
 कुशवाहा कात केशर सुभाप. ६००  
 —क्षत्रिय परिचय चौधरी, जे पी चौधरी. १२५  
 कुष्ठ-सेवा रविशंकर. अ. भा सर्व १२५  
 कुसुम चट्टोपाध्याय, शरतचंद्र आदर्श पु म २५०, —  
 कन्हैयालाल २००, — —श्यामलाल २००, —  
 सुरेन्द्र २२५  
 —कढाई कला कुसुमदेवी देहाती. १२५  
 —कुज गुरुभक्त सिंह 'भक्त' सा साधना १००  
 कुसुमाजलि राधिकारमणप्रसाद मिह, राजा अशोक प्रे २००  
 कुसुमाजलि हरिश्चकर, सपा बबई हिं १२५  
 कुसुमावली पारसनाथ सिंह २ भा भा भ ३७५  
 कुहासा प्यारेलाल 'आवारा' रूपसी ३००  
 कुहासा मित्र, प्रेमेश राजपाल २५०, (पा) १००  
 —और चादनी राजेन्द्रकुमार सा प्र ३००  
 कुहासे का गाव व्यामविहारी 'विरागी' राष्ट्र प्र म २७५  
 कूटकाव्य एक अध्ययन शर्मा, रामधन नेशनल १२५०  
 कूड़े करकद की खाद गुप्त, मन्मथनाथ साहनी ०.५०

- कूर्माचल की लोक-कथाए पत, जीवनचंद्र. आत्माराम १५०  
 कूल और कगार शुक्ल, कमल नवयुग प्र ३००  
 कूलकिनाग शर्मा, शिवचंद्र कि महल ०७५  
 कृतवासी बगला रामायण और रामचरितमानस का तुलनात्मक  
 अध्ययन त्रिपाठी, रमानाथ भा प्र मदिर १५००  
 कृति और कृतिकार पाडेय, सुधाकर कल्याणदास ४५०  
 कृत्तियाम रामायण अवस्थी, नदजुमार, अनु श्री प्रभाकर  
 ६००  
 कृत्रिम उपग्रह और अंतरिक्ष राकेट वर्मा, रमेश आत्माराम  
 ३००  
 —उपग्रह और ग्रह हि प्रचा पु १५०  
 —गर्भावान और उससे लाभ सर्वोदय १५०  
 कृपा किरण तैयवजी, रैहाना बोगा १५०  
 कृश्नचंदर की श्रेष्ठ कहानिया कृश्नचंदर राजकमल (पा)  
 १००  
 कृपक कथा कामताप्रसाह सिंह 'काम' पारिजात ०२५  
 —जीवन सवधी ब्रजभाषा शब्दावली अवाप्रसाद 'सुमन'  
 हिंदु एकेडेमी ख १ १२५०, ख २ २०००  
 कृपि अभियंत्रण चंद्रभान सिंह एशियन ३००  
 —अर्थशास्त्र के मूल आधार गौड, कृपाशंकर केदारनाथ  
 ८००  
 —इजीनियरिंग गर्ग, जे एस भा पब्लि १०००  
 —उद्योगो का विकास और पचायते उपाध्याय, रामनारायण  
 नेशनल १२५  
 —एव ग्राम्य अर्थशास्त्र वाहमा, ओमप्रकाश रामप्रसाद  
 ५००  
 —कर्म तिवारी, शीतलप्रसाद रा वेनीमाधव  
 —कल्प पाडेय, रामाचल रा वेनीप्रसाद १००  
 —कीट विज्ञान शर्मा, जे पी स २ एशियन १२५०  
 —के उन्नतिशील औजार २ भा सर्वोदय १५० (प्र)  
 —कोप ख २ वि राष्ट्र  
 —कोप (ख १ अ से घ तक) विश्वनाथप्रसाद वि राष्ट्र  
 ३००  
 —गरिष्ठ एव सारियकी सबलसिंह .. गयाप्रसाद ४५०  
 —जीव विज्ञान कोटपाल, आर एल भा भा प्र ४००  
 —तथा उद्यान विज्ञान शिक्षण खान, ए एच रा वेनी-  
 माधव १००  
 —र कहावते सर्वोदय १५०  
 वेनिका तिवारी, शीतलप्रसाद हि सा सम्मे १२५  
 न २ एव सामुदायिक विकास गर्ग, जे एस गयाप्रसाद  
 १०५०  
 नीति शर्मा, एस पी भा भा प्र ३००  
 न १ गयाप्रसाद गंगा १२५  
 न-शास्त्र गुप्त, ब्रह्मादेव आत्माराम ०००  
 न प्रभात शास्त्री, नपा कौजावी १०५  
 रसायन शर्मा, एम जी रतन ८००  
 रसायन शास्त्र रामकुमार भा भा प्र २५०  
 विज्ञान अतुलप्रसाद सिंह कलानि ३७५

- कृषि विज्ञान गुप्त, राय राजेश्वरदास राजकमल ७००  
 —विज्ञान जयराम सिंह कि महल.  
 —विज्ञान-कोश व्यास, नारायण दुलीचंद सस्ता ५००  
 —विनाशी कीट और उनका दमन शैलेन्द्रप्रसाद 'निर्मल' वि  
 राष्ट्र ५५०  
 —शिक्षण इद्रसेन सिंह नद ब्र एव नद स २२५  
 —साहित्य राय, रामपरीक्षण २ भा अशोक प्रे ०५०  
 (प्र)  
 कृषीय प्रयोगात्मक भौतिकी सिंह आर एन गयाप्रसाद  
 ३५०  
 कृष्ण लोहिया, राममनोहर नवहिंद ०२५  
 —अवतार न्यादरसिंह 'वेचैन' देहाती ०७५  
 —उपासना रामकृष्ण देहाती ४५०  
 —और गाधी की अहिंसा नारायण सिंह कि महल. २००  
 कृष्णकांत का बिल चट्टोपाध्याय, वकिमचंद्र इ प्रे १५०  
 —का वसीयतनामा चट्टोपाध्याय, वकिमचंद्र पुष्पी ०७५;  
 — —प्रचा पा १००, — —भाग्योदय (पा)  
 १००, — —श्यामलाल १००, — —श्री प्रभाकर  
 २००, — —हि पु ए १५०, — —हि. प्रचा पु  
 २५०, — —हि प्रचा पु १५०  
 कृष्ण काव्य की रूपरेखा वेदमित्र 'व्रति' ओरिएण्टल ३.५०  
 —काव्य मे भ्रमरगीत दीक्षित, श्यामसुंदरलाल विनोद.  
 १०००  
 —कुमारी चतुर्भुज साधना म १५०  
 —गीतावली नरोत्तमदास स्वामी गयाप्रसाद १७५  
 कृष्णचंद्र की सर्वश्रेष्ठ कहानिया उपेन्द्रनाथ 'अस्क', सपा  
 नीलाभ  
 कृष्ण जन्म टडन, प्रेमनारायण हि सा भ २५०  
 —जी की प्रेम लीलाए जगतनारायण नारायण प्र १२५  
 —द्वैपायन व्यास शर्मा, मुकुददेव नद ब्र एव नद स ०७५  
 —भक्ति मे सखी भाव गोस्वामी, शरणाबिहारी चौखवा  
 —रुक्मणी-री वेली (पृथ्वीराज राठौर) नरोत्तमदास स्वामी  
 श्रीराम मेहरा ५००  
 —सवधी लोक-कथाए भट्ट, हरिदत्त 'शैलेश' आत्माराम  
 १२५  
 —सुदामा न्यादरसिंह 'वेचैन' देहाती ०७५  
 कृष्णा और गोदावरी के इलाके मे लोहिया, राममनोहर  
 नवहिंद ०३०  
 —रुढाई कला कृष्णादेवी देहाती ३००  
 —जी नायक आचार्य, गुणवतराय बोगा ४००  
 कृष्णायन मिश्र, द्वारिकाप्रसाद एस चाद  
 केंद्रीय विज्ञान-कर अधिनियम अग्रवाल, एम एल सा भवन  
 आ ३००  
 केन गुप्त, कृष्णानंद गंगा २००  
 केनिलवर्य स्काट, वाल्टर सा प्र १५०  
 केनोपनिषद् गोस्वामी, वामुदेव गोस्वामी ०१२  
 केनोपनिषद् त्रिपाठी, यमुनाप्रसाद, सपा मोतीलाल ४००  
 केनोपनिषद्-दर्पण सत्यदेव विश्वेश्वरानंद ०.७५

केनोपनिषद्, शकरभाष्य सहित गीता. ० ५०  
 केरल माचवे, प्रभाकर राजहंस १.७५  
 केरल... लोहिया, राममनोहर नवहृद  
 —की लोक-कथाए भटनागर, ज्ञानेन्द्रकुमार आत्माराम  
 १ ५०  
 केरलसिंह परिणकर, के एम पूर्वोदय ३ ००  
 केला सर्वोदय १ ५०  
 केलावाडी वात्स्यायन, नित्यानन्द स २. हि भवन. १ २५  
 केवट वर्मा, वृ दावनलाल मयूर १ २५  
 केवलावयी प्रकरण गगेशोपाध्याय मोतीलाल ४ ००  
 केशव आचार्य मिश्र, विश्वनाथप्रसाद नन्द स ४ ००  
 —और उनका साहित्य विजयपाल सिंह राजपाल १२ ००  
 —और उनकी रामचंद्रिका भाटी, देशराजसिंह अशोक प्र  
 ७ ००  
 —का आलोचनात्मक अध्ययन सत्यव्रत आर्य मीतल २ ५०  
 —की काव्य-साधना शर्मा, ओम् प्रकाश हि सा न २ ५०  
 —कौमुदी (रामचंद्रिका) भगवानदीन 'दीन', लाला रा  
 वेनीमाधव पूर्वाह्न ३००, उत्तरार्द्ध २ ५०  
 —ग्रथावली मिश्र, विश्वनाथप्रसाद, मपा हिंदू एकेडेमी  
 ख. १ ५ ००, ख २ ५ ००, ख ३ ८ ००  
 केशवदास (प्रश्नोत्तर मे) जयनिगन प्रसाद विनोद २ ५०  
 केशवदास भटनागर, रामरतन कि महल २ ५०  
 — जीवनी कला और कृतित्व शर्मा, किरणचंद्र एस चाद  
 १ ५ ००  
 केजव पचरत्न—'केशवदास' भगवानदीन 'दीन', लाला. रा  
 वेनीमाधव  
 —पाठक की काव्य कृतिया पाठक केशवप्रसाद. लोक चेतना  
 ५ ००  
 केसर के फूल दर, मोहनकृष्ण आत्माराम. २ ००  
 —क्यारी चत्ता, नदलाल नेशनल ० ७५  
 केसीन व प्लास्टिक निर्माण कालीचरण देहाती ० ५०  
 केहि बिध मिलना होय ? त्रिवेदी, रश्मिकांत सांस्कृतिक  
 कैफ फायर सर्वोदय ० ५० [१० ००  
 —फायर जौहरी, राजकुमारी न्यू लिट २ ००  
 —फायर वर्मा, जानकीशरण, तरुण एव न्यू लिट १ ००  
 —फायर की नकलें २ भा शमा भा १ ० ८७, भा २  
 ० ७५  
 —फायर शिक्षक रतिभानु सिंह 'नाहर' छात्रहितकारी  
 १ २५  
 कैकेयी रत्नकांत आनंद पु, को ३ ००  
 कैकेयी शर्मा, शेषमणि मणिरायपुरी' रा वेनीमाधव १ ५०  
 — की कृतिरता शर्मा, रामानन्द कन्याकुमारी १ ००  
 कैद और उडान उपेन्द्रनाथ 'अशक' नीलाभ ३ ००  
 —और फासी राधेमोहन चेतन पुष्पी ० ७५  
 —की आजादी यानी अचर की दीवारे बालेलकर काका  
 हिंदू प्रचा सभा ० ८७  
 कैदियों के द्वीप मे ठाकुर, बलभद्र हि भवन  
 कैदी. गुप्त, कैलाशनाथ कन्हैयालाल २ ००

कैदी जैन, ऋषभचरण गगा ३ ००  
 कैदी. फाकनर, विलियम. पजाबी पु २.५०, — —स्टार.  
 (पा.) १ ००  
 —और जजीरे. वहोरे, रवीन्द्रनाथ 'अज्ञान'. मजु ३ ५०,  
 — —वीणा कमल. ३ ५०  
 —और बुलबुल घिल्डियाल, रमाप्रसाद 'पहाड़ी' प्रकाशगृह  
 ५.००  
 —की करामात. व्यास, श्रीकांत, अनु. राजपाल १.५०  
 कैमुर की घाटी श्यामविहारी 'विरागी' राष्ट्र. प्र म ४ ००  
 कैरमबोर्ड की परिया. मिश्र, शारदा हि प्रचा पु १ २५  
 कैरली केशवदेव, पी भा ३ अशोक प्र गृह  
 कैरली पिल्ला, करूर नीलकंठ भा २ अशोक प्र गृह  
 कैरली. पोटेक्काट्ट, एस के भा १ अशोक प्र. गृह. ३.००  
 कैरली वर्की, पोनकुन्नम भा ५ अशोक प्र गृह  
 कैरली. सुकुमारन, टाटापुरम भा ४ अशोक प्र गृह.  
 —साहित्य-दर्शन दीक्षित, रत्नमयीदेवी सस्ता ४ ००  
 कैलाश दर्शन सहाय, शिवनन्दन पु भ ३.००  
 —मानसरोवर. प्रणवानन्द, स्वामी हि सा सम्मे. १०.००  
 (अप्रा)  
 —मानसरोवर शांडिल्य, शिवनाथसिंह. सस्ता. ० ४०  
 कैमी रही कहानी कल्याणदास १ २५  
 कैसे कहू कुशवाहा 'कांत' गुल्लप्रसाद एव चिनगारी ० ७५  
 —पकाए क्या खाए ? वर्मा, सावित्रीदेवी अरुणोदय १ २५  
 —समझे, किसको समझे कुलश्रेष्ठ, कमल कृष्णा व ३ ००  
 कोई कुछ कह गया गुक्ल, कमल नेशनल २ ००  
 —न पराया रमेश चौधरी, ए 'आरिगपूडि' एस चाद.  
 २ ५०  
 —शिकायत नहीं. कृष्णा हठीसिंह. सस्ता १ ५०  
 कोवशास्त्र. मेहरा, राजनारायण स ८. रगभूमि. ५ ००  
 —८४ आसन सहित श्यामलाल. ०.५०  
 —बडा श्यामलाल २ ५०  
 कोकिला. देसाई, रमणलाल बसतलाल वीरा १ ७५  
 कोचवान यादव, वैजनाथ राष्ट्र प्र म  
 कोचिग बलास कचनकुमार कन्हैयालाल ० ५०  
 कोटा राज्य का इतिहास गहलोत, जगदीशसिंह. हि. सा. म,  
 जो ५ ००  
 कोठी की बात मिश्र, दयाशकर साहनी २ ५०  
 —के धान गर्ग, निर्मल अनुपम १ ००  
 कोडविल न्यादरसिंह 'वेचैन' देहाती ० ७५  
 कोणार्क दुवे, रामेश्वरदयाल राष्ट्र पु भ १ ५०  
 कोणार्क माथुर, जगदीशचंद्र भा भ ३ ५०, विद्यार्थी स  
 १ ५०  
 कोणार्क सव्यसाची सस्ता ० ४०  
 कोतवाल की करामात वर्मा, वृ दावनलाल. गगा. २ ७५  
 कोनटिकी परदेशी वीरा २ ००  
 कोनी कि महल २ ००  
 कोमलपद शिक्षण वाजपेयी, श्रीराम न्यू लिट. १ ००, १ ५०  
 कोयला. वर्मा, फूलदेवसहाय हि समि. ८ ००



कोयला और ववित्व रामधारी सिंह 'दिनकर' उदयाचल ३००  
 कोयले की कहानी चतुर्वेदी, जगपति कि महल २००  
 कोरापुट में ग्राम-विक्रम का एक प्रयोग सहस्रबुद्धे, अनंत  
 वामुदेव अ भा सर्व. २.००  
 कोरिया की लोक कथाएँ रमेशचंद्र 'प्रेम' कि महल. १५०  
 —की लोक कथाएँ वर्मा, सत्यभूषण बाल सदन  
 —की लोक कथाएँ शेखर, शिवशंकरलाल आत्माराम १५०  
 कोरी कर्मात्त वरेरकर, मामा आत्माराम २००  
 कोर्ट मार्शल जर्मा, ओंकारप्रसाद 'कृष्ण' पुष्पी ०.५, —  
 मुरेद्र २००  
 कोलवस अधिकारी, महावीर, अनु राजपाल २००  
 —की कहानी राजपाल २००  
 कोलतार चगताई, अजीममवेग छात्रहितकारी २५०, —  
 पुष्पी १२५, ——मुरेद्र ३००  
 कोविद-कीर्तन द्विवेदी, महावीरप्रसाद इ प्रे १२५  
 —गद्य चतुर्वेदी, श्रीनारायण रा वेनीमाधव २००  
 —गार्ड एम एल बुक ७५०  
 कोश-कला वर्मा, रामचंद्र सा रत्न-माला १५०  
 कोशी अधिकारी, महावीर हि अ र २५०  
 कोष्ठबद्धता अशोक वेदालकार गगा १२५  
 कोसी का घटवार जोशी, जेखर नया सा प्र ३००  
 कौतैय-कथा भट्ट, उदयशंकर आत्माराम १५०  
 कौआ काना कृष्णा देवी ज्ञानपीठ ०.७५  
 —चले हस की चाल मोल्येर कला-नि २५०  
 कौए शर्मा, राजेश नव सा प्र ५५०  
 कौटिलीय अर्थशास्त्र देवदत्त शास्त्री कि महल ७००  
 —अर्थशास्त्र बुद्धप्रकाश त्रिवेणी ६००  
 —अर्थशास्त्र की भूमिका देवदत्त शास्त्री कि महल २००  
 कौटिल्य अर्थशास्त्र चाणक्य देहाती. १०००  
 —का अर्थशास्त्र (भाषा) गैरोला, वाचस्पति चौखवा  
 १०००  
 —की शानन-पद्धति केला, भगवानदास हि सा सम्मे  
 २००  
 कौटिल्यीय अर्थशास्त्र का सर्वेक्षण कृष्णराव एम वी  
 रतन ७००  
 कौटियो का नाच वक्शी, स्वरूपकुमारी राष्ट्रीय प्र मंदिर.  
 २.००  
 कीडी के गुण तथा उपयोग दीक्षित, रामसनेही देहाती  
 ०.७५  
 कौतुकी जीव जंतु व्यथितहृदय विनोद ०.७५  
 कौतुहल भटार नतराम मिश्र वधु १००  
 कौतुकि कुमार भा त्रयमाला ३००  
 —किमी का ? ठाकुर, रवींद्रनाथ सहगल २२५, —  
 मुरेद्र २००, (पा) १००  
 —ज्ञानता का राजदहादुरमिह प्रचा पा १००  
 —ध्यान देना है आटे, एच एन ना अकादमी ७००,  
 ——एन चाद ७००  
 —विज्वान करेगा निगारामशरण पसाद कला-भा १५०

कौमार्य मृत्यु व बाल चिकित्सा वैद्य, किशोरीदास सा नि,  
 का १५०  
 कौमुदी-महोत्सव देवदत्त शास्त्री, अनु साहनी २२५  
 —महोत्सव वर्मा, रामकुमार सा भवन, इ १५०  
 —महोत्सव-आलोक मल्लिनाथ नावल्ती १७५  
 कौशाबी के अंत पुर का कला विलास देवदत्त शास्त्री कि  
 महल २५०  
 कौशिक का कोप मिश्र, ठाकुरदत्त कि महल १५०  
 —जी की इक्कीस कहानिया शर्मा, विश्वभरनाथ 'कौशिक'  
 नेशनल ५००  
 क्या आप जानते हैं ? व्यास, शातिकुमार नानूराम सस्ता  
 —करे ? लेनिन, ब्ला ई पीपुल्स २५० [१५०  
 —क्यों, कैसे आनंदकुमार हि प्र म ०.७५  
 —खाए. जसवंत सिंह स ३ नेचर ७५०  
 —तुम जानते हो ? ओमप्रकाश गगा ०.७५  
 —पाया साधना प्रतापी स्टार (पा) १००  
 —मुसीबत है मेहता, रमेश देहाती २.५०  
 —मैं अदर आ सकता हू ? विद्यार्थी, रामप्रसाद 'रावी' भा  
 ज्ञानपीठ २५०  
 —यही सभ्यता है ? दत्त, माइकेल मधुसूदन सा भवन, इ  
 १५०  
 —रूस समाजवादी देश है—एक वाद-विवाद विद्यार्थी ०.२५  
 —वह पागल था ? बाल्जाक राजपाल २५०  
 —वेद में इतिहास है ? शर्मा, जयदेव आर्य सा २५०  
 —हनुमान वदर थे ? चौधरी, जे पी चौधरी ०.३७  
 क्यों और कब तक बाजपेयी, प्रेमचंद्र आदर्श पु म १५०  
 —और कैसे ? अरोडा, नारायणप्रसाद गगा ०.७५  
 —और कैसे ? वर्मा, मनोहरलाल आत्माराम ४००  
 क्रमिक पुस्तक मालिका भातखडे, विष्णुनारायण  
 क्रात दर्शन भावे, विनोवा. अ भा सर्वे १२५  
 क्राति कृष्णानंदप्रसाद सिंह मगध १५०  
 क्राति मिश्र, बलदेवप्रसाद मिश्र-वधु १५०  
 क्राति यादव, रामप्रवेश आदर्श पु भ ३००  
 —का अगला कदम धर्माधिकारी, दादा अ भा सर्व ०.२५  
 —का दर्शन नासिर, प्रेसिडेंट हि प्रचा पु १५०  
 —का देवता चंद्रशेखर आजाद विष्णुदत्त कविरत्न प्रेम  
 प्र १५०  
 —का देवता शिवाजी विष्णुदत्त कविरत्न प्रेम प्र १५०  
 —का देवता स भगतसिंह विष्णुदत्त कविरत्न प्रेम प्र  
 १५०  
 —का मूल स्रोत बालक वजीधर . रा वेनीप्रसाद २५०  
 क्रातिकारी जयत वाचस्पति. हिंद पा १००  
 क्रातिकारी भट्ट, उदयशंकर आत्माराम २००  
 —कवि निराला वच्चनसिंह नद म ५००  
 —तुलसी नारायण सिंह हि सा सम्मे १०००  
 क्रातिकाल पिटके, व ह आनंद पु, वा ३५०  
 क्राति की ज्वाला ह्यूगो, विक्टर नवयुग पु भ १५०  
 —की भावना क्रोपाटकिन, प्रिस सस्ता २५०

क्रांति के बीज. ओभा, जगदीश 'सुंदर'. रामप्रसाद. १ २५  
 —के लिए सगठन लोहिया, राममनोहर नवहिंद भा १.  
 ५००; भा. २  
 —दूत रस्तोगी, फकीरचंद्र इ प्रे ० ७५  
 क्रांतिवाद राय, विश्वनाथ आत्माराम ५ ००  
 क्रांति वीरो की अमर कहानिया भा, कमलनारायण 'कमलेश'  
 ग्रथ भा १ ७५  
 क्रिकेट कि महल १ ००  
 क्रिकेट अग्रवाल, पी एन सहगल १ ७५  
 —कैमे खेले. इद्रसिंह 'भूकप' जिज्ञासा. २.००  
 —प्रदर्शिका भ्रमर. सा भवन, इ. १.२५  
 क्रियात्मक काष्ठ-कला रव, एम के. कि महल. २ ५०  
 —गृह-विज्ञान टडन, रानी रा वेनीप्रसाद १.५०  
 —रसायन टडन, सतप्रसाद... रा वेनीप्रसाद १ २५  
 —वस्त्र-प्रक्षालन शिक्षा वर्मा, गार्गी रा. वेनीप्रसाद ०.५०  
 क्रिस्टीन कीलर प्रदीप पजावी पु १ ००  
 क्रीडा और इन्द्रियानुभूति शिक्षा. दास, शिवप्रसाद. हिं. प्रचा.  
 पु १ ५०  
 कूड आयल डजन गाइड नरेन्द्रनाथ देहाती ४ ५०  
 क्रोमेटोग्राफी त्रिम्ले, आर सी. . हिं समि ५ ५०  
 क्रोशिया का काम रानी देहाती ०.७५  
 क्रीचवध खाडेकर, वि स देशमुख ६ ००  
 क्रीच वध माहेश्वरी, द्वारिकाप्रसाद रा वेनीमाधव १.००  
 क्लिनिकल मेडिसिन अत्रिदेव २ भा मोतीलाल २५ ००  
 क्लियोपेट्रा लुडविग, एमिल. प्रचा पा. १.००  
 कवासि शर्मा, बालकृष्ण 'नवीन' राजकमल ४ ००  
 कवेकरदल रूस मे लौसडेल, कॅथलिन पु भ ६ २५  
 क्षण के बीज गौरीशकर 'लहरी' इ प्रे २ ००  
 क्षणदा वर्मा, महादेवी भा भ ३ ००  
 क्षण बोले करण मुसकाये मिश्र, कन्हैयालाल 'प्रभाकर'. भा.  
 ज्ञानपीठ ३ ००  
 क्षत्रिय-वर्म राय, अनिलवरण श्रीअरविंद ०.३७  
 क्षमा कीजिए चतुर्वेदी, त्रिभुवन श्रीश २ ००  
 क्षय और प्राकृतिक चिकित्सा जसवतसिंह नेचर. २ ००  
 —रोग शकरलाल प्रभात पब्लि २० ००  
 —रोग : कारण और निवारण मित्तल, ओमप्रकाश प्रेमी प्र.  
 १ ७५  
 —रोग से बचाव सर्वोदय ० ३७  
 क्षितिज देसाई, रमणलाल वसनलाल वीरा ५.००  
 —के आगे देसाई, रमणलाल वसंतलाल वीरा. ५.००  
 —के उस पार शर्मा, सत्येन्द्र प्रेम प्र ५ ००  
 —के पार उपेन्द्रनाथ 'अश्क' नीलाभ ३ ५०  
 क्षीर-तरंगिणी युधिष्ठिर मीमांसक. भा प्राच्य १ २ ००  
 क्षुधित पापाण ठाकुर, रवीन्द्रनाथ प्रभात प्र. २ ००  
 क्षेममिनि भा, जगदीश पु भ ३ ००  
 क्षेमद्रुन रागायण मजरी सुंदर काड पाडेय, सत्यनारायण.  
 सा नि, का १ २५

## ख

खडहर प्यारेलाल 'आवारा' चौधरी ४.००  
 खडहरो का वैभव कातिसागर, मुनि स २. भा ज्ञानपीठ.  
 ६.००  
 खडित पूजा. विष्णु प्रभाकर. सस्ता. ३.००  
 —प्रतिमा गोविंदसिंह सुभाप.  
 —यात्राए मेहता, नरेश. हिं ग्र २ ५ ००  
 खगेन बाबू सेगर, मोहनसिंह भा पु म. २.५०  
 खग्रास. चतुरसेन, आचार्य प्रभात प्र ६ ५०  
 खजाने की खोज श्रीवास्तव, हिमाशु ज्ञानपीठ १ ५०  
 —की खोज मे व्यास, श्रीकांत अनु. राजपाल १ ५०  
 खटपटलाल सुदर्शन वीरा १ ५०  
 खट्टा-मीठा शर्मा, देवेन्द्रनाथ ग्रथमाला. १.२५  
 खट्टी मीठी लोरिया. गगाशरण 'प्रेम' स २. राष्ट्रीय. प्र.  
 मदिर. १ ००  
 खट्टे अनार . मीठे अनार कृष्णचंदर वीरा. ३ ००  
 —है अगूर पाडेय, विष्णुकांत सा. सगम, मो १.००  
 खडा चरखा अ भा सर्व ० ७५  
 खडी बोली का आदोलन मिश्र, शितिकठ ना प्र. सभा.  
 ७ ००  
 —बोली काव्य मे अभिव्यजना गुप्त, आशा नेशनल १६.००  
 —बोली के गौरव ग्रथ विश्वभर 'मानव'. कि. महल. ३ ००  
 —बोली हिंदी साहित्य का इतिहास बजरत्नदास. हिं सा.  
 कु. ३ ००  
 खत के आसू नीरज भा प्र मदिर.  
 खतरनाक आदमी शर्मा, विनोदशकर चिनगारी. १.५०  
 खनिज और चट्टान की कहानी अग्रवाल, हरीश आत्माराम  
 १ ५०  
 खमाज थाट अक गर्ग, लक्ष्मीनारायण, सपा सगीत २.५०  
 खम्मा अन्नदाता शर्मा, यादवेन्द्र 'चंद्र' नेशनल ४ ००  
 खरगोश का वेटा टुनटुन शारदा म. १ २५  
 —का सपना कृष्णचंदर ववई प्र १ ५०  
 —के सींग. माचवे, प्रभाकर नीलाभ. ३.७५  
 —गुसाई दर, वीणा नेशनल ३ ००  
 —पालन कालीचरण देहाती ०.५०  
 खरबूजे-तरबूज की खेती सान्याल, चारुचंद्र गगा. ० ३१  
 खराद आपरेटर गाइड भगवतराय. देहाती. ८ २५  
 —तथा वर्कशाप ज्ञान देहाती ६ ००  
 —शिक्षा (टर्नर गाइड) देहाती ३ ००  
 खरीफ की मुख्य फसले सर्वोदय ० ३७  
 खरे-खोटे. रमेश चौधरी, ए. 'आरिगपूडि' भा सा सदन ५ ००  
 खरोच. प्यारेलाल 'आवारा'. रूपसी ३ ००  
 खलगा खुकुरी और फिरगी क्षत्रिय, के वी सा. सदन, दे  
 ३ ५०  
 खलक खुदा का पाडे, गिरजाशकर चौधरी १.५०  
 खलिहान की रात. गोस्वामी, प्रभुदयाल. गोस्वामी. ०.३७

- खलिहान जगें शिवमूर्ति शिव अगोक पु म ४००  
 उवाम का व्याह चतुरमेन, आचार्य गंगा ३००  
 बाजहा पाडेय, रूपनारायण गंगा २५०  
 चाडे की धार वर्मा, मुधींद्र गंगा ३५०  
 वाली को फामी मटियानी, शैलेच आत्माराम २००  
 बाट पर हजामत नुरीरवाला, रोशनलाल हि सा स  
 ४३७  
 याद वकील, मुत्तारमिह हि पु ए १७५  
 याद हरिदास 'सहयोगी' नद ब्र एन नद म २००  
 —और उनका व्यवहार त्रिपाठी, गयादत्त रा वेनीप्रसाद  
 ०५०  
 —और उर्वरक वर्मा, फूलदेवमहाय हि समि १०००  
 —और उसका उपयोग जोगी, शंकरराव सस्ता ३००  
 —और उसकी उपयोगिता अनंत अ देहाती ५००  
 —और पेड पौधों का पोषण मयुरादास पुरुषोत्तम अ भा  
 सर्व १००  
 —का उपयोग जगदेवसिंह 'देव' स ५ राष्ट्रीय प्र मदिर  
 ०६२  
 —का उपयोग दुर्गाप्रसाद मिह जानमडल १५०  
 —क्यों ? पत, के सी हिंदु टाइम्स १००  
 —विज्ञान गुप्तनाथ सिंह ना प्र नभा १५०  
 रादी के फूल हरिवंशराय 'वचन' राजपाल ३००  
 —क्यों और कैसे ? गांधी, मोहनदास करमचंद नवजीवन.  
 २००  
 —द्वारा ग्राम-विकास गांधी, प्रभुदाम सस्ता ०७५  
 —पहले गांधी मोहनदाम करमचंद सस्ता ०३०  
 राद्य की नयी विधि मुजर्जी, कुनरजन तारोग्य ३००  
 नाना, साग-मञ्जी नवींदय ०५०  
 राखेल प्रगति जायमवाल, काशीप्रसाद, सपा ना प्र सभा  
 खलिकवागी नर्मा, श्रीगम ना प्र सभा २७५ [१२५  
 वाली कुर्मी वी आत्मा वर्मा, लक्ष्मीकांत कि महल ८५०  
 —भरे हाथ मित्र, जगदीशचंद्र त्रिवेणी २००  
 'द्विक-त्रिक' मंत्रे, ना वि ललित २००  
 गिलजी वन का इतिहास लाल, के एन लक्ष्मी ना  
 गिलती कली वरेन्कर, मामा राजपाल ३२५  
 गिनते फूल, चटकनी कलिया द्वे, मुरेश 'सर्म' राष्ट्र प्र  
 म ०५६  
 गिल्ली कनी मुन्हावा भवरा धर्मेश नवयुग पु भ ४५०  
 ॥ घर स्वप्न, हेनरिक थमना १२५  
 की कहानी उमाध्याय, वामुदेव ग्रथमाला १२५  
 गोज वर्मा, व दावननाल मयूर १२५  
 गा दि लायद्रेगी ०६२  
 गे का व्यास गुप्ता, गी आर भा कला १७५  
 गी गुटिया प्र विभाग ०५०  
 प्यारेलाल 'आवाग' स ४ रूपमी ३२५  
 १. दहादुर चगताई, अजीमवेग कि महल २५०, —  
 प्रभात प्र ३.००  
 र वाले जानवर चतुर्वेदी, जगपति कि महल २००

- खुराक की कमी और खेती गांधी, मोहनदास करमचंद नव-  
 जीवन २५०  
 खुला आकाश मेरे पख. शांति भा जानपीठ ४५०  
 खुशहाली की ओर ओकारेश्वर दयाल 'नीरद' मनोरमा.  
 ०८०  
 खुसरो की हिंदी कविता श्यामसुंदरदास ना प्र सभा  
 ०७५  
 खूखार टोली प्रमोदविहारी 'राजा' प्रभात प्र २५०  
 खूखारो के बीच सत्यनारायण प्रभात पब्लि ४००  
 खूँटी हार निगल गई बालकृष्ण नेशनल ०७५  
 खून का टीका शर्मा, यादवेद्र 'चंद्र' विद्या प्र म ४००  
 —का प्यासा कुशवाहा 'कांत' गुल्लूप्रसाद ५००  
 —का प्यासा सूर्या कमलानी कि महल १००  
 —की कुरवानी गौड, वी वी सुरेद्र (पा) १००  
 —की हर बूद शर्मा, यज्ञदत्त हिंद पा १००  
 —के छीटे उपाध्याय, भगवतशरण हस २५०  
 —के छीटे गुप्ता, सुगंध चिनगारी २५०  
 —खरावी ओकार शरद न्यू लिट १२५  
 खूनी इतिहास सशो स आर्य सा ०७५  
 —की खोज डायल, कानन कल्याणदास २००  
 —कौन सूर्या कमलानी कि महल १००  
 —चक्कर सूर्या कमलानी कि महल १००  
 —जगल की ओर शर्मा, विनोदशंकर रूपसी १००  
 —पजा गुप्त राजेश देहाती १२५  
 —भाई शर्मा, रामसुंदर सुबोध प्र १७५  
 खूब मिले सस्ता १२५  
 —लडी मर्दानी चौहान, मनह उमेग २००  
 खेत की तैयारी रामेश्वर अशात देहाती २२५  
 —की महदी शैलेद्र रामप्रसाद ०८७  
 —की मिट्टी बहना रोकें सर्वोदय १५०  
 —खलिहान भा, सदानंद जानपीठ १६३  
 —खलियान श्यामनारायण प्रसाद कल्याणदास ५००  
 —मे लहु ताजवर मामरी मनोरमा २५०  
 —लहलहाये रे ओकारेश्वरदयाल 'नीरद' हि सा स ०७५  
 खेती चौधरी, गोलोकविहारी ग्रथमाला २७५  
 —और खादी सेनी ओरिएट १००  
 —और घरेलू धंधे वर्मा, रमेश सा रत्न भ ०७५  
 —और ट्रैक्टर शर्मा, कृष्णानंद देहाती ६००  
 —और वागवानी रामेश्वर अशात देहाती ३००  
 —और वागवानी शिक्षा दीक्षित, सियावर कल्याणमल  
 ०५०  
 —किसान की धरती भगवान की श्यामविहारी 'विरागी  
 राष्ट्र प्र म २००  
 —की कहावते ध्ययितहृदय ग्रथमाला ०६२  
 —की रक्षा जगदेव सिंह 'देव' राष्ट्रीय प्र मदिर ०६२  
 —की सामान्य रीति जगदेव सिंह 'देव' स ५ राष्ट्रीय प्र.  
 मदिर ०६२  
 —के अनुभव अ. भा. सर्व. ०.८०

- सेती के अनुमधान जगदेव सिंह 'देव' स ५. राष्ट्रीय प्र.  
मदिर ० ६२
- पौड गन्ना ऊख रामनरेश सिंह रा वेनीमाधव ० ५०  
—वाडी. सा सगम, लु भा १ २००, भा २ २.५०,  
भा ३ ३.००
- वाडी (किमान गाडड) सतराम सत देहाती १ ५०  
—वाडी की पाठ पुस्तक इद्रसिंह सा सगम, लु ५००  
—वारी दीक्षित, भगीरथ गगा ५००  
—मे यत्रीकरण जगदेव सिंह 'देव' स ५. राष्ट्रीय प्र मदिर.  
० ६२
- व पशु-पालन गणित जैन, चतुर्भुज नेशनल ५००  
—शिक्षा अ भा सर्व १००
- खेतो की गोद मे पटेल, पीतावर आत्माराम ४ ५०  
खेल पाडेय, जगदानद मगध ० १०  
खेल वाजपेयी, श्रीराम न्यू लिट २ ७५
- कूद रतिभानु सिंह 'नाहर' छात्रहितकारी १ ५०  
—खिलौने यादव, राजेद्र भा ज्ञानपीठ २००  
—खेल मे विज्ञान श्रीकृष्ण . आत्माराम ४००  
—खेल मे शिक्षा सर्वोदय १००
- तमाशा उपाध्याय, अयोध्यासिंह 'हरिऔध' हि प्रचा पु  
१ २५
- तमाशे अरुण अवध ४००  
—द्वारा शिक्षा मयतवा भा. १ २००, भा २ १००  
—पचासा. वाजपेयी, श्रीराम न्यू लिट १००  
—पद्धति कृष्णनदन प्रसाद स ४ तरुण ० ८७  
—भी विज्ञान भी योगेद्रकुमार 'लटला' शिक्षण १ ५०  
खेले-कूदे-गाये पाडेय, निष्ठा कात ना सगम, मौ ०.७५
- कैसे ? अग्रवाल, पी एन सहगत ५ २५
- खैयाम की मधुशाना हरिवशरगय 'दक्कन' राजपाल २.००  
खोई हुई दिशाए कपलेश्वर भा ज्ञानपीठ २ ५०  
खोज का पचास वर्षीय विवरण (१९००-१९५०)  
नागरी प्रचारिणी सभा
- की कहानिया सक्सेना, शकरमहाय नवयुग ग्र कु ५००  
—की पगडडिया कातिनागर मुनि भा ज्ञानपीठ ४००  
—की राहे लाच, रात्फ ई आत्माराम ३ ५०  
—के पथ पर दुवे, शुकदेव छात्रहितकारी ० ७५  
—, वर्णमाला, विपमता, एकता लोहिया, राममनोहर  
नर्वाहद ० ३०
- खोटा वेटा शर्मा, विश्वभरनाथ 'कौशिक' विनोद ३ ००  
—सिवका नाधना प्रतापी दि पु म ४००  
खोटे सिक्के वाजपेयी प्रेमचंद्र आदर्श पु न १ ००  
खोया सुहाग गोविन्दान विनीत अग्रवाल प्रि ० ५५  
रवाजा मुईनुद्दीन चिश्ती वाष्णोद, चंद्रगुप्त सस्ता ०.४०

## ग

- गग कवित्त वटेकृष्ण, सपा ना प्र. सभा ७ ५०  
गगयति निदान नरेद्रनाथ शास्त्री मोतीलाल ९ ००  
गगा की धारा गुरुदत्त भा सा सदन भा १ ६००  
—की लहरे अवस्थी, राजेद्र 'तृषित' एस चाद. ३ ५०  
—गोदावरी उपाध्याय, भगवतशरण ग्रथमाला १००  
गगाजलि सक्सेना, शभूदयाल नवयुग ग्र कु १ ५०  
गगा जी तिवारी, रामचंद्र सस्ता ० ४०
- तोरी लहर शुक्ल, अमरनाथ त्रिद्या प्र म १ ५०  
—भैया गुप्त, भैरवप्रसाद राजकमल २००  
—लहरी. दीनानाथ 'शरण' हि सा स १ ५०  
—लहरी पाडेय, मुधाकर ना प्र सभा १ २५  
—लहरी मिश्र, विश्वनाथप्रसाद वाणी-वितान ० ८०  
गगावतरण जगन्नाथदास 'रत्नाकर' इ प्रे १ २५  
गगासहस्रनामस्तोत्रम्, सटीक गीता ० १६  
गगोजमन वनागरी 'नजीर' भा ज्ञानपीठ ३ ००  
गगोत्री, सहाय, विश्वभर 'प्रेमी' सा प्र ० ५०  
गदला पानी प्यारेलाल आवाग' लूसी ३ ००  
गदली राहे वाजपेयी, प्रेमचंद्र आदर्श पु म १ ००  
गदी गलिया कुप्रिन, एलेक्जेडर पुष्पी ० ७५, — —सुरेद्र  
५ ००
- वस्ती गदे लोग कुप्रिन, एलेक्जेडर वेला ३ ००  
—मछलिया, साफ तालाव श्रीवास्तव, रुद्रप्रसाद 'प्रवीण'.  
पुष्पी १ ५० — —सुरेद्र ४ ०५
- गद अ दमी गो.वदसिंह पुष्पा १ २५  
—हाथ गोविंदसिंह कन्हैयालाल ३ ७५  
गजट अधिसूचनाओं के नमूने केगीय ० १५  
गजरा जयत वाचरपति हिंद पा १ ००  
गजाला शोकत थानवी सहगत ३ ७५  
गटर के कीडे गोविंदसिंह सुभाष ४ ००  
गडवड गीत मिश्र, अवधभूषण नागरी प्र  
—गोष्ठी शर्मा, हरिशकर गयाप्रसाद २ ५०  
गड आया, पर सिंह गया व्यथितहृदय एस चाद १ ५०  
गडकुडार वर्मा, वृंदावनलाल गगा. ७००, — —मयूर.  
४ ५०
- गडमडल की रानी उमागकर उमेग २ ००  
गडवाल की लोक-कथाए गोविंद चातक २ भा. आत्माराम  
१ ५० (प्र )  
गडूवा (इद्रायण) के गुण तथा उपयोग दीक्षित, रामसनेही  
देहाती ० ८७
- गरादेवता पाडेय, रामदयाल पु भ ३ ००  
गरानात्मक रसायन शास्त्र. गुप्त, जगराम... रतन २ ५०  
गरारतनमहोदधि वर्धमान मोतीलाल १० ७५  
गरिका-वृत्त-सग्रह स्टर्नवाक्, एल विश्वेश्वरानंद २० ००  
गणित की पहेलिया मुने, गुणाकर राजकमन (पा ) १ ००  
—चमत्कार. खाडिलकर, रा २ ज्ञानमडल. ४.००

- गणित प्रकाश कौल, शभूनाथ ६ भा गयाप्रसाद ३७५  
 —भाग—भौतिक विज्ञान पुरी, ए एन आत्मराम ५००  
 —रत्नाकर चतुर्वेदी, रमाकांत रतन ४००  
 —शिक्षण तिवारी, आदित्यनारायण रा वेनीमाधव ३७५  
 —शिक्षण रावत पु भ, आ २००  
 —शिक्षण रावत, एम एस विनोद ४००  
 —शिक्षण रावत, डी एस गयाप्रसाद ४५०  
 —शिक्षण शर्मा, ए आर गिवलाल  
 —शिक्षण-विधि टडन, तेजनारायण, सपा हि सा भ १००  
 —शिक्षा के सिद्धांत तथा शिक्षण प्रणाली किचलू के एल नद ब्र एव नद स २००  
 गणेशशंकर विद्यार्थी देवव्रत शास्त्री आत्मराम ३००  
 —विद्यार्थी वसल, रतनलाल सस्ता ०४०  
 —विद्यार्थी के श्रेष्ठ निवध राधाकृष्ण, सपा आत्मराम. ४००  
 गति विज्ञान खन्ना, एम एल एस चाद २००  
 —विज्ञान रामशंकर अपर ३७५  
 —विज्ञान शुक्ल, पी डी हि सा सम्मे ३५०  
 —विज्ञान श्रीवास्तव, प्यारेलाल रा वेनीप्रसाद ६००  
 —विज्ञान का सफल अध्ययन अरोडा, दीवानचद स ४ केदारनाथ २१२  
 गत्ता की कला महादेव प्रसाद ४ भा नागरी प्र  
 —विज्ञान नदजीसिंह कला-नि १२५  
 गत्ते का काम सर्वोदय. १७५  
 गदर जैन, ऋषभचरण ज्ञान प्र २५०  
 —का इतिहास द्विवेदी, शिवनारायण भा २ हि पु ए ५००  
 —के पत्र चतुरसेन, आचार्य गंगा २५०  
 —गदर पार्टी का इतिहास प्रीतमसिंह पछी आत्मराम ३५०  
 गद्दार कृष्णचंदर हिंद पा १००  
 गद्दार वर्मा, रमेश चिनगारी १५०  
 गद्य आलोक दीपिका सशो स ३ लायल ३००  
 —कलश मिश्र भोपाल भा १ १७५, भा २ ३००  
 गद्यकार प्रसाद (प्रश्नोत्तर मे) पाडेय, शभूनाथ विनोद २५०  
 —प्रसाद श्रीलाल 'भानु' शारदा प्र (पा) १००  
 —वालमुकुद गुप्त जीवन और साहित्य नत्थनसिंह विनोद १२५०  
 गद्य काव्य तरंगिणी शर्मा, जगन्नाथप्रसाद. नद ब्र एव नद स २२५  
 —काव्य सकलन शभूनाथ सिंह कल्याणदास १७५  
 —काव्यादर्श शुक्ल, रामशंकर 'रत्नाल' गर्ग ब्र २००  
 —कुसुम माला चद्रप्रकाश, सपा रा वेनीप्रसाद १५०  
 —कुसुमाजलि टडन, प्रेमनारायण, सपा हि सा भ १५०  
 —के रूप अग्रवाल, महावीरप्रसाद, सपा रा वेनीप्रसाद २५०  
 —गर्भमा वगीय १२२५  
 —गर्भमा वाजपेयी, नददुलारे लोक चेतना २००  
 —गर्भमा व्यथितहृदय रा वेनीमाधव १.२५

- गद्य गाथा मदान, इंद्रनाथ श्री भा भारती २५०  
 —गौरव बलराज, सपा राजकमल १५०  
 —गौरव वर्मा, रामकुमार राज किशोर २५०  
 —चंद्रिका शर्मा, जगन्नाथप्रसाद, सपा सरस्व प्रे १५०  
 —चयनिका धूमकेतु साधना म २००  
 —ज्योत्स्ना चटर्जी, मनोरमा मिश्र-वधु २४४  
 —दीप-मालिका श्रीवास्तव, विश्वनाथप्रसाद मिश्र-वधु २.००  
 —निकष ब्रजविलास, सपा नद स एव विद्या म, वा. २००  
 —पथ उपाध्याय, चिंतामणि मानकचद.  
 —पथ तिवारी, उदयनारायण रा वेनीमाधव १५०  
 —पथ. पत, सुमित्रानन्दन सा भवन, इ ३००  
 —पथ (उदयनारायण तिवारी) की टीका दुवे, श्रीनाथ हि सा भ २००  
 —पथ सग्रह (प्रेमा कसवेकर) पाडेय, निर्मला हि सा भ १७५  
 —पाठशाला राजेन्द्रनाथ दीपनारायण, सपा रा वेनीप्रसाद २००  
 —पारिजात शर्मा, रामगोपाल 'दिनेश' रतन ०८७  
 —पुष्पमाला प्रदीपिका देवीप्रसाद कुसुम लायल २००  
 —प्रदीप कैलाशसिंह, रा वेनीमाधव १२५  
 —प्रभा गुलाबराय गयाप्रसाद १५०  
 —प्रवेशिका. वरजोर सिंह 'सरल', सपा रा वेनीप्रसाद ०६४  
 —प्रवेशिका की टीका गौड, शांतिस्वरूप विनोद २००  
 —विहार धर्मद्वय ब्रह्मचारी शास्त्री रा वेनीमाधव १५०  
 —भारती ओम्प्रकाश एस चाद २५०  
 —भारती केसरीकुमार, सपा वि ग्र कु ४००  
 —भारती. वाल, ज गो ववई हि ०६२  
 —भारती. मिश्र, केसवप्रसाद नद ब्र ३५०  
 —मजरी. मिश्र, विश्वनाथप्रसाद नद स २७५  
 —मजूपा गुप्त, सोमनाथ एम चाद २५०  
 —माधवी श्रीवास्तव, शिवनारायण नद ब्र एव नद स  
 —माधुरी मिश्र, विश्वनाथप्रसाद नद स २५० [२२५  
 —रत्न भीमसेन एस चाद १५०  
 —रत्नावली अग्रवाल, नरोत्तमदास, सपा रा वेनीप्रसाद १५०  
 —रत्नावली फणसीकर, चि रा ववई हि २००  
 —लतिका कैलाशप्रकाश हि सा स १७५  
 —लेखक रामचंद्र शुक्ल बलदेवकृष्ण ओरिएटल ४००  
 —लेखिका महादेवी वर्मा थानी, योगराज एस चाद  
 —विवेचन. पाडेय, फूलचंद्र एस चाद २५०  
 —सकलन. त्रिपाठी, करुणापति नद ब्र २५०  
 —सकलन (करुणापति त्रिपाठी) एक अध्ययन मिश्र, दुर्गाशंकर हि सा भ २५०  
 —सग्रह गिरिराज किशोर गूजरात २.५०  
 —समुच्चय गुप्त, सोमनाथ एस चाद ३००  
 —सरिता शर्मा, पद्मसिंह 'कमलेश', सपा ववई हि २००  
 —सरोज. शुक्ल, कृष्णचंद्र गयाप्रसाद २.२५



- गाठें और उनका प्रयोग जौहरी, राजकुमारी न्यू लिट १५०  
 गांधारी चतुरमेन, आचार्य प्रभात प्र ३००  
 गांधी अभिनदन-ग्रंथ राधाकृष्णन्, सर्वपल्ली, सपा सस्ता  
 ४००  
 —अर्थ-विचार कुमारप्पा, जो काँ अ भा सर्व १००  
 — एक सामाजिक क्रांतिकारी वेलाक, विल्फ्रेड अ भा सर्व  
 ०३७  
 —और गांधीवाद सीतारमैया, पट्टाभि २ भा शिवलाल  
 ५०० (प्र)  
 —और साम्यवाद मणस्त्राला, किशोरलाल नवजीवन १२५  
 —का दर्शन पाडेय, सगमलाल गर्ग ब्र ५००  
 —की कहानी फिगर, लुई सस्ता १५०  
 —की गूजती आवाज अखिल ज्ञानपीठ ०७५  
 —गीता इद्र विद्यावाचस्पति राजहंस २००  
 —गौरव मिश्र, रामदास 'विजय' हिं प्रचा म ०२५  
 —ग्रंथ माशुर, प्रेमनारायण रा वेनीमाधव ५००  
 — गाम और समाज त्रिपाठी, शंभूरत्न जिज्ञासा ३००  
 —चतुर्ग प्रताप चौधरी ३५०  
 —चरित व्यास, गोपालप्रसाद आत्माराम ०५०  
 गांधीचरितमानस (उद्योगकांड) देसाई, बालजी गोविंदजी  
 नवजीवन आरभ ०५०, मध्यभाग ०६०, समाप्ति  
 ०७०  
 गांधीचरितमानस (बालकांड) देसाई, बालजी गोविंदजी  
 नवजीवन ०३७  
 गांधी-चित्रावली नवजीवन १००  
 —चित्रावली लूणिका, जीतमल स ११ हि सा म १००  
 —जिन्ना वार्तालाप हिंदु टाइम्स ०७५  
 गांधीजी मानवधर्म २००  
 गांधीजी गांधी, मोहनदास कर्मचंद ३ भा हिं प्रचा पु  
 १५० (प्र)  
 गांधीजी दवे, जुगतराम नवजीवन ०७५  
 — एक झलक जोशी, श्रीपाद नवजीवन १२५  
 — और उनका 'वाद' नवद्वीपाद्र, ई एम एस पीपुल्स २५०  
 —और गुरुदेव मल्लिक, गुरुदयाल नवजीवन ०८०  
 —और भावी मसार नपूर, कानिदास राजकमल (पा)  
 १००  
 — और विश्व शांति शर्मा, देवीदन अ भा सर्व ०६०  
 का भूत वेदव बनारसी आनंद पु, व १५०  
 —का विद्यार्थी-जीवन अशोक सस्ता ०४०  
 — का विनोद मवनजी, लल्लुभाई नवजीवन ०६०  
 — का मसान प्रवेश अशोक सस्ता ०४०  
 — की अध्यात्म साधना कानेतकर काका गांधी हिंदु ०२५  
 —की छद्मछाया में विन्ला, घनश्यामदान सस्ता ०५०  
 — की जीवन भातिया सिंह, रोशनलाल २ भा युनिवर्सिटी  
 ०६० (प्र)  
 — की जीवन-भागी बालिनीदेवी नन्देय ना ०७५  
 —की देन राजेन्द्रनाथ सस्ता १५०  
 —की यूरोप यात्रा लीस्टर, म्यूरियल वीरा २२५

- गांधीजी की राह रामनाथ 'सुमन' राजकमल (पा) १००  
 —की सक्षिप्त आत्मकथा गांधी, मोहनदास कर्मचंद  
 नवजीवन ०६०  
 —की साधना पटेल, रावजीभाई नवजीवन ३००  
 —की सूक्तिया राजवहादुरसिंह राजपाल २००, — —  
 हिंद पा १००  
 —के आश्रम अशोक २ भा सस्ता ०४० (प्र)  
 —के जीवन-प्रसंग शुक्ल, चंद्रशंकर, सपा वीरा ६००  
 —के तीन उत्तराधिकारी पारिजात ५००  
 —के नाम मेरे पत्र पाठक, अनमूयाप्रसाद राष्ट्र पु भ  
 —के पावन प्रसंग मकनजी, लल्लुभाई नवजीवन भा १  
 ०३७, भा २ ०३७, भा ३ ०३५  
 —के सपर्क में शुक्ल, चंद्रशंकर, सपा वीरा ३.२५  
 —को श्रद्धाजलि भावे, विनोद सस्ता ०३७  
 —क्या चाहते थे? वसु, निर्मलकुमार अ भा सर्व ०५०  
 —जैसा मैंने देखा दिवाकर, आर आर राजहंस १५०  
 —जीवन की भाकिया भारद्वाज, एल पी ३ भा राष्ट्रीय प्र  
 मदिर ३००  
 —टोपी राधिकारमणप्रसाद सिंह, राजा अशोक प्रे २००  
 —दर्शन गुप्त, रामचंद्र सरस्व पु स २५०  
 —दर्शन विश्वनाथ राजपात ०७५  
 —दर्शन सत, गोकुलचंद्र ओरिएटल ०७५  
 — धर्म और समाज त्रिपाठी, शंभूरत्न जिज्ञासा ३५०  
 —धाम रविशंकर अ भा सर्व ०५०  
 —नास्तिक-सवाद रामचंद्र राव, जी नवजीवन ०६२  
 — परिवार और समाज त्रिपाठी, शंभूरत्न जिज्ञासा ३००  
 —वनाम राजनीति पत्तुगम सर्वोदय सा १००  
 —वावा जैदी, कुदसिया मक्तवा २००  
 —वावा सुदर्शन वीरा ०८७  
 —वावा तो हम बनेगे शिवनदन सिंह पु भ, रा ०७५  
 —भजनमाला गांधी, मोहनदास कर्मचंद देहाती ०५०  
 —भारती गुलाब पारिजात १५०  
 —मार्ग कृपलानी, आचार्य साधना सदन २५०  
 —मार्ग राजेन्द्रनाथ सस्ता ०१२  
 —मीमामा गांधी, मोहनदास कर्मचंद प्रभात प्र १५०  
 —मीमामा ठाकुर, रवीन्द्रनाथ ना साधना १५०  
 गांधीय मार्ग गुलाबराय गयाप्रसाद २००  
 गांधी-वाणी रामनाथ 'सुमन' साधना सदन ३५०  
 गांधीवाद और साम्यवाद पातीवल, हरिदत्त निर्भय' शारदा  
 साधना ३७५  
 —की रूपरेखा रामनाथ 'सुमन' साधना सदन २५०  
 —की विवेचना गांधी, मोहनदास कर्मचंद हि प्रचा पु  
 १५०  
 —की जब पंगीशा यशपाल विनय ३००  
 गांधीवादी मधोजन के सिद्धांत श्रीमन्नारायण सस्ता ५००  
 गांधी विचार ड पटिन ५०  
 —विचार-दीहन मणस्त्राला, कि घ सस्ता १५०  
 —विचार रत्न जैन, माईदयाल, सपा सस्ता ३००

- गाधी विचार-सार गाधी, मोहनदास करमचंद नवजीवन ० ५०  
 —विमर्श श्रीवास्तव, रामचंद्र 'चंद्र'. लक्ष्मी ना ० ८७  
 —शतक उपाध्याय, विश्वभरनाथ सा रत्न भ ०.७५  
 —शिक्षा. गाधी, मोहनदास करमचंद सस्ता भा १. ० २५,  
 भा २ ० ३०, भा ३ ० ३७  
 — शिक्षा और समाज त्रिपाठी, शंभूरत्न जिज्ञासा ३ ००  
 —श्रद्धाजलि-ग्रंथ राधाकृष्णान्, सर्वपल्ली, सपा सस्ता. ३ ००  
 —साहित्य एव शिक्षा त्रिवेदी मानकचंद १.२५  
 —साहित्य-सूची. देशपांडे, पांडुरंग गणेश नवजीवन ३ २५  
 —: स्तरण और समाज. त्रिपाठी, शंभूरत्न जिज्ञासा. ३ ००  
 —हत्याकांड ज्ञानमंडल. ५ ००  
 गाव आनंद, मुल्कराज. राजपाल ५ ००  
 —आदोलन क्यों? कुमारप्पा, जो काँ. अ भा सर्व २ ५०  
 —और खेती लाखनसिंह नेशनल. १ १५  
 —का गोकुल पटवर्धन, अप्पा. अ भा सर्व ० २५  
 —का चमडा. ओमप्रकाश सर्वोदय ० ६२  
 —का जीवन वर्मा, रमेश सा रत्न भ ० ७५  
 —का धर्म—गाव के उद्योग ओमप्रकाश सर्वोदय. ०.७५  
 —का मेरूदड किसान गुप्त, हरगोविंद आत्माराम १.५०  
 —की अपनी भलाई वर्मा, सावित्रीदेवी आत्माराम १.००  
 —की ओर द्विवेदी, रामचंद्र 'अरविंद' स २ सुलभ २.५०  
 —की ओर. बाबूराम सिंह 'लमगोडा' आनंद पु, वा २.००  
 —की ओर. मादक सा भवन, इ १ ००  
 —की ओर. सत्यप्रकाश 'मिलिंद' राजीव, दि एवं सूर्य प्र  
 १.००  
 —की ओर सहकारिता का नया कदम सक्सेना, प्रेमचंद्र.  
 सरस्व प्र म १.२५  
 —की कहानिया भा, कमलनारायण 'कमलेश' ग्रंथ भ.  
 ०.५०  
 —की कहानिया वर्मा, रमेश सा रत्न भ ० ७५  
 —की कहानी माचवे, प्रभाकर साहनी ० ५०  
 —की चिडिया चतुर्वेदी, जगपति छात्रहितकारी १ २५  
 —की भाकी मादक सा. भवन, इ १ ००  
 —की दिवार मेहता, कृ शि कि घर, ग्वा १ ५०  
 —की वादे देहाती मगा ० ७५  
 —की वाते वर्मा, रमेश सा. रत्न भ. ० ७५  
 —की बोली वर्मा, रमेश सा रत्न भ ० ७५  
 —की लाज दीक्षित, रामाश्रय सर्वोदय सा ० ७५  
 — की लोक कथाये राहगीर सुभाष १ २५  
 —की साभ. चतुर्वेदी भगवतशरण विनोद २ ००  
 —की सेहत और सफाई वर्मा इद्रसेन आत्माराम. १ ००  
 —के उद्योग धंधे गुप्त शोभालाल सस्ता ० ३०  
 —के खडहर खुशदिल, एम. समाज २ ००  
 —के गीत गुप्त, हरगोविंद गृहपति १ ६२  
 —के गीत (पुरुषो के लिए) वर्मा, रमेश सा रत्न भ.  
 ० ७५  
 —के गीत (स्त्रियो के लिए). सा रत्न भ. ०.७५  
 —के चित्र. मादक. हि प्रचा पु १.००

- गाव के देवता गुप्त, विंध्याचलप्रसाद. साधना म. २ ५०  
 —गली के लोग पांडेय, सुधाकर कल्याणदास ५ ००  
 —गाव के जागे भाग. व्यथितहृदय विनोद १ ००  
 —चलो शर्मा, रामनिरजन ग्रंथालय १ २५  
 —जाग उठे महेद्रकुमार 'मुकुल' ज्ञानमंडल प्र १ २५  
 —पच और पचायत रामजीलाल शास्त्री. विनोद ० ५०  
 —पचायत रूप, कर्तव्य और अधिकार. शर्मा, ब्रह्मस्वरूप  
 सर्वोदय ० ३७  
 — विकास के विभिन्न पहलू शकर सुल्तानपुरी नवयुग पु भ.  
 ०.७५  
 —सभा रूप कर्तव्य और अधिकार शर्मा, ब्रह्मस्वरूप  
 सर्वोदय. ० ३७  
 —समस्याये योजना और निर्माण. शर्मा, ब्रह्मस्वरूप  
 सर्वोदय. ० ३७  
 —सुखी, हम सुखी भावे, विनोबा सस्ता ० ४०  
 —सुधार कैसे हो? त्रिवेदी, रामचंद्र गगा १.५०  
 गावों का विकास चौबे, गोरखनाथ रा बेनीप्रसाद १ ५०  
 —का विकास कैसे हो नाहर छात्रहितकारी ० ५०  
 —की दुनिया विवेकीराय रामप्रसाद २.५०  
 —की मदद मे गाधी, मोहनदास करमचंद नवजीवन ० ४०  
 —की समस्याए. ३ भा छात्रहितकारी १ ८७  
 —की समस्याए. सक्सेना, शकरसहाय हि सा सम्मे  
 २ २५  
 —को धनवान बनाइये वर्मा, रामकृष्ण स्वरूप ० ५०  
 —को सुधारो सक्सेना, शंभूदयाल नवयुग ग्र कु १ ००  
 —मे नव ज्योति शशि सुमन स २ नव-ज्योति प्र १.२५  
 —मे सहकारिता दुबे, कृष्णाप्यारे छात्रहितकारी १ २५  
 —मे सहकारिता सर्वदेव सिंह राष्ट्रीय प्र मंदिर. ५ ००  
 गाइड आफ काटेज इंडस्ट्रीज कालीचरण देहाती ६ ००  
 गाओ बच्चो. धर्मपाल शास्त्री ओरिएटल ० ७५  
 गागर मे सागर महाकाव्यो का सार-संग्रह. शर्मा, रामानंद  
 कन्याकुमारी  
 गाजर के गुण तथा उपयोग दीक्षित, रामसनेही देहाती  
 ० ६२  
 गाडीवालो का कटरा कुप्रिन, एलेक्जेडर सुरेद्र. ५ ००  
 गाता जाए बजारा साहिर लुधियानवी राजपाल २ ००,  
 — —हिंद पा १ ००  
 गाथा जानकीवल्लभ शास्त्री कला-नि. ४ ००  
 गाय और बाघ विराज आत्माराम ० ७५  
 —का आर्थिक मूल्यांकन गुप्त, परमेश्वरीप्रसाद सस्ता ० ७५  
 —का बाभूपन और उसे रोकने का उपाय सर्वोदय १ ५०  
 गायत्री विद्यानंद विदेह, स्वामी वेदसस्थान १ ००  
 —मत्र का अनुष्ठान विद्यानंद विदेह, स्वामी वेदसस्थान  
 ० २५  
 —महिमा शर्मा, शिवदत्त कल्पवृक्ष ० ५०  
 गार्गी के बाल नाटक गार्गी, परितोष आत्माराम १ ५०  
 गार्हस्थ्य जीवन और ग्राम सेवा चतुर्वेदी, परशुराम सा भवन  
 इ १ ००



गाहंस्य स्वास्थ्य-विज्ञान त्रिपाठी, नागेंद्रपति ग्रथमाला २००  
 गालिव 'गमनाय' मुमन भा ज्ञानपीठ ८००  
 —की कविता गौड, कृष्णदेवप्रसाद नद स १०००  
 —की गायत्री वृजविहारीलाल मातृ-भापा २००  
 —के नव गालिव राजरजना  
 —के पत्र शर्मा, श्रीराम हिंदु एकेडेमी ८००  
 —के पत्र शर्मा, श्रीराम भा २ हिंदु एकेडेमी  
 —जीवनी और नकलन राजपाल १५०  
 गा ले मुन्ना: मिरोठिया, शकुंतला सा भवन, इ १२५  
 गिदन चरित—स्व गेदालाल दीक्षित दीक्षित, भगीरथप्रसाद  
 गिदन ०७५  
 गिनी-चुनी स्वाइया शर्मा, राजेश अर्चना प्र (पा) १००  
 गिरगिट शैकृत थानवी पुष्पी १००, —सुरेद्र २५०  
 गिरती इमानियन गुप्त, राजेश देहाती ३५०  
 —दीवार कापनी आखे राविन शा 'पुष्प' प्रभात प्र २५०  
 —दीवारे उपेद्रनाथ 'अस्क' नीनाभ ११००  
 गिरते-गिरते मिश्र जगदीशचंद्र त्रिवेणी १०५०  
 गिरधर की कुडलिया गिरधर कविराय देहाती ०७५  
 गिरहदार मोती शिवब्रतलाल शिव सा १००  
 गिरिजाकुमार मथुर नगेद्र राजपाल २००  
 गिरिजा शंकर गुटका विशालमणि नारायण श्यामलाल  
 गिरिधर की कुडलिया आदर्शकुमारी सस्ता ०.४० [१५०  
 गिरिब्रज राजगृह शर्मा, रामप्रकाश मगध ४००  
 गिलट के भूमके व्यास, श्यामसुंदर विनय १५०  
 गीत और आसू यशोविमलानंद एस चाद ४००  
 —और गोली चतुर्वेदी, भगवतशरण, सपा विनोद १००  
 —और नाद वीरदेव 'वीर' इ पन्डित १००  
 —और पत्थर कृष्णचंद्र स्टार (पा) १००  
 —और सगम रामगोपाल परदेसी, सपा प्रगति प्र ५५०  
 गीतार विद्यापति रामवाशिष्ठ विनोद ३००  
 गीत कुनुम रामाश्रय प्रभाकर कना-भा १२५  
 —के स्वर धिन्डियाल, रमाप्रसाद 'पहाडी', सपा प्रकाशगृह  
 १.५०  
 —गज त्रिपाठी, सूर्यवात 'निगला' हि प्रचा पु १५०  
 —गोविंद (जयदेव) रागेय राधक, अनु साहनी ४००  
 —गोविंद शर्मा, विनयमोहन आम्नागम ६००  
 —फगेल मिश्र, भवानीप्रसाद नवहिंद ५००  
 —भरा ममार व्यास, भरत स्टार (पा) १००  
 —भारती मत, शाता बाल सदन ०७५  
 —भी अगीत भी गोपालदान 'नीरज' राजपाल २००  
 गीतम मिश्र, वीरेद्र म ३ बसल २५०  
 गीत माधुरी मत शाता बाल सदन ०७५  
 —मेरे स्वर तम्हारे दिनेज अमर'. मा सगम, मो २५०  
 —मैं जैमे लिखू शर्मा, जगदीश कि महल २५०  
 —गडिम मिश्र, भागवतप्रसाद राज किशोर ३००  
 —श्रद्धाजलि गमावतार नगीताचार्य गोविंदराम १००  
 —नाम मुन्दिदेव रज्ज पारिज्ञान ३००  
 —नो गये शर्मा जयप्रकाश टपकमल ३७५

गीताजलि ठाकुर, रवींद्रनाथ इ प्रे १५०, — —ज्ञान प्र  
 २००, — —देहाती १५०, — —प्रभात प्र ३००,  
 — —राजपाल ३००, — —लोकचेतना ३००,  
 — —विश्व भारती २५०, बोर्ड ३५०, — —  
 हिंद पा १००  
 गीता यशपाल विप्लव २५०, — —हिंद पा १००  
 गीता वरेरकर, मामा विद्या प्र म ४५०  
 गीता सत्यप्रकाश 'महताव' नवीनतम २५०  
 —अध्ययन मानवधर्म १५०  
 —और कुरान सुंदरदास देहाती २५०  
 —और विश्व धर्म गाधी, मोहनदास करमचंद हि प्रचा म  
 १२५  
 —का व्यवहार दर्शन रामगोपाल, सेठ कि महल ७००  
 —का सदेश गाधी, मोहनदास करमचंद नवजीवन ०३०  
 —की भूमिका घोष, अरविंद श्रीअरविंद ००  
 —गौरव द्विवेदी, गौरीशंकर 'शंकर' स. २ बुदेल १५०  
 —ज्ञान भार्गव, दीनानाथ 'दिनेश', व्या स २ मानवधर्म  
 २४००  
 —तत्व सारदानंद, स्वामी स = श्रीरामकृष्ण २८०  
 —तत्व प्रदीप मेहरोत्रा सिद्धनाथ सा भवन ८००  
 —द्वार गीता ०२५  
 —द्वितीय अध्याय जगदीशलाल शास्त्री, टीका मोतीलाल  
 १२५  
 —नवनीत आचार्य, केशवदेव २ भा श्रीअरविंद ३५०  
 (प्र)  
 —निवधावली गीता ०१६  
 —प्रवध घोष, अरविंद भा १ श्रीअरविंद ६५०, सजिल्द  
 ८००  
 —प्रवध घोष, अरविंद भा २ श्रीअरविंद १०००,  
 ५०० (प्र)  
 —प्रवोध सतवरश शास्त्री हि प्रचा. पु २००  
 —प्रवचन भावे, विनोवा अ भा सर्व २००  
 —प्रवचन माला चतुर्वेदी, गिरिधर शर्मा काशी हिंदू १५००  
 —प्रवेशिका सव्यसाची सस्ता ०४०  
 —प्रेस-लीला-चित्र-मदिर-शोहावली गीता ०२५  
 —बोध गाधी, मोहनदास करमचंद नवजीवन ०५०,  
 — —सस्ता ०५०  
 —मथन मशरूवाला, किशोरलाल नवजीवन ३००  
 —माता गाधी, मोहनदास करमचंद सस्ता ४००  
 गीतामृत मिश्र, शिवकुमार 'मयूर' हि सा सम्मे ३००  
 गीता में भगवान श्रीकृष्ण का परिचय और उपदेश बद्योपाय्याय,  
 अक्षयकुमार गीता १००  
 गीतायन मिश्र, रामदास 'विजय' हि प्रचा म २००  
 गीता-रत्न-प्रभा कालेकर, वाका नवजीवन ३००  
 —रहस्य तिलक बाज गगाधर म १२ तिलक १२००  
 गीतार्चना चौधरी राजेंद्रकुमार पु भ, १ २००  
 गीता वचनामृत विष्णु मिश्र गोविंदराम  
 गीतावली ३ भा अ भा काप्रेस ०२५ (प्र)

- गीतावली. तुलसीदास, गोस्वामी गीता १००  
 गीतावली—तुलसीदास शर्मा, वामदेव रा वेनीमाधव २००  
 गीताव्याकरणम् गीता १००  
 गीता सवाद गुप्त, सियारामशरण सा सदन, चि १००  
 —हृदय सहजानन्द, स्वामी कि महल १२०० (अप्रा)  
 गीतिका त्रिपाठी, सूर्यकांत 'निराला' भा भ २००  
 गीति काव्य प डेय, रामखेलावन ज्ञानमडल ५५०  
 —काव्य का विकास त्रिपाठी लालधर 'प्रवासी' हि प्रचा  
 पु १०००  
 गीतो का व्यापार पालीवाल, हरिदत्त 'निर्भय' शारदा साधना.  
 २.५०  
 —के भूले, मिश्र, वीरेन्द्र. गकुन १५०  
 —भरो कहानिया सिरोठिया, शकुतला इ प्रे १५०  
 गीतोपदेश राय, अनिलवरण काशी हिंदू ३००, —  
 श्रीअरविंद २००  
 गीदडराज नीलमसिंह जहूरवस्त्र मिश्र-वधु ०७५  
 गीला वारूद नानकसिंह राजपाल ५००  
 गीली आंखे गीले गीत वशिष्ठ, शिवशकर दि पु स ३००  
 —मिट्टी अमृतराय हस ३००  
 गीले गीत रघुवीरशरण 'मित्र' भा सा प्र २५०  
 —गीत सुहाने दूवे, सुरेश 'सरस' राष्ट्र प्र म १३७  
 —पख रामानन्द 'द्रोषी' आत्माराम ३५०  
 गुजन पत, सुमित्रानन्दन भा भ २५०  
 —का अनुगुजन वत्रा, हरीश ओरिएटल २५०  
 —का अनुगीलन शुक्ल, बलदेवप्रसाद हि भवन (अप्रा)  
 गुजाल शुक्ल, कमल नेगनल १५०  
 गुठन गुस्दत्त भा सा सदन ६००, (पा) २०  
 गुडा चतुर्वेदी, सीताराम अ भा विक्रम १००  
 गुजरते दृश्य बदलती करवटे यादव, वैजनाथ राष्ट्र प्र म  
 २५०  
 गुजरात राजहस  
 —की लोक कथाए व्यास, श्रीकांत आत्माराम १५०  
 —के गौरव मुशी कन्हैयालाल मारिकलाल २ भा नवयुग  
 प्र १०००  
 —के नाथ मुशी, कन्हैयालाल मारिकलाल हि ग्र र ६००  
 —के महाराज मेहता, बबलभाई अ भा सर्व २००  
 गुजराती और उसका साहित्य शर्मा, पद्मसिंह कमलेश'  
 राजकमल २२५  
 —और ब्रजभापा का तुलनात्मक अध्ययन गुप्त, जगदीशप्रसाद  
 हि सा परिपद ८००  
 —की प्रतिनिधि कहानिया कापडिया, कुदनिका. आत्माराम.  
 —साहित्य का इतिहास हि समि ६५०  
 —साहित्य का इतिहास शर्मा, जी. पी गयाप्रसाद ३.००  
 —साहित्य का नवीन इतिहास त्रिवेदी, सुरेश आर्य बुक  
 २५०, — आशा प्र २५०  
 —साहित्य का संक्षिप्त इतिहास चतुर्वेदी, वरसानेलाल. हि  
 सा. स २००  
 —हिंदी-कोश. गुजरात ८.००

- गुजराती हिंदी कोष कलार्थी, मुकुल बोरा २००  
 —हिंदी दीपिका तरैया, प्रभाशकर ववई हि भा. १ ०.६२,  
 भा २ ०७५  
 गुटुरु मेमना लगडू सियार मिश्र, अवधभूषण नागरी प्र.  
 गुड और खाडसारी ओमप्रकाश सर्वोदय ०६२  
 गुडगुडी व्यथितहृदय स ४ हि. भवन ०५०  
 गुडिया का देश सरस्वतीकुमार 'दीपक' आत्माराम. १.५०  
 —का व्याह मधु, कुमारी आत्माराम १००  
 गुणवती कान्ह महर्षि नवयुग ग्र कु १२५  
 गुनहगार गोविंदसिंह आदर्श पु म ३.५०, — कन्हैयालाल.  
 ०६३  
 गुनावन नव सा म ३००  
 गुनाह दत्त भारती शमा २६५  
 —जो मैने किए वाजपेयी, प्रेमचंद्र आदर्श पु. म १.००  
 —त्रेलज्जत द्वारकाप्रसाद नीलाभ २५०  
 गुनाहो का देवता धर्मवीर भारती स ७ भा. ज्ञानपीठ ५.००  
 —की देवी शर्मा, यादवेन्द्र 'चंद्र' प्रभात प्र ४५०  
 —के आचल गोविंदसिंह रतन एड क ३५०  
 गुप्तकालीन भारत गोयल, श्रीराम विश्वविद्यालय  
 —मुद्राए अलतेकर, अनन्त सदाशिव वि राष्ट्र ६५०  
 गुप्तचरी तिवारी, रमेशनारायण नेशनल  
 गुप्तचरो की सच्ची कहानिया पंडित, वरदाचारी, सपा एव  
 अनु सूर्य प्र ३००  
 गुप्तजी और द्वापर साहू, कामताप्रसाद नव-ज्योति प्र ४५०  
 —और यशोधरा दीक्षित, श्यामसुंदरलाल लक्ष्मी ना २.५०  
 —की कला सत्येन्द्र सा रत्न भ ३००  
 —की काव्य-कला पाडेय, त्रिलोचन सरस्व पु. स ३५०  
 —की काव्य धारा गिरीश छात्रहितकारी ४००  
 —की काव्यसाधना उमाकांत नेगनल ८००  
 —की कृतिया श्यामनन्दन कि महल २५०  
 —की यशोधरा सिन्हा, कृष्णकुमार नावल्डी. ३५०  
 गुप्तधन प्रेमचंद २ ख ह. ८०० (प्र)  
 गुप्तधन हैगार्ड, राइडर इ प्रे २७५  
 गुप्त भारत की खोज ब्रन्टन, पाल भा भ ५००  
 —रहस्य शिवब्रतलाल शिव सा १००  
 गुफा से महल. सिन्हा, विश्वमोहन ग्रथमाला ३००  
 गुवारे खातिर अबुल कलाम आजाद, मौलाना सा अकादमी  
 ६००  
 गुवारा मिश्र, दयाशकर 'दहा' राजहम १२५  
 गुवारे का आदमी बहल, योगेन्द्र हिदिया ०.७५  
 —मे अफ्रीका यात्रा वर्ने, जूले ड. प्रे २००  
 —मे पाच सप्ताह इ प्रे ०७५  
 —मे यात्रा. जगन्नाथ नवयुग प्र २५०  
 गुमराह. प्रभात प्र ३५०  
 गुमराह. रूपसी १५०  
 गुमराह. राय, कपिलदेव गथालय १.२५  
 गुमराह. शर्मा, जगदीश. देहाती १२५  
 गुमशुदा लड़की. वदनाम रफी शमा २.५०

- गुरु अग्रद देव शर्मा, राजेश उमेश २००  
 —अमरदान शर्मा, राजेश उमेश २००  
 —श्रीर माता-पिता के भक्त-बालक गीता ०.२५  
 गुरुकुल गुप्त, मैथिलीशरण सा सदन, चि ३००  
 गुरु गोविंदमिह वेणीप्रसाद ना प्र सभा ३००  
 —गोविंदमिहजी कवि के रूप में जसवत सिंह नेचर ०.५०  
 —मटाल द्वे, सुरेश 'सरस' राष्ट्र प्र म १२५  
 —घटाल हादी 'रसवा मिर्जा पुष्पी १२५, — सुरेश ४००  
 —नेगवहादुर गुप्त, मैथिलीशरण सा सदन, चि ०.५०  
 —दक्षिणा. पाडेय, विनोदचंद्र 'विनोद' रा वेणीप्रसाद १००  
 —दक्षिणा मिश्र, जनार्दन ग्रथमाला ०.५०  
 —दक्षिणा रमाल गर्ग २००  
 —दक्षिणा वत्स्य, सतराम आत्माराम ०.७५  
 गुरुदेव शर्मा, लोकेन्द्र उमेश २००  
 —श्रीर उनका आश्रम शिवानी सस्ता १००  
 —रवींद्रनाथ क्षितीशराय प्र विभाग २५०  
 —रवींद्रनाथ मदारिया, मनमोहन ववई प्र १५०  
 —रवींद्रनाथ टैगोर स्मृति-ग्रंथ मयूर १२५०  
 —रवींद्रनाथ ठाकुर वर्मा, हर्षवर्द्धन स ३ तरुण. ०.७५  
 —विद्यार्थियों से ठाकुर रवींद्रनाथ राजधानी २००  
 गुरुधाम एकाकी सक्सेना, चंद्रनारायण गोविंदराम ०.५०  
 गुरु नानक सोहनसिंह सस्ता ०.४०  
 —नानक के बोल नानक देहाती ०.५०  
 —नानकदेव शर्मा, राजेश उमेश २००  
 —नानकदेव मतोपकुमार विश्वेश्वरानंद ०.५०  
 —नानक भजनामृत रामश्रवतार 'वीर' देहाती २५०  
 गुरुपद ज्ञान जौहरी, राजकुमारी न्यू लिट ३००  
 —शिक्षण खत्री, विदाप्रसाद न्यू लिट २००  
 गुरुबोध भावे, विनोबा अ भा सर्व १५०  
 गुरुभक्तमिह और 'नूरजहा' बाली, तारकनाथ विनोद ३००  
 गुरु भक्ता सहजोबाई के उपदेश सहाय, चतुर्भुज स ३ साधन १००  
 गुरुमुखी लिपि में उपलब्ध हिंदी-काव्य का विवेचनात्मक अध्ययन हरभजनमिह एस चाद  
 गुरुवायर जोगी, श्रीपाद मस्ता ०.४०  
 गुरु विचार काटवे, ह ने नागपुर प्र २५०  
 —शिष्य नवाद काठिया दावाजी इ प्रे १७५  
 गुलदम्ना सक्सेना, शम्भूदयाल हि भवन ०.५०  
 गुलमुहम्मद नय्याल विद्यानवार दि प्रे ०.५०  
 गुलान एक कलिया दो अग्रवाल, युगल आदर्श पु म १५०  
 गुल मनोहर मेहरोत्रा रामेश्वरप्रसाद कि महल ०.७५  
 गुलाब और अगूठी गर्ग, किशोर न ४ रानी १५०  
 —श्रीर बुलबुल त्रिलोचन शान्धी सुभाष २२५  
 —कुमारी वर्मा, निहालचंद्र हि प्रचा पु (पा) १००  
 —के दो फूल स्टीवेन्सन, आर एल. राजपाल ५००  
 —के फूल के गुरा तथा उपयोग युक्ल, अमोनचंद्र देहाती १.००

- गुलाबी दाग गोविंद सिंह पुष्पी एवं सुरेश २२५  
 गुलामी प्रथा उन्मूलनकर्ता चौधरी १२५  
 गुलिवर की कहानिया ओकार शरद राजकमल १७५ (प्र)  
 —की यात्राए व्यास, श्रीकांत, अनु राजपाल १५०  
 गुलिस्ता सादी, शेख स्टार (पा) १००  
 —की कहानिया सादी, शेख आत्माराम १२५  
 गुलिस्ताने कत्त्रा शर्मा, राजेश अचना प्र (पा) १००  
 गुलीवर की कहानी मिश्र, रमेशचंद्र फ्रेक ०.७५  
 —की कहानी विश्वनाथ राजपाल ०.५०  
 —की दूसरी यात्रा, दानवो का देश सर्वोदय १००  
 —की पहली यात्रा, बीनो का देश सर्वोदय १००  
 —की यात्रा शर्मा, श्यामसुंदर 'ब्रजेश', रूपा आदर्श पु भ २००  
 —की यात्राए स्विफ्ट, जोनाथन इ प्रे २२५  
 गुलेरी ग्रंथ कृष्णानंद, सपा ना प्र सभा २००  
 —जी की अमर कहानिया शर्मा, चंद्रधर 'गुलेरी' सरस्व प्रे १००  
 गुल्ली डडा प्रेमचंद सरस्व प्रे, — हस १००  
 गुसाईं गुरुवानी अज्ञात नेशनल  
 गुस्ताखी माफ ववर, सुदर्शन नवयुग प्र १५०  
 गुज उठी रणभेरी मिश्र, शिवशंकर प्रभात पब्लि १२५  
 गुजे जय-जयकार प्र विभाग १००  
 गूढार्थ चंद्रिका प्रज्ञानानंद, स्वामी २ ख मानस सघ ३०० (प्र)  
 —प्रवेगिका दर्यासिंह भा प्र मंदिर ०.६२  
 गृह अर्थशास्त्र तथा गृह-प्रवध सक्सेना, शक-सहाय रा वेणीमाधव ३५०  
 —कला-शिक्षा ठाकुरपाल सिंह पु भ, रा भा ३ ०.७५, भा ४ १.८७  
 —तथा स्वास्थ्य विज्ञान पाडे लक्ष्मी ना भा १ १.१०, भा २ २.५०  
 गृहदाह चट्टोपाध्याय, गरतचंद्र कि महल ३००, — प्रभात प्र ४००, — राजपाल २००, — श्यामलाल ४००, — सन्मार्ग ४५०, — सुभाष ४००, — हिंद पा १००  
 गृहदेवी वकील, सूरजभान सा रत्न भ ०.६२  
 गृह प्रवध रा वेणीमाधव ०.६२  
 —प्रवध तथा मातृकला मनोहरलाल, पी रा वेणीमाधव १००  
 —प्रवेश ठाकुर, रवींद्रनाथ प्रभात प्र २००  
 —लक्ष्मी चुवल, गिरिजादत्त 'गिरीज' एस चाद २००  
 —वस्तु चिकित्सा या घरेलू चीजों से इलाज. वैद्य, किशोरीदास सा नि, का १००  
 —विज्ञान अग्निहोत्री, लक्ष्मीदेवी हि प्रचा पु भा १ २००, भा २ १.५०  
 —विज्ञान शिवपुरी रा वेणीप्रसाद भा १ १.७५, भा २ २००  
 —विज्ञान श्रीवास्तव, प्रेम .. कि महल ३.५०

- गृह विज्ञान. सत्यव्रत गां भवन, ड भा. १ ० ७५, भा २.  
१ १३
- विज्ञान एव गिनु कल्याण चुक्ला, सरला सरस्व प्र  
म ५००
- विज्ञान गरीर एव स्वास्थ्य. श्रीवास्तव, प्रेमप्रकाश सरस्व  
प्र म ४००
- विज्ञान शिक्षण शैरी, जी पी विनोद ६००
- शिक्षा सर्वोदय. ० ५०
- शिक्षण. गुप्ता, किरणकुमारी सा रत्न भ भा १ १००,  
भा २ १२५, भा ३ १२५
- शिल्प भटनागर, मुकुमारी कि महल. भा १-३ ० ७५  
(प्र), भा २ ० ८५
- ससद गुरुदत्त पजावी पु ५ ५०, — — स्टार (पा)  
२००
- गृहस्थ श्रम मानवधर्म. ४००
- आश्रम प्रभू आश्रित देहाती ० ५०
- के दैनिक कर्तव्य केसरसूरि श्री आत्मानंद. ० ५०
- गीता श्रीप्रकाश. सा सदन, चि १ २५
- धर्म रामतीर्थ, स्वामी. श्री प्रभाकर २.००
- यूत्र देहाती ६००
- गृहस्थाश्रम विद्यानंद विवेक, स्वामी वेदसस्थान. ० ५०
- की दीक्षा केदारनाथ नवजीवन ० २५
- गृहिणी रामध्यान सिंह 'रीद्र' कन्हैयालाल ३ ७५
- भूषण द्विवेदी, गिरजाशंकर स २ रा वेनीमाधव. ० ७५
- गंजी की कहानी शिवावू, मुरासाकी ज्ञानमंडल ४ ५०
- गेनू काविश, सी एल शमा १००
- गेलाड. नदा गुलशन नवयुग प्र ५ ००, — — स्टार (पा)  
२.००
- गेलीलियो ओमप्रकाश आर्य पीपल्स १ ५०
- गेहू की नेती. जोशी, शंकरराव विनोद १ ५०
- की नेती निगम, वी एस गंगा २ ५०
- की नेती रामेश्वर अशात देहाती ३ ००
- गैन जाच की किताब दसाधी, वी न्यू स्केच ० ७५
- वैरिंग. शर्मा, जयनारायण देहानी. ६ ००
- गोआ अभिषेक. देवदत्त 'अटल' मोतीलाल २ ५०
- गोकरणानिधि राजपाल १ ६०
- गोकुलदास अजमेरी, मुंशी सा सदन, नि ० ४०
- गोमर. उपेन्द्रनाथ 'अस्क' नीलाभ १ ००
- गोमर—मेरे राजनीतिक गुर. गांधी, मोहनदास करमचंद  
नवजीवन ० ५०
- गोद गुप्त. नियारागशरणा. ना सदन, नि २ ५
- गोदान प्रेमचंद सरस्व पे १३ ००, सविप्त ७ ००
- गोदान मधुकर मि पर, का २ ००
- (प्रेमचंद) (पञ्चोत्तर) शर्मा, राजनाथ विनोद २.५०
- राज ध्यान. टटन. प्रेमनागरण. न ०. हि. ना भ.  
२.००
- राज ध्यान (पञ्चोत्तर) मयकांग. रीगल १.००
- दर्शन. श्रीमान भातु' शारदा प्र. (पा.) १.००

- गोदान प्रमत्तरी गाडिल्य, रत्नसिंह सरस्व पु स १ ५०
- समीक्षा शर्मा, रामगोपाल 'दिनेश' अशोक प्र २.५०
- गोदावरी देवराज 'दिनेश' सस्ता ० ४०
- गोदी भरे लाल शर्मा, मुगारिलाल रा वेनीप्रसाद. ०.८१
- गोधूलि गुजन हि भवन ०.५०
- गोधूलि नरेज ग्रथमाला २ ००
- गोधूलि भदौरिया, रामबहादुर सिंह ज्ञानालोक १.००
- गोपा का दान रस्तोगी, विनोद नवयुग प्र ३ ७५
- गोपाल कृष्ण गोखले प्रेमचंद सरस्व प्रे. ० ७५
- गोपालन इ प्रे १ ००
- पालन कालीचरण देहाती ० ५०
- पालन शास्त्र और पशु रोगों की चिकित्सा जोशी,  
गिरीशचंद्र. हि. पु ए २ ५०
- गोपाल भाड ठाकुर, रवीन्द्रनाथ कन्हैयालाल २.७५
- सहसनाम मूल हि पु ए ० ७५
- गोपीचंद न्यादरसिंह 'वेचैन' देहाती ० ७५
- गोपीचंद वडा वालकराम श्यामलाल ३ ५०
- गोपी-हृदय तैयबजी, रैहाना हिंदु प्रचा सभा. १ ००
- गोवर गनेस विद्याभूषण 'विभु' ड प्रे. १ ००
- गैस और हड्डी का खाद ओमप्रकाश सर्वोदय ० ७५
- गोभक्त विनोवा अ भा सर्व ० ५०
- गोभी की खेती रामेश्वर अशात देहाती ० ५०
- गोमती के तट पर वाजपेयी, भगवतीप्रसाद स ३ वसल  
६ ५०
- गोमुख जैन, यजपाल सस्ता ० ४०
- गो रक्षा परम कर्तव्य गो हृन्त्या महा पाप. धर्मदेव  
विद्यावाचस्पति गोविंदराम ० ५०
- गोरखनाथ और उनका युग रागेय राघव आत्माराम. ८.००
- गोरखवानी बड्डवाल, पीतावरदत्त, सपा हि सा मम्मे ६.००
- गोरखाली इतिहास की मुख्य धाराए जयचंद्र विद्यालकार  
हि भवन १ ५०
- गोरा. ठाकुर, रवीन्द्रनाथ अर्चना प्र (पा) १ ००, — —  
प्रभात प्र ६ ००, — — सन्मार्ग ६ ००, — — सा.  
अकादमी ८ ००, — — हिंद पा. १.००
- वध पाडेय, श्यामनारायण. नद व एव नद स. १.००
- वादल त्यागी, सुंदरलाल सस्ता ० ४०
- गोरा (मच रूपांतर) गुप्ता, जीवनलाल, रूपा. साहित्यवाणी.  
२ ७५
- गोरी. गोवर्धनसिंह, मेजर कमल-कुज प्र. ३.००, — —  
नेशनल ३ ००
- नजरो मे हम माचवे, प्रभाकर. रामवीचन (पा)  
१ ००
- , ही गोरी स्फीक हुसैन, मयद प्रचा पा १ ००
- गोरे जीवे काले हम श्यामनंदर 'मुमन'. आदर्श पु. म. २ ००
- गोर्गी की कहानिया गोर्गी, मैनिम कि महल २ ५०
- की श्रेष्ठ कहानिया गोर्गी, मैनिम २ भा. प्रभात प्र.  
३ ०० (प्र)
- गोलकुंडा का किला. सहाय, विश्वभर 'प्रेमी'. सस्ता. ०.४०

- गोलगप्पा-ठाकुर, तृप्तनारायण राष्ट्र पु भ १५०  
 गोल गोल गप्पा सिन्हा, मुकुलकुमार साधना म १५०  
 —निगान कुशवाहा 'कात' गुल्लूप्रसाद एव चिनगारी ४००  
 गोलमाल घोष, कालीप्रसन्न हि पु ए १५०  
 गोल सीढी स्काफ, एल्विन एच एस चाद ४५०  
 गोली चतुरमेन, आचार्य प्रभात प्र ६५०  
 गोलीमनोव माधवसिंह 'दीपक' हिंदिया २२५  
 गोल्डन कट्टाई कला प्रेम देहाती १२५  
 गोविंद ग्रथावली गोविंददास, सेठ २० ख एस चाद ७००  
 —रामायण गोविंदसिंह, गुरु सा रत्न-माला ४००  
 —वल्लभ पत टडन, शिवनारायण सा नि, का. ०३७  
 —हुलास नाटक चंद्रप्रकाश सिंह, कुवर, सपा म स यूनि १०००  
 गोसवर्धन सर्वोदय १५०  
 गो सेवा गाधी, मोहनदास करमचंद नवजीवन १५०  
 —सेवा की विचारधारा वजाज, राधाकृष्ण अ भा सर्व ०५०  
 —सेवा क्यों ? चतुर्वेदी, रमावल्लभ सस्ता ०४०  
 गोस्वामी तुलसीदास चतुर्वेदी, राजेश्वरप्रसाद एस चाद. १५०  
 —तुलसीदास चतुर्वेदी, सीताराम चौखवा. ३००  
 —तुलसीदास शुक्ल, रामचंद्र ना प्र सभा २५०  
 —तुलसीदास श्यामसुंदरदाम इ प्रे १५०  
 —तुलसीदास श्यामसुंदरदास हिंदु एकेडेमी ४००  
 —तुलसीदास सहाय, शिवनदन वि राष्ट्र ५५०  
 —तुलसीदास और अयो-या काड शर्मा, योगेन्द्रनाथ हि सा भ २५०  
 —तुलसीदास और राम-कथा चतुर्वेदी, सत्यदेव हि सा सृजन ५००  
 —तुलसीदास की समन्वय साधना व्यौहार राजेद्रसिंह. भा २. ना प्र सभा ४००  
 —तुलसीदास कृत 'वदी मोचन' मुकनसिंह मगल २००  
 —तुलसीदास व्यक्तित्व, दर्शन, साहित्य भारद्वाज, रामदत्त एस चाद १८००  
 गो हरिराय जी का पद साहित्य मीतल, प्रभुदयाल, सपा. मा सस्थान ५००  
 गौडपामना अ भा सर्व ०१५  
 गौतम नद जगन्नाथप्रसाद 'मिलिद' म ६ कि घर, ग्वा [१५०  
 —बुद्ध नव सा प्र १००  
 —बुद्ध उपाध्याय, भरतसिंह मरता ०४०  
 —बुद्ध जैन, यादवचंद्र उमेश २००  
 —बुद्ध राजवशी, कृष्णमोहन फ्रैंक ०७५  
 —बुद्ध का सदेश अ भा काग्रें ०१६  
 गौमता वसुदेरा रामस्वरूप अ भा सर्व २५०  
 गौरव का प्रतीक मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल. नवयुग प्र ४. ५०  
 —की किरणें जैन, रमेशचंद्र नव-ज्योति प्र १.५०  
 —गाथा. सत, गोकुलचंद्र. औरिएटल. २५०

- गौरवमय भारत शर्मा, राजेश उमेश ५.००  
 गौरवशात्री जीवन एलेन, जेम्स छात्रहितकारी ०७५  
 गोरग महाप्रभु विद्यानद, सरस्वती स २ साधन १५०  
 गौरीशंकर शर्मा, रामानंद कन्याकुमारी  
 गौ सेवा गोष्ठी अ भा सर्व ०५०  
 ग्यारह सपनों का देश जैन, लक्ष्मीचंद्र, सपा भा ज्ञानपीठ ४००  
 ग्रथ वीथिका क मु हिं ख १ १०००, ख २. ७००  
 —सूची त्रिवेदी, रश्मिकांत सांस्कृतिक ५००  
 ग्रथालय आयोजन त्रिवेदी, रश्मिकांत सांस्कृतिक १०००  
 —वर्गीकरण त्रिवेदी, रश्मिकांत सांस्कृतिक १५००  
 —वर्गीकरण के आधारभूत सिद्धांत तिवारी, भास्करनाथ सा नि, व २२५  
 —विज्ञान के सिद्धांत त्रिवेदी, रश्मिकांत सांस्कृतिक १०००  
 ग्रथि पत, सुमित्रानंदन भा भ ०७५  
 —टीका टडन, लक्ष्मीनारायण. हि सा भ १५०  
 ग्रह और नक्षत्र अवस्थी, बी डी राजकमल १२५  
 ग्रहण लगा सक्सेना, कमलेश सा भवन, इ ३००  
 ग्रह नक्षत्र त्रिवेणीप्रसाद सिंह वि राष्ट्र ४२५  
 —नक्षत्र राय, जगदानंद इ प्रे ३००  
 —, राशि, नक्षत्र चतुर्वेदी, जगपति आदर्श पु म. १५०  
 ग्रहो का निर्णय अनिलकुमार हिंदिया २७५  
 —की यात्रा चतुर्वेदी, जगपति आदर्श पु म १५०  
 ग्राम अर्थ-व्यवस्था संभावनाएँ और समस्याएँ श्रीमन्नारायण अ भा काग्रें ०३०  
 —के लिए आरोग्य-योजना भावे, विनोबा अ भा सर्व ०१२  
 —दान भावे, विनोबा सशो स अ भा सर्व १००  
 —दान क्यों ? भडारी, चारुचंद्र अ भा सर्व १२५  
 —पचायत भावे, विनोबा अ भा सर्व ०७५  
 —पचायत शर्मा, राजेद्र राजकमल (अप्रा)  
 —प्रेमी रवीन्द्रनाथ ठाकुर भट्टाचार्य, विवेक मेट्रोपोलिटन. ४००  
 —भारती मजूमदार, धीरेन्द्र अ भा सर्व ०२५  
 —युवक संघटन भारद्वाज, एल पी स. ३ राष्ट्रीय प्र मंदिर ०५०  
 —विकास और वेसिक स्कूल महेंद्रकुमार. रा वेनीप्रसाद. ०८०  
 —विज्ञान गौट, हरिश्चंद्र न्यू लिट. भा १. १.२५, भा. २ १००  
 —विज्ञान त्रिपाठी, राममुमेर न्यू लिट. ०.८७  
 —संघटन पांडेय, रामाचल हिं पु ए १००  
 —संस्कृति का अगला चरण पटेल, भूवरभाई. नवजीवन १.८०  
 —सहयोग समाज के गिविर अ भा. ग्राम १.२५

- ग्राम साहित्य त्रिपाठी, रामनरेश. आत्माराम. भा १. ५.००;  
भा २ ७.००
- सुधार त्रिखा, ओमप्रकाश सस्ता १.२५
- सुधार न्यादरसिंह 'वेचन'. देहाती. ०.७५
- सुधार की एक योजना कुमारप्पा, जो. काँ अ भा. सर्व.  
०.७५
- सुधार नाटक माला. वर्मा, रामकृष्ण भोपाल एव स्वरूप  
१.२५
- सेवक कोहली, तेजासिंह कोहली ४.५०
- सेवक शुक्ल, अमरनाथ. विद्या प्र म ३.५०
- सेवक दल मदारिया, मनमोहन. हि प्रचा पु २.००
- सेवा गाधी, मोहनदास करमचंद सस्ता ०.३७
- सेवा के दस कार्यक्रम दवे, जुगतराम नवजीवन १.२५
- सेवा यो करे. गाधी मोहनदास करमचंद सस्ता ०.३०
- सेविका अमरकांत लोकभारती ४.५०
- सेविका त्रिपाठी, रामनाथ कि महल ०.७५
- स्वराज्य क्यों और कैसे? मजूमदार, धीरेन्द्र. अ. भा.  
सर्व ०.१५
- ग्रामिका गोपालशरण सिंह, ठाकुर इ. प्रे ३.००
- ग्रामीण अर्थशास्त्र भटनागर, ब्रजगोपाल हिंदु एकेडेमी. ४.००
- आदर्श केडिया, वैजनाथ हि पु ए १.५०
- उद्योग धंधे. हरिदास 'सहयोगी' नद ब्र २.५०
- एव नागरिक समाजशास्त्र की विवेचना गौड, जगदीशचंद्र.  
कि घर, ग्वा
- ज्ञानोदय मिश्र, ओकारनाथ छात्रहितकारी १.७५
- मनोविज्ञान रामवचन सिंह सर्वोदय सा. १.००
- महिला और विकास कार्य भा प्रौढ ०.५०
- समाजशास्त्र खरे, पी एन गयाप्रसाद ५.००
- समाजशास्त्र तोमर, रामविहारी सिंह श्रीराम मेहरा.  
१.५००
- समाजशास्त्र त्रिपाठी शंभूरत्न कि. महल. २.५०
- समाजशास्त्र रायपुरिया .. दत्तब्रधु १.२५०
- समाजशास्त्र वात्स्यायन केदारनाथ ८.००
- समाजशास्त्र विश्वमित्र केदारनाथ ६.७५
- हिंदी वर्मा, धीरेन्द्र सा भवन, इ १.५०
- ग्रामो का आर्थिक पुनरुद्धार व्यौहार राजेन्द्रसिंह हि सा. सम्मे  
२.५०
- मे चलाए जा सकने वाले कम सरमाया वाले उद्योग.  
कालीचरण देहाती ०.५०
- ग्रामोदय सर्वोदय १.५०
- ग्रामोदय हरिदास 'सहयोगी' नद ब्र एव नद स ३.२५
- सादी सघ गाधी, कृष्णदास अ भा सर्व ०.२५
- ग्रामोद्योग गाधी, मोहनदान करमचंद. नवजीवन ०.३०
- ग्रामोद्योग गुप्त, शोभालाल सस्ता १.००
- और उनकी शब्दावली गुप्त, हरिहरप्रसाद राजकमल  
६.००
- और पचायत दीक्षित, चंद्रोदय. स २ राष्ट्रीय प्र मदिर.  
१.२५

- ग्रामोद्योग से ग्राम राज्य. जोशी, बाबूराव मानकचंद १.५०
- ग्रामोपयोगी शिक्षा देवनाथ २ भा. कि महल १.५० (प्र.)
- ग्रामोफोन रिपेयरिंग रामअवतार 'वीर' देहाती २.५०
- ग्राम्य अर्थशास्त्र दुबे, दयाशकर रा बेनीमाधव २.००
- अर्थशास्त्र और सहकारिता. भा, जे एन नावल्डी १.५०
- चिकित्सा पाठक, केदारनाथ नद ब्र. ०.६२
- जीवन की कहानिया प्रेमचंद सरस्व प्रे एव हिं. प्र. र  
३.००
- लोक-कथाए मित्तल, महेन्द्र आत्माराम १.२५
- सहकार-समितिया (कार्य-पद्धति और लेखा) हरिदास  
'सहयोगी' नद ब्र ३.५०
- ग्राम्या पत, सुमित्रानंदन भा. भ २.५०
- ग्रिम की कहानिया विष्णुस्वरूप, अनु हि प्रचा पु २.५०
- ग्रीक साहित्य-शास्त्र हरीश करुण भारतेंदु भवन ५.५०
- ग्रीस की महाभारत नेहरू, मोहनलाल इ प्रे. १.००
- की राजकुमारी ईसप श्यामलाल २.००
- ग्रेजुएट पागल. शर्मा, जगदीश देहाती. १.२५
- ग्रेट ब्रिटेन का आधुनिक इतिहास शर्मा, राधाकृष्ण कि. महल.  
(प्रारंभ से १६०३) ४.५०; (१६०३-१८१५) ५.५०;  
(१८१५-१९६१) ५.५०
- ब्रिटेन का आर्थिक विकास कुलश्रेष्ठ, एन एल रामप्रसाद.  
४.००
- ब्रिटेन का इतिहास नारग, कृपालसिंह... एस चाद.  
७.५०
- ब्रिटेन का सविधान गैद, डी. एन. रतन २.५०
- ब्रिटेन का सविधान मल्लिक, योगेन्द्र आत्माराम ४.००
- ब्रिटेन की शासन पद्धति सरन, पी रस्तोगी ३.७५
- ब्रिटेन की शासन प्रणाली त्यागी, एम. एस स ७.  
रस्तोगी. २.२५
- ग्वाल कवि. मीतल, प्रभुदयाल सा. सस्थान ३.००

## घ

- घटा शर्मा, पांडेय वंचन 'उग्र'. हि पु ए १.७५
- घटना चक्र वाजपेयी, वी पी न्यू लिट १.७५
- घटा के घुघरू चतुर्वेदी, रामकुमार 'चंचल' गयाप्रसाद ५.००
- घड़ी की कहानी माहेश्वरी, रमेशकुमार, अनु राजपाल  
२.००
- की कहानी वर्मा, रमेश कि महल २.००
- कैसे बनी वर्मा, रमेशचंद्र हि भवन १.५०
- घटा आनंद, सुरेंद्र स २ आनंद प्र १.५०
- घनचक्र मिश्र, रुद्रदत्त राजहम १.५०
- घनचक्र मिश्र, विश्वनाथप्रसाद वाणी-वितान
- घन-ज्यामिति शर्मा, हरस्वरूप गयाप्रसाद १.५
- घनानंद और स्वच्छंद काव्यधारा गौड, मनोहरलाल ना प्र.  
सभा ८.००
- कवित्त मिश्र, विश्वनाथप्रसाद. नद ब्र ३.७५

- घनानंद कवित्त का काव्य वैभव दीक्षित, प्रकाश विनोद २५०  
 —कवित्त प्रथम शतक मिश्र, चंद्रशेखर नद स ४००  
 —कवित्त शतक (प्रथम आनन) मिश्र, चंद्रशेखर, रूपा वाणी-वितान ४००  
 —कवित्त सटीक गौतम, लक्ष्मणदत्त अशोक प्र ३५०  
 —ग्रथावली मिश्र, विश्वनाथप्रसाद, सपा नद स एव वाणी-वितान ६००  
 — प्रश्नोत्तरी पाडेय, त्रिलोचन सरस्व पु स २५०  
 घर और बाहर ठाकुर, रवींद्रनाथ कल्याणदास ३५०,  
 — —श्यामलाल ३००, — —सन्मार्म, ३५०,  
 — —हिंद पा १००  
 —का नरक गोकर्ण, मैक्सिम राजधानी २००  
 —का भूत पाडेय, कातानाथ 'चौच' चौधरी २००  
 —का वैद्य छोटा ऋषिकुमार देहाती १२५  
 —का वैद्य बडा शुक्ल, अमोलचंद देहाती ७५०  
 —का हिसाब प्रयाग ०६०  
 —की बात अग्रवाल, आगा आर्य बुक ०७५  
 —की बात दर, प्रेमनाथ नेशनल १५०  
 —की रानी पाडेय, छविनाथ ज्ञानपीठ २००  
 —की रानी रामनाथ 'सुमन' साधना सदन २००  
 —की राह वसावडा, इद्र वीरा १७५  
 —की लक्ष्मी ठाकुर, ज्योतिर्मयी न्यू लिट ४००  
 —की लाज श्यामसुंदरलाल चौधरी ३००  
 —की सफाई माया आत्माराम २५०  
 —के बाहर आदर्श पु म १५०  
 —कैसे चले कमलदेव नारायण प्रभात प्र २००  
 —गिरस्ती शकुतलादेवी राजमल (पा) १००  
 —गृहस्थी चौधरी ५००  
 —घर की रानी श्यामलाल २५०  
 —घर मे गाय पारनेरकर, य. म अ. भा. सर्व ०२५  
 —जमाई तेंद्रयाकोव, व पीपुल्स ०५६  
 —जमाई और पूस की रात प्रेमचंद सरस्व प्रे ०५०  
 — जीवन और व्यवस्था ज्ञानपीठ  
 —द्वार शर्मा, राजेश नव सा प्र ३५०  
 —बाहर ठाकुर, रवींद्रनाथ प्रभात प्र ३५०, — — सा केंद्र ३५०  
 —बैठे सैर जरमनी ऋषिराम नीलाभ ०६२  
 —बैठे नैर लदन ऋषिराम नीलाभ ०६२  
 —मे वैसिक शिक्षा वशीधर नद व एव नद म १००  
 घरवाली डे, सतीश देहाती १२५  
 घरेलू इलाज वत्स्य, सतगम नेशनल १२५  
 —इलाज वर्मा, रमेश सा रत्न भ ०७५  
 —औपन्यास वर्मा श्रीकृष्ण हि पु ए १७५  
 —कताई की ग्राम गिनतिया गाधी, कृष्णदाम अ भा सर्व ०७५  
 —कताई की ग्राम बाने गाधी, कृष्णदाम अ भा सर्व १२५  
 —कुदरती इलाज गुप्त, केदान्नाथ छात्रहितकारी १००

- घरेलू दियासलाई ओमप्रकाश सर्वोदय. ०७५  
 —प्रिटिंग प्रेस कालीचरण देहाती ०५०  
 —विजली श्रीवास्तव, भगव-ीप्रसाद शानमडल ४००  
 —विजली रेडियो मास्टर नरेन्द्रनाथ देहाती २५०  
 —वैद्य डाक्टर सपूर्ण रामनारायण देहाती १२००  
 —हुनर वैश्य, जे डी राजकमल (पा) १००  
 घरौंदा रागेय राघव सा प्र ८००  
 घाघ और भड्डरी गगा १५०  
 —और भड्डरी तिवारी, हरिहरप्रसाद स २ कन्हैयालाल. २००  
 —और भड्डरी त्रिपाठी, राममरेश, मपा स. २ हिंदु एकेडेमी १५०  
 —और भड्डरी राय, कमलाप्रसाद स ४ राष्ट्रीय प्र मंदिर १५०  
 —और भड्डरी सपूर्णानंद आनंद पु, वा १५०  
 —और भड्डरी की कहावते सुभाष १५०  
 —और भड्डरी की कहावते द्विवेदी, देवनारायण. ज्ञानमडल १५०  
 —और भड्डरी की कहावते राय, कमलाप्रसाद, सपा हि प्रचा म १५०  
 —भड्डरी की कहावते प्रभात प्र १५०  
 घाट का पत्थर नदा, गुलशन शारदा म ५००  
 —घाट का पानी शुक्ल, कमल अनुपम ४५०  
 घाटिया और घुमाव शर्मा, महेशचंद नेशनल ४००  
 —गूजती है शिवप्रसाद सिंह भा. ज्ञानपीठ ४००  
 घाटी की आवाजे राधाकृष्ण सा सदन, दे २५०  
 —की परिया खलील जिब्रान हि सा स ३१२  
 —मे घिल्डियाल, रमाप्रसाद 'पहाडी' प्रकाशगृह.  
 घायल कृष्णगोपाल आविद' पजाबी पु ४५०  
 घायल प्यारेलाल 'आवारा' चिनगारी ४५०  
 घास की रोटी चंद्रकांत नवेद्र ग्रथालय. १२५  
 घास पात शर्मा, हरिशकर रामप्रसाद २५०  
 घिनौनी तस्वीरे वाजपेयी, प्रेमचंद्र आदर्श पु म १००  
 घिनौने गोविंदसिंह कल्याणदास २००  
 घीग्वार (ग्वार पाठा) के गुण तथा उपयोग शुक्ल, अमोलचंद देहाती २५०  
 घुटी मुस्कान सोमनाथ 'अकेला' राजधानी ३५०  
 घुमक्कड की डायरी कामताप्रसाद सिंह 'काम' पारिजात  
 —शास्त्र राहुल साकृत्यायन कि महल ३०० [२६५  
 —स्वामी राहुल साकृत्यायन क्रि महल ३००  
 घूघट मे गोरी जले कृष्णचंदर राजपाल २००  
 घूमते नक्षत्र महाजन, पुष्पा सा सगम, लु ५००  
 घृत के गुण तथा उपयोग दीक्षित, रामसनेहा देहाती ०८५  
 वरे के अदर गुप्त, मन्मथनाथ पजाबी पु २५०, — — स्टार (पा) १००  
 —के अदर सिन्हा, मुकुलकुमार पु भ, रा १८७  
 घोसला अमता प्रीतम युनिवर्सिटी ४००  
 घोसला साहू, किशोर हिंद पा १.००

घोसता और भटका पक्षी सुरेश. सुरेद्र. २००  
घोडे का चोर पाडेय, छविनाथ कला-नि ०७५  
घोडो की खेती. जहूरवक्श राजहस १५०  
घोर घने जगल मे आनदस्वामी गोविंदराम.

## च

चगेज खा शरण प्रभात प्र ४००  
चचरीक. गुरुदत्त. भा सा सदन ३००, (पा) १००  
चचल आखे गुप्त, राजेश. देहाती ३५०  
—कुमारी. पाडेय, रामाचार्य राष्ट्र प्र म २५०  
चचला वर्मा, रजन आनद पु, वा २५०  
चड अशोक धूमकेतु वोरा ४५०  
चडालिका ठाकुर, रवींद्रनाथ बवई प्र १२५  
चदन और पानी वाजपेयी, भगवतीप्रसाद रणजीत ५००  
—चादनी सौनरेवशा, चद्रीकरण मित्र ४००  
चद वरदायी और उनका काव्य त्रिवेदी, विपिनबिहारी हिंदु  
एकेडमी ८००  
चदसखी का काव्य अमरनाथ ज्ञानलोक २००  
—का जीवन और साहित्य मीतल, प्रभुदयाल सा सस्थान  
५००  
—की जीवनी और पदावली मीतल, प्रभुदयाल, सा सस्थान  
१.५०  
—के भजन और लोकगीत मीतल, प्रभुदयाल, सपा सा  
सस्थान २००  
चद हसीनो के खतूत शर्मा, पाडेय वेचन 'उग्र' हि पु ए  
१७५, — —हिंद पा १००  
चदा वसावडा, इद्र राजकमल २००  
—की मा मालवीय, उमाकात छात्रहितकारी. ०७५  
तारे पाडेय, विष्णुकात. स ३ सा सगम, मो ०६०  
चदामामा वर्मा, तारकेश्वरप्रसाद ग्रथ भ ०७५  
—का देश नौटियाल, सतोपनारायण आत्माराम ४००  
—दूर के श्रीवस्तव, हिमागु कल्याणदास एव वि श कु १२५  
चदायन दाऊद, मौलाना क मु हि ४५०  
चदायन दाऊद, मौलाना हि ग्र र २०००  
चदा सूरज महेशचंद्र सरल सरल १५०  
चदू की चौपाल मनोहर प्रभाकर कल्याणमल १२५  
चदेरी का जौहर मिश्र, आनद आत्माराम २००  
चदेलवश और उनका राजत्वकाल मिश्र, केशवचंद्र ना प्र  
सभा ८००  
चद्रकाता खत्री, देवकीनदन. रामलोचन (पा) १००,  
— —लहरी विशिष्ट स २००, राज म २५०  
—सतति खत्री, देवकीनदन रामलोचन (पा) १००,  
— —६ ख लहरी विशिष्ट स १८००  
चद्र-किरण वर्मा रामकुमार गगा १.५०  
चद्रगुप्त उप्रैती, कुदनलाल रतन ३००  
चद्रगुप्त पाडे, फूलचंद्र कि महल २५० (अप्रा)

चद्रगुप्त. पाडेय, शभुनाथ स ५. विनोद २.५०  
चद्रगुप्त प्रसाद, जयशकर भा भ ३००  
चद्रगुप्त मधुकर कि घर, का २००  
चद्रगुप्त. राय, डी एल स. ४. राष्ट्रीय प्र मंदिर. १.५०  
चद्रगुप्त राय, द्विजेद्रलाल हि ग्र. र. १५०  
चद्रगुप्त शर्मा, जगन्नाथप्रसाद. नद ब्र एव नद स. १००  
चद्रगुप्त श्रीवास्तव, मुरलीधर रा बेनीप्रसाद. १२५  
—, एक अध्ययन. चतुर्वेदी, राजेश्वरप्रसाद रतन. १५०  
— एक अध्ययन टडन, प्रेमनारायण स. ५ हि सा भ.  
२५०  
—चाराक्य उपाध्याय, भगवतशरण. नेशनल १२५  
— प्रश्नोत्तरी शाडिल्य, रत्नसिंह सरस्व पु स १५०  
—मौर्य धूमकेतु वोरा ६००  
—मौर्य मिश्रवधु गगा. ३७५  
—मौर्य लक्ष्मणस्वरूप एस चाद १५०  
—मौर्य और उसका काल मुकर्जी, राधाकुमुद राजकमल  
५००, ८००  
—विक्रमादित्य नगायच, प्रकाश उमेश. २५०  
—विक्रमादित्य मिश्रवधु गगा ५००  
—समीक्षा शर्मा, कृष्णादेव अशोक प्र २५०  
— समीक्षा श्रीलाल 'मानु' शारदा प्र (पा) १००  
चद्रनाथ चट्टोपाध्याय, शरतचंद्र कि महल १२५, — —  
चिनगारी १५०, — —प्रभात प्र २००; — —  
राजपाल २.००, — —श्यामलाल २००; — —  
हिंद पा १००  
चद्रमा की यात्रा कृष्णवहादुर रा बेनीप्रसाद १००  
चद्रलोक चटर्जी, बसंतकुमार सहगल २५०  
चद्रलोक सामर, देवीलाल मानकचद १.५०  
—का कनिस्तान शर्मा, विनोदशकर रूपसी १.००  
—की परिक्रमा. वर्ने, जूले इ. प्रे २७५  
—की यात्रा एस चाद ४००  
—की यात्रा वर्ने, जूले इ प्रे १७५  
—की यात्रा वर्मा, आशाराम अ भा सर्व ०२५  
—की यात्रा वर्मा, रमेश कि. महल २५०  
—की यात्रा. श्रीवास्तव, वैजनाथलाल नद ब्र. एव नद स  
१७५  
—की राजकुमारी जैन, आनदप्रकाश २ भा राजहस  
१५० (प्र)  
चद्र-विचार काटवे, ह ने नागपुर प्र २००  
चद्रशेखर चट्टोपाध्याय, वकिमचंद्र इ प्रे १.००, — —  
रामलोचन. (पा) १००, — —श्री प्रभाकर २.००,  
— —हि. पु ए २.५०, — —हि प्रचा पु १५०,  
— —हि. प्रचा प् २२५  
—आजाद गुप्त, मन्मथनाथ कि महल ०४०  
—'आजाद' पूर्णचंद्र 'सनक' नेशनल २००  
—आजाद वसल, रतनलाल विनोद १.००  
—वेकट रमन कपूर, व्यामनारायण सा नि, का.  
२००



- चंद्र नाखी और उनका काव्य पद्मावती 'शबनम' रामप्रसाद २००  
 —सारिणी गोरखप्रसाद ना प्र सभा २५०  
 चंद्रहार प्रेमचंद सरस्व प्रे २००  
 चंद्रहास उमागकर वहादुर ज्ञानपीठ १२५  
 चंद्रहाम गुप्त, मैथिलीशरण सा सदन, चि १५०  
 चंद्रा श्रीवास्तव, मगलाप्रसाद चिनगारी ३२५  
 चंद्रापीडकथा अनताचार्य रा वेनीमाधव १००  
 चंद्रावली नाटिका वर्मा, कृष्णचंद सरस्व पु स १५०  
 —नाटिका भारतेदु, हरिश्चंद्र विनोद. १५०, — —हि सा म १५०  
 —नाटिका भूषण, प्रो हि सा स १५०  
 —नाटिका मधुकर कि घर, का १५०  
 —नाटिका, एक अध्ययन चतुर्वेदी, राजेश्वरप्रसाद रतन १५०  
 —नाटिका (प्रश्नोत्तर मे) राकेश विनोद २५०  
 —नाटिका (भारतेदु हरिश्चंद्र) मिश्र, रामचंद्र हि सा स १५०  
 —नाटिका (भारतेदु हरिश्चंद्र) शुक्ल, बीरेन्द्रकुमार, सपा रा वेनीप्रसाद १२५  
 चपाकली जैन, ऋषभचरण ज्ञान प्र ३००  
 चपा के फूल. कौशिक, राधेश्याम 'अधीर' कल्याणमल १२५  
 चपारण और नसि के घन्ने गुप्त, विध्याचलप्रसाद ग्रथ भ २००  
 चपारन महात्मा गांधी राजेद्रप्रसाद आत्माराम ५००  
 चपावत की लोक-कथाए मटियानी, शैलेश आत्माराम १५०  
 चपू भारत अनंत कवि शस्ता ०४०  
 —रामायणम् विप्रदास, प र गयाप्रसाद ११०  
 चवल की कहानी वाम, शंकर सस्ता ०४०  
 —के किनारे सुमेरसिंह 'दइया'. मनोरमा ३००  
 —के वेहडो मे भट्ट, कृष्णदत्त अ भा सर्व सक्षिप्त १५०, सपूर्ण २५०  
 चकवदी और किसान सुधाकर रामा प्र १२५  
 —चयो और कैसे ? रामजीलाल शास्त्री विनोद ०५०  
 चकल्लस (अवधी भाषा मे) दीक्षित, बलभद्र 'पढीस' गगा २५०  
 चकाचक कुटिलेश हि प्रचा पु. १५०  
 चक्कर क्लव यशपाल विप्लव ३००  
 चक्रकात पत, गोविंदवल्लभ भा भ ३००  
 चक्रभेद इ प्रे १५०  
 चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य चतुर्वेदी, राजेश्वरप्रसाद विनोद ३००  
 चक्रवान रामधारी सिंह 'दिनकर' उदयाचल १०००  
 चक्रव्यूह कुवर्नागरण राजकमल ३५०  
 चक्रव्यूह मिश्र, नरसीनारायण कौशावी १७५

- चगताई की कहानिया चगताई, अजीमवेग २ भा छात्र-हितकारी १५० (प्र), — —पुष्पी ०७५, — —सुरेंद्र २००  
 चचा छक्कन इमत्याज अली 'ताज' हस १५०  
 —छक्कन के ड्रामे जैदी, कुदीसिया २ भा राजकमल १०० (प्र)  
 चट्टान रामइकवाल सिंह 'राकेश' ग्रथमाला २५०  
 —और ठोकरे हलधर अशोक पु म ३००  
 —और धारा महावीरप्रसाद सा केद्र ४००  
 —का फूल चोपडा, मोहन आत्माराम २५०  
 चट्टाने परदेशी एस चाद ३००  
 चट्टानो के बीच प्यारेलाल 'आवारा' रूपसी ६००  
 चढती धूप—उतरती छाया भाग्योदय (पा) १००  
 चढाव-उतार वासुदेवनारायण 'आलोक' अभिज्ञान ४१२  
 चतुरग ठाकुर, रवींद्रनाथ कि महल २००, — — विश्वभारती १५०  
 चतुर चिडिया, उपाध्याय, रामनारायण लोक चेतना १००  
 चतुराई की कहानिया स्नेहलता सस्ता ०४०  
 चतुरी काका श्यामबिहारी विगगी' राष्ट्र प्र म २५०  
 —चमार त्रिपाठी, सूर्यकांत 'निराला' कि महल १५०  
 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियो सबधी मसौदे केंद्रीय ०५०  
 चतुर्दश लोकभाषा-निवधावली वि राष्ट्र ४२५  
 चतुर्मुखी ब्रजकिशोर 'नारायण' पारिजात २००  
 चतुर्युग प्रभात शास्त्री, सपा कौशावी १२५  
 —की कुजी विष्णुदत्त रीगल १२५  
 चतुर्वेदीजी विद्यार्थी, रमेन्द्रप्रसाद सिंह विद्यार्थी ०७५  
 चन्नमा वाम, शंकर हिंदिया ०७५  
 चमकता ससार त्रिपाठी, रामभरोसे सन्मार्ग २००  
 —सितारा . चुभन भरा काटा पत, सुभाष हि सा भ २.५०  
 चमकते तारे सत, गोकुलचंद्र ओरिएटल ०७५  
 —चमकते महकते मोती शर्मा, हरिश्चकर गयाप्रसाद ०.७५  
 —सितारे ओकार, वावरा हि प्रचा पु १५०  
 —हीरे शर्मा, कृष्णस्वरूप सा सदन, दे १५०  
 चमकी चगताई, अजीमवेग कि महल २०० (अप्रा), — —प्रभात प्र ३००  
 चमचम मके चदा मामा पालीवाल, बाबूराम राजकमल १०  
 चमडे - रगाई छपाई कालीचरण देहाती ०५०  
 चमत्क कि अनुभूतिया सतराम प्रचा पा १००  
 चमत्क तावीज व्यास, श्रीकांत अनु राजपाल १५०  
 —वा . देवीप्रसाद, मुसिफ इ प्रे ०.५  
 चमत्कारो की दुनिया सतराम विश्वेश्वरानंद ०७५  
 चयन त्रिपाठी, सूर्यकांत 'निराला' कल्याणदास ४००  
 चयनिका चंद्रप्रकाश सिंह, कुवर म स यूनि २००  
 चयनिका सिन्हा, अ क पु भ ०७५  
 चरक सहिता. आर्य सा ५००

- चरक संहिता गुप्त, अत्रिदेवी. ३ भा आर्य सा ८.०० (प्र.)  
 —संहिता जयदेव विद्यालकार. स. ६ २ भा. मोतीलाल  
 ३०.००  
 —संहिता भापा भाष्य. वशिष्ठ, विनयचन्द्र ३ ख. आर्य सा  
 २४.००  
 चरखा सघ का इतिहास. जाजू, कृष्णदास... अ. भा. सर्व  
 ५.००  
 —सघ का नव सस्करण अ. भा. सर्व १ ००  
 चरणो मे सकसेना, शभूदयाल नवयुग ग्र कु ४.००  
 चरनदास दीक्षित, त्रिलोकीनारायण हिंदु एकेडेमी १०.००  
 चरवाहा हरिनारायण विद्रोही. तुलसी २ ००  
 चरवाहे उपेद्रनाथ 'अस्क'. नीलाभ. ३ २५  
 चरवाहो का देश. त्रिपाठी, जयशकर कौशाबी २.००  
 चरित नायक शरद्, अनु रामप्रसाद २ ५०  
 चरित्र और चट्टान प्रताप चौधरी २ ५०  
 —के न्यायी दत्त भारती पजाबी पु ३ ५०  
 —गठन और मनोबल. ट्राइन, राल्फ वाल्डो हिं ग्र र. ०.३७  
 —गत लक्षण लहरी ० ७५  
 —चित्तन पाडे, छविनाथ हिं पु. ए. २.००  
 —निर्माण विद्यानद विदेह, स्वामी. वेदसस्थान ० २०  
 —निर्माण शर्मा, मुकुददेव नद ब्र. १ ००  
 —निर्माण शुक्ल, रामशकर 'रसाल' रा वेनीप्रसाद १.००  
 —निर्माण सत्यकाम विद्यालकार राजपाल २ ५०  
 —निर्माण की कथाए श्रीवास्तव, हिमाशु सन्मार्ग १ २५  
 —निर्माण की कहानिया राजबहादुर सिंह आत्माराम १ ५०  
 —निर्माण की कहानिया व्यथितहृदय छात्रहितकारी १ ५०  
 —निर्माण की कहानिया व्यास, लल्लनप्रसाद शकुन १ २५  
 —निर्माण कैसे करे ? स्माइल्स, सैमुअल. सुबोध प्र ३.००  
 —प्रकाश. उपाध्याय, अयोध्यासिंह 'हरिऔध' रा. वेनीमाधव  
 १ ००  
 —प्रदीप शर्मा, जयविजयनारायण सिंह. रा वेनीमाधव  
 ० ७५  
 —विकास. निर्मलचन्द्र- नेशनल. १ ५०  
 —विकास शर्मा. जयविजय नारायणसिंह रा वेनीमाधव  
 १ ००  
 —सपत्ति मल्लिक, गो अ भा सर्व ० ७५  
 चरित्रहीन चट्टोपाध्याय, शरतचन्द्र प्रभात प्र ६ ००, — —  
 राजपाल २.००, — —श्यामलाल ६ ००, — —  
 सन्मार्ग ६ ००, — —हिं पु ए ५ ५०, — —  
 हिं. प्रचा म ६ ००, — —हिंद पा. १ ००  
 —के पत्र. त्यागी, रामावतार नव सा प्र २ ००  
 चरित्रावली श्रीचद रामपुरिया, सपा जैन श्वेतावर १.००  
 चर्खा सघ पाडेय, रामाचल रा वेनीप्रसाद ० ३७  
 चर्म कला शिक्षण गुप्त, मानकचद विनोद १ २५  
 —बनाने के सिद्धांत अरोडा, देवदत्त हिंदु एकेडेमी ६ ००  
 —रोग चिकित्सा चौबे, प्रियकुमार मेडिकल २ ००  
 —विज्ञान पाठक, कृपानारायण. रा वेनीप्रसाद ०.३७  
 चलचित्र. चिल्डियाल, रमाप्रसाद 'पहाड़ी' प्रकाशगृह ६.००

- चलता-पुर्जा. पाडेय, छविनाथ. कला-नि. २.५०  
 चलती पिटारी पाडेय, रामदीन गगा २ ५०  
 —फिरती दीवारे प्यारेलाल. श्री भा. भारती ४ ५०  
 चलते-चलते वाजपेयी, भगवतीप्रसाद एस चाँद  
 —फिरते चकले वाजपेयी, प्रेमचन्द्र आदर्श पु म. १ ५०  
 चलन कलन, खन्ना, एम एल एस. चाँद. १ २५  
 —कलन का सरल अध्ययन. अरोडा, दीवानचद सुरेश.  
 ० ७५  
 चलनी मे अमृत मार्कडेय... अपर ४.५०  
 —मे अमृत यशपाल प्रभात पब्लि. ४ ५०  
 चल मस्तानी चाल. रामगोपाल परदेसी प्रगति प्र. ०.५०  
 —मेरे मटके टम्मकटम् भारद्वाज, एल. पी स. २. राष्ट्रीय  
 प्र मंदिर १ ५०  
 चलराशि कलन गुप्त, हरिश्चन्द्र हिं. सा. सम्मे. ४.००  
 चली हो गगा होरी सुरेद्रपाल नीलाभ.  
 चले आ रहे है व्यास, गोपालप्रसाद आत्माराम. ४ ००  
 —चलो. दुवे, रामेश्वरदयाल मयूर ०.७५  
 चलो, चले मगरौठ. भट्ट, कृष्णदत्त अ भा सर्व. ० ७५  
 —बादलो मे छिप जाय. सिन्हा, योगेद्रनाथ अभिज्ञान  
 २.००  
 —यात्रा करे परसाई, हरिश्कर सा भवन, इ. १ ००  
 —सिपाही चलो स्टार (पा.) १ ००  
 चवन्नी वाले नौटियाल, सतोषनारायण आत्माराम १ ५०  
 चाँद इतना हसा सिरोठिया, शकुतला. कि महल. ३ ००  
 —और टूटे हुए लोग. धर्मवीर भारती कि महल. ३ ००  
 —और तारो की कहानी. वैष्णव, यमुनादत्त 'अशोक' रा.  
 वेनीप्रसाद १ २५  
 —, और मै, और तू. प्यारेलाल 'आवारा' रूपसी ३ ००  
 —का मुह टेढा है मुक्तिबोध, गजानन माधव भा ज्ञानपीठ.  
 —का सफर पंडित, प्रकाश. राजपाल ०.७५  
 —की चादनी. भारद्वाज, कृपाशकर. नवयुग प्र. ५ ००  
 —की यात्रा. मेलाराम 'वफा' ३ भा. नेशनल ३ ००  
 —की यात्रा और राकेट. अग्रवाल, हरीश. कि महल. ० ७५  
 —के वीराने मे वर्मा, रमेश. प्रभात प्र ३ ००  
 —खो गया. शर्मा, शकुंतला त्रिवेणी २.५०  
 —चादनी और रात. बाकेविहारी कल्याणदास. ४ ५०  
 —तारा विद्याभूषण 'विभु'. सा भवन, इ, १.५०  
 —नही दीक्षित, सुरेद्रकुमार राष्ट्रीय प्र. मंदिर. २.००  
 चादनी खाडेकर, वि स देशमुख ७ ००  
 चादनी जाफरी, रईस अहमद ऐडी ४.३०  
 चादनी. सोमनाथ 'अकेला'. चौधरी. २ ५०  
 —के खडहर गिरिधर गोपाल सा. भवन, इ. ३.००  
 —चूनर. माथुर, शकुत सा भवन, इ ३ ००  
 —महकती है. देवदत्त प्रगति प्र. १.००  
 —रात और अजगर उपेद्रनाथ 'अस्क'. नीलाभ ३ २५.  
 —राते भगतसिंह हेमकुट. १.५०  
 चाँद बोला. मिश्र, द्विजेद्रनाथ 'निर्गुण'. मित्र. २.००  
 —रानी. सगर, सत्यप्रकाश. राजकमल. २.५०

चाद सितारे उपाध्याय, अयोध्यासिंह 'हरिऔध' हि प्रचा पु १ २५

—मितारे ठाकुर, रवींद्रनाथ सहगल २ ५०

—से आगे शर्मा, ओमप्रकाश जकुन १ ००

—से नीचे रामावतार चेतन हि भवन ३ ००

चादी का घाव कृश्नचंदर राजपाल ४.५०

—का जाल द्विवेदी, एम एन आदर्श पु म १ ००

—का जूता शर्मा, जगदीश देहाती १ २५

—का बटन व्य न, श्रीकांत, अनु राजपाल १ ५०

—के तार महेंद्रनाथ नेशनल ३ २५

—के सिक्के प्यारेलाल 'आवारा' रूपसी ३ ७५

चापा डागा की बहू बन्नीपाध्याय, ताराशंकर अशोक पु म ३ २५

चाक्रवती स्लेट पैसिल बनाना कालीचरण देहाती २ ५०

चाकलेट शर्मा, पांडेय क्षेत्रन 'उग्र' चिनगारी ३ ५०

चाचा की चमत्कारी पगडी भारतदाम, जे राजकमल ६ ६०

—के आजा दीप वर्मा, सावित्रीदेवी प्रार्थ बुक १ ५०

—चदेल और चादी का पेड रात्रिन शा 'पुष्प' हेमकुट १ ५०

—चाग-चाग स्वर्ण गंगा ० ७५

—नेहरू पांडेय, विष्णुकांत स २ सा रागम, मो १ ५०

—नेहरू मेहरोत्रा, राजेंद्र सा नि, व ० ७५

—नेहरू सकमेना, शेखरचंद्र नवयुग ग्र कु १ ००

—नेहरू के गीत निरकारदेव 'भिवरु' रा वेनीप्रसाद १ २५

चाणाय रामदाशक शास्त्री हि प्रचा पु १ ००

—और चंद्रगुप्त आप्टे, हरिनारायण राजपाल ४ ००

—नीति विष्णुदत्त देहाती १ २५

—नीति दर्शन मोनीनाथ ० ३७

—महान् ज्यामनुदर 'सुमन' भाग्योदय २ ००

चातकी मिश्र, दयाशंकर राजहम ३ ५०

चातुर्मास विवरण डूंगरवाल, लिखमीचद, सप्रा जैन श्वेतावर ० २५, १ २५

चानण-चिराग प्रकाश माथी आत्माराम २ ००

चापरा गाव प्रथम प्राया मखीजा हेमराज आत्माराम २ ५०

चावुक हि प्रचा म १ ७५

चामुडा शर्मा, मीताराम कला-भा २ ००

चार अध्याय ठाकुर, रवींद्रनाथ ड प्रे १ ५०, — — प्रभात

प्र २ ००, — — श्यामलाल २ ००, — — हिंद पा १ ००

—अभिनव एकाकी भारद्वाज, श्रीकृष्णदत्त कि घर, ग्वा १ ७५

—आखे आनंदप्रकाश कि घर, ग्वा ५ ००

—उपन्यास जोगी, इलाचंद्र रा वेनीप्रसाद

—ऐतिहासिक एकाकी वर्मा, रामकुमार सा भवन, इ २ ००

—कहानिया नूदर्शन हि ग्र र ३ ५०

—नेणे चौमठ सूटे हनुमन्तराय 'बन्धन' राजपाल ४ ००

—चरन गौड़, नरखण्डा हि पु ए ० ५०

चारण चतुर्वेदी, श्रीनारायण ड प्रे ० ३१

—चलने द्यूमा, अनेकजेंडर नेशनल

चारदरवेश बलवतसिंह राजकमल (पा) १ ००

—दिल चार राहे अहमद अब्बाम, खाजा नीलाभ ३ २५

—दीवारी मदारिया, मनमोहन लोक चेतना २ ००

—पत्तिया काल्वर, ऐनी पजाबी पु २ ५०, — — स्टार पा १ ००

—परते प्रकाशवती राजपाल ३ ००

—पापी सूरिदेव, रजन कला-नि १ ५०

—पाटिया नौटियाल, सतोषनारायण भा ज्ञानपीठ २ ००

—प्रमुख देशो की शासन प्रणालिया श्रीवास्तव, के विनोद ६ ००

—यार चौधरी, प्रमथ हि ग्र र १ ५०

—लाल दुभक्करुड जगन्नाथ प्रभाकर नेशनल ० ७५

—श्रेष्ठ उपन्यास कृश्नचंदर प्रगतिशील ७ ००

—श्रेष्ठ पुस्तके आनंद, मुल्कराज प्रगतिशील १० ००

—सौ वीस राधाकृष्ण अभिज्ञान १ ८७

—सौ वीस शौकत थानवी सहगल ३ २५

चारादाना गुप्त, परमेश्वरीप्रसाद सस्ता ० २५

चारिका द्विवेदी, शांतिप्रिय राष्ट्रीय प्र मंदिर २ ५०

चारु चंद्रलेख द्विवेदी, हजारीप्रसाद राजकमल १ २ ००

—चयनिका सत, धर्मचंद औरिएटल ३ ००

—चरित चर्चा विश्वनाथ सिंह रा वेनीमाधव ० ५०

—चरित्र भटनागर, आनंदी लक्ष्मी ना १ २५

—चर्या देवदत्त शास्त्री चौखवा २ ००

चारचित्रा कैलाश कल्पित पुष्पी २ ००, — — सुरेद्र ५ ००

चारदत्त मिश्र, ठाकुरदत्त कि महल १ ५०

—चरित्र विनय कुमार 'पथिक' श्री भा दिगवर ० ३१

चारुमित्रा वर्मा, रामकुमार साधना सदन ३ ००

—आलोक मल्लिनाथ नाँवल्डी २ ००

चारुलता गुप्त योगेश ज्ञान प्र २ ५०

चारुलता ठाकुर, रवींद्रनाथ कि महल २ ००, — —

श्यामलाल २ ००, — — सुरेद्र २ ००

चागे धाम माहात्म्य विशाल मणि नारायण श्यामलाल १ ००

—वेदो का सरल भाषा-भाष्य शर्मा, जयदेव, अनु १ ४ ख

चालन गाडी तरुणभाई सर्वोदय सा ० ७५

चालमुग्रा वेदी, रामेश आत्माराम १ ७५

चालाक खरगोश कृश्नचंदर ववई प्र १ ५०

—खरगोश गर्ग, किशोर स ३ रानी १ ५०

—खरगोश शिवमूर्तिसिंह 'वत्स' प्रभात प्र १ ००

—भैस रमेश भाई आत्माराम ० ५०, — — एस चाद ० ६२

चालीम कहानिया रामगोपाल परदेशी, सपा प्रगति प्र ४ ००

चितन सहाय, हरनाथ अशोक प्रे १ २५

—और कला जयनाथ 'नलिन' एस चाद ३ ५०

—और ग्राहित्य इस्सर, देवेद सा प्र २ ५०

—कण मिश्र, चंद्रजेखर वाणी-विनान ८ ००

—के नये चरण देवदत्त शास्त्री चौखवा ६ ००

- चित्तन मनन मिश्र, दुर्गाशंकर, सपा सा. सदन, दे ७००  
 चित्तनीय बाते विवेकानंद, स्वामी श्रीरामकृष्ण १३०  
 चिता. केनेडी, जान. राजकमल १२५  
 —कण मिश्र, चदुशेखर नद स २५०  
 —की लहर श्यामनारायण प्रसाद. नद ब्र. एव नद स १५०  
 —छोडो सुख से जियो. राय, रायसिंह डी बी तारापोरवाला ६००  
 चितामणि मधुकर कि घर, का २००  
 चितामणि शुक्ल, रामचंद्र इ प्रे ३००, — — नद. ब्र ४००  
 —, एक अध्ययन चतुर्वेदी, राजेश्वरप्रसाद रतन १५०  
 —१ मथन मिश्र, दुर्गाशंकर हि सा भ ३५०  
 —चित्तन सिधल, ओमप्रकाश हि सा स २५०  
 —दर्शन टडन, हरिहनाथ स ५ विनोद ३००  
 —दर्शन श्रीलाल 'भानु' शारदा प्र (पा) १००  
 —विवेचन कृष्णलाल अशोक प्र २५०  
 चिता-मुक्त कैसे हो? मार्डन, स्वेट सुबोध प्र २२५  
 चिक चिक मुवारक अली मिश्र-बधु ०८७  
 चिकने पत्थर रजीत राही मजीत ४००  
 चिकित्सा की प्रगति फ्रीमैन राजकमल २००  
 —चमत्कार जसवतसिंह. स २. नेचर ५६५  
 —विज्ञान कोश सेनगुप्त, एस सी. हि सा सम्मे ७५०  
 चिकोटी. मिश्र, इन्द्रशंकर नद ब्र एव नद स १६४  
 चिट्ठी पत्री प्रेमचंद हस ख १७००, ख २८००  
 —रसैन मटियानी, शैलेश आत्माराम ४५०  
 चिडिया जीनी राजा हारा गौरीशंकर 'लहरी' सस्ता १००  
 चिडिया की तिग्गी विन्डियम्स प्रभात पब्लि २७५  
 —की तिग्गी वेलेटाइन अपर २७५  
 —खाना सुरेशसिंह, कुवर ग्रथमाला १७५  
 —घर अमृता प्रीतम सा सगम, लु १५०  
 —घर पंडित, प्रकाश राजपाल ०.७५  
 —घर. शर्मा, हरिशंकर गयाप्रसाद २५०  
 —घर की सैर गर्मा, पृथ्वीनाथ. आत्माराम १५०  
 —घर के नन्हे मुन्ने चापलीना, बेरा पीपुल्स १५०  
 चिडियो का दरवार. प्र विभाग १.५०  
 —की बाते गौड, पुरुषोत्तदास 'कोमल' रामा प्र २.५०  
 चिडी के गुलाम वर्मा, केशवचंद्र कि महल २५०  
 चितकबरा फेटा पाडेय, छविनाथ नद ब्र एव नद स ३५०  
 चितचोर ज्वालाप्रसाद 'केशर' चिनगारी २.५०  
 चितवन प्यारेलाल 'आवारा' चौधरी ४००  
 चिता कुशवाहा, यशोदादेवी चिनगारी १५०  
 चिता सारस्वत, ओमानंद रू सरस्व पु स १००  
 चिताए ज्वालाप्रसाद 'केशर' चिनगारी १५०  
 चिता की धूल. तागडी, अन्नपूर्णा हि सा भ २५०  
 —की राख सुशील चौधरी ४००  
 —के फूल रामवृक्ष बेनीपुरी राष्ट्रीय प्र मडल एव राष्ट्रीय सा स. ३.००  
 चित्तोर का साका. रामधारीसिंह 'दिनकर'. उदयाचल. १००

- चित्तौडगढ की रानी उमाशंकर उमेश २००  
 चित्र एक पहलू अनेक मधुर चौधरी ४००  
 —और चरित्र श्रीवास्तव, हिमाशु सुभाप. ५००  
 —और चितन द्विवेदी, शातिप्रिय. चौखवा २५०  
 चित्रकथा भूषण . सर्वोदय सा. ०७५  
 चित्रकला उपाध्याय, अरवध हि सा. सम्मे १००  
 —का इतिहास कादरी, मुहम्मद असगरअली रामप्रसाद २००  
 —का रसास्कादन शुक्ल, रामचंद्र हि प्रचा पु ६००  
 —तथा दस्तकारी सुशीलादेवी रा बेनीमाधव ०३७  
 —पाठन शनी श्रीवास्तव वैजनाथलाल नद ब्र एव नद स १५०  
 चित्रकार रणवीर आत्माराम ३००  
 चित्रकार शर्मा, श्रीराम राम' नेशनल ४००  
 —की बटी सूरिदेव, रजन कला-नि १५०  
 चित्रकारी अथवा मुमव्वरी दाम, जे सी देहाती ४५०  
 चित्र का शीर्षक यशपाल विप्लव ३००  
 चित्रकूट त्रिवेदी, रामानंद विनोद १२५  
 चित्रकूट. मिश्र, लक्ष्मीनारायण रा बेनीप्रसाद २५०  
 चित्रकूट सहाय, विश्वभर 'प्रेमी' सस्ता ०४०  
 —के पथ पर. श्रीवास्तव, देवकीनंदन हि सा भ १२५  
 चित्रज्ञान का साराण रामकवार आत्माराम २५०  
 चित्र-दर्शन धूलिया, डी पी इ प्रे १०००  
 चित्रपट सकसेना, शंभूदयाल नवयुग ग्र कु ४००  
 चित्रमय गांधी व्यास गोपालप्रसाद आत्माराम १००  
 —बाल कहानिया रजनीश विचित्र एस चाद ०७५  
 —हरिश्चंद्र हि पु ए ११२  
 चित्ररेखा (जायसी कृत) पाठक, शिवसहाय, सपा हि प्रचा पु २५०  
 चित्ररेखा वर्मा, रामकुमार हि सा सम्मे १५०  
 चित्ररेखा श्रीकृष्ण 'मायूस' राज पब्लि ३५०  
 चित्र लक्षणा शुक्ल, द्विजेंद्रनाथ श्री भा भारती १०००  
 चित्रलेखा वर्मा, भगवतीचरण भा भ ३००  
 —अध्ययन चौधरी, रामखेलावन हि सा भ. १५०  
 —आलोक मल्लिनाथ नॉवल्टी १५०  
 —परिचय शर्मा, राजनाथ विनोद ०७५  
 चित्र-विचित्र शर्मा, पाडेय वेचन 'उग्र' आत्माराम ३००  
 चित्रशाला गर्मा, विश्वभरनाथ 'वैशिक' गगा २२५  
 चित्रागदा अजमेरी, मुशी, अनु सा सदन, चि ०७५  
 चित्रागदा ठाकुर, रवींद्रनाथ राजपाल २००  
 चित्रा द्विवेदी, सोहनलाल अरवध २००, — — इ प्रे २३१  
 चित्रा. हरिशंकर, सपा हि सा भ. २००  
 चित्राधार प्रसाद, जयशंकर भा भ ३००  
 चित्रावली-'उसमान'. वर्मा, सत्यजीवन, सपा रा बेनीमाधव. १२५  
 चित्रो मे दुनिया भा १ ओरिएट १२५  
 चिदवरा पत, सुमित्रानंदन. राजकमल. १०००  
 चिद्विलास. सपूर्णानंद. स. ३ ज्ञानमडल. ५.००

- चिनगारी चद्रप्रकाश भाग्योदय २००  
 चिनगारी पाडेय, छविनाथ ग्रथमाला ३५०  
 चिनार के पत्ते दर, मोहनदृष्ण आत्माराम १५०  
 चिरकुमार-नभा ठाकुर, रवीन्द्रनाथ प्रभात प्र ४००  
 चिर जुहार पट्टनायक, बालकृष्ण राष्ट्र पु भ १००  
 चिरस्पर्श मिश्र, केदारनाथ 'प्रभात' राष्ट्रीय प्र मडल एव  
 राष्ट्रीय सा स १५०  
 चिराग की लौ शर्मा, रेवतीसरन नेशनल २००  
 चिराग जलते हैं जैन, देवेन्द्र रूपकमल ३००  
 —तले अहमद अब्बान, रवाजा आत्माराम २५०  
 चिलमन के पीछे गौकत थानवी पुष्पी ०७५, —सुरेद्र  
 २००  
 चिलिका. राय, राधानाथ सा अकादमी १५०  
 चीटी-चीटो की कहानी चतुर्वेदी, जगपति कि महल २००  
 चीटो का बदला स्वदेशकुमार आत्माराम १२५  
 चीन्वती दीवारे भा, रमेशचन्द्र चौधरी १५०  
 चीखे प्यारेलाल 'आवारा' रूपसी २५०  
 चीडो पर चादनी वर्मा, निर्मल भा जानपीठ ३००  
 चीन. दि लायत्रेरी ०६२  
 चीन शर्मा ओरिएटल १२५  
 —कल और आज परिणकर, के एम जानमडल. ५००  
 —का भाग कृष्णाकिंकर सिंह सा भवन, इ ८००  
 —का विश्वासघात गाह, शभुप्रसाद मन्ता ०६०  
 —का सविधान गुप्ता, ओ पी केदारनाथ १००  
 —की कहानिया आनन्द सा सगम, लु भा १-२ १२५  
 (प्र), भा ३५ १०० (प्र)  
 —की कहानिया जगन्नाथ प्रभाकर नवयुग प्र १००  
 —की लोक कथाए रमेशचन्द्र 'प्रेम' कि महल १५०  
 —की लोक-कथाए वर्मा, सत्यभूषण बाल मदन १२५  
 —की लोक-कथाए हमराज 'रहवर' आत्माराम १२५  
 —की शासन पद्धति मरन, पी रस्तोगी २००  
 —को चुनौती क्षेमचन्द्र 'सुमन', मपा राजपाल २००,  
 (पा) १००  
 —को चेतावनी रुद्र काशिकेय, मपा प्रचा पा १००  
 —गणराज्य और जापान का नविधान गैद, डी एन  
 रतन २००  
 —भारत सीमा सघर्ष भावे विनोवा अ भा सर्व ०५०  
 —मे क्या देखा राहुल, साकृत्यायन चीन मे क्या देखा  
 पीपुल्स ४००  
 —यात्रा सस्मरण पालीवाल, हरिदत्त 'निर्मय' शारदा  
 नाथना ३००  
 चीनी जनता के बीच जैन, जगदीनचन्द्र पीपुल्स. ४००  
 —चोच कथाए फेड नू-फेड हि भवन २२५  
 —चौद्धर्म का इतिहास चाऊ नियाग कुआंग भा भ ७५०  
 —मिट्टी का उद्योग ओमप्रकाश सर्वोदय ०६२  
 —हमला जर्मादार, नि छ नाहिन्यालय १००  
 चील और चट्टान दुगल, कतारनिह नाहनी ४००  
 —का घोषणा हाडा, राजेंद्रलाल कि. महल २५०

- चीवर रागेय राघव कि महल ५००  
 —धारिणी सक्सेना शंभुदयाल नवयुग ग्र कु २५०  
 चुबकत्व एव विद्युत्त्व खरे . आत्माराम  
 —और विद्युत् सेठी, निहालकरणा हिंदु एकेडेमी १६००  
 चुबको का घर चतुर्वेदी, भगवतस्वरूप राजकमल (पा)  
 १००  
 चुवन और चाटा राधिकारमण प्रसाद सिंह, राजा असोक प्रे  
 ५००  
 चुटकिना श्रीवार्त्तव, जी पी जानमडल एव भा प्र मडल  
 २५०  
 चुटियावाले चाचाजी मिश्र, दयाशकर 'दहा' राजहस १५०  
 चुनाव घोषणा-पत्र—१९६२ अ भा काम्रस ०१०  
 चुनी हुई कहानिया गोकर्णी, मैक्सिम पीपुल्स २६२  
 चुने फल आचार्य, पद्मनारायण, सपा ना प्र सभा २५०  
 —हुए एकाकी नाटक बाहरी, हरदेव श्री भा भारती ३००  
 —हुए फूल म न हि भवन १००  
 चुनौती पिल्लै, तकपी शिवशकर आत्माराम २५०  
 चुनू-मुनू सरस्वतीकुमार 'दीपक' आत्माराम २००  
 चुभते चौपदे उपाध्याय, अयोध्यासिंह 'हरिऔध' स २ हि  
 सा कु २००  
 चुहल गौकत थानवी पुष्पी १५०, —सुरेद्र ४००  
 चुहिया राजकुमारी बालकृष्ण रणजीत ०७५  
 चू चू भगतसिंह हेमकुट १५०  
 चू-चू मिश्र, दयाशकर 'दहा' राजहस १००  
 चक और गेक गैदर, अकादी पीपुल्स १२५  
 चडालोपास्यान लक्ष्मीधर शास्त्री एस चाद २००  
 चडिया कुगवाहा 'कात' चौधरी ५००  
 —टूटती रती बाजपेयी, प्रेमचन्द्र आदर्श पु म १५०  
 चूनाघाटी पाडेय, कातानाथ 'चोच' चौधरी २२५  
 चूर्ण भंडार रामनारायण देहाती १.२५  
 चैखव की श्रेष्ठ कहानिया २ भा प्रभात प्र ३०० (प्र)  
 —के तीन नाटक यादव, राजेद्र भा जानपीठ ४००  
 चेतन. उपेन्द्रनाथ 'अशक' नीलाभ ६७५, सक्षिप्त ३५०  
 — एक अध्ययन दुष्यत. नीलाभ २५०  
 चेतना द्विवेदी, सोहनलाल इ प्रे २००  
 चेतसिंह वर्मा, सर्वदानद कि महल १२५  
 —का सपना पाडेय, गिरिजाशकर आनंद पु, वा भा १  
 ४००, भा २ ४५०  
 चेरी की बगिया चैखव, अ प पीपुल्स ०५०  
 चेहरे विजयचंद्र प्रगतिशील ४५०  
 चैतन्य मत और ब्रज साहित्य मीतल, प्रभुदयाल सा. सस्थान  
 १०००  
 —महाप्रभु देवराज 'दिनेश' सन्ता ०४०  
 —महाप्रभु मुदर्शनसिंह 'चक' विन्वेवरानंद ०५०  
 —महाप्रभु न्वपनकुमार नेशनल ०७५  
 चैत्र चंद्रिका बलदेव भारतजीवन ०३७  
 चौखे चौपदे उपाध्याय, अयोध्यासिंह 'हरिऔध' हि सा कु  
 २७५

- चोट दत्त भारती. गमा ३७५  
 चोट ब्रह्मदेव 'मधुर' चिनगारी. २७५  
 चोटी की पकड़. त्रिपाठी, सूर्यकांत 'निराला'. कि महल  
 ३.००  
 चोर वैजनाथदास लहरी २.५०  
 —की प्रेमिका कृष्णमूर्ति, आर आत्माराम ४५०  
 —पकड़ा गया. आनंदकुमार राजपाल ०७५  
 चोलियों के डिजाइन माधुरीदेवी देहाती २५०  
 चौंसठ रूसी कविताएँ हरिवंशराय 'बच्चन', अनु राजपाल.  
 ३००  
 चौखटा. भूप अभिज्ञान २००  
 चौथा रास्ता गर्मा, यजदत्त सा प्र ६.००  
 चौथी पीढी ठाकुरप्रसाद सिंह राष्ट्रीय प्र मंदिर ३.००  
 —मुट्टी मटियानी, गैलेग आत्माराम ३००  
 चौवरी की चौपाल सत्यप्रकाश 'मिलिंद' राजीव, दि. एव  
 सूर्य प्र ०.७५  
 —जी पर ताला ठूक गया ओकार. नवयुग ग्र कु. १७५  
 चौपाल आदिल रशीद शमा. ३००  
 —के रेडियो से बगिच्छ, रामस्वरूप... कि घर, ग्वा १२५  
 चौरगी. गोविंदसिंह चौवरी ३२५  
 चौरगी शकर राजकमल  
 चौराहा रमेशचंद्र 'प्रेम' कि महल २५०  
 चौराहा सौनरिक्मा, कातिचंद्र. नद ब्र एव नद. स १५०  
 चांगहा हरीश चिनगारी १.५०  
 चौलादेवी धूमकेतु वोग ५५०  
 चौलुक्य कुमारपाल. व्यास, लक्ष्मीशकर स २ भा. ज्ञानपीठ  
 ४५०  
 चौहानी तलवार पथिक चौधरी २००  
 च्यूटी दि लायब्रेरी ०६२

## छ

- छद अलंकार सिद्धि खेमका, प्रह्लादराय कृष्णा ब्र ०५०  
 —चार्ट. तिलकधर शास्त्री हिं सा स ०३७  
 —चार्ट विजयकुमार. अजोक्त प्र ०४०  
 —विज्ञान की व्यापकता गर्मा, हरिगकर रतन ३७५  
 —जन्म गुप्त, रामशकर 'रसाल' रा वेनीमाधव ५००  
 छद शिधा परमेश्वरानंद शास्त्री श्री भा भारती २२५  
 छदोऽलंकार-दीपिका. त्रिवेदी. भवानीशकर श्री भा भारती.  
 १२५  
 छदोऽलंकार-विवेचन ज्ञानीराम शान्त्री सूर्य प्र १.५०  
 छदोऽलंकार-विवेचन मुन्शीधर त्रिभूषण क मु हिं ५००  
 छदोऽलंकार-विवेचन रामचंद्र गव्यप्रसाद २००  
 —रंगन छ जिल्दों में देहाती. २५००  
 —श्रीवा रमीत. मेना प्रति, पकीरमोहन ना प्रसादमी ३००  
 छदोऽलंकार-विवेचन 'अदत्त' पीपुला ४००  
 छठा वेदा. उपेन्द्रनाथ 'अरक्त'. नीलाभ २२५

- छत्तीसगढ की लोक-कथाएँ अग्रवाल, चंद्रकुमार. आत्माराम.  
 १५०  
 छत्तीसगढी राव, भालचंद्र 'तेलग' हिं ग्र र १०००  
 छत्रपति. परमानंद. राजपाल ४.००  
 छत्रपति शर्मा, परमानंद विश्वेश्वरानंद ३००  
 —शिवाजी. कामताप्रसाद सा साधना ०.७५  
 —शिवाजी तिवारी, सत्यनारायण. आदर्श हिं १.२५  
 —शिवाजी पथिक चौधरी. २.००  
 —शिवाजी मिश्र, वीरेन्द्रकुमार 'मोहन' मानसरोवर सा.  
 १००  
 —शिवाजी लाजपतराय, लाला चौधरी १५०  
 छत्रसाल. चतुरसेन, आचार्य. प्रभात प्र २५०  
 छपते-छपते सेवैस्त्रियन, मिहेल आत्माराम ३.००  
 छपाई पारचाजात (कैलिको प्रिटिंग) सहगल, चंद्रभान  
 देहाती ३५०  
 छब्बीस कवियों की समालोचना. द्विवेदी, दीपनारायण स ६.  
 शिवाजी १.५०  
 छलकते जाम. रियाज खैरावादी. भक्तवा १००  
 छलना. गुरुदत्त भा. सा सदन ६००  
 छलना. गौर्की, सैक्सिम हिंद पा १००  
 छलना. परमार, नारायणलाल चिनगारी. ३.००  
 छलना वाजपेयी, भगवतीप्रसाद. प्रभात प्र २.५०  
 छलाग. शौकत थानवी आनंद पु, वा २००  
 छलावा गार्गी, परितोष आत्माराम ३.००  
 छलावा सुरेश सुरेन्द्र २५०  
 छलिया प्यारेलाल 'आवारा' आदर्श पु म. २.५०  
 छविनाथ गुप्त, योगेश. रूपकमल ७००  
 छहठाला श्री भा दिगवर २००  
 छादोग्योपनिषद्, शाकरभाष्य सहित. गीता. ३.७५  
 छात्र और समाज सेवा पाडेय, केशव. हिं. पु. ए. १.५०  
 छाया. गार्गी, परितोष. आत्माराम २००  
 छाया जैन, देवेन्द्र नवयुग प्र २५०  
 छाया प्रसाद, जयगकर पु भ २५०; — — भा भ २००  
 छाया हरिकृष्ण 'प्रेमी' आत्माराम १२५  
 —के स्वर यतेंद्रकुमार आत्माराम १००  
 छायातप रघुवंग सा भवन, इ २५०  
 छायापथ रायकृष्णदास भा भ १००  
 छाया मे धिल्डियाल, रमाप्रसाद 'पहाडी'. प्रकाशगृह ४५०  
 छायालोक गभूनाथ सिंह प्रभात पब्लि. २.००  
 छायावाद. नामवर सिंह सरस्व प्रे ४००  
 छायावाद भटनागर, रामरतन कि महल. २.५०  
 —श्रीर प्रगतिवाद गर्मा, देवेन्द्रनाथ ग्रथमाला ३.००  
 —श्रीर रहस्यवाद पाडेय, गंगाप्रसाद स ३ रा वेनीमाधव  
 १५०  
 —श्रीर रहस्यवाद का रहस्य धर्मेश बह्मचारी शास्त्री राष्ट्रीय  
 प्र नटन एव राष्ट्रीय सा स ३००  
 —काव्य तथा दर्शन हाननारायण सिंह. ग्रथम १५००  
 —की काव्य साधना. क्षेम. सा सेवक. ४.५०

- छायावाद के गौरव चिह्न क्षेम हि प्रचा पु १००  
 —के चार स्तभ (प्रसाद, निराला, पत, महादेवी) रामेश्वर-  
 प्रसाद सिंह पारिजात. ३००  
 —के दो कवि (प्रश्नोत्तर) भारतभूषण 'सरोज' रीगल.  
 २५०  
 —युग शम्भुनाथ सिंह सशो स नद ब्र ७००  
 —.स्वरूप और व्याख्या सक्सेना, राजेश्वरदयाल अनुसंधान  
 १०००  
 छायावादी कवियों की आलोचनात्मक दृष्टि विजयकुमार सिंह  
 नारायण प्र ३००  
 छिक-छिक धर्मपाल शास्त्री ओरिएण्टल ०७५  
 छितवन की छाह मिश्र, विद्यानिवास सरस्व प्रे २५०  
 —की छाह-आलोक मल्लिनाथ नाँवली २५०  
 छिताई वार्ता गुप्त, माताप्रसाद, सया ना प्र सभा ८००  
 छिन्न-पत्र ठाकुर, रवीन्द्रनाथ चौधरी ३५०  
 छीटे उपेन्द्रनाथ 'अश्क' नीलाभ ५००  
 छुआछूत का अत कौसल्यायन, भदत आनंद छात्रहितकारी  
 ०७५  
 —को छोडो दिल से दिल को जोडो श्यामविहारी 'विरागी'  
 राष्ट्र प्र म २००  
 छुई-मुई गोविंदामाली अशोक पा १२५  
 छुटकारा चट्टोपाध्याय, शरत्चंद्र इ प्रे १३१, — —  
 कन्हैयालाल १२५, — —नवयुग पु भ ११५,  
 — —श्यामलाल १२५  
 छूत-अछूत केडिया, वैजनाथ हि पु ए १७५  
 छेडछाड. पाडेय, कान्तानाथ 'चोच' चौधरी. २५०  
 छेनी और हथौडी राजेद्रप्रसाद जानोदय २००  
 छैला ब्रह्मदेव 'मधुर' २ ख चिनगारी ५५०  
 छोटा आदमी कश्यप, कुमार सहगल ३७५  
 छोटा भाई कोहली, अनु दास ०७५  
 —भाई. चट्टोपाध्याय, शरत्चंद्र. पुष्पी ०५०, — —प्रभात प्र  
 १५०  
 छोटी चाची मिश्र, दयाशकर राजहंस ३५०  
 —वडी कहानिया थानी, योगराज आर्य दुक २००  
 —वडी लहर अवस्थी, राजेद्र ववई प्र २५०  
 —वहू मिश्र, दयाशकर राजहंस ३५०  
 —वहू रोशनलाल सुरीखाला अर्चना प (पा) १००  
 —मा चट्टोपाध्याय, शरत्चंद्र चिनगारी १००,  
 — —पुष्पी ०५०, — —प्रभात १५०,  
 — —श्यामलाल १२५  
 —सी बात रागेय राधव राजपाल २००, — —हिंद  
 पा १००  
 छोटे छोटे उद्योग घवे कालीचरण देहाती ०५०  
 —छोटे ताजमहल यादव, राजेद्र राजपाल ३५०  
 —जीजाजी उपाध्याय भगवतीस्वरूप मुर्य प्र १००  
 —डायनेमो इलेक्ट्रिक मोटर बनाना नन्देन्द्रनाथ देहाती  
 ४५०  
 —बड़े जानवर गर्ग, किशोर स २ रानी ३००

- छोड गये वालम अगवाल, सुरेद्रकिशोर पुष्पी ०७५, — —  
 सुरेद्र २००  
 छौना गर्ग, किशोर स ५ रानी १५०

## ज

- जगल कामताप्रसादसिंह 'काम' पारिजात ०६२  
 जगल सिन्क्लेयर, आण्टन ज्ञानमडल ३००  
 —का राजा कृशनचंदर हि ग्र र १५०  
 —की ओर वैद्य, सुरेश आत्माराम ६००  
 —की कहानिया प्रेमचंद हंस १५०  
 —की कहानिया व्यथितहृदय स ५ हि भवन ०७५  
 —की गोद मे श्रीकृष्ण शिक्षण १२५  
 —की सच्ची कहानिया श्रीवास्तव, तामानुजलाल लोक  
 चेतना १५०  
 —की सैर तिवारी, रामचंद्र सस्ता ०४०  
 —के गीत दुवे, अमृतलाल मिश्र-बधु ०७५  
 —के फूल अवस्थी, राजेद्र 'तृपित' राजपाल ४००  
 —के रहस्य विराज राजपाल १२५  
 —ज्योति वर्मा, सावित्रीदेवी आत्माराम १५०  
 —मे मगल पांडय, विष्णुकांत चैतन्य १५०, — —सा  
 सगम, मो ०७५  
 —मे मगल गोस्वामी, प्रभुदयाल गोस्वामी ११५  
 —मे मगल फेदोरोविच, व अ पीपुल्स ०६२  
 —मे मगल गोस्वामी, वासुदेव गयाप्रसाद १२५  
 —मे मगल नेवसपिथर, विलियम रा वेनीप्रसाद ०५०  
 —मे जेर जैदी, कुदमिया राजकमल १२५  
 जगली जानवर चतुर्वेदी, जगपति छात्रहितकारी १००  
 —जानवरो की बातें गौड, पुरुषोत्तमदास 'कोमल' रामा प्र  
 २५०  
 —हसो की पाति एडरसन सुभाष १२५  
 जजीर लहरी २००  
 जजीर कुशवाहा 'कात' चिनगारी ३५०  
 जजीरे और नया आदमी गुप्त, भैरवप्रसाद हंस ५००  
 —टूटती ह हर्षनाथ रूपमी १००  
 —टूटी अरदान, जगि कि महल १५०  
 जजीरो मे कैद ज्ञानी राजपेथी, प्रेमचंद्र आदर्श पु म  
 १००  
 जनुओ का गृहनिर्माण चतुर्वेदी, जगपति कि महल २००  
 जनुओ की जन्म कहानी कि महल ४००  
 जनु त्रिल कैमे वनाते हे चतुर्वेदी जगपति कि महल  
 २००  
 —विज्ञान गुप्त चपतस्वरूप कि महल भा १५००,  
 सपूर्ण १०००  
 —विज्ञान विश्वार्थी, आर डी श्रीराम मेहरा ३००  
 —विज्ञान बोप गुप्त, चपतस्वरूप कि महल ५५०  
 जत्री पमायज चोव (लकडी) देहाती १५०

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary research techniques. The primary research involved direct observation and interviews with key stakeholders, while the secondary research focused on reviewing existing literature and reports.

The third section provides a detailed analysis of the findings. It identifies several key trends and patterns in the data, which are then compared against the initial hypotheses. The results indicate that there are significant differences between the two groups being studied, particularly in terms of their attitudes and behaviors.

Finally, the document concludes with a series of recommendations based on the findings. These suggestions are aimed at improving the overall process and addressing the identified issues. The author also notes that further research is needed to explore these findings in greater depth and to validate the results in a larger, more diverse sample.



- जय जय मत्ताने जाग उठी. पाडेय, वीरेद्र, अनु हि. प्रचा म  
७५०
- सारा आलम सोता है शर्मा, पाडेय वेचन 'उग्र' विनोद  
१५०
- सूरज ने आखे खोली शुक्ल, कमल स २ भा ग्र नि  
५५०
- सूर्योदय होगा गोपीवल्लभ-शालग्राम गंगा ३५०
- हम वच्चे थे भार्गव, ज्योतिलाल, सपा राष्ट्र प्र मडल  
एव राष्ट्रीय सा स १२५
- हिमालय बोला सुभद्रादेवी नेशनल १२५
- जमना-गंगा के नहर मे विष्णु प्रभाकर सस्ता ५००
- जमनोत्री सहाय, विश्वभर 'प्रेमी' सा प्र ०५०
- जमाना मेहता, रमेश देहाती २००
- वदल गया गुरुदत्त भा सा सदन भा १ ६००, भा  
२ ६००, भा ३ १०००
- जमाने की हार श्रीवास्तव, ब्रह्मानन्द आनन्द पु, वा २२५
- जमालमाला जमाल कवि भारतजीवन ०५०
- जमींदार का वेटा भा, दयानाथ हि भवन ४५०
- की वेटी चौगुले, श्री शि आनन्द पु, वा ३२५
- जमीन आसमान शर्मा, विनोदशकर चिनगारी २५०
- जमीला आइत्मातोव, चगीज पीपुल्स ०३७
- जमुना की लहरो मे शर्मा, सत्येद्र प्रेम प्र ३५०
- जय अवे श्यामनारायण प्रसाद आदर्श पु भ ३००
- ग्रमरनाथ जैन, यशपाल सस्ता १५०
- और जीत महेशचंद्र सरल सरल १२५
- कच्छ आचार्य, गुणवत चौधरी ४५०
- कश्मीर विष्णुदत्त 'तरंगी' दि प्रे ७५०
- केदारनाथ उपाध्याय, माधव हि प्र म १००
- गाधी द्विवेदी, सोहनलाल इ प्रे १५००
- गीत कल्याणदास १००
- घोष अग्रवाल, शांति प्रगति प्र १००
- जगत भावे, विनोवा अ भा सर्व ०५०
- जयवती वर्मा, रमेश यग मैन ४००
- जय हिंदुस्तान शर्मा, जगदीश देहाती १२५
- जवाहर धवन, देवीप्रसाद 'विकल' चैतन्य ३००
- जवाहर पाडेय, सुधाकर, सपा प्रचा पा १००
- जीवन ओस्त्रोव्स्की, नि पीपुल्स ११२
- दोल वात्स्यायन, सच्चिदानन्द हीरानन्द 'अज्ञेय' स ३  
भा ज्ञानपीठ ३००
- जयद्रथ वध गुप्त, मैथिलीगरण सा सदन, चि १००
- वध टीका शर्मा, योगेन्द्रनाथ . हि सा भ १५०
- जय पराजय उपेन्द्रनाथ 'अशक' नीलाभ ३५०
- पराजय गुप्त, ब्रजमोहन कि महल २५०
- पराजय मिश्र, जगदीश चंद्र त्रिवेणी २२५
- पराजय हार्टी कि महल ३००
- भवानी चौहान, मनहर उमेश २००
- भारत प्रथमाला ०७५
- भारत. गुप्त, मैथिलीशरण. सा सदन, चि ७५०

- जय भारत विजय, ओमशरण विजय प्र ०७५
- भारत विशाल शर्मा, राजेन्द्र वसल २००
- महाकाल परदेशी वीरा ४५०
- मानव दीक्षित, ब्रह्मदत्त कि महल ७००
- माल कमला त्रिवेणीशकर नद स २००
- माल मटियानी, शैलेश हिंद पा १००
- मेवाड गोविंदसिंह चौधरी ४५०
- यात्रा गुप्त, मन्मथनाथ चौधरी १७५
- यौधेय राहुल, साकृत्यायन कि महल ५००
- वर्धन जैनेन्द्रकुमार पूर्वोदय ६००
- वासुदेव भटनागर, रामरतन कि महल ३००
- जयशकर प्रशाद गर्ग ब्र १६२
- प्रसाद वाजपेयी, नन्ददुलारे सशो स भा भ ५००
- प्रसाद एक अध्ययन रमेश 'तरुण' मूर्य प्र १५०
- प्रसाद और 'अजातशत्रु' वाली, तारकनाथ विनोद २५०
- प्रसाद और 'आसू' शर्मा, देवेद्र विनोद २५०
- प्रसाद और स्कंदगुप्त चतुर्वेदी, राजेश्वरप्रसाद स ३  
विनोद २५०
- प्रसाद चिंतन व कला मदान, इन्द्रनाथ हि भवन ६२५
- प्रसाद 'ध्रुवस्वामिनी' गर्ग ब्र १६२
- प्रसाद विचार एव सूक्तिया स्नेहलता, सपा विद्या प्र म  
२००
- प्रसाद सुभाषित और सूक्तिया शर्मा, ओमप्रकाश सहगल  
२५०
- जय मजय चतुर्वेदी, भगवतशरण रामप्रसाद १५०
- सधि पाडेय, रामाचार्य राष्ट्र प्र म १००
- सोमनाथ चतुर्वेदी, सीताराम अ भा विक्रम १००
- मोमनाथ मुशी, कन्हैय लाल माणिकलाल राजकमल  
५५०, (पा) २००
- हनुमान पाडेय, श्यामनारायण रा वेनीमाधव १००
- जयहिंद गुप्त, सियारामगरण सा सदन, चि ०२५
- काव्य श्रीचंद्र एस चाद २००
- निब्रधमाला भारतभूषण 'सरोज' हि सा स ३००
- जरा देख तो लो रामगोपाल परदेशी प्रगति प्र ०५०
- जरासध ब्रजरत्नदास, सपा हि प्रचा पु १५०
- जरा हसी तो ठाकुर, रवीन्द्रनाथ कन्हैयालाल २५०
- जर्जर हथौडे कौशिक, ऋषि जमिनि 'वरुया' आत्माराम  
६००
- जर्मन मोशलिस्ट पार्टी लोहिया, राममनोहर नवहिंद ०४०
- जर्मनी की कहानी आनन्दप्रकाश सिंह ववई प्र २५०
- की लोक-कथाए शर्मा, जगन्नाथ आत्माराम १२५
- जलचर तरुणभाई सर्वोदय सा ३००
- पक्षी चतुर्वेदी, जगपति कि महल २
- जल चिकित्सा चट्टोपाध्याय, राखालचंद्र ३ भा हि पु ए.  
५५०
- चिकित्सा शर्मा, सुरेशप्रसाद मेडिकल ०५०
- चिकित्सा हीरालाल निरोगी ३००
- जल-जू शर्मा, महेशकुमार कन्हैयालाल ३००

जलजना. ठाकुर, रवीन्द्रनाथ. जवाहर. २५०, —श्यामलाल  
२००

- जलता इन्सान. अभागा कन्हैयालाल २५०  
—जीवन बहते आसू चंद्र, र प्र. हिंदिया २५०  
—निजान गुप्त, राजेश. देहाती १.२५  
जलती चट्टान नदा, गुलशन. गारदा म ३२५  
जलते उवलते प्रश्न उपाध्याय, विरवभरनाथ सरस्व पु म  
—तारे. रघुवीर शरण 'मित्र'. भा मा प्र. ३००  
—दीप दलती रात दाम २५०  
—प्रश्न विश्वनाथ, मपा दि प्रे. २००  
जल धारा गर्मा, रामसरन गारदा म २००  
जलन कुशवाहा 'कात' चौधरी ३००  
जलपरियों के साथ सकमेना, शम्भुदयाल नवयुग प्र कु १००  
जलपरी त्रिपाठी, रामनारायण विद्या प्र. म ०७५  
जलपरी पाडेय, वीरेंद्रकुमार गगा ०७५  
जलवानक गर्ग, किशोर. म २ रानी १५०  
जल-विद्यु धूमकेतु राजपाल २५०  
जलवती परमार, रजन प्रभात प्र २००  
जलवा गोविंदसिंह कन्हैयालाल ४००  
जलवायु विज्ञान एजाज अहमद, सैयद कि महल ५००  
जल समाधि पत, गोविंदवल्लभ आत्माराम ४००  
जला डालो सुशील चौधरी ३७५  
जली खिचडी अनिलकुमार दि पु स १७५  
जवानी सोमनाथ 'अकेला' कन्हैयालाल २७५  
—और छ एकाकी भट्ट, उदयशकर आत्माराम २५०  
—का नशा जयनाथ 'नलिन'. आत्माराम ३००  
—का नशा मौर्य, द्वारकाप्रसाद चौधरी ३२५  
—के दिन कुशवाहा 'कात' गुल्लूप्रसाद एव चिनगारी २५०  
—के सपने द्विवेदी, एम एल आदर्श पु म १००  
—फिर न आये राजेंद्रसिंह स २ आर्मी ४५०  
जवानो भगवानदीन, महात्मा स ४ पूर्वोदय ३००  
—उठो भगवानदीन, महात्मा मन्ता २५०  
—राह यह है भगवानदीन, महात्मा पूर्वोदय (सा अकादेमी)  
२७५  
जवाहर और कमला जहरदण्ड आत्माराम ०५०  
—लाल नेहरू विश्वामिनी राष्ट्रीय ना म ०५०  
—लाल नेहरू के मुगदमे रामगोपाल मन्स्व प्रे ७५०  
जमशेट का चित्रकार मजीठिया, मुदरगनसिंह दि पु स  
८००  
जममा तथा अन्द नगीन रूपर मनोहर प्रभाकर कल्याणमल  
२५०  
जमदग्नि २ भादवी मिश्र, विश्वनाथनाद, नपा ना प्र  
मभा  
जमनाथ कृष्णदास, नन्दे विनोद २००  
जमनाथ गो. नदार सि. मिश्र ०५०  
जमनीनामा कान्ठशान, प्रतु ना प्र नभा १५००  
जमनाथसाह विपाठी, रान्मीति प्रसूप ५५०

- जहादारशाह घर्मा, वृदावनलाल मयूर ०७५  
जहा फूल खिलते हैं पंडित, प्रकाश राजपाल ३००  
—वर्ष गिरती है हमीद, ए बवई प्र ३५०  
—रहता हू पालीवाल, हरिदत्त 'निर्भय' गारदा साधना  
—लक्ष्मी कैद है यादव, राजेंद्र राजकमल ४०० [१७५  
—सुमति तहा सपति नाना रघुवीरसिंह आर्य बुक ०७५  
जहाज का पछी जोगी, इलाचंद्र राजकमल ७५०, विद्यार्थी  
सस्करण ४००  
—चलता रहा श्रीवास्तव, हिमाशु नारायण प्र ३००  
जहाना पाठक, अनसूयाप्रसाद राष्ट्र पु भ ३००  
जहानारा की आत्मकथा ठाकुर, केगवकुमार आदर्श हि ३२५  
जानिसार अस्तर जीवन और सकलन राजपाल १५०  
जाई जुही सुखठणकर सरस्व प्रे १००  
जाकी रही भावना जैमी एलेन, जेम्स कल्याणदाम ०६२  
जाग उठा इन्सान सुमेरसिंह 'दड्या' हिंदिया ३००  
—उठा है हिंदुस्तान ठाकुर, प्रेमकुमारी प्रेमकुमारी २००  
—ए मानव आनंद स्वामी देहाती १००  
जागती जोता गिरधारीसिंह नवयुग प्र कु ३००  
जागतो का सपना भगवान, स्वामी नवहिंद २५०  
जाग पहरेण मिरोठिया, गकुतला कि महल ०६२  
जागरण गुप्त, मन्मथनाथ राजपाल ३५०  
जागरण चट्टोपाध्याय, शरत्चंद्र श्यामलाल १५०  
जागरण श्रीनाथ सिंह, ठाकुर गगा ५००  
—का मार्ग पाडेय, लल्लीप्रसाद इ प्रे १००  
—के गीत श्रीवारतव, मुरेंद्रकुमार आनंद पु, वा २००  
जागा है प्यार वरुणी, हरवश नव सा प्र ३००  
जागीरदार 'यारेलाल 'आवारा' आदर्श पृ. म २५०  
जागीरदार भटनागर, उदयसिंह एस चाद २.५०  
जागृत जीवन शिवप्रतलाल शिव सा ०७५  
जागृति कृष्णानंदप्रसाद सिंह मगध १००  
—अक मानव धर्म ४००  
—का सदेश विवेकानंद स्वामी छात्रहितकारी १७५  
जागो. एलेन, जेम्स कल्याणदास ४५०  
—! भारत वीरो! जागो रत्नकांत आनंद पु, को १००  
जाजूजी. जीवन और साधना भट्ट, कृष्णानंद अ भा नर्व  
१२५  
जाडे की रात प्यारेलाल 'आवारा' रूपमी २५०  
जातक काँमल्यायन, भदत आनंद हि ना सम्मे भा. १,३  
१००० (प्र), भा २,४,५. ८०० (प्र), भा. ६  
११००  
—कथाए प्र विभाग भा १ ०७५, भा २ १००  
—कथाए आनंदकुमार राजपाल. १०५  
—कथाए जगन्नाथ प्रभाकर नन्मार्ग ०७५  
—कथाए मिश्र, चंद्रिकाप्रसाद कि घर, स्वा. २००  
—कथानिया गोस्वामी दामुदेव. गयाप्रसाद १२५  
—कथानिया गोस्वामी, दामुदेव. गोस्वामी १०५  
—बालीन भास्वीय मस्वृति महतो, मोहनलाल द्वियोगी.  
दि राष्ट्र. ६५०

- जातकट्टकथा धर्मरक्षित, भिदु, सपा भा ज्ञानपीठ ६००  
जात न पूछे कोय गुरुदत्त भा सा सदन २५०, —  
स्टार (पा) १००  
जाति पानि का अत सर्वोदय ०७५  
—प्रया लोहिया, राममनोहर नरविहद  
—वाद और कौमवाद भट्ट, कृष्णदत्त अ भा सर्व ०५०  
—विज्ञान हा आधार गेयर, जी आर हि समि ७००  
—, मस्कृति और समाजवाद विवेकानंद, रवामी स २  
श्रीरामकृष्ण १२५  
जादू का चिराग मिश्र, रमेगचंद्र फ्रैंक ०७५  
—का भरना शारदा म १२५  
—का भूला अगोक गगा १००  
—का दीपक व्यास, श्रीकांत, अनु राजपाल १५०  
—का देश गर्ग, किगोर स २ रानी १५०  
—का पेडा शारदा म १२५  
—का महल वर्मा, निहालचद हि प्रचा पु ३००  
—का मुल्क राहुन साकृत्यायन आधुनिक पु २५०  
—का हस दयाभानु 'अलख' मिश्र-वधु ०७५  
—की अगूठी मिश्र, ठाकुरदत्त कि महल १५०  
—की टहनी प्रशांत वाल सदन १५०  
—की नाव सतराम हि भवन ०५०  
—के खेल कालीचरण देहाती ०५०  
—के रग चौहान, शिवदानसिंह रणजीत १५०  
—गरनी सैड, जार्ज नेशनल ४००  
—गरी लक्ष्मीनारायण गगा ०७५  
—टूट गया दुग्गल, कर्नारसिंह अभिज्ञान. ५००  
—नगरी व्यास श्रीकांत, अनु राजपाल १५०  
जानकी-मंगल गीता ०२०  
—मंगल तुलसीदास, गोस्वामी रा वेनीप्रसाद ०३१  
जॉन डि राकफेनर (जूनियर) फॉस्डिक, रेमाड वी भा भ  
३२५  
जानने की बाते ३ भा राजकमल २५० (प्र)  
—की बाते शिवकुमारलाल अशोक प्रे भा १०.५६,  
भा २०६४  
जान पर आ वनती हे चन्द्रवर्ती, धर्मदेव राजकमल ३००  
जानवर दत्त भारती पजावी पु ३५०, —रतन एड को  
(पा) २००  
—और जानवर मोहन गकेश राजकमल ३००  
जानवरो का जगत सुरेजमिड, कुवर सस्ता २००  
—की ऐतिहासिक कहानिया मेहरोत्रा, राममूर्ति सा भवन,  
३ १२५  
—की पीरा कहानिया मेहरोत्रा, राममूर्ति सा भवन, ड  
१२५  
जान स्टुट्टे मिल उपाध्याय, हरीभाऊ, अनु हि अ र  
जानहार जैदी, हुडगिया आत्माराम २०० [१००  
जाने अनगने आतार अरद राजरजना २००  
—अनगने विंगु प्रभाकर न २ विव्वविद्यालय ३००  
—रिचाने नेट्रे वाजपेयी, प्रेमचंद्र आदर्ज पु म १५०

- जापान दि लायब्रेरी ०६२  
जापान श्यामू सन्यासी राजकमल २००  
—का आर्थिक विकास रामास्वामी, टी एन नद व एव  
नद स १२५  
—का सविधान गुप्ता, ओ पी केदारनाथ १००  
—का सविधान साहनी, पी आर लक्ष्मी ना ५००  
—का हाल शुक्ल, देवीदत्त इ प्रे ०६२  
—की खेती चौधरी, व अ भा सर्व ०.७५  
—की लोक-कथाए कन्हैयालाल गगा १५०  
—की लोक-कथाए, गुट्टू, अरविंद आत्माराम १५०  
—की लोक-कथाए वर्मा, सत्यभूषण बाल सदन १२५  
—की लोक-कथाए हसरज 'रहवर' भा १ आत्माराम  
१५०  
—की शासन पद्धति सरन, पी रस्तोगी २००  
—की शासन व्यवस्था शुक्ल, उदयनारायण कि महल  
४५०  
—की सैर बजाज, रामकृष्ण सस्ता. १५०  
—के वच्चो के साथ कायगो, कत्मुओ राजकमल २००  
—, चीन, तिब्बत कि महल १२५  
—यात्री ठाकुर, रवीद्रनाथ चौधरी २५०  
जायसी भटनागर, रामरतन कि महल २५०  
—प्रालोचनात्मक अव्ययन सत्यव्रत आर्य मीतल २५०  
—एक विवेचन भाटी, देशराजसिंह. हि सा स ५००  
—और उनका पद्मावत पाठक, दानवहादुर हि सा स  
१५००  
—और उनका पद्मावत एक सर्वेक्षण शर्मा, राजनाथ  
विनोद ४००  
—का पद्मावत काव्य और दर्शन त्रिगुणायत, गोविंद  
अशोक प्र १५००  
—की काव्य-साधना पाठक, दानवहादुर हि सा स ३५०  
—ग्रथावली गुप्त, माताप्रसाद, सपा हिंदु एकेडेमी १२००  
—ग्रथावली गौतम, मनमोहन, सपा स २ रीगल १२००  
—ग्रथावली शुक्ल, रामचंद्र सपा ना प्र सभा ६२५  
—ग्रथावली सटीक शर्मा, श्रीनिवास अशोक प्र ५००  
—प्रश्नोत्तरी दिनेश सरस्व पु स १७५  
—(प्रश्नोत्तर) भारतभूषण 'सरोज' विनोद २५०  
—, साहित्य और सिद्धांत शर्मा, यज्ञदत्त आत्माराम ३००  
जारज राजेश्वरप्रसाद मिह नीलाभ ४२५  
जार्ज फवम का सत्याग्रही जीवन दीवान, मनोहर अ भा सर्व  
०४०  
—वाशिंगटन ईटन, जीनेर एस चाद १००  
—वेस्टिंगहाउस टामस, हेनरी एस चाद १००  
जाल गुप्त, मन्मथनाथ हिंद पा १००  
जाल वाजपेयी, प्रेमचंद्र पुष्पी १००, —सुरेद्र (पा)  
१००, २००  
जाल शर्मा, विनोदशंकर चिनगारी १५०  
जाली का काम रानी देहाती ०५०  
—वमीयत सूर्या कमलानी कि महल. १००



- जीवन की ओर माकारेको, अ स ३ ख पीपुल्स ५ ८७  
 —की कहानिया 'देवदत्त' एस चाद २५०  
 —की नई भूय गौरीगकर लहरी लोक चेतना ० ५०  
 —की नीव हुक्कू, सपूर्णनाथ 'सेवक' आर्य सा २००  
 —की भूल राय, सिंहामन 'सिद्धेश' आदर्श पु भ २००  
 —की भूले वेदानदतीर्थ, स्वामी विरजानद ० ५०  
 —की मुम्कान मित्रा, उपादेवी नेशनल ४००  
 —का मुवाम मकनजी, लल्लुभाई नवजीवन ० ३७  
 —के कुछ क्षणों मे गुप्त, तनसुखराम सूर्य प्र १५०  
 —के चार अध्याय मिश्र, रामनदन नवभारत १५०  
 —के चौराहे पर द्विवेदी, राममोहन स, २ साधना सा सदन २००  
 —के तत्व और काव्य के सिद्धात लक्ष्मीनारायण सुधाशु मथो स ज्ञानपीठ  
 —के पथ के चरण चिन्ह व्यास, वद्रीनाथ नद स १५०  
 —के पहल अमृतगाय हस २००  
 —के मोड अधिकारी, महावीर आत्माराम ३००  
 —के विकास की कहानी ओमप्रकाश सर्वोदय १५०  
 —जीववानी कला आरोग्य २२५  
 —ज्योति इद्र विद्यावाचस्पति राजपाल ३००  
 —ज्योति क्षेमचद्र 'सुमन' वसल २५०  
 —ज्योति निर्मलचद्र नेशनल २५०  
 —ज्योति मुक्तिदूत, आचार्य नारायण प्र १००  
 —ज्योति शर्मा, सुरेद्र अनु रत्नाश्रम ० ५६  
 —ज्योति शर्मा, हरिशकर गयाप्रसाद २५०  
 —ज्योति सूर्यवली सिंह नद व एव नद स १५०  
 —ज्योतिया विद्यानद विदेह, स्वामी वेदसस्थान ० ३०  
 —ज्वार गुरुदत्त भा सा सदन ७००  
 —झाकी नसीर फरीदी, शाह नव ज्योति प्र १५०  
 —झाकी भगवानदीन, महात्मा पूर्वोदय (सा अकादेमी) ० ७५  
 —झाकी शर्मा, हरिशकर गयाप्रसाद २००  
 —दर्शन खलील जिब्रान राजपाल १५०  
 —दर्शन शर्मा, मुशीराम चौधरी २५०  
 —दान भा, रमेशचद्र चौधरी २५०  
 —दान पवैया, राजमल भरत १५०  
 —दीप त्रिपाठी, काति सा भवन, इ १५०  
 —दृष्टि भावे, विनोवा अ भा सर्व १२५  
 —निर्माण जैन, फूलचद्र 'सारंग' विनोद १२५  
 —निर्माण की कहानिया वर्मा, मनोहरलाल आत्माराम १२५  
 —पथ गुलावराय गयाप्रसाद २००  
 —पथ ब्रह्ममुनि, स्वामी आर्य सा ० ५०  
 —पथ पर परमार, तिलकनिह जिवाजी १२५  
 —पराम विष्णु प्रभाकर सस्ता १००  
 —पराम शर्मा, वद्रीनारायण कल्याणमन १५०  
 —प्रभात गाधी, प्रभुदाम नस्ता ५००  
 —प्रवाह रामलखन विद्यार्थी राष्ट्र प्र म

- जीवन प्रवेशिका विद्यार्थी, रामप्रसाद 'रावी' रामप्रसाद १२५  
 —वीमा वाजपेयी, ओमप्रकाश कि महल ३७५  
 —मत्र हसराज 'रहवर' साहनी १००  
 —मुक्ति एलेन, जेम्स कल्याणदास १००  
 —मुक्ति विवेक रामेश्वरानद, स्वामी भालोटिया  
 —मूर्तिया व्यथितहृदय ग्रथमाला ० ७५  
 —मूल टाल्स्टाय सर्वोदय ० ७३  
 —मे खेलो दासगुप्त, हरिकृष्ण सुदर २००  
 —यज्ञ रामनाथ 'सुमन' साधना सदन २००  
 —यज्ञ सत्येद्र गयाप्रसाद २००  
 —यज्ञ अध्ययन शर्मा, राजनाथ विनोद १२५  
 —यज्ञ, एक अध्ययन राकेश लायल १२५  
 —यात्रा द्विवेदी, शातिप्रिय ग्रथमाला १५०  
 —रश्मिया गुलावराय शिवलाल ५००  
 —रश्मिया व्यथितहृदय भा प्र मदिर १२५  
 —रहस्य नीरज... भा प्र मदिर  
 —रहस्य मानस, जान एच रूपकमल १५०  
 —लहरी सिन्हा, विश्वमोहनकुमार पु भ ३००  
 —लीला कालेलकर, काका नवजीवन ३००  
 —विहार कालेलकर, काका वीरा २००  
 —शोधन मशरूवाला, किशोरलाल नवजावन ३००  
 —सगीत जगन्नाथप्रसाद 'मिलिद' भोपाल एव स्वरूप ३००  
 —सगीत रामकुमार सिंह नवयुग पु भ २००  
 —सग्राम दास १००  
 —सग्राम हि प्रचा पु ५००  
 —सग्राम पाडेय, जयनारायण ग्रथमाला १५०  
 —सघर्ष शण्डियाल, हरिप्रसाद प्रभात प्र ४००  
 —सघर्ष हरिप्रसाद प्रभात प्र ४००  
 —सदेश खलील जिब्रान सस्ता १२५  
 —साथी सत्यकाम विद्यालकार राजपाल ३५०  
 —साधना टाल्स्टाय सस्ता १२५  
 —साहित्य कालेलकर, काका सस्ता २५०  
 —मूत्र रामनाथ 'सुमन', अनु साधना सदन २००  
 —मे बहिष्कृत गोर्की, मैक्सिम चौधरी १५०  
 —स्मृतिया क्षेमचद्र 'सुमन' आत्माराम ३००  
 जीवन मृत सुधाकर शारदा म १२५  
 जीव रसायन कोश मालवीय, ब्रजकिशोर, सपा हि सा सम्मे ६००  
 —विकास तरुणभाई सर्वोदय सा ३००  
 —वृत्ति-विज्ञान सहाय, महाजोत हिंदु एकेडेमी १५०  
 जीवित चट्टाने राकेश 'वत्स' इ पब्लि ४००  
 जीवी पटेल, पन्नालाल राजकमल (साहित्य अकादेमी) ४५०  
 जीवो की कहानी सुरेगमिह, कुवर ना प्र सभा ४००  
 जी हा—जी नही शुम्न, गगाधर एस चाद ५००  
 जी है तो जहान है चन्ना, नदलाल साहनी ० ५०  
 जुआरी जाफरी, रईस अहमद पैरामाऊट २५०

- जुआरी दोस्तोवस्की हिंद पा. १.००  
 जुकाम पाडेय, महेन्द्रनाथ छात्रहितकारी १७५  
 —और खासी. लहरी ०७५  
 जुगनू शुक्ल, गिरिजा दत्त 'गिरीश'. आदर्श पु. म. २००  
 जुदाई की शाम ठाकुर, रवीन्द्रनाथ हिंद पा १००  
 —की शाम का गीत उपेन्द्रनाथ 'अस्क' नीलाभ ३७५  
 जुर्म और सजा दोस्तोवस्की रणजीत. १०००  
 जुलूस मित्र, प्रेमेश सरस्व प्रे १५०  
 जुलेखा विप्लव यशपाल ७५०  
 जुलेखा मातृ-भाषा २००  
 जुल्मो की कहानिया भटनागर, सपतिराय. नवयुग ग्र कु  
 २००  
 जुहू शर्मा, पाडेय बेचन 'उग्र' हिंद पा १००  
 जूनियर हाई स्कूल व्याकरण और रचना पाडेय, रामचंद्र कि.  
 महल १००  
 जूनियस माल्टवी बेक, जान स्टाइन आनंद प्र ०७५  
 जूनिया पत, गोविंदवल्लभ गगा ४००  
 जूनी वाता सोलकी, सूरज नवयुग ग्र कु ०७५  
 जूलियस सीजर शुक्ल, शत्रुघ्नलाल, रूपा उमेश २००  
 —सीजर शेक्सपियर, विलियम राजपाल २००, —  
 रा. बेनीप्रसाद ०.६२  
 जूही बेडेकर, मालती बाई प्रचा पा १००  
 —की कली शरण नव सा प्र. ३००  
 —रानी श्रीवास्तव, हिमाशु नारायण प्र १००  
 जे टी सी प्रश्नोत्तरी श्रीवास्तव नद व्र एव नद स  
 ५००  
 जे पीर पराई जाने रे जैन, श्रीचंद्र लोच-चेतना ०७५  
 जेम्स एलेन की डायरी या दैनिक ध्यान एलेन, जेम्स  
 छात्रहितकारी २००  
 जेल का साथी भोजपुरी कला-नि १२५  
 —के वे दिन पडित, विजयलक्ष्मी ज्ञानमंडल २५०  
 —मे तीस बरस चक्रवर्ती, त्रैलोक्यनाथ हिं भवन  
 ४००  
 जैन कहानिया महेन्द्रकुमार, मुनिश्री 'प्रथम' ६ भा  
 आत्माराम १५० (प्र)  
 —जागरण के अग्रदूत गोयलीय, अयोध्याप्रसाद भा ज्ञानपीठ  
 ५००  
 —तत्त्व चिंतन नथमल, मुनिश्री आदर्श सा २५०  
 —तत्त्व प्रवेश नथमल, मुनिश्री आदर्श सा भा १०३७;  
 भा २०५०  
 —दर्शन और आधुनिक विज्ञान नगराज, मुनिश्री आत्माराम  
 ४००  
 —दर्शन के मौलिक तत्व नथमल, मुनिश्री आदर्श सा  
 ख १ १०००, ख २ १३००  
 —दर्शन में आचार मीमासा नथमल, मुनिश्री आदर्श सा  
 ३७५  
 —दर्शन में ज्ञान मीमासा नथमल, मुनिश्री आदर्श सा  
 २२५

- जैन दर्शन में तत्व मीमासा नथमल, मुनिश्री आदर्श सा.  
 ५२५  
 —दर्शन में प्रमाण मीमासा नथमल, मुनिश्री आदर्श सा.  
 ४२५  
 —धर्म कैलाशचंद्र श्री भा दिगवर ४००  
 —धर्म और दर्शन नथमल, मुनिश्री आदर्श सा ८००  
 —धर्म विषयक प्रश्नोत्तर आत्माराम, जैनाचार्य श्री  
 आत्मानंद ०७५  
 —धर्मामृत हीरालाल शास्त्री भा ज्ञानपीठ ३००  
 —पदार्थ विज्ञान में पुद्गल बाठिया, मोहनलास जैन श्वेतावर  
 १२५  
 —परंपरा का इतिहास नथमल, मुनिश्री आदर्श सा ३३७  
 —भक्तिकाव्य की पृष्ठभूमि जैन, प्रेमसागर भा ज्ञानपीठ  
 ६००  
 —शिलालेख संग्रह जैन, हीरालाल, सपा. भा ज्ञानपीठ  
 भा १ २००  
 —शिलालेख संग्रह विजयमूर्ति, सपा भा २ ८००; भा  
 १०००  
 —साहित्य और इतिहास नाथूराम प्रेमी हिं ग्र २ ६००  
 —सिद्धांत दीपिका तुलसी, आचार्यश्री आदर्श सा ६५०  
 जैनेंद्र और उनके उपन्यास भालानी, रघुवीरसरन नेशनल  
 ५००  
 —का कथा शिल्प पाडेय, जगदीश अर्चना प्र, आ  
 —की कहानिया जैनेंद्रकुमार ६ भा पूर्वोदय ३५० (प्र)  
 —की श्रेष्ठ कहानिया जैनेंद्रकुमार राजकमल (पा) १०  
 हिं ग्र. २ ३५०  
 —महावृत्ति अभयनदि, आचार्य भा ज्ञानपीठ १५००  
 —व्यक्तित्व और कृतित्व सत्यप्रकाश 'मिर्लिद', सपा सू  
 प्र ७००  
 जैमिनीयाश्वमेधपर्व (सटीक) गीता ५००  
 जैमिनीयोपनिषद्-ब्राह्मण अटेल, हन्स विश्वेश्वरानंद ५००  
 जैसा चाहो वैसा बनो मार्टेन, स्वेट हिंद पा १००  
 —तुम चाहो शेक्सपियर, विलियम राजपाल २००  
 —हमने देखा क्षेमचंद्र 'सुमन' एस चाद १५०  
 जैसी करनी वैसी भरनी चतुर्वेदी, शिवसहाय सस्ता १५०  
 जैसे उनके दिन फिरे परसाई, हरिश्चकर भा ज्ञानपीठ २५०  
 —चाहो वैसे बन जाओ एलेन, जेम्स नेशनल १००  
 जोक उपेन्द्रनाथ 'अस्क' नीलाभ १००  
 जो माचवे, प्रभाकर भा ज्ञानपीठ  
 —कहै पापा जो करे पापा डे, क्लैरेस. राजकमल ३००,  
 (पा) १००  
 —गाता हू. पाडेय, सुधाकर कल्याणदास ४.००  
 —चाहे सो कैसे पाये? मार्टेन, स्वेट सुबोध प्र २.२५  
 जोड़ी बनफूल राजपाल. ३००  
 जोधपुर प्रवास वाफणा, सोहनलाल, सपा जैन श्वेतावर.  
 ०६५  
 जो भी कुछ देखती हू. काता नवहिंद २००  
 जोश मलीहावादी : जीवनी और सकलन राजपाल. १.५०

- जो है सो मिश्र, आत्मानन्द आत्माराम ४००  
 जौक की चायरी रूपद मातृ-भापा २००  
 —की शायरी सरस्वती सरन 'कैफ' प्रचा प. १००  
 —जीवनी और सकलन राजपान १५०  
 जौ की खेती रामेश्वर अगात देहाती ०८७  
 जौनमार-वावर की लोक-कथाए सतीग आत्माराम १२५  
 जौहर चक्रवर्ती, श्रीनारायण इ प्रे ०५०  
 जौहर गोविर्दासिह कन्हैयालाल ६००  
 जौहर पाडेय, श्यामनारायण नद व्र एन नद म ५००  
 जौहर वर्मा, रामकुमार हि भवन १२५  
 ज्ञान कलश कल्याणदास १२५  
 —की ओर उपाध्याय, राजाराम अदध ०७५  
 —की कहानिया भडारी, सी एस हि प्रचा पु १२५  
 (प्र)  
 —की कहानिया सक्सेना, शबूदयाल नवयुग ग्र कु ०५०  
 —की खोज मे शर्मा, जगदीशगरण एस चाद २५०  
 —की गरिमा उपाध्याय, वलदेव सस्ता २२५  
 —की दुनिया कामताप्रसाद सिह 'काम' पारिजात १५०  
 —की फुनभडिया वाइल्ड, आस्कर भा सा प्र ०७५  
 —की वाते शर्मा, ब्रह्मानारायण विकल' रामा प्र ०७५  
 —की महिमा धिल्डियाल, रमाप्रसाद 'पहाडी' सपा प्रकाशगृह १५०  
 —गगा जैन, नारायणप्रसाद २ भा भा ज्ञानपीठ ६००  
 (प्र)  
 —गगा योगेंद्रकुमार 'लल्ला', सपा आत्माराम  
 —गुचडी हीरालाल कल्याणदास ०७५  
 —दर्पण वर्मा, परमेश्वरदीन नवयुग पु भ ०७५  
 ज्ञानदा चट्टोपाध्याय, शरत्चन्द्र व्य मलाल १५०  
 —दान यशपाल दिप्लव ३००  
 —दीपक उदयशकर शास्त्री ना प्र सभा  
 ज्ञानदेव-चित्तनिका भावे, विनोदा अ भा सर्व १००  
 ज्ञानपीठ पूजाजलि उपाध्ये, ए एन भा ज्ञानपीठ. ४००  
 ज्ञान प्रकाश दीक्षित, ब्रह्मदत्त सरस्व प्रे भा १०४४,  
 भा २०५६, भा ३०६२  
 —भारती द्विवेदी, महावीरप्रसाद हि पु ए १७५  
 —योग विद्यानन्द सरस्वती साधन ०५०  
 —योग विवेकानन्द, स्वामी ना प्र सभा ३००, —  
 श्रीरामकृष्ण ३५०  
 —योग का तत्व गोयदका, जयदयाल गीता १००  
 —लोक द्विवेदी, कृष्णवल्लभ.  
 —विकाम के खेल जौहरी, राजकुमार ज्ञान भारती २५०  
 —विज्ञान शंकर मुत्तानपुरी अनुपम १००  
 —वैराग्य छदावली भोलेबावा २ भा देहाती १२५  
 —शब्दकोष श्रीवान्तव, मुकुदीलाल, सपा ज्ञानमडल  
 १५००, २२००  
 —मत्तमई शर्मा, राजेंद्र आत्माराम ३००  
 —नरोवर श्रीवास्तव, हिमाशु नारायण प्र १००  
 —सागर महेशचन्द्र नरन सरल १००

- ज्ञानसागर रमेशचन्द्र 'प्रेम', संपा भा १ लोकप्रिय ६०  
 ज्ञानेश्वरी गीता इ प्रे ६००  
 ज्यादा अपनी कम परायी उद्रेननाथ 'अस्क' नीलाभ  
 ५००  
 ज्यामितीय डाइग गुप्ता, रामस्वरूप केदारनाथ २५०  
 —डाइग विशननारायण स ६ भा भा प्र १३७  
 ज्योति कणिकाए ठाकुर, रवीन्द्रनाथ प्रभात पब्लि ३००  
 —किरण वेद, विमल राजहस ४००  
 —गगा खरे, नर्मदाप्रसाद लोक चेतना १५०  
 —पुज अग्रवाल, सुनीता रामप्रसाद १५०  
 —पुरुष रघुवीरशरण 'मित्र' भा सा-प्र ४००  
 —रश्मि रत्नकात आनन्द पु, को १००  
 ज्योतिर्मयी मडल, अनपलाल कला-नि ३५०  
 ज्योतिर्विज्ञान ब्रह्माड परिचय लोहनी, भास्करानन्द  
 आचार्य भस्करानन्द १५०  
 ज्योति विहग द्विवेदी, शांतिप्रिय हि सा सम्मे ५००  
 ज्योतिषजगत् दुर्गादत्त मोतीलाल २५०  
 ज्योतिष शास्त्र के मूल सिद्धात विश्वनाथ गर्ग व्र ०६२  
 ज्योतिष सर्व सग्रह श्यामलाल २००  
 ज्योतिष्मती गोपालशरण मिह ठाकुर इ प्रे २५०  
 ज्योत्स्ना पत, मुमित्रानन्दन गगा ३००, — भा भ  
 २००  
 ज्योत्स्ना पाडेय, रामदीन पु भ १५०  
 ज्वर-चिकित्सा पाडेय, अयोध्यानाथ स ४ मेडिकल २००  
 ज्वार भाटा चतुर्वेदी, देवीदयाल 'मस्त' लोक चेतना  
 ३५०  
 —भाटा राजकुमार हि प्रचा पु २००  
 ज्वाला और जल परसाई, हरिशंकर भा पु म २००  
 ज्वालामुखी गुप्त, मन्मथनाथ हिद पा १००  
 ज्वालामुखी चतुर्वेदी, जगपति कि महल २००  
 ज्वालामुखी शेवडे, अनन्तगोपाल नीलाभ ४५०  
 —और भूचाल की कहानी राजपाल २००

## भ

- भकार गुप्त, मैथिलीशरण सा सदन, चि १५०  
 भक्तकी महेश्वरदयाल रगाजीत २५०  
 भक्तिया शरद् रामप्रसाद १५०  
 भवरी विराज कमल-कुज प्र २५०  
 भरना प्रसाद, जयशंकर भा भ १५०  
 भरने और फल रघुवीर शरण 'मित्र' भा सा प्र १५०  
 भरवेरिया वर्मा, केशवचन्द्र कि महल १२५  
 भरोखे गर्मा, श्रीराम 'राम' उमेश ५००  
 भरोखे मुदर्शन हि ग्र र २५०  
 भलक शोकत थानवी आनन्द पु, वा २२५  
 भलकारी वाम, शंकर सस्ता ०४०  
 भलकिया जगन्नाथ प्रभाकर सन्मार्ग ०७५

भूलकिया महेद्र, रामचरण ज्ञानमडल एव भा प्र मडल  
६.००

- भाकी आनदिप्रसाद सा भवन, इ १००  
भासी की रानी आत्माराम १००, रगीन २००  
—की रानी चौधरी ३५०  
—की रानी. कुलदीप. रतन २.७५  
—की रानी चौहान, सुभद्राकुमारी हस ० २५  
—की रानी. टडन, प्रतापनारायण स ३. हि सा भ १५०  
—की रानी देशपाडे, वी जी हि प्रचा पु १००  
—की रानी न्यादरसिंह 'वेचैन'. देहाती १५०  
—की रानी मिश्र, शिवशकर. प्रभात पब्लि १००  
—की रानी राजेश्वर गुरु मिश्र-बधु १००  
—की रानी वर्मा, वृदावनलाल मयूर २००  
—की रानी श्यामनारायण प्रसाद हि प्रचा पु ५००  
—की रानी श्रीनाथ सिंह कि महल २००  
—की रानी श्रीवास्तव, ओकारनाथ सस्ता ० ४०  
—की रानी. सक्सेना, शकरसहाय शिवलाल ०.५०  
—की रानी . एक अध्ययन सावल, रामलाल. श्री भा  
भारती २००  
—की रानी लक्ष्मीबाई पारसनीस, दत्तात्रेय बलवत सा  
भवन, इ ४५०  
—की रानी लक्ष्मीबाई वर्मा, वृदावलाल मयूर. ६००,  
सक्षिप्त २५०  
—की रानी सक्षिप्त : एक अध्ययन राजेश्वर गुरु कि घर,  
ग्वा १२५  
भाड-फानूस रमेश चौधरी, ए 'आरिगपूडि' हि प्रचा पु  
(पा) १.००  
भाडी. वर्मा, श्रीकांत भा ज्ञानपीठ  
फिलमिलाते सितारे वर्मा रमेश प्रभात प्र. २५०  
भील और कमल श्यामू सन्यासी, अनु. ववई प्र ६.००  
भुन खलीफा मालवीय, हर्षदेव एस चाद ० ५०  
—भुन मटका मित्तल, महेद्र आत्माराम १५०  
भुनिया की शादी शर्मा, यज्ञदत्त सा प्र ३००  
भुलसते फूल कुमार भा ग्रथमाला १५०  
भूठ का दान. देवराज 'दिनेश' रामप्रसाद १५०  
—सच गुप्त, सियारामशरण सा सदन चि २००  
भूठा गौरव वर्मा, नगोद ग्रथ भ १२५  
—सच—देश का भविष्य यशपाल विप्लव १४००  
—सच—वतन और देश यशपाल विप्लव ११००  
भूठे रिश्ते शर्मा, नरेद्र ऐडी ३६०  
—सपने गोविंदसिंह कन्हैयालाल ३५०  
भूलसी मजरी खाडेकर, वि स देशमुख ५००  
भोपडी का रुदन श्यामविहारी 'विरागी' राष्ट्र प्र म. २५०  
—से महल कल्पतरु पु भ १००, — —रामलोचन.  
(पा) १००

## ट

- टकसाली हिंदी. सूर्यकांत एस चाद ४५०  
टनाटन वेढव बनारसी आनद पु, वा २००  
टमक टुम भगतसिंह हेमकुट १२५  
टमाटर की खेती. रामेश्वर अशात देहाती ० ५०  
टर्की की लोक-कथाए वर्मा, सत्यभूषण. वाल सदन.  
टर्-टर् मामा स्वर्ण गगा ० ७५  
टाका लगाने का ज्ञान. नरेद्रनाथ देहाती २५०  
टाइपराइटिंग अभ्यास की नूतन विधि सक्सेना, एम बी सशो  
स. लक्ष्मी ना ३.७५  
—मैनुअल रानडे, एम. एन नद स ३५०  
टानिया गोर्की मैक्सिम सा सेवक एव हि प्रचा म १५०  
टाम काका की कुटिया सक्सेना, शभूदयाल नवयुग ग्र कु.  
१००  
—काका की कुटिया स्टो, बीचर श्री प्रभाकर. सक्षिप्त  
१५०  
टामस अल्वा ऐडीसन टामस, हेनरी एस चाद १.००  
—जैफर्सन शिएन, विन्सेट आत्माराम ३००  
टाल्स्टाय की कहानिया प्रेमचद हि पु ए २००  
—की कहानिया प्रेमचद, अनु सरस्व प्रे २००  
—की कहानिया व्यथितहृदय रा वेनीप्रसाद ० ६५  
टिंगटिंग योगेद्रकुमार लल्ला आत्माराम १००  
टिकोरा पाडेय, रामाचार्य राष्ट्र प्र म ३००  
टिमटिमाते दीप त्रिपाठी, राजकिशोर आदर्श पु भ ३५०  
टीका गद्य प्रभा अग्रवाल, श्रीराम गयाप्रसाद १५०  
—हिंदी गद्यसुधा दुबे, श्रीनाथ हि सा भ. १७५  
—हिंदी निबंध विहार शर्मा, चादमल. गयाप्रसाद ४.००  
टीपू सुलतान शर्मा, महेशकुमार चौधरी. ३२५  
टीलो की चमक जयनाथ 'नलिन' पुष्पी ० ७५  
टीस अवस्थी, मणिलाल 'रसिक' आदर्श पु म १००  
टूटती इकाइया देवडा, शरद अपरा ३००  
—शृखलाए भटनागर, महेद्र स २ प्रबुद्ध. २००  
—हुई जजीरे शर्मा, सत्यनारायण हि प्रचा पु ३२५  
—हुई मजिल त्रिपाठी, हीराप्रसाद रूपसी १५०  
टूटते बधन वाजपेयी, भगवतीप्रसाद राजपाल ४००  
—बधन शर्मा, श्रीराम 'राम' अशोक पु म. ५००  
—बधन हर्षनाथ चौधरी ३५०  
टूटा आइना इदिरा पुष्पी ० ७५  
—किनारा यशोविमलानंद एस. चाद ३५०  
—टी सैट वाजपेयी, भगवतीप्रसाद स २. भा ग्र. नि ४.००  
—तारा राधिकारमणप्रसाद सिंह, राजा अशोक प्रे ४००  
—व्यक्तित्व चौहान, मनहर. उमेश. २५०  
—हुआ आदमी कपूर, रामप्रकाश. राजपाल ४.००  
—हुआ आदमी सिद्धनाथकुमार. दि पु. स. ३००  
—हुई लडकी कपूर, रामप्रकाश हि. प्रचा पु. (पा.)  
१.००



- दूटे काटे वर्मा, वृदावनलाल मयूर ४२५  
 —तार मारकडेय, वावूलाल जवाहर २००  
 —तार रामरतन कात पुष्पी १००, — —सुरेद्र ३००  
 —तारे हरीश अग्रवाल प्रि ०७५  
 —पख नदा, गुलशन पजावी पु २५०, — —स्टार  
 (पा) १००  
 —हुए आदमी गोविंदसिंह कन्हैयालाल ४००  
 टेडी रेखाए गर्मा, श्रीराम 'राम' नेशनल ४००  
 टेडे मेडे रास्ते वर्मा, भगवतीचरण भा भ ८००  
 —रास्ते शर्मा, नरेद्र पैरामाऊट २५०  
 टेपरिकार्डर विजय, आर सी देहाती १०५०  
 टेलर मास्टर गुप्ता, मजू देहाती ०८७  
 टेलिस्मेन स्काट, वाल्टर सा प्र १५०  
 टेलीफोन शर्मा, परमात्मा गगा ०५०  
 —की कहानी राजपाल २००  
 टेलीविजन की कहानी सक्सेना, राजीव रामप्रसाद १.२५  
 टेसीटोरी शर्मा, यादवेद्र 'चंद्र' नेशनल ०५०  
 टेसू के गीत निरकारदेव 'सेवक' आत्माराम १००  
 —के फूल साहू, किशोर कि महल ३००  
 टैगौर की श्रेष्ठ कहानिया ठाकुर, रवींद्रनाथ जवाहर २.५०  
 —सोवियत रूस की दृष्टि मे हर्ष ३००  
 टोटका चिकित्सा शुक्ल, अमोलचंद्र देहाती. ०७५  
 —विज्ञान कृत्यानंद, स्वामी ग्रथमाला २५०  
 —विज्ञान पाठक, केदारनाथ नद ब्र ०६२  
 टोली-विधि वर्मा, जानकीशरण स ६ तरुण १५०  
 ट्यूववैल गाइड पगोत्रा, पुष्पनाथ देहाती ३५०  
 ट्राजिस्टर डेटासकिट विजय, आर सी देहाती १०५०  
 —रेडियो विजय, आर सी देहाती ७५०  
 ट्रासफार्मर गाइड नरेद्रनाथ देहाती ६००  
 ट्रैक्टर प्राइमर शर्मा, कृष्णानंद देहाती १२५

## ठ

- ठडी क्रिया से सावुन बनाना कालीचरण देहाती ०५०  
 —सडक कुटिलेश हि प्रचा पु १५०  
 ठडे छीटे वियोगी हरि हि सा कु ०७५  
 ठडी छाया आरसीप्रसाद दरभंगा ३००  
 ठकुरानी शर्मा, यादवेद्र 'चंद्र' प्रभात प्र ६००  
 —बहू का बाजार ठाकुर, रवींद्रनाथ ज्ञानमडल २००,  
 — —प्रभात प्र २००, — —भा प्र मडल २००,  
 — —ज्यामलाल २२५, — —सुरेद्र २२५  
 ठक्कर बापा वीरा ०६०  
 ठक्करबापा शाह, कातिलाल नवजीवन ३००  
 ठग देसाई, रमगुलाल वमतलाल वीरा २००  
 ठगो का दादा त्रिपाठी, रामखिलावन गगा १२५  
 ठनठन गोपाल गोपालराम गहमरी कि महल २५०  
 • का कुआ प्रेमचंद्र मरस्व प्रे ३००

- ठाकुरद्वारा दुवे, हरिदत्त इं प्रे ३००  
 ठीक खाओ स्वस्थ रहो शुक्रदेवप्रसाद सिंह हिंद पा १००  
 —विचारो मार्टेन, स्वेट अर्चना प्र (पा) १००  
 ठुमरी फणीश्वरनाथ 'रेगु' राजकमल (अप्रा)  
 —अक संगीत २५०  
 —गायिकी देवागन, तुलसीराम संगीत ३००  
 ठूठा आम उपाध्याय, भगवतशरण भा ज्ञानपीठ २००  
 ठेठ हिंदी का ठाठ उपाध्याय, अयोध्यासिंह 'हरिऔध' हि  
 सा कु ०६४  
 ठोकर चौधरी २००  
 ठोस ज्यामिति ब्रजमोहन हि सा सम्मे १५०, कुजी १५०  
 —ज्यामिति का ज्ञान नारायण, एस रा वेनीप्रसाद ३००  
 —ज्योमिति का सरल अध्ययन अरोडा, दीवानचंद्र सुरेश  
 १००  
 —रेखागणित कमलमोहन काशी हिंदू २००

## ड

- डगमगाती जिंदगी सोमनाथ 'अकेला' सुभाष २७५  
 डगमाते चरण मिथ, अनंत अशोक पु म १५०  
 डगरोही शुक्ल, कमल नवयुग प्र ४००  
 डवल मुक्का गुप्त, राजेश देहाती १२५  
 डरपोक नदा, गुलशन सहगल ४००  
 डाडी-यात्रा महतो, मोहनलाल 'वियोगी'. पु भ १२५  
 डाईफिटर गाइड भगवतराय देहाती १०५०  
 डाक घर ठाकुर, रवींद्रनाथ आदर्श पु भ ०५०, — —  
 आनंद पु, वा — —इ प्रे ०७५, — —प्रभात प्र  
 २००, — —सहगल ०६५  
 —तार दि लायब्रेरी ०६२  
 —बगला कमलेश्वर राजकमल ३५०, (पा) १००  
 —व्यापार पद्धति कालीचरण देहाती ०५०  
 डाकुओ के बीच राजकुमार 'अमर' हिंद पा १००  
 डाक्टर लिन, हेजेल भा भ २००  
 डाक्टर विष्णु प्रभाकर राजपाल २५०  
 —अल्वर्ट स्वीटजर वीरा ०६०  
 —डकवाल और उनकी शायरी चोपडा, हीरालाल हि प्रचा  
 पु ०६७  
 —की उलभन शा, जार्ज वर्नार्ड राजपाल ३००  
 —के आने से पहले लक्ष्मीनारायण हिंद पा १००  
 —के डक अरुण आत्माराम १२५  
 —जकिल और मि हाइट स्टिवेन्सन अपर २००  
 —देव अमृता प्रीतम हिंद पा १००  
 —नगेद्र के आलोचना मिद्धात चौत्रे, नारायणप्रसाद  
 नेगनल ७००  
 —नगेद्र के श्रेष्ठ निबंध अग्रवाल, भारतमूषण. राजपाल  
 ५००  
 —बनियर की भारत यात्रा गोविंदराम ३००



- डा. मेघनाथ साहा . महान गणितज्ञ रामानुजन् और डा. गणेश प्रसाद कपूर, व्यामनारायण. सा नि, का २.००
- रागेय राघव—साहित्यकार एव व्यक्ति अमरनाथ, सपा ज्ञानालोक
- राजेद्र प्रसाद गणेश शास्त्री ग्रथ भ ०.७५
- राजेद्र प्रसाद. जैन, आनन्दप्रकाश विनोद ३.००
- राजेद्र प्रसाद पाठक, श्यामवदन 'श्याम'. राष्ट्रीय सा सा. ०.५०
- राजेद्रप्रसाद मेहरोत्रा, राजेद्र सा नि, व ०.७५
- राधाकृष्णन् चतुर्वेदी, राजेश्वरप्रसाद विनोद. ३.००
- राधाकृष्णन् तिवारी, रमेशनारायण नेगल १.७५
- राधाकृष्णन् हृदय अजता ०.५०
- राधाकृष्णन् एक अध्ययन जमीदार, नि छ साहित्यालय १.५०
- वाड्डे इदिग पुष्पी १.००
- विश्वेश्वरैया जुनेजा मनोहर राजपाल १.५०
- सदाशिव वनफूल राजपाल ३.००
- हैडगेवार पालकट, नारायण हरि सुरेन्द्रनाथ मीतल, २३ एडमन्सटन रोड प्रयाग १.०००
- डाक्टरों का मत लहरी ०.७५
- डाची उपेन्द्रनाथ 'अक' नीलाम १.००
- डान कुश्कजोट की विचित्र कथाये मडल, वीरेद्र सुभाष. ३.००
- डायन. पाठक, सुरेश्वर कला-नि २.००
- डायरी के पन्ने विडला, घनश्यामदास. सस्ता १.००
- डारविन घोष, अशोक पीपुल्स १.५०
- डार मे विछुड़ी सोवती, कृष्णा राजकमल (पा) १.००
- डाल का पट्टी सरण. सहगल ८.७५
- डालिम कुमार गोपालचन्द्र शास्त्री नद व. एव नद स. १.००
- डाली नहीं फूगती जानी हन ३.००
- डिगल मे वीररस मेनारिया, मोतीलाल, सपा हि. सा सम्मे ३.००
- साहित्य जगदीशप्रसाद हिंदु एकेडेमी ८.००
- साहित्य शर्मा, गोवर्धन अनुमधान १६.००
- डिजान कला प्रदेय रामावतार चेतन स. २ हि भवन. १.५०
- डीग-डीग अनेवली फिक तीसवी आत्माराम ३.००
- डूबता नृन्ज नेगर, मोहननिह कि महल ३.००
- डूबती किशोरी. वाकेविहारीलाल 'निराग' मिश्रा पु भ. ६.००
- नरेश शारदाज कृपाशकर नवयुग प्र ५.००
- डूबते किनारे रजित राही मजीन ४.५०
- तारे अभयकुमार 'याथेय' सन्मार्ग. १.७५
- मस्तुन महता, नरेग आत्माराम ४.५०, —हिंद पा. १.००
- नारे आदिन रजिद. शमा ५.५०
- नारे मे पाते गुप्त, योगेन नरकमल. २.५०
- डेरे मरुत हरिप्रसा. हिंदिया १.७५
- रोटी. शर्मा, जगदीश. देहाती १.२५

डेढ सौ वर्ष जिए राजेद्रप्रसाद. ज्ञानोदय १.००

डेनमार्क का राजकुमार हेमलट. शेक्सपियर, विलियम. रा.

वेनीमाधव. ०.७५

डेन्मार्क की लोक-कथाए जैन, आनन्दप्रकाश. आत्माराम १.५०

डेरी फार्म का व्यापार कालीचरण. देहाती ३.५०

डेविड कापरफील्ड व्यास, श्रीकांत, अनु राजपाल १.५०

डैनियल वेन्स्टर स्टीनवर्ग, ऐलफ्रेड. एस चाद १.००

डोगरी भाषा, संस्कृति ने साहित्य शर्मा, शक्ति... श्रीपति.

३.००

डोटी-प्रदेश की लोक-कथाए. मटियानी, शैलेश आत्माराम.

१.२५

डोमेस्टिक साइस कमरुन्निसा वेगम... पु भ. १.५०

## ढ

ढलते आम् ओमप्रकाश कन्हैयालाल. ३.५०

ढाक के गुण तथा उपयोग शुक्ल, अमोलचंद देहाती. ०.७५

ढाल तलवार. रघुवीरशरण 'मित्र' भा. सा प्र. ६.५०

ढीले वधन गोविंदसिंह. कन्हैयालाल. ४.००

ढूलकते-इक्के पक्के आम मालवीय, हर्षदेव. एस. चाद. २.५०

ढोग मेहता, रमेश देहाती २.००

ढोग शौकत थानवी पुष्पी १.२५, —सुरेद्र. ३.००;

(पा) १.००

ढोगी मोलियर आत्माराम १.५०

ढोरो का इलाज वर्मा, रमेश सा. रत्न भ ०.७५

ढोलामारु का दूहा रामसिंह... ना प्र. सभा. ८.००

## त

तग गली गोविंदसिंह. कन्हैयालाल ४.००

तनुजाल रघुवज कि. महल ६.००

तदुरुस्त कैसे रहे मेकफैडेन, वर्नर आरोग्य ३.००

—रहने के उपाय सरावगी, धर्मचंद सस्ता १.२५

तदुरुस्ती हजार नियामत सब्यसाची मस्ता. ०.४०

—हजार नियामत है हीरालाल निरोगी १.००

तदुल त्रिपाठी, रामाधार 'जीवन' विश्वविद्यालय १.००

तवाकू का सेती. कातऋषि. देहाती. ०.५०

—की दुकान. सहगल, चंद्रभान देहाती २.५०

—के गुण तथा उपयोग दीक्षित, रामसनेही. देहाती १.२५

—व पान से सावधान. अवस्थी, लक्ष्मीनारायण. स्वरूप.

०.३७

तकली तरुणभाई. सर्वोदय सा ०.७५

तकली. दीवान, कुदर अ. भा सर्व २.००

—रानी बडी सयानी. कल्याणमल.

तकुवा अ. भा सर्व ०.७५

तक्षशिला. भट्ट, उदयशंकर इ प्रे ३.००

- तट की खोज परमाई, हरिगकर लोक-चेतना १.५०  
 —के वधन विष्णु प्रभाकर सस्ता ३५०  
 —के वधन वैद्य, किशोरीलाल कुमारसन्ज ३१०  
 तटों के आचल भटनागर, ज्ञानेन्द्रकुमार. सुरेन्द्र २००  
 तडप मिश्र, शिवदत्त कल्याणदास १७५  
 तडप शर्मा, जगदीश देहाती १.२५  
 तडपाती मानवता रामवीर शास्त्री 'अरुणेश' अरुणेश ०.५०  
 तत्त्व और यौगिक गुप्त, कृष्णमोहन हिं प्रचा पु १५०  
 —चर्चा नथमल, मुनिश्री आदर्श सा ०.२५  
 —चिंतामणि गोयदका, जयदयाल  
 —ज्ञान आनदस्वामी गोविंदराम ३००  
 —ज्ञान दीवानचद हिं समि ४००  
 —बोध श्रीचद रामपुरिया, सपा जैन श्वेतावर ०.३६  
 —मीमामा की रूपरेखा भा, अनिरुद्ध परि स मोतीलाल ४००  
 —विचार गीता ०.३७  
 तत्त्वार्थराजवार्तिक भट्ट अकलक भा ज्ञानपीठ २४००  
 तत्त्वार्थवृत्ति श्रुतसागर सूरि भा ज्ञानपीठ १६००  
 तत्त्वार्थसूत्र कैलाशचद्र श्री भा दिगवर २५०  
 तत्त्वार्थसूत्र लालवहादुर शास्त्री श्री भा दिगवर ०.५६  
 तत्त्वार्थसूत्र सुखलाल श्री आत्मानद ६५० ?  
 तत्त्वों की खोज में चतुर्वेदी, जगपति कि महल २००  
 तथागत कुमुद विद्यालकार रीगल ३५०  
 तथागत कोसल्यायन, भदत आनद कि महल. १५०  
 तथागत गोविंदसिंह चौधरी ३००  
 तथागत जैन, यादवचद्र एस चाद १२५  
 तथागत रामवृक्ष वेनीपुरी नाँवली २००  
 तथापि मेहता, नरेश हिं ग्र २ ३००  
 तन की हार दत्त भारती पजावी पु ३५०  
 —के उजले, मनके काले गोविंदसिंह कन्हैयालाल ४२५  
 —के उजले मन के काले जमनादास 'अस्तर' सहगल ३२५  
 तनहाइया प्यारेलाल 'आवारा' रूपसी ३००  
 तनहाई और परछाइया वाजपेयी, प्रेमचद्र पुष्पी १२५  
 तपन गोविंदसिंह कन्हैयालाल ८००  
 तपस्या धवन, देवीप्रसाद 'विकल' अवध १७५  
 तपस्विनी ठाकुर, रवीन्द्रनाथ प्रभात प्र २००  
 तपस्विनी मुशी, कन्हैयालाल माणिकलाल राजकमल भा १.५५०, भा २ १०००, भा ३ ११००  
 तपस्वियों की कहानिया राजवहादुर सिंह आत्माराम २००  
 तपेदिक पाडेय, महेन्द्रनाथ छात्रहितकारी ४००  
 —का प्राकृतिक इलाज पाडे, महेन्द्रनाथ कि महल ४५०  
 —के बच्चिये. वत्स्य, मतराम नेशनल ०.८५  
 तपोधन विनोवा नवजीवन १५०  
 —विनोवा जोगी, दावूराव. अ भा सर्व. एव हिं सा म. १५०  
 तपोभूमि जैन, रूपभचरण. ज्ञान प्र ५००  
 तपोभूमि मिश्र, रामगोपाल हिं सा सम्मे १०००

- तप्तगृह-आलोक मल्लिनाथ नाँवली १२५  
 तव और अत्र गुरुदत्त राजपाल ५००  
 —और अत्र राधिकारमणप्रसाद सिंह, राजा अशोक प्रे ४००  
 तवला गाइड रामअवतार 'वीर' देहाती २५०  
 तमसा की गोद में पाठक, अनसूयाप्रसाद राष्ट्र पु भ ३५०  
 तमिल और उसका साहित्य सोमसुंदरम्, पूर्ण राजकमल २२५  
 —नाड की लोक-कथाए भटनागर, ज्ञानेन्द्रकुमार आत्माराम १२५  
 —साहित्य और सस्कृति अवधनदन सस्ता ३५०  
 —साहित्य का नवीन इतिहास राजगोपालन, न वी आर्य बुक एव आशा प्र ३००  
 तरगवती पादलिप्त, आचार्य अपोलो ४००  
 तरगा राधिकारमणप्रसाद सिंह, राजा अशोक प्रे १७५  
 तरगिणी अवस्थी, रमेशचद्र भालोटिया २००  
 तरगित हृदय अभयदेव, आचार्य श्रीअरविंद २००  
 तरकश के तीर श्रीकृष्ण. भा ज्ञानपीठ, ३००  
 तरकारियों की खेती रामेश्वर अशात देहाती १५०  
 तरकारी साग-भाजी की खेती गुप्त, राजेश देहाती ३५०  
 तरबूजा के गुण तथा उपयोग दीक्षित, रामसनेही देहाती ०.६२  
 तरल-तरग शुक्ल, सोमेश्वरदत्त इ प्रे १००  
 तरहदार लौडी सज्जाद हुसेन, मुशी मित्र. ३००  
 तराई-प्रदेश की लोक-कथाए मटियानी, शैलेश आत्माराम १२५  
 तराना गोविंदसिंह कन्हैयालाल ५००  
 तरुण के स्वप्न बोस, सुभाषचद्र हिं पु ए २००  
 —गार्ड फदेयेव, अ २ भा पीपुल्स ७३७  
 —भारत लाजपतराय, लाला चौधरी ३००  
 तर्क का तूफान यशपाल विप्लव ३५०  
 —विद्या (अवरोह) सरकार, जे के बुकलेड ३५०  
 —शास्त्र अग्रवाल, रामरतन कि महल ३००  
 —शास्त्र गुलाबराय ३ भा ना प्र सभा प्राप्य भा २ ३००  
 —शास्त्र जैन, विमलकुमार कोदिया २ भा नद व्र एव नद स ४०० (प्र)  
 —शास्त्र आगमन राय, भोलानाथ अपर ४७५  
 —शास्त्र निगमन राय, भोलानाथ अपर ४७५  
 तर्जुमा कुरान शरीफ इकवाल अहमद लायलपुरी... रतन एड क ८००  
 तलछट गोर्की, मैक्सिम पीपुल्स २००  
 तलवार की छाया माधवसिंह 'दीपक' शारदा म ३.००  
 तलाक ओझा, प्रफुल्लचद्र 'मुक्त' ज्ञान प्र ४००  
 तलस्तोय की श्रेष्ठ कहानिया प्रभात प्र ३००  
 तसव्वुफ अथवा सूफीमत पाडे, चद्रवली नद व्र ४००  
 तस्वीर गोविंदसिंह कन्हैयालाल. ४५०  
 —उसकी चिरजीत आत्माराम १.५०

- तहजीब शर्मा, जगदीश देहाती. १२५  
 तात बनाना सत्यन् अ भा. सर्व ०६०  
 तात्रिक बौद्ध साधना और साहित्य ना प्र सभा ५००  
 —वाङ्मय मे शाक्तदृष्टि गोपीनाथ कविराज वि राष्ट्र  
 ७५०  
 —साधना पडित, माधव पडलीक भा ज्ञानपीठ  
 ताओ. उपनिषद् दिवाण, मनोहर अ भा सर्व ०७५  
 ताजमहल रामकुमार 'निशक'. हिंदिया. ३००  
 —के आसू लक्ष्मीनारायणलाल गर्ग ब्र २५०  
 —पै कौआ बोला जोशी, सूर्यकुमार नेशनल २५०  
 तात्कालिक चिकित्सा गुप्त, शिवदयाल स २ रा. वेनीप्रसाद  
 १२५  
 —चिकित्सा लालबहादुरलाल. गगा २५०  
 —चिकित्सा वैश्य, जे डी ज्ञान भारती २५०  
 तात्या टोपे. भट्ट, पातीराम सा नि, का १५०  
 —टोपे. लक्ष्मीनारायण 'कुशवाहा' सा नि, व ५००  
 तात्विक आधार. शर्मा, रामकृष्ण सर्वोदय ना ०५०  
 तामसी जरासध. कि महल ५००  
 तामिल भाषा का जैन साहित्य जैन सा ०.२५  
 —वेद तिरुवल्लुवर सस्ता १५०  
 तारकवध शुक्ल, गिरिजादत्त 'गिरीश' भा भ १०००  
 तारा कैसे देखे चतुर्वेदी, जगपति आदर्श पु म १५०  
 —कैसे बने चतुर्वेदी, जगपति आदर्श पु म १५०  
 —भौतिकी या तारो की दुनिया सेठी, निहालकरण हि. समि  
 ८.००  
 तारिका पत, गोविंदवल्लभ गगा ४.००  
 तारे और मनुष्य शेषली, हार्लो हि सनि. ७५०  
 तारो की छाव आदिल रशीद सहगल ४००  
 —के गीत भटनागर, महेंद्र. गयाप्रसाद ०७५  
 —के सपने पत, गोविंदवल्लभ आत्माराम ६५०  
 —भरी रात गोविंदसिंह चौधरी ३००  
 —से पूछिये, उमाशकर उमेश ५५०  
 ताल-अक गर्ग, प्रभूदयाल, सपा. सगीत ४.००  
 —प्रकाश शर्मा, भगवतीशरण सगीत ५००  
 —प्रबोध शर्मा, नदकिशोर 'मदन' दीपक प्र ३७५  
 तालीम की बुनियादे मशरूवाला, किशोरलाल. नवजीवन  
 २.००  
 ताश के महल वाजपेथी, प्रेमचंद्र पुष्पी. १२०, — सुरेद्र  
 २५०  
 तिदुबुलभ. वर्मा, लक्ष्मीकात कि सहल २.००  
 तिकडम. सेठ, जवाहरलाल 'पागल' पुष्पी. ०.७५; —  
 सुरेद्र. २२५  
 तितली. प्रसाद, जयशकर भा भ ५.००  
 तितली सुदरलाल 'अशोक'. विश्वेश्वरानन्द. १.५०  
 — एक अध्ययन. टडन, लक्ष्मीनारायण. हि. सा भ.  
 १५०  
 —के पत्र. गौरीशकर 'लहरी' राजकमल. १.००  
 तिनके. प्यारेलाल 'आवारा'. कल्याणदास. २.५०

- तिनके और लहरे हरदयालसिंह. सन्मार्ग ५.००  
 —का सहारा. शर्मा जयप्रकाश. मनोरमा. ३००  
 तिनको की ओट मे वेदप्रकाश 'टोरी'. नवीनतम  
 तिब्वत का रहस्य. प्रेम हरद्वारी. प्रचा. पा. १००  
 —की लोक-कथाए वर्मा, सत्यभूषण. बाल सदन. १००  
 —की लोक-कथाए श्रीकृष्ण... आत्माराम १५०  
 —मे तीन वर्ष. कावागुची, यात्री इकाई. हि. पु ए ३.५०  
 —मे बौद्ध धर्म राहुल साकृत्यायन. कि महल १२५  
 तिब्वी इनसाइक्लोपीडिया भगत राधेश्याम, हकीम रतन एड  
 क ३००  
 तिरगा भडा विराज नेशनल १.२५  
 तिरगे भडे की कहानी. शकर सुल्तानपुरी नवयुग पु भ ०३७  
 तिरस्कृत गोविंदसिंह पुष्पी ०७५, — सुरेद्र. २.००;  
 (पा) १००  
 तिरिच मीर ग्रथमाला १५०  
 तिरुवल्लुवर सोमसुदम्, पूर्ण सस्ता ०४०  
 तिलक गोविंददास विनीत अग्रवाल प्रि. ०७५  
 —मजरी धनपाल सस्ता ०.४०  
 तिल का ताड गेक्सपियर, विलियम राजपाल. २.००  
 तिलस्मी. चक्कर जैन, ऋषभचरण. ज्ञान प्र. २००  
 तिलहन की खेती रामेश्वर अशात देहाती. ०८७  
 —की खेती व्यास, नारायण दुलीचद सस्ता १.००  
 तिलोत्तमा गुप्त, मैथिलीशरण सा सदन, चि १.५०  
 तीतर पडित. गोपाल साहनी ०७५  
 तीन इक्के जैन, ऋषभचरण ज्ञान प्र ३.००  
 —एकाकी वर्मा, रामकुमार नद ब्र एव नद स. १००  
 —एकाकी. शर्मा, जगदीश देहाती १२५  
 —ऐतिहासिक नाटिकाए वर्मा, परिपूर्णानन्द. भा. ज्ञानपीठ.  
 —कहानिया. प्रशात बाल सदन ०७५ [४.००  
 —कुमार पृथ्वीकुमार सस्ता १००  
 —क्रांतिकारी शहीद. वसल, रतनलाल विनोद ४.००  
 —चम्मच गगाजल ओमीलाल 'इलाहावादी' राष्ट्र प्रचा., इ.  
 ४५०  
 —जोगी टाल्स्टाय. सर्वोदय. ०५०  
 —तिलगे व्यास, श्रीकात, अनु राजपाल. १.५०  
 —दक्षिणी महाद्वीप तिवारी, शिवकुमार. केदारनाथ.  
 —दिन चद्रगुप्त विद्यालकार राजपाल. ३००  
 —द्वार सिंधु घहराय रे बटोहिया उपाध्याय, भगवतशरण.  
 ग्रथमाला. १००  
 —नकटे शर्मा, यादवेद्र 'चद्र'. राजहस. १२५  
 —नाटक भास. सस्ता ०४०  
 —नाटक राहुल वावा कि महल. १७५  
 —निगाहो की एक तस्वीर भडारी, मन्नू राजकमल एव हि.  
 प्रचा पु ३.००  
 —पीढी गोर्की, मैक्सिम सा केद्र ५.००  
 —प्रमुख योग सत्यकाम देहाती २५०  
 —प्रग्न. शर्मा, मनु कल्याणदास ५००  
 —फरिश्ते. आल्वेतसो. नेशनल. २००

- तीर्थ फायर ज्वालानाप्रसाद 'केशर' चिनगारी २५०  
 ३ वज्रकर २० मिनट तीर्थराम फिरोजपुरी अशोक पा १००  
 —वाके राधाप्रसाद रूपसी १५०  
 —वाते गुप्ता, वैजनाथ दास ०६२  
 —महायात्री सर्वोदय ०७५  
 —मूर्ति केलकर, आर एस गमलोचन (पा) १००  
 —युग रैना, विमला कि महल २५०  
 —वर्ष वर्मा, भगवतीचरण भा भ ३५०  
 —श्रेष्ठ नाटक विष्णुदत्त कविरत्न प्रेम प्र ४५०  
 —सदेश तुलनी, आचार्यश्री आदर्श सा ०३७  
 —साथी ठाकुर, रवीन्द्रनाथ कन्हैयालाल २५०, — कि महल २००, — प्रभात प्र २००  
 —साल. चेलव, एन्टन राजकमल (पा) १००  
 —साहसी यात्री उमिला कुमारी हि सा स ०७५  
 —सी लक्षण लहरी ०७५  
 —हाडी तेरह चूल्हे श्यामविहारी 'विरागी' राष्ट्र प्र म. ३२५  
 —हिंदुस्तान और भारतमाता वर्मा, रजनीकांत रग्मि १००  
 तीमारदारी श्रीवास्तव, श्रीमन्नारायण रा बेनीप्रसाद ०६०  
 तीरदाज 'ई' राजकमल १००  
 तीरे नजर विस्मिल मात्र-भाषा २००  
 —नजर की चोट गुप्त, मुन्तूलाल 'सूर्य' पुष्पी ०.७५, — सुरेद्र २००  
 तीर्थकर महावीर जैन, यशपाल सस्ता ०४०  
 तीर्थयात्रा चौधरी, जे पी चौधरी ०५०  
 तीर्थयात्रा मुदर्शन वोग ४००  
 तीर्थराज प्रयाग भारद्वाज, लक्ष्मणप्रसाद सग्ता ०४०  
 तीर्थ-रेणु कल्शी, पट्टमलाल पुन्नलाल पु भ ०५०  
 तीस दिन नीटियात, मतोपनारायण आत्माराम ३५०  
 —दिन मे हिंदी कौंगल, रामस्वरूप गगा २००  
 तीसमारखा गौड, ब्रजविहारीलाल आदर्श पु म २००  
 तीसमारखा व्याम, धीकांत, अनु राजपाल १५०  
 तीमरा आदमी कमलेश्वर हिंद पा १००  
 —क्षण गुप्त, योगेश दि पु स २५०  
 —चक्रर गोविर्दासिह गुल्लूप्रसाद २००  
 —नेत्र जैन, आनदप्रकाश भा ज्ञानपीठ २५०  
 —रारता दत्त भारती पञ्जाबी पु ३५०  
 —सप्तक वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद 'अज्ञेय', सपा. स २ भा ज्ञानपीठ ५००  
 तीसरी पंचवर्षीय योजना (नपूर्णा) प्र विभाग ७५०  
 —भुव शंभु, अनंतगोपाल. नीलाम २५०  
 ३० लाख के हीरे तीर्थराम फिरोजपुरी सहगल २५०  
 तीसी पाडे, छविनाथ हि पु. ए ८५०  
 —के रेडो रिटारिया, आर एच मगध २५०  
 तुकाराम-नाथानार जैन, नारायणप्रसाद, अनु सग्ता १५०  
 तुम उद्धार करो हम प्यार करे ओमीलाल 'इलाहाबादी'. विद्या भवन, इ ३.००

- तुम चदन हमें पानी मिश्र, विद्यानिवास भा भं ३००  
 —ने क्यो कहा था मैं सुंदर हू यशपाल विप्लव ३००  
 —ने निहारा गर्मा, जगदीश हि सा भ ४२५  
 —ने मुझे पुकारा तो नहीं सिन्हा, सुरेश पुष्पी १२५  
 —पूछो हम बताए श्रीकृष्ण शकुन १२५  
 —बडी पागल हो पहलकार, मालती राजकमल २५०  
 तुमुल पाडेय, श्यामनारायण इ प्रे २००  
 तुम्हारी कसम गर्मा, ओमप्रकाश रतन एड क २५०  
 —क्षय राहुल साकृत्यायन कि महल २००, — सा केद्र १५०  
 तुम्हारे लिए गोपीकृष्ण गोपेश सा भवन, इ ४००  
 तुर्क अफगानकालीन भारत नाहर कि महल २००  
 —भारत मजुमदार, विमानविहारी ग्रथमाला १००  
 तुलनात्मक अध्ययन सरस्व पु स १७५  
 —अध्ययन गर्मा, कृष्णचंद्र आत्माराम ३००  
 —भाषा विज्ञान तिवारी, भोलानाथ मोतीलाल १०००  
 —भाषा विज्ञान फर्तुगानोव, एफ एफ भा १ क मु हि  
 —विवेचन दिनेश सरस्व पु स १७५  
 —व्याकरण हिंदी मलयालम कुट्टनपिल्ले कि महल ०७५  
 —शिक्षा-व्यवस्था मुकर्जी कि महल ५००  
 —सामाजिक सस्थायें वात्स्यायन केदारनाथ ५००  
 तुलसी बालकृष्ण नेशनल १००  
 तुलसी वेदी, रामेश आत्माराम २००  
 तुलसी माताप्रसाद हि सा परिपद २००  
 तुलसी शुक्ल, रामवहोरी हि भवन ३००  
 —और उनका काव्य त्रिपाठी, रामनरेश राजपाल ७००  
 —और उनके काव्य भारद्वाज, रामदत्त मूर्ध प्र १०००  
 —और उसका काव्य सत्यनारायण सिंह आत्माराम ०७५  
 —का अतर्जगत् देवेर्दासिह मजुल ५००  
 —काकली नरेन्द्रदेव सिंह, सपा श्रीराम मेहरा २००  
 —का गवेषणात्मक अध्ययन पाडेय, राजकुमार सरस्व पु स २५०  
 —की काव्य कला भाग्यवती सिंह सरस्व पु स १२५०  
 —की जीवन-भूमि पाडेय, चंद्रवली ना प्र सभा ३७५  
 —कृत विनय-पत्रिका गर्मा, राजनाथ विनोद ७५०  
 —के गुण तथा उपयोग सत्यकाम देहाती १५०  
 —के चार दल अवस्थी, सद्गुरुशरण इ प्रे भा १ ३००, भा २ २७५  
 —के भक्तयात्मक गीत वचनदेवकुमार हि सा स २०००  
 —ग्रथावली गुप्त, माताप्रसाद, सपा २ ख हिंदु एकेडेमी १५००  
 —ग्रथावली शुक्ल, रामचंद्र भा २ ना प्र सभा ६२५  
 —चरित पाडेय, रामाचार्य राष्ट्र प्र म २०० (अप्रा)  
 —चिकित्सा विधान गर्मा, सुरेशप्रसाद स २ मेडिकल ०३७  
 —दर्शन मिश्र, बलदेवप्रसाद हि सा सम्मे ५००  
 —दर्शन-मीमामा उदयभानु सिंह हि सा भ १८००  
 —दल भा, सदानंद ज्ञानपीठ. ०.५०



तैलगू साहित्य का नवीन इतिहास आर्य बुक ३००  
तोडी थाट अक गर्ग, लक्ष्मीनारायण, सपा संगीत २५०  
तोपसिंह श्रीवास्तव, जी पी ज्ञानमडल एव भा प्र मडल  
३००

तोरण के पर्ण शर्मा, रामानंद कन्याकुमारी २५०  
तोरी वेदी, रामेश आत्माराम १२५  
तोपी वर्मा, वृंदावनलाल मयूर ०७५  
...तो स्वराज्य हो गया खरे, नर्मदाप्रसाद गयाप्रसाद  
१५०

तौलिए उपेद्रनाथ 'अश्क' राजकमल (पा) १००  
त्याग नथमल, मुनिश्री अ भा अणुव्रत ०५६  
त्याग रत्नकांत आनंद पु, को १७५  
त्याग श्यामसुंदरलाल चौधरी २५०  
—और वलिदान गुप्त, मन्मथनाथ आत्माराम १२५  
—और शौर्य की कहानिया पाडेय, गणेश छात्रहितकारी  
०५०  
—का मूल्य गौड, राजेंद्रसिंह . हि प्र म १५०  
—का मूल्य ठाकुर, रवींद्रनाथ अर्चना प्र (पा) १००,  
सन्मार्ग ४००

—का मदेश गाधी, मोहनदास करमचंद नवजीवन ०३५  
—के देवता परदेशी कन्याणमल ३५०  
—पत्र जैनेंद्रकुमार पूर्वोदय २२५, सस्ता स १५०,  
—हि अ र १५०, —हिद पा १००  
—पत्र अध्ययन प्रताप हि सा भ १००  
—मूर्ति गोविंदसिंह सुभाष २५०  
त्यौहारो की भाकी दिवाकर नवचेतना ०७५  
ग्रयी जानकीवल्लभ शास्त्री वला-नि १५०  
त्रिकोण अमृता प्रीतम . प्रगतिशील १०००  
त्रिकोण मिश्र, शारदा हि प्रचा पु ३००  
त्रिकोणमिति अरोडा, दीवानचंद केदारनाथ ३२५  
त्रिकोणमिति खन्ना, एम एल एस चाद २००  
त्रिकोणमिति पाडेय, शुक्देव काशी हिदू ६००  
त्रिकोणमिति सुशीलकुमार एस चाद ३५०  
—का सफल अध्ययन अरोडा, दीवानचंद स ६ केदारनाथ  
५५०

त्रिधारा वर्मा, ब्रजकिशोर ग्रथालय ४००  
त्रिपथगा गुप्त, मैथिलीनगरण सा सदन, चि २००  
त्रिपथगा वर्मा, भगवतीचरण भा भ २००  
त्रिफला वेदी, रामेश आत्माराम १२५  
—के गुण तथा उपयोग दीक्षित, रामस्नेही देहाती १५०  
त्रिभंगिमा हरिवशास्य 'वच्चन' राजपाल ४००  
त्रिवेणिका बुद्धप्रकाश १२००  
त्रिवेणी भावे, विनोदा अ भा मर्व ०५०  
त्रिवेणी व्यास, कृष्णानंद 'वेग्राम' वेग्राम ०५०  
त्रिवेणी शर्मा, अविनाचरण रत्न ३५०  
त्रिवेणी शुक्ल, रामचंद्र ना प्र नभा २५०  
त्रिवेणी नन्वरवान, कचननता मा सदन, दे ५००  
...सोहनलाल, मुनिश्री आदर्श सा २००

त्रिवेणी अवगाहन सक्सेना, भुवनेश्वरीचरण, टीका रामप्रसाद  
३००  
—के सुगम पर गोस्वामी, वासुदेव गोस्वामी १२५

## थ

थके पाव वर्मा, भगवतीचरण सा सदन, दे ३००  
थपेडे गोविंदसिंह आदर्श पु म ३००  
थर्ड डिवीजन शर्मा, ओमप्रकाश 'आदिल' हि सा स ४३७  
थर्मामीटर स २ मेडिकल ०२५  
थानेदार मल्होत्रा, अमरनाथ आत्माराम ५५०  
थियोडोर रुजवेल्ट टामस, हेनरी एस चाद १.५०  
थोडी देर हो गई धवन, देवीप्रसाद 'त्रिकल' प्रेम प्र ३५०  
थोरो काडी, विलियम एस चाद, १००

## द

दत्त मजन विज्ञान वर्मा, चदूलाल 'चंद्र' चंद्र कार्या ०३७  
दपतियो की समस्याए लक्ष्मीकांत कि महल १७५  
दक्खिनी का प्रारंभिक गद्य पाडेय, राजकिशोर नागरी प्र  
—हिंदी सक्सेना, बाबूराम हिंदु एकेडेमी ३००  
—हिंदी-काव्यधारा राहुल सास्कृत्यायन वि राष्ट्र ६००  
दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास गाधी, मोहनदास  
करमचंद सस्ता ३५०  
—का गद्य और पद्य हि प्रचा स १०५०  
—की काशी जोशी, श्रीपाद सस्ता ०.४०  
—की मीरा महेशनारायण 'भारती भक्त' सस्ता  
—की विभूतिया गौड, राजेंद्रसिंह सा भवन इ २५०  
—की श्रेष्ठ कहानिया भटनागर, ज्ञानेंद्रकुमार, सपा पुष्पी  
१००, —सुरेद्र २५०  
—के देशरत्न गौड, राजेंद्रसिंह सा भवन, इ ४००  
—के महापुरुष २ भा हि प्रचा स भा १०५०,  
भा २०३७  
—ध्रुव-विजय साइपल, पॉल आत्माराम १०००  
—पूर्व एशिया रघुनाथ सिंह ज्ञानमडल ७५०  
—भारत की एक भलक गोविंददास, सेठ एस चाद २७५  
—भारत की लोक-कथाए अय्यर, रामनाथ गंगा १५०  
—भारत में हिंदी प्रचार आंदोलन का समीक्षात्मक इतिहास  
केशवन नायर, पी के हि सा भ १०००  
दक्षिणापथ ओझा, प्रफुल्लचंद्र 'मुवत' ग्रथमाला १००  
दक्षिणी अमेरिका की लोक-कथाए वर्मा, मनोहरलाल  
आत्माराम १५०  
दत्ता चट्टोपाध्याय, गरतचंद्र कि महल ३००, —  
नवयुग पु भ. २४०, —हिद पा १००  
दत्तिलम् दत्तिल मुनि संगीत २००  
दवदवा शर्मा, यज्ञदत्त. सा प्र ७.५०

दही आग देसाई रमणलाल वसतलाल. वीरा. १७५  
 दवे पाव वर्मा, वृदावनलाल. मयूर. २.००  
 दमयती हागीत, ताराचंद्र आत्माराम ८.००  
 —स्वयंवर भट्ट, बालकृष्ण हि सा सम्मे ०.५०  
 दया-दान नयमल, मुनिश्री आदर्श सा ०.२५  
 दयानंद घोष, अरविद श्रीअरविद ०.७५  
 दयानंद मन्तराम इ प्रे १.००  
 —आंग वेद घोष, अरविद गोविंदराम ०.२५  
 —ग्रन्थ संग्रह दयानंद, स्वामी गोविंदराम ४.५०  
 —चित्रावली. आर्य सा  
 —चित्रितामृत विद्यानंद विदेह, स्वामी वेदसस्थान १.००  
 —जीवनी साहित्य विश्वनाथ शास्त्री भा प्राच्य ०.४०  
 —वचनमृत आनंदस्वामी आर्य सा ०.३७  
 दयानु और परोपकारी बालक बालिकाए गीता ०.२०  
 —दयानंद वर्मा, सुवर्णसिंह इ प्रे ०.३१  
 दग्गारी सम्कृति और हिंदी मुक्तक त्रिभुवन सिंह हि प्रचा  
 पृ ४.५०  
 दरवाजे खोल दो कृष्णचंदर. हिंद पा १.००  
 दरार और धुआ. वाजपेयी, भगवतीप्रसाद अशोक पा १.००  
 दरारें प्यारेलाल 'आवारा'. रूपसी ३.००  
 दरारे रस्तोगी, विनोद अपर ४.२५, — — प्रभात पब्लि  
 ४.२५  
 दरिद्र नारायण गाधी, मोहनदास करमचंद पु भ २.००  
 —नारायण दोस्तोवस्की पीपुल्स १.२५  
 दनिया-ग्र थावली (द्वितीय ग्रन्थ) धर्मद्वं ब्रह्मचारी शास्त्री  
 वि राष्ट्र ६.५०  
 दरीनाप कमरा पाडेय, काशीनाथ अभिजान ३.७५  
 दर्जी गुप्ता, उपेन्द्रनाथदास हि पु ए २.५०  
 —मास्टर (दहेज एडीमन) बट्टीप्रसाद देहाती ३.००  
 —मास्टर (दोस्त दर्जिया) बट्टीप्रसाद देहाती २.५०  
 दर्द जाफरी, रईम अहमद सहगल ३.७५  
 —ए-दिल जैन, वीरेन्द्रकुमार राजपाल २.००, — — हिंद  
 पा १.००  
 —की तन्वीर गुप्त, योगेश मुभाष. २.५०  
 —की वानुरी श्यामद्विहारी 'विरागी' राष्ट्र प्र म २.५०  
 —की मीनार कृष्णानंद पीयूष वि ग्रन्थ ३.५०  
 —जीवनी और नकलन राजपाल १.५०  
 —जो भेने पिवा है वाजपेयी, प्रेमचंद्र आदर्श पु म २.७५  
 —जिया है गोपाचंदान 'नीरज' आत्माराम ३.००  
 —न जाने कोय मेन, नरेगच्छ पुणी ०.७५, — — मुरेद्र  
 २.००  
 दर्श दिल आशिल रगीद पञ्जाबी पु २.५०, — — स्टार  
 (पा) १.००  
 —दिल जाफरी, रईम अहमद. पैगनाइट ३.२५  
 —दिल दिन्दिद मातृ-भागा ३.००  
 दर्शन वर्मा, जयजीवन. इ प्रे. ५.२५  
 —दिनेश तथा जयजीवन देहाती ०.५०  
 दर्शन लक्ष्मीनारायण राजपाल. २.००

दर्शन अनुचितन चतुर्वेदी, गिरधर शर्मा भा ज्ञानपीठ  
 —और जीवन. संपूर्णानंद इ प्रे. ३.५०  
 —और शिक्षा चौबे, सरयूप्रसाद लक्ष्मी ना ४.७५  
 —का प्रयोजन भगवानदास ज्ञानमंडल ३.५०  
 —की कहानिया डूरेट, विल कि महल १०.००  
 —के उपयोग एडमन, इरविन. भा भ ४.५०  
 —दिग्दर्शन. राहुल साकृत्यायन कि महल. १२.००  
 —शास्त्र की दो मूल प्रवृत्तिया विश्वेश्वर नारायण कला-  
 भा २.२५  
 —शास्त्र की रूपरेखा. जैन, बालचंद्र. नद व एव नद स ३.००  
 —शास्त्र के सूत्र तत्व तिवारी, ब्रजगोपाल. पु भ., आ. ५.५०  
 —संग्रह दीवानचंद. हि समि ४.५०  
 —साहित्य और आलोचना वेल्स्की. पीपुल्स ३.००  
 दर्शनानंद ग्रन्थ संग्रह दर्शनानंद, स्वामी गोविंदराम. पूर्वाह्न  
 २.५०, उत्तराह्न २.५०  
 दलहन की खेती रामेश्वर अजात देहाती ४.५०  
 —की खेती व्यास, नारायण दुलीचंद सस्ता १.००  
 दलाईलामा का देग. हरिवग, पी के भा सा. सदन ३.००  
 दशकुमार चरित (पूर्व पीठिका) भा, तारिणीश रा. वेनी-  
 माधव १.००  
 —चरित दडी ज्ञानपीठ ३.००, — — प्रचा पा. १.००,  
 २ भा सस्ता ०.४० (प्र)  
 —चरित रागेय राधव राजपाल ३.००  
 —चरित हरिदत्त शास्त्री गयाप्रसाद १.५०  
 —चरितम् रामकृष्ण आचार्य विनोद. १.००  
 —चरितम्—पूर्व पीठिका प्रथम उच्छ्वास दडी रा. वेनीप्रसाद  
 १.००  
 —चरित संग्रह. लक्ष्मण शास्त्री, सपा. श्रीराम मेहरा १.२५  
 दश दीप सत्यप्रकाश 'मिलिद' दास २.२५  
 दशमिक वेतन तालिका गोस्वामी, वासुदेव गोस्वामी २.००  
 दशरथ-नदन श्रीराम राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती सस्ता ५.००  
 दशहरा-दीवाली वनाम रावण वध रामराज्यभिषेक नाग,  
 उद्वचंद्र. हि भवन ०.५०  
 दशाश्वमेध मित्र, लक्ष्मीनारायण. म. ७ हि भवन. १.३७  
 दस एकाकी. देवदत्त 'अटल', सपा एस चांद २.५०  
 —कहानिया द्विवेदी, मोहनलाल इ. प्रे २.२५  
 —कहानिया हरिश्चक्र, सपा. ब्रवई हि १.००  
 —कुमारो का वृत्तात जर्मा, चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद. रा  
 वेनीप्रसाद ०.५०  
 —गुरु जसवतसिंह गगा. ३.५०, — — म ४. नेचर ३.५०  
 —तन्वीरे माधुर, जगदीशचंद्र राजकमल ६.००  
 —बजे रात विष्णु गभाकर आत्माराम ४.००  
 —महान् अर्थशास्त्री जूनीटर, जोनेफ ए आत्माराम ६.५०  
 दस्तकारी नीबो. नाटली मोहन आत्माराम. २.००  
 दम्पेन्द्रा फेज अहमद 'पैज' आत्माराम २.५०  
 दहकने अगारे भट्टन ग. उद्वर्निह एम चांद ८.००  
 दही के गुण तथा उपयोग. दीक्षित, राममनेही देहाती २.५०  
 —, मही तथा छाक. अवस्थी, लक्ष्मीनारायण स्वल्प. ०.३७



दहेज द्विवेदी, देवनारायण काशी पु ३००  
 दहेज न्यादरसिंह 'वेचैन' देहाती ०७५  
 दहेज मिश्र, विश्वनाथ ग्रथालय १२५  
 दहेज शर्मा, जगदीश देहाती १२५  
 दातो का डाक्टर गुप्ता, के सी देहाती २५०  
 —की चिकित्सा रामनारायण देहाती १२५  
 दापत्य जीवन यादवेदु, रामनारायण गंगा ३००  
 —रहस्य गाधी, हरकिशनदास कि महल ५००  
 दाखुदा राहुल साकृत्यायन कि महल ५००  
 दाग की शायरी मातृ-भापा ३००  
 —की शायरी मसीउज्जमा, सपा प्रचा पा १००  
 —जीवनी और सकलन राजपाल १५०  
 दाढी पर टैक्स व्यास, मुरलीधर नवयुग ग्र कु १५०  
 दादा ओकार शरद अशोक प्रे ३००, — —राजरजना  
 ३००, (पा) १५०  
 —कामरेड यगपाल विप्लव ४००  
 —का हाथी वशीर, वी एम सा अकादमी २००  
 —का हाथी मुहम्मद वशीर पीपुल्स २००  
 —की नजर से लोकनीति धर्माधिकारी, दादा अ भा सर्व  
 ०५०  
 —नेहरू गुजराल, शीला एम चाद १५०  
 —भाई नौरोजी प्र विभाग २००  
 दादी का मटका सिन्हा, सुमित्राकुमारी नेशनल १५०  
 —की कहानिया सतराम इ प्रे ०७५  
 —की बात मनोहर प्रभाकर आशा पब्लि १००  
 दादू की बागी शशिकला सस्ता ०४०  
 —भजन सगीत भजनामृत रामश्रवतार 'वीर' देहानी २५०  
 दानधारा भावे, विनोदा अ भा सर्व १०  
 दानव देश कुशनाहा 'कान' गुल्लप्रसाद एव चिनगारी ४००  
 दानवसरट रमेशचंद्र 'प्रेम' आत्मराम १५०  
 दानवीर कर्ण देवराज 'दिनेश' सस्ता ०४०  
 —कर्ण न्यादरसिंह 'वेचैन' देहाती ०७५  
 दामाद मेहता, रमेश देहाती २००  
 दामाद शौकत थानवी शमा २२५, — —साधना सदन  
 २००  
 दामो रचित लसममेन पद्मावती कथा चतुर्वेदी, नर्मदेस्वर  
 परिमल १२५  
 दायरे रागेय राघव हिंद पा १००  
 दागशिकोह कानूनगो, के आर गयाप्रसाद ८००  
 दाका भजन मग्न दाका, भगवतीराम द हि तु ए १२५  
 दार्जिलिंग पश्चिम राहुल साकृत्यायन आधुनिक पु ४००  
 दार्शनिक निबन्ध तिवारी, ब्रजगोपाल, पु भ, आ २००  
 दाल सेव का पकेट जयन वाचस्पति एम चाद १२५  
 दापेच ललितकुमार सिंह 'नटवर' कयाणदास २००  
 दानता के नये रूप गुरुदत्त भा सा सदन ६००  
 दानू के का-नामे राय, मुकुमार सर्वोदय मा १००  
 दान्दान-ए नमस्वीन मो प्रिये, तियोनिद पीपुल्स ५००  
 दाहर अथवा निव-पतन भट्ट, उदयशंकर आत्मराम २००

दिल्लावा सुरेश सुरेद्र २५०  
 दिगत त्रिलोचन शास्त्री सा केद्र २५०  
 —रेखा सकमेना, शभूदयाल नवयुग ग्र कु १२५  
 दिगवर द्विवेदी, शातिप्रिय हि प्रचा पु २००  
 दिगवरत्व और दि मुनि श्री भा दिगवर १२५  
 दिगवरी जोशी, सूर्यकुमार एस चाद २२५  
 दिग्भ्रमित राष्ट्रकवि शर्मा, कामेश्वर राष्ट्रीय प्र मडल एव  
 राष्ट्रीय सा स २५०  
 दिग्विजय गुरुदत्त भा सा सदन ६००  
 —भूपण भगवतीप्रसाद सिंह हि प्रचा पु १५००  
 दिग्विजयी गुप्त, योगेन्द्रनाथ इ प्रे २७५  
 दिनकर और उनका कुरुक्षेत्र भाटी, देशराजसिंह अशोक प्र  
 ३५०  
 —और उनकी उर्वशी भाटी, देशराजसिंह अशोक प्र. ७५०  
 —और 'कुरुक्षेत्र' वाली, तारकनाथ विनोद २५०  
 —और कुरुक्षेत्र श्रीवास्तव, रामचंद्र 'चंद्र' कि घर, ग्वा  
 २००  
 —की उर्वशी तिवारी, रमाशंकर स २ चौखवा ३००  
 —की सूक्तिया रामवारी सिंह 'दिनकर' उदयाचल २५०  
 —के काव्य त्रिपाठी, लालधर 'प्रवासी' आनंद पु, वा  
 ५००  
 —जी का कुरुक्षेत्र. मल्लिनाथ नाँवट्टी ४००  
 —सृष्टि दृष्टि कौल, गोपातकृष्ण सहयोगी १०००  
 दिन के सपने शंकरधनु श्रीराम मेहरा २००  
 —बीत गया गुप्त, तनसुखराम सूर्य प्र १००  
 दिमाग का बीमा टडन, एन आर आत्मराम २५०  
 दिनागी गुलामी राहुल साकृत्यायन कि महल १००  
 दिल की प्यार आगाहश्र काश्मीरी कत्याणदास १५०  
 —की बात मल्लिक, गुरुदयाल सा भवन, इ ३००  
 —के तार सुदर्शन घोरा १२५  
 —फेक शौकत थानवी अशोक पा १००, — —सहगल.  
 २७५  
 दिलखा गाइड आमश्रवतार 'वीर' देहाती ३५०  
 दिल ही तो है श्रीवास्तव, जी पी हिंद पा १००  
 दिलो-नजर दुवे, रामाधार, सपा राजकमल (पा) १००  
 दिल्ली दि लायब्रेरी ०६२  
 दिल्ली रामधारी सिंह 'दिनकर' उदयाचल ०६२  
 —का लाल किला सर्वोदय ०७५  
 —की कहानी सरन, पी गुरदास २५०  
 —डायरी गाधी, मोहनदास करमचंद नवजीवन ३००  
 —मे दम वर्ष हाडा, राजेंद्रलाल आत्मराम ३५०  
 —सन्तनत (७११-१५२६) श्रीवास्तव, आशीर्वादीलाल  
 सजो स ४ शिवलाल १०००  
 —सत्तनत का इतिहास महाजन, विद्याधर एस चाद  
 ६५०  
 दिवाला शर्मा, जगदीश देहाती १२५  
 दिवास्वप्न, ववेका, गिजुभाई म २ ग्रामभारती १२५  
 —तथा अन्य एकाकी टडन, प्रेमनारायण हि सा भ २५०

- दिव्योदाय राहुल मातृन्यायन कि महल ३००  
 दिव्यनक्ष केमार्ट, रमणगाल वसंतलाल ड प्रे ३५१, — —  
 योग २००  
 दिव्य जीवन. घोष, अरविद. २ भा श्रीअरविद भा १.  
 ६००, भा. २  
 —जीवन मार्टेन, स्पेट सस्ता १५०  
 —जीवन. वान्नाफ, फ्राज कि महल २००  
 —इगानद विद्यार्थी, जगदीश गोविंदराम १०५  
 —भावना दिगानद विवेह स्वामी वेदमस्थान ०८६  
 —नोकमे एनेन जेम्स कि महल १५०  
 —नपत्ति वर्मा, विज्वमित्र कल्पवृक्ष ०५०  
 दिव्या. यशपाल विज्व ५००  
 दिशाहीन गुप्त मग्मथनाथ हिंद प १००  
 दीक्षा तुलसी, आचार्यश्री जैन श्वेतावर ०१५  
 दीदी कामरेड जर्मा, यज्ञानागयण विकन' रामा प्र ५००  
 दीनजन चिकिना न्यामगा ४००  
 दीप और पाना वाजपेयी, प्रेमचंद्र आदर्श पु म १००  
 —किरण नेट्टिया, कन्हैयालाल आदर्श सा १५०  
 —के स्तर राठीर, गापान म्पकवल ३५०  
 —जनेगा उपेदनाय 'अश्वक' नीलाभ ३५०  
 —जने यन प्रो मिश्र, कन्हैयालाल प्रभाकर भा जानपीठ  
 ३००  
 —दान. चतुर्वेदी, देवीदयाल 'मस्त' चौधरी ३५०  
 —दान राजेश्वरप्रसाद सिंह नीलाभ ३००  
 —दान वर्मा, रामकुमार. भा भ ३००  
 —देवा चतुर्वेदी, जगतपकाश कि महल १२५  
 —दिग्दा वर्मा, महारैवी भा भ ४००  
 दीपानी गोविंदसिंह कन्हैयालाल ६२५  
 दीपादली मुदर्शन घोरा २५०  
 दीमक टि लापयेनी ०६०  
 दीया जने रात भर गोविंदसिंह मुभाप २५०  
 दीपंतगा फणीश्वरनाथ रेणु वि ग्र कु ४००  
 दीवान ए-गानिय प्रव्वानी, नूरनवी अशोक पा १२५  
 —ए-गानिय गानिव राजपाल २००, — — हिंद पा  
 १००  
 —निरकीत सुवन मातृ-भापा १००  
 दीवाने गानिय मुमनी समोहवी... सहगल  
 दीवार जगदीश गानियावादी देहानी १०५  
 दीवान रामनान मिंद पृषी १२०, — — गुरेड  
 २००  
 दीवार गानयो जर्मा, महेशप्रसाद भ न्योदव ०००  
 दीवान देवी, राजेशसिंह नीलाभ. ३२५  
 दुर्गा रतिभाट्ट सिंह 'नागर' छात्रहितकारी १००  
 दुर्गा लो निरुत, योगेदनाय. अभिमान. १५०  
 दुर्गादेव नगार्जुन राजपाल २३०, ३००  
 दुर्गादेव नगार्जुन राजपाल ४००  
 —ने रामे रा. जगदगाल गंगा २५०  
 दुर्गादेवी. भोपाता. नवपुत्र प्र. ४००

- दुग्ध-कल्प मोदी, विठ्ठलदास. आरोग्य. १.००; — —  
 छात्रहितकारी १.००  
 —चिकित्सा जगदीश्वरानंद, स्वामी कल्पवृक्ष ०.३७  
 —चिकित्सा लुईकुने हिं ग्र ० २५  
 दुनिया की कहानी जर्मा राधाकृष्ण कि महल भा. १.  
 ५००, भा २ ६००  
 — की दुनिया मदारिया, मनमोहन नेशनल. २००  
 —की सैर अस्सी दिन मे. शुक्ल, परमेश्वरदीन सस्ता.  
 १०५  
 —के अचरज जर्मा, मुरारिलाल सस्ता. १००  
 —के आश्चर्य धर्मपाल शास्त्री आत्माराम २५०  
 —के प्रमुख सविधान भा मनोरजन. नावली. ११.००  
 —गोल है चौधरी, मुधागु शेखर नागरी प्र  
 —नुम्हारी है महेंद्र, रामचरण विज्वेश्वरानंद. ३.३७  
 —मेरी दृष्टि मे जर्मा, सत्यनारायण हिं. प्रचा. पु ५००  
 —रगविरगी देवराज 'दिनेश' हिंद पा १००  
 —रगविरगी श्रीकृष्ण आत्माराम. ३००  
 से दूर दयाशकर 'हरीश' कल्याणदास. २.००  
 —सैकडो वर्ष पहले लोहनी, भास्करानंद रामा प्र. २५०  
 दुपट्टे के नये-नये सुंदर वूटे लीला देहाती २५०  
 दुविधा जर्मा, पृथ्वीनाथ स २ हि भवन ०७५  
 दुब्रोव्स्की पुष्किन, ग्र मे पीपुल्स ०७५  
 द्रमदार आदमी श्रीवास्तव, जी पी हिं पु ए ३.००  
 दुर्गभिमधि राधेव्याम 'विगत' हिं प्रचा पु ३.००  
 दुर्ग का घेरा भा, रमेशचंद्र मुभाप २७५  
 दुर्गम-पथ विचित्र एस चाद २००  
 दुर्ग-विजय प्रज्ञान बाल मदन ०७५  
 दुर्गा उपासना रामकृष्ण देहाती. ४५०  
 दुर्गादास प्रेमचंद नद व एव नद स ०.७५, — — हस.  
 १५०  
 दुर्गादास राय, डी एल राष्ट्रीय प्र मंदिर १७५; — —  
 हिं ग्र. र १७५  
 दुर्गादान जुवल, जन्मलाल उमेश २.००  
 —गठौर न्यादरसिंह 'विचैन' देहाती ०७५  
 दुर्गापाठ राधामोहन गाल, अनु ड प्रे ०५०  
 दुर्गापूजा पत्रति विज्ञानमणि नारायण श्यामलाल १५०  
 दुर्गावती भट्ट, बदरीनाथ. गगा २.५०  
 दुर्गावती श्रीवास्तव, पूरनचंद्र लोक चेतना ०७५  
 दुर्गा सप्तशती पाडेय, रागाचार्य राष्ट्र प्र म. १५०  
 दुर्गा स्तोत्र घोष, अरविद श्रीअरविद ०.०५  
 दुर्गेशनदिनी चट्टोपाध्याय, वकिमचंद आदर्श पु म. २५०,  
 — — भाग्योदय (पा) १००, — — राजपाल  
 (पा) १००, — — श्यामलाल ३.००, — —  
 श्री प्रभाकर. २.००, — — हिं पु ए २.००, — —  
 हिं प्रचा पु. १५०, — — हिं प्रचा पु २५०; — —  
 हिंद पा १००  
 दुर्गन रे षाद मिश्र, जगदीशचंद्र त्रिवेणी ६.५०  
 दुर्भाग्य दिग्गोर्ट, निवगानी नद व एव नद म. २.५०

दुर्भाग्य-चक्र ठाकुर, रवीन्द्रनाथ प्रभात प्र २००  
 दुर्योधन भट्ट, नानाभाई. हि प्र म ०७५  
 दुर्वासा. मिश्र, जगन्नाथप्रसाद राजकमल ०७५  
 दुलती काका हाथरमी संगीत २००  
 दुलहिन चद्रमणि देवी पु भ ०५०, — —रामलोचन  
 (पा) १००  
 —की जीत गोल्डस्मिथ, आलिबर रजन २००  
 दुलारे-दोहावली भागव, दुलारेलाल गगा २००  
 दुल्हन कगीदाकारी शमा २.५०  
 दुवेजी की डायरी शर्मा, विश्वभरनाथ 'कौशिक' विनोद  
 ३००  
 दुग्धरित्र गुप्त, मन्मथनाथ राजपाल (पा) १००  
 दुश्मन गोकर्ण, मैक्सिम पीपुल्स ०४४  
 दुष्कृताय चरकाचार्यम्-मत्र पर विचार भा प्राच्य ०२५  
 दुष्ट-दमन गिरिजाशंकर लहरी ३००  
 दुखन लागे नैन वाजपेयी, भगवतीप्रसाद स २ भा अ  
 नि ५५०  
 दूतवाक्यम् सावल, रामलाल गयाप्रसाद १५०  
 दूध अस्थी, लक्ष्मीनारायण स्वरूप ०३७  
 —और उसके धधे चतुर्वेदी' जगपति छात्रहितकारी १००  
 —के गुरु तथा उपयोग दीक्षित, रामसनेही देहाती २००  
 —खून और आमू शुक्ल, शत्रुघ्नलाल शारदा म ३००  
 —गाछ देवेद्र सत्यायी राजकमल ६००  
 —चिकित्सा पाडेय, महेन्द्रनाथ छात्रहितकारी ४००  
 —जलेवी निरकारदेव 'सेवक' इ प्रे १५०  
 —पिलाने वाले जतु शुकदेवनारायण इ प्रे ३००  
 —वताया द्विवेदी, मोहनलाल इ प्रे १२५  
 —वताया शर्मा, वेणीमोहन हि प्रचा पु १२५  
 —ही अमृत हे गोयत, हनुमानप्रसाद छात्रहितकारी २५०  
 दूध के फूल अस्थी, लीला हिंदिया ३००  
 —के मोती रामावतार चेतन हि भवन ०४०  
 —जनम आयी मिश्र, शिवसागर आत्माराम ४००  
 दूर और पास विष्णु प्रभाकर. रणजीत २००  
 —के ढोल रमेश चौधरी ए 'आरिगपुडि' राजकमल ४००  
 —के दीप शुकदेवसिंह 'सौरभ' सन्मार्ग ८५०  
 —के राही रामलाल 'खामोश' नवीनतम २५०  
 —कोई गाये शकील वदायूनी स्टार (पा) १००  
 —देश एक महल बनाए मदनविहारी शरण 'दीप' आनंद  
 पु., वा १००  
 —देश की कहानिया कृष्णचंदर राजपाल १५०  
 दुर्वादल उपाध्याय, हरिभाऊ हि प्र म २००  
 दुर्वादल केडिया, वैजनाथ हि पु ए १००  
 दुर्वादल गुप्त, नियागमशरण सा सदन, चि १००  
 दुर्वाहे का दाम गौड, नरयुपडा कला नि ३००  
 दुर्गरा रास्ता पाराशर, चिरजीलाल दि पु न ५५०  
 दुर्गरी दुनिया जैन, अक्षयकुमार नेशनल ३००  
 दुष्टप्रतिज्ञ वने, जूले २ प्रे २२५  
 दुष्ट नर रघुनंदन शास्त्री मोतीलाल १५०

दृश्य सरिता वीरदेव 'वीर' इ पब्लि १२५  
 दृष्टात और धर्म कथाए श्रीचद रामपुरिया, अनु जैन  
 श्वेतावर ०७५  
 —तरगिणी गिरि, दीनदयाल रा वेणीप्रसाद ०५०  
 —महासागर श्यामलाल २००  
 —सदेग शिवन्नतलाल शिव सा १००  
 —सागर हनुमानप्रसाद ५ भा देहाती १०५०  
 दृष्टि का दोष शर्मा, पृथ्वीनाथ आत्माराम ४००  
 दृष्टिकोण नगेद्रकुमार प्रथम १००  
 दृष्टिकोण शर्मा, नलिनविलोचन पु भ ३००  
 दृष्टिकोण शर्मा, विनयमोहन नद व एव नद स ४.००  
 दृष्टिकोण सहल, कन्हैयालाल आत्माराम १५०  
 दृष्टिदात्री फ्रैंक, मारिस इ प्रे ४२५  
 दृष्टिदान ठाकुर, रवीन्द्रनाथ प्रभात प्र २.००  
 देख कवीरा रोया गुप्त, मन्मथनाथ राजपाल ३००  
 देखा-देखी वर्मा, वृदावनलाल मयूर ०८७  
 —परखा जैन, जगदीशचंद्र हंस ३००  
 —सुना पाडेय, गगाप्रसाद मोतीलाल ३००  
 —सोचा, समझा यशपाल विप्लव ३५०  
 देखी अनदेखी सोमनाथ गयाप्रसाद ०६५  
 —सुनी कहानिया सत, शाता बाल सदन ०७५  
 देखो, पढो, लिखो रमेश भाई आत्माराम ०७५  
 देना-पावना चट्टोपाध्याय, शरत्चंद्र प्रभात प्र ३५०, — —  
 सन्मार्ग ४००  
 देपालदे प्र विभाग. १५०  
 देर सवेर रामकुमार सरस्व प्रे ३००  
 —है, प्रधेर नहीं भगवानदीन, महात्मा अ भा सर्व ०७५  
 —हो अधेर नहीं टालस्टाय सर्वोदय ०५०  
 देव और उनकी कविता नगेद्र नेशनल ७००  
 —और दानव राधिकारमण प्रसाद सिंह, राजा अशोक प्रे  
 ३००  
 - और विहारी मिश्र, कृष्णविहारी गगा ५००  
 —काव्य रत्नावली दूगड रामप्रसाद  
 देवकी का वेटा (श्रीकृष्ण) विनोद ३००  
 देव-गुरु स्तोत्रम् सोहनलाल, मुनिश्री जैन श्वेतावर ०१६  
 देवछाया नदा, गुलशन नवयुग प्र ४००  
 देवता आदिल रशीद सुरेद्र (पा) १००  
 देवता शुक्ल, कमल औरिएटल २२५  
 देवता श्रीकृष्ण सस्ता ०४०  
 देवता सत्यकाम विद्यालकार हिंद पा १००  
 देवताओ का प्यारा श्रीवास्तव, ओकारनाथ सस्ता ०४०  
 —का भोजन नवतविहारी प्रभात पब्लि  
 —की कहानिया राजवहादुर सिंह आत्माराम २००  
 —की छाया मे उपेन्द्रनाथ 'अशक' नीलाभ ३००  
 —के देश मे ठाकुर, बलभद्र हि भवन ६५०  
 देवता हार गए भाटी, देशराजमिह उमेश. २००  
 देव-दर्शन हरदयाल सिंह इ प्रे २००  
 देवदास (शरत्चंद्र चटर्जी) ओकार शरद्. राजरजना. २.००



देशी कली, विलायती भवरा पुष्पी १२५, — सुरेन्द्र ३.२५  
 — खाद चतुर्वेदी, जगपति छात्रहितकारी ०५०  
 — वही खाता गोपालनारायण सरस्व प्रे १५०  
 देशोद्धार कामताप्रसाद 'गुरु' मिश्र-बधु १४४  
 देशोपदेग अग्रवाल, वामुदेवगरग हि अ र  
 देहात का तेल ओमप्रकाश सर्वोदय ०७५  
 — का मकान ओमप्रकाश सर्वोदय ०६२  
 — की दवाए वेदी, रामेग आत्माराम ०७५  
 — की समस्याए विश्वभर प्रसाद सर्व मुलभ ४००  
 — के रोग और उनकी चिकित्सा छात्रहितकारी लगभग  
 १००  
 देहातियो की तदुरुस्ती पाठक, केदारनाथ नद ब्र ०७५  
 — की तदुरुस्ती लक्ष्मीकांत, आचार्य गंगा १५०  
 देहाती अनुभूतियोग देहाती स १ ७००, स २ ६००  
 — इलाज वेदी, रामेश आत्माराम १००  
 — इलाज रामनारायण देहाती २५०  
 — एकौपधि चिकित्सा शुक्ल, अमोलचन्द्र देहाती ४००  
 — जडी बूटिया रामनारायण देहाती ०५०  
 — दुनिया चट्टोपाध्याय, अरतचन्द्र कि महल १५०  
 — प्राकृतिक चिकित्सा शुक्ल, अमोलचन्द्र देहाती ५००  
 — समाज चट्टोपाध्याय, अरतचन्द्र इ प्रे २००, —  
 चिनगारी २००, — नवयुग पु भ २२५, —  
 प्रभात प्र २००, — श्यामलाल २५०, —  
 सुभाष २२५  
 देहाती के रोग और उनकी चिकित्सा छात्रहितकारी १२५  
 दैनिक रोगो की प्रा चिकित्सा मुखर्जी, कुलरजन आरोग्य-  
 ४००  
 दैनिकी त्रिपाठी, सुंदरलाल भा भ २५०  
 दैनिक कल्याण-मूत्र गीता ०२०  
 — गृहोपयोगी विज्ञान श्रीकृष्ण आत्माराम ४००  
 — जीवन और मनोविज्ञान इ प्रे १५०  
 — जीवन मे जीव विज्ञान हि नमि ३५०  
 — जीवन मे विज्ञान हरिभगवान् अपर ४००, —  
 प्रभात पब्लि ४५०  
 दैनिकी गुप्त, मियारामगरग ना मदन, चि ०८०  
 देवी दुर्घटनाए और उपचार वैश्य, जे डी ज्ञान भारती  
 २५०  
 दैहिक मनोविज्ञान शर्मा, जे डी भा प्र मंदिर १०००  
 दो अघ्नाय भट्ट, उदयशंकर आत्माराम १५०  
 — ग्राम कालेलकर काका गापी हिंदू ०३७  
 — ग्राम शमशेरवहादुर सिंह सरस्व प्रे २००  
 — उपन्यास चगताई, अजीमवेग रि महल २००  
 — उपन्यास दत्त भारती ऐडी ८३०  
 — एकांत मेहता, नरेश लोकभारती ५००  
 — और दो शिक्षार्थी भावना मदन ५००  
 — कदम आगे. पुरोहित, मपननाल युगछाया ३००  
 — किनारे चतुर्मेन, आचार्य चौधरी ४००  
 रामभार सिंह राष्ट्र प्र म १२५

दो केचुल एक सर्प गुंत्त, मन्मथनाथ चौधरी ५५०  
 — गज जमीन टालस्टाय सहगल २५०  
 — गीत गोपालदास 'नीरज' आत्माराम १५०  
 — गुडे सिद्दीकी, गौकत रूपसी १५०  
 — घडी वा पाप प्यारेलाल 'आवारा' रूपसी ३००  
 — चरित जसवत सिंह नेचर ०५०  
 — चिताए सेठ, जवाहरलाल पागल' आनद पु, वा ३००  
 — टुकडा आकाश पाडेय, काशीनाथ अभिज्ञान ३००  
 — तिल दो आखे कृष्णगोपाल 'आविद' अगोक पा १००,  
 — — सहगल २५०  
 — दिलो के बीच लारेम, डी एच चिनगारी ४५०  
 — दुनिया गुप्त, मन्मथनाथ साहनी ५.५०  
 — धारा कौशल्या अक्क नीलाभ ३५०  
 — धारा जैन, यादवचन्द्र शारदा म ३००  
 — ध्रुव खाडेकर, वि स देशमुख ६००  
 — नगरो की कहानी सक्सेना, शभूदयाल नवयुग प्र कु  
 २५०  
 — नाटक नागर, बालकराम कि महल १००  
 दोनो को उल्लू बनाया धर्मपाल शास्त्री ओरिएटल ०७५  
 दो पत्नी एक कली आनद, मुल्कराज राजकमल (पा)  
 १५०  
 — पथ दो राही प्रकाश 'भारती' पजावी पु २५०, —  
 स्टार (पा) १००  
 दोपहर का चाद कुशवाहा, विमल पुष्पी १००, —  
 सुरेन्द्र २५०  
 दोपहर को अघेरा वैष्णव, यमुनादत्त 'अशोक' वोग ३५०  
 दो पौराणिक नाटक मुग्गी, कन्हैयालाल माणिकलाल स ७  
 हि सा कु १७५  
 — 'यारे मित्र विष्णुदत्त कविरत्न प्रेम प्र २००  
 — फूल आदिन रशीद जमा ३६५  
 — फूल गुरुभवत सिंह 'भक्त' सा साधना २००  
 — फूल खिले महेदरनाथ राजकमल (पा) १००  
 — वहने ठाकुर, रवीन्द्रनाथ चिनगारी १५०, —  
 विश्वभारती २८०, — हिंदू पा १००  
 — वहने प्रेमचंद सरस्व प्रे ०७५  
 — वहने वाजपेयी, भगवतीप्रसाद भा भ ३००  
 — वाके वर्मा, भगवतीचरण भा भ २००  
 — यैलो की कथा प्रेमचंद सरस्व प्रे ०५०  
 — भद्र पुरुष गुरुदत्त भा ना सदन ३००, (पा) १००  
 — भाई प्रशांत बाल सदन १५०  
 — मन खाडेकर, वि स. देशमुख ६००  
 — मार्ग प्रकाश 'भारती' भा सा सदन ४२५  
 — राहा वाजपेयी, प्रेमचंद्र आदर्श पु म १५०  
 — राहे अवस्थी, लीला हि प्रचा पु २००  
 — लाख वर्ष बाद वेल्स, एच जी राजपाल २००  
 — लाडले उदरसेन सिंह 'भावुक' ओरिएटल ०७५  
 — विश्व-युद्धो के बीच अंतर्राष्ट्रीय सवध कार लक्ष्मी ना.  
 ६.५०

- दो सनातन सत्ताए रामचंद्र देहलवी. गोविंदराम १००  
 —साथी टाल्स्टाय सर्वोदय ०७५  
 —सितारे शर्मा, विनोदशकर चिनगारी ३००  
 —सेर धान पिल्लै, तकपी शिवशकर आत्माराम. २००  
 दोस्ती का बदला तिवारी, माया. भालोटिया १००  
 दोस्तो की शायरी कातिल बनारसी ज्ञानमडल एव भा प्र.  
 मडल २५०  
 दोहरे लेखे के मूल सिद्धांत अग्रवाल .. नद ब्र. एव नद स.  
 दोहाकोश सरहपाद, सिद्ध वि राष्ट्र १३२५ [७.५०  
 दोहावली पोद्दार, हनुमानप्रसाद, अनु गीता ०.५०  
 —तुलसीदास शर्मा, बामदेव रा वेनीमाधव १००  
 दौड-कूद-प्रक्षेप कृष्णनदन प्रसाद स ३ तरुण १.२५  
 दौलतबाग विलास शिवकवि बसल ३००  
 द्रव्य, करमी, विनिमय गर्ग काताराम कि महल. ३००  
 —गुण विज्ञान यादवजी त्रिकमजी मोतीलाल ३५०  
 —तथा वैकिंग अग्रवाल, श्रीनारायण २००  
 —वैकिंग के सरल सिद्धांत अग्रवाल, अ कि महल २५०  
 —, विनिमय तथा वैकिंग का परिचय माथुर, राजनारायण  
 एस चाद ८००  
 —शास्त्र जोशी, मुरलीधर. हि सा. सम्मे २२५  
 —सग्रह श्री भा दिगबर १५०  
 —स्थिति विज्ञान प्रसाद, बी एन रा वेनीप्रसाद ६००  
 द्रष्टा गुरुदत्त भा सा सदन ५००, (पा) २००  
 द्राविड प्राणायाम वरेरकर, मामा. विद्या प्र म ३००  
 द्रोण अश्वत्थामा भट्ट, नानाभाई हि प्र म ०७५  
 द्रौपदी चीर हरण न्यादरसिंह 'वेचैन देहाती. ०७५  
 द्रौपदी शर्मा, नरेद्र राजकमल २५०  
 —विनय सहल, कन्हैयालाल, सपा. भा. भ ०७५  
 द्वद्वगीत रामधारी सिंह 'दिनकर'. उदयाचल. १५०  
 द्वद युद्ध चेखव प्रभात प्र ३००  
 द्वद्व समास आरसीप्रसाद प्रभात पल्लि २००  
 द्वादशी पाडेय, राजनाथ साथी २००  
 द्वादशी, पाठक, वाचस्पति भा भ. २००  
 द्वापर गुप्त, मैथिलीशरण सा सदन, चि ३.००  
 द्वापर शर्मा, राजनाथ रतन ३५०  
 —आलोक मल्लिनाथ नाँवली २५०  
 —का काव्य सौंदर्य त्रिवेदी, मेवाराम 'राकेश' पु भ, आ  
 ४००  
 —का काव्य सौंदर्य राकेश रामप्रसाद ४.००  
 —व्याख्या तथा विवेचन त्रिवेदी, भवानीशकर. रीगल ४.५०  
 द्वाभा माचवे, प्रभाकर सा भवन, इ २५०  
 द्वारका वीरेद्र सस्ता ०४०  
 —का राजा वरेरकर, मामा लोक चेतना २५०  
 द्वा गुपणी जगदीश प्रचा पा १००  
 द्विजदेव और उनका काव्य हरदयालु सिंह गगा. २.५०  
 द्विजेन्द्रलाल राय दुलारेलाल गगा  
 द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात् एशिया अफ्रीका वेदप्रकाश सिंह  
 दि पु स १५.००

- द्विधा. युगल. हि. प्रचा. पु ४.००  
 द्विवेदी मीमासा. इ प्रे २.००  
 —युग की गद्य-शैलियों का अध्ययन चौऋषि, शकरदयाल  
 एस. चाद.  
 —युग के साहित्यकारों के कुछ पत्र वैजनाथ सिंह 'विनोद',  
 सपा हिंदू. एकेडेमी. ५००  
 द्वीप का रहस्य वर्ने, जूले इ. प्रे. २.२५  
 द्वेष की आग. गुप्त, राजेश. देहाती ३.५०

## ध

- धडकन प्यारेलाल 'आवारा' चौधरी ३७५  
 धडकन. बलदुवा बालकृष्ण गगा २५०  
 धतूरा के गुण तथा उपयोग दीक्षित, रामसनेही देहाती.  
 ११२  
 धधकती ज्वाला तिवारी, भोलानाथ गगा ०३७  
 धन और धरती श्रीवास्तव, हरिमोहनलाल कि घर, ग्वा.  
 ०७५  
 —कमाने की कुजी. बेरी, देवीचंद्र हि प्रचा. पु २००  
 —की उत्पत्ति दुबे, दयाशकर. रा वेनीमाधव १.२५  
 धनकुबेर कारनेगी मिश्र, अशर्फी हि पु ए १५०  
 धनिया के गुण तथा उपयोग दीक्षित, रामसनेही देहाती.  
 ०.५०  
 धनुवा राजा प्र. विभाग १.५०  
 धनुष-बाण का पेड मनमोहन सरल आत्माराम १.००  
 धने और बने ठाकुर, बलभद्र हि भवन ७५०  
 धन्यभिक्षु, रमेश चौधरी, ए 'आरिगपूडि'. एस चाद ३७५  
 धन्य ये बेटिया. जहूरबख्श... ३ भा लोक चेतना. ०५०  
 (प्र)  
 धन्यवाद वेद्व बनारसी. हि प्रचा. पु २.००  
 धब्बे गोविंदसिंह आदर्श पु म ३००  
 —बोलते हैं बाजपेयी, प्रेमचंद्र. आदर्श पु. म १००  
 धम्मपद धर्मज्योति कि महल. १५०  
 धरती गुप्त, भैरवप्रसाद धारा १२५०  
 —अब भी घूम रही है विष्णु प्रभाकर राजपाल. ३००  
 —आकाश चतुर्वेदी, देवीदयाल 'मस्त' इ प्रे. १.५०  
 —उपजाऊ है कुलश्रेष्ठ, कमल कृष्णा ब्र १५०  
 —और आकाश वोल्कोव, अ पीपुल्स ३५६  
 —और आकाश सुथार, छोटूभाई सस्ता १५०  
 —और आसमान चतुरसेन, आचार्य राजपाल ४००  
 —और धन गुरुदत्त भा सा सदन ६००, (पा) २००  
 —और धुआं मेहरोत्रा, वैकुण्ठनाथ, अपर २५०, —  
 प्रभात पल्लि. २५०  
 —का चाद. अग्रवाल प्रि ०७५  
 —का देवता. ऐलवाग, ओले एस चाद १५०  
 —का बेटा महेन्द्रकुमार 'मुकुल'. सा सगम,  
 —का बेटा महेशचंद्र सरल. सरल १.२५.

- घरती का वोभ गर्मा, श्रीराम 'राम' सा सदन, दे ४.००  
 —का राजा चतुर्वेदी, जगपति कि महल २००  
 —का सुहाग गर्मा, दुर्गादत्त वसल १२५  
 —का सूरज गर्मा, विनोदशकर रूपसी १५०  
 —का स्वर्ग मारडीकियन, जार्ज ज्ञानमडल एव भा प्र मडल २००  
 —का हृदय मिश्र, लक्ष्मीनारायण कि महल ३००  
 —की आखे लक्ष्मीनारायण लाल हिंद पा १००  
 —की ओर कारत, एम के राष्ट्र प्रचा समि ५००  
 —की कहानी ओमप्रकाश सस्ता ०४०  
 —की खोज पाडेय, रघुवश ग्रथमाला ११२  
 —की चूनर शैलेद्र रामप्रसाद ११०  
 —की धून भा, रमेशचंद्र चिनगारी १५०  
 —की पीर गर्मा यादवेद्र 'चंद्र' आत्माराम ४००  
 —की पुकार गर्मा, बलदेवदत्त हिं सा स ३००  
 —की पूजा तेलग, शिवरत्न तुलसी ०७५  
 —की पूजा गर्मा, दुर्गादत्त वसल १२५  
 —की वाते राय, शुक्रदेव २ भा अशोक प्रे ०७५ (प्र)  
 —की वेटी वीरा, सोमा आत्माराम ७५०  
 —की वेटी शुभल, कमल सहगल ३५०  
 —की महक रामावतार चेतन हिं भवन ३००  
 —की सास वाजपेयी, भगवतीप्रसाद रा वेनीमाधव २००  
 —के अचरज अन्ना दीदी राजहस २२५  
 —के आसू पेटन, एलन सरस्व प्रे ५००  
 —के आसू गर्मा, श्रीराम 'राम' सा सदन, दे ३७५  
 —के गर्भ मे चिल्ड्रेसन पीपुल्स १००  
 —के गीत दशोरा भवर्लाल आशा पब्लि १००  
 —के गीत दुखायल अ भा सर्व १५०  
 —के गीत राघव, शिवनाथ नेशनल १२५  
 —के जलजले मेहता, कृ, शि मध्यप्रदेश शासन १००  
 —के दीप द्विवेदी, राममोहन स २ साधना सा सदन २००  
 —के देवता खलील जिब्रान सस्ता १००  
 —के देवता पुरोहित, सपतलाल युगछाया ३००  
 —के ध्रुवतारे गर्मा, प्रभुनारायण कल्याणमल १७१  
 —के बोल जयनाथ 'नलिन' आत्माराम ३५०  
 —के लाल अशोक. रा वेनीमाधव ०५०  
 —के लात गौड, पुरुषोत्तमदाम 'कोमल' सुरेद्र १५०  
 —के सूरस त्रिपाठी, अवधविहारी गगा २५०  
 —के हरे लहगे जिवभूति 'जिव' कल्याणदाम ३००  
 —को आकाश पुवारे अकील बदायूनी स्टार (पा) १००  
 —जागी भट्ट, चंद्रशेखर राजनमल २०५  
 —चाद और तारे गौड, सुरेशचंद्र आनंद पु वा १००  
 —तुम्हारी है ओभा, भालचंद्र अभिज्ञान २५०  
 —घन कामनाप्रसाद निह 'काम' पारिजात १५००  
 —घन और वादन हर्षनाथ चौधरी ३५०  
 —पर उतने गर्मा, पंचनिह 'कमोड' विनोद २५०  
 —पर घावा. वीरेंद्रनारायण ज्ञानपीठ १००

- घरती विहसी सक्सेना, प्रकाश, मयूर २००  
 —माता तिवारी, रामचंद्र. आत्माराम ३००  
 —माता बक, पर्ल एस ग्रथमाला ३००, — —प्रभात. प्र ४००  
 —माता रघुवीर शरण 'मित्र' भा सा प्र १००  
 —माता शर्मा, शीला दि प्रे १२५  
 —माता. सूरज कि महल २००  
 —माता की अनोखी कहानी ओमप्रकाश सर्वोदय १५०  
 —माता की गोद मे देसाई, नारायण अ भा सर्व ०७५  
 —मुस्कुराई श्यामविहारी 'विरागी' कल्याणदास, वि प्र कु एव राष्ट्र प्र म ३५०  
 —मेरा घर रागेय राघव राजपाल ३००  
 —मैया शर्मा, जयप्रकाश सा नि, व ३२५  
 —रूप बदल रही है वाजपेयी, प्रेमचंद्र आदर्श पु म १००  
 —रोती है गोविंदसिंह आदर्श पु म ४००  
 —रोती है तोमर, अजमेर सिंह जवाहर ४००  
 —लहराई अवस्थी, राजेद्र लोकप्रिय १५६  
 —से सोना कृष्णचंदर कि महल ०७५  
 —है वलिदान की शाताकुमार भा सा सदन ३००  
 धरातल. द्विवेदी, शांतिप्रिय ज्ञानमडल २.७५  
 धर्म ईमान गर्मा, जगदीश देहाती १२५  
 —और जातीयता घोष, अरविंद श्री अरविंद. १५०  
 —और नीति गांधी, मोहनदास करमचंद स. २ हिं प्रचा. म ०५०  
 —और सदाचार टाल्स्टाय सस्ता १२५  
 —और समाज राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राजपाल ५००  
 —और समाज सघवी, सुखलाल हिं अ र १५०  
 —और साहित्य ठाकुर, रवींद्रनाथ चौधरी ३००, — — राजधानी ३००  
 —कर्म-रहस्य इ प्रे १००  
 —का आदि सोत गगाप्रसाद सशो स ५ आर्य सा २००  
 —की आवश्यकता कृष्णानंद, स्वामी विश्वेश्वरानंद १००  
 —की धुरी राधिकारमणप्रसाद सिंह, राजा अशोक प्रे २००  
 —के नाम पर इगरसोल, कर्नल हिं अ र १५०  
 —के नाम पर ओभा, सन्ध्यालाल आत्माराम १०.००  
 —के नाम पर चतुरमेन, आचार्य प्रभात प्र ३००  
 —क्या कहता है? भट्ट, कृष्णादत्त अ भा सर्व ०५०  
 —चक्र श्रीवास्तव, प्रेमचंद लोक चेतना ०७५  
 —चेता श्रीवास्तव, हिमाशु हिं प्रचा पु (पा) १००  
 —ज्योति जगतनारायण म ३ नारायण प्र ४००  
 —तुलनात्मक दृष्टि मे राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राजपाल ५००  
 —दिवाकर द्विवेदी, रामचंद्र 'अरविंद' मुलभ पहली किरण १००, दूसरी किरण १५०, तीसरी किरण १५०  
 —निर्पेक्ष प्राचीन भारत की प्रजातन्त्रात्मक परंपरायें कपूर, यदुनदन लक्ष्मी ना ५५०  
 —निर्पेक्ष राज्य रघुनाथ सिंह इ प्रे. ६५०

- धर्म नीति गाधी, मोहनदास करमचंद सस्ता २००  
 —, नैतिकता और विज्ञान रामधारी सिंह 'दिनकर' उदयाचल १५०  
 धर्मपत्नी ओमीलाल 'इलाहाबादी' राष्ट्र प्रचा, इ ४२५  
 धर्मपद दास, गोपबधु हिं प्रचा पु १५०  
 धर्मपाल शाताकुमारी न्यादरसिंह 'वेचैन' देहाती ०७५  
 धर्म पुत्र. चतुरसेन, आचार्य राजपाल. ३००, — — हिंद पा १००  
 —पुत्र. टाल्स्टाय. सर्वोदय ०७५  
 —प्रसंग मे स्वामी शिवानंद अपूर्वानंद, स्वामी, सग्रा श्रीरामकृष्ण ५००  
 —बलि हरिनारायण, पुरोहित स ३. नेचर ०५०  
 —बोध. नथमल, मुनिश्री आदर्श सा भा १०७५, भा २ १.५०, भा. ३. १.५०  
 —युद्ध. यशपाल विप्लव. ३००  
 —रथ रामकुमारदास रामायणी 'मानस सघ ०७५  
 —रहस्य. विवेकानंद, स्वामी. स ३ श्रीरामकृष्ण. १२५  
 धर्मराज. चतुरसेन, आचार्य. राजपाल. ३००  
 —युधिष्ठिर उपाध्याय, गंगाप्रसाद नद. ब्र एव नद. स. १.००  
 —युधिष्ठिर. देवदत्त शास्त्री विश्वेश्वरानंद १५०  
 —युधिष्ठिर. भट्ट, नानाभाई. हिं प्र म ०.७५  
 धर्म विज्ञान विवेकानंद, स्वामी स. ३. श्रीरामकृष्ण २.००  
 धर्मवीर आनंद, राजकुमार. गिरिधर. ०५०  
 —दयानंद. सुदर्शन, वीरा. १००  
 —हकीकतराय. देहाती २५०  
 धर्मशर्मभ्युदय. पन्नालाल साहित्याचार्य, अनु भा ज्ञानपीठ ३००  
 धर्म शासन. शर्मा, रघनंदन. जैन श्वेतावर. ०१५  
 —शास्त्र का इतिहास हिं समि १६००  
 —शिक्षा बाजपेयी, लक्ष्मीधर. रा. वेनीमाधव. २.५०  
 —शिक्षा. शर्मा, शिव देहाती ०२५  
 —शिक्षा प्रश्नोत्तरी रीगल २.००  
 —शिक्षा सार. वर्मा, पूरनचंद्र विनोद १.००  
 —शिशु हित शिक्षा. भा १ जैन श्वेतावर ०२५  
 —, सस्कृति और राज्य गुरुदत्त भा सा सदन ८.००  
 —सार भावे, शिवाजी अ भा. सर्व. ०२५  
 धर्माधर्म राधिकारमणप्रसाद सिंह, राजा अशोक प्रे २५०  
 धर्मो की फुलवारी भट्ट, कृष्णदत्त अ. भा. सर्व ०५०  
 धर्मोदय. कालेलकर, काका. नवजीवन १२५  
 धातुओ की कहानी. काकरिया, धर्मद्विकुमार राजकमल २.००  
 —को रसायनो द्वारा रगना. कालीचरण. देहाती ०५०  
 धातु कला दर्शन. कादरी, मुहम्मद असगर अली. ३ भा. कि. महल १०० (प्र)  
 —रोग और उनका इलाज पाडेय, महेंद्रनाथ छात्रहितकारी २००  
 —विज्ञान दयास्वरूप ना प्र. सभा ७५०  
 धात्री-विज्ञान. गुप्त, शिवदयाल. मेडिकल. २.५०

- धात्री शिक्षा. गुप्त, अत्रिदेव गगा ४५०  
 धान की खेती. जोशी, शंकरराव. विनोद १५०  
 —की खेती. त्रिपाठी, राजदेव सस्ता १.००  
 —की खेती पचौली, गगाशंकर रा वेनीप्रसाद.  
 —की खेती रामेश्वर अशात देहाती १५०  
 —से धनिक सर्वोदय १५०  
 धानी चुनरिया अतर गमके. श्यामचंद्र. आदर्श पु. म. १.५०  
 धार के इधर-उधर हरिवशराय 'बच्चन' राजपाल. २२५  
 धारवाली पाडेय, त्रिलोचन गयाप्रसाद.  
 धार्मिक लोक-कथाए श्रीकृष्ण आत्माराम १५०  
 —शिक्षा शर्मा, सूर्यदेव १० भा आर्य सा ५.४५  
 धीरेद्र वर्मा अभिनदन ग्रथ भा सा. परिषद. १०००  
 धीरे-धीरे. वर्मा, वृंदावनलाल गगा २००  
 धुए की फासी ताहिर, एस ए. राजकमल १५०  
 —की लकीर साहू, किशोर. हिंद पा १००  
 धुध. श्यामसुंदर पर्वज अशोक पा. १००  
 —मे डूबे हुए बद्रीनाथ प्रवाल ४५०  
 धुधलका प्यारेलाल 'आचारा' रूपसी. ३००  
 धुधली रेखाए मित्तल, महेंद्र प्रभात प्र. ३००  
 धुधले चेहरे गोविंदसिंह कन्हैयालाल ४.५०  
 धुआ और लपटे अग्निहोत्री, श्रीचंद्र नेशनल. ३००  
 धुरू कै कै भुरू जगदीश गाजियाबादी देहाती १२५  
 धुलाई रगाई विज्ञान पाठक, शिवचरण. हि. पु ए २५०  
 धू धू करती आग रश्मि रूपसी २००  
 धूनि का धूआ (गोरखनाथ) रागेय राघव विनोद ३००  
 धूप अग्रवत्ती हवन सामग्री. कालीचरण देहाती २५०  
 —और धुआ मिश्र, शरदकुमार 'शरद' त्रिवेणी १५०  
 —के धान माथुर, गिरिजाकुमार स २ भा ज्ञानपीठ ३००  
 —छाव पाठक, दानबहादुर नवचेतना ३००  
 —छाह चकोरी, श्रीमती अवध. १.२५  
 —छाह महागावकर, केशव गायत्री २.००  
 —छाह रामधारीसिंह 'दिनकर' उदयाचल १५०  
 —छाह गर्मा, उपेद्र. कृष्णा ब्र. ४००  
 —छाह शर्मा, विनोदशंकर चिनगारी १.५०  
 —छाह सकसेना, शंभूदयाल नवयुग अ कु ४००  
 —छाह सुधांगु भूपण कि महल ०६२  
 —छाया निरकारदेव 'सेवक' इ प्रे १५०  
 —दीप मिश्र, जगदीशचंद्र त्रिवेणी २.००  
 धूमकेतु एक श्रुति मेहता, नरेग नेशनल ८००  
 धूमरेखा, ब्रोककर, गुलाबदास राष्ट्र प्रचा समि १२५  
 धूम्रपान शर्मा, पी आर आर्य बुक २००  
 —या विषपान नाहर कि. महल ०.७५  
 धूल और चरण वर्मा, विद्यास्वरूप एस चाद.  
 —के बादल ब्रह्मदत्त सिंह न्यू लिट २००  
 —के बादल शुक्ल, कमल ओरिएण्टल ४००  
 —के फूल मिश्र, जगदीशचंद्र त्रिवेणी ०७५  
 —भरे चेहरे अस्थाना, गिरीश सरस्व प्रे. २००  
 —भरे हीरे मक्तबा ०.७५



- ध्वनि और नर्तन वनकाम सुनिल विनोद ४.००  
 —धमरित मणिया नीता नेशनल १५.००  
 धृतराष्ट्र भट्ट, नानाभाई हिं प्र म ०.७५  
 धोग्या-वडी गकर मुल्तानपुरी पुष्पी ०.७५, — — सुरेंद्र  
 २.००  
 धोखेबाज तथा अन्य एकाकी गोविंददास, सेठ एस चाद  
 ३.००  
 ध्यान और मानसिक पूजा गीता ०.२०  
 —की विधि शमा, शिवदत्त कल्पवृक्ष ०.५०  
 —योग विद्यानंद, सरस्वती साधन ०.५०  
 —योग प्रकाश लक्ष्मणानंद, स्वामी शारदा म २.००  
 —नप्रदाय उपाध्याय, भरतसिंह नेशनल १०.००  
 —से आत्म-चिकित्सा व्यामचंद्र, अनु कल्पवृक्ष १.००  
 ध्रुवचरित्र मिश्र, सूर्यदेव नद स ३.००  
 ध्रुवसाग शर्मा, दयाशंकर श्रीराम मेहरा. १.००  
 ध्रुवपद ज्ञान जोहरी, राजकुमारी न्यू लिट २.००  
 —शिक्षण वाजपेयी, श्रीराम न्यू लिट १.७५  
 ध्रुव यात्रा इ प्रे १.००  
 ध्रुवस्वामिनी प्रसाद, जयशंकर भा भ ०.७५  
 —आलोक मल्लिनाथ नाँवली १.५०  
 —'एक अध्ययन' गुप्त, गणेशप्रसाद नद स ०.७५  
 — एक अध्ययन माथुर, सुरेंद्र हिं सा भ १.५०  
 — एक अध्ययन श्रीवास्तव, मुरलीधर रा. वेनीमाधव  
 १.२५  
 — एक विवेचन विश्वभर 'अरुण' हिं सा स १.५०  
 —देवी. मुशी, कन्हैयालाल माणिकलाल कि महल २.००  
 ध्रुवोपायान विडला, घनश्यामदास सस्ता ०.३०  
 ध्वज शिष्टाचार वाजपेयी, श्रीराम न्यू लिट ०.७५  
 ध्वनि अथवा शब्द-विज्ञान सेठी, निहालकरण आगरा बुक  
 ७.००  
 —और ध्वनिग्राम-शास्त्र जयकुमार 'जलज' त्रिवेणी  
 ७.००  
 —और नगीत ललितकिशोर सिंह स २. भा ज्ञानपीठ  
 ४.५०  
 —की लहरे गुप्त, ब्रह्मानंद सस्ता १.५०  
 —नप्रदाय और उनके मित्रात व्यास, भोलाशंकर ना प्र  
 मभा १०.००  
 ध्वन्यालोक आनंदवर्धनाचार्य मोतीलाल ६.००  
 ध्वन्यालोक विश्वेश्वर, आचार्य ज्ञानमंडल १२.०० ?  
 ध्वन्यती. जोशी, श्रीपाद विश्वेश्वरानंद ३.००
- न**
- नंदराज भटनागर, रामरत्न कि महल २.५०  
 —ना नवगीत विवेचन और विवेचन श्रीवामनव,  
 नेशनल चैतन्य ७.५०  
 —नयावनी शंकरदास, नया ना. प्र नभा ६.२५

- नदन-निकुज चडीप्रसाद 'हृदयेश' गगा ३.००  
 नदरानी तथा अन्य एकाकी सकसेना, शंभूदयाल नवयुग प्र  
 कु २.५०  
 नदा प्रिया राजन नीलाभ २.७५  
 नदिनी मित्तल, महेंद्र प्रभात प्र ४.५०  
 नदिनी वरेरकर, मामा पजावी पु ३.००, — — स्टार  
 १.००  
 नदू का सपना पाडेय, विष्णुकांत चैतन्य १.५०  
 नदुभाई की साखी शिवव्रतलाल शिव सा १.२५  
 नई कविता, नये कवि, नये स्वर रत्नकांत आनंद पु, को  
 २.५०  
 —कहानिया. रायकृष्णादास ना प्र सभा ३.००  
 —चेतना भटनागर, महेंद्र प्रबुद्ध २.००  
 —जिदगी प्यारेलाल 'आवारा'. कन्हैयालाल ४.००  
 —जिदगी रामनाथ 'सुमन' राजपाल ३.००, — — हिंद  
 पा १.००  
 —जिदगी लक्ष्मीनारायण. राजहस ३.५०  
 —जिदगी, नई सुबह सुरेश पुष्पी. ०.७५, — — सुरेंद्र  
 २.००  
 —डगर श्रीकृष्ण 'मायूस' राज पट्टिल ४.००  
 —तालीम की और गाधी, मोहनदास करमचंद नवजीवन  
 १.००  
 —दिल्ली पाडेय, रामाचार्य राष्ट्र प्र म १.००  
 —दृष्टि नया आलोक दीनानाथ 'शरण' राष्ट्र प्र म  
 एव सा सगम, प १.५०  
 —दृष्टि नये विचार वशीधर नद स १.५०  
 —नई कहानिया थानी, योगराज आर्य बुक १.५०  
 —नारी रामवृक्ष वेनीपुरी न्यू लिट १.५०  
 —पडोसन तथा अन्य कहानिया सेठ, वीणा पारिजात  
 ३.००  
 —पीढी, नई राहे चतुर्वेदी, रामकुमार 'चंचल' आत्माराम.  
 २.५०  
 —पुरानी कहानिया आनंदकुमार एस चाद १.५०  
 —पुरानी कहानिया थानी, योगराज आर्य बुक एव आशा  
 प्र १.५०  
 —पीठ श्रीभा, सत्यदेव, सपा लेखक-मंडल १.५०  
 —पीठ नागार्जुन. कि महल २.५०  
 —पीठ नई सूक्त टाल्स्टाय शिवलाल १.००  
 —चुनाई लीलाप्रकाश हिंद पा १.००  
 —भोर मुस्काई सुरेश सुरेंद्र ३.००  
 —मानसिक चिकित्सा शुभल, लालजीराम तारा ५.५०  
 —शेरो शायरी तावा सा प्र २.५०  
 —सुबह शर्मा, नरेंद्र पैरामाऊट ३.२५  
 —हिंदी प्राइमर भगतसिंह हेमकुट ०.३७  
 नए एकाकी पाठक, वाचस्पति मोतीलाल ३.००  
 —एकाकी वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद 'अज्ञेय' राजपाल  
 २.००  
 —एकाकी सकसेना, शंभूदयाल नवयुग प्र कु ३.००

- नए एशिया के निर्माता वर्मा, विजय नवयुग ग्रं. कु. २.००  
 —गुलाम. कृष्णचंदर नेशनल ३.००  
 —चाद का जन्म. वर्मा, रमेश. प्रभात प्र. ३.००  
 —जमाने की नई फसल प्यारेलाल 'आवारा' रूपसी ३००  
 —युग की कहानिया सतराम विश्वेश्वरानंद १७५  
 —समाज की ओर. विद्यार्थी, रामप्रसाद 'रावी' लक्ष्मी ना १००  
 —हाथ रस्तोगी, विनोद आत्माराम २००  
 नकटी नानी. मारिकचंद्र भा सा सदन. ३२५  
 नकद-धर्म रामतीर्थ, स्वामी श्री प्रभाकर २००  
 नकदम श्रीवास्तव, जी पी हि पु ए १२५  
 नकली चाद अतहर परवेज कि. महल १५०  
 —नेता शर्मा, रामनिरजन ग्रथालय १५०  
 नकावपोश मेहरा, जमुनादास हि पु ए. १२५  
 नकुल गुप्त, सियारामशरण सा सदन, चि २५०  
 नकेन. शर्मा, नलिन विलोचन मोतीलाल ५००  
 नक्काशी आर्ट शिक्षा रामअवतार 'वीर' देहाती ४५०  
 नक्षत्र-माला कालेलकर, काका, सपा गाधी हिंदु. ०२०  
 नक्षत्रों की छाया मे. भट्ट, कृष्णदत्त अ भा सर्व १५०  
 नगपाश गोविंदसिंह. कन्हैयालाल. २५०  
 नगर अभियान भावे, विनोद अ भा सर्व २.००  
 —का प्रथम शिशु. उत्पेस्काया, येलेना पीपुल्स ०.१६  
 —के पथ पर. द्विवेदी, चंद्रप्रभा कि महल १७५  
 —परिमोहन गुरुदत्त ओरिएंटल ६.००  
 —सुदरी धूमकेतु. वीरा ४२५  
 —स्वराज्य ठाकुरदास बग अ भा सर्व ०२५  
 नगरीय समाजशास्त्र खरे, पी एन. गयाप्रसाद ५.००  
 नगीने. सुदर्शन वीरा. ३.००  
 नगम-ए-हरम गोयलीय, अयोध्याप्रसाद भा ज्ञानपीठ. ४००  
 नगमा-ए-वतन रत्न हरियानवी, सपा. अर्चना प्र. (पा.) १००  
 नजर तिलक, कमलाबाई नद ब्र एव नद स १७५  
 —बदली बदल गये नगमे. राधिकारमणप्रसाद सिंह, राजा. अशोक प्रे १७५  
 नजरे. गोविंदसिंह कन्हैयालाल ३००  
 नजीर अकबराबादी जीवनी और सकलन राजपाल १.५०  
 —का काव्य-संग्रह विश्वनाथ प्रसाद, सपा. क मु हि.  
 —की नज्मे शाडिल्य, शिवनाथसिंह सस्ता ०४०  
 —की शाइरी नजीर अकबराबादी स्टार १००  
 नटखट के गीत चिरजीत. आत्माराम १००  
 —चाची नागर, अमृतलाल. गगा १००  
 —चू-चू. शिवमूर्तिसिंह 'वत्स' राजपाल ०.७५  
 —चूहा शिवमूर्तिसिंह 'वत्स' प्रभात प्र. १००  
 —टम्मो मिश्र, दयाशकर 'दहा'. आत्माराम. १००  
 —पाड़े. दीक्षित, भूपनारायण. गगा. ३.५०

- नटखट पिकू. प्रशांत. ओरिएंटल. ०.७५  
 —पूसी. रमेश भाई आत्माराम. ०.६२  
 —बच्चों की पार्टी फारेस्टर, मैरिन ई रामा प्र. १.२५  
 —रामू. चट्टोपाध्याय, शरत्चंद्र बाल सदन  
 नटराज गिरगिट श्रीवल्लभ अग्रवाल प्रि ०.७५  
 नटी की पूजा. ठाकुर, रवींद्रनाथ प्रभात प्र २००, —  
 विश्वभारती २००  
 नदिया के उस पार. शुक्ल, कमल. ऐडी. ४.००  
 नदी. विश्वभर 'मानव' राजपाल ३.००  
 —और नारी हुमायू कबीर राजकमल. (अप्रा )  
 —और पत्थर महेशचंद्र सरल. सरल. ५.००  
 —का पानी लाल शिवमूर्तिसिंह 'वत्स' प्रभात प्र. १००  
 —का मोड घिल्डियाल, रामाप्रसाद 'पहाडी' प्रकाशगृह  
 —का मोड शर्मा, श्रीराम 'राम' श्री भा भारती. ५०  
 —किनारे गोपालदास 'नीरज' आत्माराम १५०  
 —किनारे की कहानिया सतराम. हिं भवन ०६५  
 —किनारे प्यासा रोया बाजपेयी रूपसी. १.५०  
 —की कहानी सतराम हिं भवन ०.५०  
 —की लहरे शुक्ल, कमल पजाबी पु. २२५; — —स्व  
 (पा) १००  
 —के द्वीप वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद 'अज्ञेय'. सरस  
 प्रे ८.००  
 —तट से. लालजी सिंह प्रचा पा १.००  
 —तालाबों की चिडिया. चतुर्वेदी, जगपति छात्रहितकारी.  
 १२५  
 —पर बाध भारतदास, जे. राजकमल ०६०  
 —प्यासी थी धर्मवीर भारती कि महल. २५०  
 —फिर बह चली श्रीवास्तव, हिमाशु. हिं. प्रचा पु ७०  
 —बहती थी चौधरी, राजकमल नवयुग प्र ३.००  
 —मे लाश चौधरी १.५०  
 न नर न नारी. बैरिस्टर सा रत्न भ ०७५  
 नन्हा अबाबील श्रीकृष्ण सस्ता ०४०  
 —कवि. इद्रसेन सिंह 'भावुक' नवयुग प्र ०७५  
 —मुर्गा और लोमड़ी पाडेय, छविनाथ कला-नि ०७५  
 —राजू शर्मा, राजेश बाल सदन  
 नन्ही चिडिया सिरोठिया, शकुंतला कि महल ०७५  
 —बीना. शिवमूर्तिसिंह 'वत्स' नेशनल १००  
 नन्हे बच्चों की देखभाल श्यामलाल अख्तर. सर्वोदय. ०.५०  
 —मुन्ने कपिल आत्माराम १.५०  
 —मुन्ने वर्मा, लक्ष्मीदेवी गगा ०.७५  
 —मुन्ने की देखभाल राजकमल २२५  
 —मुन्ने वैज्ञानिक बने. रमेशचंद्र 'प्रेम' आत्माराम १.००  
 —मुन्नो के पत्र जावेद, रामचंद्र यूनिसिटी ०७५  
 नन्हों के नेता. शर्मा, मुकुंददेव नद ब्र १००  
 नफरत गोविंदसिंह. गुल्लूप्रसाद ३५०  
 नभचर तरुणभाई सर्वोदय सा ३००  
 नमक के गुण तथा उपयोग दीक्षित, रामसनेही देहाती.  
 ०.५०

- नमक के प्रभाव में कालेनकर, काका नवजीवन १५०  
 नमतीन, मिठाई, पकवान सर्वोदय ०५०  
 नमस्कार महामत्र श्री भा दिगवर ०६५  
 नमस्ते मित्र, आत्मानन्द नद स २००  
 नमामि लाहिडी, जितेय हि भवन  
 न मीत न मजिल गर्मा, रेवतीसरन नेशनल ५००  
 नयन दिवाकर ज्ञानालोक १००, — — प्रकाश पा  
 १००  
 नयन वर्मा, मृत्युजीवन रा वेनीमाधव ०५०  
 नयना नीर भरे गर्मा, यादवेन्द्र 'चंद्र' अशोक पा १२५  
 नयनाद नथमल, मुनिश्री आदर्श सा ०२५  
 नया अनोखा युग्म, कमल साहनी १००  
 — आदमी गर्मा, शिवचंद्र न्यू लिट ३७५  
 — आलोक, नयी छाया विराज नेशनल ३००, राजपाल  
 २००  
 — आममान नयी धरती भासी, तोपिल अशोक प्र गृह  
 ३५०  
 — उमान एम, खुशदिल समाज १५०  
 — उमान गर्मा, यादवेन्द्र 'चंद्र' विद्या प्र म ३००  
 — इतान श्रीवास्तव, हिमाशु चौधरी. ३००, — —  
 स २ राष्ट्रीय प्र मंदिर ३००, — — हि प्रचा  
 म २५०  
 — गिजीता वर्मा, मालिग्राम इ. प्रे २००  
 — गीत मरुसेना, शभूदयाल नवयुग ग्र कु १००  
 — गाव मरुसेना, शभूदयाल नवयुग ग्र कु १००  
 — जन्म दीक्षित, रामाश्रय सा नि, का १००  
 — जमाना गर्मा, रामनिरजन ग्रयालय १२५  
 — जमाना नया रंग गुप्त, विद्याचलप्रसाद साधना म  
 ३०५  
 — जानून सुरेद्र १५०  
 — जीवन कुमरिया, आर आर यूनिवर्सिटी ३००  
 — ज्ञान राग, चपालाल कि महल ०७५  
 — नीरव अवन्यी, राजेद्र 'तृपित' राजपाल १००  
 — देश — नयी कहानी भा, रमेशचंद्र सुभाष ०७५  
 — निराना हिंदुस्तान व्यथितहृदय नवचेतना १२५  
 — वनेन रंदिग 'नूपुर' चंद्रलोक २५०  
 — जैन मरुसेना, शभूदयाल नवयुग ग्र कु १००  
 — भारत नेट, तवाहरलाल मस्ता ०३०  
 — भारत महेशचंद्र मंगल मरल २००  
 — भारत मोहन प्रदीप भाग्योदय २००  
 — भारत नये तीर्थ भा, रमेशचंद्र नारायण प्र १५०  
 — मानव नया समाज विगर्धी रामप्रसाद 'रावी' मस्ता  
 — ज्ञान नगर, मन्वप्रकाश राजकमल २५०  
 — मोट नन्गलान तननना राजपाल ४००  
 — नग प्रज्ञान नानन्द ०७५  
 — नग नगमन मुनिश्री आदर्श ना १००  
 — नग नगमनरी चाद मोहमन्द आधुनिक ना  
 १५०

- नया युग नया मानव महतो, मोहनलाल 'विद्योगी' राष्ट्रीय  
 प्र मडल एव राष्ट्रीय सा स ५००  
 — रास्ता धिल्डियाल, रमाप्रसाद 'पहाडी' प्रकाशगृह ४५०  
 — रास्ता त्रिवेदी, रतिलाल वीरा ३७५  
 — रूप शर्मा, पृथ्वीनाथ आत्माराम १५०  
 — विधान चट्टोपाध्याय, शरत्चंद्र प्रभात प्र २००,  
 — — सन्मार्ग ३००  
 — सपना बलवत सिंह, पुष्पी ०७५, — — सुरेद्र २००  
 — सफर सत्येन्द्र शरत् सुषमा ३००  
 — समाज भट्ट, उदयशंकर आत्माराम १५०  
 — समाज राका, चपालाल कि महल ०७५  
 — समाज सकसेना, शभूदयाल नवयुग ग्र कु १००  
 — समाज नया मन लोहिया, राममनोहर नर्वाहिद ०५०  
 — साहित्य जैन, प्रकाश अपोलो ७००  
 — साहित्य नये प्रश्न वाजपेयी, नददुलारे विद्या म, वा  
 १०००  
 — स्वर सेगर, मोहनसिंह प्रचा पा १००  
 — हल सकसेना, शभूदयाल नवयुग ग्र कु १००  
 — हिंदी-काव्य मिश्र, शिवकुमार अनुसंधान १६००  
 — हिंदी साहित्य एक भूमिका गुप्त, प्रकाशचंद्र सरस्व प्रे  
 २५०  
 नयी आखे गोविंदसिंह कन्हैयालाल ४५०  
 — उमर नए सपने प्यारेलाल 'आवारा' रूपसी ३००  
 — कविता गुप्त, जगदीश कि. महल भा १-३ २०० (प्र),  
 भा ४ ३००, भा ५-६ ४०० (प्र)  
 — कविता विश्वभर 'मानव' सा भवन, इ ४००  
 — कविता और उमका मूल्याकन सहल, सुरेशचंद्र आत्माराम  
 ८००  
 — कविता, नयी आलोचना और कला कुमार विमल भा.  
 भवन २००  
 — कहानी की दिशा, दशा, सभावना जैन, प्रकाश अपोलो  
 ५००  
 — तालीम मजूमदार, धीरेद्र अ भा सर्व ०७०  
 — तालीम में मौखिक निबंध-रचना. तरुणभाई सर्वोदय सा  
 १००  
 — धरती नये लोग अजित पुष्कल प्रवाल ३००  
 — योजना, नये गाव सुभाष ०५०  
 — राह वीरस, चेस्टर आत्माराम ६००  
 नये अकुर चिचलीवर, श्रीराम अ भा सर्व ०२५  
 — नदम नयी राह गुप्त, लैनविहारी रामप्रसाद २००  
 — गीत द्विवेदी, रामशंकर रा. वेनीमाधव ०७५  
 — चरण नयी दिशा मिट्टनाथकुमार ज्ञानपीठ १२५  
 — चित्र दुवे, रामस्वरूप इ प्रे १२५  
 — चित्र मत्येन्द्र शरत्, मपा भा ज्ञानपीठ ३००  
 — जीवन को और दत्ता, विमला सस्ता १००  
 — तीर्थ, नयी यात्रा लक्ष्मीनारायण नेशनल ०७५  
 — निर्माण नये-मकल्प पाडेय, राजनाथ मानकचंद्र ३५०  
 — पुराने क्रोन्ने हरिवंशराय 'वचन' राजपाल ४५०

- नये बादल मोहन राकेश भा. ज्ञानपीठ २.५०  
 —फूल. गोविंदसिंह. कन्हैयालाल. ३ ७५  
 —रग उपेन्द्रनाथ 'अशक' नीलाभ ३.२५  
 —रग नये ढग. जैन, लक्ष्मीचंद्र. भा ज्ञानपीठ २ ००  
 —राष्ट्र का जन्म रघुव शी, राजेद्र सिंह शिवलाल ० ७५  
 —रास्ते सोनकर, राजनाथप्रसाद. कन्हैयालाल ३.००  
 —रिश्ते पाराशर, चिरजीलाल दि. पु स. ५ ००  
 —विद्यालय नयी व्यवस्था. पाडेय, विष्णुकांत सा.  
 सगम, मो. एव चैतन्य २ ५०  
 —शिक्षक का मार्ग दर्शन जैन, किशनचंद्र यग मैन १ २५  
 —सपने गोविंदसिंह कन्हैयालाल ३ ५०  
 —सुभाषित रामधारी सिंह 'दिनकर' उदयाचल १ ५०  
 नरक का न्याय. सेगर, मोहनसिंह. आत्माराम. २ ००  
 —कुड प्रमोद राजा राज्यश्री. २ ००  
 —पुरी भा, अयोध्याप्रसाद ग्रथमाला ० ७५  
 नरगिस कशीदारी पुष्पारानी देहाती १ २५  
 नर नारी दत्त, टी के अपर एव प्रभात पब्लि ४ ५०  
 —नारी वाजपेयी, गुलावरत्न. अशोक पु भ ३ २५  
 —भक्षको के देश मे वर्ने, जूले इ प्रे १ ७५  
 नरम गरम कपूर, कन्हैयालाल हिंद पा १ ००  
 नरमेध चतुरसेन, आचार्य चौधरी २ ५०  
 नरसी जी की माहेरा नरसी, भक्त श्यामलाल ० ५०  
 —भगत न्यादरसिंह 'वेचैन' देहाती ० ७५  
 —मेहता भट्ट, मोहनलाल सस्ता ० ४०  
 नर से नारायण एलेन, जेम्स छात्रहितकारी १ ७५  
 नरेद्र. रामवीर शास्त्री 'अरुणेश' अरुणेश ३ ००  
 नरेश. मैकियावली कि महल ३ ००  
 नर्तकी उमाकांत वोरा ५ ५०  
 नर्तकी दुबे, सुरेन्द्रनाथ एस चाद २ ००  
 नर्तकी शुक्ल, कमल. नवीनतम ४ ००  
 —रूपकोसा चौहान, मनहरलाल, अनु राजहस भा १.  
 ४ ५०, भा २ ४ ००  
 नर्मदा वैजनाथ सस्ता ०.४०  
 नर्स शर्मा, जगदीश देहाती १ २५  
 नल-दमन सूरदास क मु हि ७ ००  
 —दमयती गोयल, सीताराम. भा सा सदन १ ७५, पा १ ००  
 —दमयती चद्रभान चद्र देहाती ० ७५  
 —दमयती पाठक, रामकिशोर पु. भ, रा १.२५  
 —दमयती मुखोपाध्याय, कार्तिकेयचरण हिं पु ए ०.७५  
 —दमयती नाटक ब्रह्मदत्त शास्त्री गयाप्रसाद ०.७५  
 नलिनी मणिकचंद्र भा सा सदन ४ ००  
 नलिनी मिश्र, राजेन्द्रनाथ 'इद्र' गगा ३ ००  
 नलोदय कालिदास सस्ता ० ४०  
 नलोदय. कालिदास सहगल १.२५  
 नलोपाख्यान मालवीय, देवीप्रसाद रा वेनीप्रसाद १ ५०  
 नव कथा सुकुल, ललिताप्रसाद, अनु वगीय १ ००  
 नव कथाए, कमलाकांत. नद ब्र १ ००  
 नव कथा-कुज. चौहान, शिवदानसिंह आत्माराम. ३ ००

- नवकाव्य सुधा. शर्मा, जगन्नाथराय रा. वेनीमाधव. १.२५  
 नवगृह विज्ञान सत्यनारायण मातृ-भाषा. २ ००  
 नवग्रह और भाग्य गिवमूर्तिसिंह 'वत्स'. हिं प्रचा. पु. १.००  
 नवजीवन प्रेमचद हिं पु ए १ ५०  
 नवजीवन राधिकारमणप्रसाद सिंह, राजा ग्रथमाला.  
 ० ७५  
 नवजीवन सुधार शिवन्नतलाल. शिव सा. ० ७५  
 नवतत्व सग्रह तथा उपदेश बावनी सूरेश्वर, विजयानंद.  
 श्री आत्मानंद. ४.००  
 नवतारा उदयराज सिंह अशोक प्रे १ २५  
 नवदुर्गा मिश्र, ठाकुरदत्त. इ प्रे. १ २५  
 नव नाटक निकुज नद ब्र. एव नद सं १ २५  
 नवनिकुज तिवारी, जयदीशनारायण. हिं पु ए. १.५०  
 नवनिधि. प्रेमचद. हस १ ५०  
 नव निवध माला राममूर्ति सिंह रा. वेनीमाधव. २.५०  
 नवनिवधावली. स ३ मोतीलाल ५.६४  
 नवनिर्माण मानवधर्म २ ००  
 नव निर्माण की पुकार तुलसी, आचार्यश्री आदर्श सा. २.००  
 नवनीत मगन बाबा आत्माराम २ ००  
 नव पदार्थ भीखण, आचार्य जैन इवेतावर १ ३ ००  
 नवपल्लव व्यास, विनोदशकर. पु भ २ २५  
 नवप्रभात मिश्र, चद्रिकाप्रसाद आत्माराम. ० ७५  
 नवप्रभात राय, विजयशकर अ भा सर्व. १ ००  
 नवप्रभात विष्णु प्रभाकर सस्ता. १.००  
 नवभारत अर्थशास्त्र गुप्त, रामचंद्र एस चाद ५ २५  
 —के भाग्य विधाता चतुर्वेदी, भगवतशरण विनोद १ ५०  
 नवयुग उदयप्रकाश सिंह विश्व शांति ० ५०  
 नवयुग प्रेमकुमार बदा अजता १ ५०  
 —की शिक्षा माटेसरी, नारिया. एस. चाद. २.००  
 —निर्माता सूरेश्वर, विजयवल्लभ श्री आत्मानंद ६.००  
 —पाठशाला भा १-२ हिं ग्र र. १ २५  
 नवयुवक गाथा शर्मा, जयविजय नारायण सिंह रा. वेनीमाधव  
 १ ५०  
 नवयुवको के लिए हवाई शिक्षा. वाजपेयी, श्रीराम. इ. प्रे.  
 १ ००  
 —से दो वाते क्रोपाटकिन, प्रिस. सस्ता. ०.५०  
 नवरग मिश्र, जगदीश किशोर प्र. २ ५०  
 नवरग सत्येद्र शरत्, सपा. सा सदन, द्रे ३ ५०  
 नवरत्न नद स १ ००  
 नवलखा हार अगोक. नागरी प्र.  
 नवलिका मजरी. चौहान, सुभद्राकुमारी. रा वेनीमाधव.  
 १ २५  
 नव-वधू अग्रवाल, स्वर्णलता शिवलाल. २.५०  
 नवविधान चट्टोपाध्याय, शरत्चंद्र इ. प्रे ० ६२, — —  
 कि महल. १ २५, — —श्यामलाल २.००  
 नव शिक्षित प्रौढो के लिए साहित्य का निर्माण भा. प्रौढ.  
 १.५०  
 नव सतसई-सार. कैलाशनाथ. इ. प्रे. २.७५

- नव नादारो के लिए पत्रिकाएँ—सम्पादनीय प्रणालिया भा  
 प्रीठ २००  
 नवाव और खराव इद्रसेन सिंह 'भावुक' ओरिएटल ० ७५  
 नवावनदिनी मुखोपाध्याय, दामोदर श्री प्रभाकर ३५०  
 नवाव वच्छन जीकत थानवी पुष्पी ० ७५, — —सुरेद्र,  
 २२५, (पा) १००  
 —लटकन अरुण गगा ३००  
 नवावी मनक जयनाथ 'नलिन' गयाप्रसाद ३२५  
 नवीन गोपालमिह 'नेपाली' पु भ ३००, — —रामलोचन  
 (पा) १००  
 —अकगणित उपाध्याय, अवध ३ भा रा वेनीप्रसाद  
 ३५०  
 —अध्यापक कुमरिया, आर आर यूनिवर्सिटी २००  
 —अलकार परिचय नरोत्तमदास स्वामी लक्ष्मी ना १००  
 —आदर्श अकगणित. भार्गव, एम एल नद ब्र २२५  
 —आदर्श वीजगणित गुप्त, आर सी.. नद ब्र २००  
 —आदर्श वीजगणित भार्गव, राजेन्द्रनारायण रा वेनीप्रसाद  
 १६६  
 —आदर्श रेखागणित भार्गव, एम एल . नद ब्र २२५  
 —आर्थिक एव वाणिज्य निवध गोयल, जे एन स २  
 आगरा बुक २५०  
 —आर्थिक व वाणिज्य भूगोल माहेश्वरी, एल एन... कृष्णा  
 ब्र ६५०  
 —आविष्कार अग्रवाल, वेनीप्रसाद रा वेनीप्रसाद ०.७५  
 —इटरमीडियेट वीजगणित सिन्हा, आनदस्वरूप एस चाद  
 ३००  
 —और उनका काव्य श्रीवास्तव, जगदीशप्रसाद विनोद  
 १०००  
 —हृषि विज्ञान रा वेनीप्रसाद ० ६६  
 —हृषि विज्ञान केला, ओमप्रकाश . भा प्र ख १ २०००,  
 म २ १५०  
 —नेनो की पुस्तक अग्रवाल, रीनकीराम इ प्रे २५०  
 —गय मुपमा भटनागर, रामरतन, सपा रा वेनीप्रसाद  
 २००  
 —निकित्सा पोद्दार, महावीरप्रसाद सस्ता २५०  
 —चिकित्सा विज्ञान नुईकूने हि ग्र र (अप्रा)  
 —चित्रकला शिक्षण पद्धति कि महल ५००  
 —नम आविष्कार कृष्णवहादुर रा वेनीप्रसाद १.००  
 —त्रिभुजमिति सिन्हा, कैलाम एस चाद ४००  
 —दानी ठाकुर, ज्योतिर्मयी म ३ सा सेवक ३५०  
 —दर्शन (बालकृष्ण शर्मा नवीन) उपाध्याय, कैशवदेव.  
 वगीय ३२५  
 —नवनिहा मजरी पाडेय, राजनाथ रा वेनीमाधव १५०  
 —निबंध पवार, जी ए . नायल १५०  
 —निबंध रचना विघ्न, ओमप्रकाश नेशनल ३००  
 —पद-मदह नामपेयी, भगवतीपन्नाद हि सा सम्मे १५०  
 —पत्र मपह की कुंजी गारुन्धन, श्रीनारायण रीगल १५०  
 —विघ्न उपाध्याय, अंध सा भवन, ३ १५०

- नवीन प्राकृतिक चिकित्सा जिज्ञासा ४५०  
 —प्राकृतिक चिकित्सा हीरालाल स २ निरोगी ३००  
 —प्राकृतिक चिकित्सा प्रणाली गुप्त, केदारनाथ, अनु  
 भा भ ६००  
 —प्रादेशिक भूगोल प्रयाग २२०  
 —वाल कहानिया अशोककुमार आदर्श पु भ १००  
 —वाल-मनोविज्ञान शर्मा, रासविहारी राय अथमाला ५००  
 —वाल व्याकरण गगासहाय 'प्रेमी' रामप्रसाद ०५०  
 —वाल-सगीत सक्सेना, महेशनारायण महेशनारायण  
 सक्सेना, नेतरहाट विद्यालय, पी नेतरहाट (राची). १२५  
 —वीन भगवानदीन 'दीन', लाला पु भ २००  
 —वृहद् पाक विज्ञान ऋषिकुमार देहाती ३००  
 —भारत का स्वरूप (चित्रो मे) प्र विभाग ७५०  
 —भारत मे पचायतो की भूमिका डेवर, उ न अ भा.  
 काग्रेस ० १५  
 —भारतीय ऐतिहासिक एटलस कपूर, कालीदास इ प्रे  
 २५०  
 —भारतीय चित्रकला शिक्षा पद्धति शुक्ल, रामचंद्र कि महल.  
 ५००  
 —भू-परिचय. तिवारी, उमाचरण रा वेनीप्रसाद ४००  
 —भौतिक विज्ञान गुप्ता, मुकदी लक्ष्मी ना भा १  
 ६००, भा २ ४५०, भा १ ५२५, भा २ ८००  
 —मनोविज्ञान शुक्ल, लालजीराम परि स नद ब्र एव नद  
 स ७००  
 —मनोविज्ञान और शिक्षा शुक्ल, लालजीराम नद. ब्र. एव  
 नद स ३००  
 —माध्यमिक वीजगणित ढड्डा, नथमल कत्याणमल ४००  
 —माध्यमिक सामाजिक अध्ययन कानडे, एम ह्वी मिश्र-  
 वधु भा १-२ २२५ (प्र), भा ३ १३७  
 —यात्रा वसु, मनोज सस्ता २५०  
 —रचनात्मक ज्यामिति हजूरसिंह खालसा स २ १६६२.  
 लक्ष्मी ना २५०  
 —रचना प्रणाली शर्मा, देवकीनदन नद ब्र १२५  
 —लोकोक्तिया और मुहावरे मत, धर्मचंद्र ओरिएटल १५०  
 —वाणिज्य भूगोल शर्मा, एस पी नद ब्र एव नद स.  
 २२५  
 —व्याकरण पवार, वी ए लायल ० ८०  
 —व्याकरण और रचना द्विवेदी, गोविंदप्रसाद नद ब्र  
 १५०  
 —व्याकरण पत्र दोब शर्मा, जयगोपाल रामप्रसाद ० ७५  
 —व्यापारिक अकगणित रस्तोगी, फकीरचंद्र रा वेनीमाधव  
 २००  
 —शिक्षा मनोविज्ञान जायमवाल, सीताराम नद ब्र एव  
 नद म ३००  
 —शिक्षा शास्त्र चौवे, सरयूप्रसाद दि पु स १५.००  
 —शिशु गान हेमकुट १२५  
 —मतति शास्त्र कासिम अली, सैयद हि पु. ए ३००  
 —सन्यासी मुकजी, प्रभातकुमार. इ. प्रे ४.७५

- नवीन संस्कृत व्याकरण रामगोपाल. एस. चांद. ३००  
 —समाज-व्यवस्था में दान और दया. नगराज, मुनिश्री.  
 आत्माराम ०१३  
 —सरल शरीर क्रिया विज्ञान वर्मा, जानकीस्वरूप. रा वेनी-  
 प्रसाद २७५  
 —सामान्य ज्ञान कानडे, श्रीपाद विष्णु मिश्र-बधु भा. १.  
 ४००, भा २.  
 —सामान्य ज्ञान साहा, महादेव कि. महल १५०  
 —स्कूल बीजगणित आगाशे, वी स... रा. वेनीप्रसाद.  
 भा १ १६०, भा २ १४६, भा ३ २३२  
 —स्कूल बीजगणित. वैश्य, जे. डी. लक्ष्मी ना ४००  
 —स्कूल रेखागणित आगाशे, वी स. रा वेनीप्रसाद भा १.  
 २४१, भा २. १४६  
 —हाई स्कूल बीजगणित घोषाल पी एन.. सशो. स. ४.  
 गर्ग ब्र. २००  
 —हाईस्कूल रसायन शास्त्र अग्रवाल, एस. सी लक्ष्मी ना.  
 २७५  
 —हायर सैकण्ड्री अकगणित वैश्य, जे डी. . लक्ष्मी ना  
 ३२५  
 —हायर सैकण्डरी बीजगणित वैश्य, जे. डी लक्ष्मी ना  
 ४५०  
 —हिंदी. रामप्रकाश.  
 —हिंदी व्याकरण मित्तल, प्यारेमोहन. जुगल किशोर ०४५  
 —हिंदी व्याकरण और रचना देवेद्र 'आर्य' हिं सा स  
 ३५०  
 नवीना पाडेय, गगाप्रसाद रा वेनीमाधव २.५०  
 नवीया राहवा प्रकाश साथी आत्माराम. २००  
 नवेली. गौतम, हितवल्लभ. मा. प्र ५००  
 नव्य कविताकज. त्रिवेदी, भवानीगकर धी भा भारती  
 २२५  
 —जन स्वास्थ्य विज्ञान मुकुदस्वरूप. मोतीलाल ८००  
 नशा उतर गया बाजपेयी, प्रेमचंद्र आदर्श पु. म १.००  
 नशावदी क्यों और कैसे ? चतुर्वेदी, रमावल्लभ अ भा सर्व  
 नगे-नशे की बात ! यशपाल विप्लव ३०० [०६०  
 नष्टनीड ठाकुर, रवींद्रनाथ. प्रभात प्र २००, — —  
 श्यामलाल. २००, — —सुरेद्र २००; — — हिं ग्र  
 र २००  
 नष्ट नीड मित्रा, उपादेवी. नेशनल ४५०  
 नसीम शौकत थानवी. सहगल. ३५०  
 नहले पर दहला अरुण आत्माराम १२५  
 —पर दहला. माम, सामरसेट रणजीत. ४५०  
 न हाथ खुला हो न मुट्टी बंद हो जैन, जैनकुमार भागलपुर  
 बुक ०५०  
 नही मरेगे शर्मा, दयाव्रत मानसरोवर सा ५००  
 नहुष. गुप्त, मैथिलीचरण सा सदन, चि ०८०  
 —टीका. गर्मा योर्नेन्द्रनाथ. . हिं सा भ. ०७५  
 —नाटक व्रजरत्नदान, नपा ना प्र सभा. १७५  
 —निपात. भट्ट, उदयशंकर आत्माराम. १००

- ना वंद्योपाध्याय, तारागकर. अशोक पु मं. २.००  
 नाईटिंगेल एडर्सन, हैस सर्वोदय सा ०७५  
 नाइलान का मोजा. राज शंकर, कुअर जानालोक. १००  
 नाई चक्कर मे. जहूरवरश मिश्र-बधु ०.७५  
 नाखून पॉलिश विज्ञान वर्मा, चडूलाल 'चद्र'. चद्र कार्या.  
 ०.५०  
 नाग और शबनम कृष्णचंदर हिं. ग्र २ ३००  
 नागकन्या. शुक्ल, नरसिंहराम आदर्श हिं. २.५०  
 नाग नगर की राजकुमारी पाडेय, विमला. राजकमल. २५०  
 नागफनी का देश अमृतराय. हस १५०  
 नागफन्नी. गोविर्दसिंह. कन्हैयालाल ४००  
 नागफास आनदकृष्ण ज्ञानोदय २००  
 नागमणि. शुक्ल, शत्रुघ्नलाल प्रत्यूष २००  
 नागरिक और समाज शुक्ल, कृष्णचंद्र गयाप्रसाद १५००  
 —और समाज शुक्ल, कृष्णचंद्र... गयाप्रसाद ६.००  
 —गीता. चदनलाल. विश्वेश्वरानंद १७५  
 —जीवन इकवालनारायण ३ भा. गयाप्रसाद २.००  
 —जीवन की रूपरेखा अर्गल, राजेश्वरप्रसाद, मिश्र-बधु.  
 १५०  
 नागरिकता की शिक्षा कैसे दे मुनेश्वरप्रसाद वि. ग्र कु.  
 —तथा भारतीय शासन शर्मा, शिवनाथ. सशो स. ३. आदर्श  
 पु भ ६००  
 नागरिक नीति पुषातावेकर, एस वी नद ब्र. एव नद. स.  
 ३००  
 —प्रशासन और नागरिक जीवन श्रीदीच्य, एस. एल...  
 गयाप्रसाद. ६.००  
 —विज्ञान तथा भारतीय सविधान श्रीवारतव, ए. एल...  
 गयाप्रसाद २५०  
 —शास्त्र मोतीलाल ०.७५  
 —शास्त्र मजूमदार, वी . रा. वेनीप्रसाद २००  
 —शास्त्र लल्लनप्रसाद. मोतीलाल २.७५  
 —शास्त्र शर्मा, हनुमानप्रसाद. स ३ चौखवा ०.७५  
 —शास्त्र श्रीप्रकाश सा सदन, चि २.००  
 —शास्त्र. सेन ओरिएट. ४.००  
 —शास्त्र एव भारतीय सविधान (प्रश्नोत्तर) मित्तल, एस  
 सी गयाप्रसाद ३७५  
 —शास्त्र और भारतीय सविधान तथा प्रशान्न श्रीवास्तव,  
 इकवालनारायण रतन. १७५  
 —शास्त्र का अध्ययन. नां, ए. ए सुरेज ४५०  
 —शास्त्र का अध्ययन श्रीवान्तव, एल. पी . यग मैन ५००  
 —शास्त्र का नरल अध्ययन रस्तोगी, नरेन्द्रनाथ देदारनाथ.  
 ४५०  
 —शास्त्र की जान पट्टान गुप्ता, अमृतनाथ. . युनिवर्सिटी.  
 ३६०  
 —शास्त्र की रूपरेखा अर्गल, राजेश्वरप्रसाद मिश्र-बधु १.५०  
 —शास्त्र की रूपरेखा गोरा, आन एन .. यंग मैन. ४००  
 —शास्त्र की विवेचना चौधे, गोरयनाथ. स ११. रा.  
 वेनीमाधव ४.००

- नागरिक शान्त्र के मूलतत्त्व वर्मा, कन्हैयालाल नद स ४००  
 —शास्त्र के मूलतत्त्व शर्मा, शिवनाथ आदर्श पु भ ४५०  
 —शान्त्र के मूल सिद्धांत पालिवाल शारदा म २००  
 —शास्त्र के सिद्धांत श्रीदीन्य, एस एल गयाप्रसाद ५००  
 —शास्त्र के सिद्धांत केला, श्रीमप्रकाश भा प्र ३५०  
 —शास्त्र के सिद्धांत केले तथा दुवे एम चाद ३००  
 —शास्त्र के सिद्धांत गुप्त, राजनारायण कि महल ४५०  
 —शास्त्र के सिद्धांत भा, मनोरजन... नावली ४००  
 —शास्त्र के सिद्धांत वदवाल, के आर आत्माराम ४००  
 —शास्त्र के सिद्धांत भडारी, डी आर फ्रैंक ३७५  
 —शास्त्र के सिद्धांत भटनागर, विजयसिंह कल्याणमल ३००  
 —शास्त्र के सिद्धांत मेहता, वी एन स ६ लक्ष्मी ना ३५०  
 —शास्त्र के सिद्धांत सत्यकेतु विद्यालकार स १६६२ सरस्व स ४००  
 —शास्त्र के सिद्धांत सिंहल, श्रीमप्रकाश एस चाद ३५०  
 —शास्त्र के सिद्धांत सिद्धेश्वरी वल्लभ पु भ, रा ३५०  
 —शास्त्र के सिद्धांत मेठी, आर आर एस चाद ४५०  
 —शास्त्र के सिद्धांत श्रीर भारतीय सविधान मित्तल, चद्र-कला यग मैन ७५०  
 —शास्त्र के सिद्धांत तथा भारतीय सविधान और नागरिक जीवन (प्रश्नोत्तर) मित्तल, सतीशचद्र लायल ३७५  
 —शास्त्र तथा भारतीय सविधान श्रीवास्तव ए एल गयाप्रसाद ३००  
 —शास्त्र दर्पण त्यागी, महावीर सिंह रीगल. ४५०  
 —शास्त्र दर्शन वर्मा, विष्णुनारायण सशो स ६. शिवलाल ५००  
 —शास्त्र दिग्दर्शन पाडेय, श्रीनेत्र स २ श्रीराम मेहरा ४००  
 —शास्त्र—नागरिक और राज्य केदारनाथ प्रसाद पु भ. ८.००  
 —शान्त्र परिचय भारद्वाज, सी एन पजावी पब्लि ३७५  
 —शान्त्र परिचय (प्रश्नोत्तर) मित्तल, एस सी गयाप्रसाद २५०  
 —शान्त्र परिचय (प्रश्नोत्तर) मित्तल, मतीशचद्र लायल १५०  
 —शान्त्र प्रदीप आनंदप्रकाश यग मैन भा १ २ १०, भा २ १ ८३  
 —शान्त्र प्रवेशिका गाधी, ए एल कृष्णा ब्र पार्ट. १ २ ७५, पार्ट २ २ ८०  
 —शान्त्र प्रवेशिका पाडेय, के एन कला-नि १५०  
 —शान्त्र शिक्षण विधि टउन, जे एम हि ना भ २००  
 —सिद्धा और भारतीय शान्त्र (प्रश्नोत्तर) कमलनारायण हि ना भ. २२५  
 —समानशान्त्र टोमर, रामप्रिया मिह श्रीराम मेहरा ८.५०  
 —समानशान्त्र वात्स्यायन केदारनाथ

- नागरिक सिद्धांत चौबे रा वेनीमाधव. १००  
 —सिद्धांत कौमुदी चौबे, गोरखनाथ रा वेनीप्रसाद ० ८७  
 —सुरक्षा मिश्र, रामशकर लोकप्रिय २७५  
 नागरी अक्षर और अक्षर ओभा, गौरीशकर हीराचद .. हि सा सम्मे ० ३७  
 —आल्फाबेट कालेलकर काका गाधी हिंदु १००  
 नागरीय समाज-शास्त्र परिचय बाइस, एल डब्ल्यू लक्ष्मी ना ४५०  
 नागरी लिपि मे उर्दू-हिंदी-मराठी (त्रैभाषिक) शब्दकोष कुलकर्णी अनाथ २५०  
 —वर्ण-लिपि बोध कालेलकर, काका हिंदु प्रचा सभा ० ३७  
 नागानद मिश्र, ठाकुरदत्त कि महल १५०  
 नागानद ससारचंद्र, टीका श्री भा भारती ३००  
 नागानद हर्ष सस्ता ० ४०, — — हि सा सम्मे ० ८८  
 नागानदम् लूयरा एस चाद ४००  
 नागानदम् साधुराम आत्माराम ५००  
 नागिन कुशवाहा 'कात' गुल्लूप्रसाद एव चिनगारी ४००  
 नागिन वर्त्वाल, चद्रकुवरि प्रभात पब्लि २००  
 नागिन सूर्या कमलानी कि महल १००  
 —वीन सपेरा बाजपेयी, प्रेमचंद्र आदर्श पु म १००  
 नागिने श्री वुलबुले साहू, किशोर कि महल ४००  
 नाच राजन् कन्हैयालाल ३००  
 नाचो गात्रो सकसेना, शभूदयाल नवयुग ग्र कु १.००  
 नाटक शेखर ग्रथालय १५०  
 —और नायक अवस्थी, सद्गुरुशरण ६ भा इ प्रे १ २५ (प्र)  
 —और रगमच. राजकुमार हि प्रचा पु १०००  
 —कथा संग्रह अनन्ताचार्य, वी रा वेनीप्रसाद १ २५  
 नाटककार अक्षर नीलाभ ७.००  
 —उदयशकर भट्ट शर्मा, मनोरमा आत्माराम ४००  
 —प्रसाद और चद्रगुप्त विश्वनाथ सिंह अर्चना प्र, आ  
 —प्रसाद और ध्र वस्वामिनी राकेश कि घर, ग्वा ३००  
 —हरिकृष्ण प्रेमी और सवतू-प्रवर्तन भठनागर, महेद्र लायल ३००  
 नाटक की परख खत्री, एस पी सा भवन, इ ५००  
 —की रूपरेखा भा, दशरथ हि सा स ५००  
 —के तत्त्व मनोवैज्ञानिक अध्ययन मेहता, कमलिनी ना प्र सभा ३५०  
 —निकुज जगेंद्र गयाप्रसाद २००  
 —बहुरंगी लक्ष्मीनारायणलाल भा ज्ञानपीठ ४५०  
 —संग्रह मायूर, जगदीशचद्र क मु हि  
 नाटकावलि चतुर्भुज ४ ख साधना म ४०० (प्र)  
 नाटकावली भट्ट, बालकृष्ण ना प्र सभा १ २५  
 नाटकीय कथा वर्मा, चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद रा वेनीप्रसाद ० ३१  
 नाटन नैसिंग हिंदु एकेडेमी ३००  
 नाट्य कला रयुवश नेशनल ७५०  
 —कला मीमामा गोविंददास, सेठ मध्यप्रदेश शासन ३.५०

नाट्य कुंज हि भवन. ०.७५

—पद्धति द्वारा शिक्षण भट्ट, चंद्रशेखर गयाप्रसाद  
७५०

—वेला शुक्ल, गगाधर कल्याणमल

—भानु सूर्यभान ओरिएटल २७५

—शास्त्र. रघुवश. मोतीलाल १५००

—शास्त्र की भारतीय परंपरा और दशरूपक द्विवेदी,  
हजारीप्रसाद... राजकमल १०००

—शास्त्र हिंदी अनुवाद सहित उमानाथ वली, सपा ख १  
भातखंडे ६००

—समीक्षा ओभा, दशरथ नेगनल ५००

—सुधा भटनागर, कैलाशनाथ इ प्रे २५०

नाडी ज्ञान तरंगिणी रघुनाथ प्रसाद देहाती २५०

—दर्शन ताराशकर मोतीलाल २५०

—रहस्य स २ मेडिकल ०७५

नाथ संप्रदाय द्विवेदी, हजारीप्रसाद. हिंदु. एकेदेमी ५००

—सिद्धा की वानिया द्विवेदी, हजारीप्रसाद, सपा. ना प्र  
सभा. ४००

नादिरशाह गोविंदसिंह. चौधरी ५००

नादिरा शुक्ल, गिरिजादत्त 'गरीश' गगा ५००

नानक योग शिवब्रतलाल शिव सा ३००

—वाणी. मिश्र, जयराम, टीका मित्र ३०.००

नाना. जोला, एमिल अर्चना प्र (पा.) १.००; — — कि  
महल ३००, — — प्रभात प्र. ६००, — — राज-  
रजना (पा) १५०

—की नजर मे ब्रजकिशोर 'नारायण' राजकमल  
(पा) १००

—की मा जोला, एमिल कि महल ३.७५

—फडनवीस उमाशकर हि प्रचा पु ४००

—फडनवीस जोशी, धीपाद सस्ता ०४०

—फडनवीस. वर्मा, रामकुमार रा वेनीप्रसाद. २००

—साहव भा, कमलनारायण 'कमलेश' जानपीठ २५०

—साहव पेशवा ठाकुर, केजवकुमार आदर्श हि. १००

नानी कहो कहानी मोदी, आनंदी प्रथम ०७५

नाभाकृत भक्तमाल का अध्ययन दीक्षित, प्रकाशनारायण  
सा भवन, ६५००

नाभाग बहादुर उमाशकर राष्ट्रीय प्र मंडल एउ राष्ट्रीय  
सा स १.२५

नाभिकीय ऊर्जा चित्रमन पीपुल्स १००

नाम के पति शोकत धानदी आनंद पु, वा २५०

—घोषा माणवदेव मन ग्रन्थ ३७५

नाममाला सभाप्य धनजय. कवि भा जानपीठ ३५०

नामातरण गहनोत्त, मुखवीरसिंह हि ना म, जो १५०

नामावली. जूनरबाग, लिस्मीनद, का. जैन टेनाटर  
०२५

नान्द जी दीणा मिश्र, कम्मिनारायण हि महल २००

नायण राय अद्वितीय राहु एम. ना ६००, नदिस्त.  
४००

नारायण हिंदी शब्दसागर दीक्षित, श्यामसुंदरलाल लक्ष्मी ना.  
५२५

नारियल. वेदी, रामेश आत्मागम १२५

नारी अखिलन हिंद पा १००

नारी गुप्त, सियारामगरण. सा. सदन, चि २.५०

नारी गोस्वामी, अतुलकृष्ण आत्माराम १०००

नारी. व्यथितहृदय आदर्श हि २००

— एक पहली मोपासा प्रचा पा १००

—और शिशु गुप्त, मिथिलेशकुमारी. भाग्योदय २५०

—और समाज पाराशर, चिरजीलाल दि. पु. स १०००

—का मूल्य चट्टोपाध्याय, शरत्चंद्र चौधरी. १५०; — —  
हि ग्र २०६२

—का रूप शृंगार वर्मा, सावित्रीदेवी अरणोदय ६००

—काव्य संग्रह. प्रयाग १३०

—काव्य संग्रह की टीका. लक्ष्मीकांत 'मुक्त' रीगल. २.५०

—की नवचेतना शुकदेव सिंह 'सौरभ' सन्मार्ग ३५०

—के गोपनीय भेद मेहरा, राजनारायण रगभूमि. ५००

—क्या—एक पहली? राधिकारमणप्रसाद सिंह, राजा अजोक  
प्रे ३५०

—क्या है. वाजपेयी, प्रेमचंद्र आदर्श पु म १००

—गृहलक्ष्मी और कत्याणी रामनाथ 'सुमन' साधना सदन.  
२५०

—गौरव शरद्. रामप्रसाद १५०

—जीवन दुर्गाशकरप्रसाद सिंह इ प्रे २.५०

—जीवन की कहानिया प्रेमचंद्र सरस्व प्रे ४००

—जीवन की लोक कथाए श्रीवास्तव, हरिमोहनलाल.  
मानकचद ०७५

—जीवन . कुछ समस्याये रामनाथ 'सुमन' साधना सदन.  
१५०

—! तुम केवल श्रद्धा हो दीनानाथ 'शरण' आनंद पु, वा  
३००

नारीत्व. ह्याजट, मारगरेट मूर जानमजल ३५०

नारी धर्म-शिक्षा मन्मतादेवी काशी पु. २५०

— नये युग मे गुप्त, ननिनीकांत श्रीप्ररविंद २५०

—पथ प्रदर्शक. विमलादेवी सुमन भाग्योदय २.५०

—रत्न ओंकार शरद. राजरजना ०००

—रत्न वर्मा, परिपूर्णानंद नद व ०७५

—रहस्य पाठ्य, छविनाथ हि पु म ०००

—व्यायाम शिक्षा विमलादेवी सुमन भाग्योदय २५०

—जरीर श्रीमानार्जा श्रीप्ररविंद ०२५

—शिक्षा गीता. ०३०

—सौंदर्य साधन ठाकुर, प्रेमकुमारी मं = प्रेमकुमारी  
२५०

—हृदय की नाद मनि, मन्मथदेवी राजपुत्र ०००

नामेल शिक्षण जयप्रकाश, नीताशम नद ०४००

—शिक्षण विधि जयप्रकाश नीताशम. नद ०१००

—शिक्षा मनोविज्ञान जयप्रकाश, नीताशम नद ०००  
नद. सं. १.५०



- नामंल शिक्षा मिह्वात जायमवाल, सीताराम नद म ३ २५  
 — शिक्षा स्कूल हाईजीन जायमवाल, सीताराम नद ब्र ० ७५  
 — स्कूल हाईजीन जायसवाल, सीताराम नद स ० ७५  
 नावों की लोक कथाए वर्मा, शुभा भा २ हि. भवन १ ३०  
 नान्दी ने देवदेव, पी नेशनल २ ५०  
 नाव के पाव गुप्त, जगदीज विश्वविद्यालय २ ५०  
 नावदुर्घटना ठाकुर रवींद्रनाथ जवाहर ४ ००, — — प्रभात  
 प्र ८ ००, — — श्यामलाल ४ ५०, — — सन्मार्ग ४ ००  
 नाविक के तीर कामताप्रसाद सिंह 'काम' पारिजात १ ००  
 नाथ का विनाय वरेरकर, मामा सस्ता  
 नाथने ने पहले तैयजी, रहाना हिंदु प्रचा सभा ० ७५  
 नामा, गला एव कर्ण रोग चिकित्सा चौबे, प्रियकुमार मेडिकल  
 ३ ५०  
 नामिक जोशी, श्रीपाद मन्ता ० ४०  
 नामिकेतोपायान मदल मिश्र श्यामसुंदरदाम, सपा ना प्र  
 मभा ० ५०  
 नास्तिकवाद देवेद्रनाथ शास्त्री गोविंदराम ० ५०  
 नाहर नेह्रू मरस्व प्र म. १ ५०  
 निद्रिया के रथ वर्मा, नाविनीदेवी अरुणोदय १ ५०  
 निवारक संप्रदाय और उनके कृष्णभक्त हिंदी कवि गर्मा,  
 नारायणदास अशोक प्र, म सिद्धांत ख ७ ५५, ख २  
 निवल्स और डाइम्स ब्राउनवेकर, नीना एस चाद १ ००  
 निकष धर्मवीर भारती ४ भा सा भवन, इ भा १-२  
 ३ ०० (प्र), भा ३-४ ६ ०० (प्र)  
 निगमन तर्कशास्त्र गुवल, गमजकर 'रमाल' रा वेनीमाधव  
 २ ५०  
 निगम वित्त कुलश्रेष्ठ, आर एम सा भवन, आ.  
 — वित्त कोठागी एम एल किशोर पब्लि १ ० ००  
 नित्यधर्मप्रयोग गीता ० ४५  
 निदर्शन एक परिचय जो एम चाद  
 निद्रा विज्ञान प्रभूनारायण मातृ-भापा ० ५६  
 निवध कना गौट, राजेद्रसिंह नाथना सदन ३ ५०  
 — करानी मरह त्रिवेदी रा वेनीमाधव १ ७५  
 — तार रामचंद्र शुभल जयनाथ 'नतिन' वगन ६ ५०  
 — तार रामचंद्र शुभल और वितामणि मरस्व पु स २ २५  
 — तुमुमाक वगीध १ २५  
 — त एव और त देवमित्त नावली १ ७५  
 — चयनिका त्रिवेणी, मुक्तिनारायण 'वसंतपुत्री' राष्ट्र प्र  
 म ० २५  
 — जोति टउन गुन्प्रसाद गयाप्रसाद २ ००  
 — दर्शन गणेश कि घर, वा ० ७५  
 — नवीन कर्मोप हि पु ए भा १ १ ६२, भा २  
 ३ ३५  
 — नवीन नैन, फूलचंद्र 'नारा' रत्न २ ००  
 — नवीन गीता, दामोदर मानचंद २ ५०  
 — नवीन वायु, न मोनाथ विश्वविद्यालय ३ ५०,  
 — — कि रा म ३ ००  
 — निवृत्त गौट, गौटसिंह मा भवन, इ ३ ५०

- निवध निचय मिश्र, के वी एस चाद २ ००  
 — निचय वाजपेयी, नददुलारे इ प्रे ३ ००  
 — निचय सूर्यप्रसाद सिंह राष्ट्रीय प्र मडल ३ ००  
 — निधि त्यागी, भारतभूषण गयाप्रसाद २ ००  
 — निधि श्रीवास्तव, शिवनारायण नद ब्र एव नद स.  
 २ ३७  
 — निरूपण हरदयाल सिंह रा वेनीप्रसाद २ ००  
 — नीहारिका तिवारी, रामचंद्र, सपा विश्वविद्यालय.  
 २ ५०  
 — परिचय रामसकल सिंह अशोक पु म. ३ ००  
 — पारिजात त्यागी, भारतभूषण. गयाप्रसाद ३ ००  
 — पारिजात वमवम सिंह 'नीलकमल' मगध ४ ००  
 — पारिजात ससारचंद्र एस चाद २ ००  
 — पूर्णिमा सनाढ्य भा प्र मंदिर ३ ००  
 — प्रदीप गुप्त, सोमनाथ, सपा मुशीराम २ ००  
 — प्रवध शर्मा, रामकृष्ण 'शिलीमुख' रीगल ४ ००  
 — प्रबोध भटनागर, रामरत्न कि महल ३ ००  
 — प्रभाकर उपाध्याय, रामप्रसाद सरस्व पु स १ ७५  
 — प्रभाकर तिवारी, भोलानाथ सशो स सूर्य प्र. ६ ००  
 — भारती राय, निहासन 'सिद्धेश' आदर्श पु भ ३ ००  
 — मजरी सावल, रामलाल श्री भा भारती २ ५०  
 — मानस शर्मा, नलिनविलोचन पु भ एव वि प्र कु  
 २ ००  
 — माला गुलावराय स ७ हि भवन १ ७५  
 — मुक्तावली व्यथितहृदय रा वेनीमाधव २ ५०  
 — रचना वर्मा, हरिराम कि घर, वा १ ००  
 — रत्नमाला पाडेय, राजनाथ रा वेनीमाधव २ ००  
 — रत्नाकर कुमुद विद्यालकार रीगल ५ ५०  
 — रत्नाकर भगवतीलाल आनंद पु, वा ३ ००  
 — रत्नावली शर्मा, रामसुंदर. मुबोध ग्र. ३ २५  
 — वल्लरी वसिष्ठ श्री भा भारती २ ००  
 — सग्रह धिल्डियाल, रमाप्रसाद 'पहाडी' प्रकाशगृह  
 — सग्रह द्विवेदी, हजारीप्रसाद सा भवन, इ ६ ००  
 — मसार गोयल, मुरलीमनोहर कल्याणमल ३ ५०  
 — सरोज वेदप्रकाश शास्त्री आर्य बुक ३ ७५  
 — सुधा पराडकर, मो दि, सपा ववई हि २ ००  
 — सुपमा गीतम, मनमोहन सगो स ६ सूर्य प्र ३ ००  
 — सुपमा राकेश गर्ग ब्र २ ७५  
 — सौरभ म ३ आजाद २ ५०  
 — सौरभ कृष्णानंद अशोक प्र १ ५०  
 निववादर्न जर्मा, गोकुलचंद्र मा भवन, इ १ २५  
 निववानुवाद दिवाकर. शर्मा, सुजनदत्त. गुप्ता ब्रा ० ७५  
 निववायन मिश्र, उगनारायण नाथना म २ ५०  
 निववाजव शिवनदन प्रसाद पारिजात ३ ००  
 निवधिनी पाडेय, गगाप्रसाद नाथना सदन ३ ५०  
 निमाई नन्वामी. जजरत्नदाम, अनु हि प्रचा पु ० ७५  
 निमाई और उमना माहित्य कृष्णलाल 'हस' हिंदु एकेडेमी  
 ६ ००

- निमाडी की लोक कथाएं. कृष्णलाल 'हंस'. २ भा. आत्माराम  
१ २५ (प्र.)
- निम्मी गर्ग, किशोर स. ४ रानी १.५०
- नियामक ज्यामिति खन्ना, एम. एल एस चाद. २००
- ज्यामिति भा... नावली २७५
- ज्यामिति ब्रजमोहन २ भा काशी हिंदू २५० (प्र.)
- ज्यामिति. मदनमोहन... केदारनाथ. ३.२५
- ज्यामिति रे, एम .. गयाप्रसाद ३००
- ज्यामिति सिंहल, बी एस. नद. ब्र एव नद स. ४५०
- ज्योमिति का सरल अध्ययन अरोडा, दीवानचद सुरेश  
२७५
- ज्यामिति के प्रश्न के हल शर्मा, हरस्वरूप गयाप्रसाद  
२.००
- नियोजन राजकुमार हिं प्रचा. पु ०५०
- देश और विदेश मे भट्टाचार्या, ए. बी रतन ११२५
- परिवार सुखी परिवार भार्गव, रतनलाल गगा १५०
- निरकुशता-निदर्शन चतुर्वेदी, जगन्नाथप्रसाद गगा १५०
- निरतर. वाजपेयी, भगवतीप्रसाद यग मैत्र २८७
- निराधार विश्वभर 'मानव'. कि. महल १२५
- निराला भटनागर, रामरतन कि महल ५००, — —  
साथी ५००
- निराला शर्मा, रामविलास. शिवलाल ५००, — —पीपुल्स  
१५०
- अभिनदन-पुष्पहार श्यामविहारी 'विरागी', राष्ट्र प्र म.  
२२५
- : एक भूलक नाटक. टडन, प्रेमनारायण हिं सा. भ २५०
- और उनकी अपरा भाटी, देशराजसिंह. अशोक प्र ४.५०
- और नवजागरण भटनागर, रामरतन साथी १०००
- करते क्या थे ? श्यामविहारी 'विरागी' राष्ट्र प्र म  
१००
- कहते क्या थे ? श्यामविहारी 'विरागी' राष्ट्र प्र म  
१.००
- का कथा साहित्य वाष्णैय, कुसुम मित्र ३००
- का गद्य साहित्य बिल्ला, प्रमिला चैतन्य ४००
- का निरालापन उमाशकर सिंह सा साधना ५००
- का परवर्ती काव्य. मेहरा, रमेशचंद्र अनुसंधान १०००
- काव्य और व्यक्तित्व. वर्मा, धनजय विद्या प्र म १०.००
- चाहते क्या थे ? श्यामविहारी 'विरागी' राष्ट्र प्र म.  
—जानवर पंडित, प्रकाश राजपाल ०७५ [१००
- (प्रश्नोत्तर) शर्मा, राजनाथ. विनोद. २५०
- स्मृति ग्रथ अमरनाथ, सपा ज्ञानालोक २५०
- निराश प्राणयी ठाकुर, बलभद्र. सन्मार्ग २००
- निरुपमा त्रिपाठी, सूर्यकांत 'निराला'. भा. भ २००
- निरोग होने का सच्चा उपाय ट्राल, आर टी. सस्ता १००
- निर्गुण काव्यधारा की दार्शनिक पृष्ठभूमि. त्रिगुणायत, गोविंद.  
सा नि, का २५००
- साहित्य सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मोतीसिंह ना प्र सभा.  
७५०

- निर्भर कक्कड, महाराज नारायण कृष्ण ब्र १५०
- और पाषाण तेजनारायण काक सा भवन, इ. १५०
- कन्या बक्शी, स्वरूपकुमारी राष्ट्रीय प्र मंदिर २.५०
- निर्भरिणी पाठक, कमलाकांत मानकचद.
- निर्भरिणी सक्सेना, रामजीसरन सा नि, ब. ५५०
- और पत्थर दर, निर्मला नेशनल.
- निर्देशक धिल्डियाल, रमाप्रसाद 'पहाड़ी' प्रकाशगृह. ७.००
- निर्देशक-ज्यामिति गुप्ता, एस के एस चाद ४२५
- ज्यामिति सिन्हा, आनदस्वरूप लक्ष्मी ना ४००
- ज्यामिति का सरल अध्ययन गुप्ता, पी सी केदारनाथ  
२७५
- निर्धन बालक से महान उद्योगपति हारलो, सात्विन एफ.  
राजपाल २५०
- निर्भय कैसे बना ? पालीवाल, हरिदत्त 'निर्भय' शारदा  
साधना १५०
- निर्भयता मगरुवावा, किशोरलाल नवजीवन ०१६
- निर्भय नीति पालीवाल, हरिदत्त 'निर्भय' शारदा साधना  
१७५
- निर्मल गुरुदत्त पजावी पु एव भा सा सदन ३००;  
— —स्टार (पा) १००
- निर्मला प्रेमचंद सरस्व प्रे एव हस २००
- एक अध्ययन टडन, प्रेमनारायण स ७ हिं सा भ १२५
- कगीदाकारी निर्मलाकुमारी देहाती १२५
- निर्माण कासिम अली, सैयद हिं सा भ १००
- और नागरिकता चतुर्वेदी, राजेश्वरप्रसाद लक्ष्मी ना  
१००
- का देवता रस्तोगी, विनोद ववई प्र २५०
- पथ दीक्षित, पुरुषोत्तम ज्ञान मडल प्र १.१२
- ग्रथ शर्मा यज्ञदत्त राजपाल ४००
- बेल' चतुर्वेदी, नरेद्र ज्ञान मडल प्र ०७५
- निर्माता बसु, मनोज सस्ता ५००
- निर्मोही कुशवाहा 'कांत' चौधरी ४२५
- निर्यातन वाजपेयी, भगवतीप्रसाद कि महल २.००
- निर्वासित जोशी, इलाचंद्र भा भ. ६५०
- निवेदन के आसू सक्सेना, गभूदयाल नवयुग ग्र कु ४००
- निशा गीत शेवडे, अनंतगोपाल नीलाभ ३००
- निशा डूवती है शर्मा, जयप्रकाश हिं प्रचा पु ३५०
- निमंत्रण हरिवंशराय 'वच्चन'. २५०
- निगानी गोविंदसिंह कल्याणदास २५०
- निशि. बलवत् सिंह सरस्व प्रे २००, — —हिंद पा १००
- निशिकांत विष्णु प्रभाकर आत्माराम ५५०
- निशू और चाद वर्मा, शुभा रामप्रसाद १५०
- निपाद और शत्रु कौल, गोमालकृष्ण सस्ता ०४०
- निष्कलकिनी महावीरप्रसाद गहमरी ड प्र. ०६२
- निष्कृति चट्टोपाध्याय, गरतचंद्र नवयुग पु भ १२५
- निष्णात गुरुदत्त. पजावी पु ३००
- निष्फल प्रेम गेक्सपियर, विलियम राजपाल. २.००
- निस्तरण. प्रकाश 'भारती'. भा सा. सदन. ४.२५

निस्तार वर्मा, वृंदावनलाल मयूर १००  
 निहारिका पांडेय, मुधाकर कल्याणदास २००  
 निहातद प दिभाग १५०  
 निहोत दूबे, सुरेश 'सरम' राष्ट्र प्र म १२५  
 नीर और नयने नावत, रघुवशदयाल गगा ३५०  
 —न आई नागे रात प्यारेनाल 'आवारा' रूपसी ३००  
 नीत्र दे गुण तथा उपयोग दीक्षित, रामसनेही देहाती ०७५  
 —नारगी पत्नीली, गगाशकर रा वेनीमाधव ०१६  
 —, नतरा, माल्टा रामेश्वर अज्ञात देहाती २२५  
 नीव की जगरे श्रीवास्तव, कृष्णकिशोर राजपाल २.५०  
 —के पत्थर नाडमीव, गूरी प्रभात प्र ५००  
 नी रात्रि रा 'पुष्प' प्रकाश पा १००  
 नीड से आगे चौपडा, मोहन आत्माराम ३००  
 नीति कथा (पचतत्र से) भा भ १००  
 —कथाए. आनंदकुमार राजपाल १२५  
 —कथाए गर्ग, यतद्रकुमार भा प्र मंदिर ०६२  
 —कथाए व्यक्तित्वहृदय कि महल १.५०  
 —नी और मनसुखा पूर्वोदय १५०  
 —की महानिया पांडेय, छविनाथ कला-नि १२५  
 —की महानिया राकेस म २ हिं भवन भा १ ० ४०,  
 भा २ ० ४०, भा ३ ० ५०  
 —नी राह भा, गेनालाल छात्रहितकारी ०५०  
 —दर्शन राधामोहन गोकुल हिं सा नम्मे ०७५  
 —धर्म गाथी, मोहनदास करमचद सस्ता ०३७  
 —धर्म प्रपत्रा धर्म नीति गाथी, मोहनदास करमचद  
 प्रादर्श पु म ०२५  
 —निर्गंर, सजुर हसन, अनु अ भा सर्व १२५  
 —प्रमोद अनंदकुमार आत्माराम २००  
 —प्रप्रेमिता मैकंजी, जे एन राजफल १०००  
 —रत्नमाता चंद्रनेत्रर जास्त्री रा वेनीमाधव ०६४  
 —रिपह पांडेय, गगननाल गर्ग व्र १५०  
 —रातन् पन्न, कृष्णकुमार न्यु प्र २००  
 —रत्नम् प्रह्लादन गान्गी गद्याप्रसाद १००  
 —रत्नम् भृगुहरि रा वेनीप्रसाद २००  
 —रत्नम्—भारिष्ठत शर्मा, पी. पी स २ रा वेनीमाधव  
 —रत्नम् कृष्णकुमार २ भा गर्ग व्र ४०० (प्र ) [२००  
 —रत्नम् जोगी, गति ज्ञानमडल एव राजकमल ८००  
 —रत्नम् वात्स्यायन देशरत्नाय ५००  
 —रत्नम् जुग, नानजीगम नद व एव नद म ५००  
 —रत्नम् ता पन्चिच तिवारी, प्रजगोपाल पु भ, आ ४००  
 —रत्नम् ता पन्चिच श्रीचंद्र लक्ष्मी ना ४५०  
 —रत्नम् ता पन्चिच अ यवन तिवारी, प्रजगोपाल पु भ,  
 भा ४५०  
 —रत्नम् ती नन्देरा मोहन, वा एन मोनीलाल ४५०  
 —रत्नम् ती नन्देरा शर्मा, रामनाथ केदारनाथ ७५०  
 —रत्नम् ती नन्देरा ०७५  
 नीला भवता प्रीतम हिं पा १००  
 नीम का नव अंनप्रसाद नवांश ०.६२

नीम के उपयोग पाठक, केदारनाथ. नद व्र १००  
 —के गुण तथा उपयोग दीक्षित, रामसनेही देहाती १२५  
 —के पत्ते रामधारी सिंह 'दिनकर' उदयाचल. १००  
 —के फूल गिरिराजकिशोर कि महल २५०  
 —चिकित्सा विधान शर्मा, सुरेशप्रसाद स २ मेडिकल ०६३  
 —त्रकायन वेदी, रामेश आत्माराम १७५  
 —हकीम वर्मा, सावित्रीदेवी आत्माराम १००  
 नीमा जो बिक गई हाशमी, शौकत गमा ३६५  
 नीर क्षीर क्षेमचंद्र 'सुमन' राजहस २५०  
 नीरज क्षेमचंद्र 'सुमन' राजपाल २००  
 —की पाती गोपालदास 'नीरज' विनोद २५०, — —  
 हिंद पा. १००  
 नीरजा ठाकुर, रवींद्रनाथ श्यामलाल १५०, — —  
 सहगल २२५  
 नीरजा वर्मा, महादेवी भा भ २५०  
 —और चार अध्याय ठाकुर, रवींद्रनाथ हिं प्रचा म २२५  
 —विवेचन चुध, सत्यपाल थोरिएटल ३००  
 नीर भर आये वदरा. उमाशकर भा ग्र नि ४००  
 नीराजना खरे, नर्मदाप्रसाद न्यू लिट १७५  
 नीरोग जीवन चतुरसेन, आचार्य राजपाल १००  
 नीलकठ नदा, गुलशन नवयुग प्र ६००  
 नीलकठ वर्मा, वृंदावनलाल मयूर १२५  
 —निराला काश्यप, रामेश्वरसिंह राष्ट्रीय प्र मडल २००  
 —विजय मिश्र, रामचंद्र, व्या चौखवा ४००  
 नील कमल नदा, गुलशन सहगल. ४५०  
 —कुमुम रामधारी सिंह 'दिनकर' उदयाचल ३००  
 —दपरा मित्र, दीनवधु मित्र  
 नीलदेवी भारतेदु हरिश्चंद्र हिं पु ए १००  
 —नाटक (भारतेदु हरिश्चंद्र) अग्रवाल, हरिश्चकर, सपा  
 रा वेनीप्रसाद ०२५  
 नील पछी मैटरलिक, मॉरिस वि राष्ट्र २५०  
 नीलम कुशवाहा 'कात' चौधरी ६००  
 —और ममहरी की देवी मिश्र, शारदा हिं प्रचा पु १२५  
 नीलमणि चतुरसेन, आचार्य चौधरी २००  
 नील विहग नीरज भा प्र मंदिर १००  
 नीला अवर श्रीमाली, वीरवाला नवयुग ग्र कु १००  
 —एक लडकी भारद्वाज स्टार (पा) १००  
 —पजा प्रमोदविहारी 'राजा' प्रभात प्र भा १-२ २५०  
 (प्र), भा ३ ३००  
 —प्याला गैदर, अर्कादी पीपुल्स १२५  
 —त्रिफाफा अक्षयी, लीला कल्याणमल ०७५  
 नीलिमा ठाकुर, रवींद्रनाथ जवाहर २५०, — —श्यामलाल  
 १५०  
 नीलिमा मिश्र, गौरीशकर 'दिजेद्र' पु भ २००  
 नीली नील स्टैवपोल इ प्रे २००  
 —भीन लाल परछाईया राजानद सूर्य प्र म २५०  
 —दाटी गुट्ट, अरविंद रीगल ०७५  
 —साडी गुप्त, विद्याचनप्रसाद चिनगारी १५०

- नीले पीले गुब्बारे सोलकी, कौमलसिंह सा संगम, ग्वा ४.५०
- नीलोखेडी. दे, एस. के राजकमल ५००
- नीलोफर. शैक्त थानवी सहगल ६५०
- नीहार वर्मा, महादेवी सा भवन, इ ३००
- नीहारिका सकसेना, शभूदयाल नवयुग ग्रं कु. २५०
- नीहारिकाए गोरखप्रसाद वि. राष्ट्र ४२५
- नूतन अर्थशास्त्र सिंह, एल. हि प्रचा पु ८८७
- आलोक. अमृतराय हस २.५०
- गद्य भारती श्रीवास्तव, शिवनारायण नद ब्र. २००
- गद्य-सग्रह. गुप्त, कृष्णानन्द, सपा रा. बेनीप्रसाद १.५०
- गद्य सुषमा भटनागर, रामरतन, सपा रा बेनीप्रसाद. २.५०
- ग्राम-गीत मिश्र, गगाधर राष्ट्र प्र म १६६
- तार शिक्षक वर्मा, चदूलाल 'चद्र' चद्र कार्या १.५०
- प्रबन्ध-वल्लरी मोहनलाल 'जिज्ञासु' श्री भा भारती १७५
- ब्रह्मचारी भट्ट, बालकृष्ण ज्ञानमडल ०६३
- ब्रह्मचारी की कुजी देवराज शास्त्री रीगल ०७५
- रसायन विज्ञान पुरुषोत्तमदास स्वामी लक्ष्मी ना भा १. ८.००, भा २. ४००
- संस्कृत व्याकरण और रचना उपाध्याय, कन्हैयालाल. श्रीराम मेहरा १.५०
- हाईस्कूल बीजगणित. मुख्त्यार हुसैन... श्रीराम मेहरा २३७
- हिंदी व्याकरण चेताराम शास्त्री. श्री भा भारती. २५०
- हिंदी व्याकरण भट्ट... वीरा. भा. १ १२०, भा २ १.०५, भा ३ ११५
- नूतनामृतसागर प्रतापसिंह, सवाई श्यामलाल ७००
- नूरजहा पत, गोविंदवल्लभ गगा ४.५०
- नूरजहा राय, डी एल. राष्ट्रीय प्र. मंदिर. १७५
- नूरजहा राय, द्विजेद्रलाल हि ग्रं १७५
- (गुरुभक्तसिंह) चौधरी, रामखेलावन हि सा भ. २५०
- (गुरुभक्तसिंह) शर्मा, अबिकाचरण रतन २५०
- आलोक. मल्लिनाथ. नाँवल्टी १५०
- समीक्षा वर्मा, ब्रजलाल सा. नि, का २.००
- नूरानी मोती. न्यादरसिंह 'बेचैन' देहाती ०७५
- नूह की शायरी विस्मिल मातृ-भाषा २००
- नृत्य-अंक द्विवेदी, गणेशप्रसाद, सपा संगीत ३००
- कला उमाप्रसाद सा. भवन, आ ४००
- का बुलावा सिन्हा, कृष्णानन्द अशोक प्रे. १.५०
- भारती सुधाकर, आचार्य संगीत ३००
- शिक्षा गुप्त, मिथिलेशकुमारी भाग्योदय. २५०
- नेउर प्रेमचंद हस १००
- नेकी का पुरस्कार श्रीकृष्ण आत्माराम १००
- बंदी व अन्य कहानिया शेद्रीन. पीपुल्स ४००
- नेताओं का बचपन. व्यथितहृदय. हि पु ए ०६४
- की कहानिया. सिन्हा, कृष्णकुमार रवि. ०.६२

- नेताजी तथा अन्य एकांकी. तिवारी, गोपीनाथ हि भवन. २.००
- सुभाषचंद्र बोस. वीरा ३००
- सुभाषचंद्र बोस जोशी, गिरीश आदर्श हि २५०
- सुभाषचंद्र बोस न्यादरसिंह 'बेचैन' देहाती ०७५
- सुभाषचंद्र बोस विश्वभरनाथ गयाप्रसाद १७५
- नेत्रदान. जोशी, रामहरि, अनु ग्रथमाला १.५०
- नेत्र सुधार अग्रवाल, आर. एम देहाती ५.००
- नेत्रो और दातो की रक्षा शर्मा, ए एम सर्वोदय ०.५०
- नेपथ्य रमेश चौधरी, ए 'आरिगपूडि' बबई प्र ३००
- नेपाल की कहानी श्रीवास्तव, काशीप्रसाद आत्माराम ८००
- की लोक-कथाए गोविंद चातक आत्माराम १२५
- की वो बेटा ठाकुर, बलभद्र हि भवन ५८०
- के अमर शहीद. जोशी, रामहरि ग्रथमाला १.२५
- के मोर्चे पर विजयकुमार पुजारी यग मैन १२५
- नेपोलियन फिशर, एच. ए एल. गयाप्रसाद. ६००
- की कहानिया मिश्र, रामदहिन ग्रथमाला २ भा ०.६२ (प्र)
- नेफा और लदाख के साहसी वीरो की गाथाए रतूडी, वीरेन्द्रमोहन उमेश २५०
- की एक शाम अग्निहोत्री, ज्ञानदेव उमेश २५०
- की लोक-कथाए नौटियाल, शिवानन्द. आत्माराम १२५
- नेमी कार्यालय टिप्पणिया. केंद्रीय ०४०
- नेल पालिश कालीचरण. देहाती २.५०
- नेलसन की जीवनी शिवकुमार शास्त्री रा बेनीप्रसाद ०७५
- नेवाज कृत सकुतला नाटक चतुर्वेदी, नर्मदेश्वर परिमल १५०
- नेवाज कृत सकुतला नाटक शर्मा, राजेद्र, सपा मंगल १०.००
- नेह की नदी शुक्ल, विश्वभरनाथ जवाहर. २००
- नेहरू और नई पीढी शर्मा, हरिदत्त सहगल ४२५
- का देश ओमीलाल 'इलाहाबादी' विद्या भवन, इ २५०
- का व्यक्तित्व. चट्टोपाध्याय, वसंतकुमार. सहगल ४.००
- की रूस-यात्रा राजकुमार हि प्रचा पु. १५०
- के बाद तथा अन्य एकांकी सकसेना, शभूदयाल नवयुग ग्रं कु ४००
- के हास्य विनोद नगायच, प्रकाश. स्टार (पा.) १००
- चाचा. द्विवेदी, सोहनलाल इ प्रे २.२५
- चित्रावली लूणिया, जीतमल स ६. हिं. सा म १००
- नेहरूजी—अपनी ही भाषा मे चौधरी, रामनारायण, सपा. नवजीवन ३५०
- का विद्यार्थी जीवन वेदी, नरेग सस्ता. ०.४०
- की जीवन भाकिया सिंहल, रोशनलाल यूनितर्सिटी ०६२
- की सूक्तिया गोविंदसिंह, सपा हि प्रचा. पु १००
- नेहरूं ने कहा. धीर, केवल हिंद पा १००
- परिवार की कहानिया और सस्मरण गौड, पुरुषोत्तमदास 'कौमल'. पुष्पी एव सुरेद्र २००
- बनाम लोहिया. लोहिया, राममनोहर. नवहिंद.

- नेहरू राजनीतिक जीवन चरित हरिवंशराय 'बच्चन' मोतीलाल ६००
- विश्वशांति की खोज में गुप्ता, ओमप्रकाश सहगल ४५०
- हो न्यो ? जैन, शरदचंद्र कि महल ५००
- नैतिक जीवन पाठक, रघुनाथप्रसाद सन्मार्ग २५०
- जीवन का सिद्धांत ड्युई, जान आत्माराम ५००
- प्रकाश जायमवाल, नीताराम नंद ब्र १५०
- मजीवन तुलसी, आचार्यश्री भा. १ आत्माराम २००
- नैन बावने प्यारेलाल 'आवारा' रूपमी ४००
- मिने—चैन कहा ? त्रिवेदी, रश्मिकांत. सांस्कृतिक ५००
- नैना नीर भरे गिरीप जवाहर ३००
- नैनीताल की लोक-कथाएँ मटियानी, शैलेश आत्माराम १२५
- नैवेद्य ठाकुर, रवींद्रनाथ राजपाल २००
- नैपथ्य चरित. हर्ष सस्ता ०४०
- चरित चर्चा दिवेदी, महावीरप्रसाद गंगा ३००
- परिशीलन शुक्ल, चंद्रिकाप्रसाद हिंदु एकेडेमी १०००
- नोक भोक श्रीवास्तव जी पी हि पु ए २००
- नोआग्यानी में गुप्त, सियारामशरण सा सदन चि ०५०
- नोवन पुरस्कार-विजेता साहित्यकार राजवहादुर सिंह राजपाल ७००
- नोका डूवी ठाकुर, रवींद्रनाथ अर्चना प्र (पा) १००,
- —चिनगारी ३५०
- नोजवान पत, गोविंदवल्लभ गंगा ५००
- नो बाल एकाकी चकोर नवयुग पु भ १००
- नोलखा हार मुबारक जहा मिश्र-त्रधु ०७५
- न्याय वीरदेव 'वीर' इ प्रे १२५
- कारिकावली. धर्मनाथ मोतीलाल ५२५
- का मधर्ष यशपाल विलव ३००
- कुमुदचंद्रोदय प्रभाचंद्राचार्य भा ज्ञानपीठ भा १ ८००,
- भा २ ८५०
- के नाम पर चंद्रप्रकाश अग्रवाल प्रि ०७५
- दर्शन. दर्शनानंद, स्वामी देहाती ३२५, — —प्रभात प्र २५०
- दर्शन दर्मा, श्रीगम मया मस्त्रुति १००
- पचायन रूप, कर्त्तव्य और अधिकार शर्मा, ब्रह्मस्वरूप सर्वोदय. ०३७
- पचायतो के अधिकार वाचस्पति भा प्र मंदिर
- मत्री रावन, महेशचंद्र न ० सा रत्न भ २५०
- विशिष्ट विवरण भट्ट अक्लक २ भा भा ज्ञानपीठ ३०००
- शान्ध दान कुन्नेड ४५०
- शान्ध निगमन भानुप्रताप सिंह कि महल ३००
- निदान मुक्तानंदी प्रश्नोत्तरी विश्वनाथ शास्त्री मोतीलाल १.२५
- न्यायाधिकरण गुरुदत्त भा मा नदन ७००
- न्यायाधीश वशीरनाथ, ताराशंकर प्रशोक पु म २५०
- न्यूजलेट की मोह कथाएँ. चर्मा, शुभा ० भा हि भवन १५० (प्र.)

- न्यूटन ओमप्रकाश आर्य पीपुल्स १५०
- न्यू थ्योरी एन्ड प्रैक्टिस आफ टाइपराइटिंग रा वेनीप्रसाद २००
- लाइट कशीदाकारी वसतीरानी देहाती १२५
- न्यूता और चुनौती शंकर शैलेन्द्र पीपुल्स १००

प-

- पक और पकज कुमार, के दि पु सा ४००
- पकज गुरुदत्त. प्रचा पा १००, — —भा सा सदन ३००
- और पानी यायावर भा सा सदन १.७५, (पा) १००
- पखहीन शंकर सुल्तानपुरी नवचेतना
- पछी पुछी, ठाकुर एडी ६६०
- पखडिया मजला 'वीरदेव' इ पब्लि १२५
- पखी की छाव राज सरस्व पु स ४००
- पचकल्याण व्योहार राजेन्द्रसिंह एस चाद ४००
- पचतत्र मोतीचंद्र राजकमल ५२५; (पा) २००
- पचतत्र दिग्युशर्मा हिंदु पा १.००
- पचतत्र सत्यकाम देहाती ३५०
- पचतत्र सत्यकाम विशालकार राजपाल ३५०
- पचतत्र सिन्हा, दयाप्रकाश त्रिवेणी १५०
- की कहानिया जोशी, शारदा ३ भा विनय ०४० (प्र)
- की कहानिया रामप्रताप शास्त्री कि महल ३००
- की कहानिया शकुंतलादेवी ३ भा राजकमल १२५ (प्र.)
- की कहानिया शेखरचंद्र ४ भा नवयुग प्र कु. १०० (प्र)
- पच-तत्री निरकारदेव 'सेवक' इ. प्रे ३००
- पचतत्व मिश्र, जगदीशचंद्र त्रिवेणी ३५०
- पच-दश तत्र शर्मा, शिवचंद्र पु भु रा ३५०
- पचदश लोकभाषा-निवधावनी वि राष्ट्र ४५०
- पच परमेश्वर वर्मा, रामकृष्ण स्वरूप ०५०
- पच-पल्लव मुकर्जी, प्रभातकुमार इ प्रे २००
- पचपात्र वररेकर, मामा लोक चेतना ४००
- पचप्रजा दीक्षित, भगीरथप्रसाद गिंदन २५०
- पच प्रदीप शांति भा ज्ञानपीठ २००
- पच प्रमून प्रेमचंद हि पु ए ०७५
- पच प्रमून मेहरोत्रा, राममुक्ति सा रत्न भ १२५
- पच फसला जर्मा, वी के तुलसी २२५
- पच भूत ठाकुर, रवींद्रनाथ कन्हैयालाल २५०
- पचम गणराज्य-फ्राम का संविधान लाल, के एस मोतीलाल २५०
- पच महायज्ञविधि दयानंद, स्वामी आर्य सा ०.१६
- पचमागी राजकुमार हि प्रचा पु २००
- पचमूर्ति. वद्योपाध्याय, ताराशंकर अशोक पु म ४००
- पच यज्ञ प्रकाशिका गोविंदगम ०६५
- पचरात्र. भास सस्ता ०४०

- पंचवटी गुप्त, मैथिलीशरण सा. सदन, चि ० ७५  
 पंचवटी. शर्मा, सरनामसिंह 'अरुण'. कृष्णा ब्र. १.००  
 पंचवटी. सकसेना, शभूदयाल नवयुग ग्र. कु. १.५०  
 —की टीका शर्मा, ओमप्रकाश रीगल १००  
 —: टीका शर्मा, योगेन्द्रनाथ. स २ हि सा भ १ २५  
 —परिचय मिश्र, रामनारायण विनोद. ०.७५  
 पंचवर्षीय आयोजन. राजकुमार हि प्रचा पु. ०.५०  
 —योजना. आदर्श पु म १००  
 —योजनाए. चंद्रशेखर शास्त्री यग मैन १.५०  
 पंचशर मिश्र, विद्यानिवास छात्रहितकारी १.५०  
 पंचशील मालसिंह नवयुग ग्र. कु १.००  
 पंचशील राजकुमार हि प्रचा पु ०.५०  
 पंचसग्रह सूरि, अमितगति भा ज्ञानपीठ ० ८१  
 पंचसग्रह. हीरालाल शास्त्री, सपा भा ज्ञानपीठ. १.५००  
 पंचसती शुक्ल, देवीदत्त इ प्रे २००  
 पंचसायक (भाषा टीका सहित) श्यामलाल २५  
 पंचाग-परिचय शाह, श्रीनिवास हि प्रचा पु २००  
 पंचाग्नि चंद्रअवतस अवध १००  
 पंचायत और किसान शिवमूर्ति सिंह 'वत्स'. रामा प्र. १ २५  
 —का न्याय नौटियाल, सत्तोपनारायण आत्माराम १००  
 —राज गाधी, मोहनदास करमचंद नवजीवन, ० ३०  
 —राज शर्मा, विद्यासागर सस्ता ३५०  
 पंचायती राज. कुभाराम आर्य... दत्तबधु. १ ३७  
 —राज दे, एस के. राजकमल ४.००  
 —राज को जानिये गुरुशरण आ भा. सर्व. ०.७५  
 —राज्य क्यों और कैसे? गुरुशरण सा सगम, ग्वा १ ५०  
 पंचायतो का वार्षिक कार्य-क्रम शर्मा, ब्रह्मस्वरूप सर्वोदय  
 ० ३७  
 पंचाली. रागेय राघव. सरस्व पु. स. १.५०  
 पचीकरण श्रीराम, सद्गुरु प्रभात प्र ३००  
 पचो की माया गिरधारीदान नवयुग ग्र. कु. ३००  
 —मे भगवान रमेशचंद्र शास्त्री. शिवनाल १.५०  
 पछी. गोपालसिंह, 'नेपाली'. गंगा, राष्ट्रीय प्र. मडल एव  
 राष्ट्रीय सा. स. १००  
 पछी सोमनाथ 'अकेला'. कन्हैयालाल ३७५  
 —और परदेश. शुक्ल, कमल दि पु. स एव नवयुग प्र.  
 ४००  
 —और परदेशी श्रीवास्तव, हिमाशु. दि पु स. १ २५  
 —, पिंजडा और उडान. शरण सहगल. ३५०  
 —विच्छड गए गोविंद 'माली'. बवई प्र २.००  
 पजाब. लेखराम राजहस १७५  
 —का इतिहास धर्मवीर इ प्रे ५५०  
 —की कहानिया. सतराम स २ हि. भवन भा १ ० ६०,  
 भा २ ० ६०; भा. ३ ० ७५  
 —की प्रीत-कहानिया हरिकृष्ण 'प्रेमी'. आत्माराम ३५०  
 —की प्रेम कथाए वत्स्य, सतराम नेशनल २००  
 —की महारानी शर्मा, पाडेय वेचन 'उग्र'. गंगा. १.५०  
 —की लोक-कथाए प्रीतमसिंह पछी. आत्माराम. १.२५

- पंजाब की लोक-कथाए शर्मा, सत्यभूषण बाल सदन  
 —की लोक कथाए व्यास, श्रीकांत कि महल १ ५०  
 —केसरी रामबालक शास्त्री हि प्रचा. पु २ ५०  
 —परिचय शाह, श्रीनाथ हि प्रचा पु. २ ००  
 —प्रातीय हिंदी साहित्य का इतिहास. बाली, चंद्रकांत  
 नेशनल. १.५.००  
 —हरण शर्मा, नदकुमारदेव हि पु ए २ ५०  
 पजाबी की प्रतिनिधि कहानिया महीपसिंह, सपा आत्माराम  
 —रामायण. आनंद, रामलुभाया 'दिलशाद' विश्वेश्वरानंद.  
 १०००  
 —साहित्य का नवीन इतिहास आर्य बुक एव आशा प्र.  
 ३००  
 प जवाहरलाल नेहरू जैन, आनंदप्रकाश विनोद. ३००  
 प जवाहरलाल नेहरू मिश्र, रामकिशोर क्लानि १००  
 पडितजी. चट्टोपाध्याय, शरतचंद्र इ. प्रे. २००;  
 — —चिनगारी २००, — —पुष्पी. ० ७५;  
 — —राजपाल. २००, (पा) १००, — —  
 श्यामलाल. २००; — —सुरेद्र २.२५  
 पडित नेहरू धवन, देवीप्रसाद 'विकल'. विनोद १.५००  
 प. मोती लाल नेहरू. चतुर्वेदी, जगपति. इ प्रे १ ७५  
 पठरपुर. जोशी, श्रीपाद सस्ता ० ४०  
 पत अरिहरणा पत, सुमित्रानंदन असम. ३५०  
 —और आधुनिक कवि (प्रश्नोत्तर.) भारत भूषण 'सरोज'.  
 रीगल २५०  
 —और उनका रश्मिवध भाटी, देशराज सिंह अशोक प्र  
 ३५०  
 —और उनकी ग्रथि. सिन्हा, कृष्णकुमार नाँवल्डी. २.००  
 —और गुजन टडन, लक्ष्मीनारायण... हि सा. भ. २००  
 —और पल्लव त्रिपाठी, सूर्यकांत 'निराला'. गंगा २००  
 —और रश्मिवध. पाडेय, निर्मला हि सा. भ. ३५०  
 —का काव्य और युग. शल्य, यशदेव कि महल ५.००  
 —का काव्यदर्शन चौहान, प्रतापसिंह प्रत्यूष ३५०  
 —काव्य का विवेचन श्रीवास्तव, जगदीशप्रसाद मालवीय.  
 ४४०  
 —की काव्य कला विश्वभर 'अरुण'. प्रदीप. २००  
 —की काव्य कला और जीवन-दर्शन गुप्त, रामचंद्र. सरस्व.  
 पु स ३ २५  
 —की काव्य चेतना मे गुजन. वासुदेव कि महल. ३००  
 —की काव्य-साधना. शर्मा, विनय कुमार. हि. सा स ५००  
 —जी का नूतन काव्य और दर्शन. उपाध्याय, विश्वभरनाथ.  
 सा. रत्न भ १३ २५  
 —जी की रश्मिवध मल्लिनाथ. नाँवल्डी ४००  
 —, प्रसाद और मैथिलीशरण. रामधारी सिंह 'दिनकर'.  
 उदयाचल. ४.००  
 पथ का जल. शुक्ल, शकुतला. भा सा. सदन ३००  
 पद्मह अगस्त ठाकुरप्रसाद सिंह स ३. राष्ट्रीय प्र मंदिर  
 ० ७५  
 —अगस्त. मिश्र, गंगधर. राष्ट्र. प्र. म. २ ५०

पद्रह अग्रस्त के बाद गाधी, मोहनदास करमचंद सस्ता २००  
 —वर्ष में हमारी प्रगति अवनोदरकुमार विद्यालकार सस्ता  
 ०७५  
 पद्रहवीं से मत्रहवीं शती तक हिंदी साहित्य के काव्य-रूपों का  
 अध्ययन शर्मा, रामदास हिं प्र २  
 पञ्चमचरित्र स्वयंभू कवि ३ भा भा ज्ञानपीठ ६००  
 पकाइए खाइए वर्मा, नावित्रीदेवी हिंद पा १००  
 पाकिस्तान में खग्वनसिंह वमल ५००  
 पकोड़ी माह जिदावाद गुप्त विद्याचलप्रसाद माधना म  
 २५०  
 पत्रका कदम यज्ञपाल विप्लव ५००  
 —गाना उपेंद्रनाथ 'अस्क' नीलाभ ३२५  
 पक्षपात रहित श्री गीता-दर्पण श्री रामायण २५०  
 पक्षियों की कहानियाँ गोविंद चानक आत्माराम ४००  
 —की दुनियाँ सुरेशसिंह, कुवर सस्ता १५०  
 पक्षी और आकाश रागेय राघव राजपाल ४००  
 —परिचय पारसनाथ सिंह भा भ २५०  
 —पालन मन्मेना, वद्रीप्रसाद भाग्योदय २००  
 पगडडी गुप्त, रामप्रकाश अर्चना प्र (पा) १००  
 पगडडी ठाकुर, रवींद्रनाथ राजपाल ३००  
 पगडडी प्यारेलाल 'आवारा' चौधरी ५००  
 —श्रीर पद्म्याइया कुलभूपण कि महल ३००  
 —श्रीर पहाड माणिकचंद्र आर्य बुक एव आशा प्र ३००  
 पगध्वनि चतुरसेन, आचार्य आत्माराम १५०  
 पगध्वनि शांति. अवध २००  
 पगला भरना सत्यनारायण अशोक प्रे १२५  
 पगली कृष्ण 'मजदूर' अग्रवाल प्रि. ०७५  
 पगली शर्मा, जगदीश देहाती १२५  
 पगली. शर्मा, द्वारिकानाथ पुष्पी १२५  
 पगली शौकत थानवी शमा ३८५  
 पंचपन का फेर लूयरा, विमला भा ज्ञानपीठ ३००  
 ५५ की श्रेष्ठ कवितायें रमानान 'कान', सपा नव सा ४२५  
 पंचपन सने लान दिवारे उपा प्रियवदा राजकमल ३५०,  
 (पा) १००  
 ५० वर्षों का फकीर अनुभव दयाल फकीर शिव सा ०५०  
 पंचनीम नजर होठी का दान पाठक, अनसूयाप्रसाद राष्ट्र पु  
 भ २००  
 पंचनीमना घटा कौसल्यायन, भदत आनंद, अनु भा भ ६००  
 पट्टरी हा पाइप प्यारेलाल 'आवारा' रप्पी ३५०  
 पट्टेल अभिनंदन प्रथम मिश्र, ज्योतिप्रसाद 'निर्मल', नपा अवध  
 १०००  
 पट्टन का चर्चा कामनाप्रसाद सिंह 'काम' पारिजात २००  
 —का नंदन शर्मा, जनदेवदत्त हिं ना न २०५  
 पट्टन की कहानियाँ अवन्यो, मद्गुरुशरण अत्रव ३५०  
 पट्टन की वेदा पट्टन शर्मा देशीप्रसाद हिं प्रका पु ०६७  
 पट्टन की रत्ना शर्मा, निन्दन आत्माराम ६५०  
 पट्टन की रत्ना शर्मा, निन्दन आत्माराम ६५०  
 पट्टन की रत्ना शर्मा, निन्दन आत्माराम ६५०  
 पट्टन की रत्ना शर्मा, निन्दन आत्माराम ६५०  
 पट्टन की रत्ना शर्मा, निन्दन आत्माराम ६५०  
 पट्टन की रत्ना शर्मा, निन्दन आत्माराम ६५०

पट्टे लिखे मूर्ख पाराशर, चिरजीलाल दि पु स ३००  
 पट्टे आगे बढो दुर्गावती सिंह प्रमिताभ १००  
 —और बनो गुप्त, हरिकृष्णदास 'हरि' नेशनल ०.७५  
 —और हंसो जहूरबख्श छात्रहितकारी १००  
 —, समझो और करो गीता ०३७  
 पतजलिकालीन भारत अग्निहोत्री, प्रभुदयाल त्रि राष्ट्र  
 ११५०  
 पतझड़ जैन, श्रीचंद्र मिश्र-बधु १००  
 —के फूल शेखर आधुनिक २५०  
 पतझड़ रागेय राघव राजपाल २५०  
 पतन कामू, आल्वेयर राजकमल २२५  
 पतन. वर्मा, भगवतीचरण गंगा ४००  
 पतन सोमनाथ 'अकेला' कल्याणदास ३००  
 —और प्रायश्चित चौधरी, रामखेलावन हिं सा भ ३००  
 —का अत ओमप्रकाश पुष्पी १००, —सुरेद्र २५०  
 —की ओर रेनाल्ड्स चिनगारी २५०  
 —की तस्वीरे रेनाल्ड्स चिनगारी २५०  
 —की परिभाषा वर्मा, परिपूर्णानंद हिं समि ७००  
 —की सीमा रेनाल्ड्स चिनगारी २५०  
 पतरस के मजामीन बुखारी, ए एस राजकमल (पा)  
 १००  
 पतलून की वन गई निक्कर धर्मपाल शास्त्री. ओरिएण्टल.  
 ०७५  
 पतवार वाजपेयी, भगवतीप्रसाद मुशीराम ५००  
 पतित दत्त भारती पजावी पु ४००, —रतन एड को  
 (पा) २००  
 —पावनी. रमेश चौधरी, ए 'आरिगपूडि' राजपाल ३५०  
 पतिता चतुरसेन, आचार्य हिंद पा १००  
 पतिता माम, सामरसेट सा प्र ५००  
 —की साधना वाजपेयी, भगवतीप्रसाद छात्रहितकारी २५०  
 पति-पत्नी लक्ष्मीनारायण हिंद पा १००  
 पतिमदिर भट्टाचार्य, नारायणचंद्र हिं पु ए २००  
 पतिव्रता साधना प्रतापी गिरिधर २७५  
 —अरु धती भा, जगदीश 'विमल' हिं पु ए ०७५  
 —मनसा भा जगदीश 'विमल' हिं पु ए ०७५  
 —रविमणी भा, जगदीश 'विमल' हिं पु ए ०७५  
 पत्ते गिर पडे मिश्र, शिवसागर आत्माराम ४००  
 पत्थर अलपत्थर उपेंद्रनाथ 'अस्क' नीलाभ ४२५  
 —और आमू शर्मा, रेवतीसरन नेशनल ४००  
 —और पद्म्याइया मार्कंडेय स २ नया सा प्र ३००  
 —और हीरा मिश्र, वैजू ग्रथालय १२५  
 —का लैप पोस्ट देवडा, शरद भा ज्ञानपीठ ३००  
 —की देवी कृष्णकुमार सिंह नद व. एव नद स २५०  
 —के देवता गोविंदसिंह चिनगारी ३००  
 —के फूल प्यारेलाल 'आवारा' तपस्ती ३००  
 —के हाट नदा, गुलशन महगल ३७५  
 —पानी जैन, यादवचंद्र नेशनल ८००  
 —प्रार करते हैं. अग्रवाल, युगल. पुष्पी १००

पत्थर बोलते हैं सतीश. सुभाष एड कं. १ २५  
 —युग के दो वृत्त. चतुरसेन, आचार्य राजपाल. ३ ५०  
 पत्नी का कन्यादान ब्रजकिशोर 'नारायण' पु भ., रा ३.००  
 —के पत्र. ठाकुर, ज्योतिर्मयी. न्यू लिट. ३ ००  
 पत्नीव्रता पाराशर, चिरजीलाल. दि पु स ६ ००  
 पत्र और पत्रकार. त्रिपाठी, कमलापति. ज्ञानमडल. ६ ५०  
 पत्रकारिता के अनुभव इद्र विद्यावाचस्पति नेशनल २ ५०  
 पत्र पुष्प भा. १ हि प्र स. २.५०  
 पत्र-पुष्प. गोविन्ददास, सेठ एस. चाद १ ७५  
 पत्र-पुष्प मुकर्जी, प्रभातकुमार इ प्रे २ ००  
 पत्रलता. गुरुदत्त. भा सा सदन ७.००  
 पत्र लिखने की कला विराज हिद पा १ ००  
 पत्र लेखन कला. चतुर्वेदी, बनारसीदास आत्माराम. ० ७५  
 पत्र लेखन कला हलवे, कृ. र कृष्णा ब्र १ ००  
 पत्र व्यवहार वजाज, जमनालाल अ भा. सर्व १.२५  
 पत्र व्यवहार वजाज, जमनालाल. सस्ता भा १-३. ३००  
 (प्र), भा ४ ४ ००  
 पत्र व्यवहार बहुगुणा, सुरेन्द्रदत्त. आगरा बुक १ ५०  
 पत्र व्यवहार. सक्षिप्तीकरण तथा बाजार भाव श्रीवास्तव,  
 श्रीनारायण. नद ब्र एव नद स ३ ००  
 पत्रावली. गुप्त, मैथिलीशरण सा सदन, चि. ० ४०  
 पत्रावली घोष, अर्चविद श्रीअरविद १ ००  
 पत्रावली विवेकानन्द, स्वामी स २ श्रीरामकृष्ण भा १.  
 ५ २५, भा २ ४ २५  
 पथ और पथिक दुलीचद, मुनिश्री अ. भा अगुव्रत ० ६३  
 —का गीत ठाकुर, रवीन्द्रनाथ राजपाल २ ००  
 —का पाप. रागेय राघव. राजपाल २.५०  
 —का प्रकाश. मिश्र, शिवशकर प्रभात पब्लि ० ६०  
 —की खोज. थोरो. राजपाल ६.००  
 —की खोज मे पगारे, महेन्द्रकुमार सन्मार्ग ५ ००  
 —की प्रेरणा हरीश चिनगारी १ ५०  
 —की वशी शर्मा, यादवेन्द्र 'चद्र' राजपाल २ २५  
 —के गीत मोहनलाल 'शार्दूल' आत्माराम २ ५०  
 —के दावेदार चट्टोपाध्याय, गरत्चद्र अर्चना प्र (पा)  
 १ ००, — —कि महल ४ ००, — —प्रभात प्र.  
 ४ ००, — —सन्मार्ग ५ ००, — —हिद पा. १ ००  
 हि प्रचा पु ४ ००  
 —के राही कौशल, रामकृष्ण सन्मार्ग. २ ५०  
 —के राही दत्त भारती पजात्री पु २ २५, — —स्टार  
 (पा) १ ००, — —भा भ ३ ००  
 —चिन्ह द्विवेदी, शातिप्रिय स ३. चौखवा १ ५०  
 —तथा धेत्रीय खेल-कूद प्रणाली नर्वोदय १ ००  
 —निर्देश शर्मा, श्रीराम 'राम' गंगा. ५ ००  
 —पर उपाध्याय, तारकेश्वर अ भा विक्रम ३ ००  
 —भ्रष्ट गोयल, सीताराम भा ना. सदन ६ ००  
 —प्रात पथिक वनोपाध्याय, चारचद्र इ प्रे २ ७५  
 —विषय महती, मोहनलाल 'त्रियोनी' सा साधना ३ ००  
 —से दूर युक्ल, कमल घोरिएटल. २ २५

पथिक (सक्षिप्त सस्करण) त्रिपाठी, रामनरेश. आदर्श पु  
 भ  
 —आलोक. मल्लिनाथ नाँवल्ली. १.२५  
 — एक समीक्षा मोतीलाल १ ३१  
 —का काव्य-सौंदर्य राकेश लक्ष्मी ना ४ २५  
 —परिशीलन मिश्र, दुर्गाशकर हि सा भ २ ००  
 पथेर पाचाली वद्योपाध्याय, विभूतिभूषण राजपाल ५ ००  
 —पाचाली के विभूति बाबू सिन्हा, योगेन्द्रनाथ. अभिज्ञान  
 २ ००  
 पद-चिन्ह शातिस्वरूप 'कुसुम' त्रिवेणी २.००  
 पदध्वनि शातिस्वरूप 'कुसुम' त्रिवेणी १.५०  
 पद-वदन. शातिस्वरूप 'कुसुम' त्रिवेणी २ ००  
 पदार्थ और शक्ति खडेलवाल, दयाप्रसाद. श्रीराम मेहरा.  
 ३ १२  
 पदार्थवाद जैन, रामचद्र आदर्श सा ०.५०  
 पदार्थ, शक्ति और विश्व खडेलवाल, दयाप्रसाद श्रीराम  
 मेहरा २ ५०  
 पद्मनाभिका द्विवेदी, शातिप्रिय. कल्याणदास २ ५०  
 पद्मपुराण. रविपेण, आचार्य भा ज्ञानपीठ. भा. १ १.५०;  
 भा. २. २ ००, भा ३ २ ००  
 पद्मपुराण. रविपेण, आचार्य. ३ भा भा ज्ञानपीठ. ३ ० ००  
 पद्मराग तिवारी, नदकिशोर पु. भ ३ ००  
 पद्मवन वख्शी, पदुमलाल पुन्नलाल स २. रा वेनीमाधव  
 १.००  
 पद्मसिंह शर्मा के पत्र चतुर्वेदी, बनारसीदास.. आत्माराम.  
 ७.००  
 पद्माकर कवि दुब्रे, शुक्रदेव सा भवन, इ २ ५०  
 —ग्रथावली मिश्र, विश्वनाथप्रसाद, सपा. ना प्र सभा  
 १०.००  
 पद्मा नदी का माभी. वद्योपाध्याय, मानिक. सरस्व प्रे २ ००  
 पद्माभरण. पद्माकर जवाहर १ २५, — —वाग्नी विनान  
 २ ००  
 पद्माभरण मिश्र, विश्वनाथप्रसाद नद स २ ००  
 पद्मावत. सा सदन, चि १५ ००  
 पद्मावत त्रलाउल क मु हि ७ ००  
 पद्मावत गुप्त, माताप्रसाद, नपा भा. भ १२ ००  
 —(जायमी ग्रथावली) शर्मा, राजनाथ, टीका विनोद.  
 १५ ००  
 —का अनुशीलन नारग, इन्द्रचद्र हि भवन ५.००  
 —का ऐतिहासिक आधार नारग, इन्द्रचद्र हि भवन. १ ००  
 —का काव्य-सौंदर्य पाठक, जिवनहाय हि अ. र ५ ००  
 —मे लोकतत्व रवींद्र भ्रमर मिश्र ५.००  
 —मे लोक मन्त्रति दीक्षित लोटेगाल नरन्ध पु म  
 —सटीक जोशी, जीवनप्रकाश हि ना. न १० ००  
 —सार नारग, इन्द्रचद्र न. २ हि. भवन ५ ००  
 —सार का अध्ययन नदन, कन्हैयालाल हि भवन ३.००  
 पद्मावती दामोदरन, के. अद्योक्त प्र गृह ५ ५०  
 —पुरी (पन्ना). रत्नदात. आनन्द पु, का १.५०



- पञ्चावती समय त्रिपाठी, राधेश्याम कृष्णा व्र २५०  
 पद्य नीहारिका मेघराज मुकुल आशा पट्टिन ०७५  
 —पराग नरोत्तमदान स्वामी, मया श्रीराम मेहरा १२५  
 —पराग पाठक भा २ ववई हि १४०  
 —पराग रावत, वीरवल सिंह ववई हि भा १०६२,  
 भा २ १४०  
 —पारिजात मिश्र, केशवप्रसाद ना प्र सभा १२५  
 —पुष्पाजलि मिश्रवधु गंगा ५००  
 —पुष्पाजलि प्रकाश क्राडल, कामिनी गयाप्रसाद ५५०  
 —पुष्पावली कामताप्रनाद 'गुरु' मिश्र-वधु १००  
 —प्रभा युक्ल, उमाशकर रा वेनीमाधव १५०  
 —प्रमोद उपाध्याय, अयोव्यामिह 'हरिऔध' कल्याणदास  
 ५००  
 —प्रवाह (मुञ्जिला कुमारी) मिश्र, दुर्गाशकर हि सा भ  
 २५०  
 —प्रवाह मुञ्जिलाकुमारी, सपा राजकमल २५०  
 —प्रवेशिका की टीका विश्वभर 'अरुण' विनोद २००  
 —प्रमून भार्गव, वावूलाल मिश्र-वधु २७५  
 —भारती जोपट, हुकमनारायण, सपा ववई हि ०३७  
 —भारती शर्मा, रामगोपाल 'दिनेश' रतन ११२  
 —माला चतुर्वेदी, जगन्नाथप्रसाद इ प्रे १००  
 —माला मिश्र, हरियाकर मोतीलाल १००  
 —मोद तररिणी पालीवाल, हरिदत्त 'निर्भय' शारदा साधना  
 ४२५  
 —रत्नावली नरोत्तमदान, मया रा वेनीप्रसाद १७५  
 —सगह मूरिदेव, रजन कला नि २५०  
 —समुच्चय कामताप्रसाद 'गुरु' इ प्रे १००  
 —समुच्चय की टीका नतराम मिश्र-वधु १००  
 पनघट नुदर्शन वीरा ४००  
 —रहा उदाम शिवकुमार हि प्रचा पु ४००  
 पनाह चौहान, बलराम आदर्श पु भ २५०  
 पनाह भामो तोपिल अशोक प्र गृह  
 पन्ना दाई श्यामनारायण चौधरी २५०  
 पपिहरा कुशवाहा 'कात' चिनगारी ४५०  
 पपीता वेदी, रामेश आत्मागम १२५  
 —उगाइये नवोदय १५०  
 पपीते की नेती कातःपि देहाती १५०  
 पपीहा दोने आर्घो गत गोविदमिह चौधरी २५०  
 पपू के गीत मनोहर प्रभाकर आशा पट्टिन १००  
 पपराग हवीव तनवीर मक्नवा ०६२  
 पप टटे परिदे और नैताव युक्ल, कमल नवनीतम  
 पपन नैनेकुमार पूर्वोदय १७५, — — हि प्र २००  
 —, अश्वयन मिश्र, दुर्गाशकर हि ना भ १५०  
 —हर देवि अग्रवाल, मुनिनादेवी अग्रवाल पु  
 पप गूज गह जानी है नदविशोर प्रसाद भागलपुन टुक  
 २०५  
 पपट्टि आदित्य रशीद स्टार (पा) १००, — — पजावी  
 पु २५

- परतत्र. रघुवीर शरण 'मित्र' भा सा प्र ३००  
 परती की उसास. त्रिपाठी, हीराप्रसाद वेला ४५०  
 —परिकथा. फणीश्वरनाथ 'रेणु' राजकमल ७५०  
 परदेसी कुशवाहा 'कात' चिनगारी ५५०  
 परदेसी रघुवीर पजावी पु ३००, — — स्टार (पा)  
 १००  
 परफ़ूमरी मास्टर दास, जे सी देहाती २५०  
 परमल गुडिया परमार, श्याम वीरा १७५  
 परम शांति का मार्ग गोयदका, जयदयाल गीता १००  
 —सत्य महेशचंद्र सरल सरल २००  
 —साधन गोयदका जयदयाल गीता १००  
 —सुखमय जीवन वसल, रघुवीरशरण. देहाती २५०  
 परमहंस की कथाए पोद्दार, महावीरप्रसाद सस्ता १५०  
 —की कह निया पोद्दार, महावीरप्रसाद सस्ता ०४०  
 परमाणु ऊर्जा और उसके शांतिपूर्ण उपयोग वेद, जराल्ड  
 इ प्रे २००  
 —का रहस्य हेक्ट, सेलिंग इ प्रे ३५०  
 —की कहानी ओमप्रकाश सर्वोदय १५०  
 —की जादूभरी ताकत लैवलेन, जान राजकमल .००  
 —के चमत्कार चतुर्वेदी, जगपति कि महल २००  
 —युग मे हमारा जीवन एस चाद २००  
 —युगीन भौतिकी सेमट, हेनरी आत्माराम ५००  
 —विखडन अग्रवाल, सगमलाल हि प्रचा पु १५०  
 —विखडन कपूर, रमेशचंद्र हि समि ६००  
 —शक्ति गिल, रत्नसिंह नेशनल. १५०  
 —शक्ति श्रीवास्तव, कृष्णाकिशोर रा वेनीप्रसाद १००  
 —शक्ति श्रीवास्तव, भगवतीप्रसाद ज्ञानमडल ३००  
 परमानंद पथ एलेन, जेम्स कल्याणदास ०३७  
 —सागर युक्ल, गोवर्धननाथ भा प्र मंदिर १२००  
 परमार्थ पत्रावली गोयदका, जयदयाल गीता भा १-२  
 ०२५ (प्र), भा. ३-४०५० (प्र)  
 —प्रसंग विरजानंद, स्वामी श्रीरामकृष्ण ३२५  
 परराष्ट्र-नीति राजकुमार हि प्रचा पु ०५०  
 पर लौटा कोई नहीं व्यास, श्यामसुंदर सा सदन, दे ३५०  
 परशुराम की चुनी हुई कहानिया परशुराम शिवलाल ३००  
 —की प्रतिष्ठा रामधारीसिंह 'दिनकर' उदयाचल ३००  
 —श्रेष्ठ गल्प परशुराम राजरजना (पा) १००  
 पराई डाल का पछी अमरकात प्रगतिशील ३७५  
 पराक्रम की कहानिया चौहान, मनहर आर्य टुक १५०  
 पराक्रमी दुर्गादान शर्मा, वेणीमाधव नद व एव नद स  
 ०८८  
 पराजय कृष्णचंदर राजपाल ४५०  
 पराजय फादेयेव, ए पीपुल्स ४००  
 पराजिता कुशवाहा 'कात' चिनगारी २५०  
 पराजिता मित्तल, सुधीर दि पु स २५०  
 पराडकजी और पत्रकारिता व्यास, लक्ष्मीशकर भा  
 जाननीठ ५५०  
 पराधीनता चौधरी ३००

पराया ठाकुर, रवीन्द्रनाथ ज्ञानमडल २५०; — — प्रभात प्र २००, — — भा. प्र मडल २५०  
 पराया रागेय राघव. साहनी ३.००  
 परायी मा नानक सिंह पजाबी पु २२५; — — स्टार (पा) १००  
 पराये बस मे. कुशवाहा, नारायणी चिनगारी. २५०  
 परिदे वर्मा, निर्मल पीपुल्स ३५०  
 परिक्रमा द्विवेदी, शातिप्रिय चौखवा ४.००  
 परिचय विदेशवर दरभगा ०७५  
 परिचर्या और गृह प्रवध टडन, रानी नद. स २५०  
 — प्रणाली सेठ, अचलविहारी. ना प्र सभा १००  
 परिचित निगाहे रामविनायक सिंह प्रचा. पा १००  
 परिणय-गीतिका जैन, रमा... भा. ज्ञानपीठ. ५००  
 परिणीता चट्टोपाध्याय, शरत्चंद्र इ प्रे १५०, — — कि महल १००, — — नवयुग पु. भ. १५०, — — पु भ १.७५, — — प्रभात प्र. २००, — — श्यामलाल १२५, — — हिंद पा १००, — — हिं प्रचा पु १२५  
 परिधि के परे. मिश्र, जगन्नाथप्रसाद. सन्मार्ग ४.००  
 परिभव. गुरुदत्त भा सा सदन ३००  
 परिमल गुरुदत्त स्टार (पा) १००  
 परिमल त्रिपाठी, सूर्यकांत 'निराला' गगा ५००  
 परियो की कहानिया. मनमोहन सरल. . आत्माराम ५००  
 — की दादी त्रिपाठी, रामखिलावन गगा १००  
 — की रानी शर्मा, विनोदशकर रूपसी १.५०  
 परिवर्तन गुरुदत्त. भा सा सदन २५०; — — हिंद पा १००  
 परिवर्तन रत्नकांत आनंद पु, की १.२५  
 परिवर्तन. राजकिशोर सिंह अशोक पु. म १५०  
 परिवर्तन शेषसपियर, विलियम राजपाल २००  
 परिवर्तन सुदर्शन बोरा १२५, — — सरस्व प्रे १००  
 परिवहन का अर्थशास्त्र बोनाविया, एम आर एस. चाद. ६००  
 — के मिहान्त चौहान, शिवध्यानसिंह सगो स सा. भवन, आ ८००  
 — मिहान्त, इतिहास एव समस्याए. यशपाल, डा लक्ष्मी ना ६००  
 परिवार शर्मा, यजदत्त सा प्र ६.००  
 — एक सामाजिक अध्ययन मिश्र, पचानन. ज्ञानपीठ ४००  
 — और समाज विश्वमित्र केदारदास ५५०  
 — के शत्रु द्रसेन सिंह 'भावुक' मनोरमा २२५  
 — तथा बालक श्रीवास्तव, प्रेमप्रकाश... रागा प्र. ५००, ६५०  
 — नियोजन अत्रिदेव हिं प्रचा पु. ३००  
 — नियोजन विनालमणि नारायण. श्यामलाल १००  
 — नियोजन स्टोपन, मेरी राजकमन (पा) १००  
 — नियोजन . क्या, रगे और कैसे ? जिज्ञासा ३००  
 — मे परमाणु फरमी, लारा एस चाद. ३.७५

परिवार, व्यक्तिगत सपत्ति और राजसत्ता की उत्पत्ति. एगोल्स, फ्रेडरिक पीपुल्स २००  
 परिवेश हम तुम कुवरनारायण. भा भ ३००  
 परिव्यय लेखा. अवधेशकुमार सशो स २ आगरा बुक ३.७५  
 — लेखाकन अग्रवाल, एम एल सा. भवन, आ ६८७  
 परिव्राजक (मेरी भ्रमण-कहानी). विवेकानंद, स्वामी. स ५ श्रीरामकृष्ण १.५०  
 — की प्रजा द्विवेदी, शातिप्रिय इ प्रे ३.५०  
 परिपद निव्रधावली. वर्मा, धीरेन्द्र, सपा स ३. रा वनीप्रसाद. २००  
 परिस्तान ग्रिम्स राजकमल  
 परिहार प्रकाश 'भारती' भा सा सदन ४.००  
 परीक्षा रघुवीरगरण 'मिश्र' भा सा. प्र २००  
 परीक्षा श्रीकृष्ण शकुन १२५  
 — की घडी शाह, शभूप्रसाद सस्ता ०७५  
 — गुरु श्रीनिवासदास जान प्र ६.२५  
 — नाटक. शर्मा, मुरारिलाल .. रा. वनीप्रसाद ०७५  
 परी देश की सैर श्रीनार्थसिंह, ठाकुर रामलोचन (पा) १००  
 परेड-ग्राउड हमराज 'रहवर' आत्माराम १५०  
 परेशान होना छोड़िए, जीना शुरू कीजिए. चाद मोहम्मद. आधुनिक सा १८८  
 पगेपकारी हातिम जहूरबख्श गगा १५०  
 परोल पर गौड, वृजेद्र स २ राष्ट्रीय प्र मंदिर ३.००  
 पर्णकुटी सकसेना, शभूदयाल. नवयुग प्र कु. ०.७५  
 पर्णा पत, गोविंदवल्लभ आत्माराम ४००  
 पर्दा उठने से पहले शर्मा, राजेन्द्रकुमार आत्माराम २.५०  
 — उठाओ पर्दा गिराओ उपेन्द्रनाथ 'अष्क' नीलाभ. ३७५  
 — वनाम वे पर्दा नाहर छात्रहितकारी. १००  
 पर्दे की रानी जोशी, इलाचंद्र भा भ ३००  
 — के आर-पार मुशी, कन्हैयालाल माणिकलाल नवयुग प्र. २.५०  
 — के खेल सत, गोकुलचंद्र. ओरिएटल ०.७५  
 — के पीछे. भट्ट, उदयशंकर आत्माराम ३.००  
 — के पीछे. वर्मा, विनोदाकर चिनगारी १५०  
 — के पीछे. साह, किशोर कि महान. ६००  
 पर्याप्त उत्तम खाद्य आत्माराम १७५  
 पर्वत की सैर रत्ननाथ 'मरगार' मरग्व प्रे ३००  
 पर्वतो की रानी मन्मूगी जैन, दिग्दर्शनचरण ज्ञान प्र २.००  
 — के आचल मे फाजे, ओनिवर ना पजाबी पु २.००  
 पलग. उपेन्द्रनाथ 'अष्क' नीलाभ ३७५  
 पलको की टाल. जैन, आनंदप्रकाश राजपाल ५.००  
 — के मोती नच्चिदानंद सिंह अभिज्ञान. ३.५०  
 पलाश देवी, रामेन आत्माराम १२५  
 — वन. वर्मा. नरेद्र भा भ ०००  
 पलासी का युद्ध. गुप्त, मंथिनीचरण अनु. ना. मदन, चि ३.००  
 — का युद्ध. चट्टोपाध्याय, तपनमोहन. ना. ज्ञानपीठ. ३.५०

- पनामी का युद्ध युक्ल, गिरिधर आदर्श हि ५००  
 पानव पन, मुमित्रानदन राजकमल  
 पन्नविनी पत, मुमित्रानदन भा भ ५००, —  
 राजकमल १०००  
 पानजय श्रीरामनाथ 'दिनकर' एजूकेशनल पब्लि २००  
 पवहारी वादा विवेकानंद, स्वामी स ३ श्रीरामकृष्ण ०६०  
 पवित्र पर्व उपाध्याय, अयोध्यासिंह 'हरिऔध' रा वेनीमाधव  
 ०६२  
 —पापी नानकर्मिह प्रचा पा १००  
 पशु गोपीनाथन नाथर वानुदेव १८०  
 —अभिजनन एव मुधार राणा, धर्मसिंह अजता १०००  
 पशुयो का अनुभूत इलाज तिवारी श्रीरग ज्ञानपीठ १५०  
 —का इलाज गुप्त, परमेश्वरीप्रसाद सस्ता ०७५  
 —का इलाज गुप्त, अमोलचंद्र देहाती ६००  
 —का घरेलू तथा डॉक्टरी इलाज अमोलचंद्र देहाती ६००  
 —का चारा दाना और उसे खिलाने की रीति सर्वोदय  
 १५०  
 —की देख भाल गोपाल माहनी ०५०  
 —की लोक-कथाए शेखर, शिवशंकरलाल आत्माराम १५०  
 —के साधारण रोग सर्वोदय १५०  
 —को रक्थ रक्तने के उपाय सर्वोदय १५०  
 —में छूत की विमारिया और उनका इलाज. सर्वोदय. १५०  
 पशु और मानव हम्मले, अल्डुअम रणजीत ३५०  
 —की परपरा सत्यमाची भा सा सदन, ४००, (पा)  
 १००  
 —की प्राथमिक चिकित्सा सर्वोदय १५०  
 —चिकित्सा ज्यामलाल २५०  
 —जगन् के कृच्छ्र चमत्कार भरतिया, कातिकिगोर  
 राजकिगोर १००  
 —जीवन का मानवीय रूप सत्यनारायण प्रसाद कि महल  
 ०००  
 —पदियों की कहानिया धानी, योगराज आर्य बुक एव  
 आना प्र १५०  
 —पदियों की कहानी जैन, श्रीचंद्र राष्ट्रीय प्र मंदिर २००  
 —पदियों की शिक्षाप्रद कहानिया मेहरोत्रा, रामभूति सा  
 भदन, ७ १.५०  
 —पक्षी और प्रकृति की वाते शिवमूर्तिमिह 'वत्म' रामा प्र  
 १५०  
 —पक्षी मन्धी तोर-कथाए मनीश आत्माराम १२५  
 —परिचय पाडेय, कमलानान नद व्र ०६२  
 —पावन आखान, ए मी दाम ५००  
 —पावन भट्टे . रामप्रसाद ५००  
 —पावन और चिकित्सा जगदेव सिंह 'देव' न. ५ राष्ट्रीय  
 प्र मंदिर ०६२  
 —पावन घौन चिकित्सा हरिदान 'सहयोगी'. नद व्र. एव  
 नद न ०२५  
 —पावन विज्ञान आदर्श पु म १२५  
 —पक्षा गोपाल माहनी ०.५०

- पशु रोग अनंत, अ अ देहाती ५००  
 —लोक सन्सेना, वीरेद्रकुमार नवयुग ग्र कु  
 —लोक में पाच वर्ष पारनेरकर, य म अ भा सर्व १००  
 —से मानव श्रीवास्तव, उमाशंकर रामप्रसाद १००  
 पश्चाताप अवस्थी, जगमोहन नाथ न्यू लिट ०७५  
 पश्चाताप द्विवेदी, देवनारायण ज्ञानमंडल ४२५  
 पश्चिम की चुनी हुई कहानिया भट्टाचार्य, धनजय, अनु इ  
 प्रे ०६२  
 —भारत की लोक-कथाए प्र विभाग ०७५  
 पश्चिमी अवध की लोक-कथाए राजेद्रकुमार २ भा आत्माराम.  
 १२५ (प्र)  
 —घाटो की रानी, महाबलेश्वर व्यास, कृष्णशंकर. हि अ र  
 ३००  
 —दर्शन दीवानचंद हि समि ४००  
 पश्चिमीय आचार-विचार का आलोचनात्मक अध्ययन शर्मा,  
 ईश्वरचंद्र राजपाल १०००  
 पश्चिमी यूरोप पाडेय, छवीनाथ, अनु भा १ स २.  
 ज्ञानमंडल ५००  
 —शिक्षा का इतिहास जायसवाल, सीताराम नद व्र एव  
 नद स ७५०  
 पसीना बोलता है रामगोपाल परदेसी, सपा प्रगति प्र  
 पहला कहानीकार विद्यार्थी, रामप्रसाद 'रावी' भा ज्ञानपीठ  
 २५०  
 —नास्तिक चंद्रगुप्त विद्यालकार. राजपाल. ३००  
 —पाठ साहनी, भीष्म साहनी २५०  
 —प्यार तुर्गनेव हिंद पा १००  
 —प्रेम खाडेकर, वि स देशमुख ४५०  
 —राजा पहला किसान भा, सदानंद ज्ञानपीठ ०५७  
 —वर्ष शर्मा, यज्ञदत्त पजावी पु २५०, — स्टार (पा)  
 १००  
 —शिकार राजकमल १००  
 —मुख निरोगी काया विष्णु प्रभाकर सस्ता ०५०  
 पहली अश्विराम उडान चोरा २००  
 —रोटी वर्मा, आशाराम अ भा सर्व ०२५  
 —लडकी राजदान शमा २६५  
 —हार रघुवीरगरण 'मित्र' भा सा प्र ५००  
 पहाड की पुकार सिन्हा, योगेन्द्रनाथ अशोक प्रे २००  
 —के फूल देसाई, रमणलाल वमतलाल चोरा ३५०  
 पहाडियों की शरण में स्यामुश्किन, तीखोन पीपुल्स ३.००  
 पहाडी की कहानिया धिल्डियाल, रमाप्रसाद 'पहाडी'.  
 प्रकाशगृह  
 —की श्रेष्ठ कहानिया धिल्डियाल, रमाप्रसाद 'पहाडी',  
 राजकमल (पा) १००  
 —पहाडिया अनन्यान, वस्ताग पीपुल्स ०५०  
 —प्रदेश की कहानिया मत्तराम राजकमल २००  
 —लोकगीत शर्मा, दुनीचंद युनिवर्सिटी ३००  
 पहाडों का चोर डे, सतीश देहाती १२५  
 —की बेटी लुकनित्की, पा पीपुल्स ३१२

पहिए द्वारकाप्रसाद अभिज्ञान  
 पहिये ठाकुरप्रसाद सिंह कल्याणदास ०५०  
 पहिये की धुरी मिश्र, केदारनाथ 'प्रभात' राष्ट्रीय प्र मडल  
 एव राष्ट्रीय सा स २७५  
 पहिला नवर ठाकुर, रवीन्द्रनाथ प्रभात प्र २००  
 पहेली बुभौवल जहूरवख्श मिश्र-बधु १००  
 पाच एकाकी गर्ग . विनोद १००  
 —एकाकी चद्रप्रकाश सिंह, कुवर रणजीत १७५  
 —एकाकी चतुरसेन, आचार्य प्रभान प्र. २५०  
 —एकाकी नाटक राजेश्वर गुरु एस चाद १२५  
 —कहानिया पत, सुमित्रानदन भा भ १५०  
 —गधे रागेय राघव राजपाल ३००  
 —घडे मोती शर्मा, राजेद्र. नेशनल २५०  
 पाचजन्य वर्मा, रामकुमार एस चाद २५०  
 पाच फूल प्रेमचद हस १००  
 —बडे कश्यप, वीरेद्र नवयुग प्र २००  
 —वेत विद्यार्थी, देवदूत... आत्माराम ५००  
 —राष्ट्रीय एकाकी तेलग, शिवरत्न तुलसी १.२५  
 —लवी कहानिया मोहन राकेश राजकमल (पा) १००  
 —सदस्य ठाकुर, रवीन्द्रनाथ कल्याणदास २५०  
 ५०० स्वाइया अब्बासी, नूर नवी अशोक पा १००  
 पाचाली द्रौपदी भट्ट, नानाभाई हि प्र म ०७५  
 पाचो घी मे. गुप्त, विंध्याचलप्रसाद सुभाष २५०  
 पाडवप्रिया पाचाली. गुप्ता, विमला. भा सा सदन. (पा)  
 १००  
 पाडुलिपिया (हिंदी संग्राहलय की हस्तलिखित पुस्तको का  
 विवरणात्मक परिचय) हि सा सम्मे १२.००  
 पाव पडे की जीत भगवानदीन, महात्मा अ भा सर्व ०६०  
 पाइय नगीबिन, यूरी पीपुल्स ०२५  
 पाक कला वर्मा, एस आर. आर्य बुक २.००  
 —दामन कौशल, रामकृष्ण कुमार सन्ज २.७५  
 —प्रवेशिका. प्रयाग ०६०  
 —भारती गुप्त, मिथिलेशकुमारी भाग्योदय २५०  
 —भारती शुक्ल, अमोलचद्र देहाती ६००  
 —विज्ञान ठाकुर, ज्योतिर्मयी सा भवन, इ. ४००  
 —विद्या शर्मा, मणिराम रा वेनीमाधव १००  
 —विनोद. प्रयाग २००  
 —शास्त्र-विधि विश्वकर्मा, रामदुलारी राष्ट्र प्र म. २००  
 पाकिट इडस्ट्रियल फार्मूला बुक कालीचरण. देहाती १.२५  
 पाकिस्तान दि लायन्नेरी ०६२  
 पाकिस्तान राजकुमार हि प्रचा पु ०५०  
 पाकिस्तान शकुतला देवी राजकमल. २००  
 —का आर्थिक भूगोल सक्सेना, अमरनाथ आशा पब्लि.  
 २२५  
 —की शायरी माथुर, गिरीश, सपा राजकमल ३५०;  
 (पा.) १००  
 —मे पलटनी शासन लोहिया, राममनोहर नवहिंद ०५०  
 पाखड खडनी देहाती ०.७५

पाखडी धवन, देवीप्रसाद 'विमल' हिंद पा १.००  
 पागल कुशवाहा 'कात' चौधरी ३००  
 पागल. खलील जिब्रान सहगल १५०  
 पागल. जाफरी, रईस अहमद शमा ६००  
 —कौन ? रणवीर सहगल ४००  
 पाजामे की कहानी. सिगविग लोकप्रिय १००  
 पाटण की प्रभुता. मुन्शी, कन्हैयालाल माणिकलाल. कि. महल.  
 ४००  
 पाटन का प्रभुत्व मुशी, कन्हैयालाल माणिकलाल. हि. ग्र. र  
 ४००  
 पाटलीपुत्र बाजपेयी, वेनीप्रसाद 'मजुल' छात्रहितकारी.  
 २००  
 —की कथा. सत्यकेतु विद्यालकार. हिंदु एकेडेमी १०.००  
 पाटिलपुत्र भारद्वाज, लक्ष्मणप्रसाद सस्ता ०४०  
 पाठन विधि प्रश्नोत्तर नद ब्र ५००  
 पाठ योजनाग्रो की रचना भा, शभूनाथ गर्ग ब्र. ३००  
 पाठगालाग्रो का प्रवध व्यास, जे पी लक्ष्मी ना. ४.००  
 पाठशाला प्रवध देव, वीरेनचद्र साधना म १.२५  
 —प्रवध बालकृष्ण . हि सा स ३.००  
 —प्रवध भारद्वाज, दिनेशचद्र. सशो स २ विनोद ३.५०  
 —प्रवध सहगल, मनमोहन . दि पु. स ६००  
 —प्रवध एव सामुदायिक जीवन का पिद्धात सिद्धेश्वर सिंह  
 मगध. २५०  
 —प्रवध एव स्वास्थ्य चौधरी, रामखेलावन. स २. हि. सा. भ.  
 २५०  
 —प्रवध और स्वास्थ्य चतुर्वेदी, सीताराम. नद ब्र ४२५  
 — —नद. स ३२५  
 —प्रवध, सामुदायिक संगठन तथा स्वास्थ्य शिक्षा निरजन-  
 कुमार रा वेनीमाधव २००  
 पाठ-सपादन के सिद्धात. कन्हैयासिंह. महामना. १२.००  
 पाणिग्रहण गुरुदत्त भा सा सदन ६.००, — —स्टार.  
 (पा) २००  
 पाणिनि कालीन भारतवर्ष अग्रवाल, वासुदेवशरण. चौखवा  
 १५००  
 पाणिनीय नाटकम्. गोपाल शास्त्री 'दर्शन केसरी'. चौखवा.  
 २००  
 पातजल योगदर्शन गीता ०.७५  
 —योगदर्शन विज्ञानश्रम, स्वामी, अनु. भा. प्राच्य. ५.००  
 —योग-प्रदीप ओमानद, स्वामी गीता ६००  
 —योग-दर्शन दर्शनानन्द, स्वामी प्रभात प्र ६५०  
 —योग दर्शन विवेक विद्यानन्द सरस्वती साधन १३७  
 पाताल नगरी. कृश्नचदर हि ग्र. र. १५०  
 पाथेय गुप्त, सियारामशरण सा सदन, चि. २.००  
 पाथेय मिश्र, दयागकर राजहस ३.५०  
 पादप रसायन शास्त्र रणवीर सिंह .. एशियन.  
 पान की दुकान. सहगल, चद्रभान. देहाती. २५०  
 —फूल मार्कडेय नया सा प्र ३.००; — —नवहिंद २५०  
 पानी. केशवसागर. राजपाल. १.२५

- पानी विमलचंद्र राजकमल २००  
 — श्री-हमारा जीवन व्यथितहृदय शिक्षण १६०  
 — ज्य घेरा मिश्र, गिवगकर प्रभात पब्लि ०६०  
 — का पेह कृष्णचंद्र नेशनल ३००  
 — का पैसा त्रिपाठी, भवानीभीख दिव्य' हि भवन ०७५  
 — की दीवार पनिकर, रजनी राजहस ३००  
 — के प्राचीर मिश्र, गमदरश हि. प्रचा पु ५००  
 — दो अनाज लो सर्वोदय १५०  
 — पाडे पाडेय, कातानाय 'चोच' चौधरी २५०  
 — त्रोला तिवारी, रामचंद्र आत्माराम २५०  
 पाप गीट, पुरुषोत्तमदास 'कमल' पुष्पी १२५, — —  
 नुरेंद्र २५०  
 — श्रीर प्रकाश टालस्टाय पूर्वोदय २५०  
 — श्रीर प्रकाश धवन, देवीप्रसाद 'विकल' सा प्र २५०  
 — श्रीर विज्ञान कार्टर, डायमन पीपुल्स ३५०  
 — का पुण्य विद्यार्थी, रामप्रसाद 'रावी' वीरा १७५  
 — का प्रतिकार कॉरैली, मेरी गंगा ४५०  
 — की ओर श्रीवास्तव, प्रतापनारायण गंगा ३००  
 — की गली मेनरस डोरिन आत्माराम ३००  
 — की छाया चतुर्वेदी, सीताराम अ भा विक्रम १००  
 — की छाया रमेशचंद्र 'प्रेम' कि महल २५०  
 — के परे अवन्यी, राजेद्र 'तृणित' राजपाल २५०  
 — के रान्ते सोमनाथ 'अकेला' पुष्पी १००  
 पापउ इल्ले पी पी जगदीश गाजियावादी देहाती १२५  
 पाप हन पडा श्यामचंद्र आदर्श पु म १००  
 पापी पथिक चौधरी ३००  
 पापुनर डिव्यनरी इगलिश-हिंदी ड प्रे ४५०  
 पायल जमनादाम 'अ-नर' सहगल ४००  
 पायल प्यारेलाल 'आवारा' चौधरी ८००  
 — की भुकार चौहान चानक अग्रवाल प्रि ०७५  
 — माजते रहे गोविंदसिंह आदर्श पु म २५०  
 — राजे छम-छम गोविंदसिंह गुल्लुप्रसाद ३५०  
 पार उतारि कह जइही द्विवेदी, प्रभाकर भा जानपीठ  
 ३००  
 पारमाणविक विभीषिका विन्कमादित्य सिंह अ भा नर्व  
 ०५०  
 पारम दुग्गवाहा 'कात' चिनगारी ४००  
 पारम मुदर्शन राजपाल १००  
 पारमी पन्चिय पाठक, टपानागधरण ड. प्रे ०७५  
 पाणि जराग्य ना भवन, इ ३००  
 पारिज्ञान उपध्याय, अयोध्यासिंह हरिप्रौष' हि सा कु  
 ५००  
 — हररा टपानदन पीयूष ना प्र २५०  
 पारिभाषिक मन्त्रकोश श्रीवास्तव, मुकुदीनाल, नपा ज्ञानमडल  
 ४००  
 पारिवारिक ज्ञानिया पन्गुनाम. श्री भा भारती २००  
 — जगन्नाथ वर्मा, माविदीदेवी आत्माराम ७५०  
 — जगन्नाथ. तीमर दत्तवधु १२५०

- पारिवारिक समाजशास्त्र त्रिपाठी कि महल ४५०  
 पार्लमेटरी सरकार राय, विश्वनाथ आदर्श पु भ ४००  
 पार्वती भट्ट, उदयशकर स २ हि भवन १२५  
 — तपस्या रसाल गर्ग ब्र १५०  
 — मगल तुलसीदाम गुप्त, माताप्रसाद, सपा हि सा. सम्मे  
 ०५०  
 — मगल तुलसीदास शर्मा, वामदेव, टीका रा वेनीप्रसाद  
 ०३१  
 पालकी अनिलकुमार दि पु स १५०  
 पालतू जानवर चतुर्वेदी, जगपति छात्रहितकारी १००  
 — पशु दि लायब्रेरी ०६२  
 — पशु पाडेय, कमलाकात नद ब्र एव नद स ०६२  
 पालना सकसेना, शभूदयाल नवयुग ग्र कु ०६३  
 पालि-कथा-प्रकाश नरेन्द्रदेव सिंह शास्त्री विनोद ३००  
 — महा व्याकरण कश्यप, जगदीश मोतीलाल १०००  
 पा लिये है पालीवाल, हरिदत्त 'निर्भय' शारदा साधना  
 २५०  
 पालि व्याकरण धर्मरक्षित, भिक्षु ज्ञानमडल २२५  
 — साहित्य और समीक्षा शर्मा सरनामसिंह 'अरुण'. हि  
 सा स ३१२  
 — साहित्य का इतिहास उपाध्याय, भरतसिंह हि सा सम्मे  
 १०००  
 — साहित्य का इतिहास राजकिशोर सिंह विनोद २५०  
 पाली जतवतसिंह कवल सा सगम, लु ३७५ ?  
 — प्रबोध ठाकुर, आद्यादत्त गंगा २५०  
 पावन प्रसंग मूदडा, मृदुला अ भा सर्व ०५०  
 — स्मृतिया पाडेय, गणेश छात्रहितकारी ०५०  
 पाव भर आटा वियोगी हरि सस्ता ०४०  
 पावरलूम गाइड गिरि, वनजीत देहाती ५००  
 पाश्चात्य आगमन तर्कशास्त्र भा मोतीलाल ५००  
 — आलोचना की अर्वाचीन प्रवृत्तिया राजकमल ३००  
 — काव्य शास्त्र की परास नगेद्र दि विश्व १०००  
 — काव्य समीक्षा शर्मा, ब्रजभूषण अशोक प्र ३००  
 — काव्य-सिद्धांत भाटी, देशराजसिंह हि सा स ४००  
 — तत्त्व विज्ञान परिचय वर्मा, अगोककुमार पु भ ३००  
 — तर्कशास्त्र कश्यप, जगदीश काशी हिंदू भा १६००,  
 भा २५५०  
 — दर्शन (वेकन से काट) पु भ ४००  
 — दर्शन शर्मा, चंद्रधर नद ब्र एव नद स ५००  
 — दर्शन का इतिहास दत्त बुकलेंड ४००  
 — दर्शन का संक्षिप्त परिचय मालवीय, उमेश्वरप्रसाद रा  
 वेनीमाधव २७५  
 — दर्शन का सरल अव्ययन (प्रश्नोत्तर). तिवारी, ब्रजगोपाल  
 पु भ, आ ४००  
 — दर्शन की रूपरेखा जयदेव सिंह रामप्रसाद ६२५  
 — दर्शन की नमीदात्मक व्याख्या मनीह स २ मोतीलाल  
 ६२५  
 — दर्शन-दर्पण कपूर, ओ वी. एल रतन. ५५०

- पाश्चात्य दर्शनो का इतिहास गुलाबराय. ना. प्र. सभा ४.००  
 —द्रव्य गुण विज्ञान रामसुशील सिंह भा. २ मोतीलाल ३०.००  
 —निगमन तर्कशास्त्र भा. ए मोतीलाल ५.००  
 —राजदर्शन का इतिहास गुप्ता कि महल ११.०० (अप्रा)  
 —राजनीतिक विचारो का इतिहास वर्मा, कन्हैयालाल २ भा नद ब्र एव नद स. १०.०० (प्र)  
 —राजनैतिक चिंतन का इतिहास हरिदत्त वेदालकार. सरस्व स १०.००  
 —शिक्षा का इतिहास. चौबे, सरयूप्रसाद लक्ष्मी ना १०.००  
 —शिक्षा का इतिहास मुनेश्वरप्रसाद दि पु स ६.५०  
 —शिक्षा का इतिहास (प्रश्नोत्तर). शर्मा, सी. पी मालवीय ४.८७  
 —शिक्षा-शास्त्री दीक्षित, ब्रह्मदन. सर्वोदय सा २.००  
 —संगीत शिक्षा शर्मा, भगवतशरण संगीत  
 —समीक्षा-सिद्धांत शुक्ल, केसरीनारायण नद स ३.००  
 —साहित्य शास्त्र पाडेय, जगदीश अर्चना प्र, आ.  
 —साहित्यालोचन और हिंदी पर उसका प्रभाव. वर्मा, रवींद्र-सहाय विश्वविद्यालय ५.००  
 —साहित्यालोचन के सिद्धांत गुप्त, लीलाधर. हिंदु एकेडेमी ६.००  
 पार्श्वनाथ का चातुर्यामि धर्म कौशाबी, धर्मानंद. हिं. ग्रं र १.२५  
 पाषाणकथा वद्योपाध्याय, राखालदास. ना. प्र. सभा. ३.००  
 पाषाण और पछी श्यामनदन विश्वेश्वरानंद. १.२५  
 —कन्या. चौधरी १.५०  
 —नगरी मिश्र, जगदीशचंद्र त्रिवेणी २.००  
 —पख नानकसिंह. प्रचा. पा १.००  
 पाषाणी तनेजा, कमल नव सा प्र २.५०  
 पाषाणी. धीरेद्र. नव सा प्र ५.००  
 पाषाणी प्यारेलाल 'आवारा' रूपसी ३.००  
 पिगल पीयूष परमानंद ओरिएटल २.७५  
 —सग्रह विश्वनाथ प्रसाद, नपा क मु हि पिंजडे का पछी कामताप्रसाद सिंह 'काम' पारिजात. २.५०  
 —की उडान यशपाल विप्लव ३.५०  
 पिजरा उपेद्रनाथ 'अश्क' नीलाभ ३.५०  
 —और पछी चौधरी, रामखेलावन हि सा भ. ३.००  
 पिजरापोल शर्मा, हरिश्चकर गयाप्रसाद २.५०  
 पिजरे का पछी सोमनाथ 'अकेला' सुभाष २.७५  
 पिंडारी, ठग और डाकू घनश्यामनारायण सिंह राजकमल (पा) १.००  
 पिकिनिक मे सूरदास शर्मा, शिवकुमार 'शैल' साहित्यवाणी १.००  
 पिछली रात की बर्फ मेहता, नरेश हि ग्रं र ४.००  
 पिता और पुत्र तुर्गनेव, इवान पीपुल्स १.८७  
 —की खोज मे गुप्तवधु सर्व-सुलभ  
 —की सीख गीता ०.३७

- पिता के उपदेश. गोयलीय, दयाचंद हिं ग्रं र ०.१६  
 —पुत्र तुर्गनेव प्रभात प्र ४.००  
 पितामह भीष्म भट्ट, नानाभाई हिं प्र म ०.७५  
 पितृकर्म पद्धति विशालमणि नारायण श्यामलाल ४.००  
 पिथौरा की पत्नी श्रीकृष्ण 'मायूस' राज पट्टिल ३.५०  
 पिनकी परिहास. अरुण आत्माराम १.२५  
 पिया मित्रा, उषादेवी. नेशनल ४.५०, — —सरस्व प्रे ३.००  
 —आनके लुभाय गयो त्रिवेदी, रश्मिकांत सांस्कृतिक ५.००  
 —बसे परदेस त्रिवेदी, रश्मिकांत सांस्कृतिक  
 पियावासा के गुण तथा उपयोग रामनारायण देहाती १.२५  
 पिया मिलन की वावरी त्रिवेदी, रश्मिकांत सांस्कृतिक ५.००  
 पिल्ला काका हाथरसी संगीत २.००  
 पिशाच की प्यास स्टोकर, ब्रैन मित्र ५.००  
 पी कहा साथ मे हुश्नु रतननाथ 'सरशार' सरस्व प्रे. ३.००  
 पीडा. चक्रवर्ती, क दक्षिणायन २.००  
 पीडारहित प्रसव वर्मा, सावित्रीदेवी प्रचा पा. १.००  
 पीडाहीन प्रसव. फिर्गुनोव, के पीपुल्स ०.७५  
 पीताबर का खून सूर्या कमलानी कि महल. १.००  
 पीपल बेदी, रमेश, आत्माराम. १.२५  
 —की परी नागर, अमृतलाल सध्या. २.५०  
 —के गुण तथा उपयोग दीक्षित, रामसनेही. देहाती ०.७५  
 —के पत्ते गुप्त, विध्याचलप्रसाद ज्ञानपीठ ०.७५  
 पीपलनाथ और मिर्चा गुप्त, विध्याचलप्रसाद ग्रथ भ ०.५०  
 पीया चाहे प्रेमरस शर्मा, रामानंद कन्याकुमारी  
 पीरअली लक्ष्मीनारायण पीपुल्स १.२५  
 पीर पराई रामध्यान सिंह 'रौद्र' कन्हैयालाल ३.००  
 पीली कोठी प्यारेलाल 'आवारा'. चौधरी ३.५०  
 —बत्तक राजकमल १.००  
 पीले गुलाब की आत्मा. विश्वभर 'मानव' भा ज्ञानपीठ ४.००  
 —राक्षस गोविंदसिंह कन्हैयालाल ५.००  
 —हाथ जैन, यादवचंद्र अशोक पा १.२५  
 —हाथ वर्मा, वृंदावनलाल मयूर ०.७५  
 पुखराज ज्वालाप्रसाद 'वेशर' चिनगारी. ४.००  
 पुजारिन. मिश्र, वीरेद्रकुमार 'मोहन' मानसरोवर सा १.००  
 पुजारी नानकसिंह राजपाल ४.००  
 पुजारी शर्मा, जगदीश देहाती १.२५  
 पुजारी जी का व्याह प्र विभाग १.००  
 पुण्य की जड हरी आदर्शकुमारी सस्ता १.५०  
 —पर्व गुप्त, सियारामशरण सा सदन, चि १.५०  
 —भूमि देव, एस डी विद्या प्र भवन २.५०  
 —स्मृतिया गाधी, मोहनदास करमचंद छात्रहितकारी १.००  
 पुतली गोविंदसिंह सुभाष २.५०  
 पुतलीघर वरेरकर, मामा सा सदन, दे १.००  
 पुनरावृत्ति. तिवारी, हंसकुमार ज्ञानपीठ १.७५  
 पुनरुद्धार सच्चरवाल, कचललता आत्माराम ३.५०  
 पुनर्जन्म. दुबे, हरिदत्त. इ. प्रे. ३.००

पुनर्जीवन टाल्टाय स. २ जानमडल ६५०, — — प्रभात प्र १०००

पुनर्जीवन शर्मा, दुर्गादत्त वमल २५०

पुनर्मिलन नानकसिंह हिंद पा १००

पुनर्मिलन वरेरकर, मामा विद्या प्र म ४५०

पुनर्मिलन विद्यावती 'कोकिल' श्रीअरविंद १७५

पुनर्मिलन शर्मा, रामानंद कन्याकुमारी ४५०

पुरंदर दास रामचंद्र राव, एम के सस्ता १५०

पुरदग्दास के भजन अ भा सर्व ३००

—के भजन कुमठेकर सस्ता ३५०

पुरखो का चरित जयचंद्र विद्यालकार हिं भवन पहली

पोथी २००, दूसरी पोथी १५०, तीसरी पोथी १५०

—की कहानी नाहर कि महल १५०

—के दर्शन योगेन्द्रकुमार 'लल्ला' आत्माराम १००

पुरवैया के नूपुर देवराज 'दिनेश' आत्माराम ४००

पुरस्कार गुप्ता, किरणकुमारी विनोद १५०

—तथा अन्य कहानिया पाठक, वाचस्पति मोतीलाल ३००

पुराण कथा कौमुदी रघुनाथदत्त नेशनल १०००

—की कथाये भा भ १००

—विषय ममनुद्रमणिका टडन, यशपाल विश्वेश्वरानंद ६००

—विषयनुकमणी पाडेय, राजवली भा १ काशी हिंदू १५००

—मार-सगह दामनदि, आचार्य २ भा भा जानपीठ ४००

पुराणों की अमर कहानिया रामप्रताप शास्त्री ४ भा सा भवन, इ २५० (प्र)

—की कहानिया राजबहादुर सिंह आत्माराम २००

—मे गगा. त्रिपाठी, रामप्रताप, नग्रा तथा अनु हिं सा. सम्मे ३५०

पुरातत्व निवधावली राहुल साकत्यायन इ प्रे २७५

—कि महल ६००

—परिचय गुप्त, परमेश्वरीलाल कि महल १५०

—प्रसंग द्विवेदी, महावीरप्रसाद सा सदन, चि १००

—विज्ञान पुरी, वैजनाथ कि महल २५०

पुरातन काव्य लहरी नाथुराम श्री भा भारती २२५

पुराना नौकर रामपाल सिंह मोतीलाल २००

पुरानी दुनिया कामताप्रसाद सिंह 'काम' पारिजात २२५

—श्रीमार्गिया. मिश्र, मरुस्वतीप्रसाद मेडिकल ४५०

—मिट्टी नये टाचे मेहदीरता, वीरेन्द्र नीलाभ ३२५

—गास्थानी नामवर सिंह, अनु ना प्र नभा ४००

—द्विदी शर्मा, चंद्रधर 'तुलेरी' ना प्र नभा ३००

पुराणे मानस्य, हर्षदेव एन चाद ०५०

—प नये नोग टागुरप्रसाद सिंह न २ राष्ट्रीय प्र मंदिर ४००

—बोन नरे मोन त्रिवेदी, राजिनाथ ग्रामभारती १५०

—रामो नरे मोट. टडन, लक्ष्मीनाथगर्ग 'प्रेमी प्रेमी प्र एव हिं ना भ ५००

—रामो, नए मोट. सत्यप्रकाश 'मिलिद' दान ०५६

पुराने रोगो की गृह चिकित्सा मुखर्जी, कुलरंजन आरोग्य —समय के यात्री रामलोचनगरण पु भ ०५० [४००

पुरावृत्त इ प्रे १२५

पुरु और एलेकजेडर हरिश्चंद्र इ प्रे १.००

पुरुदेवचपू मदहंदास भा जानपीठ ०७५

पुरुष और नारी राधिकारमणप्रसाद सिंह, राजा अशोक प्रे ४००

—गुप्त रोग चिकित्सा ऋषिकुमार देहाती १२५

—युक्त शर्मा, सूर्यदेव आर्य सा ०३१

पुरुषसिंह तथा अन्य कहानिया ओभा, प्रफुल्लचंद 'मुवत' ग्रथमाला ०७५

पुरुषार्थ भगवानदास सस्ता ६००

पुरुषार्थ वर्मा, जगमोहन ना प्र सभा ३००

पुरुषार्थ शर्मा, गगाधर हिं पु ए १५०

—के बोलते चित्र श्रीवास्तव, हिमाशु राष्ट्रीय प्र मडल एव राष्ट्रीय सा स ३२५

पुर्खों की कथाए शर्मा, रामकृष्ण सा प्र १५०

पुर्णिया शास्त्रार्थ चौधरी, जे पी चौधरी १५०

पुल हेमिगवे, अर्नेस्ट राजपाल ६००

पुलकावली बद्रीनाथ आत्माराम २००

पुलिस राजकुमार हिं प्रचा पु ४००

—वृत्तात माला लहरी ०७५

पुष्कर शर्मा, लोकेन्द्र सस्ता ०४०

पुष्करिणी वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद 'अज्ञेय', सपा सा सदन, चि सपूर्ण १२००, भा २ ४००

पुष्पनगर आदर्श कल्याणदास ५००

पुष्प-पराग (सटीक) टेकचंद शास्त्री श्री भा भारती ३५०

पुष्पलता सुदर्शन वीरा २५०

पुष्प-विज्ञान हिं सा कु १२५

पुष्पाजलि राजपाल १००

पुष्पाजलि भोसले, फणसीकर... ववई हिं ०६२

पुष्पा कशीदाकारी पुष्पादेवी देहाती १२५

—घरेलू मखमली कढ़ाई पुष्पारानी २ भा देहाती ३०० (प्र)

पुष्पिता की प्रामाणिक टीका त्रिवेदी रीगल ४५०

पुष्पोद्योन जोशी, अकरराव गगा १००, — —सस्ता ३००

पुष्यमित्र गुरुदत्त भा सा सदन ३७५, (पा) १५०

पुष्यमित्र मिश्रवधु गगा ५००

पुस्तक कला दर्शन कादरी, मुहम्मद असगरअली ३ भा कि महल ०७५ (प्र)

पुस्तक चुनाव सिद्धांत और विधि तिवारी, भास्करनाथ हिं प्रचा पु ४००

—जनता का मेवक भटनागर, कणादऋषि आत्माराम २००

—प्रकाशन अनविन, मर न्टेनले जानमडल मक्षिप्त अनु ६००

—वर्गीकरण कला द्वारकाप्रसाद शास्त्री. हिं प्रचा पु ५००

- पुस्तक सूचीकरण कला. द्वारकाप्रसाद शास्त्री हि प्रचा पु.  
५.००
- पुस्तकालय परिचय द्वारिकाप्रसाद शास्त्री सा भवन, इ एव  
हि प्रचा. पु १५०
- प्रक्रिया अनुज शास्त्री दि. पु स. ६५०
- प्रबध. द्वारकाप्रसाद शास्त्री हि प्रचा पु. ५.००
- मे सदभ-सेवा द्वारिकाप्रसाद शास्त्री. हि प्रचा. पु. ५००
- विज्ञान राष्ट्रीय सा स
- विज्ञान. द्वारिकाप्रसाद शास्त्री हि प्रचा पु ५.००
- विज्ञान-कोश. गौड, प्रभुनारायण वि. राष्ट्र ४५०
- विज्ञान, निर्गम पद्धतिया काति मिथिलेश चैतन्य १.५०
- संगठन तथा संचालन द्वारिकाप्रसाद शास्त्री. एस चाँद  
३२५
- पुस्तको का मूल्य निर्धारण मैथिलीशरण सिंह पु भं १००
- पुस्तपालन तथा लेखाकर्म बलदुआ, पन्नालाल रा वेनीप्रसाद  
भा १५००, भा. २. ६००
- तथा लेखा-कर्म के सिद्धात गुप्ता. हि प्रचा पु ७००
- पुस्तिका पालन की भारतीय पद्धति अमरपाल. कि. महल  
१५०
- पूजा भासी, तोपिल अशोक प्र गृह ३.००
- पूजापति गोपीकृष्ण गोपेश, अनु सा भवन, इ २००
- पूजा और प्यार. पाठक, दानबहादुर नवयुग पु भं ५.००
- के फूल. व्यथितहृदय भा प्र मंदिर १००
- गीत द्विवेदी, सोहनलाल इ प्रे. २५०
- पद्धति विशालमणि नारायण. श्यामलाल. ३५०
- भास्कर देहाती. ३५०
- भास्कर. विशालमणि नारायण श्यामलाल २००
- पूजामयी परमार, नारायणलाल रूपसी ३००
- पूज्य बापू और उनके शिष्य नेने, एल जी गंगाप्रसाद १२५
- पूनम का चाद गढहोक, सुमित्रा रूपकमल. ३७५
- के साथे चौधरी, सोमेश भा सस्कृत. ३००
- पूनीता राकेश 'वत्स' दास २.८८
- पूपू. चौहान, मनहर. उमेश. २००
- पूरनमल बडा २ भा. श्यामलाल ३५०
- भक्त. बालकराम. श्यामलाल २००
- पूरब और पश्चिम राधिकारमणप्रसाद सिंह, राजां. अशोक  
प्रे ३५०
- पूरे चाद की रात कृश्नचंदर राजपाल ३००
- पूर्या-पराग हरदयालु सिंह इ प्रे २००
- पूर्यामाशी जसवत सिंह कवल सा सगम, लु ४००
- पूर्यायोग गुप्त, नलिनीकात श्रीअरविद १५०
- पूर्या विराम शर्मा, पृथ्वीनाथ एस चाद ५००
- पूर्याहुति चतुरसेन, आचार्य चौधरी ३५०
- पूर्यामा शर्मा, पद्युमसिंह, सपा बवई हि ०३७
- पूर्व और पश्चिम की लोक कथाए नव सा प्र ०.६२
- और पश्चिम की सत महिलाए प्र विभाग. ३२५
- और पश्चिम कुछ विचार राधाकृष्णान्, सर्वपल्ली  
राजपाल ५.००

- पूर्व और पश्चिम तथा अन्य नाट्य कहानियां विद्यार्थी,  
रामप्रसाद 'रावी'. रामप्रसाद. १.७५
- का पडित विपुलादेवी इ प्रे. २००
- की ओर. वर्मा, वृदावनलाल मयूर २.२५
- पूर्वजो की सीख श्रीवास्तव, हिमाशु सेनमार्ग. ०७५
- पूर्ववुनियादी. नारूलकर. अ भा सर्व ०५०
- भारत. मिश्रवधु गगा. ३५० ?
- भारतेदु नाटक साहित्य गुप्त, सोमनाथ हि. भवन ५.००
- मध्यकालीन भारत उपाध्याय, वासुदेव भा भं ६००
- मध्यकालीन भारत नाहर कि महले ११.००
- माध्यमिक भूगोल. गौड, कृपाशकर भा १-२ हि प्रचा  
पु २८७ (प्र)
- मे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन. लेनिन पीपुल्स. ११२
- पूर्वापर भट्ट, उदयशकर आत्माराम ५००
- पूर्वी थॉट अक गंग, लक्ष्मीनारायण, सपा सगीत २.५०
- भारत की लोक-कथाए मित्तल, मेहेद्र आत्माराम १५०
- समीक्षा के सिद्धात काग, कुलबीर सिंह. विशन चद ६००
- पूर्वोदय जैनेद्रकुमार पूर्वोदय ४५०
- पूस की रात प्रेमचंद हस १००
- पृथिवी पुत्र. गुप्त, मैथिलीशरण सा सदन, चि ०.७५
- पुत्र टीका मिश्र, दुर्गाशकर हि सा भ १.२५
- पृथ्वी और अतरिक्ष. मारशैक, अलेक्जेंडर राजकमल. (पा)  
१.५०
- और आकाश श्रीवास्तव, भगवतीप्रसाद भा प्र. मंदिर  
१.२५
- और मनुष्य. मौर्य, रामप्यारे रा वेनीप्रसाद ४.५२
- का आर्थिक तथा वाणिज्य भूगोल सक्सेना, शकरसहाय  
रा वेनीमाधव. ४००
- का इतिहास इ प्रे. १.५०
- का स्वर्ग कश्मीर सिंहल, रोशनलाल यूनिवर्सिटी १२५
- की आयु. मेहरोत्रा, महाराज नारायण हि समि. ८००
- की कहानी अवस्थी, भगवानदास भा सा प्र १००
- के अन्वेषण की कथाये चतुर्वेदी, जगपति छात्रहितकारी  
१७५
- के पडौसी. मोहन बवई प्र ०६०
- परिक्रमा गोविंददास, सेठ आत्माराम १२००
- पुत्र अग्रवाल, वासुदेवशरण रामप्रसाद ५.००
- वनी. चट्टोपाध्याय, देवीप्रसाद सस्ता. १२५
- भी घडी है. इस्साक असियोव कि महल  
पृथ्वीराज. ठाकुर, केशवकुमार आदर्श हि १.२५
- की आखे वर्मा, रामकुमार गगा २५०
- चौहान कामताप्रसाद सा साधना ०७५
- चौहान न्यादरसिंह 'वेचैन' देहाती ०७५
- रासो चद वरदाई ना प्र सभा. ५७५, — — विश्व  
भारती प्र १५००, १८००
- रासो : आदि पर्व भारतभूषण 'सराज'. हि सा स  
२.२५
- रासो की भाषा नामवर सिंह. सरस्व प्रे. १०.००



- पृथ्वीराज रासो के दो अध्याय भारतभूषण 'सरोज' हि सा  
न ३५०
- रामो के दो समय मिश्र, भगीरथ गंगा २२५
- रासो ३ अध्याय भाटी, देगराजसिंह अशोक प्र ३५०
- रामो पद्मावती समय भारतभूषण 'सरोज' हि सा स  
१५०
- रामो (पद्मावती समय) टडन, हरिहरनाथ सशो स.  
विनोद २५०
- रामो (पद्मावती समय) वाजपेयी, अत्रिकाप्रसाद, सपा.  
कि घर, का २५०
- रासो पद्मावती समय (प्रश्नोत्तर मे) दीक्षित, ओम  
विनोद २५०
- रामो, पद्मावती समय मटीक गौड, विश्वनाथ. सा नि.,  
का १२५
- रामो प्रश्नोत्तरी महेद्र, रामचरण सरस्व पु स १५०
- रासो मे कथानक रुडिया श्रीवास्तव, ब्रजविलास  
राजकमल ३५०
- पृथ्वी राज्य वाष्पौय, सुरेशचंद्र भा प्र मंदिर ०७५
- वदन तरुणभाई, सपा सर्वोदय सा एव हि भवन १.२५
- वल्लभ मुशी, कन्हैयालाल माणिकलाल कि महल.  
३००
- मे अतरिक्ष तक बुडवरी, डेविड ओ आत्माराम ४००
- पेटरी बावरी आनद, सत्यपाल सा सगम, लु ३००
- का काम दास, जे नी देहाती ४.५०
- पैन्ल का खेल जैन, राकेग कि महल १००
- पेचदान मामला लहरी २००
- पेट की हवा मुह की वात गोलक विहारी घल. राष्ट्र पु भ.  
१५०
- पेटारी की रानी मृदिदेव, रजन कला-नि १५०
- पेटेन्ट अदवियात वमल, रघुवीरशरण देहाती ६.००
- पेट्रोलियम वर्मा, फूलदेवमहाय वि राष्ट्र ५.५०
- पेन्लिन की कहानी चतुर्वेदी, जगपति कि महल २००
- पेपरमाशी का काम सर्वोदय १२५
- पेरिम का कुबड़ा ह्यूगो, विक्टर आदर्श हि ६००, —  
हिंद पा १००
- ज रानीना मोपाना कि महल ३००
- की एफ नाम अहमद अन्वास, रवाजा नीलाम ३५०
- की नर्तकी (नया अन्य कहानिया) शर्मा, विज्वभरनाथ  
'कौमिक' विनोद ३००
- मुदनी. ओजार मन्द, अनु विद्या भवन, इ २५०
- पैन्ने उर्दनाथ 'अटक' नीलाम ३०५
- पैन्नि या घरेलु उद्योग ओमप्रकाश सर्वोदय ०५०
- पैन्नि वनाना कालीचरण देहाती ०५०
- पैन्नि नेना के आयुनिक मन्नास्त वर्मा, एम पी भा प्र मंदिर  
१००
- पैन्नि के रीति दान निपाटी, हीतप्रसाद पुष्पी ०७५,  
———————————————————————  
मुन्द्रे ३००
- पैन्नि पन्थन भागी, नीपिल अगोत प्र गृह

- पैर की धूल. गोविंदसिंह सुभाष ३५०
- पैसा देसाई, रमणलाल वसतलाल कल्याणदास ५००
- पैसा विराज नेशनल १००
- और सभ्यता आदर्श पु म २५०
- कैसे बढ़ता है राघव, शिवनाथ नेशनल ०७५
- नही मजदूरी लक्ष्मीनारायण नेशनल ०७५
- पैसे का साथी जैन, ऋषमचरण ज्ञान प्र ३००
- पैसे के चुटकले. गुक्ल, अमोलचंद देहाती ४५०
- पोपू गुड्डा प्रशात बाल सदन १५०
- पोलट्री फार्मिंग कालीचरण देहाती ४००
- सरजन. कालीचरण देहाती ४००
- पोली इमारत शर्मा, पाडेय वेचन 'उग्र' आत्माराम. २५०
- पोस्टर आदोलन सुरेशराम अ भा सर्व ०७५
- पौधा, फूल और फल जोशी हेमचंद्र परिमल १००
- पौधो की कहानी वत्स्य, सतराम नेशनल १.२५
- की राम कहानी ओमप्रकाश सर्वोदय १५०
- पौ फटेगी भा सा सदन. ३००, — ———————  
स्टार (पा)  
१००
- पौराणिक कथाए राजाराम शास्त्री २ भा भा पु म १२५  
(प्र)
- कथाए शर्मा, हृदयराम चौखवा २५०
- कहानिया सर्वोदय १००
- भारत मजुमदार, विमानविहारी ग्रथमाला १.००
- महापुरुष गुप्त, केदारनाथ छात्रहितकारी. १५०
- साहित्यिक कथाए कमलनारायण 'कमलेश' ग्रथ भ भा. १  
०६४, भा. २ १२५
- साहित्य और संस्कृति लोहनी, भास्करानंद रामा प्र  
३००
- प्याज के गुण तथा उपयोग दीक्षित, रामसनेही देहाती  
०७५
- लहसुन की खेती रामेश्वर अशात देहाती १२५
- प्यार और पैसा प्रताप, चौहरी ४५०
- और पैसा राजाराम शास्त्री आत्माराम ३००
- और प्रतिगोव भाग्योदय (पा) १००
- और वासना वाजपेयी, प्रेमचंद्र आदर्श पु म १००
- का भोका श्रीवास्तव, जगदीशप्रसाद सुरेद्र २००
- की जिंदगी टाल्टाय हिंद पा १००
- की जीत वेरी, श्रीराम हि प्रचा पु १७५
- की पुकार अहमद अन्वास, रवाजा हिंद पा १००
- के बचन विद्यार्थी, रामप्रसाद 'रावी' भा ज्ञानपीठ  
३२५
- पतन पछतावा वाजपेयी, प्रेमचंद्र आदर्श पु म १००
- , पैसा और इन्मान जर्मा, विनोदशंकर रूप्सी ११०
- चाटते चलो इदीवर वीरा २५०
- रोता है शरतेंदु आदर्श पु म १५०
- प्यारा उत्तर प्रदेश सिंहल, गोगनलाल वृन्दिमिटी १२५
- भारत प्याग्लान ड प्रे ४५०
- वापू सेमिओ, अनेनी ३ भा अ भा. सर्व ०.५० (प्र)

- प्यारे भूले भाइयो भट्ट, कृष्णदत्त ५ भा अ. भा सर्व १५०  
 प्यास कृष्णचंदर हिंद पा १००  
 प्यास पथिक चौधरी २५०  
 प्यास पाडेय, रमाकात 'विजय' सा सगम, मो १००  
 प्यास शर्मा, जगदीश देहाती १२५  
 —एक रूप दो मनमोहन सरल रूपकमल ३२५  
 —के पख शर्मा, यादवेद्र 'चंद्र' राजपाल २००  
 —जो बुझ न सकी शकर सुल्तानपुरी पुष्पी ०७५, —  
 सुरेद्र २००  
 प्यासा और वेपानी के लोग वर्मा, केशवचंद्र कि महल  
 ३००  
 —रोया नदी किनारे शकर सुल्तानपुरी रामा प्र ३००  
 —लौट गया पनघट से माथुर, तारादत्त पुष्पी ०७५,  
 — सुरेद्र २००  
 —ह व्यामचंद्र आदर्श पु म १००  
 प्यासी आखे शर्मा, बनारसीदत्त सेवक चौधरी. ३००  
 —तलवार चौधरी २००  
 —धरती प्यासे लोग कृष्णचंदर लोकभारती ४५०  
 —रूहे चावला, गुरुचर नवीनतम २५०  
 प्यासे नैना गोविंदसिंह कन्हैयालाल २२५  
 —पत्थर भारद्वाज पजाबी पु २००, — स्टार (पा)  
 १००  
 —बादल पनिकर, रजनी मोतीलाल ५००  
 प्रकाश गोविंददास, सेठ एस चाद ३५०  
 —और छाया वर्मा, विद्यास्वरूप सा प्र २२५  
 —और परछाई विष्णु प्रभाकर भा सा. प्र ३००  
 —और वर्ण (का स्वरूप, खुली हवा मे) मिर्नैट, एम.  
 हिं समि ११.५०  
 —की ओर गुप्त, नलिनीकात श्रीअरविंद. ०५०  
 —की ओर चतुर्वेदी, जगपति ग्रथमाला १५०  
 —की ओर विजय, ओमशरण विजय प्र ४००  
 —की कहानी गोयल, त्रिलोकचंद राजपाल ३००  
 —की बातें भालोटिया  
 —की बातें गुप्त, ब्रह्मानंद . सस्ता १.५०  
 —की रेखा भट्टाचार्य, रणजित सस्ता १५०  
 प्रकाशन व पुस्तक-व्यवसाय अ भा हिं २००  
 प्रकाश वेसिक गाइड. शर्मा, के आर कना म  
 —विज्ञान सेठी, निहालकरण एस. चाद १०००  
 —स्तभ सियारामशरण प्रसाद, सपा कला भा २५०  
 —स्तभ हरिकृष्ण 'प्रेमी' हिं भवन १५०  
 प्रकृति और काव्य रघुवंश नेगनल हिंदी. १२००, संस्कृत.  
 १३००, — सा. भवन, इ ६५०  
 —और विज्ञान गुप्त, परमेश्वरीलाल. ग्रथमाला १००  
 —को लोक-कथाए शेखर, शिवशंकरलाल आत्माराम. १५०  
 —की विचित्रता मिश्र, रामदहिन ग्रथमाला ०६२  
 —के दरवार मे जगन्नाथ प्रभाकर-नेशनल १२५  
 —गीत मिश्र, गगाधर राष्ट्र प्र म २.००  
 —चित्रण टडन, आर एन. स ५ भा भा. प्र. २.५० ७

- प्रकृति चित्रण प्रबोध नदलाल खुशतर. कि. महल २००  
 —पूजा, गोविंददास, सेठ. एस. चाद ०.३७  
 —सौंदर्य कल्याणसिंह हिं पु ए. २२५  
 प्रक्रियात्मक भूगोल. तिवारी, शिवकुमार सशो. स २. केदार-  
 नाथ ५.००  
 —भूगोल वागला, सीताराम... स. २. कि. घर, का.  
 १५.००  
 —भूगोल शर्मा, वावूराम .. शिवलाल ४००  
 —भूगोल की रूपरेखा सिंघल, एस सी सुरेश ३५०  
 —भूगोल की रूपरेखा सिंघल... सुरेश १०००  
 प्रगति राहुल साकृत्यायन भा १. प्रबुद्ध. ३.००  
 —और प्रयोग विद्याथी, रमेद्रप्रसाद सिंह विद्यार्थी २००  
 —की ओर मिश्र, जगदीश किशोर प्र १५०  
 —की ओर शुक्ल, रमापति नद, ब्र एव नद स ०.७५  
 —की धूल. मणिकचंद्र भा सा सदन ५००  
 —के बढ़ते चरण कृष्णचंद्र, अनु आत्माराम ३.७५  
 प्रगतिवाद की रूपरेखा गुप्त, मन्मथनाथ आत्माराम.  
 ७.००  
 प्रगतिवादी शिक्षण हि सा. भ १५०  
 —समीक्षा त्रिवेदी, रामप्रसाद ग्रथम १०००  
 प्रगतिशील गुरुदत्त. अर्चना प्र (पा) १००, — भा सा.  
 सदन २५०  
 —आलोचना श्रीवास्तव, रवींद्रनाथ सा भवन, इ. ५००  
 —साहित्य की समस्याए शर्मा, रामविलास विनोद ३५०  
 —साहित्य के मानदंड रागेय राघव सरस्व पु स ४.००  
 प्रचलित मुहावरे त्रिपाठी, विंध्याचल नागरी प्र  
 —मुहावरे और लोकोक्तिया उपाध्याय अगोक पु म १.५०  
 प्रचारक हिंदी शब्द कोश (गुटका) त्रिपाठी, लालधर  
 'प्रवासी' हिं प्रचा पु. २ ८७  
 प्रजनन और शिशु पालन ठाकुर ज्योतिर्मयी हिं प्रचा म  
 ०७५  
 प्रजातंत्र गर्दे, लक्ष्मणनारायण ग्रथमाला २००  
 —का एक राजा गोकर्णी, मैक्सिम अभिज्ञान १२५  
 — सच्चा और भूठा गाधी, मोहनदास करमचंद. नवजीवन  
 १.००  
 प्रजाप्रिय प्रजेन त्रिपाठी, वाल्मीकि प्रत्युप ४००  
 प्रणय द्विवेदी, देवनारायण ज्ञानमडल ५००, —  
 प्रचा पा. १००  
 —और परिग्रह यायावर. भा स. सदन १७५, (पा.)  
 १००  
 —पत्रिका हरिवंशराय 'वचन' राजपाल २.५०  
 —पल वावूरामसिंह 'लमगोडा'. आनंद पु, वा २.००  
 —पाल शर्मा, यज्ञदत्त सा प्र ५००  
 —वधन गोपालकृष्ण पुष्पी १२५, — सुरेद्र ३५०  
 प्रतापनारायण अयावली मल्ल, विजयशंकर, सपा ना प्र  
 सभा १००  
 प्रताप-प्रतिज्ञा जगन्नाथप्रसाद 'मिर्लिद'. स १७. हिं भवन  
 १.२५

- प्रतापी आल्हा ऊदल पथिक चौधरी. २००  
 प्रतिकार कल्याणदाम १००  
 प्रतिकार अजितकुमार 'सरल' गंगा ३००  
 प्रतिक्रिया गुप्त, मन्मथनाथ राजपाल ५००  
 प्रतिज्ञा प्रेमचंद हन २५०  
 प्रतिज्ञा मिश्र, ठाकुरदत्त कि महल १५०  
 —योगधरायण भास सस्ता ०४०, — —रा बेनीप्रसाद.  
 १७०, — —श्री भा भारती १००, — —हिं  
 मा नम्मे ०७५  
 प्रतिज्ञान रागेय राधव कि महल ३५० (अप्रा)  
 प्रतिद्वंद्वी शेरीडन हिं प्रचा पु २००  
 प्रतिध्वनि न्यू लिट ४५०  
 प्रतिध्वनि प्रनाद, जयशकर भा भ १५०  
 प्रतिध्वनि रघुवीररक्षण 'मित्र' भा सा प्र ४००  
 प्रतिनिधि अतर्प्रातीय हास्य कहानिया योगेद्रकुमार 'लल्ला'...  
 आत्माराम  
 —अतराष्ट्रीय हास्य-कहानिया योगेद्रकुमार 'लल्ला'...  
 आत्माराम  
 —आलोचक मोहनलाल एस. चाद ४५०  
 —एकाकी अग्रवाल, प्रह्लाददास रा बेनीमाधव १२५  
 —एकाकी उपेन्द्रनाथ 'अष्क' नीलाभ. ३००  
 —एकाकी पाडेय, फूलचंद, सपा रामप्रसाद ३००  
 —एकाकी (अश्क) मिश्र, दुर्गाशकर हिं सा भ २००  
 —ऐतिहासिक कहानिया श्रीकृष्ण आत्माराम ८००  
 —कवि चौधरी, सत्यदेव एस चाद ३५०  
 —कहानिया ओझा, प्रफुल्लचंद्र 'मुक्त' भा १ अभिज्ञान.  
 २००  
 —कहानिया घिल्डियाल, रमाप्रसाद 'पहाडी' प्रकाशगृह  
 एव रा बेनीमाधव २५०  
 —कहानिया नरेश भा २ अभिज्ञान. २००  
 —कहानिया वच्चन सिंह नद ब्र १७५  
 —कहानिया वाजपेयी, भगवतीप्रसाद मोतीलाल ३६२  
 —बाल एकाकी श्रीकृष्ण आत्माराम ६५०  
 —बाल नाभूतिक गान योगेद्रकुमार 'लल्ला' . आत्माराम  
 ३००  
 —महाकाव्य मन्सेना, द्वारिकाप्रसाद विनोद १२००  
 —रंगमंचीय एकाकी श्रीकृष्ण आत्माराम  
 —रचनाए परशुराम भा ज्ञानपीठ ३००  
 —रचनाए माउगूलकर भा ज्ञानपीठ ४००  
 —रचनाए वेंकटेश्वर राव, नार्ल भा ज्ञानपीठ ३५०  
 —रत्नायका गिरिवर ३००  
 —लोक-रचनाए श्रीकृष्ण आत्माराम  
 —ऐतिहासिक कहानिया मिश्र, नवलविहारी. आत्माराम  
 —नाभूतिक-गान योगेद्रकुमार 'लल्ला' . आत्माराम  
 ८००  
 —नाभूतिक कहानिया योगेद्रकुमार, 'लल्ला' आत्माराम  
 —नाभूतिक निवारामरक्षण प्रनाद, नपा. कला-भा  
 १२६० ४००, १६६१ ३००

- प्रतिनिधि हास्य एकाकी. श्रीकृष्ण . आत्माराम १०००  
 —हास्य कहानिया मनमोहन सरल . आत्माराम १२५०  
 —हास्य-व्यंग कविताए योगेद्रकुमार 'लल्ला' आत्माराम  
 प्रतिपदा चंद्रप्रकाश सिंह, ठाकुर बसल ४००  
 प्रतिपदा शर्मा, राजेद्र भा भ ०७५  
 प्रतिभा पाठक, अनसूयाप्रसाद राष्ट्र पु भ ३००  
 —के पुत्र मिश्र, वेद शकुन १२५  
 —दर्शन जोशी, हरिशकर चौखवा २५००  
 —साधना फडके, ना सी व्हीनस ५००  
 प्रतिभा नौटियाल, सतोषनारायण प्रभात पब्लि २००  
 प्रतिभा पत, गोविंदवल्लभ गंगा ३२५  
 प्रतिभा मिश्र, ठाकुरदत्त कि महल १५०  
 प्रतिभा श्रीवास्तव, राजाराम इ प्रे १००  
 —नाटक भास श्री भा भारती १२५, — —सस्ता.  
 ०४०, — —मोतीलाल २००  
 —नाटकम्—महाकवि भास कृत द्विवेदी, कपिलदेव. रा.  
 बेनीमाधव ३५०  
 —लक्षणा शुक्ल, द्विजेन्द्रनाथ. श्री भा भारती १२००  
 —विज्ञान शुक्ल, द्विजेन्द्रनाथ श्री भा भारती १५०  
 प्रतिवेदन के स्वर सकसेना, शभूदयाल नवयुग प्र. कु.  
 ४००  
 प्रतिशोध करेली, मेरी भा. २ हिं. पु ए २५०  
 प्रतिशोध खत्री, दुर्गाप्रसाद लहरी १५०  
 प्रतिशोध जोशी, जगदीशकृष्ण गंगा ३००  
 प्रतिशोध नानकसिंह राजपाल ३५०  
 प्रतिशोध पंडित, गोपीकांत कृष्णा ब्र. १२५  
 प्रतिशोध मुशी, कन्हैयालाल मणिकलान नवयुग प्र ६००,  
 — —रूपकमल ६००  
 प्रतिशोध शर्मा, विश्वभरनाथ 'कौशिक' विनोद ३००,  
 प्रतिशोध हरिकृष्ण 'प्रेमी' स ३ हिं भवन. १७५  
 प्रतिष्ठान द्विवेदी, शांतिप्रिय इ प्रे ३००  
 प्रतीक्षा रामप्रसाद सिंह 'आनंद'. नद ब्र एव नद. स.  
 १५०  
 प्रत्यक्ष शरीर कोश. सेनगुप्त, एस सी, सपा हिं. सा  
 सम्मे ८००  
 प्रत्यागत वर्मा, वृंदावनलाल गंगा ३.७५; — —मयूर  
 १५०  
 प्रत्यावर्तन ज्वालाप्रसाद 'केशर' चिनगारी ४००  
 प्रत्यूष की भटकी किरण याथावरी शुक्ल, रामेश्वर 'अचल'  
 हिं प्रचा पु ४००  
 प्रथम किरण श्रीकृष्ण कल्याणकारी दक्षिणायन. १००  
 —पूजा भट्ट चंद्रशेखर एस चाद २००  
 —प्रजातंत्र का उदय टोकवील, अलेक्सिस डि एस. चाद.  
 ४००  
 —प्रयास वीरेंद्र 'मृदु' अग्रवाल प्रि ०७५  
 —मुमन शर्मा, सत्यवती. आत्माराम १००  
 प्रथमालकार-निरूपण चंद्रशेखर शास्त्री हिं सा सम्मे.  
 • ३७

- प्रदक्षिणा. गुप्त, मैथिलीशरण. सा सदन, चि. ० ७५  
 प्रदक्षिणा. ठाकुरप्रसाद सिंह. राष्ट्रीय प्र. मंदिर ४५०  
 प्रदीप. पाठक, वाचस्पति. भा भ १.५०  
 प्रद्युम्नचरित महासेन. भा ज्ञानपीठ ० ५०  
 प्रद्युम्नचरित सधारू, कवि. जैन सा ४००  
 प्रधान—उसके कर्तव्य और अधिकार शर्मा, ब्रह्मस्वरूप.  
 सर्वोदय ०.३७  
 प्रपञ्च परिचय विश्वेश्वर. हिं ग्र. र. २००  
 प्रफुल्लचंद्र राय सक्सेना, राजीव पीपुल्स १५०  
 प्रबोध पद्म त्रिपाठी, सूर्यकांत 'निराला' गंगा ३५०  
 —पयोधि श्रीवास्तव, शिवनारायण. नद. ब्र. एव नद. स  
 २.५०  
 —प्रबोध-पराग गुप्त, तनसुखराम सूर्य प्र १२०  
 —पराग राय, बैजनाथ आदर्श पु. भ. ५.००  
 —परिमल जोशी बाबूराव कृष्णा ब्र. ४.५०  
 —पारिजात मिश्र, गंगाधर राष्ट्र प्र. म भा १ २२५;  
 भा. २. ३००  
 —पीयूष. अग्रवाल, शिवप्रसाद स. ७ आगरा बुक. ३.५०  
 —पुष्पाजलि द्विवेदी, महावीरप्रसाद सा सदन, चि १.००  
 —पूर्णिमा. भटनागर, रामरतन कि महल १५०  
 —प्रकाश मंगलदेव शास्त्री इ प्रे भा. १ ४.००; भा. २.  
 ५.००  
 —प्रकाश. सक्सेना, शभुदयाल स ७ हिं. भवन. २.५०  
 —प्रतिमा. त्रिपाठी, सूर्यकांत 'निराला' भा भ ८००  
 —प्रदीप कुट्टनपिल्ले, एन पी. हिं प्रचा पु. ३००  
 —प्रदीप. भारतभूषण 'सरोज' हिं. सा स ५५०  
 —प्रबोध जैन, फूलचंद 'सारंग' सा रत्न भ ३.५०  
 —प्रभा टडन, प्रेमनारायण, सपा हिं. सा भ १५०  
 —प्रभाकर गुलाबराय स ११ हिं भवन ५८०  
 —प्रभाकर भटनागर, रामरतन रा वेनीप्रसाद २२५  
 —प्रवाह मल्लिक, भीमसिंह गुरदास ६५०  
 —प्रसून अग्रवाल, शिवप्रसाद स ५ आगरा बुक २५०  
 —बोध. धर्मवीर 'प्रेमी' यग मैन. १५०  
 —भास्कर मैनन .. ओरिएटल ५००  
 —सागर शर्मा, यज्ञदत्त आत्मराम ६५०  
 प्रबल परीक्षा रघुवशी, वीरेद्रसिंह नेशनल ३५०  
 प्रबुद्ध यामुन वियोगी हरि गंगा. ३५०  
 —सिद्धार्थ विद्यार्थी, रामप्रसाद 'रावी' रामप्रसाद १५०  
 —सिद्धार्थ पर एक दृष्टि तिवारी रामचंद्र हिं सा भ  
 ० ५०  
 प्रबोध का उदय मिश्र, ठाकुरदत्त कि. महल १५०  
 —चंद्रोदय और उसकी हिंदी परंपरा सरोज हिं सा. सम्मे  
 १०००  
 प्रभाकर जत्री त्रिपाठी, विश्वनाथ, सपा श्री प्रभाकर ० ६२  
 —प्रबोधिनी शर्मा, तिलकधर सूर्य प्र १२००  
 प्रभात की प्रथम किरण ड्ली, थामस ए एस चाद २.००  
 —की स्वाइयां तिवारी, प्रभातकुमार लोक चेतना. १२५  
 —फेरी. शर्मा, नरेद्र. कि महल. २.००

- प्रभाती द्विवेदी, सोहनलाल सा भवन, इ ३.००  
 प्रभाती शिवसिंह 'सुमन' छात्रहितकारी १००  
 प्रभावती. त्रिपाठी, सूर्यकांत 'निराला' कि महल ४००  
 प्रभावशाली व्यक्तित्व मार्टेन, स्वेट हिंद पा १००  
 प्रभा शिल्पमाला प्रभारानी देहाती ३००  
 प्रभुदर्शन आनदस्वामी परि स ५ गोविंदराम २५०  
 प्रभुदेव वचनामृत गोपीनाथ कविराज .. ना प्र सभा ६.५०  
 प्रभु पधारे मेघाणी, भवेरचंद सस्ता २५०  
 प्रभुभक्ति आनदस्वामी गोविंदराम १५०  
 प्रमाणप्रमेयकलिका सेन, नरेद्र भा ज्ञानपीठ १५०  
 प्रमाणवातिकम राहुल साकृत्यायन कि महल ३०.००  
 (अप्रा )  
 प्रमाद प्रकाश 'भारती' भा सा सदन २५०; (पा ) १००  
 प्रमिताक्षर दीपिका जगमोहन सिंह वगीय १००  
 प्रमुख कवियों की काव्य-साधना भाटी, देशराजसिंह अशोक  
 प्र ३५०  
 —देशो की शासन-प्रणालिया गुप्ता, श्री पी केदारनाथ  
 ५५०  
 —देशो की शासन प्रणालिया त्यागी, एम एस. स. ६  
 रस्तोगी ५५०, ७.००  
 —देशो की शासन प्रणालिया (प्रश्नोत्तर) शर्मन, के देव  
 मालवीय ग्रेट ब्रिटेन २००, सयुक्त-राज्य अमेरिका  
 २२५  
 —राजनीतिक विचारक त्यागी, एन. के स. २ रस्तीगी.  
 ४००  
 —राजनीतिक विचारक नागपाल कि महल ६००  
 —राजनीतिक विचारको की चितनवारा पाडेय, जयनारायण  
 लोक-चेतना ८००  
 —विदेशी सविधान सभरवाल, हृदयनारायण... प्रकाश बुक.  
 ६५०  
 —विदेशी सविधान साभरवाल... किशोर पट्टिल ६.५०  
 प्रमेह विवेचन पाडेय, महेंद्रनाथ. छात्रहितकारी २००  
 प्रयाग प्रदीप श्रीवास्तव, शालिग्राम हिंदु एकेडेमी ६००  
 प्रयाग शुक्ल, गिरिजादत्त 'गिरीश' रा वेनीमाधव. १.२५  
 प्रयास के सुमन सारंग, आदर्शमोहन सन्मार्ग ५५०  
 प्रयोग रत्नावली पाठक, केदारनाथ नद ब्र २००  
 प्रयोगवाद-समीक्षा और काव्यदर्शन वर्मा, नरेद्रदेव. अनुसंधान.  
 १२५०  
 प्रयोगवादी काव्यधारा तिवारी, रमागकर चौखवा  
 प्रयोगात्मक भूगोल भकुनी, पूरनसिंह .. एस चाद ३५०  
 —भूगोल सक्सेना, उमेशकिशोर लक्ष्मी ना  
 —भूगोल एव मौखिक परीक्षण. तिवारी, ए. आर...  
 शिवलाल. ५.००  
 —भौतिक शास्त्र. भागीरथमल... कृष्णा ब्र २००  
 —मनोविज्ञान कॉलिन्स गयाप्रसाद  
 —मनोविज्ञान चौवे, सरयूप्रसाद सगो स. ३ आगरा बु. क  
 ७५०  
 —मनोविज्ञान. पाडेय; जगदानंद. सगो. स. २. तारा. १२.५०

- प्रयोगात्मक मनोविज्ञान रावत, डी एस. विनोद ३००  
 —मनोविज्ञान (प्रश्नोत्तर) रावत पु. भ, आ ० ७५  
 —मनोविज्ञान की मरल रूपरेखा (प्रश्नोत्तर) अग्रवाल,  
 आर पी गयाप्रसाद २००  
 —रमायन जैन, केशवदास... सशो स २ आगरा बुक  
 २००  
 प्रलय देसाई, रमणलाल वमतलाल बोरा ५५०  
 —और मृष्टि महेंद्र, रामचरण विष्णेश्वरानंद २००  
 —के सात दिन जैन, राजेद्रकुमार चिनगारी ३५०  
 प्रवचना गुरुदत्त राजपाल ५००  
 प्रवचन डायरी श्रीचंद रामपुरिया, सपा जैन श्वेतावर  
 १६५३ ६००, १६५४-५५ ७००, १६५६-५७  
 ७००  
 प्रवाल रायकृष्णदास भा भ ० ३७  
 प्रवाम पय घिल्डियाल, रमाप्रसाद 'पहाडी' प्रकाशगृह  
 प्रवासी और गीत शर्मा, नरेद्र भा भ २००  
 —की आत्म-कथा भवानीदयाल सन्यासी राजहस ८००  
 —प्रपच ब्रह्मदत्त भवानीदयाल रामलोचन (पा)  
 १००  
 —भारतियों की समस्याये अग्रवाल, प्रेमनारायण मानसरोवर  
 सा १००  
 प्रवीनराय अमरवहादुर सिंह 'अमरेश' गंगा ३५०  
 प्रवृत्ति गुरुदत्त भा सा मदन ५७५, (पा) २००  
 प्रवेशिका अर्थशास्त्र भा, जे एन नावट्टी २५०  
 —आर्थिक और वाणिज्य भूगोल मिन्हा, अवधेशकुमार  
 नाँवट्टी २५०  
 —गाउड अग्रवाल, विनोदकुमार सशो स ४ १६६३  
 विनोद ५००  
 —नियामक ज्यामिति सिंह बुकलेड २५०  
 —प्राचीनी व्याममुदरदाग, मपा ना प्र सभा १२५  
 —प्रायोगिक भौतिक शास्त्र साहा, अक्षयलाल नाँवट्टी  
 ३०५  
 —प्रायोगिक रमायन भा, रामचंद्र नावट्टी  
 —वही-नेयन गुप्त, केदारराम नाँवट्टी ४५०  
 —सरल रमायन (प्रश्नोत्तर) नाँवट्टी ३००  
 प्रशान्ति मग्रह कामलीवाल, कस्तूरचंद, मपा जैन सा  
 ६००  
 प्रज्ञानन व विधि शन्द्रावली गहलोत, सुयवीरसिंह हि  
 गा म, जो ५००  
 —शन्द्रावली राममूर्ति सिंह, सपा हि ग्र र  
 —शन्द्रावली दिराज नेयनल १५०  
 प्रणिभक्त-प्रतिक्षण-निज्ञान ज्ञानपीठ  
 प्रज्ञा धर्मा, सर्वदानंद गंगा व प्रभात पट्टिन ३५०  
 —और उन श्रीमानाती श्रीअग्रविद भा १ २००,  
 भा २ ३००  
 —और गमायन गुणगान, मुनित्री आत्माराम १२५  
 प्रश्नोत्तर पाठ-विधि नद स ६५०  
 —प्रयोगिक भौतिकी गुप्ता... मोतीलाल. ३.२५

- प्रश्नोत्तर सामान्य ज्ञान तथा विज्ञान नद ब्र एव नद स  
 २००  
 प्रश्नोत्तरी पाठशाला-प्रबंध और स्वास्थ्य पाठक नद स  
 १२५  
 —हाई स्कूल सामाजिक ज्ञान व्याभदत्त यग मैन ३२५  
 प्रश्नोपनिषद्, शकरभाष्यसहित गीता ० ४५  
 प्रसन्नता की साधना श्रीवास्तव, वजनाथलाल नद ब्र  
 ० २५  
 प्रसन्न राघव मिश्र, ठाकुरदत्त कि महल १५०  
 प्रसाद और अज्ञातशत्रु. चतुर्वेदी, राजेश्वरप्रसाद लक्ष्मी ना  
 २००  
 —और अज्ञातशत्रु सक्सेना, भुवनेश्वरीचरण पु भ, आ  
 २२५  
 —और उनका साहित्य व्यास, विनोदशकर हि सा कु  
 ३१२  
 —और उनकी कविता विश्वभर 'मानव' कि महल ४००  
 —और उनकी ध्रुवस्वामिनी मोतीलाल १५०  
 —और उनके समकालीन व्यास, विनोदशकर हि सा कु  
 ४००  
 —और 'ध्रुवस्वामिनी' जैन, फूलचंद्र 'सारंग' विनोद  
 १५०  
 —का कथा-साहित्य मार्कंडेय सिंह आनंद पु, वा ४००  
 —का काव्य प्रेमशकर भा भ १२००  
 —का विकासात्मक अध्ययन गुप्त, किशोरीलाल सा रत्न-  
 माला ३७५  
 —काव्य कोश पाडेय, सुधाकर कल्याणदास १६००  
 —काव्य त्रिवेचन ब्राह्मी, हरदेव हि भवन २५०  
 —की कविताये पाडेय, सुधाकर कल्याणदास ७००  
 —की कहानिया शुक्ल, केदारनाथ नद ब्र एव नद स  
 २५०  
 —की नाट्यकला अज्ञातशत्रु पाडेय, शम्भुनाथ सरस्व पु स  
 १७५  
 —की विचार-धारा भटनागर, रामरतन रा वेनीप्रसाद  
 ४००  
 —की साहित्य साधना पाडेय, शम्भुनाथ, मपा सरस्व पु स  
 ५००  
 —के उपन्यास तथा कहानिया गुणीलादेवी नद ब्र एव  
 नद स ३००  
 —के ऐतिहासिक नाटक जोशी, जगदीशचंद्र, सरस्व पु स  
 १२५०  
 —के नाटक गुप्त, परमेश्वरीलाल हि प्रचा पु ४५०  
 —के नाटकीय पात्र दीक्षित, जगदीशानारायण मा नि, का  
 —के नाटको का शास्त्रीय अध्ययन नद ब्र ६२५ ४००  
 —के प्रगीत खरे, गणेश नद स ६००  
 —जी का अज्ञातशत्रु सिन्हा, कृष्णकुमार नाँवट्टी ३५०  
 —जी का चंद्रगुप्त मिन्हा, कृष्णकुमार नावट्टी ३५०  
 —जी की कला गुलाबराय, मपा म ४ सा रत्न भ ५००  
 —जी के तीन नाटक टट्टन, प्रेमनारायण. रा वेनीप्रसाद

- प्रसाद जीवन और साहित्य वाजपेयी, अत्रिकाप्रसाद. गगा ४५०
- जीवन, कला और कृतित्व अधिकारी, महावीर आत्माराम ८.००
- , निराला, पत, महादेवी की श्रेष्ठ रचनाए पाठक, वाचस्पति, सपा लोकभारती. ४५०
- पत का तुलनात्मक विवेचन द्विवेदी, रामरजपाल सरस्व पु स ४५०
- पत, रत्नाकर टडन, लक्ष्मीनारायण... हिं. सा भ. २००
- सगीत प्रसाद, जयशकर. भा भ. २.००
- साहित्य नद स ५००
- साहित्य और कोश बाहरी, हरदेव भा भ ६००
- सुधा माथुर, गिरीश... ववई हिं. २००
- प्रसार एव ग्राम कल्याण. वाहमा, ओमप्रकाश रामप्रसाद ८.००
- कार्य के सिद्धांत. राधाप्रसादसिंह, राजा ग्रथ भ. १००
- प्रसिद्ध अमरीकी नीग्रो ह्यूजेज, लैग्टन इ प्रे ३७५
- उडाके भारतीय नद ब्र एव नद स ०७५
- प्राणिशास्त्री पीपुल्स १००
- मुकदमे राजरजना
- यात्रियों की कथा मिश्र, ठाकुरदत्त, इ. प्रे ०७५
- वैज्ञानिक स्टीवेन्स, डव्लू ओ इ प्रे ३५०
- व्यवित्तियों के प्रेम-पत्र विजयचंद, सपा प्रगतिशील ६५०, डीलक्स स १०००
- व्यवित्तियों के हास्य क्षण विजयचंद, सपा प्रगतिशील प्रसूति-तत्र कपूर, रामदयाल गगा ५७५
- तंत्र वर्मा प्रभात पब्लि ७५०
- प्रस्तुत-प्रन्न जैनेद्रकुमार पूर्वोदय ४५५
- प्राण बलदुआ, बालकृष्ण गगा. २००
- प्रागारिक रसायन वर्मा, फूलदेवसहाय नद ब्र. एव नद स ३५०
- प्राक्तिक वद्योपाध्याय ताराशकर इ प्रे ३००
- प्राकृत और उसका साहित्य. बाहरी, हरदेव राजकमल २२५
- काश्मीरम् शर्मा, रघुनदन आदर्श सा १३७
- भाषाओं का रूप दर्शन नरेन्द्रनाथ, आचार्य रामा प्र ८००
- भाषाओं के व्याकरण पिङ्गल, रिचर्ड वि राष्ट्र २०००
- व्याकरण मिश्र, मधुसूदनप्रसाद चौखवा ५००
- साहित्य का इतिहास जैन, जगदीशचंद चौखवा २०००
- साहित्य का इतिहास जैन, बनारसीदास विश्व-भारती प्र १८५
- प्राकृतिक आरोग्य विज्ञान नागर, एम जी कल्पवृक्ष ०३७
- चिकित्सा गुप्त, केदारनाथ छात्रहितकारी ५००
- चिकित्सा लुईकूने हिं ग्र २२००
- चिकित्सा . क्या व कैसे ? पोद्दार, महावीरप्रसाद सस्ता ०८०
- चिकित्सा विज्ञान वर्मा, विश्वमित्र कल्पवृक्ष १५०
- चिकित्सा विधि शरणप्रसाद अ भा. सर्व १५०

- प्राकृतिक चिकित्सा सार प्रसाद, के देहाती ६००
- जीवन की ओर जस्ट, एडोल्फ स ३ आरोग्य ३००;
- —सस्ता १५०
- जीवन की ओर मोदी, विट्टलदास सस्ता १५०
- भूगोल सैलिसवरी लक्ष्मी ना
- भूगोल का स्वरूप तिवारी, विश्वनाथ रामप्रसाद १५००
- भूज्ञान श्रीवास्तव, पूरनचंद मिश्रवधु ३५०
- शिशु-चिकित्सा शर्मा, सुरेशप्रसाद मेडिकल २००
- स्वास्थ्य साधन वर्मा, विश्वमित्र कल्पवृक्ष २००
- प्राकृतिकी राय, जगदानंद इ प्रे ३५०
- प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला गुप्त, जगदीश नेशनल.
- मानव और सस्कृतिया गोयल, श्रीराम विश्वविद्यालय ६५०
- प्रागकालीन भारत की एक भलक गोविंददास, सेठ एस. चाद २७५
- प्राङ्-मौर्य विहार त्रिवेदी, देवसहाय वि राष्ट्र ७२५
- प्राचीन और नवीन ब्रजविहारीशरण कला-नि ३५०
- कथाए शर्मा, रामकृष्ण सा प्र १५०
- कथा साहित्य चतुर्वेदी, नर्मदेश्वर सा भवन, इ ५००
- कवि राजगोपालन, न वी आशा प्र ३००
- कवि विश्वभर 'मानव' लोकभारती ३००
- कवि और काव्य गौतम, मनमोहन हिं सा स ३.००
- कविता-संग्रह रसूल अहमद 'अबोध', सपा. गाधी हिंदु १५०
- कवियों की काव्यकला टडन, प्रेमनारायण, सपा हिं. सा. भ ४००
- कवियों की काव्य साधना. गौड, राजेद्रसिंह. साधना सदन. ५००
- काव्य-कुसुमाकर बालासहाय शास्त्री श्री भा. भारती १७५
- काव्य-संग्रह वद्रीनाथ एस चाद २.००
- काव्य संग्रह मिश्र, दुर्गाशकर हिं सा भ २.५०
- कश्मीर की एक भलक गोविंददास, सेठ एस चाद २५०
- चिह्न द्विवेदी, महावीरप्रसाद इ प्रे १००
- ट्यूटन कहानिया रागेय राघव कि. महल ६००
- तथा नवीन शिक्षण विधिया मलैया, के सी राजकमल ३५०, ५५०
- पजाव और उसका पास पडोस जयचंद्र विद्यालकार. हिं. भवन १५०
- पंडित और कवि द्विवेदी, महावीरप्रसाद गगा. ३.५०
- पद्य-प्रभाकर चुवल, श्रीकृष्ण, सपा हिं सा सम्मे १००
- पञ्चमी शिक्षा का इतिहास जायसवाल, सीताराम. नद. ब्र एव नद स २७५
- प्रेम और नीति की कहानिया रागेय राघव कि महल ६००
- बाल-क्रीडा राय, मनमथ सा भवन, इ. १००
- ब्राह्मण कहानिया. रागेय राघव कि महल. ६.००

- प्राचीन भक्त गीता ०.५०  
 —भारत त्यागी, एन के स ३ रस्तोगी ६००  
 —भारत पाडेय, राजवली नद म १२००  
 —भारत गुरुपोत्तमलाल अपर  
 —भारत मजूमदार, रमेशचंद्र मोतीलाल १२००  
 —भारत मुकुर्जी, राधाकुमुद राजकमल ३५०, ६५०  
 —भारत मेहता, गंगाप्रसाद काशी हिंदू ७००  
 —भारत (प्रारम्भ से १२०० ई० तक) रस्तोगी, वी एन केदारनाथ. ६००  
 —भारत शर्मा, आर के रस्तोगी ५००  
 —भारत (प्रश्नोत्तर) शर्मा, एम पी मालवीय ४५०  
 —भारत श्रीनिवामाचारी रा वेनीप्रसाद ३००  
 —भारत एवं सामाजिक जीवन गुप्त, कुजविहारीलाल रामप्रसाद १००  
 —भारत का इतिहास त्रिपाठी, रमाशंकर मोतीलाल १५००  
 —भारत का इतिहास पाडेय, विमलचंद्र केदारनाथ ८०० से १२५०  
 —भारत का इतिहास भगवतशरण ग्रथमाला १०००  
 —भारत का इतिहास महाजन विद्याधर एस चाद ११००  
 —भारत का इतिहास एवं उसकी संस्कृति गुप्ता, कमला प्रक ६७५  
 —भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास नाहर कि. महल ११५०  
 —भारत का सरल इतिहास (आदि से १००० ई) चार सुरजीत १०००  
 —भारत की जनसत्ता और संस्कृति वाजपेयी, वेनीप्रसाद विनोद ३७५  
 —भारत की भूलक त्रिपाठी, रामप्रताप, कौशाबी ४५०  
 —भारत की सभ्यता का इतिहास दत्त, रमेशचंद्र आदर्श हि १५.००  
 —भारत की सामाजिकता पाडेय, रामदीन वि राष्ट्र ६५०  
 —भारत की सामाजिक क्रांति उपाध्याय, रामजी रा वेनीमाधव ४००  
 —भारत के कान्तात्मक विनोद द्विवेदी, हजारीप्रसाद सशो स हि ग्र ५००  
 —भारत के निर्माता भगवतशरण ग्रथमाला २०  
 —भारत के प्रभावित अग्निदेव विद्यालवार भा ज्ञान तीठ ३.५०  
 —भारत के सांस्कृतिक केंद्र गहनोत्त, मुसवीरमिह हि ना म, जो ५००  
 —भारत के अर्थशास्त्र और दंड त्रिपाठी, इन्द्रनाथ चौखवा ६००  
 —भारत के समाज का विज्ञान मन्थप्रसाद हि नमि ११००  
 —भारत के संक्षिप्त प्रमाण रामगोविंदरहित हि प्रचा पु ३.००

- प्राचीन भारतीय अभिलेखों का संग्रह उपाध्याय, वासुदेव मोतीलाल २०००  
 —भारतीय इतिहास उपाध्याय, तेजराम स्टुडेन्स स्टोर्स ३००  
 —भारतीय परंपरा और इतिहास रागेय राघव आत्माराम १२००  
 —भारतीय मिट्टी के वर्तन रायगोविंदचंद्र चौखवा १२००  
 —भारतीय लिपिमाला ओझा, गौरीशंकर हीराचंद्र मुशीराम ७५००  
 —भारतीय विचार और विभूतिया मुकुर्जी, राधाकुमुद राजकमल ३५०  
 —भारतीय वेशभूषा मोतीचंद्र भा भ १२००  
 —भारतीय शासन पद्धति अलतेकर, अनन्त सदाशिव भा भ ८००  
 —भारतीय शासन व्यवस्था और राजशास्त्र सत्यकेतु विद्यालकार. सरस्व स १०२५  
 —भारतीय शिक्षण-पद्धति अलतेकर, अनन्त सदाशिव. नद ब्र एवं नद स ५००  
 —भारतीय सभ्यता और संस्कृति पाडेय, राजवली चौखवा  
 —भारतीय साहित्य विन्टरनिट्ज मोतीलाल १०००  
 —महाकवि सावल, रामलाल श्री भा. भारती. २५०  
 —महापुरुष देवदत्त शास्त्री साहनी ०.५०  
 —यूनानी कहानिया रागेय राघव कि महल ५००  
 —लोकोत्सव राय, मन्मथ. सा भवन, इ २५०  
 —व मध्यकालीन भारत १६५६ तक सरन, पी रणजीत ६५०  
 —शिक्षण विधिया एवं हार्वर्ट की पंचपदी शिक्षण. चौधरी हि सा भ १५०  
 —साहित्य ठाकुर, रवींद्रनाथ इ प्रे १५०  
 —हस्तलिखित पोथियों का विवरण बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्  
 —हिंदी कविता गिरिराज विशोर. गुजरात १००  
 —हिंदी काव्य भटनागर, रामरतन इ प्रे ४००  
 प्राच्य और पश्चात्य विवेकानंद, स्वामी स ५ श्रीरामकृष्ण १२५  
 —साहित्य जानकीवल्लभ शास्त्री कला-नि ५००  
 प्राण गीत गोपालदास 'नीरज' आत्माराम ३००  
 —चिकित्सा नागर, दुर्गाशंकर, मया कल्पवृक्ष २००  
 —दंड चतुरसेन, आचार्य चौधरी २५०  
 —दंड वर्मा, परिपूर्णानंद मयू ५००  
 —दान व्ययित्तहृदय ग्रथमाला १७५  
 —दायक व्यायाम अभयदेव, आचार्य श्रीअग्रविद ०७५  
 प्राणायाम रामचंद्रक, स्वामी गंगा २५०  
 —मीमांसा त्रिजयवहादुर सिंह, ठाकुर हि सा कु २००  
 —विज्ञान और कला इ प्रे १००  
 —विधि देहाती ० ३७  
 प्राणार्पण. शर्मा, बालकृष्ण 'नवीन' सरस्व प्रे २.००

- विज्ञान परिचय कोटपाल, आर. एल. स ५. भा भा प्र. १.८७
- विज्ञान सरल परिचय त्रिलोक मजुपुरिया गयाप्रसाद ३.००
- शास्त्र. शलायेव, व... पीपुल्स २ १२
- विज्ञान. मित्र ओरिएट. ४५०
- विज्ञान. यादव, दयालचंद्र मिश्र-बधु भा १. २ ७५
- भा. २ २.७५
- शास्त्र का सरल अध्ययन रस्तौगी, ओमप्रकाश. सशो स. २. केदारनाथ. ५ ००
- शास्त्र की रूपरेखा. भा, ए जी...बुक लेड ५ ५०; ६ २५
- गोश पुष्पाजलि. शर्मा, गणेशलाल 'प्राणेश' फीरोजाबाद १.२५
- गो का पाश. गोयल, सीताराम. भा. सा. सदन. १.७५, (पा) १ ००
- की प्यास. मधुलिका राजहस. ३.५०
- गोत्सर्ग चतुर्वेदी, देवीदयाल 'मस्त'. आत्माराम. १ २५
- थमिक. उपकार स्वरूप ० २५
- गणित के प्रश्नोत्तर नाँवली. ३ ००, ५ ००
- चिकित्सा. लहरी ०.७५
- चिकित्सा भोलानाथ, कर्नल. सर्वोदय ०.५०
- वेद संग्रह. रघुवर मिट्टलाल शास्त्री भा भ २.००
- शाला मे भाषा-शिक्षा बधेका, गिजुभाई स २ ग्राम-भारती १ ००
- सहायता श्रीवास्तव, लालबहादुरलाल नद ब्र एव नद स २ ००
- सामाजिक विज्ञान वर्मा, जी बालचंद्र.. श्री सरस्वती भा २ ०.६०, भा ३ ० ८०, वा. ४. १.००
- सामान्य विज्ञान श्रीनिवास मूर्ति, एम. जी. भा २. श्री सरस्वती ० ६०
- सामान्य विज्ञान खडेलवाल, श्याम . भा. ३ श्री सरस्वती ० ८०
- सामान्य विज्ञान खडेलवाल, श्याम .. भा ४ श्री सरस्वती १ ००
- थमिका अचल रा वेनीमाधव ३ ००
- ामाणिक आलेखन और टिप्पण विराज राजपाल २ ००
- प्रशासन-कोष शर्मा, सत्यव्रत 'सुजन' कला-नि १ ५०
- हिंदी कोष वर्मा, रामचंद्र, सपा सा रत्न-माला एव हि सा कु १२.५०
- ायश्चित ठाकुर, रवींद्रनाथ प्रभात प्र २ ००
- ायश्चित धवन, देवीप्रसाद 'विकल' अजता ३ ००
- ायश्चित मोपासा. आत्माराम २ ००
- ायश्चित वर्मा, सत्यजीवन सा भवन, इ २ ५०
- ायश्चित शर्मा, यज्ञदत्त हिंद पा १ ००
- ायश्चित शर्मा, विश्वभरनाथ 'कौशिक' गगा ३ ००
- ायश्चित सत्यार्थ बालूपुरी. पुष्पी ० ७५—सुरेद्र. २ २५
- प्रायश्चित. सुरेशराम. अ. भा. सर्व. ०.२५

- प्रायोगिक जतु विज्ञान विद्यार्थी, आर डी. श्रीराम मेहरा. २.००
- प्राणीशास्त्र श्रीवास्तव, एस पी बुकलेड ५ ००
- भूगोल और मानचित्र विज्ञान त्रिपाठी, वैदेहीवल्लभ नद ब्र एव नद स १ ५०
- भौतिक विज्ञान गुप्ता, गिरधारीलाल... एस चाद २ ००
- भौतिक विज्ञान भिगरन, वी जी.. सशो स. २ श्रीराम मेहरा. ४.५०
- भौतिक विज्ञान वर्मा, रमेशचंद्र कि महल ३ ७५. (अप्रा)
- भौतिक विज्ञान शीतलाप्रसाद.. एस चाद ३ २५
- भौतिक विज्ञान सिंहल, ओमप्रकाश कि महल ४ २५
- भौतिक शास्त्र. गजाधरप्रसाद केदारनाथ ४ ००
- भौतिक शास्त्र साहा, अक्षयलाल. नाँवली भा. १. ६ ५०, भा २ ३ ७५, भा ३ ३ २५
- भौतिकी भार्गव, नरोत्तम अपर ४ ५०
- भौतिकी की मौखिक प्रश्नोत्तरी खरे, नानकशरण... आत्माराम. ३ ००
- रसायन टडन, सतप्रसाद.. रा वेनीप्रसाद १ २५
- रसायन नकवी, अली इरशाद .. अपर. १ ५०
- रसायन पटेल, आर डी . सरदार ५ ००
- रसायन. मेहता, एम. एल नाँवली २ ५०
- रसायन. मेहता, एम एल .. नाँवली २ ७५
- रसायन मोहिले, रूपनारायण .. आगरा बुक १ ७५
- रसायन सिंह, आर एन विनोद २ ५०
- रसायन शास्त्र भार्गव, पृथ्वीनाथ नद ब्र एव नद स १ ७५
- वनस्पति विज्ञान. विद्यार्थी, आर डी श्रीराम मेहरा २ ००
- वनस्पति शास्त्र नाँवली ४ ५०
- प्रारंभिक अकणित मेहता भोपाल. १ ५०
- अध्यापक प्रशिक्षण वर्न, हरवर्ट जे गयाप्रसाद ६ ००
- अर्थशास्त्र. अग्रवाल, अमरनाथ स १९६३ फ्रैंक. ६ ०५
- अर्थशास्त्र कामताप्रसाद नाँवली ५ ००
- अर्थशास्त्र गुरुदेवगरण गयाप्रसाद ३ ५०
- अर्थशास्त्र ड्यूवेट, केवलकृष्ण भा १ एस चाद ६ ७५
- अर्थशास्त्र तेला, एस सी कृष्णा ब्र ३ २०
- अर्थशास्त्र दुवे, दयागकर रा वेनीमाधव २ २५
- अर्थशास्त्र सक्सेना, गकरसहाय श्रीराम मेहरा ५.०० से ७.५०
- अर्थशास्त्र सेन बुकलेड ६ २५
- आचार शास्त्र अगोककुमार मोतीगाल ५ ००
- आलेखन सागर, रामचंद्र सिंह अनिल प्र. ० ६२
- इतिहास की कथाये भारद्वाज, सी एल पजावी पन्डि १ ००
- उद्यान विज्ञान भा, गिवानद ४ भा रा वेनीप्रसाद. ०.३७ (प्र.)



- प्रारम्भिक औद्योगिक रसायन मिश्रा कि महल ५००  
 —रूपनी मन्निनयम गुप्ता, स्पराम आगरा बुक २५०  
 —वलन दत्त, उपेंद्रचंद्र पु भ ३००  
 —वलन ब्रजमोहन वासी हिंदू ३५०  
 —नार्चनिक रसायन गुप्ता, एम एल यग मैन ३७५  
 —कार्बनिक रसायन जैन, केशवदास आगरा बुक ४५०  
 —फाट कला शर्मा, श्रीलाल देहाती ०८५  
 —दृष्टि-विज्ञान सक्सेना, शिवदयाल रा वेनीप्रसाद भा १  
 १००, भा २ ०६८, भा ३ ०७५  
 —गति विज्ञान वृजवासीलाल गयाप्रसाद ४५०  
 —गति विज्ञान भोला सिंह नाँवल्डी ५००  
 —गति विज्ञान वैश्य, आर के रा वेनीप्रसाद २५०  
 —गति विज्ञान. सिन्हा, ए एस गयाप्रसाद ४००  
 —गति विज्ञान के उदाहरणों की कुजी लोनी, एस एल  
 एस चाद ४००  
 —गति विज्ञान के प्रश्नों के हल सिन्हा, ए एस गयाप्रसाद  
 २००  
 —चलन कलन ब्रजवासीलाल स २ रा वेनीप्रसाद २००  
 —जीव विज्ञान टडन, सतप्रसाद रा वेनीप्रसाद ४००,  
 भा १ जीव-विज्ञान २२५, भा २ वनस्पति विज्ञान  
 २२५  
 —जीव विज्ञान श्रीवास्तव, वाकेविहारीलाल नद ब्र २५०  
 —नागरिक शास्त्र आनंदप्रकाश. यग मैन भा १ ४००,  
 भा २ ५७५  
 —नागरिक शास्त्र श्रीदीव्य, एस एल. गयाप्रसाद ६५०  
 —नागरिक शास्त्र भा, एस, के नाँवल्डी २५०  
 —नागरिक शास्त्र राधारमण पु भ, रा १८७  
 —नागरिक शास्त्र श्रीवास्तव, ललितकुमार मिश्र-वधु २२५  
 —पाठशाला-प्रबंध टडन, रानी रा वेनीप्रसाद २००  
 —पारिणतीय विश्वनाथ शास्त्री मोतीलाल १००  
 —पुस्तककर्मण प्रसाद, आर बुकलेड ६७५  
 —दहीमाता गुप्त, रघुवरदयाल यग मैन ३५०  
 —दहीमाता भार्गवा, गोपाललाल कल्याणमल ४००  
 —भारतीय प्रथमशास्त्र ड्यूवेट, केवलकृष्ण एम चाद  
 ७७५  
 —भारतीय अर्थशास्त्र तैला, एम सी कृष्णा ब्र ३२०  
 —भौतिक विज्ञान जैन, वसंतलाल रा वेनीप्रसाद ४००  
 —भौतिक विज्ञान प्रसाद... बुकलेड ४५०  
 —भौतिक विज्ञान मायुग, टी एम एम चाद ४००  
 —भौतिक शास्त्र जैन, पी आर गयाप्रसाद ३५०  
 —भौतिकी गणितज्ञान, दयाप्रसाद श्रीराम मेहरा ३५०  
 —भौतिकी गणित रत्न ३००  
 —भौतिकी मैत्री, निरानवरण काशी हिंदू ८००  
 —भौतिकीज्ञान इन्द्रप्रकाश स ० बुकलेड ५५०  
 —भौतिकी विज्ञान अविहारी ना वेनीप्रसाद १००  
 —भौतिकी शर्मा, महेन्द्रनाथ ना वेनीप्रसाद १५०  
 —भौतिकी विज्ञान 'दक्षव' भा भ भा १ १५०,  
 भा. २ १५०, भा ३. २.००

- प्रारम्भिक रसायन अमीरचंद्र विद्यालकार हि सा सम्मे. १.५०  
 —रसायन वोकाडिया रत्न ३००  
 —रसायन वर्मा, फूलदेवसहाय काशी हिंदू ३५०  
 —रसायन शर्मा, एस जी. रत्न भा १ २५०, भा.  
 २ ३००, भा ३ ४५०, सपूर्णा. ६००  
 —रसायन शास्त्र गुप्ता, एम एल एस चाद २.५०  
 —रसायन शास्त्र वोकाडिया. रत्न. ३००  
 —रसायन शास्त्र भागवत, डब्ल्यू वी गयाप्रसाद ३००  
 —रासायनिक गणना श्रीवास्तव. कि घर, का २५०  
 —वनस्पति विज्ञान सक्सेना, आर के नद ब्र ४५०  
 —वाणिज्य अकर्मणित कवकड, माधवप्रसाद नद ब्र एव  
 नद स ४००  
 —वाणिज्य भूगोल भा, कामेश्वर नावल्डी १५०  
 —वाणिज्य शास्त्र सक्सेना, एम वी २ भा गयाप्रसाद  
 ६००  
 —विश्व-इतिहास शर्मा, घमडीलाल गुप्ता ब्रा २५०  
 —व्याकरण वाजपेयी, चंद्रशेखर रामप्रसाद. ०५०  
 —व्यापार प्रणाली भार्गव, गोपाललाल कल्याणमल ४.००  
 —शिक्षा मनोविज्ञान, कुमरिया, आर आर यूनिवर्सिटी  
 २००  
 —शिक्षा मनोविज्ञान चंद्रमाप्रसाद नद ब्र एव नद स.  
 १५०  
 —शिक्षा मनोविज्ञान चौवे, सरयूप्रसाद लक्ष्मी ना ३००  
 —शिक्षा सिद्धांत चंद्रमाप्रसाद नद ब्र एव नद स १.००  
 —शिक्षा सिद्धांत तथा बाल मनोविज्ञान. निरजनकुमार रा  
 वेनीमाधव २७५  
 —शिक्षा सिद्धांत तथा मनोविज्ञान निरजनकुमार नद  
 ब्र एव नद स ५००  
 —शैक्षिक मनोविज्ञान विद्यार्थी, विश्ववीर गर्ग ब्र ३७५  
 —समाजशास्त्र (प्रश्नोत्तर) दुवे, सरला प्रकाश बुक ५५०  
 —समाज-शास्त्र सत्यव्रत सिद्धांतालकार विजयकृष्ण ३५०  
 —सामाजिक मनोविज्ञान तोमर, रामविहारी सिंह श्रीराम  
 मेहरा १०००  
 —स्थिति विज्ञान वृजवासीलाल गयाप्रसाद ५००  
 —स्थिति विज्ञान भोला सिंह नाँवल्डी ५५०  
 —स्थिति विज्ञान सिन्हा, ए एस गयाप्रसाद ५००  
 —स्थिति विज्ञान के उदाहरणों की कुजी लोनी, एस एल  
 एस चाद ५००  
 —स्थिति विज्ञान के प्रश्नों के हल सिन्हा, ए एस  
 गयाप्रसाद ३००  
 —स्थिति विज्ञान तथा गति विज्ञान गगराडे, पी सी ..  
 लक्ष्मी ना. ३००  
 —स्वास्थ्य गुप्त, गौरीशंकर नद ब्र ० ६२  
 प्रार्थना गीता ० २०  
 प्रार्थनाए और ध्यान श्रीमाताजी २ न श्रीशरद्विद ३५०  
 प्रार्थना और ध्यान श्रीमाताजी श्रीशरद्विद मक्षिण ० ३०  
 —स्वास्थ्य नागर, नन कल्पवृक्ष ० ५०  
 —गाम्त्व गाधी, मोहनदास करमचद पु भ १७५

- प्रार्थना प्रदीप. नित्यानंद वेदालंकार गोविंदराम. ०.५०  
 —प्रवचन गाधी, मोहनदास करमचंद. सस्ता भा १.  
 ३००; भा २. २.५०  
 —मंत्र. सुरेशचंद्र वेदालंकार गोविंदराम १ ००  
 —सग्रह. मोहन नामधर, सपा प्र. प्रसारन ० ५०  
 —से बल रामपदारथदास रामलोचन (पा) १ ००  
 प्रासंगिक कथाकोश मेहता, गुलाब इ प्रे २.५०  
 प्रियतमा. पालीवाल, हरिदत्त 'निर्भय' शारदा साधना २ ७५  
 प्रियदर्शिका हर्ष सस्ता. ० ४०, — —हि. सा सम्मे  
 ०.६२  
 प्रियदर्शिनी बोरकर, बा भ सस्ता  
 प्रियदर्शी. जगन्नाथप्रसाद 'मिलिंद' गयाप्रसाद २ ५०  
 —अशोक उपाध्याय, हरिभाऊ हि प्र म २ ५०  
 —अशोक धूमकेतु वीरा ४ ५०  
 प्रियप्रवास उपाध्याय, अयोध्यासिंह 'हरिऔध' सशो. स १ १  
 हि. सा कु ३.५०  
 प्रियप्रवास. उपाध्याय, विश्वभरनाथ रतन ४ ००  
 प्रियप्रवास. उपाध्याय, विश्वभरनाथ .. रतन ४ ५०  
 प्रियप्रवास. सिंघल, ओमप्रकाश हि सा स १ ५०  
 —आलोक नवम सर्ग से अत तक मल्लिनाथ नाँवली  
 ३.५०  
 —की टीका त्रिवेदी, भवानीशकर रीगल ६ ००  
 —की टीका बाली, तारकनाथ विनोद ५ ००  
 —. दर्शन श्रीलाल 'भानु' शारदा प्र. (पा) १ ००  
 —प्रबोधिनी. श्रीवास्तव, शंकरदयालु रा वेनीमाधव २ ००  
 —: प्रश्नोत्तरी मिश्र, दुर्गाशंकर सरस्व पु. स १ ००  
 —मे काव्य, सस्कृति और दर्शन सक्सेना, द्वारिकाप्रसाद  
 विनोद ८.००  
 —विवेचन गुप्त, शिवस्वरूप नवयुग पु भ १ ७५  
 —समीक्षा कृष्णकुमार अशोक प्र. २ ००  
 —(हरिऔध) (प्रश्नोत्तर) भारतभूषण 'सरोज' विनोद  
 १ ००  
 प्रिया प्रकाश भगवानदीन 'दीन', लाला, सपा कल्याणदास  
 ५.००  
 —या प्रजा गोविंददास गगा १ ५०  
 प्रीत बडी अनमोल भागसिंह दीपक पब्लि ३ ५०  
 प्रीतम की खोज मे गुरुदासराम, राजजी महाराज कि  
 महल २ ००  
 प्रीति की खोज खाडेकर, वि स देशमुख ५ ००  
 —की रीति सक्सेना, शंभूदयाल नवयुग ग्र कु २ ७५  
 —धारा मिश्र, शिवदत्त. कल्याणदास ३ ००  
 प्री-यूनिवर्सिटी अर्थशास्त्र. खोसला, रोशन यूनिवर्सिटी  
 ७ ००  
 प्री-यूनिवर्सिटी अर्थशास्त्र ड्यूवेट .. एस. चाद ६ ००  
 प्री-यूनिवर्सिटी इतिहास भारतवर्ष युगलकिशोर यूनिवर्सिटी  
 १०.००  
 प्रेत और छाया जोशी, इलाचंद्र भा. भ ६ ००  
 —के घर मे. व्यथितहृदय एस. चाद. १.२५

- प्रेत बोलते है यादव, राजेद्र. राष्ट्रीय प्र मंडल एवं राष्ट्रीय  
 सा. स ४.७५  
 प्रेतात्मा शर्मा, विनोदशंकर चिनगारी १.५०  
 प्रेम और दया. शौकतराय राय. १ ००  
 —और बलिदान आदर्शकुमारी नवयुग पु भ २.००  
 —और विवाह वोल्फ, डब्ल्यू. बैरान राजकमल. १ २५  
 —कसौटी सीताराम इ प्रे. १ २५  
 —का अत. लुई, पियरे पुष्पी, — —सुरेद्र. ३.५०  
 —का चक्कर सूर्या कमलानी कि महल १.००  
 —की अतिम मोड टडन, लक्ष्मीनारायण ज्ञानालोक ५ ००  
 —की पराकाष्ठा. वर्मा, सत्यजीवन सा भवन, इ. २.५०  
 —की भेट वर्मा, वृन्दावनलाल गगा ३ ००, — —मयूर  
 १.२५  
 —की विजय आदिल रशीद सा प्र. २.५०  
 —की वेदी प्रेमचंद हस ० ७५  
 —के आसू चौधरी २ ५०  
 —के पुजारी शेक्सपियर, विलियम नव सा. प्र ० ५०  
 —गीत आनंद, राजकुमार, सपा. गिरिधर ३ ००  
 प्रेमघन-सर्वस्व उपाध्याय, प्रभाकरेश्वरप्रसाद... हि. सा.  
 सम्मे भा. १ ६ ००, भा २ १०.००  
 प्रेमचंद. दीक्षित, त्रिलोकीनारायण सा. नि, का २.५०  
 प्रेमचंद नागार्जुन पीपुल्स १ ५०  
 प्रेमचंद विश्वभर 'मानव' कि महल. ३.००  
 — उनकी कहानी-कला सत्येद्र सा रतन भ. ४ ५०  
 — एक अध्ययन (प्रश्नोत्तर) लक्ष्मीकांत 'मुक्त' रीगल.  
 १ ५०  
 — एक विवेचन मदान, इन्द्रनाथ स ३. राजकमल. ३.५०  
 —और उनका गबन बलदेवकृष्ण उमेश.  
 —और उनका गोदान बलदेव कृष्ण ओरिएटल ५ २५  
 —और उनका युग शर्मा, रामविलास. मुशीराम ३.००  
 —और कर्मभूमि रामवाशिष्ठ. विनोद २ ५०  
 —और गबन पाठक, जितेद्रनाथ नद ब्र एव नद स २ ५०  
 —और गाधीवाद गुप्त, रामदीन हि सा स १ ३ ५०  
 —और गोदान दीक्षित, श्यामसुंदरलाल लक्ष्मी ना. २ ००  
 —और गोदान पाठक, जितेद्रनाथ नद. ब्र एव नद स  
 २ ५०  
 —और गोदान रामवाशिष्ठ विनोद २ ५०  
 —और गोदान वाण्येय, सुरेशचंद भा. प्र. मंदिर १ ००  
 —और गोर्की गुटू, शचीरानी, सपा राजकमल ६ ००  
 —और ग्राम समस्या टडन, प्रेमनारायण रामप्रसाद ०.६५  
 —का नारी-चित्रण गीतालाल हि सा स २०.००  
 —की सर्वश्रेष्ठ कहानिया—आलोक मल्लिनाथ नाँवली.  
 १ ७५  
 —की सर्वश्रेष्ठ कहानिया एक समीक्षा रवि १.७५  
 —: कृतिया और कला टडन, प्रेमनारायण, सपा. हि. सा. भा.  
 ३ ५०  
 —के नारी-पात्र. अक्स्थी, ओम नेशनल. ५ ००  
 — गोदान. चौहान, रामगोपाल सिंह. रतन. ३ ००

- प्रेमचंद पर मे गिवरानीदेवी प्रेमचंद आत्माराम ७५०
- निरुद्ध और कला मदान उन्नयन सरस्व प्रे ५००
- गीत, कला और कृतित्व इनराज 'रहवर आत्माराम' ००
- पूर्व हिंदी उपन्यास जैलानप्रकाश हि सा स १२५०
- प्रतिभा गर्ग, कमलादेवी वगीय २००
- (प्रमोद) नर्मा, राजनाथ विनोद २५०
- मित्रों मे चौधरी ०२५
- व्यक्ति और नाहिणकार गुप्त नन्मयनाथ. सरस्व. प्रे १२००
- नाहिणकार विवेचन वाजपेयी, नददुलारे स ३ हि भवन ०२५
- सुभाषित और नृत्तिया करण सहगल ४२५
- मृति अमृताय, सपा हन ६००
- प्रेम चतुर्थी प्रेमचंद सरस्व प्रे एव हि पु ए १५०
- चन्द्ररिप्रा बहुरंगी पतिप्र, रजनी कल्याणमल.
- तीर्थ प्रेमचंद सरस्व प्रे ३००
- दगन पोद्दार, हनुमानप्रसाद, सपा गीता ०३१
- द्वादशी प्रेमचंद गंगा ३००, — — हन २००
- गद्य मित्र गिवरान कर्ह्यालाल २००
- गद्य जोगरा नर्मा, श्यामलाल श्रीपति ०७५
- निरुद्ध मुञ्जोनायाय, कार्तिकेयचरण हि पु. ए २२५
- वनमी प्रेमचंद गंगा २-२५
- वन देगाई वालजी गोविंदजी नवजीवन भा १ ०२५, भा २ ०६०
- वनगी प्रेमचंद नन्व प्रे एव हन ३००, — — हि पु ए ३५०
- वन जोगी, गीतगन हि पु ए २००
- वन पठित, पकान हि पा १००
- वन सन्धेयी, भगवतीप्रसाद पु. भ ३५०, — — राम-लोक (पा) १००
- वन मित्र प्रसाद, जयप्रकाश भा न ०७५
- वन मित्र, रामचंद्र नद ब्र एव नद न १५०
- वन मदन श्यामली देहाती ०७५
- वन प्रेमचंद नद न १००, — — सरस्व प्रे २००
- वन गीत सुदर्शन अमोघ पा १००; — — सहगल ०२५
- वन प्रेमचंद सरस्व प्रे एव हि पु ए ३००
- वन प्रेमचंद गंगा एव सरस्व प्रे ३१०
- वन मदी सुभाष देहाती ०७५
- वन मदी और सुदृष्ट चितार भूपण स्वामी हि. भा न. ०७०
- वन मदी उन्नयन मन्दा २५०, — — नवोदय ०६०
- वन मदी उन्नयन मित्र पा १००
- वन मदी मी गीता ११०
- वन मदी नद न १ श्रीमन्मन् ०००

- 1 प्रेम योग का तत्त्व गोवंदकी, जयदयाल गीता १.००
- रहस्य शुक्ल, रामचंद्र सरस्व इ. प्रे २००
- लतिका रगनारायणपाल भारतजीवन ०२५
- विजय गोविंददास, सेठ एस. चाद २५०
- नल्लगसुधा-माला गीता ०५०
- सागर हि प्रचा पु ३५०
- सागर वजरत्नदास, सपा सा प्र सभा ४५०
- सागर लल्लूलाल. रा वेनीप्रसाद, — — श्यामलाल ३.५०
- सागर छोटा लल्लूलाल. हि पु ए २००
- सूत्र चावला, काशीराम देहाती ३.००
- प्रेमाजलि गोपालशरण सिंह, ठाकुर इ प्रे ४००
- प्रेमाश्रम प्रेमचंद सरस्व प्रे १०००, सक्षिप्त ४१२, — — हस ६००, — — हि पु ए ६००
- एक अध्येयन टडन, प्रेमनारायण.. हि सा. भं. १५०
- प्रेमिका लिन यूताड हि पा १.००
- प्रेमिका वर्मा, ईश्वरीप्रसाद पु भ ३००
- प्रेमिकाए विश्वभर 'मानव'. कि महल ५००
- प्रेमी का उपहार ठाकुर, रवीन्द्रनाथ. आत्माराम ३००
- भक्त गीता ०३१
- भक्त उद्धव गीता ०२०
- प्रेमोपहार प्रेमचंद सरस्व प्रे २५००
- प्रेयरी नगर का बालक वर्ग, कार्लसैड इ प्रे ३२५
- प्रेरणा रघुवीरशरण 'मित्र' भा सा प्र २५०
- की गंगोत्री जोगी, रतनलाल रामलोचन (पा) १००
- के प्रदीप जोगी, बाबूराव मानकचंद ३.००
- तथा अन्य एकाकी टडन, प्रेमनारायण हि सा भ २००
- दीप नगराज, मुनिश्री आत्माराम ०.५०
- प्रवाह भावे, विनोवा अ भा सर्व १२५
- प्रेरी के मैदानों मे गर्ग, किशोर स ३ रानी २५०
- प्रेम कपोलिग गिवहरे, धर्मेश वीर आर्य सा १५०
- कार्य शिक्षक फौरी, श्यामलाल कि महल. ०६२
- प्रैक्टिकल आर्मेचर वाइडिंग नरेन्द्रनाथ देहाती ७५०
- घडीमाजी रामश्रवतार 'वीर' देहाती ४५०
- ज्योत्स्नी बागला, सीताराम. कि घर, का भा. १ ६२५, भा ४००
- फोटोग्राफी सहगल, चंद्रभान देहाती ४५०
- प्रोप्रेनिव स्कूल अर्थमेटिक गुप्त, रामचरण . गुप्ता ब्रा. २१२
- प्रोफेनर रागेय राघव राजमाल २५०
- प्रोफेनर नर्मा, यादवेद्र 'चंद्र' सहगल ४५०
- प्रो. और आचारभूत शिक्षा के लिए पुस्तकालय. भा प्रौढ २५०
- निदरा दिधि हरिदान 'सहयोगी' नद ब्र २००
- शिक्षा भा प्रौढ २००
- शिक्षा का उद्देश्य अ भा सर्व. १००
- शिक्षा के प्रयोग व विधान नर्मा, वेणीमाधव नद ब्र एव नद न ३.५०
- शिक्षा के निद्वान मायूर, मोहनलाल कल्याणमल २.००

- प्रौढ शिक्षा प्रसार जायसवाल, सौताराम नद ब्र एवं नद स १.१२  
 —शिक्षा मे सामाजिक और राजनीतिक उत्तरदायित्व. भा प्रौढ २५०  
 प्लबिंग और सेनीटेशन कालीचरण. देहाती ६००  
 प्लॉट का मोर्चा शमशेरबहादुर सिंह न्यू लिट १५०  
 प्लास्टिक वर्मा, फूलदेवसहाय अशोक प्रे ४००  
 —इडस्ट्री कालीचरण. देहाती. ४५०  
 —का व्यापार वर्मा, चदूलाल 'चद्र' चद्र कार्या ० २५  
 —गाइड दास, जे सी देहाती. २५०  
 प्लीहा चिकित्सा शर्मा, सुरेशप्रसाद. मेडिकल ०.६२  
 प्लेग. कामू, आल्वेयर राजकमल ७००  
 प्लेटफार्म कपूर, रामप्रकाश नद. ब्र. एव नद स २५०  
 प्लेटो का प्रजातंत्र. जावेट. इ. प्रे. भा. १. ५००, भा २ १०.००

## फ

- फकीर भजनावली दयाल फकीर शिव सा ० ७५  
 —वचनमृत दयाल फकीर शिव सा ०.३७  
 फक्कड की फाइल अरुण आत्मराम ६००  
 फटा पत्र पत, गोविंदवल्लभ गगा ३००  
 फणीश्वरनाथ रेणु की कहानिया कमलेश्वर. राजपाल २.५०  
 फने प्रकाश शूरवीर सिंह भा प्र मंदिर ३००  
 फतेहनामा गुरु खालसा जी का. गणेशदास विश्वेश्वरानद. ३.६०  
 फरार महतो, मोहनलाल 'वियोगी' छात्रहितकारी २५०  
 फर्ज और मुहब्बत शर्मा, जगदीश देहाती १ २५  
 फर्नीचर पालिश कालीचरण देहाती २५०  
 —बुक रत्नप्रकाश 'शील' देहाती १२.००  
 फल, उनके गुण तथा उपयोग ठाकुर, केशवकुमार. छात्रहितकारी २ २५  
 —फूलो की खेती प्रभात प्र १ ५०  
 —व सब्जी परिरक्षण उद्योग. कालीचरण देहाती १०.५०  
 —सचयन ठाकुर, रवींद्रनाथ नद स १ ७५  
 —सरक्षण रामअवतार 'वीर' देहाती २ ५०  
 —सरक्षण विज्ञान चतुर्वेदी जगपति आदर्श पु म. २.५०  
 —सब्जी सरक्षण चतुर्वेदी, जगपति. छात्रहितकारी १ ००  
 फलाहार. सतराम विश्वेश्वरानद १ २५  
 —चिकित्सा पाडेय, महेन्द्रनाथ. छात्रहितकारी. २ ७५;  
 — —रा वेनीमाधव. २ ५०  
 फलेना जामून. नगेद्रकुमार. ग्रथ भ ० ७५  
 फलो का भोला लहरी, मोहन. हिं प्रचा. पु १.२५  
 —की उपज. अनंत, अ. अ देहाती ५ ००  
 —की खेती. व्यास, नारायण दुलीचद. सस्ता ३ ००  
 —की खेती (फलदार वागवानी) गुप्ता, राजेश देहाती. ३ ७५

- फलो द्वारा इलाज देहाती २ ००  
 फलोद्यान जोशी, शकरराव. गगा १.५०  
 फसल निकोलायेवा, गालिना पीपुल्स ६ ००  
 फसल यशपाल विप्लव ६ ००  
 —रक्षक औषधिया रामेश्वर अशात. देहाती २.२५  
 —रक्षा की दवाए चतुर्वेदी, जगपति. छात्रहितकारी ०.५०  
 —व्याधियो की रोकथाम रामेश्वर अशात देहाती. १ ५०  
 फसलो की रक्षा आदर्श पु म १ ५०  
 —के प्रमुख हानिकारक कीडे सर्वोदय २ ५०  
 फाटामारा. सिलोनी, इनैजियो सरस्व प्रे २ ५०  
 फास बाजपेयी, प्रेमचंद्र आदर्श पु म १.००  
 फासी रघुवीरशरण 'मित्र' भा सा प्र ३.००  
 —की कोठरी मे. जमनादास 'अखतर' सहगल ४ ००  
 —के तख्ते से. फ्यूचिक, जूलियस पीपुल्स १.२५  
 —से पहले विजयचद, सपा प्रगतिशील. ४ ००  
 फाउंड्री प्रैक्टिस शर्मा, जयनारायण देहाती. ८.२५  
 —वर्क (धातुओं की ढलाई) कालीचरण. देहाती ४.५०  
 फाउस्ट 'गेटे'. शर्मा, भोलानाथ, अनु सा नि, व ४.५०  
 फागुन के दिन चार भुपतकर, प्रभुदयाल हिं. सा. भ. ४.००  
 —के दिन चार शर्मा, पाडेय वेचन 'उग्र' रणजीत ५.५०  
 फादर डेमियन बोरा. ० ६०  
 'फानी' बदायूनी जीवनी और सकलन. राजपाल. १.५०  
 फॉरगेट मी नॉट पत, गोविंदवल्लभ आत्मराम ४ ००  
 फारस की लोक-कथाए शाडिल्य, शिवनार्थसिंह. आत्मराम. १ २५  
 फाल्गुनी ठाकुर, रवींद्रनाथ. प्रभात प्र २.००  
 फासला प्यारेलाल 'आवारा' रूपसी ३ ००  
 फासला शान. मजीत २ ५०  
 फाहियान की भारत यात्रा. कमलेश्वर सस्ता. ० ४०  
 —की भारत यात्रा छाजेड, भागचद मगल १ ००  
 फिटकरी के गुण तथा उपयोग दीक्षित, रामसनेही देहाती २ ५०  
 फिटिंग शाप प्रैक्टिस आनदस्वरूप देहाती ७ ५०  
 फिनायल साजी कालीचरण देहाती २.५०  
 फिर क्या करोगे राम अरोडा, शर्ल एल लोकप्रिय. २ ५०  
 —निराशा क्यों ? गुलाबराय गगा १.५०  
 —बहुत दिन बाद द्विवेदी, प्रभाकर. चौधरी. २ ००  
 —बाजेगी शहनाई डे, सतीश देहाती १.२५  
 —वैतलवा डाल पर. विवेकीराय भा ज्ञानपीठ ३.५०  
 —याद तेरी आयी वशीधर 'राजू' कन्हैयालाल. ५.५०  
 —वसत आया उषा दि. प्रे. ३ ००  
 —से कहो गगाधर, मधुकर. पारिजात २ ५०  
 फिराक गोरखपुरी : जीवनी और सकलन राजपाल. १.५०  
 फिलिपियन का विजय युद्ध स्काँफ, एल्विन एच. एस. चाद. ४.००  
 फिलिपीन राजकमल २ ००  
 फिल्म-अभिनय-कला बेरी, डी पी आत्मराम ५ ००  
 —एक्टिंग गाइड. रत्नप्रकाश 'शील' देहाती. ५.००

- किंन नगीत गंगे, लक्ष्मीनारायण, संपा. भा २६ संगीत ४००  
 —टार एन्वम रंगभूमि २००  
 किंमो अप्सरायें गुप्ता, रमेश रंगभूमि ३००  
 —जल तरंग गाइड रामश्रवतार 'वीर' देहाती २५०  
 —त्रेना (वायलिन) गाइड रामश्रवतार 'वीर' देहाती २५०  
 —श्रीजो गाठ पुण्याजलि रामश्रवतार 'वीर' देहाती २५०  
 —वायलिन गाइड रामश्रवतार 'वीर' देहाती २५०  
 —हारमोनियम गाइड रामश्रवतार 'वीर' देहाती २२५  
 फिमलते नाये गोविंदसिंह गुल्लुप्रसाद ३००  
 फीरोजावाद परिचय शर्मा, गणेशलाल 'प्राणेश' फीरोजावाद. ६००  
 फीम लीटा दो शर्मा, वी के तुलसी १२५  
 फुटपाय राधाकृष्ण रामप्रसाद ३००  
 फुटवाल कैसे खेलें इंद्रसिंह 'भूकप' जिज्ञासा २००  
 —व वालीवाल के खेल सर्वोदय १००  
 फुरमत के क्षण गाइडिंगल, नरहर विष्णु सस्ता  
 फुनभरी तिवारी, देवेंद्रदत्त रा वेनीमाधव १००  
 फुटबूट चगताई अजीमवेग कि महल एव छात्रहितकारी १२५  
 फुनवाडी ठापुर, रवींद्रनाथ विश्वभारती २८०  
 फुनवागी नाणावटी, अमृतलाल, सभा हिंदु प्रचा. सभा  
 फूट का फल संत, गोकुलचंद्र औरिएटल १००  
 फूट दि लायब्रेरी ०६२  
 —श्रीर कलिया राजू भैया त्रिवेणी १००  
 —श्रीर कलिया शर्मा. रुद्रकुमार लक्ष्मी ना २५०  
 —श्रीर काटे शर्मा, यज्ञदत्त ऐडी ८००  
 —श्रीर काटे मुन, अनेकजेंडर लोकप्रिय २५०  
 —श्रीर धारायें हरिश्चंद्र. अगोक पा १००  
 —श्रीर पत्ते पाठक, कमलाकात इ प्रे २००  
 —श्रीर पत्यर कृष्णचंदर राजकमल ३००  
 —श्रीर पत्यर शर्मा, नरेंद्र ऐडी ३३०  
 —श्री तनहाई कृष्णचंदर लोकभारती ३००  
 —गुमारी पत्, द्यामाचरण गंगा ०७५  
 —तोटना मना है दुगान, कर्तारसिंह अभिज्ञान ५००  
 —दान कृष्णचंदर वोग ३००  
 फूतपुर में फरनावाद वर्मा, रजनीकांत रश्मि १००  
 फूत फुनवारी रामेश्वर अशात देहाती. २५०  
 फूतमद पाठमदे वाण्टरण नेशनल ०७५  
 फूत माना शर्मा, जगदीश देहाती १२५  
 फूत माना मुदर्शन, मया बोरा भा १ १५०, भा २ २००, भा ३ २५०  
 फूत में फोटा गुप्त, गणेश देहाती १२५  
 फूतकी मुदर्शन वोग. १००  
 —वादिवा (फूत पौधे फुनवारिया) अनन, अ अ देहाती ५००  
 —, गाने और वास्तव गणेशचरण जानकीठ  
 वा शर्मा संपान विजय ३००

- फूलो का गुच्छा सुदर्शन राजपाल ०५०  
 —की कहानिया सकसेना, शभूदयाल नवयुग ग्र कु ०५०  
 —की जन्म कथा सकसेना, शभूदयाल नवयुग ग्र कु ०५०  
 —की टोकरी रिमड, क्रिस्टॉफ वॉन आत्माराम १५०  
 —की डाली देवचंद्र स ६ हिं भवन ०६०  
 —की वाते शिवमूर्तिसिंह 'वत्स' रामा प्र २००  
 —की बोली वर्मा, वृ दावनलाल मयूर १२५  
 —की राजकुमार चौधरी, चडीचरण सा साधना, ०७५  
 —की लोक कथाए वर्मा, मनोहरलाल आत्माराम १५०  
 —की सुनहरी कहानिया सकसेना, शभूदयाल नवयुग ग्र कु ०५०  
 —के गीत निरकारदेव 'सेवक' इ प्रे १७५  
 —के गीत सकसेना, शभूदयाल नवयुग ग्र कु ०८७  
 —जैसे नन्हे मुन्हे श्रीवास्तव, हरीमोहनलाल नव-ज्योति प्र ०७५  
 फेफडो की तपेदिक नजलिन, एस पीपुल्स १२५  
 फेरि मिलवो शर्मा, अनूप स २ हिं प्रचा म ३५०  
 फेस क्रीम तथा फेस पाउडर कालीचरण देहाती २५०  
 फेज अहमद 'फेज' जीवनी और सकलन राजपाल १५०  
 —की गजले अक्वासी, नूर नवी सहगल २५०  
 फैंली बालकृष्ण नेशनल १२०  
 फैंसला भुवनेश्वर सिंह ग्र यालय १५०  
 फैंसला मेहता, रमेश देहाती २००  
 फ्रास का पत्रम गणतंत्र भा, मनोरजन नावली ०७५  
 —का सविधान गुप्ता, श्री पी केदारनाथ ४५०  
 —का सविधान गैद, डी एन . रतन १५०  
 —की क्रांति वैलक, हिलेर गयाप्रसाद १०००  
 —की राज्य क्रांति आदर्श पु म ३००  
 —की राज्य क्रांति वैलक, हिलेर गयाप्रसाद ७५०  
 —की लक्ष्मीबाई—देवी जोन वर्मा, सुरेंद्रकुमार आदर्श हिं ३००  
 —की लोक कथाए गुप्त, मन्मथनाथ आत्माराम १५०  
 —की लोक कथाए सत्यभूषण बाल मदन.  
 —की शासन पद्धति सरन, पी रस्तोगी २५०  
 —की शासन पद्धति और राजनीति राधारमण बुकलेड ३७५  
 —की शासन प्रणाली त्यागी, एम एस रस्तोगी १००  
 —मे शिक्षा चौवे, सरयूप्रसाद रा वेनीमाधव २००  
 फ्राइडवाद जोशी, मोहन साथी ७००  
 —एव नव्य फ्राइडवाद जोशी, मोहन साथी १०००  
 फ्रायड मनोविज्ञान प्रवेशिका हाल कैल्विन एस राजकमल २७५, ४५०  
 — मनोविश्लेषण फ्रायड, सिगमंड राजपाल १०००  
 फ्रूट प्रीजर्वेशन माथुर, उर्मिला देहाती १२५  
 फ्रैकलिन रुज्वेल्ट एस चाद  
 फ्रेंच क्रांति और नेपोलियन सुरेंद्रकुमार भा १ कि. महल. ३५०  
 —पालिश पेंटिंग थपलियाल. रा. वेनीमाधव ०५०

फ्रेच स्वयं शिक्षक. सत्यकेतु विद्यालंकार. राष्ट्र. प्रचा समि.

५००

फ्रेंच साहित्य का इतिहास. हिं. समि ७.००

## ब

बकिम ग्रथमाला चट्टोपाध्याय, बकिमचंद्र ३. भा हिं. पु. ए  
५०० (प्र)

—निबधावली चट्टोपाध्याय, बकिमचंद्र हिं ग्र २ १७५  
बगला और उसका साहित्य तिवारी, हसकुमार. राजकमल.  
२.२५

—काव्य की भूमिका. हुमायूँ कवीर राजकमल ४.००

—की प्रतिनिधि हास्य कहानिया पृथ्वीनाथ शास्त्री...  
आत्माराम १०००

—की सर्वश्रेष्ठ कहानिया. पुरोहित, राधेश्याम राजपाल.  
२००

—की सर्वश्रेष्ठ कहानिया राधेश्याम, अनु. हिंद पा १.००

—के आधुनिक कवि गुप्त, मन्मथनाथ कि महल. १५०

—पर हिंदी का प्रभाव. ब्रह्मानंद अशोक प्र १५००

—शिक्षक. मुखोपाध्याय, कार्तिकेयचरण हिं पु. ए. ०७५

—साहित्य का संक्षिप्त इतिहास सत्येद्र हिं समि ५००

—साहित्य की कला सेन, सुकुमार हिं सा सम्मे. १५०

—साहित्य दर्शन गुप्त, मन्मथनाथ सस्ता ४००

बगशार्दूल सीताराम चट्टोपाध्याय, बकिमचंद्र श्री प्रभाकर  
२००

बगल गुप्त, मन्मथनाथ राजहस १७५

—का काल. हरिवंशराय 'बच्चन' राजपाल २००

—का बीरवल स्नेहलता सस्ता ०४०

—की ब्रज बोली सत्येद्र, सपा क मु हि

—की लोक-कथाए गुप्त, मन्मथनाथ आत्माराम.  
१.५०

बजर धरती विश्वनाथ, सपा दि प्रे ३.००

बद कमरा परदेशी कल्याणमल ३००

—दरवाजा अमृता प्रीतम राजपाल २५०, — — हिंद पा.  
१००

बदनवार शर्मा, सावित्री त्रिवेणी २५०, ४५०

बदनवार. सकसेना, शभूदयाल नवयुग ग्र कु ४००

बदर और भालू भारतदास, जे राजकमल ०६०

—से युद्ध अरुण भा सा प्र ०५०

बदिनी के गीत वर्मा, चंद्ररेखा रीगल १.००

बदी रघुवीरशरण 'मित्र'. भा सा प्र ३००

—की चेतना त्रिपाठी, कमलापति ना प्र सभा ५००

—जीवन सान्याल, शचींद्रनाथ आत्माराम १०००

बदूक और बीन रागेय राघव विनोद ३५०

बदेमातरम्. चट्टोपाध्याय, बकिमचंद्र प्रचा पा १००

बधन सोमनाथ 'अकेला' चौधरी ३००

बधन. हरिकृष्ण 'प्रेमी'. स. ५. हिं भवन १२५

बधन और गति. टंडन, लक्ष्मीनारायण 'प्रेमी'. प्रेमी प्र. एवं हिं.  
सा भ. ३.००

—मुक्ति रामजीलाल 'सहायक'. छात्रहितकारी. २००

—विहीना. श्रीवास्तव, प्रतापनारायण जिज्ञासा. ५.००

बबई की गुडिया जगन्नाथ प्रभाकर. नेशनल. ०.७५

—की नई कशीदाकारी पद्मा. देहाती १.२५

—से टिलबरी तक. पाडेय, देवकी हिं प्रचा. पु. ०.६७

बसरी शुक्ल, कमल. अनुपम. ३००

बसी और मादल. ठाकुरप्रसाद सिंह राष्ट्रीय प्र मंदिर-एवं  
नया सा प्र ३००

बकरी मा मिश्र, दयाशंकर 'दहा'. आत्माराम. ०.५०

बकलम खुद नामवरसिंह रूपसी. (पा) १००

बकवास शौकत थानवी. नवयुग प्र ४.२५

बगदाद की लोक-कथाए मजहर हुसैन २. भा. सा. सेवक.  
१.५०

बगुला के पख. चतुरसेन, आचार्य. राजपाल. ४.७५

—भगत. रामवृक्ष बेनीपुरी. पु. भं. १.५०

—भगत. शेक्सपियर, विलियम रा बेनीमाधव. ०.७५

बगुलाशाह. गर्ग, किशोर. स ३ रानी १.५०

बघलखड की लोक-कथाए. सक्सेना, रामप्रताप. आत्माराम.  
१२५

बचन का मोल. मित्रा, उषादेवी नेशनल. ३.००

बचपन चेडविक, मेरी राजकमल. १२५

—, किशोरावस्था, युवावस्था. टाल्स्टाय. पीपुल्स २.८१

—की कहानिया. चट्टोपाध्याय, शरत्चंद्र. चौधरी. १.२५;

— — राजकमल. १.५०

—की भाकिया. व्यथितहृदय लोक-चेतना. १.००

—की स्मृतिया राहुल साकृत्यायन कि. महल १७५

—के दो दिन उपाध्याय, देवराज. मगल ४.८०

—के पहले पांच साल. मेकडानल्ड. राजकमल १.२५

बचो और बताओ शरण. सहगल ०५०

बच्चन चंद्रगुप्त विद्यालंकार राजपाल. २.००

बच्चा मेरा शिक्षक प्रैट, कैरोलिन राजकमल. १५०

बच्चे कब क्या सीखते हैं? अनंत, अ अ सहगल. ३.७५

—कहा से आते हैं? द्वारिकाप्रसाद नेशनल. २.००

—के प्रारम्भिक वर्ष जगदीशसिंह नेशनल ३.००

—क्या सीखे. भट्ट, गंगाप्रसाद २ भा. राष्ट्रीय प्र. मंदिर.  
०७५ (प्र)

—सुंदर कैसे बने जगन्नाथ. कि महल. ३.००

बच्चों का ग्रामोफोन बनाना माथुर, जे एस देहाती. १२५

—का टेलीफोन वेदप्रकाश देहाती. १:२५

—का देश रघुवीरशरण 'मित्र' भा. सा प्र १००

—का मच. सत, गोकुलचंद्र श्रीरिएटल ०.७५

—का महाभारत. वर्मा, रजन ग्रथमाला. १००

—का रग-मच ओभा, भालचंद्र अभिज्ञान १.५०

—का रेडियो वेदप्रकाश. देहाती. १२५

—का वायरलैस. वेदप्रकाश. देहाती १.२५

—का विकास और उनकी शिक्षा. अनंत, अ. अ. मगध. २.००

- का मिनेमा प्रोजेक्टर बनाना मायुर, जे एस देहाती १ ०५
- का न्टीम इजन बनाना मायुर, जे एस देहाती १ २५
- का न्वास्थ्य लुईकूने छात्रहितकारी ३ ००
- का न्वास्थ्य और उनके रोग मोदी, विट्ठलदास, सपा आरोग्य ३ ००
- का हितोपदेश मुदर्शन हिं ग्र २ १ ००
- की अच्छी आदतें छात्रहितकारी १ ००
- की कचहरी वर्मा, केशवचंद्र राजकमल १ २५
- की कला और शिक्षा देवीप्रसाद अ भा सर्व ५ ००
- की कहानिया तिवारी, रामनारायण राजपाल ० ५०
- की कहानिया मेहरोत्रा, राजेन्द्र सा नि, व ० ७५
- की कहानिया मतराम विश्वेश्वरानन्द १ ६६
- की दुनिया रणजीतभाई दि पु स २ ००
- की देस-भाल. बहादुरमल विश्वेश्वरानन्द १ ७५
- की देस-भाल घर और बाहर चतुर्वेदी कि महल २ ५०
- की फुलवारी श्रीवास्तव, रामचंद्र सा. सदन, दे ० ७५
- की रक्षा लुईकूने हिं पु ए ० ६२
- की शिक्षा शर्मा, वेणीमाधव नद ब्र २ २५
- की समास्याए मुदेश शरण रूपकमल १ ५०
- की समस्याए और समाधान जोशी, लीला परिमल १ ५०
- की मरल होमियोपैथिक चिकित्सा अग्रवाल, एस डी ज्ञान भारती २ ५०
- के नेल रामवालक, गोस्वामी सहगल २ ५०
- के नेल-गिलोने कनल, एस पी आत्माराम १ ००
- के गीत नीलकण्ठ कला म
- के नाटक. मेहता, रमेश देहाती ३ ००
- के निराना गिरिराज त्रिवेणी १ ००
- के प्यारे बापू कपूर, रामप्रकाश नद ब्र एव नद न ० ७५
- के बापू जहरखन्दा राजहस. २ २५
- के बापू जीवनाथ अग्निष्टल ० ७५
- के बापू द्विवेदी, मोहनलाल उ प्रे २ ००
- के बापू भागवत, ज्योतिराल राष्ट्रीय प्र मडल एव राष्ट्रीय ना. न. १ ५०
- के बापू नखेन्द्र ना रत्न भ ० ७५
- के भाष-गीत उपाध्याय, अयोध्यामिह 'हरिऔध' गगा १ ००
- के चंद्रनाथ गोम, यामिनीकांत उ प्रे २ २५
- के नवत भद्रनाथ, मद्र त्रि घर, स्वा ० ७५
- के गीत और उनके राज पाठेय, मद्रनाथ छात्र-शिक्षा २ ००
- के गीतिका केन्द्रप्रकाश देहाती १ २५
- की कला भा, भिषाचंद्र २ भा सा नाथना ० ५५ (प्र)
- की रोग सर्वोदय. १ ५०

- वजाज जी का पत्र-व्यवहार कालेलकर, काका अ भा सर्व. १ २५
- वजी वासुरी धीरे-धीरे गुप्त, छैलविहारी. रामप्रसाद २ ००
- वटवारे का तूफान यशपाल पजाबी पु ३ ००, — — स्टार. (पा) १ ००
- वटेशुर की घुडिया अग्रवाल, अमरनारायण कि. महल ०.७५
- वडा आदमी शर्मा, यादवेन्द्र 'चंद्र' राजपाल ४ ००
- और छोटा आदमी वर्मा, नगेन्द्र ज्ञानपीठ १ २५
- महाभारत भाषा देहाती १ २ ००
- योगासन देहाती २ ५०
- वह बस को बाना नीरज भा प्र मंदिर.
- वडी दीदी चट्टोपाध्याय, शरत्चंद्र इ प्रे १ ५०, — — चिनगारी १ ५०, — — नवयुग पु भ १ ००, — — पुष्पी ० ४४, — — श्यामलाल २ ००
- वडी चपा छोटी चपा लक्ष्मीनारायणलाल राजकमल ४ ००, (पा) १ ००
- वडी आखे उपेन्द्रनाथ 'अशक' नीलाभ ४ ००, — — हिंद पा १ ००
- वहिन चट्टोपाध्याय, शरत्चंद्र श्यामलाल १ ५०
- वडे आदमियों की वाते कलार्थी, मुकुल भाई गुजरात १ ००
- की वडाई और दूसरी कहानिया कौशल, रामस्वरूप. आत्माराम २ ००
- घर की वेटी प्रेमचंद हस १ ००
- घर वडे लोग गोविंदसिंह पुष्पी २ ००
- चाचाजी ठाकुर, रवीन्द्रनाथ चौधरी १ ५०
- जब छोटे थे मिश्र, महेन्द्रनाथ आदर्श पु भ ० ५०
- भाई साहब (सचित्र) प्रेमचंद सरस्व प्रे.
- लोग सतराम विश्वेश्वरानन्द १ २५
- लोग वडी बात कल्याणदास १ ००
- लोगो की वडी वाते मजूमदार, सुधीरचंद्र ज्ञानपीठ २ ००
- वन मे छोटा घर विल्डर, लारा इगल्स इ प्रे २ ५०
- सरकार गुप्त, भैरवप्रसाद हिंद पा १.००
- वडो का वचपन शर्मा, विश्वमित्र राजहस २ २५
- का वडपन मिश्र, महेन्द्रनाथ आदर्श पु भ १ ००
- की कहानी अग्रवाल, शशि कि महल ० ७५
- की वडाई अग्रवाल, शशि कि महल १ ५०
- की वाते मदनमोहनलाल गगा १ ००
- के जीवन से शिक्षा गीता ० ३७
- के व्यग्य विनोद प्रभात पब्लि १ ५०
- के व्यग्य विनोद श्रीवास्तव, हिमाशु सन्मार्ग ०.७५
- मे मिलने के विचित्र अनुभव महेशनारायण कल्याणदास एव वि ग्र कु ३ ००
- वट्टे अमप्रकाश सर्वोदय १ ००
- का काम रामअवतार 'वीर' देहाती ४ ५०
- वडने चरण कविता, एस., मपा भा भा प्र १ ००
- वट्टिया-मोदा वालकृष्ण नेजनल १ २०
- वटे चलो माहेश्वरी, द्वारिकाप्रसाद राजकमल १ ००
- चलो बहादुरो. पाठेय, कातानाथ 'चौच' चौधरी. १.५०

बत्तख पालना कालीचरण देहाती. ०५०  
 बदचलन सोमनाथ 'अकेला'. कन्हैयालाल २५०  
 —कलिया आवारा भवरे श्यामसुंदर 'सुमन'. आदर्श पु म  
 १५०  
 बदनसीव. गोविंदसिंह कल्याणदास ३.००  
 बदनाम. गोविंदसिंह आदर्श पु म ३००  
 बदनाम सोमनाथ 'अकेला' कन्हैयालाल ४.००  
 —गली. कमलेश्वर स्टार (पा.) १००  
 —गली. गोविंदसिंह पुष्पी. १००  
 बदबू. गोविंदसिंह. कन्हैयालाल ३७५  
 बदरग पत्ते जोशी, सूर्यकुमार अशोक पा १२५  
 बदरीनाथ विष्णु प्रभाकर सस्ता ०४०  
 बदलता इतिहास शैलेन्द्र. रामप्रसाद ०८७  
 —युग भटनागर, महेंद्र प्रबुद्ध १.५०  
 —समाज मिश्र, रमाकांत हि प्रचा. म १.००  
 बदलती तस्वीरे हरीश. चिनगारी ३५०  
 —दिशाए सत्यप्रकाश 'मिलिंद'. सूर्य प्र. ३००  
 —दुनिया खमानीसिंह 'धनगर' नवीनतम  
 —दुनिया पाठक, सुरेश्वर ज्ञानपीठ २.७५  
 —राहे शर्मा, यज्ञदत्त. सा प्र ३००  
 बदलते इरादे. टडन, प्रतापनारायण हिं. सा भ. ४.७५  
 —दृश्य ओभा, राजवल्लभ हिं भवन ६००  
 —रग जयनाथ 'नलिन'. नेशनल.  
 —रूस मे खाडिलकर, रा र. ज्ञानमडल. ३.५०  
 बदला गुप्त, हरिकृष्णदास 'हरि' नेशनल. ०८०  
 बदला. डायल, कानन हिंद पा १.००  
 बदली की धूप प्यारेलाल. रूपसी ४००  
 —की रात प्यारेलाल 'आवारा' चौधरी ३.००  
 —की रात. बैरागी. नीलाभ ३००  
 बदसूरत गोविंदसिंह गुल्लूप्रसाद ३००  
 —बत्तख. एडर्सन, हैस सर्वोदय सा ०७५  
 बद्रीनाथ की यात्रा सर्वोदय ०५०  
 बनविलाव गर्ग, किशोर स ४. रानी १५०  
 बन लो हीरे दासगुप्त, हरिकृष्ण सुंदर १००  
 बनवासी गुरुदत्त भा सा. सदन ३००  
 —पाडव सब्बरवाल, उर्मिल आत्मराम १००  
 बनस्थली नाथूराम 'नम्र' सा. नि, व ५००  
 बनारस की बुढिया पाडेय, वीरेन्द्रकुमार गगा. १००  
 बनारसी एक्का वेठव बनारसी आनंद पु., वा २००  
 —रईस. भैयाजी बनारसी चौधरी २२५  
 बना रहे बनारस मुखर्जी, विश्वनाथ. भा ज्ञानपीठ २५०  
 वप्पारावल. शर्मा, मनु कल्याणदास ५००  
 बबुआ के बोल. सत, शाता. वाल सदन ०.७५  
 बबूल की छाव शानी नीलाभ. ३५०  
 —के गुण तथा उपयोग दीक्षित, रामसनेही देहाती ०८७  
 —चिकित्सा विधान शर्मा, सुरेशप्रसाद मेडिकल ०३७  
 बया का घोसला धिल्डियाल, रमाप्रसाद 'पहाड़ी' प्रकाशगृह  
 ४.२५

बया का घोसला और सपि. लक्ष्मीनारायणलाल नीलाभ  
 ३.५०  
 बयालीस श्रीवास्तव, प्रतापनारायण जिज्ञासा ६५०  
 बयालीस श्रीवास्तव, प्रतापनारायण ज्ञानमडल. ४.५०  
 बरखा प्यारेलाल 'आवारा' रूपसी. २२५  
 बरगद वेदी, रामेश आत्मराम १००  
 बरगद श्रीधराणी, कृष्णलाल वीरा २००  
 —की छाया. देवराज 'दिनेश' सस्ता. २.५०  
 —की छाया सगर, सत्यप्रकाश पैरामाऊट एव राजकमल.  
 २५०  
 —की जड. धिल्डियाल, रमाप्रसाद 'पहाड़ी' प्रकाशगृह ४००  
 —की वेटी. उपेन्द्रनाथ 'अश्क' नीलाभ ३२५  
 —के गुण तथा उपयोग दीक्षित, रामसनेही देहाती ०.८७  
 बरगीत. शकरदेव... असम ०४०  
 बरफीले देश मे राजकमल १.००  
 बरवै रामायण गीता ०.१२  
 —रामायण तुलसीदास. शर्मा, बामदेव, टीका. रा वेनीप्रसाद  
 ०.३७  
 बरसात पाठक, रामनाथ 'प्रणयी' कला-नि. १.००  
 बरसात वारिद भागलपुर बुक. १.५०  
 बरसि गयो बदरा ज्वालाप्रसाद 'भगत'. रूपसी. १५०  
 बरसीम सर्वोदय ०१२  
 बराबास. लागरक्विस्त, पायर कि. महल. २५०  
 बराबास. लैगरक्विस्त, पार. अभिज्ञान २५०  
 बर्कले दर्शन भटनागर, राजेन्द्रस्वरूप. लोकभारती ४.००  
 बर्थ कट्रोल धीर, केवल. अशोक पा १००; — —सहगल  
 ३२५  
 —कट्रोल. लक्ष्मीनारायण. हिंद पा १००  
 बर्फ का दर्द उपेन्द्रनाथ 'अश्क' हिंद पा. १००  
 —का ससार हसरज दर्शक दि. पु स ३००  
 —की कैद जयप्रकाश नवयुग प्र १५०  
 —की गुडिया जयप्रकाश 'भारती'. शकुन १००  
 —की रानी व्यास, श्रीकांत, अनु राजपाल. १५०  
 —की समाधि शर्मा, यादवेन्द्र 'चंद्र' हिंदिया २७५  
 —के घर मक्तबा ०७५  
 —के फूल. कृष्णचंदर. प्रगतिशील ३००  
 —के हीरे शर्मा, सत्येन्द्र, सपा सा सदन, दे २५०  
 —वनी अगारे. इंदरजीत सिंह 'तुलसी' आर्टस ७००  
 बर्वरीक राधाकृष्ण अभिज्ञान २००  
 वर्मा दि लायव्रेरी ०६२  
 वर्मा. शर्मा.. ओरिएटल ०७५  
 वर्मा सत्यपाल विद्यालकार. राजकमल ०००  
 —कल और आज. मिश्र, श्यामाचरण ज्ञानमडल ६.००  
 —की लोक-कथाए रमेशचंद्र 'प्रेम' कि महल. १५०  
 —, स्याम, हिंद चीन कि महल १५०  
 वलिन मेल गुप्त, राजेश देहाती १२५  
 बलचनमा नागार्जुन. कि. महल. ३.००  
 बलराज. भनोट अशोक प्रे. १५०



दलवन सिंह की सर्वश्रेष्ठ कहानिया. उपेन्द्रनाथ 'अशक', सपा. नीलाभ.

बलाई गोविर्दसिंह कन्हैयालाल ७५०  
बनारस ठाकुर, रवीन्द्रनाथ अपोलो २.५०, — — प्रभात पब्लि २००

बनि का बकरा गुप्त, मन्मथनाथ चौधरी १७७

बलिदान खत्री, दुर्गाप्रसाद लहरी १००

बलिदान रघुवीरशरण 'मित्र' भा सा प्र ५००

बलिदान. गाय, वैजनाथ आदर्श पु भ ५००

बलिदान ह्यूगो, विक्टर आदर्श हि ४५०

—अरु मानवधर्म ४००

—की कहानिया गुप्त, भैरवप्रसाद धारा २५०

—की कहानिया प्रशांत बाल सदन ०७५

—मदिर मिश्र, गीरीशकर इ प्रे २००

बनिदानो युवक सर्वोदय १२५

बलिपथ के गीत जगन्नाथप्रसाद 'मिलिद' आत्माराम ४००

बलिष्ठ बनि यन प्रकाश, जी घोरा १००

बल्गेरिया की लोक-कथाए शर्मा, रामकृष्ण आत्माराम. १५०

बवडर शरण नवयुग प्र ५५०

बनत और पतझर पाडे, विनोदचंद्र विश्वविद्यालय १५०

—के फूल विराज नेशनल ४००

—धीरे-धीरे मृत्तितूत, आचार्य नारायण प्र १००

—प्रभा उर्फ एफ पैमा मेहरा, जमुनादास हि पु ए १२५

—फिर आयेगा हेमराज 'निर्मम' भारतेंदु भवन ६.००

—मेना प्रताप चौधरी ४५०

—मेना मिश्र, ठाकुरदत्त कि महल. १५०

बनती बुआ जी शर्मा, यज्ञदत्त सा प्र ५.००

बनता है गावों में भागत मनोहर प्रभाकर कत्याणमल १५०

बनोरा युगवाहा 'कात' चौधरी ३००

बनोरा महतो, मोहनलाल 'वियोगी' गधमाला, २००

बनो मेरे नैनन में त्रिवेदी, रश्मिकांत साम्प्रतिक १०.००

बनाने कदम फिनलनी राहें राजपेयी, प्रेमचंद्र आदर्श पु म १००

बनाने कदम रामकृष्ण आत्माराम २२५

—बनाने कदम अमृत नव ना प्र ३५०, — — पैरामाऊट ३२५

बनाना पानी गुप्त, मन्मथनाथ ना भवन, इ ३२५

—बनाने शुभल, गिरिजादत्त 'गिरीश' आदर्श पु म ३५०, — — ग वेनीमाधव २००

—बनाने टौर का शरण शशोक्त पा १२५

—बनाने दूत की प्रार्थना, चारुचंद्र गंगा ६५०

बनाना पानी तेजस स्पर् (पा) १००

—बनाने मिश्र, मित्रप्रसाद 'रत्न' राजकमल (पा) १००

—बनाने बरने मिनारे बहोरे रवीन्द्रनाथ 'प्रज्ञान' मनु २५०

—बनाने बरने मिनारे ३५०

बहती रेता गुरुदत्त. भा सा सदन ५००

बहते आसू. चतुरसेन, आचार्य चौधरी ५००

—बादल सक्सेना, उपा राज किशोर २००

बहन को सीख वर्मा, मुकुटविहारी आत्माराम. २००

बहादुर टाम ट्वेन, मार्क राजपाल १५०

—दमकलवाले और मोती बालबधु हि प्रचा पु ०६७

—बलराज किशोर उपन्यास सीरीज कृशनचंदर ८ भा

हि ग्र २ १.६० (प्र)

—शाह चतुर्भुज साधना म १५०

—शाह जफर : जीवनी और सकलन. राजपाल १५०

बहादुरी का भूत गुप्त, विश्वनाथ, अनु सस्ता १५०

बहाना गोविर्दसिंह कन्हैयालाल ३००

बहानेवाजी कौलत्यायन, भदत आनंद नीलाभ ३२५

बहार आने तक आदिल रशीद रूपकमल ३५०

—ए-शायरी शर्मा, राजेश अर्चना प्र (पा) १००

बही खाते की भूमिका मनमोहन प्रसाद. बुकलेड ६००

बहु-उद्देशीय सामान्य विज्ञान श्रीवास्तव, वी. पी.... यग मैन ७७५

बहुत दिनों की बात है आनन्दकुमार आत्माराम १.५०

बहुरंगी मधुपुरी राहुल साकृत्यायन कि महल एव पीपुल्स. ३००

बहू की विदा रस्तोगी, विनोद एस चाद २५०

—बेटी श्रीकृष्ण आत्माराम ०७५

—रानी ठाकुर, रवीन्द्रनाथ पुष्पी ०७५६— —सुरेंद्र २२५, — —हिद पा १००

—रानी सक्सेना, शम्भूदयाल नवयुग ग्र कु ४००

बहेडा वेदी, रामेश आत्माराम १२५

बाकीदास ग्रथावली रामवर्णा, सपा ३ भा ना प्र. सभा ४५०

बावों न नाव इस ठाव उपेन्द्रनाथ 'अशक' नीलाभ

वास की फास वर्मा, वृदावनलाल मयूर १००

—बेत और पत्तो का काम दीक्षित, राजेश श्री प्रभाकर १५०

वासुरी ठाकुर, रवीन्द्रनाथ प्रभात प्र २००

वासुरी द्विवेदी, सोहनलाल इ प्रे २७५

—गाडड रामश्रवतार 'वीर' देहाती २५०

—वज रही त्रिगुणायत, जगदीश वि राष्ट्र ८००

बाह पसारे प्यार पुकारे अवस्थी, मणिलाल 'रसिक' आदर्श पु म १००

बाहों के घेरे ग्यारेलाल 'आवाग' रूपसी ४००

बाइविन की लोक कथाए वर्मा, गणेशलाल आत्माराम १५०

बाईमवी सदी राहुल साकृत्यायन कि महल १२५

बा और बापू कलार्थी, मुकुट नवजीवन १५०

—श्री बापू चतुरमेन, आचार्य राजपाल १००

—श्री बापू की जीतन छाग में गाधी, मनुबहन नवजीवन ०५०

बाग बगीचा मुन्शेपाध्याय, कार्तिकेयचरण हि पु. ए. २५०

- बाग लगाइए. सर्वोदय. १५०  
 बागवानी से लाभ मुहम्मद हुसेन दीन, सैयद. पु. भ., रा  
 भा. १. ०.७५, भा २ ० ६२  
 बागी सोमनाथ 'अकेला' कन्हैयालाल २५०  
 —की बेटी चौधरी २.२५  
 बाघ और कगन वासुदेव नारायण 'आलोक'. ग्रंथ भ. ०.५०  
 —और सिंह के मुह मे इ. प्रे १००  
 —का शिकार नगायच, प्रकाश उमेश २.००  
 बाचाखान. बुखारी, फॉरिंग सहगल ६००  
 बाजार समाचार चौहान, शिवध्यानसिंह... सा भवन, आ.  
 १.००  
 —समाचार मिश्र, बाबूराम... हि प्रचा पु १७५  
 —समाचार राजेश्वरदयाल कि महल २००  
 —समाचार एव पत्र लेखन सरीन . कृष्णा ब्र. २००  
 —समाचार एव पत्र-व्यवहार अग्रवाल, आर सी सा भवन,  
 आ २५०  
 —समाचार एव पत्र-व्यवहार. बहुगुणा, सुरेन्द्रदत्त .. लक्ष्मी  
 ना ३००  
 —समाचार एव पत्र व्यवहार माथुर, राजेन्द्रकुमार आशा  
 पब्लि. ३५०  
 —समाचार तथा निबन्ध-दिग्दर्शन शर्मा, एस. पी . लक्ष्मी  
 ना. २५०  
 —समाचार, पत्र-लेखन तथा सारांश लेखन. सकसेना, कैलाश-  
 बहादुर एस चाद ३५०  
 —समाचारों का सरल अध्ययन अग्रवाल .. रामप्रसाद २००  
 —समीक्षा गुप्त, रामविलास स. २ भा भा प्र २.००  
 बाजीप्रभु देशपांडे विष्णु प्रभाकर सस्ता. ०४०  
 बाजी रणभेरी मालवीय, उमाकांत सा भवन, इ ३००  
 बाजीराव पेशवा उमाशकर. उमेश २.००  
 —मस्तानी केशर चौधरी ५००  
 बाजे पायलिया के घुघरू मिश्र, कन्हैयालाल 'प्रभाकर'. भा.  
 ज्ञानपीठ ४००  
 —बाजे बासुरी रुद्रभान सर्वोदय सा ०७५  
 बाणभट्ट. कमलेश नया सा प्र १५०  
 —की आत्मकथा द्विवेदी हजारीप्रसाद हिं ग्र र. ५५०  
 —की आत्मकथा समीक्षा. भाटी, देशराजसिंह अशोक प्र.  
 २५०  
 बाणाचरितसार लद्दू, आर डी गयाप्रसाद २५०  
 बात की बात शर्मा, परमानंद विश्वेश्वरानंद १.००  
 —बात मे बात यशपाल विप्लव ३००  
 बाते जिसमे सुगंध फूलों की अहमद सलीम भा ज्ञानपीठ  
 ३००  
 बातों की खिचड़ी यादव, वैजनाथ राष्ट्र प्र म. १००  
 बादर बरस गयो गोपालदास 'नीरज' आत्माराम ३००  
 बादल कुमारी चौधरी, चडीचरण सा साधना ०७५  
 —छट गये कृष्णचंदर सहगल ३००  
 बादलों के आर-पार. अवस्थी, राजेन्द्र 'तृपित' प्रचा पा १००  
 —के पार. टैगोर. रूपसी (पा.) १००

- बादलो के पार. हरिकृष्ण 'प्रेमी'. आत्माराम. ३.५०  
 बादाम के गुण तथा उपयोग दीक्षित, रामसनेही देहाती.  
 ०७५  
 बाधित बालक शर्मा दत्तबधु १७५  
 बानगी सरस्व. प्र. म १.५०  
 बानर और उनकी जातिया अनंत, अ अ. नवयुग प्र १.५०  
 बान, रस्सी, रेशो का उद्योग. ओमप्रकाश सर्वोदय ०.७५  
 बाप बेटी शर्मा, जगदीश. देहाती. १.२५  
 —बेटी शर्मा, यज्ञदत्त. सा प्र ५.००  
 —बेटे तुर्गनेव. आत्माराम. ३५०  
 —बेटे की कहानी. सकसेना, शंभूदयाल नवयुग ग्र. कु ०.५०  
 बापू गुप्त, सियारामशरण सा सदन, चि. १.००  
 बापू जगदीशचंद्र शास्त्री अशोक प्रे  
 बापू बिडला, घनश्यामदास. सस्ता २००  
 बापू यशोविमलानंद ओरिएटल. ०६२  
 बापू रामधारीसिंह 'दिनकर'. उदयाचल १५०  
 बापू वर्मा, रामकुमार राज किशोर १००  
 बापू. साभर, बाबूलाल अ भा अणुव्रत ०१६  
 —और प्राकृतिक चिकित्सा हीरालाल. स २. निरोगी ०२५  
 —और बा की अतिम भाकी गाधी, मनुबहन नवजीवन  
 ०८०  
 —और भारत त्रिपाठी, कमलापति नद ब्र. एव नद. स  
 ५००  
 —और मानवता त्रिपाठी, कमलापति. नद. ब्र एव नद. स.  
 ५.००  
 —का सपना. चतुर्वेदी, नर्मदेश्वर सा. भवन, इ. १००  
 —का स्वराज्य अभी नहीं आया. सकसेना, शंभूदयाल नवयुग  
 ग्र कु १००  
 —की अमर कहानिया भा, कमलनारायण 'कमलेश' ग्रंथ  
 भ. ०५०  
 —की अमर वाणिया द्विवेदी, रामशकर रा. वेनीमाधव.  
 ०७५  
 —की अमर कहानिया भा, कमलनारायण 'कमलेश'. ग्रंथ  
 भ ०.५०  
 —की ईश्वर प्रार्थना मिश्र, रामदास 'विजय' स २ हिं.  
 प्रचा. म ०२५  
 —की कलम से गाधी, मोहनदास करमचंद नवजीवन. २५०  
 —की कहानिया रामसकल सिंह. अशोक पु म भा. १.  
 १००, भा २ ११२  
 —की कहानी कृष्णा हठीसिंह. बवई प्र २.२५  
 —की कारावास-कहानी नैयर, सुशीला सस्ता ७५०  
 —की गृह माधुरी गाधी, मनुबहन. अ भा सर्व ०.३०  
 —की छाया मे बलवतसिंह नवजीवन ४००  
 —की भाकिया कालेलकर, काका नवजीवन १००  
 —की दिनचर्या गुप्त, गौरीशकर नद ब्र ०.७५  
 —की प्यारी तकली अ भा सर्व ०१२  
 —की बात खडेलवाल, दामोदरदास सा सदन, चि. १००  
 —की वाते. पाठक, सुरेश्वर ज्ञानपीठ. ०.७५



- बालक के गुण. गीता. ० २२  
 —के प्रति विद्वयता. स्वर्णलता... कि महल २५०  
 —के लालन-पालन की कला नाहर कि. महल २.५०  
 —घर के अंदर और बाहर अनंत, अ अ कि महल. २५०  
 बाल कथा. सुषमारानी एस चाद १.२५  
 बाल कथाए शर्मा, रामकृष्ण हि सा. भ ० ७५  
 बालक बनाम विज्ञान भगवानदीन, महात्मा अ भा सर्व  
 ०.७५  
 —बालिकाओं की मनोवैज्ञानिक समस्याए द्वारिकाप्रसाद.  
 नेशनल २५०  
 —बुद्धिमान कैसे बने ? अनंत, अ अ कि महल २५०  
 बाल कल्याण के मूल-सिद्धांत, सुखिया... लक्ष्मी ना. ३५०  
 बाल कविता-माला शुक्ल, देवीदत्त इ प्रे ० ५०  
 बाल कवितावली उपाध्याय, अयोध्यासिंह 'हरिऔध'. हि सा  
 कु. १ २५  
 बाल कवितावली सकसेना, शभूदयाल नवयुग ग्र कु ० ५०  
 बालक शिष्ट कैसे बने रतिभानु सिंह 'नाहर' छात्रहितकारी  
 ०.८५  
 —सीखता कैसे है ? भगवानदीन, महात्मा. अ भा सर्व  
 ०.५०  
 बाल कहानी कुज जनक राजलक्ष्मी सा सदन, दे ० ७५  
 बालक ही तो ऐसे शिवासिंह 'सुमन' छात्रहितकारी ० ६५  
 बालकाड (मूल सहित) मल्लिनाथ नावल्टी. ३००  
 बाल कालिदास पाडेय, रूपनारायण इ प्रे १००  
 बालकृष्ण भट्ट व्यास, ब्रजमोहन नेशनल. ४५०  
 बालकृष्ण राव सा सदन, चि ० ७५  
 बालकृष्ण शर्मा नवीन' दुवे, लक्ष्मीनारायण. हिंदु एकेडेमी.  
 १५.००  
 बालको का पालन पोषण आचार सस्ता. २.५०  
 —का योरप. मिश्र, कृपानाथ पु भ. १.००  
 —का विवेक टाल्स्टाय सस्ता ० ५०  
 —की बातें. गीता ० २५  
 —के चलन सतराम 'विचित्र' आत्माराम २००  
 —के प्रिय कवि चतुर्वेदी, पृथ्वीनाथ विनोद १ २५  
 —के सुनहरे लेख-पत्र सकसेना, कृष्णा. नवयुग ग्र. कु.  
 ० ६०  
 बाल क्यारी प्रकाशसिंह पजाबी पब्लि ० ५०  
 —गगाधर तिलक चौहान, मनहर सस्ता. ० ४०  
 —गाधी गोविंदसिंह, सेठ एस चाद. ० ५०  
 —गीत गुजराल, शीला आत्माराम १ ५०  
 —गीत. भारद्वाज, कृष्णदत्त ओरिएण्टल ०.७५  
 —गीता शर्मा, रामजीलाल इ प्रे १ २५  
 —गोपाल. शुक्ल, देवीदत्त इ प्रे ० ५०  
 बालचर शिक्षा के मूल सिद्धांत वाष्णोय, सुरेशचंद्र भा प्र  
 मंदिर ० ७५  
 बालचरो की बहादुरी माणिक, हरिदास. चौधरी. १ २५  
 बाल चित्रमय चैतन्यलीला. गीता. ० ३१  
 —चित्रमय बुद्धलीला गीता ०.३१

- बाल चित्रमय श्रीकृष्णलीला २ भा गीता. ० ३७ (प्र)  
 —चित्र-रामायण २ भा गीता ० २५ (प्र)  
 —जीवन माला आर्किमिडीज पीपुल्स १ ५०  
 —दीक्षा श्रीचंद रामपुरिया जैन श्वेतावर. ० २५  
 —दुर्गा इ प्रे. १ ००  
 —द्विवेदी शुक्ल, देवीदत्त. इ प्रे. १.००  
 —नाटक-माला श्रीभा, दशरथ इ प्रे भा. १ ० ५६;  
 भा २. ० ६२, भा ३ ० ६६; भा ४ ० ७८  
 —निबंध माला गगाप्रसाद इ प्रे १ ००  
 —निबंध माला शर्मा, मूलचंद स १२ कल्याणमल ०.७५  
 —निबंधादर्श. विश्वनाथ शास्त्री मोतीलाल. १.५०  
 —नीति-माला इ प्रे १ ००  
 —पंचतंत्र कमलेश नया सा प्र १.५०  
 —पंचतंत्र शकुंतलादेवी राजकमल २००  
 —पंचतंत्र शर्मा, सुंदरलाल. इ प्रे २ ००  
 —पंचशील. श्रीवास्तव, लक्ष्मीनारायण आशा पब्लि १ २५  
 —पाठ माला भगत्सिंह हेमकूट भा १. ०.५०, भा. २  
 १ ००; भा. ३ १ २५, भा ४ १ ३७  
 —पोथी गाधी, मोहनदास करमचंद नवजीवन ०.३०  
 —फुलवारी विनोद एस चाद ० ५०  
 —भागवत २ भा इ प्रे १ ०० (प्र)  
 —भारती कुलदीपसिंह अशोक पु म ० ८८  
 —भारती द्विवेदी, सोहनलाल इ प्रे १.२५  
 —भारती सकसेना, प्रहलादचंद्र नवयुग ग्र कु ०.५०  
 —भूगोल. जायसवाल, सीताराम सरस्व प्रे. ०.६२  
 —भूषण राष्ट्रबधु विश्वेश्वरानंद १ २५  
 —भोज-प्रबंध शर्मा, सुंदरलाल इ प्रे. १ ००  
 —मंदिर सुशीला करण सर्वोदय सा १ ००  
 —मंदिर के चटकीले फूल सिरौठिया, शकुंतला सर्वोदय सा.  
 १ ००  
 —मनु-स्मृति इ प्रे ० ५०  
 —मनोरजन भा प्र मडल. ० ७५  
 —मनोविकास. शुक्ल, लालजीराम नद व्र ६ ००  
 —मनोविकास की कहानी वैश्य, जे डी रा बेनीमाधव  
 १ ५०  
 —मनोविज्ञान चौवे, सरयूप्रसाद सशो स ५ रा. बेनीमाधव  
 ५ ००  
 —मनोविज्ञान. पाडेय, जगदानंद तारा ५.५०; — —मगध  
 ४.००  
 —मनोविज्ञान मसीह... पु भ ४ ५०  
 —मनोविज्ञान योगेद्रजीत, भाई विनोद ८.००  
 —मनोविज्ञान. रामबालेश्वर सिंह बुकलेड ५ ५०  
 —मनोविज्ञान शर्मा, वसतीलाल ज्ञान मडल प्र ३ ००  
 —मनोविज्ञान शुक्ल, लालजीराम ना प्र सभा २ ५०  
 —मनोविज्ञान और शिक्षा. जायसवाल, सीताराम सर्वोदय  
 सा. २ ००  
 —मनोविज्ञान और शिक्षा का संबध (प्रश्नोत्तर). श्रीवास्तव,  
 कृष्णमुरारीलाल. लायल १ १०

- मनोविज्ञान की रूपरेखा अचल, ए पी मोतीलाल  
५००
- मनोविज्ञान के मूल-तत्त्व श्रीवास्तव, सुशीला नद व्र  
१५०
- मनोविज्ञान प्रवेशिका मन्ज, माधुशरण हि प्रचा पु  
२००
- महाभारत त्रिपाठी, न . . . त हि पु ए १५०
- महाभारत वेरी, कृष्णचंद्र हि प्रचा पु २००
- महाभारत युक्ल, विद्याभास्कर स ५ हि भवन. १२५
- महाभारत श्रीवास्तव, लक्ष्मीनारायण ३ भा आशा  
पट्टिन १२५ (प्र)
- महाभारत सोमण पु भ १००
- मेना यभुनाथ 'शेष' आत्माराम १००
- रगमच गणेशदत्त 'उद्र' मानकचद ०८७
- रत्न वर्मा, परिपूर्णानंद नद व्र ०४४
- रत्न श्रीनाथ अमिताभ ०७५
- रवीन्द्रनाथ सोम, यामिनीकान इ प्रे १००
- रश्मिरेखी रामधारी सिंह 'दिनकर' उदयाचल १२५
- रागिनी मत, शाता बाल सदन ०७५
- राम-कथा मुदक्षिणा सस्ता २००
- रामायण इ प्रे १००
- रामायण घोष, गिरिजाकुमार हि पु ए १७७
- रामायण मिश्र, रघुनन्दन हि प्रचा पु १२५
- रामायण युक्ल, विद्याभास्कर म ७ हि भवन १२५
- रोग निकिल्मा 'हृषिकुमार देहाती १२५
- रोग चिकित्सा द्विवेदी, रमानाथ म २ मेडिकल  
५००
- विज्ञान चटोप गम बाल कल्याण २५०
- विकास चौबे, सरयूप्रसाद कि महल ५००
- विकास मेहरोशा, राममूर्ति हि प्रचा पु २५०
- विकास राजपेयी, विकास चैतन्य १५०
- विकास श्रीर उमकी ममन्याए निर्मला शेरजग सा केंद्र  
५००
- वित्तम श्रीर शिक्षण जायमजाल, नीताराम नद व्र एव  
नद म ५००
- विनोद वाटिका शर्मा, गच्छिदानंद जुगल किशोर प्राइमर  
१००, भा १ ०६८
- वित्तम गुरुराम विद्यान्द गगा ०७५
- वीर कृष्ण रघुवीर्यारण 'मित्र' भा सा प्र १२५
- वीर श्रीर वीर बानाश्री के लिए कहानिया बमलकुमारी  
नरगा १५०
- विश्वनाथ पट्टेच, मोमाभाई मन्ता
- विश्वनाथ युक्ल, लालजीराम नद व्र एव नद म ३५०
- विश्वनाथ गगा ०४०
- श्रीहरण कथा, त्रिपाठी, रमानाथ हि पु ए ०८८
- श्रीराम कथा मुण्डेराध्याय, वार्निनेयनग हि पु ए  
०८८
- गुरुराम, विभुवन २ भा. श्रीग ०७५ (प्र)

- वाल सगीत शिक्षा २, बी एन सगीत. भा. १. ०५०;  
भा २ ०७५, भा ३ १००
- सत्यार्थप्रकाश विश्वनाथ राजपाल १००
- सत्यार्थप्रकाश विश्वनाथ विद्यालकार सशो स आर्य सा.  
१००
- सभा सर्वोदय १००
- साहित्य रामलोचनशरण पु भ १००
- साहित्य माला भगतसिंह
- सूरसागर श्रीचंद्र रा वेनीप्रसाद १५०
- हास्य लोफ-कथाए अशोककुमार वेदालकार आत्माराम  
१२५
- हिंदी-संस्कृत-कोष लक्ष्मीनारायण शास्त्री ४ भा श्री भा  
भारती २७५
- हितोपदेश इ प्रे १००
- हितोपदेश सुरेन्द्रपाल सिंह नया सा प्र १५०
- वाता जोगन देसाई, रमणलाल वसतलाल वीरा ६००
- वालिका गृह विज्ञान गुप्ता, कमलेश गुप्ता प्र., भा १ ०८६  
भा ३ १४०
- वाली परूलकर, मालती राजकमल (पा) १००
- वालू की दीवार महेशचंद्र सरल सरल २५०
- की दीवार शर्मा, श्रीराम 'राम' प्रभात प्र ३००
- के टीले खन्ना, वृजेन्द्र हि प्रचा पु ५००
- वालोपदेश इ प्रे ०५०
- वालोपदेश पाडेय, रामचंद्र हि प्रचा पु १००
- वालोपदेश मिश्र, रामनारायण ना प्र सभा ०५०
- वावन पत्ते कृष्णचंद्र वीरा ५५०
- वावरा अभागा कन्हैयालाल २००
- वावरा अहेरी वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद 'अज्ञेय'  
सरस्व प्रे ३००
- वासती त्रिवेदी, भवानीशकर श्री भा भारती २२५
- वाहर कहा खोजे वदे वत्स्य, सतराम नेशनल ०७५
- भीतर चतुरमेन, आचार्य राजपाल ४००
- भीतर नरेन्द्र प्रभात पब्लि २००
- वाहरवी रात शेक्सपियर, विलियम मित्र २५०, — —  
राजपाल २००
- वाहुवलि और नेमिनाथ जैन, माईदयाल सस्ता ०४०
- वाहो के घेरे गरदन की मजदूरिया मिश्र, गगाप्रसाद ज्ञानालोक  
२५०
- विद्या सिद्धीकी, मलमा हि ग्र र ३००
- विदी का वेटा चट्टोपाध्याय, शरत्चंद्र श्यामलाल १२५
- विदुवासिनी चट्टोपाध्याय, शरत्चंद्र कन्हैयालाल ३००
- विदू का वेटा चट्टोपाध्याय, शरत्चंद्र कि महल २००
- विदू परमार, तिलक सिंह धिवाजी १२५
- विदो का वेटा चट्टोपाध्याय, शरत्चंद्र बाल सदन
- कालन्ता चट्टोपाध्याय, शरत्चंद्र गगा २००
- विद्वी की कहानी मन्ता १२५
- विके हुए इमान भटनागर, राजेन्द्रमोहन नव कमल १००
- विक्की कैसे बढाए सतराम राजपाल ३५०

बिक्री बढ़ाने के उपाय कालीचरण देहाती २.५०  
 बिखरते स्वप्न टडन, कमला नवयुग पु भ ५.००  
 बिखरी आशा सत्यवतीदेवी भय्या पुष्पी ०.७५  
 —पखुडिया शुक्ल, फूलकुमारी अवध १.५०  
 बिखरे काटे अवस्थी, लीला प्रचा पा १.००  
 —चित्र गुरुदत्त भा सा सदन. ३.५०  
 —फूल रघुनन्दन मुद्गलपुरी जानोदय ०.५०  
 —फूल. शर्मा, सरनामसिंह 'अरुण' कृष्णा व्र ३.००  
 —मोती प्र. विभाग १.००  
 —मोती केसरीकुमार. रा वेनीप्रसाद १.५०  
 —मोती चौहान, सुभद्राकुमारी हम २.५०  
 —मोती जौहरी, राजकुमार. २ भा न्यू इल्ट १.००  
 —हीरे माधवन, आनदशकर अमरावती १.००  
 विगडी हुई वात राधाकृष्ण पु भ, रा १.८७  
 विगडे चेहरे गौड, पुरुपोत्तमदास कोमल' पुष्पी ०.७५,  
 —सुरेद्र २.५०  
 विगुल गौड, कृष्णदेवप्रसाद, सपा ना प्र सभा १.००  
 विगुल. द्विवेदी, सोहनलाल सा. भवन, इ १.५०  
 विच्छू का डक सकसेना, शभूदयाल नवयुग ग्र कु ६.००  
 विछुडे साजन सोमनाथ 'अकेला' कन्हैयालाल २.००  
 विजली वेढव बनारसी कल्याणदास २.५०  
 विजली. शेखरचद्र. नवयुग ग्र. कु ०.५०  
 —की कहानी मक्तवा ०.५०  
 —की कहानी. मैडलेवम, अरनोल राजपाल २.००  
 —की ड्राई सैत्स वर्मा, चदूलाल 'चद्र'. चद्र कार्या. १.५०  
 —की प्राथमिक वैटरिया वर्मा, चदूलाल 'चद्र'. चद्र कार्या  
 १.००  
 —की लीला चतुर्वेदी, जगपति कि महल २.००  
 —कैसे खोजी गई ? चतुर्वेदी, जगपति हि भवन. १.००  
 —मास्टर प्रसाद, के देहाती. २.५०  
 विदा श्रीवास्तव, प्रतापनारायण. गगा ६.००  
 विन विजली का रेडियो वेदप्रकाश देहाती १.२५  
 —बुलाए मेहमान पडित, प्रकाश. राजपाल २.००, —  
 हिंद पा. १.००  
 विना चिराग का गहर चतुरसेन, आचार्य. हि प्रचा. पु  
 (पा) १.००  
 —दिल का इसान वेदप्रकाश प्रगतिशील ३.००  
 —विजली का रेडियो मगतसिंह स २. रगभूमि १.००  
 —बुलाए पच. देवराज 'दिनेश'. आत्माराम ३.००  
 विपनेर ससार. बद्योपाध्याय, विभूतिभूषण नवयुग प्र ४.५०  
 विराटा की पद्मिनी वर्मा, वृदावनलाल गगा ६.००; —  
 मयूर ४.००  
 विलाव राजा गर्मा, रामकृष्ण सा प्र १.००  
 विलावत एक नवनेना, महेशानारायण. संगीत २.५०  
 विल्डिग कस्ट्रक्शन हेड बुक रामअवतार 'वीर' देहाती  
 ३.४५०  
 बिल्ली की कहानी. भगवानदीन, महात्मा. ३ भा अ भा.  
 सर्व. २.००

विल्ली मौसी. सत, गोकुलचंद्र. ओरिएंटल. ०.७५  
 विल्लेसुर वकरिहा त्रिपाठी, सूर्यकांत 'निराला' कि महल  
 २.५०  
 विल्लो का चिडियाघर गर्मा, वेणीमाधव हि प्रचा पु.  
 १.२५  
 —का नकछेदन जगन्नाथप्रसाद 'मिलिद' गयाप्रसाद २.००  
 विपपान. द्विवेदी, सोहनलाल. इ. प्रे. १.००  
 विहार महतो, मोहनलाल 'वियोगी' राजहस १.७५  
 —का आर्थिक अध्ययन. राधारमण पु भ, रा २.५०  
 —का गौरव राजेश्वरप्रसाद नारायणसिंह आत्माराम. ४.००  
 —का विहार सहाय, शिवपूजन ग्रथमाला २.००  
 —की कौमी आग मे गाधी, मनुवहन नवजीवन ३.००  
 —की भाषा तथा बोलिया अब्ठ, गदाधरप्रसाद ग्रथमाला.  
 ०.७५  
 —की लोक कथाए शिवमूर्तिसिंह २ भा आत्माराम १.५०  
 (प्र)  
 —के आधुनिक गद्य-निर्माता श्रीवास्तव, मुरलीधर अशोक  
 प्रे ४.००  
 —के दर्शनीय स्थान अब्ठ, गदाधरप्रसाद. ग्रथमाला ३.५०  
 —के साधन कृपि और उद्योग केदारनाथ प्रसाद रा वेनी-  
 प्रसाद ६.००  
 —दर्पण अब्ठ, गदाधरप्रसाद ग्रथमाला ७.००  
 विहारी बालकृष्ण नेशनल १.००  
 विहारी भटनागर, रामरतन कि महल २.५०  
 विहारी मिश्र, विश्वनाथप्रसाद. नद स. एव वाणी-वितान.  
 ४.००  
 —. अलोचनात्मक अध्ययन सत्यव्रत आर्य मीतल २.५०  
 —, एक अध्ययन दीक्षित पु भ, आ २.२५  
 —और उनका साहित्य गर्मा, हरवशाल... भा. प्र. मदिर.  
 ६.००  
 —का नया मूल्याकन वच्चनसिंह हि प्रचा पु. ३.५०  
 —की वाग्विभूति मिश्र, विश्वनाथप्रसाद नद व्र. एव नद  
 स २.५०, — वाणी-वितान ३.००  
 —के पच्चीस दोहे मूल और मूल्याकन सहित मोतीलाल १.२५  
 —दर्शन द्विवेदी, लोकनाथ 'सिलाकारी' राष्ट्रीय प्र. मडल  
 एव राष्ट्रीय सा स. ५.००  
 —दर्शन लोकनाथ सिलाकारी गगा ५.५०  
 —(प्रश्नोत्तर). भारतभूषण 'सरोज विनोद २.५०  
 — प्रश्नोत्तरी प्रेमकृष्ण 'अनामिल'. सरस्व पु. न २.००  
 —भाषाओ की उत्पत्ति और विकास सान्याल, नलिनीमोहन  
 रा वेनीमाधव  
 —मीमांसा त्रिपाठी, रामनागर अशोक प्र १.०००  
 —वाला मिश्र, शिवदत्त कन्हैयालाल २.००  
 —विभव हरदगलु सिंह उ प्रे २.००  
 —वैभव गर्ग, कमलादेवी. आत्माराम १.२५  
 —वैभव त्रिपाठी, रामचंद्र विश्वविद्यालय. १.५०  
 —सग्रह. हि मा परिषद ०.५०  
 —सग्रह. वियोगी हरि, सपा. हि. सा सम्मे. ०.३७

विहारी मतमई गुप्त, गणपतिचंद्र राजकमल. ३ २५; (पा) १००

—मतमई विहारी पु भ ३ ७५

—सतसई शर्मा, देवद्व 'इंद्र' सशो स विनोद ५००

—मतमई. युजन, जगदीशचंद्र, अनु मातृ-भापा ३००

—मतसई सटीक विराज अशोक प्र ४००

—मुवा मिथवधु गगा ० ६२, — —राष्ट्रीय प्र मडल एव राष्ट्रीय ना म १००

वी ए पान मजदूर न्यादरनिह 'वेचैन' देहाती. ० ७५

वी ए हिंदी दिग्दर्शन राकेश लायल ४००

वीच का दरवाजा वंद, कृष्णवलदेव नीलाभ ३ ७५

—वी धारा भटनागर, वाकेविहारी रामलोचन (पा) १००

वीज अमृतगव न २ हन ६००

—श्रीर पीषा घिल्डियाल, रमाप्रसाद 'पहाडी' प्रकाशगृह ४५०

वीजक—सद्गुरु कबीर साहव विचारदास शास्त्री स ३ रा वेनीमाधव २ ५०

वीज की तैयारी रामेश्वर अगात देहाती १ ५०

—की बहार जोशी, हेमचंद्र परिमल १००

वीजगणित ऋषीश्वर, नी एल केदारनाथ ३ ५०

वीजगणित सन्ना, एम एल एस चाद २००

वीजगणित गोविला, वाकेलाल भा २ सशो स ३ आगरा बुक ३००

वीजगणित भा, मनोरजन नावल्डी ५ २५

वीजगणित शर्मा, भम्भनलाल हि सा सम्मे ३ ५०

—का सफन अध्ययन शरोडा, दीवानचद स ५ केदारनाथ २ ५०

—सरलीकृत वासू, कालीदास रा वेनीमाधव ३००, भा १ ४००, भा २. ५००

वीजुरी काजन आज रही चतुर्वेदी, माखनलाल भा ज्ञानपीठ ३००

वीन गए दिन प्यार के नुरेश पुष्पी ० ६०, — —सुरेंद्र २ ५०

वीनशोक चौगनिया, अनंतकुमार ना नि, व ४००

वीनी दान गुन्दन भा ना नदन ३००, (पा) १००

वीते दिन अनेंद्रकुमार हिंद पा १००

—दिन राजश्री, दृशमोहन आत्माराम १००

—दिन पीनी बाते शर्मा, दिनोदयकर रूपमी १ ५०

वीपीपी कहती है, मेरा चेहरा गोबीला है यगपाल विप्लव ३००

वीमा निंद्रुमा बुल्लेट ३ ७५

—आ प्रा-निह अधरयन श्रीवान्धव, दानचद नद ३ ८००  
—आ प्रा-निह निदान यान्द्रुमा नांदन्टी ३ ५०, ६ ५०

—प्रोमिरा श्रीगान्ध, दानचद नद ४ ५०

वीमार की... शर्मा, नाविप्रदीवी अरगुणोदय १ २५

—वी वी... हर... न-वनाची नन्ता ०.४०

वीरवल ठाकुर, रामचंद्र वोरा. ४ ५०

वीरवल. वर्मा, वृदावनलाल मयूर १ २५

—का अजव तमाशा मेहरोत्रा, कमला कि महल. ० ७५

—का ज्ञान-ध्यान वेरी, ओमप्रकाश हि प्रचा पु, १ २५

—का न्याय मेहरोत्रा, कमला कि महल ०.७५

—का वेटा मालवीय, मनोरमा आत्माराम १ ००, — — एस चाद १ ५०

—का स्वर्गारोहण मेहरोत्रा, कमला कि महल ० ७५

—का हवाई महल मेहरोत्रा, कमला कि महल ०.७५

—की कहानिया आनन्दकुमार राजपाल ० ७५

—की खिचडी मेहरोत्रा, कमला कि महल ० ७५

—की गपशप वेरी, ओमप्रकाश हि प्रचा. पु १ २५

—की गागर-सागर वेरी, ओमप्रकाश हि प्रचा पु १ २५

—की फासी मेहरोत्रा, कमला कि महल ० ७५

—की वाते अजित सस्ता ० ४०

—की हाजिर जवावी गोविंदराम १ ००

वीवी शैकत थानवी रूपसी १ ५०

—के लेक्चर तिलक खानावदोश गगा २ ५०

वीस ऐतिहासिक कहानिया शकुतलादेवी रा वेनीमाधव १ ००

वीसलदेव रासो गुप्त, माताप्रसाद हि सा परिपद ५ ००

—रासो त्रिवेदी, भवानीशकर रीगल २ ५०

—रासो वर्मा, सत्यजीवन, सपा. ना प्र. सभा २ ५०

—रासो. एक गवेषण सीताराम शास्त्री हिंदु एकेडेमी. २० वी शताब्दी का प्रेम मेहरा, वद्रीनारायण. विराट. १ ००

वीसवी शताब्दी के महाकाव्य प्रतिपालसिंह ओरिएटल.

८ ५० (अप्रा)

—शती की श्रेष्ठतम काव्यकृति कामायनी पाडेय, गगा-प्रसाद सा भवन, इ ३.००

—शती हिंदी काव्य—प्रतिनिधि कवि सनादय, देवर्षि विश्व-विद्यालय एव सरस्व स ५ ००

—सदी का जिन्न लागिन राजकमल (पा) १ ००

—सदी की राजनैतिक विचारधाराए सुब्रह्मण्य, गुर्ती. हि सा सम्मे २ ००

—सदी मे अमरीकन शिक्षा कैन्डल गर्ग ब्र. ३ ५०

वीहड जगलो मे जयप्रकाश नवयुग प्र १ ५०

वुदेलखड का सक्षिप्त इतिहास तिवारी, गोरेलाल ना प्र सभा ३ ७५

—की लोक कथाए गुप्त, हरगोविंद आत्माराम १ २५

—की लोक कथाए व्यान, श्रीकांत कि महल १ ५०

—के लोक-कवि रत्नकांत आनंद पु, की १ ५०

—के लोक गीत वर्मा, वृदावनलाल मयूर ० ५०

—के लोकगीत युजल, उमानकर इ प्रे २ २५

वुदेलखडी लोकगीत चतुर्वेदी, शिवसहाय, मग्रा मध्यप्रदेश ज्ञानन २.००

—लोकगीत. चतुर्वेदी, हीरादेवी इ. प्रे ०.५०

- बुदेल-वैभव. द्विवेदी, गौरीशकर 'गंकर' ३ भा बुदेल  
३.०० (प्र.)
- बुदेल. चौधरी ४००
- बुदेले हर वोलो के मुह 'जिसने' सुनी कहानी सुकुल, ललित  
प्रसाद, सपा वगीय. ५००
- बुक कीपिंग एड एकाउन्टेसी सक्सेना, एस सी सं. २ २ भ  
मानकचद ५५० (प्र)
- कीपिंग का परिचय अग्रवाल, अमरनारायण. कि. महल  
३१६
- कीपिंग का प्रारंभिक ज्ञान. अग्रवाल... नद. स. ३.२५
- कीपिंग का प्रारंभिक ज्ञान नागर, गिरिजाशकर .. नद  
ब्र १२५
- कीपिंग का सरल अध्ययन मुद्गल, भगवानसहाय गर्ग ब्र.  
३.००
- कीपिंग परिचय अग्रवाल .. हि. प्रचा. पु. २.७५
- कीपिंग प्रश्नोत्तर मोतीलाल ३७५
- वाड्डिंग रामअवतार 'वीर' देहाती ३००
- बुक्काराय आचार्य, गुणवतराय वोरा ५५०
- बुजदिल. ज्विग, स्टीफेन नेशनल. ६००
- बुभता दीपक जगदीश आनद साहनी ०५०
- दीपक वर्मा, भगवतीचरण भा भ २००
- ली शुक्ल, शत्रुघ्नलाल. शारदा म २.००
- बुभते दीप मिश्र, दयाशकर 'दहा' आत्माराम ३.००
- बुभा चिगाग सुलगती वाती शकर सुल्तानपुरी नवयुग पु.  
भ ४००
- बुभे दीप. रैना, विमला कि महल २५०
- बुढिया की गाय आनद, मुल्कराज राजकमल ५५०
- की सूभ शर्मा, मुरारीलाल सस्ता १००
- बुद्ध और उनके अनुचर कौसल्यायन, भदत आनद छात्रहित-  
कारी. १२५
- और नाचघर हरिवशराय 'वच्चन' राजपाल ३.००
- और बौद्ध धर्म चतुरसेन, आचार्य. प्रभात प्र. ४.००
- कालीन भारतीय भूगोल उपाध्याय, भरतसिंह हि. सा.  
सम्मे १२००
- की कहानी अजायब चित्रकार सा सगम, लू. ०.६०
- चरित अश्वघोष सस्ता ०४०
- चरित शुक्ल, रामचद्र ना प्र सभा ३७५
- चरितम्—सर्ग ३ अश्वघोष कृत शुक्ल. अश्वघोष.  
रा वेनीमाधव ०७५
- चरितावली विद्या मोतीलाल. ०.६५
- चित्रावली लूणिया, जीतमल. हि. सा. सं. १३५
- बुद्धदेव गोस्वामी, वासुदेव गयाप्रसाद हि. सा. सं. १२५
- बुद्धदेव ठाकुर, रवीन्द्रनाथ. चौधरी. १.५५
- बुद्धदेव राय, शरतकुमार. हि. सा. सं. १.५५
- बुद्धम् शरणम् चन्द्रदेव सिंह. अश्वघोष. १.५५
- बुद्ध वचन गुप्त, मियान... १.५५
- वाणी वियोगी हि. सा. सं. १.५५





- बेचारा केशव चतुर्वेदी, सीताराम. सं २. अ. भा विक्रम.  
१००  
—राष्ट्र निर्माता. चारण, गिरधारीदान नवयुग ग्र. कु  
२५०  
बेचारे मुन्शीजी पाडेय, कातानाथ 'चोच' चौधरी २००  
बेटोवाली विधवा प्रेमचंद हस. १००  
बेढव की बहक बेढव बनारसी कल्याणदास २००  
—की वानी बेढव बनारसी गयाप्रसाद ५००  
—के एकाकी बेढव बनारसी कल्याणदास २००  
बेणु वादन शर्मा, केदार 'मधुर' कला-भा २५०  
बेतवा मे भंवर चतुर्वेदी, भगवतस्वरूप इ प्रे. २७५  
बेताल-पच्चीसी जैन, यशपाल. २ भा सस्ता ०.४० (प्र)  
बेददी सोमनाथ 'अकेला' कन्हैयालाल, २७५  
बेद वृक्षों की छाया मे सिंह येन राजकमल १.२५  
बेदी की सर्वश्रेष्ठ कहानिया. उपेन्द्रनाथ 'अशक', सपा नीलाभ  
बेदात की बात उपेन्द्रनाथ 'अशक' हिंद पा १००  
बेनट की लडाई तथा मुठभेड युद्ध गुरवर्तिसिंह आर्मी १००  
बेपरछाई का आदमी. शॉमिसो. मानसरोवर सा १००  
बेवसी कानेटकर, वसंत. हिंद पा १.००  
बेवसी राजन्. कन्हैयालाल ३५०  
बेरग माचवे, प्रभाकर नव सा प्र २५०  
बेल आमि. मोपासा मानसरोवर सा  
—का बटवारा. मदनविहारी कल्याणदास ०.७५  
—पत्र चौधरी, कमला आत्माराम १००  
—बूटे. रानी. देहाती. १.००  
बेला श्रीवास्तव, बालगोविंदप्रसाद रामप्रसाद १२५  
— एक बेवकूफ लडकी चंद्रदेव सिंह भा पु म २५०  
—फूले आधी रात देवेद्र सत्यार्थी राजहम १०००  
—फूले आधी रात वाजपेयी, प्रेमचंद्र आदर्श पु म. १.००  
—फूले आधी रात शकर सुल्तानपुरी. नवयुग पु भ ५००  
—विज्ञान श्रीवास्तव, वेनीप्रसाद 'भाई' संगीत ४००  
बेलिक्रिसन रुकमिणी—सटीक शुक्ल, कृष्णशकर सा. नि, का.  
३००  
बेसवा जाफरी, रईस अहमद पैरामाऊट २५०  
बेसिक उद्योग शिक्षा शर्मा, मूलचंद कल्याणमल ०५०  
—खेती और वागवानी मिश्र, योगीन्द्रनाथ .. रा. वेनीप्रसाद  
भा २-४ ०.६२ (प्र), भा ५ ०.७५  
—गणित शिक्षण कुलवीरसिंह पजावी पब्लि ५.००  
—गृह विज्ञान. गोयल, मुरलीमनोहर कल्याणमल ०६०  
—विद्या के सिद्धांत कुलवीरसिंह यूनिवर्सिटी ३७५  
—विद्यालय मे पुस्तकालय की उपयोगिता द्वारकाप्रसाद,  
शास्त्री हिं. प्रचा पु. १००  
—शाला मे बालक बशीधर . नद ब्र एव नद स १२५  
—शाला मे सजा से कैसे छुटकारा पाए ? वैश्य, जे. डी .  
आत्माराम १००  
—शिक्षा चौबे, हीरालाल मगध ५००  
—शिक्षा बशीधर. . नद ब्र एव नद स १५०  
—शिक्षा हासल, चादनारायण सर्वोदय सा. २.००

- बेसिक शिक्षा के बीस वर्ष. काला, श्रीचरण... रा वेनीमाधव.  
१००  
—शिक्षा—नये सुभाष उपाध्याय, शभूनाथ. राजीव, प्रयाग.  
१००  
—शिक्षा-सिद्धांत की रूपरेखा श्रीवास्तव, नरेन्द्रवहादुरलाल.  
सर्वोदय सा ५००  
—स्कूल प्रबंध भाटिया, कमला यूनिवर्सिटी. ३.५०  
—स्कूलो मे कताई. सर्वोदय १.७५  
—स्कूलो मे सांस्कृतिक कार्यक्रम सर्वोदय १५०  
—हिंदी कपूर, बदरीनाथ हिं प्रचा. पु ३.००  
बेहया गोविंदसिंह पृष्णी २७५  
बैक परिचय वाजपेयी, पुरुषोत्तम... नद. स ५.००  
—परिचय वाजपेयी, लक्ष्मीचंद्र . नद. स  
—मे डाका सूर्या कमलानी कि. महल १.००  
बैकिंग. सक्सेना, शकरसहाय रा वेनीमाधव. भा १. २.५०;  
भा २ ४००, सपूर्ण ६००  
—के प्रारंभिक सिद्धांत गुप्ता, जे पी .. कृष्णा ब्र ३.००  
—के सिद्धांत प्रसाद, एम... बुकलेड ५५०  
—प्रवेशिका. श्रीवास्तव, श्रीनारायण कि महल २००  
— सिद्धांत और प्रयोग गर्ग, कातानाथ कि. महल ३.५०  
बैंगन का पीधा उपेन्द्रनाथ 'अशक' नीलाभ ३.२५  
बैजामिन फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन, बैजामिन. राजपाल. ३.००  
बैजो मास्टर जैन, चिंतामणि. संगीत २००  
बैक स्टिच और वन स्टिच रानी देहाती १२५  
बैकूठ का खाता ठाकुर, रवीन्द्रनाथ प्रभात प्र २००  
—का विल चट्टोपाध्याय, शरतचंद्र इ प्रे ०.७५  
— का वसीयतनामा चट्टोपाध्याय, शरतचंद्र. चिनगारी एव  
श्यामलाल. १५०  
बैठो मेरे पास. मिश्र, केदारनाथ 'प्रभात' राष्ट्रीय प्र मंडल  
एव राष्ट्रीय सा. स ३००  
बैडमिंटन कैसे खेले इन्द्रसिंह 'भूकप' जिज्ञासा २.००  
बैताल का बदला सूरिदेव, रजन कला-नि १५०  
—पच्चीसी मेहरोत्रा, रामेश्वरप्रसाद. कि महल १५०  
—पच्चीसी श्यामलाल २५०  
बैरग चिट्टी गौड, बी. बी पुष्पी ०.७५  
बैरन भई निंदिया ज्वालाप्रसाद 'भगत' रूपसी १५०  
बैल की जोड़ी सूरिदेव, रजन नागरी प्र  
बैलून का धडाका शर्मा, रामवरन सा नि., व २.५०  
—वाला दूबे, सुरेश 'सरस' राष्ट्र प्र म १५०  
बैलेडोना और पलसटिला का भगडा इ प्रे १००  
बैसाख महात्म्य सरल भापा. जगन्नाथ देहाती. १५०  
बोभिल हृदय अग्रवाल, महेशचंद्र दीपक प्र ३००  
बोतलानद गुप्त, विंध्याचलप्रसाद सुभाष १७५  
बोध और व्याख्या शर्मा, कामेश्वर नावल्टी ६.५०  
बोधक कहानिया कलार्थी, मुकुलभाई गुजरात ०.५५  
बोधिवृक्ष की छाया मे उपाध्याय, भरतसिंह सस्ता. २५०  
बोने की खेती. मक्तवा १००  
बोबक बकरा. लीफ, मनरो. राजकमल. १५०

- दोरीवली से दोरीवदर तक मटियानी, गैलेग आत्माराम ३.५०
- दोनचाल उपाध्याय, अयोध्यासिंह 'हरिऔध' हि सा कु ६२५
- दोनना हिन्दुस्तान उपाध्याय, रामनारायण रामप्रसाद ० ७५
- दोनगी घटनाए भगवानदीन, महात्मा ५ भा अ भा सर्व ० ५० (प्र)
- नहरे माधवसिंह 'दोपक' शारदा म ३००
- दोन कथाए श्रीवास्तव, हिमायु सन्मार्ग ० ७५
- दोलन नरहर रागेय राघव कि महल ३०० (अप्रा)
- यमु नीरव भा प्र मदिर १.००
- दोलन दो चीड को मेहना, नरेग हि प्र २ ३००
- दानी गुफा उर्मिलाकुमारी हि सा स १००
- दोन दोल वमरी भिक्षा मिलेगी राधा सुधा नेशनल. ० ७५
- दस्ता सादी, शेख भा ज्ञानपीठ २५०
- की कहानिया मादी, शेख आत्माराम १२५
- दोहार धीवारतव, जी पी ज्ञानमडल एव भा प्र मडल ४००
- दोह कला-कृतिया मालविका, विद्यावती हि प्रचा पु ३००
- कहानिया व्यथितहृदय छात्रहितकारी १५०
- दर्शन राहुल साकृत्यायन कि महल ५००
- दर्शन तथा अन्य भारतीय दर्शन उपाध्याय, भरतसिंह भा १-२ भा भ १६००
- दर्शन-मीमांसा उपाध्याय, बलदेव स २ चौखवा ६००
- धर्म और विहार त्रिपाठी, हवलदार 'सहृदय' वि राष्ट्र ०००
- धर्म के विज्ञान का इतिहास हि समि १२००
- धर्म दर्शन नरेंद्रदेव वि राष्ट्र १७००
- भारत मजुमदार, विमानविहायी गयमाला १.००
- भारत द्वाइन, टी उल्लू कि महल ५००
- योगी के पत्र धर्मशिक्षित, भिक्षु मोतीलाल १००
- मन्त्रि राहुल साकृत्यायन आधुनिक पु १५००
- साहित्य की साहित्यिक भूलक चतुर्वेदी, परशुराम सा भवन, इ ३५०
- दोनी बाबू रघुवीरसिंग 'मित्र' भा ना प्र १००
- दोने और घायन फूल रागेय राघव विनोद ३००
- दोनों के देग मे चपलोन, रोशनलाल नवयुग ग्र कु १००
- दशम श्रोन टिप्पणनी अंग्रेजी-हिंदी, हिंदी-अंग्रेजी सुबोध २ ६००
- दशम श्रोन राजराज गोविंदराम, सेठ . एन चाद ५५०
- गद्य माधुनी सिन्हा, कृष्णकुमार . रवि ६५०
- या नान्दराम सिन्हा मीतल, प्रभुदयाल ना सस्थान
- को लोत सपाए आइसुनारी यमपान आत्माराम ११०
- दशमस्य का विवाह सुत, नरेंद्रनाथ इ प्रे. २.२५
- दशमस्य प्रसादी नर्म, हरिनारायण, सपा ना प्र नमा ३ ७५
- दशम दशमलान ३.००

- दशभाषा वर्मा, धीरेद्र हिंदु एकेडेमी ६००
- और उसके साहित्य की भूमिका कपिलदेव सिंह विनोद २५०
- और खडी बोली का तुलनात्मक विवेचन भाटिया, कैलाशचंद्र सरस्व पु स ६५०
- का व्याकरण वाजपेयी, किशोरीदास रा वेनीमाधव २५०
- के कृष्णभक्ति काव्य मे अभिव्यजना-शिल्प सिन्हा, सावित्री, नेगनल २०००
- के प्रतिनिधि कवि सिन्हा, कृष्णकुमार नाँवल्डी ४००
- वनाम खडी बोली कपिलदेव सिंह विनोद १०००
- व्याकरण दर्मा, धीरेद्र रा वेनीमाधव १५०
- साहित्य का ऋतु-सौंदर्य मीतल, प्रभुदयाल, सपा सा सस्थान ४००
- साहित्य का नायिकाभेद मीतल, प्रभुदयाल सशो स. सा सस्थान
- दशभूमि की कहानिया अग्रवाल, रामनारायण विनोद १५०
- दशमाधुरी सार वियोगी हरि, सपा हि सा सम्मे. ४००
- सार की टीका जैन, फूलचंद्र 'सारग' विनोद २.५०
- सार की टीका शिवप्रसाद शास्त्री रीगल ४००
- सार टीका तथा व्याख्या मिश्र, दुर्गाशंकर हि सा भ ४००
- दशरज रायकृष्णदास भा भ ० ५०
- दश लोकवार्ता-कोश सत्येद्र, सपा क मु हि
- दशलोक साहित्य का अध्ययन सत्येद्र स २ सा रत्न भ १०.००
- दश-सतसई उपाध्याय, रामचरित इ प्रे ० ७५
- दशानन्द भजनमाला श्यामलाल १ ७५
- दशार्च्य गाधी, मोहनदास करमचंद सस्ता. भा १ १००, भा २ ० ७५
- (छोटी) श्रीचंद रामपुरिया जैन श्वेतावर ० ७५
- (बडी) गाधी, मोहनदास करमचंद जैन श्वेतावर १२५
- की महिमा सूर्यवली सिंह काशी पु २००
- के अनुभव गाधी, मोहनदास करमचंद देहाती ० ७५
- के नियम गाधी, मोहनदास करमचंद हि प्रचा म ० २५
- क्यों और कैसे शकरानंद, स्वामी भाग्योदय २५०
- जीवन और वीर्य नाश मृत्यु सत्यव्रत मिद्धातालकार गोविंदराम ० ३७
- जीवन ह शकरानंद स्वामी भाग्योदय २५०
- विवाह के पहले और विवाह के बाद हीरालाल. निरोगी ३००
- नदेज सत्यव्रत मिद्धातालकार विजयकृष्ण ४५०
- नाथन चतुरमेन, आचार्य गंगा २००
- नाथन विष्णुदत्त श्रीश देहाती १००
- नाथना सतवाल, मुनि श्री आत्मानंद ० ५०
- ही जीवन है शिवानंद, स्वामी छात्रहितकारी १ ७५

ब्रह्मचर्याश्रम मुशी, कन्हैयालाल माणिकलाल कि. महल.  
१००

ब्रह्मज्ञान भक्तिप्रकाश. जीवादास देहाती २५०

—शकरदास शकरदास देहाती २५०

ब्रह्मदेश मजुमदार, विमानविहारी ग्रथमाला १००

ब्रह्मपुत्र देवेद्र सत्यार्थी राजकमल ७००

ब्रह्मविद्या. कृष्णानन्द, स्वामी विश्वेश्वरानन्द ६००

ब्रह्मसिद्धांत ओष्का, मधुसूदन काशी हिंदू १२००

ब्रह्मसूत्र और वैष्णव भाष्य आचार्य, रामकृष्ण विनोद.  
१२५

ब्रह्मसूत्रो के वैष्णव भाष्यो का तुलनात्मक अध्ययन. आचार्य,  
रामकृष्ण विनोद. १०००

ब्रह्मांड की कहानी ओमप्रकाश सर्वोदय १५०

ब्राड कोट. विल्डियल, रमाप्रसाद 'पहाडी' प्रकाशगृह २.५०

ब्राजील का हीरा गुप्ता, राजेश. देहाती १२५

—के वनो मे गर्ग, किशोर स ३ रानी २५०

ब्रात्य कांड (अथर्ववेद का १५वा कांड) संपूर्णानंद

मोतीलाल ३००

ब्राह्मण की वेटी. चट्टोपाध्याय, शरत्चंद्र. आदर्श पु म. १५०

— — इ प्रे १५०, — — प्रभात प्र २.००; — —

श्यामलाल २.००

ब्रिटिश इतिहास का परिचय व्यामदत्त यग मैन ६.७५

—कालीन भारत का इतिहास रावर्ट्स, पी ई. एस चाद  
८५०

—कालीन भारत का इतिहास सेठी .. एस चाद १०.००

—सविधान शर्मा, महादेवप्रसाद कि महल ४५०

ब्रिटेन का इतिहास लूथरा, आर के यूनिवर्सिटी ८००

—का वैधानिक इतिहास चौधरी, आर के मोतीलाल

६.२५

—का वैधानिक इतिहास चौवे, गोरखनाथ रा वेनीमाधव  
०.६२

—का सविधान भा, मनोरजन नावल्टी. ३००

—का सविधान—प्रश्नोत्तर मोतीलाल ०.६४

—की शासन पद्धति चौधरी, आर के मोतीलाल २६२

—, भारत, अमेरिका चौवे रा वेनीमाधव १००

—मे चार सप्ताह जैन, अक्षयकुमार नेशनल २५०

व्लैकस्मिथी (लोहार का काम) कालीचरण देहाती ४५०

## भ

भवर उपेन्द्रनाथ 'अशक' नीलाभ २२५

भवर प्यारेलाल 'आवारा' कल्याणदास. ३७५, — —  
रूपसी ३.७५

—के बीच भा, श्यामलकिशोर सन्मार्ग ३००

भवरगीत (नददास) टडन, प्रेमनारायण हिं सा भ. ०.७५

भवरगीत नददास, सपा विश्वभरनाथ मेहरोत्रा स. ७ रा.

वेनीप्रसाद १००

भवरजाल शर्मा, कृष्णाचंद्र 'भिक्षु नेशनल ३.५०

भवरा. कुशवाहा 'कात' चौधरी ३५०

भवरे, तितली और कलिया नाहर रूपसी २००

भक्त और भगवान आनदस्वामी गोविंदराम १००

—कवि व्यास जी गोस्वामी, वासुदेव गोस्वामी. ६.००;

— — सा सस्थान. ६००

—कुसुम गीता ०.३१

—चंद्रिका गीता ०.३१

—दिवाकर गीता ०.४५

—ध्रुव न्यादरसिंह 'वेचैन' देहाती ०.७५

—ध्रुव रामाशीष सिंह हिं पु ए ०.६४

—नरसिंह मेहता गीता ०.३७

—नरसी मेहता जोगी, श्रीपाद. विश्वेश्वरानन्द. ०.५०

—नामावली ध्रुवदास ना प्र सभा १२५

—नारो गीता. ०.३१

—पचरत्न गीता ०.३१

—पूरनमल न्यादरसिंह 'वेचैन'. देहाती ०.७५

—प्रह्लाद. त्रिपाठी, चंद्रदीप नारायण हिं पु ए. ०.६४

—प्रह्लाद. न्यादरसिंह 'वेचैन' देहाती ०.७५

—बालक इ प्रे १.००

—बालक गीता ०.३१

—भारती गीता ०.४५

—महिलारत्न गीता. ०.४५

—माल भाषा श्यामलाल ३००

—मोरध्वज न्यादरसिंह 'वेचैन'. देहाती ०.७५

—रत्नाकर. गीता ०.४५

—राज कलार्थी, मुकुलभाई गुजरात. १.००

—राज ध्रुव गीता ०.२०

—राज हनुमान्. गीता. ०.३१

—लल्लेश्वरी शशिशेखर विश्वेश्वरानन्द ०.५०

—वाणी सत्यकाम शास्त्री देहाती ४५०

—शिरोमणि महाकवि सूरदास सान्याल, नलिनीमोहन  
रा वेनीमाधव १५०

—शिशु मुखोपाध्याय, नयनचंद्र इ प्रे. १५०

—सप्तरत्न गीता ०.३१

—सरोज गीता ०.३७

—सुधाकर गीता ०.५०

—सुमन गीता ०.३७

—सूरदास. आगाहश्च काश्मीरी. देहाती ०.७५

—सौरभ. गीता ०.३१

भक्ति और वेदांत विवेकानंद, स्वामी सन्मार्ग. २००

—का विकास शर्मा, मुशीराम चौखवा २०.००

—काव्य मे रहस्यवाद पाडे, रामनारायण नेशनल.

—तरंगिणी शर्मा, मुशीराम चौखवा ३००

—दर्पण राजपाल १००

—दर्शन शर्मा, सरनामसिंह 'अरुणा' कृष्णा ब्र ६५०

भक्तिन श्रीवास्तव, जी पी ज्ञानमडल एव भा. प्र. मडल.

१.५०

- भक्ति मार्गो दौद्धधर्म चतुर्वेदी, नर्मदेस्वर, अनु भा भ ४००
- योग दत्त, अश्विनीकुमार हि पु ए ३२५
- योग विवेकानन्द, स्वामी श्रीरामकृष्ण १५०, — —  
मन्मार्ग २००
- सगीत प्रकाश रामश्रवणार 'वीर' देहाती. १०५०
- गागर के तट पर चुने हुए अनमोल मोती त र एस  
चाद १००
- माहित्य मे मधुरोपानन चतुर्वेदी, परशुराम भा भ ४००
- भगतजी ने लड्डू खाए मदनविहारी शरण 'दीप' आनन्द पु,  
वा १००
- भगतमिह व्यक्तित्व और विचारधारा ठाकुर, गोपाल  
पीपुल्स ०५०
- भगवच्चर्चा पोद्दार, हनुमानप्रनाद
- भगवतीचरण वर्मा नागर, अमृतलाल राजपाल २००
- भगवतीप्रसाद वाजपेयी तथा रात और प्रभात जैन, फूलचद  
'सारंग' कि घर, ग्वा ३००
- भगवद्गीता का आशय और उद्देश्य भगवानदास काशी हिंदू  
०५०
- भगवद्गीता राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती न २ हिंदु टाइम्स  
२५०
- भगवद्गीता राधाकृष्णन्, नर्वपल्ली राजपाल १२००
- की बुद्धिवादी समीक्षा कौसल्यायन, भदत आनन्द हस्त  
५००
- (प्रथम मे तृतीय अध्याय तक) रा वेनीमाधव ०७५
- भगवान ऋषभदेव कैलाशचन्द्र श्री भा दिगवर १२५
- का आदेश पाठक, अनमूयाप्रनाद राष्ट्र पु भ ५००
- की मर्जी वाल्तेयर नरन्ध्र प्रे १५०
- के प्यारे लाइनमिह सन्ता ०४०
- कौटिल्य मुग्गी, कन्हैयालाल माणिकलाल कि महल  
—गीतम यशोविमलानन्द ओरिएण्टल ०६२ [३५०]
- गीतम बुद्ध ईश्वरीप्रनाद गंगा ०७५
- पर विद्वाम गीता ०२५
- परशुराम मुग्गी, कन्हैयालाल माणिकलाल राजकमल
- बुद्ध कौशाबो, धर्मानन्द राजकमल ५००
- बुद्ध चतुर्भुज दि पु न १.२५
- बुद्ध मदान, 'इन्द्रनाथ राजकमल १००
- बुद्ध मित्र, चन्द्रिकाप्रनाद न २ वसल १२५
- बुद्ध वल्लभ मनराम नेरानन ०२०
- बुद्ध नगमेना, शम्भुदयान नवयुग प्र कु ०.७५
- बुद्ध नागर, निर्मला न्याजीन ०७५
- बुद्ध की आत्मकथा परदेशी वीरा ४००
- बुद्ध की शिक्षाएं भागवत, कृष्णदयान शिवलाल १५०
- भोजने गुरुदत्त ओरिएण्टल ६००
- मनु तथा अन्य ग्वाती मिश्र, नर्मदीनारायण आत्माराम  
२५०
- महावीर और महाहार पण्डित जैन. हीरानान द्वाज  
श्री आनन्द १००

- भगवान राम २ भा गीता ०२५ (प्र.)
- राम की कथा भा भ १००
- शकर और दयानन्द आनन्दस्वामी गोविंदराम ०.५०
- श्रीकृष्ण २ भा गीता ०३१ (प्र)
- श्रीकृष्ण मिश्र, देवदत्त आदर्श पु. भ ३००
- श्रीकृष्ण, धर्म तथा सघ विवेकानन्द, स्वामी स २  
श्रीरामकृष्ण ०८७
- भगोडे युद्ध-त्रिदियो की सच्ची कहानिया पंडित, वरदाचारी,  
सपा एव अनु सूर्य प्र ३००
- भगतत्री वलदेव शास्त्री श्री भा भारती ०७५
- भग्नपादुका मुग्गी, कन्हैयालाल माणिकलाल राजकमल.  
४००
- भग्न प्रतिमाएं त्रिपाठी, कृष्णमुरारि साहित्यवाणी  
३००
- प्राचीर हरिकृष्ण 'प्रेमी' मानकचद २५०
- मदिर शेवडे, अनंतगोपाल राजपाल ५००
- मूर्ति देगपाडे, ए आर 'अनिल' सा अकादमी १.००
- भगनाश गुरुदत्त उमेच, ७२५
- भजगोविंदम् स्तोत्र रोजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती, अनु हिंदु.  
टाइम्स १००
- भजन महाभारत अठारहो पर्व श्री रामायण ५००
- रामायण आठो कांड श्री रामायण ४००
- सग्रह चौखानीजी हि पु ए ५००
- भटकती आत्मा द्रौण्टे एमिली अपर एव प्रभात पब्लि  
६००
- रुह ज्वालाप्रसाद 'केगर' चिनगारी २५०
- भटकते राही कृष्णा रविकमल. पुष्पी १५०, — — सुरेद्र.  
३५०
- भटकन महेद्र, मदनमोहन रूपसी १.५०
- भटक सुक्तरत्नाकर आचार्य, रामकृष्ण विनोद ६००
- भट्ट नाटकावली भट्ट, धनजय 'सरल', सपा ना प्र सभा  
१२५
- निवधमाला भट्ट, वालकृष्ण २ भा ना प्र सभा  
३५०
- निवधावली शुक्ल, देवीदत्त हि सा सम्मे भा १.  
१५०, भा २ मपा धनजय भट्ट 'सरल' १५०
- भट्टिकाव्यम् भट्टि रा वेनीप्रसाद ०३७
- भडामसिंह शर्मा श्रीवास्तव, जे पी हि पु ए २००
- भडौआ-साह तिवारी, नकछेदी २ भा भारतजीवन  
०७५
- भट्टे लोग मोमनाथ 'अकेला'. कन्हैयालाय २७५
- भद्रवाह नहिता भद्रवाह, आचार्य भा जानपीठ ८००
- भद्रलोक का नीड तुर्गनेव नवयुग प्र ४००
- भन भन भन शिक्षार्थी कि महल ०७५
- भयकर भूत नरयूप्रनाद 'विदु' हि पु ए १७५
- भूल (कृष्ण अर्जुन युद्ध) न्यादरसिंह 'वेचन' देहाती  
०७५
- भय के राज्य मे शर्मा, विनोदशकर रूपसी. १.००

- भय मुक्त कैसे हों ? मार्टेन, स्वेट सुबोध प्र २२५  
 भयानक खूनी रामशीष सिंह हि पु ए २००  
 —षड्यत्र स ५. आर्य सा ०.२५  
 भय्या अकिल बहादुर श्रीवास्तव, जी पी. ज्ञानमडल एव भा  
 प्र मडल २५०  
 भरत. देवराज 'दिनेश' सस्ता ०४०  
 —का नाट्यशास्त्र मोतीलाल १५००  
 —का संगीत-सिद्धांत देव, कैलाशचंद्र हि समि ६५०  
 —दर्शन वर्मा, भून्नीलाल इ प्रे. २५०  
 —मुक्ति. तुलसी, आचार्यश्री आत्माराम ६००  
 —मुनि कृत नाट्यशास्त्र. शर्मा, भोलानाथ सा. नि., का  
 २७५  
 —, लक्ष्मण, हनुमान, विभीषण. कि महल १००  
 भरे पूरे घर. कपिल. रूपसी २००  
 —मेले मे बख्शी, लोचन भा सा प्र २५०  
 भर्तृहरि चौधरी, जयकृष्ण सस्ता ०४०  
 भर्तृहरि शतक ऋषिकुमार देहाती १००  
 भवजाल प्रकाश 'भारती' भा सा सदन ५००  
 भवन निर्माण कला. रामअवतार 'वीर' देहाती. १२००  
 —निर्माण कला सक्सेना, बट्टीप्रसाद. भाग्योदय २५०  
 भवभूति गैरोला, वाचस्पति नया सा प्र १.५०  
 —और उनका काव्य वर्मा, ज्वालादत्त गगा. १५०  
 भवरोग की रामबाण दवा पोद्दार, हनुमानप्रसाद. गीता. ०.३१  
 भविष्य की ओर श्रीमाताजी श्रीअरविद ०५०  
 भविष्यवाणी गोविन्ददास, सेठ एस चाद ३००  
 भव्य विभूतिया. सक्सेना, शकरसहाय रा. वेनीमाधव. १.००  
 भस्मावृत्त चिन्गारी यशपाल विप्लव ३.००  
 भाग, गाजा छोडो. अवस्थी, लक्ष्मीनारायण स्वरूप. ०५०  
 भाई. जैन, ऋषभचरण गगा २५०  
 —के पत्र रामनाथ 'सुमन' साधना सदन ४.००  
 —चारा जैन, यादवचंद्र सा सदन, दे ३५०  
 —बहन पाठक, श्यामबदन 'श्याम'. ज्ञानपीठ १५०  
 —बहन महतो, मोहनलाल 'वियोगो' ग्रथमाला २२५  
 भागते किनारे उदयरज सिंह अशोक प्रे ४००  
 भागवत एकादश स्कंध (सटीक) गीता. १००  
 —कथा मोहता, सूरजमल सस्ता. ३५०  
 —की कहानिया राजबहादुर सिंह आत्माराम २००  
 —खडनम् दयानंद, स्वामी भा प्राच्य ०५०  
 —गीता तिलक, बाल गगाधर तिलक (पा) १५०  
 —दर्शन शर्मा, हरवलाल भा प्र मंदिर १२००  
 —धर्म उपाध्याय, हरिभाऊ सस्ता ७००  
 —संप्रदाय उपाध्याय, बलदेव ना प्र सभा ७५०  
 भागीरथी. गुप्तवधु सर्व-सुलभ ०.७५  
 भागीरथी शर्मा, रामगोपाल 'रुद्र' अभिज्ञान. १८७  
 भागो नही दुनिया को बदलो राहुल साठ्वत्यायन कि महल  
 ५००  
 भाग्य जैन, ऋषभचरण गगा २५०  
 —और नवग्रह शिवमूर्ति 'शिव'. प्रचा. पा. १०

- भाग्य का विधान टडन, लक्ष्मीनारायण 'प्रेमी' प्रेमी प्र.  
 एव हि सा भ ५००  
 —का सबल गुरुदत्त पजाबी पु ३००, — — स्टार (पा.)  
 १.००  
 —चक्र सजीवनचंद्र. हि ग्र २०१२  
 —चक्र सुदर्शन वीरा २.००  
 —निर्माण शेखावत, कल्याणसिंह छात्रहितकारी. १७५  
 —निर्माता. राजेश्वरप्रसाद गयाप्रसाद २००  
 —पर विजय एलेन, जेम्स छात्रहितकारी ०७५  
 —रेखा. गुरुदत्त उमेश ३००, — — भा सा सदन  
 (पा) १००  
 —रेखा. साहनी, भीष्म राजहस १७५  
 भाग्यवती श्रद्धाराम फिल्लौरी प्रचा पा १.००  
 भाग्यवानो की कुडलिया मित्तल, भगवानदास श्यामलाल  
 ४००  
 भाग्योदय-अक. मानवधर्म ४००  
 भाटी हमारी मा भटनागर, ज्ञानेन्द्रकुमार साहित्यवाणी.  
 ५.००  
 भातखडे संगीत पाठशाला. भातखडे, विष्णुनारायण भा १.  
 संगीत १२५  
 —संगीत शास्त्र भातखडे, विष्णुनारायण संगीत भा १  
 ५००, भा. २ ६००; भा ३ ६००, भा. ४  
 १५००  
 — स्मृति अक गर्ग, लक्ष्मीनारायण, सपा संगीत. १००  
 भाप का इजन कैसे बना ? चतुर्वेदी, जगपति हि भवन  
 १००  
 भाभियो की प्रेम कहानिया स २. रगभूमि १.५०  
 भाभी धवन, देवीप्रसाद 'विकल' अवध १५०  
 भाभी सक्सेना, शभूदयाल नवयुग ग्र कु २००  
 —का प्यार चट्टोपाध्याय, शरत्चंद्र चिनगारी १२५  
 —की सुहागरात राजरजना (पा) १००  
 भामहकृत काव्यालकार शर्मा, देवेन्द्रनाथ वि राष्ट्र ५००  
 भायप गुप्तवधु, सर्व-सुलभ १२५  
 भारत तिवारी, शिवकुमार केदारनाथ ६००  
 भारत आदिम साम्यवाद से दास-प्रथा तक का इतिहास.  
 डागे, श्रीपाद अमृत पीपुल्स ४००  
 —उठ रहा है काछल, मनोरजन. गयाप्रसाद १५०  
 —१९६३ प्र विभाग ३५०  
 —. एक भौगोलिक अध्ययन कपूर, अमरनाथ एस चाद.  
 ११००  
 — एक भौगोलिक अध्ययन लेखराज सिंह कनौजिया .  
 रा वेनीप्रसाद ७५०  
 —एक है जायसवाल, सीताराम अमिताभ २००  
 —एव बिहार का आर्थिक अध्ययन मुखर्जी, परिमलचंद्र.  
 मोतीलाल ५५०  
 —एव बिहार का तुलनात्मक आर्थिक विवेचन मुखर्जी,  
 परिमलचंद्र स. २. मोतीलाल ७५०

- भारत और अतर्गट्रीय श्रम सस्था कौल, नरेन्द्रनाथ राजकमल ३ २५
- और चीन रावाकृष्णन्, सर्वपल्ली अपर एव प्रभात पन्लि ५.२५
- और जनतत्र राय, कृष्णानन्द स २ राष्ट्रीय प्र मन्दिर ० ७५
- और पश्चिम वाई, बारवारा आत्माराम ६ ००
- और विश्व रावाकृष्णन्, सर्वपल्ली अपर एव प्रभात पन्लि ६ ५०
- कथा तरुणभाई भा १ सर्वोदय सा ० ७५
- कल्याण गगा. ० ७५
- का आतरिक एव वैदेशिक व्यापार कटियार, तिलकसिंह कि महल ४ ५०
- का आदि सन्नट कर्मानन्द श्री भा दिगवर १ ००
- का आधुनिक आर्थिक विकास सहाय, रामजी कि महल ३ ००
- का आर्थिक एव वाणिज्य भूगोल (प्रश्नोत्तर) गुप्त, रामशरण. गयाप्रसाद २ ००
- का आर्थिक एव वाणिज्य भूगोल से मेहता, कैलाशचन्द्र आशा पन्लि ० ५०
- का आर्थिक तथा वाणिज्य भूगोल अग्रवाल, श्रीनारायण कि महल. २ ५०
- का आर्थिक तथा वाणिज्य भूगोल अवधेशप्रसाद मोतीलाल. ४ ००
- का आर्थिक तथा वाणिज्य भूगोल तिवारी, शिवकुमार केदारनाथ ६.००
- का आर्थिक तथा वाणिज्य भूगोल दीपनारायण सिंह . रा वेनीप्रसाद ३ ५०
- का आर्थिक एव वाणिज्य भूगोल सक्सेना, डी पी सा. भवन, आ
- का आर्थिक तथा वाणिज्य भूगोल सक्सेना, शकरसहाय रा वेनीमाधव ४ ००
- का आर्थिक भूगर्भशास्त्र दुवे, विद्यामागर हि नमि १० ००
- का आर्थिक भूगोल दि लायन्नेरी ० ६२
- का आर्थिक भूगोल कटिहार, तिलकसिंह आगरा बुक ६ २५
- का आर्थिक भूगोल जैन, पुरुषोत्तम न ११ भा भा प्र २ ००
- का आर्थिक भूगोल दिवाकर, नुशीलकुमार नद व्र एव नद न ३.२५
- का आर्थिक भूगोल दुवे कि महल ५ ००
- का आर्थिक भूगोल दुवे, दयाशकर न १८ रा वेनी-माधव २ २५
- का आर्थिक भूगोल वनिष्ठ, रामस्वल्प केदारनाथ ५ ००
- का आर्थिक भूगोल श्रीनारायण कि महल २ ००
- का आर्थिक भूगोल सक्सेना, शकरनाथ आशा पन्लि ५०

- भारत का आर्थिक भूगोल एव आर्थिक विकास कुभट, जे. आर गयाप्रसाद ६.००
- का आर्थिक व व्यापारिक भूगोल शर्मा, टी आर . गया-प्रसाद ६ ००
- का आर्थिक विकास कन्सल, वी वी स ४ आगरा बुक ५ ५०
- का आर्थिक विकास कुभट, जे आर गयाप्रसाद ६ ००
- का आर्थिक विकास गुप्ता, आर ए रस्तोगी ५ ५०
- का आर्थिक विकास नाग, दयाशकर एस चाद ५ २५
- का आर्थिक विकास (१८००-१९४७) मामोरिया, चतुर्भुज . सा भवन, आ ५ ००
- का आर्थिक विकास रावत, पी एल स ४ आगरा बुक १० ००
- का आर्थिक विकास वाजपेयी, एस आर कि घर, का
- का आर्थिक विकास और नियोजन वल्लुआ, पन्नालाल . रा वेनीमाधव १० ००
- का आर्थिक शोपण सीतारमैया, पट्टाभि मातृ-भापा १ ००
- का इतिहास प्र विभाग ३ ००
- का इतिहास क्षितीश्वर सिंह हि प्रचा पु ८ ००
- का इतिहास चावला २ भा गुरदास ४ ७० (प्र)
- का इतिहास मुकर्जी, एल अपर प्राचीनकाल २ ५०, मध्यकाल २ ५०, आधुनिककाल २ ५०
- का इतिहास सत्यकेतु, विद्यालकार स ७ १९६३. सरस्व स ४ ५०
- का ऐतिहासिक एटलस. ग्रथमाला २ ५०
- का औद्योगिक विकास चाडक, देवदत्त कि महल ३.५०
- का औद्योगिक विकास भडारी, चद्रराज ज्ञान मन्दिर २ ५ ००
- का औद्योगिककरण नाग कि. महल २ ५०
- का चित्रमय इतिहास अधिकारी, महावीर आत्माराम ७ ००
- का नया इतिहास ओझा, फनिन्द्रनाथ पु भ., रा. भा. १ ३ ७५, भा २ ४ ७५
- का नवीन भूगोल रहमान, एम एच रा वेनीप्रसाद ३ ००
- का प्रथम स्वातन्त्र्य संग्राम (१८५७-५८) मार्क्स, कार्ल... पीपुल्स ३ ००
- का प्राकृतिक भूगोल दि. लायन्नेरी ० ६२
- का प्राचीन इतिहास घोष, एन एन इ प्रे ८ ००
- का प्राचीन इतिहास सत्यकेतु विद्यालकार सगो स २ सरस्व न ११ ००
- का प्राचीन साहित्य उपाध्याय, रामजी रा वेनीमाधव ० ५०
- का भाग्य मोदक, निम्लि माधना सदन १ ७५
- का भाषा-मर्वेक्षण ग्रियसन, जार्ज अब्राहम हि समि ७ ००
- का भूगोल अग्रवाल, पी सी गयाप्रसाद ३ ००
- का भूगोल. केला, श्रीमप्रकाश. भा. प्र. २.७५

- भारत का भूगोल चौधरी, पी. एस... संशो. स. ४ कि. घर,  
का ३००
- का भूगोल चौहान, वी एस. रस्तोगी. ८००
- का भूगोल त्रिपाठी, वैदेहीवल्लभ नद ब्र. ३००
- का भूगोल. रामस्वरूप स. ३ चौखवा १५०
- का भूगोल सिंघल... सुरेश ३.००, ६००
- का भूगोल सरल समीक्षा चौहान, वी एस स २  
रस्तोगी ४५०
- का युद्ध कौशलात्मक भूगोल तथा सैन्य मनोविज्ञान टडन,  
वी आर के... प्रकाश बुक ६२५
- का रगीन एटलस कल्याणमल. १००
- का राजनीतिक एव सांस्कृतिक इतिहास (प्रारंभ से  
१९२६ तक) धर्मभानु.. लक्ष्मी ना
- का राष्ट्रध्वज. भारद्वाज, सी एल पजावी पब्लि. १.००
- का राष्ट्रीय आंदोलन श्रीवास्तव, के. विनोद ५५०
- का राष्ट्रीय आंदोलन और नया सविधान सत्यकेतु,  
विद्यालकार सरस्व स ८५०
- का राष्ट्रीय आंदोलन तथा भारतीय सविधान. श्रीवास्तव,  
के विनोद ६००
- का विधान सुदरलाल देहाती. ७५०
- का वृहत् भूगोल लेखराज सिंह कनौजिया रा वेनी-  
प्रसाद १२५०
- का वैधानिक एव राष्ट्रीय विकास गुरमुखनिहाल सिंह  
आत्माराम १०.००
- का व्यापार श्रीकृष्ण. कि महल ३.७५
- का शासन साहु, शिवनदन बुकलेड ४.००
- का सक्षिप्त इतिहास. ईश्वरचंद केदारनाथ. २.२५ से  
६.००
- का सविधान सर्वोदय १००
- का सविधान. स्वरूप २००
- का सविधान. अमर नदी बुकलेड. ४.२५
- का सविधान गैद, डी एन.. रतन १२५
- का सविधान माताप्रसाद प्रभात प्र ३७५
- का सविधान मिलिद भोपाल २००
- का सविधान वर्मा, कन्हैयालाल. नद स. ८००
- का सविधान सिन्हा, लक्ष्मणप्रसाद एस चाद ४००
- का सविधान सिन्हा, हरिशंकर बुकलेड. ४५०
- का सविधान प्रश्नोत्तर मोतीलाल ०७५
- का सवैधानिक इतिहास महाजन एस. चाद १०००
- का सवैधानिक विकास सभरवाल. किशोर पब्लि.  
७००
- का सवैधानिक विकास (१८५८-१९६२) सभरवाल,  
हृदयनारायण... प्रकाश बुक ७००
- का सचित्र सविधान. इन्द्र विद्यावाचस्पति आत्माराम  
२००
- का सरल आर्थिक भूगोल. केला, ओमप्रकाश भा प्र १.२५  
का सांस्कृतिक इतिहास (प्रश्नोत्तर) वृहद्दल नयनी रीगल  
२.५०

- भारत का सांस्कृतिक इतिहास. हरिदत्त वेदालकार आत्माराम.  
८००, प्रश्नोत्तर २००
- का सामाजिक उत्कर्ष उपाध्याय, रामजी रा वेनीमाधव  
१०००
- का सीमांत जैन, जगदीशचंद्र. नेशनल. ४००
- का स्थानीय स्वायत्तशासन प्रसाद. बुकलेड ५००
- की अंतरात्मा राधाकृष्णन्, सर्वपल्ली अपर एव प्रभात  
पब्लि ३७५
- की अग्रगामी विकास योजना. वैजनाथ सिंह, सपा. ब्रिटिश  
२०००
- की अर्थव्यवस्था सशो स ४ केदारनाथ १०५०
- की अर्थव्यवस्था खोसला, रोजन. यूनिवर्सिटी २५०
- की अर्थव्यवस्था लक्ष्मीनारायण सशो स के रनाथ  
८५०
- की आदर्श नारिया भार्गव, रवर्ण प्रभात पब्लि २००
- की आदर्श महिलाए प्रयाग १००
- की आदर्श महिलाये कोमल.. नवचेतना. १७५
- की आधुनिक श्रेष्ठ कहानिया. गुप्त, भैरवप्रसाद. वीरा.  
४००
- की आर्थिक दशाए ड्रविडि, जी जी. . पापुलर. ३००
- की आर्थिक प्रगति निगम कि महल ६५०
- की आर्थिक समस्याए अग्रवाल, अमरनाथ रणजीत ६.५०
- की आर्थिक समस्याए रामावतार लाल नाव्ण्टी ६.००
- की आर्थिक समस्याए विश्वनाथ प्रसाद.. ग्रथमाला  
१००
- की आर्थिक समस्याये सक्सेना, एस सी सशो स २.  
सा. भवन, आ ८००
- की आर्थिक समस्याये सक्सेना, शंकरसहाय. रा. वेनीमाधव  
५.००
- की आर्य-भाषाए इन्द्रचंद्र शास्त्री श्री भा भारती ५००
- की उपज. रमाशंकर मिह 'मृदुल' हि. पु ए २५०
- की उपज सक्सेना, वीरेन्द्रकुमार नवयुग ग्र कु
- की एतिहासिक रूपरेखा मिश्र, रामदास 'विजय' हि प्रका.  
म ०७५
- की कहानिया मनमोहन सरल आत्माराम
- की कहानी उपाध्याय, भगवतगंगा राजपाल १२५
- की कहानी. उपाध्याय, भगवतगंगा साहनी भा १  
१२५, भा २ १५०
- की कृषि समस्याए राधारमण पु भ, रा १५६
- की खाद्य समस्या मेहता, भूपाल मंगल ०८०
- की सुराक की समस्या. गाधी, मोहनदास करमचंद्र.  
नवजीवन ०५०
- की चित्र-कला. रायकृष्णदास. भा भ ८००
- की जन-जातिया तथा मन्थाए मन्थन मित्रानालकार  
विजयकृष्ण १२५०
- की भाकिया. दरवार जानवनी रजन ५००
- की दिव्य विभूतिया परमानंद शान्धी. श्री भा भारती  
२.००



- भारत की पुण्य-मृतिया मिश्र, नर्मदाप्रसाद मिश्र-वधु १ २५
- की प्रतिनिधि लोक-कथाएँ जयप्रकाश 'भारती', सपा आत्माराम
- की प्रमुख कवयित्रिया देवदत्त शास्त्री भालोटिया २ ८०
- की प्रसिद्ध लडाइया ठाकुर, केगवकुमार आदर्श हि ६ ००
- की फमले जयराम सिंह कि महल ७ ५०
- की विजली व मिचाई योजनाये दि लायब्रेरी ० ६२
- की भाषाएँ और भाषा-मवधी समस्याएँ चाटुर्ज्या, सुनीतिकुमार म २ हिं भवन ३ ००
- की भौगोलिक समीक्षा गौड, कृपाशकर हिं प्रचा पु १२ ००
- की भौगोलिक समीक्षा सक्सेना, कैलाशवहादुर आगरा वृक १ ००
- की महान् नारिया वर्मा, सावित्रीदेवी शिवलाल १ २५
- की महान् वीरागनाएँ टडन, शकुतला नवयुग पु. भ ० ७५
- की मौजूदा समस्याएँ श्रीमन्नारायण अ भा काग्रेस ० २५
- की मौलिक एकता अग्रवाल, वासुदेवशरण भा भ ४ ००
- की राष्ट्रीय सस्कृति आविद हुसैन सा सदन, चि. ३ ५०
- की लोक कथाएँ सीता नेशनल ८ ००
- की विदुषी नारिया कृष्णकुमारी गगा २ ००
- की विदुषी नारिया भार्गव, स्वर्ण प्रभात पब्लि २ ००
- की विभूतिया वर्मा, परिपूर्णानंद ४ भा रामप्रसाद १ ०० (प्र)
- की विभूतिया श्रीप्रसाद नद व्र एव नद स १ ५०
- की वीर नारिया वर्मा, शकुतला विनोद ० ५०
- की वीर नारिया व्यथितहृदय म ६ हिं भवन १ २५
- की वीर ललनाएँ मिन्हा, अहल्या कला-नि १ ००
- की वीरागनाएँ मिश्र, नर्मदाप्रसाद मिश्र-वधु ० ७५
- की शासन पद्धति मरन, पी रस्तोगी ४ ००
- की शासन-व्यवस्था और नागरिक जीवन नत्यकेतु विद्यालकार स १९६२ सरस्व म ४ ५०
- की शिल्प कथाएँ भरहुत चतुर्वेदी, जगदीश हिं प्रचा पु १ २५
- की मन्त्रुति नादिक अली अ भा काग्रेस ० २५
- की मन्त्रुति का विकास शर्मा, मथुरालाल शिवलाल ६ २५
- की मन्त्रुति नाधना उपाध्याय, रामजी रा वेनीमाधव १ ० ००
- की साम्प्रतिक कहानी रामधारी सिंह 'दिनकर' उदयानल १ ००
- की साम्प्रतिक दिग्विजय हरिदत्त वेदानकार आत्माराम १ ००
- की साम्प्रतिक परवग वेदान्तज्ञान शास्त्री आत्माराम ३ ००
- की साम्प्रतिक विज्ञान योजनाएँ मन्चिदानंद राजकमल ३ ००

- भारत की स्वाधीनता की कहानी. शर्मा, राधाकृष्ण राजपाल. १ २५
- के अध्यापको से विद्यानंद विदेह, स्वामी वेदसस्थान ०.३०
- के अनूठे स्तभ टडन, शकुतला नवयुग पु भ १ ५०
- के अमर वच्चे छा.त्रहितकारी ० ५०
- के अमर रत्न चतुर्वेदी, भगवतशरण विनोद ० ५०
- के आदिवासी जनक अरविद इ पब्लि एव दि पु स. ३ ५०
- के आदिवासी दीक्षित, ब्रह्मदत्त रामप्रसाद २ ००
- के आधुनिक सविधान का तुलनात्मक अध्ययन अग्रवाल, आर सी एस चाद ४ ००
- के इतिहास की सरल कहानियाँ मिश्र, नर्मदाप्रसाद मिश्र-वधु १ ००
- के ऐतिहासिक मानचित्र ईश्वरीप्रसाद रा वेनीमाधव ४ ००
- के कलामाधव रामलाल. वीरा
- के काव्यपुरुष रामलाल वीरा
- के गाय-बैल गुप्त, परमेश्वरीप्रसाद सस्ता २.२५
- के गौरव ४ भा प्र विभाग १ २५ (प्र)
- के गौरव स्तभ हिं प्रचा स १.८०
- के जगली जीव प्र विभाग ३ ००
- के जागते उद्योग केशव पद्माकर कल्याणदास एव वि. ग्र कु ३ ००
- के जानवर भारतदास, जे राजकमल ० ७५
- के तीर्थ मिथिलेश प्रभाकर रामप्रसाद १ ५०
- के त्यौहार शर्मा, सुरेशचंद्र आत्माराम ३ ००
- के दुर्ग मिथिलेश प्रभाकर शिवलाल १ ५०
- के धुरंधर कवि कन्नोमल, लाला इ प्रे ० ५०
- के नगर कि महल १ २५
- के नये राज्य. गाधी, मोहनदास करमचंद नवजीवन ० ३५
- के नृत्य कथकली चतुर्वेदी, जगदीश हिं प्रचा, पु १ २५
- के पत्नी दि लायब्रेरी ० ६२
- के प्रकाश स्तभ गुप्त, माया शिवलाल २ ००
- के प्रमुख उद्योग वेदप्रकाश सिंह आत्माराम ७ ५०
- के प्रमुख फल चौहान, लालवहादुर सिंह आत्माराम २ ००
- के प्रमुख साय विराज नेशनल २ ००
- के प्रसिद्ध रत्न परशुराम दास २ ५०
- के प्रादेशिक तथा आर्थिक भूगोल गौड, कृपाशकर एस. चाद ६ ५०
- के मनीषी रामलाल वोग २ ००
- के महान् वैज्ञानिक अग्रवाल, हरीश आत्माराम २ ५०
- के महान् नायक १० ख नवभारत ख १ ६ ५०
- के महापुरुष मिश्र, शिवशकर भा १ हिं प्रचा पु १ ००

- भारत के महापुरुष. विद्यालकार वोरा. १००  
 —के महापुरुष. सतराम. स ५ हि भवन. १.५०  
 —के युद्ध. दास, कमलचंद्र ग्रंथमाला १२५  
 —के रत्न रत्नकात भा १ आनंद पु, को ३००  
 —के राष्ट्रीय आंदोलन व संविधान का विकास भाटिया,  
 आर. एल... यूनिवर्सिटी ८००  
 —के राष्ट्रीय महापुरुष अग्रवाल, गोपालदास अग्रवाल पु  
 —के लाल. निभावन, पी के आर्मी २५०  
 —के लाल. रघुवीरशरण 'मित्र' भा सा प्र १००  
 —के लोकनृत्य गर्ग, लक्ष्मीनारायण. संगीत ५००  
 —के लोक-नृत्य शर्मा, विश्वमित्र आत्माराम. २५०  
 —के विचारक रामलाल वोरा २५०  
 —के विद्यार्थियों से विद्यानंद विदेह, स्वामी वेदसस्थान  
 ०३०  
 —के वीर बालक. मिश्र, नर्मदाप्रसाद मिश्र-वधु ०७५  
 —के वैज्ञानिक रामलाल वोरा २५०  
 —के शोषण का नया शास्त्र यू के सी सी अग्रवाल,  
 अमरनारायण रामप्रसाद ०६४  
 —के सत महात्मा रामलाल वोरा १०.००  
 —के सपूत जहूरखश गगा १५०  
 —के सपूत रामसकल सिंह अशोक पु म ०७५  
 —के सर्प प्रभात प्र १२५  
 —के साहसी वीरो की गाथाए धर्मपाल शास्त्री उमेश.  
 २.५०  
 —के हस्त-शिल्प सुभाषिणी आत्माराम. २५०  
 —को प्रयाग की देन सिन्हा, हरेद्रप्रताप रा बेनीप्रसाद  
 ४.००, — —रा बेनीमाधव ३००  
 —गीत सा. अकादमी ०.२५  
 —गौरव गाथा रामलोचनशरण पु भ १७५  
 —ज्ञान कोश अरुनीन्द्रकुमार विद्यालकार, सपा हिंद पा  
 २.५०  
 —तथ्य और आकड़े प्र विभाग ३००  
 —दर्शन. गोविंददास, सेठ एस चाद ०.३७  
 —दर्शन त्रिवेदी, सोनेलाल . गुप्ता, ब्रा २३७  
 —दुर्दशा चतुर्वेदी, राजेश्वरप्रसाद लक्ष्मी ना १२५  
 —दुर्दशा. भारतेदु हरिश्चंद्र विनोद ०७५  
 —दुर्दशा (भारतेदु हरिश्चंद्र) मिश्र, शिवकुमार कि घर,  
 का १५०  
 —दुर्दशा (भारतेदु हरिश्चंद्र) वाष्णोय, लक्ष्मीसागर, सपा  
 विश्वविद्यालय १००  
 —दुर्दशा (भारतेदु हरिश्चंद्र). शर्मा, अविचाचरण रत्न  
 १५०; प्रश्नोत्तरी. ०५०  
 —दुर्दशा (भारतेदु हरिश्चंद्र) सिन्हा, सत्यव्रत रा बेनी-  
 माधव. ०७५  
 —नये संविधान तक गुप्त, मदनमोहन मक्तवा. ३००  
 —नव निर्माण के पथ पर वर्मा, राजेद्र मिश्र वधु ०७५ से  
 १००  
 —निर्माता. सर्वोदय १.५०

- भारत निर्माता जैन, विमलकुमार. एस. चाद २२५  
 —निर्माता टडन, शकुतला. नवयुग पु भ १५०  
 —पर अमरीकी फदा. नटराजन पीपुल्स ३.००  
 —पर चीनी आक्रमण उपाध्याय, तेजराम जयहिंद १.५०  
 —परिचय शर्मा, बनवारीलाल गयाप्रसाद ३.५०  
 —भारती (तमिल, तेलुगु, कन्नड, गुजराती, मराठी, उडिया,  
 असमिया, मलयालम, बंगला, मणिपुरी, पंजाबी, व  
 सिंधी) राष्ट्र प्रचा समि १२५ (प्र)  
 —भारती गुप्त, मैथिलीचरण सा सदन, चि. २.००  
 —भूमि प्रभाकर सिंह .. रा बेनीमाधव ३२५  
 —भूमि परिचय जैन, पुरुषोत्तम स. १० भा. भा प्र ३.५०  
 —महान् जैन, पुरुषोत्तम आगरा बुक १२५०  
 —मा की लोरी देवराज 'दिनेश' आत्माराम. ४.००  
 —मा के सपूत बसल, रघुवीरशरण देहाती ३.००  
 —माता रघुवीरशरण 'मित्र' भा सा प्र २००  
 —माता की जनम पत्री. मदारिया, मनमोहन कि. घर, ग्वा.  
 ०७५  
 —माता के पुजारी इ प्रे १७५  
 —मे अंग्रेजी राज सुदरलाल प्र. विभाग ख १ ८.००;  
 ख २ ८००  
 —मे अंग्रेजी राज्य के दो सौ वर्ष ठाकुर, केशवकुमार.  
 आदर्श हि १०.००  
 —मे अंग्रेजी-शिक्षण की समस्याये गुप्त, रामेश्वरप्रसाद ..  
 लक्ष्मी ना ४५०  
 —मे आर्थिक नियोजन बसल, के एल सा भवन, आ. ३.००  
 —मे आर्थिक नियोजन भडारी .. लक्ष्मी ना १०००  
 —मे आर्थिक नियोजना एव उसकी सभावनाए. चौबे, हीरा-  
 लाल मगध ६००  
 —मे आर्य और अनार्य चाटुर्ज्या, सुनीतिकुमार मध्यप्रदेश  
 शासन १४०  
 —मे आर्य बाहर से नहीं आये. चौधरी, नीरजाकात. गीता.  
 ०१५  
 —मे उद्योग, सक्सेना, एस सी. सशो स. ३. सा. भवन, आ.  
 ५००  
 —मे उद्योगो का संगठन, प्रबध एव वित्त मामोरिया,  
 चतुर्भुज सा भवन, आ  
 —मे कृषि सुधार. दुवे, दयाशंकर हि पु ए २५०  
 —मे जनतंत्र के नवीन आदर्श माइकेल्सडीन, वेरा. मोतीलाल.  
 ५००  
 —मे दुर्दशा ओमीलाल 'इलाहावादी' राष्ट्र प्रचा., इ  
 २७५  
 —मे पश्चिमी शिक्षा जुतशी, मनोहरलाल... इ प्रे ०५०  
 —मे पुस्तकालयो का उद्भव और विकास द्वारकाप्रसाद  
 शास्त्री हि प्रचा पु ५००  
 —मे प्रजाति भट्ट, गौरीशंकर सा सदन, दे ३००  
 —मे प्रमडल प्रमडल प्रबध एव सचिवीय व्यवहार भडारी,  
 के सी आगरा बुक १०००  
 —मे फलोत्पादन. जयराम सिंह. कि. महल. ८.००

- भारत में वाइविल मनगम गंगा ८००  
 —मे ब्रिटिश राज के अन्तिम दिन मोसने, लियोनार्ड  
 ग्रामागम ७५०  
 —मे ब्रिटिश साम्राज्य मिश्र, गंगागकर काशी हिंदू ११००  
 —मे ब्रिटिश साम्राज्य का उदय और अस्त इद्र विद्या-  
 वाचन्सति आत्माराम ७५०  
 —मे मनेगिया और उमकी रोकवाम जसवतसिंह सर्वोदय  
 ०५०  
 —मे मुगल साम्राज्य शर्मा, एम आर लक्ष्मी ना १५००  
 —मे मुस्लिम शासन का इतिहास शर्मा, एस आर लक्ष्मी  
 ना १०००  
 —मे यातायात मन्नेना, एम सी स ३ रस्तोगी ७००  
 —मे यातायात का विकास श्रीरूपण कि महल ३७५  
 —मे यातायात के विद्वात एव समस्याये सक्सेना, एम सी.  
 रस्तोगी १०००  
 —मे राजस्व के विद्वात एव व्यवहार शर्मा, एस पी ..  
 न १६६४ मानकचद ८५०  
 —मे लोकनाटिक त्रिकेद्रीकरण दक दत्तबधु ५००  
 —मे विवाह एव परिवार कापडिया, के एम मोतीलाल  
 १०००  
 —मे त्रिकेकानद विवेकानंद, स्वामी न २ श्रीरामकृष्ण ५००  
 —मे व्यापार युक्ता किगोर पब्लि ४००  
 —मे व्यापार एव प्रयुक्त नीति भडारी, के सी . लक्ष्मी  
 ना ७५०  
 —मे व्यापार एव प्रयुक्त नीति सक्सेना, एस. सी रस्तोगी  
 ७५०  
 —मे व्यापार एव यातायात सक्सेना, एम सी रस्तोगी  
 १०००  
 —मे व्यापार एव यातायात व्यवस्था युक्ला . किगोर  
 पब्लि ८००  
 —मे अग्नि पूजा नारदानंद, स्वामी श्रीरामकृष्ण (पा)  
 १२१  
 —मे शान्तिमय नमाजवाद गुप्त, कृष्णमोहन सुभाष ३५०  
 —मे शान्ति मेना देमार्ट, नागयण अ भा सर्व ०२५  
 —मे शिक्षा जोहरी, वी पी विनोद ८००  
 —मे शिक्षा मुकजी, एन एन आचार्य बुक ६००  
 —मे नमाज कल्याण और सुरक्षा शर्मा, रामनाथ  
 केशवनाथ १०००  
 —मे नमाजशास्त्र और मानवशास्त्र भट्ट, गोरीशकर सा  
 नदन, दे २००  
 —मे नमाजशास्त्र प्रवृत्ति और सत्कृति भट्ट, गोरीशकर  
 सा नदन, दे ८००  
 —मे नमाजशास्त्र चिन्ता ना रोभाचकारी इतिहास गुप्त,  
 नमनधनाथ भा १ छात्रहितकारी ५५०  
 —मे नमाजशास्त्र निगम मोतीलाल ४५०  
 —मे नमाजशास्त्र इतिहास गंगान नमिनिया मदन, जी आर  
 नदन, दे ५००  
 —मे नमाजशास्त्र चिन्ता कुलश्रेष्ठ, एन. एन रामप्रसाद ०६०

- भारत में सामाजिक कल्याण एवं सुरक्षा मुकजी, रवीन्द्रनाथ.  
 न १६६२ सरस्व स १०००  
 —मे सामाजिक कल्याण तथा सुरक्षा गुप्त, रघुराज सशो  
 स ३ किगोर पब्लि ११००  
 —मे सार्वजनिक शिक्षा का इतिहास चतुर्वेदी, सीताराम  
 नद ब्र एव नद स ३७५  
 —मे स्थानीय शासन चौधरी राधाकृष्ण मोतीलाल ५००  
 —मेरा देश विल्डियाल, रमाप्रसाद 'पहाडी' प्रकाशगृह  
 २००  
 —रत्न ओकार गरद राजरजना २५०  
 —रत्न गुरुशरण सर्वोदय सा १७५  
 —रत्न सक्सेना, गुरुशरण हि प्रचा पु १५०  
 —रमणी राय, द्विजेद्राल हि अ र १७५  
 —, लका तथा पाकिस्तान कुलश्रेष्ठ, क प कि घर का  
 ३७५  
 —व पाकिस्तान का आर्थिक व वाणिज्य भूगोल गुप्ता, ए  
 दास एस चाद ७५०  
 —वर्तमान और भावी रजनी पामदत्त पीपुल्स ६५०  
 भारतवर्ष का अभिनव इतिहास पाडेय, अवधविहारी . नद.  
 ब्र एव नद स ४५०  
 —का आर्थिक इतिहास भट्ट, कृष्णदत्त अ भा सर्व ६००  
 —का आर्थिक विकास (१८००-१९४७) कुलश्रेष्ठ, एन  
 एल लक्ष्मी ना ५००  
 —का इतिहास (प्रश्नोत्तर) टडन, रामलाल कमलनाराण  
 हि सा भ २५०  
 —का इतिहास परमानंद, भाई परि स, ४ ज्ञानमडल. ८००  
 —का इतिहास पाडेय, अवधविहारी नद स ३५०  
 —का इतिहास वनर्जी, सुकुमार रामप्रसाद २००  
 —का इतिहास माथुर, पी एस लायल भा १.  
 २५०, भा २-३  
 —का इतिहास मित्र, के पी रा वेनीप्रसाद २५०  
 —का इतिहास मेहता, वी एन गयाप्रसाद ६००  
 —का इतिहास युगलकिगोर यूनिवर्सिटी ११३०  
 —का इतिहास शर्मा, प्यारेलाल नद ब्र ३५०  
 —का नवीन इतिहास सेठी, आर आर मानकचद ६५०  
 —का वृहद इतिहास भगवदत्त आत्माराम एव भा प्राच्य  
 भा १ १८००, भा २ २०००  
 —का भूगोल मोतीलाल १००  
 —का मक्षिप्त इतिहास परमात्माशरण नद ब्र ५००,  
 —न स भा १ ५००, भा २ ६००  
 —का मपूर्ण इतिहास पाडेय, श्रीनेत्र लोकभारती भा १  
 ६००, भा २ ७५०  
 —का सरल आर्थिक एव वाणिज्य भूगोल (प्रश्नोत्तर).  
 जिंदल गयाप्रसाद २००  
 —का सरल इतिहास केला, ओमप्रकाश भा प्र ५००  
 —का सरल इतिहास परमात्माशरण नद स १०००  
 —का सामाजिक इतिहास पाडेय, विमनचंद्र हिंदु एकेडेमी.  
 १२००

- भारतवर्ष में उद्यानकारी. विद्वल, अमरनाथ कि. महल.  
३००
- मे उद्योगो का प्रादुर्भाव शर्मा, एस पी सशो स २ १९६२.  
लक्ष्मी ना
- मे जाति —भेद सेन, क्षितिमोहन सा भवन इ २००
- मे विवाह एव परिवार हरिकृष्ण मोतीलाल १०००
- , लका और ब्रह्मा का भूगोल. प्रयाग ३००
- भारत वाणी. प्र विभाग १५०
- वासियो का इतिहास. मेहता बी एन गयाप्रसाद.  
भा. १ २००, भा २ २२५, भा ३. २२५
- विभाजन की कहानी जान्सन, एलन कैपवेल सस्ता १५०
- विभूति सान्याल, एस. एन साहनी २००
- शिल्प दत्त, विमलकुमार इ प्रे ४००
- शिल्प के पडग ठाकुर, अरुनीद्रनाथ नया सा प्र  
१.५०
- सहति तागडी, अन्नपूर्णा भा ग्रथमाला २००
- सजत है. अन्नत, अ अ लोकप्रिय ३००
- सन् ५७ के बाद चौधरी ४५०
- समाज कल्याण और सुरक्षा गुप्त, रघुराज कि महल  
१०००
- सावित्री अग्रवाल, वासुदेवशरण सस्ता ५००
- सेवक शर्मा, यज्ञदत्त औरिएटल ५५०
- भारती जैन, भानुकुमार, सपा बबई हिं ०.५०
- भारती. भाटिया, कैलाशचंद्र, सपा भा १ भा प्र मंदिर  
१.००
- भारती रवींद्र भ्रमर, सपा भा प्र मंदिर १७५
- कवि-विमर्श पाडेय, राममेवक इ प्रे ३००
- का सपूत (भारतेदु हरिश्चंद्र) रागेय राघव विनोद.  
३.००
- बोध भोसले, बालकृष्ण बबई हिं ०.५०
- भूषण गिरिधरदास, बाबू बगीय १२५
- भारतीय अतीत की बातें कपूर, कालिदास रामा प्र २.००
- अब्दकोश बि राष्ट्र.
- अर्थ-व्यवस्था गौड, कृपागकर केदारनाथ ६५०
- अर्थशास्त्र कुम्भट, जे आर.. गयाप्रसाद ६००
- अर्थशास्त्र जथार, जी. वी तथा एस. जी बेरी राजकमल  
१५००
- अर्थशास्त्र जथार, जी वी तथा के जी जथार  
राजकमल १०००
- अर्थशास्त्र जैन, रघुवीरसिंह स १२. रस्तोगी ६५०
- अर्थशास्त्र ड्यूवेट, केवलकृष्ण एस चाद १५००
- अर्थशास्त्र ड्यूवेट, केवलकृष्ण तथा एम. एल सेठ  
एस चाद १०००
- अर्थशास्त्र देराश्री, सत्यदेव .. नवीन स. १९६२ लक्ष्मी  
ना ११००
- अर्थशास्त्र नवलकिशोर सिंह स १९६३ भा भवन. १४.५०
- अर्थशास्त्र पाडे, एस वुकलेड. ५००
- अर्थशास्त्र. पालविया भोपाल. १.७५

- भारतीय अर्थशास्त्र भटनागर, कालकाप्रसाद... सशो स.  
१९६३ सरस्व स ६५०
- अर्थशास्त्र शुक्ल, रमापति नद व्र एव नद स. ६५०
- अर्थशास्त्र सचदेव गुरदास २५०
- अर्थशास्त्र एक परिचय अग्रवाल, अमरनारायण कि.  
महल ४००
- अर्थशास्त्र एक सरल अध्ययन. कुशवाहा, डी एस...  
राजकमल ३००
- अर्थशास्त्र एव आर्थिक विकास निगम . कि महल.  
१०००
- अर्थशास्त्र एव नियोजन श्रीवास्तव, कृष्ण. सशो स. २.  
आगरा वुक. ८००
- अर्थशास्त्र का विवेचन केला, ओमप्रकाश भा प्र. १०००
- अर्थशास्त्र की रूपरेखा शकरसहाय गयाप्रसाद
- अर्थशास्त्र तथा आयोजन शर्मा, वी डी केदारनाथ ८००
- अर्थशास्त्र, विकास और समस्याए दास, ए वी...  
वुकलेड ११००
- आयकर के सरल सिद्धांत लखोटिया, रामनिवास सशो  
स २ आशा पब्लि ४८०
- आर्थिक, जीवन तथा नियोजन (प्रश्नोत्तर) श्रीवास्तव,  
श्रीनारायण आगरा वुक ७००
- आर्यधर्म की प्रगतिशीलता मंगलदेव शास्त्री. इ प्रे. ०.५०
- आर्य भापाये हिं समि १०.५०
- आर्य भापाए—ऐतिहासिक विवेचन इन्द्रचंद्र शास्त्री. श्री  
भा भारती ५००
- आर्य भाषा और हिंदी चाटुर्ज्या, सुनीतिकुमार राजकमल.  
१०००
- इतिहास गुप्ता, हरिगम एस चाद ६.००
- इतिहास. डे, उपेन्द्रनाथ . कि. महल ७००
- इतिहास रामस्वरूप स ३ चौखवा १.५०
- इतिहास एक दृष्टि जैन, ज्योतिप्रसाद भा ज्ञानपीठ  
८००
- इतिहास और सविधान मिश्र, रामदास 'विजय'. हिं.  
प्रचा म १५०
- इतिहास का उन्मीलन. जयचंद्र विद्यालकार स. ५. हिं  
भवन ११००
- इतिहास का परिचय. त्रिपाठी, पी एस यग मैन ४५० से  
६५०
- इतिहास का परिचय पाडेय, राजवली चौखवा १०.००
- इतिहास का प्रवाह सरन, पी. . रणजीत ५.५०
- इतिहास की एक भाकी चतुरसेन, आचार्य चौधरी.  
३५०
- इतिहास की मीमासा जयचंद्र विद्यालकार हिं. भवन.  
१२००
- इतिहास की रूपरेखा कपूर, गुरुवल्गसिंह २ भा. एस चाद.  
५.०० (प्र)
- इतिहास की रूपरेखा ठाकुर, प्रभाकर... २ भा. भा. प्र.  
५०० (प्र)

- भारतीय इतिहास की रूपरेखा नाहर २ भा कि महल ६०० (प्र)
- इतिहास के आलोक स्तम्भ उपाध्याय, भगवतशरण कि महल ५००
- इतिहास के रत्न गवे, न ग मानकचद भा १० ३७, भा २० ६२
- इतिहास के रेखा-चित्र भगवतशरण प्रभात पन्नि २००
- इतिहास के सुनहरे पन्ने श्यामदत्त यग मैन २५०
- इतिहास दिग्दर्शन इकबालनारायण रतन ५००
- इतिहास मे काल गणना गहजोत, सुखवीरसिंह हि सा म, जो ४००
- ईश्वरवाद शर्मा, रामावतार ग्रथमाला ३००
- उद्योगो का मगठन एव प्रवध निगम कि महल १०५०
- उपारयान माला शर्मा, चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद रा वेनीप्रसाद १२५
- एकता की कहानी ओमप्रकाश लोकप्रिय २७५
- एव पाश्चात्य काव्य-मिद्वान भाटी, देशराजसिंह हि सा स ६५०
- ऐतिहासिक उपन्यास क मु हि. २५०
- औद्योगिक कानून जैन, रतनकुमार नद ब्र एव नद स ३००
- और योरोपीय शिक्षा का इतिहास चतुर्वेदी, मीताराम हि सा कु ४६६
- औषधावली तथा होमियो पेटेट मेडिसिन शर्मा, मुरेशप्रसाद स ४ मेडिकल १५०
- कपनी अधिनियम शुक्ल, एस एम सा भवन, आ ४५०
- कपनी अधिनियम एव मेक्रिटेरियल प्रैक्टिस सक्सेना, एस सी रस्तोगी १२००
- कथाए आनन्दकुमार राजपाल १२५
- कर व्यवस्था मित्र, बाबूराम हि समि ११००
- कला का सक्षिप्त इतिहास गर्ग, एम एन गुप्ता बा १५०
- कला की रूप रेखा अरविंद भारती रा वेनीप्रसाद १२५
- कला के पदचिह्न गुप्त, जगदीश नेशनल ५००
- कला को बिहार की देन वि.येश्वरीप्रसाद सिंह वि राष्ट्र ७५०
- कविता ना अकादमी १६५३ ५००, १६५४-५५ १०००
- कविगत विश्वेश्वरानन्द ३७५
- कहानिया जैन जगदीशचन्द्र ५ भा एम चाद १२५ (प्र)
- पाश्चात्य की परंपरा नगेंद्र नेशनल २०००
- पाश्चात्य की भूमिका नगेंद्र ओरिण्टल १०००, — नेशनल १०५०
- पाश्चात्य ममीक्षा शर्मा, श्रीनिवास अशोक प्र २५०
- पाश्चात्य मिद्वान भाटी, देशराजसिंह हि सा स ३००
- पाश्चात्य चोपरी, सत्यदेव सा भवन, इ ७००

- भारतीय कुश्ती कला पाटोदी रतन भा कुश्ती ५००
- कुश्ती के दाव पेच चदगीराम, मास्टर भा १ भा कुश्ती ५००
- कृषि अर्थशास्त्र गुप्त, एच जी बुकलेड ८५०
- कृषि कहावते (घाघ भडुरी) रामेश्वर अशात देहाती ४००
- कृषि का क ख जयचन्द्र विद्यालकार हि भवन ७००
- कृषि व उद्योग की समझाए खोसला, रोशन यूनिवर्सिटी २५०
- कृषि विज्ञान जैन, जीवनलाल . श्री प्रभाकर ७५०
- क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास गुप्त, मन्मथनाथ आत्माराम १०००
- खाता लेखन और उमका अभ्यास रमन, आर रा वेनीप्रसाद १५०
- खेल कैसे खेले ? जिज्ञासा २००
- गणतंत्र का गविधान शर्मा, महादेवप्रसाद कि महल ६००
- गणराज्य का शासन कपूर, अनूपचन्द एस चाद ६००
- गद्य धारा शर्मा, मुशीराम कुष्णा ब्र २००
- गाव मे प्रसार एव कल्याण कार्य तिवारी, रग मगध ५२५
- गौरव उपाध्याय, वासुदेव परि स भा भ ३००
- गौरव वर्मा, निहालचन्द हि प्रचा पु १००
- गौरव की कहानिया मनमोहन सरल . आत्माराम ४००
- गौरव की कहानी शर्मा, हरिशकर ४ भा रामप्रसाद १०० (प्र)
- गौरव की लोक-कथाए जैन, आनंदप्रकाश आत्माराम भा १ १५०, भा २ १२५, भा ३ १२५
- ग्रामीण एव नागरिक अर्थ-व्यवस्था भटनागर, नदलाल रस्तोगी १०००
- ग्रामीण एव नागरिक व्यवस्था गुप्ता रस्तोगी ६००
- ग्रामीण समाजशास्त्र दक, तेजमल कि महल १२५०
- ग्रामीण समाजशास्त्र मुर्जी, आर एन प्रकाश बुक ०६२
- ग्राम्य अर्थशास्त्र सक्सेना, शकरसहाय हि सा सम्मे ७००
- चलचित्र का इतिहास श्रीधर शास्त्री साधना सदन १.५०
- चित्रकला गैरोला, वाचस्पति मित्र ५०००
- चित्रकला देवसरे, इकबाल वहादुर नद ब्र एव नद. स ३५०
- चित्रकला वर्मा मुशीद्र गगा ५००
- चित्रकला हात्दार, असितकुमार चद्रलोक ६००
- चित्रकला की कहानी उपाध्याय, भगवतशरण राजपाल. १२५
- चित्रकला की रूपरेखा टडन, आर एन भा भा प्र. २५०
- चित्रकला पद्धति दे, शैलेन्द्रनाथ रा वेनीमाधव. २.५०

- भारतीय जनतंत्र और शिक्षालय व्यवस्था गैड, डी एन...  
रतन. ६००
- जनता तथा सस्थाए मुकजी, रवीन्द्रनाथ स १९६० सरस्व.  
स ८५०
- जीवन की समाजवादी समीक्षा विनोद कि महल २००
- जीवन पर एक चिडिया की नजर चतुरमेन, आचार्य  
चौधरी २७५
- ज्ञान विज्ञान शिवनदनप्रसाद सिंह. पु भ, रा भा १.  
०७५; भा २ १७५
- ज्योतिष दीक्षित, शकर वालकृष्ण. हिं समि ८००
- ज्योतिष का इतिहास गोरखप्रसाद हिं समि ४००
- तत्त्व-चिंतन, जैन जगदीशचंद्र राजकमल ६५०
- तर्कबोध भा, ए मोतीलाल १००
- तर्क-शास्त्र आत्रेय, शांतिप्रकाश तारा ५००
- तर्कशास्त्र की रूप-रेखा मिश्र, उमेश रा वेनीप्रसाद  
१००
- तेल उद्योग कालीचरण देहाती ०५०
- तेल की कहानी गोविंद चातक आत्माराम १००
- त्यौहार टडन, शकुंतला नवयुग पु भ ०७५
- दर्शन गैरोला, वाचस्पति लोकभारती. १०००
- दर्शन चट्टोपाध्याय, सतीशचंद्र . पु भ १०००
- दर्शन (प्रश्नोत्तर) मिश्र, अर्जुन मालवीय ६७५
- दर्शन मिश्र, उमेश. हिं. समि. ८००
- दर्शन सिन्हा, यदुनाथ लक्ष्मी ना ८५०
- दर्शन का परिचय तिवारी, ब्रजगोपाल पु भ, आ ३००
- दर्शन का सरल अध्ययन (प्रश्नोत्तर) पु भ, आ ४००
- दर्शन की कहानी पाडेय, सगमलाल रा वेनीप्रसाद.
- दर्शन की रूपरेखा वात्सायन सरस्व. स ६००
- दर्शन की रूपरेखा हरेद्रप्रसाद सिंह वुकलेड ५.००
- दर्शन की रूपरेखा हिरियन्ना राजकमल
- दर्शन के मूल तत्व शर्मा, रामनाथ सशो स. २.  
केदारनाथ ९५०
- दर्शन परिचय (न्याय) भा, हरिमोहन पु भ ७५०
- दर्शन शास्त्र धर्मद्रनाथ शास्त्री मोतीलाल. ३००
- दर्शनशास्त्र का इतिहास देवराज, न. कि . परि स. २  
हिंदु एकेडेमी ६५०
- दर्शन-सार उपाध्याय, बलदेव. सस्ता ५५०
- दसूती कढाई कृष्णमोहन देहाती. २५०
- धर्म व्यवस्था. गैरोला, वाचस्पति लोकभारती ४.००
- नगर विद्यार्थी ललिताप्रसाद राजकमल
- नगरो की कहानी उपाध्याय, भगवतशरण राजपाल  
१२५
- नदियों की कहानी उपाध्याय, भगवतशरण. राजपाल  
०७५
- नवोदय के अग्रदूत विश्वेश्वरानंद ३५०
- नागरिक एव प्रशासन दुवे भोपाल १७५
- नागरिक जीवन प्रयाग. २.२५
- नागरिक जीवन द्विवेदी, शकरधर. स्टुडेन्स स्टोर्स. २.२५

- भारतीय नागरिक जीवन एव उसकी समस्याये. लूनिया, बां एन.  
लक्ष्मी ना. १.५०
- नागरिकता की भूमिका वर्मा, कन्हैयालाल सशो. स नद.  
ब्र एव नद स ५५०
- नागरिक शास्त्र द्विवेदी, शकरधर स्टुडेन्स स्टोर्स ३००
- नाट्य-साहित्य नगेद्र, सपा एस चाद १२.००
- नारी. विवेकानंद, स्वामी स ५ श्रीरामकृष्ण १३०
- नारी और समाज ओमीलाल 'इलाहावादी' विद्या भवन,  
इ. २५०
- निगम वित्त-व्यवस्था बहुगुणा, सुरेद्रदत्त कि महल  
१५००
- नियोजन की रूपरेखा भट्टाचार्या, ए वी रतन. ६.००
- नृत्यकला वर्मा, केशवचंद्र कि महल ५००
- नेताओ का वचन राममोहन गंगा एव प्रभात पब्लि.  
१२५
- नेताओ की हिंदी-सेवा दरवार, ज्ञानवती रजन १५.००
- न्याय प्रवेशिका जयप्रकाश गर्ग ब्र १५०
- पत्रकारकला वृत्सले, रोलैंड ई, सपा ज्ञानमडल ६.५०
- पद्य धारा शर्मा, मुशीराम कृष्णा ब्र २००
- परिवहन बसल, के एल सशो स २ सा. भवन, आ.  
४००
- पशु पालन एव चिकित्सा. राणा, धर्मसिंह अजता. ६००
- पाक-विज्ञान वर्मा, सावित्रीदेवी अरुणोदय ७००
- पौराणिक कथाए तिवारी, भोलानाथ राजकमल. ३.५०;  
(पा.) १००
- प्रकृति चित्र नदलाल खुशतर कि महल १५०
- प्रजातंत्र शासन का नागरिक श्रीवास्तव, शिवकुमारलाल.  
रामप्रसाद १००
- प्रजातिया एव सस्थाये. हैलन, जी सी स ४ रस्तोगी.  
५५०
- प्रतीक-विद्या मिश्र जनार्दन वि राष्ट्र ११००
- प्रदेश और उनके निवासी चट्टोपाध्याय, वसंतकुमार सह-  
गल ६५०
- प्रमडल अधिनियम जैन, रतनकुमार नद ब्र एव नद. स  
४००
- प्रवेशिका भा, सुभद्र मोतीलाल २२५
- प्रशासन जैन, आर सी एस चाद ३७५
- प्रशासन बबवाल, के आर आत्माराम ५००
- प्रशासन और नागरिक जीवन श्रीवास्तव, उदयप्रकाश  
ग्रथमाला ५७५
- प्रशासन तथा नागरिक जीवन रस्तोगी रीगल. ४.५०
- प्रशासन तथा सविधान चार सुरजीत १२००
- प्रशासन व राजनीति चौधरी फ्रैंक ६५०
- प्रयुक्त नीति सवसेना एस सी रस्तोगी १२५
- प्रेमाख्यान काव्य श्रीवास्तव हरिकांत हिं प्रचा पु  
१०००
- फिल्मो की कहानी श्रीवास्तव, वचन राजपाल. ४५०,  
— हिंद पा. १.००

- भारतीय बच्चा और माता-पिता कुमरिया, चार आर यूनि-  
वर्सिटी २.५०
- बही ग्याना भडावन, अमृतलाल. कृष्णा व्र १.५०
- ज्ञान की शिक्षा ममम्याए अनत, अ अ कि महल
- बाल-चित्राकन गर्ग, मुग्धचंद्र सर्वोदय मा ३०० [१७५]
- बैकिंग की हपरैजा शकरमहाय गयाप्रसाद
- भवनों की कहानी उपाध्याय, भगवतशरण राजपाल  
१०५
- भाषाओं का आधुनिक माहित्य पाडेय, राजकिशोर  
नवहिंद ३००
- भाषा विज्ञान वाजपेयी, किशोरीदान चौखवा एव हिमा-  
लय ६२५
- भजदूंगे की समस्याए मत्यप्रकाश 'मिलिंद' एस चाद  
४००
- मल्ल शिक्षा व्यामसुंदर 'मुमन' भाग्योदय ०५०
- महापुरुष भा १ गुप्त, तनमुखराम सूर्य प्र ३००
- मुक्तक परपरा. त्रिपाठी, राममागन अगोक प्र ७५०
- मुद्रा का इतिहास गुप्त, गिरिराजप्रसाद एस चाद  
३.७५
- मुद्रा तथा बैकिंग मालीराम नशो स ६ आगरा बुक  
५००
- मूर्तिकला रायटृष्णदास ना प्र सभा ४५०
- मूर्तिकला की कहानी उपाध्याय, भगवतशरण. राजपाल  
१२५
- यथार्थ एव रहस्यवाद मिश्र, नगाधर राष्ट्र प्र म  
१५०
- यातायात व्यवस्था शुक्ला . किशोर पब्लि ४००
- योजनाकरण पाडेय, विशभरनाथ मोतीलाल १३१
- योजना पर्यवेक्षण लालजीमिह नुभाप ४००
- रत्न गुप्ता, किरणकुमारी ड प्रे १००
- राजनीति (१८५७ से वर्तमान काल तक) द्विवेदी, जी  
एन पु भ, आ
- राजनीति और ज्ञानन (१८५८-१९३०) किशोर पब्लि  
८५०
- राजनीति और शासन बबवाल, के आर आत्माराम  
१०००
- राजनीति और शासन नभरवाल, हृदयनारायण प्रकाश  
बुक ७५०
- राजनीति और शासन पद्धति वर्मा, कन्हैयालाल नद व्र  
एव नद म = ००
- राजनीति और शासन विज्ञान वर्मा, कन्हैयालाल नद. व्र  
एव नद न ७५०
- राजनीति का इतिहास (१८५७-१९५९) राजकुमार हि  
प्रका पु १०००
- राजनीति का विज्ञान न. विज्ञान मिशन चंद्रबला.  
नद म = ५
- राजनीति विद्योत्तिया ने नेहन तक रामगोपाल  
ज्ञानमठन ११००

- भारतीय राज्य शासन केला, भगवानदास सं ५ रा बेनी-  
प्रसाद १२५
- राष्ट्रीय आंदोलन एव सविधान सरन, पी रस्तोगी ७००
- राष्ट्रीय आंदोलन एव सवैधानिक विकास विमलेश लक्ष्मी  
ना
- राष्ट्रीय आंदोलन, सवैधानिक विकास एव सविधान सदन,  
पी रस्तोगी ८५०
- राष्ट्रीय का विकास रामनाथ 'सुमन' साधना सदन ०.५०
- राष्ट्रीय चेतना का पुनर्विकास सीताशरणसिंह पु भ  
०५०
- राष्ट्रीयता विद्यार्थी, देवदूत सा रत्न भ २.००
- राष्ट्रीयता का विकास तथा भारतीय सविधान गुप्ता,  
ओ पी केदारनाथ. ६५०
- रीति-रिवाज और परंपरा नाहर. छात्रहितकारी २००
- ललित कथाए नागर, देवीलाल मानकचद १७५
- लोक कथाए प्र विभाग
- लोकतंत्र किरण साहनी ०.५०
- लोकनीति और सभ्यता २ भा पुणतावेकर, कृष्णव्यकदेश.  
काशी हिंदू ४५० (प्र )  
वाङ्मय द्विवेदी, हजारिप्रसाद. . भा १. राष्ट्र प्रचा  
समि. २००
- वाङ्मय नगेंद्र, सपा सा सदन, चि १५००
- वाङ्मय वाष्णैय, लक्ष्मीसागर... भा २ राष्ट्र प्रचा  
समि १५०
- वाङ्मय. सेन, सुकुमार. भा ३ राष्ट्र प्रचा समि  
२००
- वाङ्मय के अमर रत्न. जयचंद्र विद्यालकार स ६.  
हि भवन १००
- वाङ्मय में श्रीराधा. उपाध्याय, बलदेव वि राष्ट्र  
१०५०
- वाशिष्ठ्य विधान जैन, रतनकुमार नद व्र एव नद स  
१२५०
- वाशिष्ठ्य सन्नियम सक्सेना, एस सी रस्तोगी. १४००
- वास्तु-शास्त्र शुक्ल, द्विजेन्द्रनाथ श्री भा भारती ८५०
- विचाराधारा. मधुकर भा ज्ञानपीठ २००
- विज्ञान की कहानी विश्वोई लोकप्रिय ३५०
- विद्यार्थियों को सदेव गाधी, मोहनदास करमचद नव-  
जीवन ०५०
- विपणन का अध्ययन सक्सेना किशोर पब्लि १०००
- विभूतिया टडन, तेजनारायण हि मा. भ १००
- वीरता गुप्त, रजनीकांत हि पु ए २७५
- वीरगनाथ बसल, रघुवीरशरण देहाती ३००
- वीरगनाथ वर्मा, रामनिह हि पु ए १५०
- वीरों का आत्मन्याग मिश्र, नर्मदाप्रसाद मिश्र-ववु  
१५०
- वैज्ञानिक कपूर, स्वामिनारायण सा नि, का ७००
- व्यापार चीहान, शिवव्यानसिंह सगो स ३ सा भवन,  
आ. ६२५

- भारतीय व्यापार वसल, के एल सशो स २ सा भवन, आ ४००
- व्यापार. शिवध्यान सिंह लक्ष्मी ना. ४५०
- व्यापार एव परिवहन वसल, के. एल सशो स २ सा भवन, आ ७००
- व्यापार एव यातायात पल्सुले, एन आर . आगरा बुक ६.००
- व्यापारिक सन्नियम. सक्सेना, एस. सी रस्तोगी ५५०, १०००
- व्रतोत्सव. चतुर्वेदी, पुरुषोत्तम शर्मा. स २ चौखवा. ३००
- शासन त्रिवेदी, रामनरेश मोतीलाल ४२५
- शासन द्विवेदी, शकरधर स्टुडेन्स स्टोर्म २३७
- शासन और नागरिक जीवन मेहता, बी एन स ६ १६६२ लक्ष्मी ना ५००
- शासन और राजनीति का विकास सरन, पी रस्तोगी १०००
- शासन और समाज पाडेय, अवधविहारी नद ब्र ५५०
- शासन की रूपरेखा अर्गल, राजेश्वरप्रसाद. मिश्र-बधु १५०
- शासन की रूपरेखा. श्रीवास्तव, पन्नालाल .. बुकलेड ५००
- शासन पद्धति मजुमदार विमानविहारी बुकलेड ५००
- शासन परिचय गुप्त, परमेश्वरीलाल हि पु ए २७५
- शासन प्रणाली त्यागी, एम एस. स. ३ रस्तोगी. २५०
- शासन प्रणाली सिद्धेश्वरी बल्लभ पु भ., रा ३.२५
- शासन विधान सतिश. कल्याणदास ३५०
- शासन व्यवस्था रामसकल सिंह अशोक पु. म.
- शिक्षा राजेद्रप्रसाद आत्माराम ३५०
- शिक्षा श्रीवारतव, रमाकांत गर्ग ब्र. ५००
- शिक्षा का इतिहास गुणा, बी आर रस्तोगी ७५०
- शिक्षा का इतिहास चौबे, सरयूप्रसाद रा बेनीमाधव १०००
- शिक्षा का इतिहास जैन, कपूरचंद सशो स २ विनोद ३५०
- शिक्षा का इतिहास जौहरी, बी पी सशो स. २ विनोद. ७००
- शिक्षा का इतिहास (प्रश्नोत्तर). द्विवेदी, चंद्रदत्त पु भ, आ ३५०
- शिक्षा का इतिहास (आधुनिक काल) मुकर्जी, एस एन आचार्य बुक ६००
- शिक्षा का इतिहास रावत, पी एल रामप्रसाद १०००
- शिक्षा का इतिहास (प्रश्नोत्तर) जर्मा, बी पी मालवीय ४५०
- शिक्षा इतिहास सहगल, मनमोहन दि. पु स. ६.००
- शिक्षा का इतिहास सूर कि महल ८५०
- शिक्षा का सक्षिप्त इतिहास चौबे, सरयूप्रसाद रा बेनीमाधव ३.५०

- भारतीय शिक्षा का सक्षिप्त इतिहास, बंशीधर सिंह... गया-प्रसाद ५००
- शिक्षा का सक्षिप्त इतिहास रावत, पी एल स ३. रामप्रसाद ५७५
- शिक्षा का सक्षिप्त इतिहास तथा उसकी समस्याये और परीक्षण चौबे, सरयूप्रसाद रा बेनीमाधव ६५०
- शिक्षा की रूपरेखा जौहरी, बी पी . विनोद ५.००
- शिक्षा की समस्याए. चौधरी, रामखेलावन हि सा भ. ५००
- शिक्षा की समस्याए जौहरी, बी पी . विनोद. ६००
- शिक्षा की समस्याये और परीक्षण. चौबे, सरयूप्रसाद रा बेनीमाधव. ३००
- शिक्षा के अनुभव हरिहरनाथ रा बेनीप्रसाद. २००
- शिक्षा तथा आधुनिक विचारधाराए मलैया, विद्यावती राजकमल ४५०, ५५०
- शिक्षा-दर्शन हुमायु कवीर राजकमल ७००
- शिक्षा सिद्धांत अदावाल, सुबोध गर्ग ब्र ८.००
- शिष्टाचार कामताप्रसाद 'गुरु' रा बेनीमाधव १००
- शिष्टाचार मिश्र, रामनारायण ना प्र सभा. ०.२५
- शिष्टाचार वत्स्य, सतराम सन्मार्ग ०७५
- श्रम की समस्याये. वाष्णोय, आर पी आगरा बुक. २२५
- संस्कृति. २ भा नद स
- सगीत की कहानी उपाध्याय, भगवतशरण. राजपाल १२५
- सगीत विज्ञान बाली, हरिश्चंद्र हि भवन १५०
- सत परपरा और समाज रागेय राधव कि महल. ३००
- सयोजन मे नई दिगाए श्रीमन्नारायण शिवलाल १०००
- सविधान भा, मनोरजन नावट्टी ४००
- सविधान लूनिया, बी एन लक्ष्मी ना २५०
- सविधान. शर्मा, जिवनाथ आदर्श पु भ ६००
- सविधान श्रीवास्तव, के विनोद २५०
- सविधान एव नागरिक शास्त्र (प्रश्नोत्तरी) घनश्यामदान रीगल २००
- सविधान एव नागरिकशास्त्र दर्गन राय, ब्रह्मदेव राजीव, प्रयाग २५०
- सविधान और नागरिक जीवन केला, ओमप्रकाश भा प्र ४५०
- सविधान और नागरिक जीवन भा, मनोरजन . नावट्टी ६००, प्री १००
- सविधान और नागरिकता चौबे, गोरखनाथ रा बेनी-प्रसाद ०७५
- सविधान का इतिहास गुप्ता, ओ पी केदारनाथ. ७००
- सविधान का ऐतिहासिक विकास केले. एस एल गुम्दाग ६०
- सविधान का विकास तथा राष्ट्रीय आंदोलन अग्रवाल, आर. सी. एस चाद १२.५०



- भारतीय नविधान की महत्वपूर्ण सस्थाओं का विकास गुप्ता,  
ओ पी केदारनाथ २००
- नविधान तथा नागरिक जीवन गुप्त, राजनारायण  
कि महल ४५०
- नविधान तथा नागरिक जीवन सेठी, आर आर  
एन चाद ५५०
- नविधान तथा प्रशासन भटनागर, विजयसिंह कल्याणमल  
३००
- नविधान तथा प्रशासन सेठी, आर आर एस चाद  
७००
- नविधान दिग्दर्शन पाडेय, श्रीनेत्र. श्रीराम मेहरा ३००
- नविधान प्रश्नोत्तर रूप में कल्याणदास २००
- नैदानिक तथा राष्ट्रीय विकास रघुवशी, वी पी एस  
मशो न ३ रतन ७००
- संस्कृति कप्पाचंद्र विद्यालकार सूर्य प्र १५०
- संस्कृति गोपाल शास्त्री हिं सा सम्मे १५०
- संस्कृति देवराज हिं समि ४००
- संस्कृति धर्मवीर केदारनाथ ४५०
- संस्कृति वादेव कृष्ण ओरिएटल ४५०
- संस्कृति मिश्र, वलदेव प्रसाद रा वेनीमाधव २५०
- संस्कृति लल्लनजी गोपाल स २ विश्वविद्यालय ५००
- संस्कृति वात्स्यायन विश्वविद्यालय ३००
- संस्कृति शर्मा, उर्मिला केदारनाथ ५००
- संस्कृति शिवदत्त ज्ञानी राजकमल ५५०
- संस्कृति माने गुरुजी मस्ता ३५०
- संस्कृति एन ममाजशास्त्रीय समीक्षा भट्ट, गौरीशकर  
मा नदन, दे ५००
- संस्कृति एन मभ्यता आचार्य, प्रसन्नकुमार हिं सा  
मम्मे ५००
- संस्कृति और अहिंसा कौशावी, धर्मानंद हिं अ र  
२५०
- संस्कृति और इतिहास चौधरी, स स प्रभात प्र ४००
- संस्कृति और उमका इतिहास मत्यकेतु विद्यालकार  
मशो स ३ मरम्ब स ६००
- संस्कृति और माधना गोपीनाथ कविराज वि राष्ट्र  
११५०
- संस्कृति का इतिहास चतुरमेन, आचार्य रस्तोगी  
१५००
- संस्कृति का इतिहास भटनागर, कालीशकर रतन  
०००
- संस्कृति का इतिहास भारद्वाज, दिनेशचंद्र विनोद ६७५
- संस्कृति का इतिहास मन्दकुमार मोतीनाथ ३००
- संस्कृति का इतिहास उपाध्याय, रामजी रा वेनीमाधव  
५००
- संस्कृति का प्रभाव उद दिग्दर्शनमपति एन चाद  
५००
- संस्कृति का इतिहास शर्मा म = रस्तोगी ६००
- संस्कृति का इतिहास नगनंदन शर्मा भा ज्ञानरीठ

- भारतीय संस्कृति का संक्षिप्त इतिहास हरिदत्त वेदालकार  
आत्माराम २३०
- संस्कृति की कहानी उपाध्याय, भगवतशरण राजपाल  
१२५
- संस्कृति की झलक लूनिया, वी एन लक्ष्मी ना ३००
- संस्कृति की परंपरा (प्रश्नोत्तर) इंदुमती मालवीय  
४५०
- संस्कृति की रूपरेखा गुलाबराय सशो स कि घर, म्वा  
४००
- संस्कृति की रूपरेखा रामधन. श्री भा भारती ३००
- संस्कृति के आधार घोष, अरविद श्रीअरविद १०५०
- संस्कृति के मूल तत्व पाडेय, सत्यनारायण. सा नि,  
का ३००
- संस्कृति के मूल तथ्य पुरी, वैजनाथ मालवीय ५००
- संस्कृति के विस्तार की कहानी उपाध्याय, भगवतशरण  
राजपाल ०७५
- संस्कृति में जैन धर्म का योगदान जैन, हीरालाल मध्य-  
प्रदेश शासन १०००
- संस्कृति विज्ञान और कला अग्रवाल, एस चाद  
२५०
- सभ्यता और संस्कृति का विकास वर्मा, राजेश्वर श्रीराम  
मेहरा १५०
- सभ्यता का विकास कपूर, कालिदास रामा प्र २००
- सभ्यता तथा संस्कृति का विकास लूनिया, वी एन परि.  
स ४ १६६१ लक्ष्मी ना ७५०
- समाज और संस्कृति त्रिपाठी, शंभूरतन कि घर, का.  
१२००
- समाज और संस्कृति शर्मा, कैलाशनाथ सशो स ५  
किशोर पट्टिल १०००
- समाज और संस्कृति शर्मा, रामनाथ केदारनाथ भा. १  
६००, भा २ १०००
- समाज और संस्कृति का इतिहास पाराशर ग्रथमाला  
१७५
- समाज और संस्थाए (प्रश्नोत्तर) गुप्त, रामबाबू किशोर  
पट्टिल ६५०
- समाज और संस्थाए वात्स्यायन सशो स ३ केदारनाथ  
५५०
- समाज तथा सामाजिक संस्थाए दीक्षित, प्रकाशचंद्र रतन  
१०००
- समाजवाद की रूपरेखा सत्यदेव, स्वामी ना. प्र सभा  
००५
- समाज-विन्यास मुर्कजी, राधाकमल २००
- समाज विमर्श दीक्षित, भगीरथप्रसाद मिदन ४००
- समाज व्यवस्था पटेल, तारादेन सरदार ७००
- समाज व्यवस्था वर्मा, लक्ष्मीकांत कि महल ३००
- समाज शास्त्र त्रिपाठी, शंभूरतन कि घर, का १२००
- समाज शास्त्र धर्मदेव विद्यामार्तंड. आर्य सा २००
- समाज संगठन चौधरी, मर्याप्रसाद रा वेनीमाधव २००

- भारतीय सहकारिता आंदोलन निगम, अनंतराम सा नि, का  
—सहकारिता आंदोलन शर्मा, ओमप्रकाश मध्यप्रदेश शासन  
१.३५
- साधक राय, शरत्कुमार इ प्रे १००
- साधना और सत तुलसी साहब माथुर, हरस्वरूप सा  
नि, का
- सामाजिक परंपरा सक्सैना, आर एन पु भ, आ
- सामाजिक व्यवस्था अग्रवाल, के डी एस चाद ३००
- सामाजिक व्यवस्था और सस्थाये शर्मा, रामनाथ केदार-  
नाथ ८.५०
- सामाजिक सगठन. तोमर, रामविहारी सिंह श्रीराम मेहरा  
२५०
- सामाजिक सगठन. वात्स्यायन केदारनाथ ५००
- सामाजिक सगठन शर्मा, रामनाथ केदारनाथ ५५०
- सामाजिक सगठन सत्यव्रत सिद्धातालकार विजयकृष्ण  
३.००
- सामाजिक सगठन की रूपरेखा शर्मा, के एन किशोर  
पब्लि २५०
- सामाजिक संरचना त्रिपाठी, शंभूरत्न कि महल ५००
- सामाजिक संस्थाए तोमर स २ दत्तवधु १५००
- सामाजिक संस्थाए मुकर्जी, रवींद्रनाथ सरस्व स १२००
- सामाजिक संस्थाये शर्मा, रामनाथ केदारनाथ ७.५०
- साहित्य शर्मा, नलिन विलोचन .. पारिजात ३५०
- साहित्य और संस्कृति हरिदत्त शास्त्री मुशीराम ६००
- साहित्य की रूपरेखा व्यास, भोलाशंकर चौखवा ७५०
- साहित्य की सांस्कृतिक रेखाए चतुर्वेदी, परशुराम सा  
भवन, इ ५००
- साहित्य दर्शन. त्रिपाठी, राममूर्ति नद ब्र एव नद. स.  
६५०
- साहित्य शास्त्र उपाध्याय, बलदेव स ३ नद स १५००
- साहित्य शास्त्र. उपाध्याय, बलदेव भा १-२. नद स  
१८.००
- साहित्यो की कहानी उपाध्याय, भगवतशरण राजपाल  
१२५
- सेना का इतिहास मजुमदार, प्रबोधकुमार. राष्ट्रीय प्र  
मदिर २०००
- सेना का इतिहास राजेद्रसिंह आर्मी ६५०
- सेना की परंपराए धर्मपाल आर्मी ३००
- स्कूलो मे समाज-अध्ययन का शिक्षण मुनेश्वरप्रसाद.  
नवीन सशो स ज्ञानपीठ ६५०
- स्थानीय स्वशासन भा, चेतकर. नावल्डी. ५.५०
- स्थानीय स्वशासन राय, हरिहरप्रसाद सुबोध ग्र ५००
- स्वतंत्रता का इतिहास गुप्ता, अमृतलाल पजाबी पब्लि  
५००
- स्वातंत्र्य संग्राम बदनसिंह भा प्र मदिर ०५०
- स्वाधीनता का इतिहास विमलेश साहित्यवाणी २००
- स्वाधीनता-संग्राम का इतिहास इद्र विद्यावाचस्पति.  
सस्ता. ५.५०

- भारतीय स्वाधीनता संग्राम के नेता अवस्थी, लीला हिं प्रचा.  
पु १२५
- भारती सिक्के उपाध्याय, वासुदेव भा. भ. ५००
- भारतीस्तव कपाली शास्त्री. श्रीअरविंद १००
- भारतेदु गोविंददास, सेठ औरिएटल २००
- उनके पूर्ववर्ती तथा परवर्ती कवि गुप्त, किशोरीलाल सा.  
रत्न भ ०७५
- और उनके नाटक. विश्वप्रसाद . रा वेनीमाधव. १२५
- और नर्मद का तुलनात्मक अध्ययन देसाई, अरविंद  
सरस्व पु स १२५०
- कला सुकुल, ललिताप्रसाद . वगीय ४५०
- का नाट्य-साहित्य शुक्ल, वीरेद्रकुमार रा. वेनीमाधव  
५००
- कालीन नाटक साहित्य तिवारी, गोपीनाथ हिं भवन.  
८००
- कालीन हास-परिहास पाडेय, ब्रजेद्र सुभाष २००
- काव्यादर्श मिश्र, कृष्णकिशोर प्रत्यूष ४००
- के दो नाटक सुकुल, ललिताप्रसाद, सपा वगीय २५०
- के नाटको का तात्त्विक अध्ययन त्रिपाठी, गोपीनाथ एस  
चाद
- के निबंध शुक्ल, केसरीनारायण नद ब्र. एव नद स.  
५००
- ग्रथावली ब्रजरत्नदास, सपा ३ भा ना प्र सभा भा.  
१ (ना) १०००; भा २. (का.) ११००, भा ३  
(नि) ११००
- नाटिकावली ब्रजरत्नदास. २ भा रा. वेनीमाधव ३००  
(प्र)
- नाट्य रूपक मेहता, भानुशंकर ना प्र सभा ३००
- युग शर्मा, रामविलास विनोद ३००
- युगीन निबंध शिवनाथ. नद ब्र एव नद स २५०
- युगीन हिंदी नाट्य-साहित्य शुक्ल, भानुदेव नद स ८००
- साहित्य चौहान, रामगोपाल सिंह विनोद ६७५
- साहित्य शुक्ल रामचंद्र पु भ १५०
- हरिश्चंद्र ब्रजरत्नदास सशो स हिंदु एकेडेमी ७००,  
सक्षिप्त २००
- हरिश्चंद्र भटनागर, रामरत्न कि महल २५०
- हरिश्चंद्र मुद्राराक्षस सस्ता ०४०
- हरिश्चंद्र वाष्णीय, लक्ष्मीसागर सा भवन, इ. ५००
- हरिश्चंद्र श्यासुंदरदास इ प्रे १२५
- हरिश्चंद्र (प्रश्नोत्तर) वधौलिया, रामजीलाल. विनोद.  
२५०
- भालू फॉकनर राजपाल २००
- की हार सकसेना, शंभुदयाल नवयुग ग्र कु. १००
- दादा शर्मा, राजेश बाल सदन
- बोला. भिंगन, राधेव्याम सस्ता १००
- भाव और अनुभाव नथमल, मुनि भा ज्ञानपीठ १५०
- कण शर्मा, सरनामसिंह 'अरुण' कृष्णा ब्र. २५०
- तेरे शब्द मेरे. व्यास, मदनमोहन. मानसरोवर सा. २.५०

भावना प्रदान, कमलावति जानमडल एव भा प्र मडल  
२००

- और नमीक्षा ओम्प्रकाश भा प्र मदिर. ४००
- ने कर्तव्य बडा भा, उयमोहन कला नि १५०
- भाव प्रकाश निपट्ट द्विवेदी विश्वनाथ स ४ मोतीलाल ७.००
- प्रकाश—नपूर्ण लानचद वैद्य मोतीलाल १६००
- भास्कर काव्यम् धनराज, मुनि आत्माराम २००
- लेखा पत्रा 'मुवि' विद्या प्र म ३००
- भाव मग्रह दि देवनेनपूणि भा जानपीठ २२५
- भावी भारत नेन, एल वी गयाप्रसाद १२५
- भावन की एक तमवीर मगन्वाला, किशोरलाल नवजीवन भावुक रामदृष्णादाम भा भ १०० [०५०
- भावुकता का मृत्यु गुरुदत्त भा सा सदन ६००, (पा) २.००
- भाषण और बोल-चाल की कला उपाध्याय, देवनाथ कि महल २५०
- भाषा अध्ययन के आधार टडन, प्रेमनारायण हि सा भ ७००
- , और अग्नेजी हटाओ क्यो लोहिया, राममनोहर नवहिंद
- और मनाज शर्मा, रामविलास पीपुलम १५००
- और साहित्य का विवेचन हडू, जियालाल एस चाद ३००
- का इतिहास भगवदत्त आत्माराम ५००
- का इतिहास भाटी, दशराजमिह हि सा म २५०
- का प्रश्न भावे, विनीता अ भा सर्व ०२५
- की शिक्षा चतुर्वेदी सीताराम सशो स ७ हि सा कु ५००
- केम पटावे जर्मा योगेन्द्रनाथ हि प्रचा पु २००
- ज्ञान एवं रचना प्रोव चतुर्वेदी, लव्येद्र यग मैन ३७५
- तत्व शास्त्र या प्रतिमा दशन जोशी, हरियकर चौखवा
- दशा रामलाल मिह भा १ विद्या म, वा ०५०
- निरा तथा चचना गुप्त, मुसुपाल आर्य बुक १२५
- परिवार एक अध्ययन वर्मा, धर्मपाल रीगल ०३७
- प्रेम मायु, गिगीश बरई हि ०५०
- प्रेम रत्न नजीर क मु हि
- भाषा की दीनित त्रिलोकीनाथ कि महल २५०
- भाषा गुलाबनाथ सपा ना रत्न भ १००
- भूषण. मिश्र त्रिवेदीनाथप्रसाद नद म ३००
- भाषण प्रवर्तनमिह म ३ रा वेनीमाधव ०७५, — हि मा कु १००
- रत्न चरित्रा शर्मा भास्करनाथ रत्न ३५०
- रत्न श्यामनद दान ० प्रे ५५०
- नीचा चतुर्वेदी मोतीलाल हि मा कु ६००
- राज प्रात गाती, मोहनराम रामचद नवजीवन ०२५
- रिपात चतुर्वेदी राजेश्वरप्रसाद रत्न ८००
- रिपात त्रिवेदी, भोलानाथ कि मद्र ७५०
- रिपात भाषाभरण 'अग्ने' म ६६ विनोद २५०
- रिपात रिपाती नवयुग पु भ २५०

- भाषा विज्ञान श्यामसुंदरदास ड प्रे ५००
- विज्ञान एव हिदी भाषा का इतिहास भारतभूषण 'सरोज' हि सा म २५०
- विज्ञान की रूपरेखा त्यागी तुलसी १५०
- विज्ञान कोश तिवारी, भोलानाथ, सपा जानमडल २५००
- विज्ञान तत्व शर्मा, प्रभुनारायण विनोद १५०
- विज्ञान दर्शन शर्मा, कृष्णचंद्र आत्माराम २००
- विज्ञान दर्शन श्रीलाल 'भानु' शारदा प्र (पा) १००
- विज्ञान परिचय महेद्र, सपा सशो स सा रत्न भ २५०
- विज्ञान प्रश्नोत्तर भा, जयवणी रीगल २५०
- विज्ञान प्रश्नोत्तर रावत, जोधसिंह रीगल १५०
- विज्ञान प्रश्नोत्तरी प्रेमकृष्ण 'अनामिल' सरस्व पु स २२५
- विज्ञान समीक्षा शर्मा, हेमदेव अशोक प्र २५०
- विज्ञान समीक्षा शिवशकर अशोक प्र २५०
- विज्ञान सार मेहरोत्रा, राममूर्ति ना प्र सभा २५०
- वैज्ञानिक संस्कृत-व्याकरण ह्विटनी, विलियम ड्वाइट चौखवा
- शब्द कोष शुक्ल, रामशकर 'रसाल', सपा रा वेनीप्रसाद १२००
- शास्त्र जयकुमार 'जलज' त्रिवेणी १२००
- शास्त्र का पारिभाषिक शब्दकोश द्विवेदी, राजेद्र आत्माराम १०००
- शास्त्र की रूपरेखा तिवारी, उदयनारायण भा भ ६००
- शास्त्र प्रवेशिका अमरवहादुर सिंह रा वेनीप्रसाद
- शिक्षण त्रिपाठी, करुणापति नद ब्र एव नद स २२५
- शिक्षण की रूपरेखा पालीवाल नवयुग ग्र कु १७५
- शिक्षण-पद्धति टडन, तेजनारायण, सपा हि सा भ १२५
- शिक्षण-विधि उमाशकर शास्त्री हि प्रचा पु २००
- शिक्षण सकेत शर्मा, रमाशकर 'काक' सा नि, का १७५
- शिक्षा सूत्र शर्मा, रमाशकर 'काक' सा नि, का १७५
- शिक्षा की रूपरेखा गुप्त, लक्ष्मीनारायण गर्ग ब्र २५०
- मदन लाखनमिह नेशनल १००
- साहित्य और संस्कृति विश्वभर 'मानव' कि महल ४००
- भाम के तीन नाटक भाम हि मा सम्मे ०६२
- ग्रथावलि हरदयालु मिह गयाप्रसाद २००
- नाटकावली अज्ञात हि प्रचा पु १००
- भिक्षु दृष्टांत जयाचार्य, श्रीमद् जैन श्वेतावर २५०
- भिक्षा गर्ग, हरीराम जानमडल प्र १२५
- भिक्षु ग्रथ रत्नाकर भीषण, आचार्य जैन श्वेतावर ख १. २५००, म २२०००
- न्याय कर्णिक तुलसी, आचार्यश्री आदर्श सा १००
- विचार दर्शन नथमन, मुनिश्री जैन श्वेतावर ३५० (अप्रा)

भिक्षु साहित्य की लोक कथाएँ श्रीचद, मुनिश्री आदर्श सा  
१५०

—से गृहस्थ, गृहस्थ से भिक्षु गोविन्ददास, सेठ एस चाद  
२००

भिखारिणी शर्मा, विश्वभरनाथ 'कोशिक' विनोद ४००

भिखारीदास ग्रयावली मिश्र, विश्वनाथप्रसाद, सपा भा १-२  
ना प्र सभा १५००

भिखारी से भगवान् एलेन, जेम्स गगा ३००

भिलावा वेदी रामेश आत्माराम १२५

भिषक्कर्मसिद्धि द्विवेदी रमानाथ चौखवा २५००

भीगा आचल गोविन्दसिंह गुल्लूप्रसाद ३५०

भीगी पलके मित्तल, महेंद्र एस चाद २७५

भीगी आखे गुप्त, विद्याचलप्रसाद पु भ २००

—पलके तालिव भारती पजावी पु २००

—पलके विश्णोई, शिवरानी नद ब्र एव नद स ५५०

—पलके सव्वरवाल, कचनलता इ प्रे १.००

भीमपलामी वनफूल हि ग्र २ ३५०

भीमविक्रम. चौमुशाल, रामेश्वर हि पु ए ०७५

भीमसेन, दुर्योधन, अश्वत्थामा कि महल १५०

भीषण डाकू जैन, ऋषभचरण ज्ञान प्र २.००

भीष्म चोपडा, सुदर्शन उमेश २००

भीष्म राम, द्विजेन्द्रलाल हि ग्र २ १७५

भीष्म, धृतराष्ट्र, द्रोणाचार्य कि. महल १५०

—पितामह चतुर्वेदी, द्वारिकाप्रसाद ना प्र सभा ३००

—पितामह देवदत्त शास्त्री. विश्वेश्वरानन्द १५०

—पितामह देवराज 'दिनेश' सस्ता ०४०

—प्रतिज्ञा आगाहश्र काश्मीरी देहाती २००

—प्रतिज्ञा चद्रशेखर शास्त्री गगा २५०

—व्रत शारदा म १२५

भुज (कच्छ) की ब्रजभापा पाठशाला चद्रप्रकाश सिंह, कुवर  
म स यूनि १५०

भुलक्कड वर्मा, मनोहर आत्माराम १७५

भुवन विक्रम वर्मा, वृदावनलाल मयूर ३५०

—विजयम् उमाशंकर स २ भा ग्र नि ६००

भूकप श्री ज्वालामुखी की कहानी मेहरोत्रा कि महल  
३००

भूख. वीरदेव 'वीर' इ प्रे १००

भूख सव्वरवाल, कचनलता हि प्रचा पु. २५०

भूख हैममन, न्यूट कि महल ४००

—श्रीर तृप्ति सरस्वती मरन 'कैफ' हि प्रचा पु ६००

—प्यार और वेवसी सुरेश पृष्पी १२५, — सुरेद्र

भूखा पट्टनायक, कालिचरण राष्ट्र पु. भ ३००

—अकुर सोती महेशचद्र ओरिएटल २००

—हडताल तोडक भासी, तोप्पिल अशोक प्र गृह

भूगर्भ की यात्रा वर्ने, जूले इ प्रे १७५

—विज्ञान चतुर्वेदी जगपति कि महल २.००

भूगोल की बातें अजनीकुमार सिंह भा. १ अशोक प्रे.

० ६२

भूगोल की बातें. योगेशचद्र प्रसाद भा २-३. अशोक प्रे ०.६२  
(प्र)

—के आधार प्रीम. एस चाद ७००

—के भौतिक आधार चटर्जी, एस सी रा वेनीमाधव ६००

—के भौतिक आधार दुवे कि महल ५००

—के भौतिक आधार वशिष्ठ, रामस्वरूप आत्माराम ७५०

—के भौतिक सिद्धांत गुप्ता, ए दास. एस चाद ७५०

—चद्रिका जैन, मोतीलाल गयाप्रसाद भा १ १३७,

भा २ १६२, भा ३ ११२

—चद्रिका त्रिपाठी, वैदेहीवल्लभ नद ब्र १५०

—गाठन पद्धति वावर स्वरूप २००

—प्रश्नोत्तरी अग्रवाल, कृष्णमोहन रीगल १२५

—भूमिका हजारी सिंह हि प्रचा पु ३८७

—शिक्षण खुशदिल रामा बुक २००

—शिक्षण जायसवान, सीताराम नद ब्र ४००, —  
नद स २५०

—शिक्षण प्रभाकर मिह रा वेनीमाधव ४००

—शिक्षण श्रीवास्तव, पी पी गयाप्रसाद

—शिक्षण श्रीवास्तव, रमेशचद्र गर्ग ब्र १००

—शिक्षण सागर .. पु भ, आ ३००

—शिक्षण सिंह, एच एन विनोद ४००

—शिक्षण के सिद्धांत श्री प्रयोग चद्रकात कि महल. २००

—शिक्षण पद्धति मिश्र, आत्मानन्द सा नि, का ४.२५

—शिक्षण विधि मिश्र, चद्रभानु 'प्रभाकर' हि सा भ.  
२.००

—शिक्षण विधि शर्मा, मुकुन्ददेव नद ब्र २५०

भूचालो का देश—जापान श्रीमाली, वीरवाला नवयुग ग्र. कु.  
१००

भू-चित्रावली इ प्रे २५०

भूत का भ्रम. रतिभानु सिंह 'नाहर' छात्रहितकारी ०७५

भूतत्व विज्ञान कोश सेनगुप्त, एस सी, सपा हि सा सम्मे.  
२५०

भूतनाथ खत्री, देवकीन्दन रामलोचन (पा) १००, —  
लहरी विशिष्ट स २५००, एक ख ३६०

भूत भाग गया अरुण आत्माराम १००

—महल का बदी अनीलकर, वावूराव चिनगारी २५०

भूतो का खडहर पाडेय, स्वामीनाथ कन्हैयालाल १५०

भूदान मार्कडेय स २ नया सा प्र ३००

भूदान वाजपेयी, भगवतीप्रसाद श्री भा भारती ६००

—आरोहण देसाई, नारायण अ भा सर्व ०५०

—का आर्थिक आधार सक्सेना, वावूराम ना प्र सभा.  
३००

—गगा भावे, विनोवा ८ ख. अ भा सर्व १५० (प्र)

—गगोत्री मूदडा, दा अ भा सर्व २५०

—गीत अ भा. सर्व ०२५

—पोथी गावी, सुभद्रा अ भा सर्व ०२५

—यज्ञ गोविन्ददास, सेठ एस चाद २५०

—यज्ञ. भावे, विनोवा. नवजीवन. १.२५—सस्ता. ०.२५

- भूदान यज्ञ क्या और क्यों ? भंडारी, चारुचंद्र अ भा सर्व १५०
- भूदानो मोनिया उदयरज सिंह अशोक प्रे ४००
- भू परिचय गुप्ता, जे पी विनोद ३००
- भू परिचय. जैन, एम एल गयाप्रसाद ३५०
- भूमि और खाद गुप्त ब्रह्मदेव दि पु स २५०
- कन्या सीता. वरेरकर, मामा आत्माराम १५०
- की अनुभूति जगन्नाथप्रसाद 'मिलिंद' स २ कि घर, ग्वा ४००
- के भगवान रघुवीरशरण मित्र' भा सा प्र १५०
- भूमिजा रघुवीरशरण 'मित्र' भा सा प्र ५००
- भूमिजा सर्वदानद भा ज्ञानपीठ १५०
- भूमि तथा जलवायु विज्ञान पिव, रिचर्ड वी एम किताबिस्तान ५५०
- दान कृष्णचंदर नेशनल ३००
- प्रवचक समिति शर्मा, ब्रह्मस्वरूप सर्वोदय ०३७
- भाग गुप्त, मैथिलीशरण सा सदन, चि ० २५
- रमायन शिवनाथ प्रसाद हिं समि १०००
- भूरे-भालू जैन, मतीशकुमार नेशनल १५०
- भूल गुरुदत्त भा सा सदन ३००, — —हिंद पा १००
- भूल गुलाब पारिजात २२५
- भूलते-भागते क्षण कामताप्रसाद सिंह 'काम' पारिजात ३००
- भूल भुलैया जनक अरविद विद्या प्र भवन १५०
- भुलैया शेम्पियर, विलियम रा वेनीमाधव ० ६२
- मुघार गिरिराजकिशोर गुजरात ० ७५
- भूलो हुई कहानिया गौड, मरयूपडा ग्रथमाला १५०
- भूले विसरे चित्र वर्मा, भगवतीचरण राजकमल ११००, सक्षिप्त ४५०
- भटके रमेश चौधरी, ए 'आरिगण्डि' भा सा सदन ३००
- राही मोनकर, राजनाथ सुभाष ३७५
- भूवानी रामप्रसाद १५०
- भूपण मित्र, विश्वनाथप्रसाद नद म ६००
- प्रयावती चन्ना, नारायणदास, मपा गगा ८००
- प्रयावती देवचंद्र, मपा हिं भवन ५००
- प्रयावती बजरत्नदाम, मपा रा वेनीमाधव २००
- प्रयावती मिश्र, विश्वनाथप्रसाद, मपा चारणी-वितान ६००
- प्रयावती मिश्रवधु, मपा ना प्र सभा ३००
- प्रयावती रामलोचनशरण, सपा पु न १००
- भारती हृदयानु सिंह. इ प्रे २२५
- नरुपा मिश्र, ब्रजकिशोर, सपा विश्वविद्यालय १५०
- , मतिगम और अन्य भाई गुप्त, किशोरीलाल विद्या म, या ६००
- विमलं दीक्षित, भगीरथप्रसाद नगो म अवध ४००
- गार रत्नान गर्ग प्र २००
- भूपण का-गर्भार तिवारी, हंसकुमार ग्रथमाला १.५०

- भृगु संहिता पद्धति मोतीलाल १२५०
- संहिता पद्धति मितल, भगवानदास श्यामलाल १०००
- भेड और वकरियो का सुधार सर्वोदय १५०
- और मनुष्य वैष्णव, यमुनादत्त 'अशोक' इ प्रे १७५
- वकरी पालन प्रभात प्र १५०
- वकरी पालन सक्सेना, मोहनचंद्र जवाहर १५०
- भेडिया-वालक गर्ग, किशोर स ४ रानी १५०
- भैरव्या केचुलचंद्रल सारस्वत, उमादत्त हिं प्रचा म १७५
- भैरव थाट अक मक्सेना, महेशनारायण सगीत २५०
- भैरवानंद शिवानंद कि महल ० ७५
- भैरवी द्विवेदी, मोहनलाल इ प्रे २७५
- थाट अक गर्ग, लक्ष्मीनारायण, सपा सगीत २५०
- भैरव्य कल्पना अत्रिदेव विद्यालकार हिं सा सम्मे १७५
- रत्नावली जयदेव विद्यालकार परि स ७ मोतीलाल १२००
- भोजचरित्र राजवल्लभ भा ज्ञानपीठ ८००
- भोजन एव स्वास्थ्य शंकरानंद, स्वामी भाग्योदय २५०
- और पाचन ठाकुर, ज्योतिर्मयी छात्रहितकारी २५०
- और स्वास्थ्य सत्यप्रकाश गगा २५०
- और स्वास्थ्य सहारिया जी एस नेशनल ३००
- , क्या, क्यों और कैसे ? सुरेद्रनाथ अवध ४००
- तत्त्व वैज्ञानिक अध्ययन ज्ञानपीठ
- डारा चिकित्सा कालीचरण देहाती ० ५०
- वनाना सीखो खन्ना, शैल आत्माराम ३००
- मे दूध का महत्व रूपचंद सर्वोदय ० ५०
- विधि पाठक, केदारनाथ नद न २००
- भोजपुर की लोक कथाए शिवमूर्तिसिंह 'वत्स' आत्माराम भा १ १ २५, भा २. १ ५०
- भोजपुरी और उसका साहित्य उपाध्याय, कृष्णदेव राजकमल २२५
- कहानी सग्रह सिन्हा, चंद्रभूषण, सपा लेखक-मंडल १००
- के कवि और काव्य दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह वि राष्ट्र ५.७५
- के नये गीत और गीतकार राहगीर, मपा उदय ६५०
- भापा और साहित्य तिवारी, उदयनारायण वि राष्ट्र १३५०
- लोक गाथा सिन्हा, सत्यव्रत हिंदु एकेडेमी ८००
- लोकगीत उपाध्याय, कृष्णदेव, मपा हिं सा सम्मे भा १ ६००, भा २ ११००
- लोकगीत मे करुण रस दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह हिं सा सम्मे ६००
- लोक साहित्य का अध्ययन उपाध्याय, कृष्णदेव हिं प्रचा पु १०००
- मगम सिन्हा, चंद्रभूषण, सपा लेखक-मंडल १००
- साहित्य एक अध्ययन वैजनाथ सिंह 'विनोद' ज्ञानपीठ ५००
- भोज प्रवच गोविंदराम १५०
- प्रवच विश्वविद्यालय १.५०

- भोज प्रबंध. जगदीशलाल शास्त्री, अनु मोतीलाल ३.००  
 —प्रबंध. देवेन्द्रमिश्र, सपा रा वेनीप्रसाद २००  
 —प्रबंध बल्लाल रा वेनीप्रसाद ०७५  
 —प्रबंध—बल्लाल विरचित भा, तारिणीश रा. वेनीमाधव २००  
 —राज. रसाल गर्ग व्र १.००  
 —राज की कहानिया तेजकुमार निर्मोही कि. महल. ०७५  
 भोपो इजन और छकछक बालबधु हि प्रचा पु ०६७  
 भोर का तारा. चट्टोपाध्याय, अनिता. सहगल. ३००  
 —का तारा प्यारेलाल 'आवारा' आदर्श पु म ३.००  
 —का तारा माथुर, जगदीशचंद्र नीलाभ ३२५  
 —का तारा माथुर, जे सी पु भ १५०  
 —की किरणें अरुण आत्माराम. २.२५  
 —के सपने. अस्थाना, धनश्याम विनोद १५०  
 —के सपने राजेन्द्रप्रसाद सिंह 'प्रभाकर' राष्ट्र प्र म २००  
 —से पहले. अमृतराय हंस २.००  
 —से पहले. राजेश्वर गुरु मानकचंद १५०  
 भोला. थानी, योगराज बाल सदन.  
 भोला. बख्शी, पदुमलाल पुन्नालाल लोकचेतना. १५०  
 भौगोलिक शब्दकोष और परिभाषाएँ कपूर कि महल १०००  
 भौतिक एव अकार्बनिक रसायन शास्त्र. सिंह... सशो. स. २. आगरा बुक ५.५०  
 —प्रयोग ठाकुर, गुलाब पु भ., रा. ५००  
 —भूगोल चौहान, वी एस स ५ रस्तोगी ४.००  
 —भूगोल तिवारी, शिवकुमार सशो स २. केदारनाथ. ५.५०  
 —भूगोल प्रीतमसिंह .. कि महल ४००  
 —भूगोल सिकद, पी सी रतन ८००  
 —भूगोल की सरल रूपरेखा सोलकी, एम. एल. लक्ष्मी ना. २५०  
 —भूगोल के आधार बागला, सीताराम .. कि घर, का १५००  
 —भूगोल के तत्त्व बागला, सीताराम... कि घर, का. ८००  
 —भूगोल के सिद्धांत गौड, कृपाशंकर सशो स ४ आगरा बुक ६००  
 —व कार्बनिक रसायन डायजैस्ट जैन, के डी आगरा बुक २५०  
 —विज्ञान (प्रायोगिक) अक्वथी, म न .. स ३ कि. घर का ४००  
 —विज्ञान कोहली. कि महल. १२.०० (अप्रा)  
 —विज्ञान. वर्मा, रामकिशोर . २ व यग मैन ६५० (प्र.)  
 —विज्ञान के बयो, ग्रा और कैमे. वैनरजी, एन एल मिश्र-बधु ३००  
 —विज्ञान परदारणी सिंह, एन एम. नाँवन्टी ६.००  
 —विज्ञान में प्राति प्रोगली, लुई दे. हि समि. ४.५०

- भौतिक शास्त्र साहा, अक्षयलाल... २ भा नाँवन्टी  
 —शास्त्र का सरल अध्ययन लक्ष्मणसिंह २ भा सुरेश. ३७५  
 —शास्त्र की प्रयोग पाठ्य पुस्तक. पटेल, ए. आर... सरदार. ७००  
 भौतिकी गर्मा, व्यामसुंदर रतन भा १.७.५०, भा. २ ६५०  
 —का प्रामाणिक परिचय हुई, एडवर्ड जी आत्माराम ३.५०  
 —परिचय गर्मा, एस पी. भा भा प्र. ३००  
 भ्रम और भ्राति कैलाशसिंह 'कौशल' ग्रथ भ. १००  
 —जाल हरिश्चंद्र प्रगति प्र  
 भ्रमण और साहस की कहानिया कृष्णचंद्र विद्यालकार स ३ हि भवन १५०  
 भ्रमरगीत गीता. १५०  
 —सार नरेन्द्रसिंह शास्त्री. विनोद ५.००  
 —सार शर्मा, राजनाथ. रतन ४००  
 —सार (प्रश्नोत्तर). गर्मा, रामगोपाल 'दिनेश' विनोद २५०  
 —सार दर्शन मिश्र, दुर्गाशंकर हि. मा भ. ५.००  
 —सार में काव्यकला और जीवन-दर्शन प्रेमकृष्ण 'अनामिल'. सरस्व पु स २२५  
 —सार समीक्षा एव व्याख्या. पुष्पपाल सिंह. अशोक प्र. ५००  
 भ्रमिक पथिक. अवस्थी, सद्गुरुशरण स २ रा वेनीप्रसाद. २००

## म

- मंगल और अन्य ग्रह कि. महल. १.२५  
 —कलश महाय, शिवपूजन. सा सधना. ३००  
 —गीत गर्मा, राजेन्द्र राजकमल २००  
 —ग्रह में रजिया मिथा, शारदा हि प्रचा. पु १.२५  
 —ज्योति श्रीवास्तव, हिमाशु नारायण प्र. ३.००  
 —ध्वनि श्रीवास्तव, हिमाशु नारायण प्र २.५०  
 —पथ. आठले, वामुदेव लोक चेतना ५००  
 —प्रभात गाधी, मोहनदान करमचंद अ. भा. सर्व ०.२५  
 — —नवजीवन ०.३७, — —सस्ता. ०.३७  
 —प्रभान मिश्र, रमाकांत. हि प्रचा म १००  
 —मोद अन्नपूर्णानंद आनंद पु, वा २५०  
 —विचार काटवे, ह ने नागपुर प्र. २.५०  
 —मूत्र प्रेमचंद नरस्व प्रे ५.००  
 —मूत्र वर्मा, वृदावनलाल मयूर. १.००  
 मंगला देवडे अनंतगोपाल नीलाभ ३७५  
 मंगलाचरण प्रेमचंद. इन १५००  
 मंगलू की मा. वर्मा यज्ञदान रामप्रसाद. ४.००  
 मगू भैया. अक्वथी, नीला. मन्ता. ०.४०  
 मच्च के दृश्य मन, शाना. बाल सदन ०७५  
 मजरिका मिश्र, उमा राम चांद २००  
 मंजरी. जगेंद्र, अध्यापक. ४ भा. गयाप्रसाद ०.७५

मंजिन वृत्तवद्वा 'कान' चौवरी ४२५  
 मंजिन गुप्त, भैरवप्रसाद हिंदू पा १००  
 — एक—गह अनेक मोहन प्रदीप भाग्योदय २००  
 — कहा ? अथ अनुपम नागयगु प्र ०५०  
 —, पथी और मंगल जुल कमल एम चाद ४००  
 —मिनी दगोन, भवग्लान आजा पत्ति १००  
 — मे आगे अथिवारी, महावीर हिं प्र २००  
 — मे दूर मगर, मत्प्रधान राजकमल २००  
 — मे पहिने हुगनेव प्रभात प्र ३००  
 मभ्दार हायमी, मुज्तर महगल ४२५  
 मभ्नी दीदी वटी दीदी चट्टोपाध्याय शरतचंद्र हिंदू पा १००  
 मटो की कहानिया मआदत हसन 'मटो' रूपली १००,  
 — — ना प्र ३००  
 — की महान कहानिया महादत हसन 'मटो' रणजीत ८५०  
 — की सर्वश्रेष्ठ कहानिया उपेंद्रनाथ 'अक्क', सपा नीलाभ  
 — मेरा वृन्मन उपेंद्रनाथ 'अक्क' नीलाभ ५००  
 मडला पाडेय, आमाचार्य गार्ड प्र म २००  
 मयाप्राध्याय चा।यग, आचार्य विश्वेश्वरानंद ३००  
 मयन उनेद्रकुमार पूर्वोदय ५००  
 मयन वृद्धमल्लजी, मुनि आत्माराम २००  
 मदाकिनी मनाह्य, देवपि चौवरी १२५  
 मदार-माला पाडेय, देवेन्द्रनाथ इ प्रे २००  
 मदिन और भवन उपाध्याय, भगवत्शरण हन ०५०  
 — दीप जैन, उपभचरण ज्ञान प्र ७००  
 — प्रवेश नास्त्र-मभ्मन है चौधरी जे पी चौधरी ०४२  
 मट दिन्म रा इतिहास ट्रैस्टनटर्न, एलेक्जेंडर पीपुल्स ३३८  
 मकर (मगा) की देती रामेश्वर अशान देहानी

मगव का प्राचीन इतिहास उपाध्याय, रामशरण. ग्रथमाला ०६२  
 — की जय मिश्र, शिवसागर आत्माराम ६००  
 — की पत्निनी उपाध्याय वामुदेव. आदर्श पु भ  
 — पति घूमनेतु वीरा ५००  
 — विजय जैन, यादवचंद्र एस चाद १२५  
 मगन रहू चोला अन्नपूर्णानंद आनंद पु, वा २५०  
 मगरमच्छ सन्सेना, शभूदयाल नवयुग प्र कु ६००  
 — का शिकार त्यागी, भीमसेन उमेश २००  
 मगही-सस्कार गीत विश्वनाथ प्रसाद, मपा दि राष्ट्र ६५०  
 मग्दालिनी जैनेंद्रकुमार गगा २००, — — पूर्वोदय १५०  
 मचलती आरजू गोविंदसिंह. कन्हैयालाल ४००  
 मचान पर उत्तचास दिन श्रीनिधि आत्माराम ६००  
 मछलियो वी दुनिया कि महल ४००  
 मछली के आम् श्रीवाम्त्व, कृष्णाकिशोर विद्या प्र म ३००  
 — जाल कृष्णचंदर आत्माराम ३५०  
 — पालन प्रभात प्र २००  
 — पालन एव व्यवसाय सन्सेना, मोहनचंद्र जवाहर २००  
 मछुआरे पिल्लै, तकपी जिवगकर सा अकादमी ३५०  
 मछेरन आदिल रगीद पजाबी पु २२५, — — स्टार (पा) १००  
 मछेरा और देव गाडिल्य, शिवनाथ सिंह सस्ता ०४०  
 मजदूर शिक्षा और तकनीक प्रणालिया भा प्रौढ ०७५  
 मजदूरो की छाती पर भा, कातिप्रसाद ग्रथमाला ३००  
 मजल्ह मुलतानपुरी जीवनी और सकलन राजपाल १५०  
 मजलिस गोविंदसिंह कन्हैयालाल ५५०  
 मजहव और ईमान पुरोहित, सपतलाल युगद्याया ३००  
 मजाक और मजा अरुण आत्माराम १२५  
 मजाज जीवनी और सकलन राजपाल १५०  
 मजार का दीया भा, रमेशचंद्र चौधरी २५०  
 मजूरी और पूजा मार्क, कार्ल पीपुल्स ०५०  
 —, टाम और मुनाफा मार्क, कार्ल पीपुल्स ०६२  
 मजेदार कहानिया जहूवस्त्र मिश्र-वधु ११०  
 मजे मे तो ह ? मुम्नाजउद्दीन लोक चेतना २.५०  
 मभ्धार नानसिंह वीरा ५५०  
 मभ्नी दीदी चट्टोपाध्याय, शरतचंद्र इ प्रे १००, — —  
 व्यामलाल ०००  
 मभ्नी महारानी अवस्थी, सदगुरुशरण इ प्रे १७५  
 मटकागम मिश्र शर्मा, हरिगुजर गयाप्रसाद २५०  
 मटन के दाने निरकारदेव 'सिक्क' सा भवन इ १२५  
 मटन मेंठ भिंगन, नवेव्याम ओरिएटल ०७५  
 मट्टा (छाट) के गुण तथा उपयोग मोमन्स देहानी ०७५  
 — या छाट के उपयोग दर्मा प्रवार्मालाल नद व १००  
 मट्टा उनके गुण तथा उपयोग पाडेय, महेंद्रनाथ  
 प्राणिनिनी १००  
 मणिगोदामी मिश्र वृपानाथ पु भ ०७५  
 मणिमय कुडल शर्मा, राजेंद्र नेशनल ३५०

मणिमाल ठाकुर, रवीन्द्रनाथ प्रभात पब्लि २५०  
 मणिमाला तिवारी, माया भालोटिया. १५०  
 मणिया. हिं प्रचा स ०.६३  
 मणिहीन ठाकुर, रवीन्द्रनाथ प्रभात प्र २००  
 मत छुओ चौहान, मनहर उमेश ३००  
 मतिराम कवि और आचार्य महेन्द्रकुमार एस चाद  
 १०००  
 —ग्रथावली मिश्र, कृष्णविहारी, सपा गगा ८००  
 —ग्रथावली मिश्र, कृष्णविहारी ना प्र सभा  
 —मकरद हरदयालुमिह इ प्रे १२५  
 मत्स्य-जगत की बाने रामाधार 'नाविक' रामा प्र २५०  
 —महापुराण त्रिपाठी, रामप्रताप, अनु हिं सा सम्मे  
 २०००  
 मथुरा जिले की बोली रावत, चद्रभान हिंदु एकेडेमी  
 मदन दसूती कडाई मदनलाल देहाती २५०  
 मदनपराजय नागदेव भा जानपीठ ८००  
 मदभरे नयना कुशवाहा 'कात' गुल्लूप्रसाद एव जिनगारी  
 ४५०  
 मदहोश. प्यारेलाल 'आवारा' आदर्श पु म २५०  
 मदाम वावेरी फ्लाबर्ट कि महल ३००  
 मदारमाला शिवराज शास्त्री विध्व प्र ३००  
 मदारी पत, गोविंदवल्लभ गगा ५००  
 मदालसा पाडेय, छविनाथ कला-नि १००  
 मदिरा की घूट लक्ष्मीनारायण गगा १५०  
 मद्रास थानी, योगराज राजहस १७५  
 मधावी. रागेय राघव हिंदु एकेडेमी ३००  
 मधु शर्मा, यज्ञदत्त सा प्र ३००  
 —उत्पादन का सही आरभ. रावत, व सि रावत. ० ६२  
 मधुकण वर्मा, भगवतीचरण भा भ. २००  
 मधुकर भावे, विनोबा अ भा सर्व १००  
 मधुकरशाह अजमेरी, मुशी सा सदन, चि ० ४०  
 मधुकरी सागर बालूपुरी देहाती १५०  
 मधुकलश हरिवंशराय 'वच्चन' राजपाल. २००  
 मधु की रात और जिदगी चिरजीत आत्माराम २००  
 —के उपयोग पाठक, केदारनाथ नद व्र १००  
 —के चमत्कार वजीद हुसैन, सैयद श्रीराम मेहरा २००  
 —को पत्र सत्यप्रकाश 'मिलिद' दास ० ५६  
 —गीत मिश्र, गगाधर राष्ट्र प्र म २००  
 —चिकित्सा लुईकुने हिं प्र ० ३१  
 —चिकित्सा विधान शर्मा, सुरेशप्रसाद मेडिकल ० ५०  
 मधुछदा गोविंदसिंह कन्हैयालाल ६००  
 मधुज्वाल पत. मुमिन्नानदन भा भ ५००  
 मधुपरी शौकतराय राय १००  
 मधुपर्क जैन रमेशचंद्र रतन ० ८७  
 मधुपर्क नरोत्तमदान स्वामी गयाप्रसाद २५०  
 मधुपर्क वाजपेयी, भगवतीप्रसाद गगा ३७५  
 मधुवन वाजपेयी, प्रेमचंद्र आदर्श पु म १००  
 —की आग वाजपेयी, लक्ष्मीचंद्र कला म

मधुवाला हरिवंशराम 'वच्चन'. राजपाल. २.००, — —  
 हिंद पा १.००  
 मधु भारती कडाई कला मधुरानी देहाती. ४.५०  
 मधुमक्खी दि लायब्रेरी ०.६२  
 —पालन प्रभात प्र. १५०  
 —पालन. कालीचरण देहाती २५०  
 —पालन प्रमोदविहारी जवाहर १५०  
 —पालन सक्सेना, मोहनचंद्र स ४ जवाहर १.५०  
 मधुमालती (मभन कृत) गुप्त, माताप्रसाद, सपा. मित्र.  
 २०००  
 —(मभन कृत). मिश्र, शिवगोपाल हिं प्रचा. पु ८००  
 मधुमास चतुर्वेदी, हीरादेवी इ प्रे. १५०  
 —के बीते दिन तुर्गनेव, इवान. कि महल ५००  
 मधुमेह रमइया, पुच्चावेकट .. अ भा सर्व. ० ७५  
 —, जिगर, गुरदो, मसानो के रोग युगलकिशोर कत्यागमन.  
 १५०  
 मधुर कठ देहाती. २५०  
 —कठी रामअवतार 'वीर' देहाती ३००  
 —कथाए चतुर्वेदी, सत्यदेव हिं सा सृजन १.२५  
 —गान सत, गाता ओरिएटल ० ७५  
 —पृष्पाजलि. शिवकुमार देहाती ० ७५  
 मधुरिमा भटनागर, महेद्र कि घर, ग्वा ३.००  
 मधुरिमा मगलायन, अशेष चिनगारी १५०  
 मधुलोरी सकसेना, जभूदयाल नवयुग ग्र कु ० ५०  
 मधुवन राकेश 'वत्स' सूर्य प्र २५०  
 मधु (शहद) के गुण तथा उपयोग प्रसाद, के. देहाती २५०  
 मधुशाला हरिवंशराय 'वच्चन'. राजपाल २००, — —  
 हिंद पा १००  
 मधु सचय द्विवेदी, शातिप्रिय पु भ ० ७५  
 —सचय राव, बालकृष्ण आत्माराम. २५०  
 —सचय सियारामशरण प्रसाद कला-भा १५०  
 —सचय सौमन विथरे मिह भोपाल ४५०  
 —सीकर त्रिपाठी, मधुप्रसाद 'मधुकर' भारतेदु मा ममि.  
 २५०  
 मधुस्रवा श्रीवास्तव, राजाराम इ प्रे १०५  
 मध्य एमिया का इतिहास राहुल साकृत्यायन वि नाट्ट  
 भा १ १२ २५, भा २ ८५०  
 मध्यकाल के पाच श्रेष्ठ कवि मनादय, देवपि.. भा प्र  
 मदिर १५०  
 मध्यकालीन कवि और उन्का काव्य शर्मा, राजन व गिनोद  
 ० ५०  
 —चित्रशैलिया रायकृष्णदान राजकमल १००  
 —धर्म-साधना द्विवेदी, हजारीप्रसाद मा भवन, उ ५००  
 —पश्चिमी शिक्षा का इतिहास जायसवाल, मीतानाम नद  
 व एव नद म २७५  
 —प्रेम साधना चतुर्वेदी, मधुप्रसाद सा भवन, उ ४५०  
 —भारत परमात्माशरण नद व एव नद म. ३००  
 —भारत लेनपूल, न्देनने. एस चाद. ६००



- मध्यकालीन भारत. शंकरदयाल स ५ रस्तोगी ७००  
 —भारत श्रीनिवामाचारी रा वेनीप्रसाद ३००  
 —भारत मिन्हा, जे पी २ भा केदारनाथ  
 —भारत का इतिहास दुबे, सत्यनारायण श्रीराम मेहरा  
 ३५०  
 —भारत का बृहद् इतिहास रामसिंह रस्तोगी ६००  
 —भारत का संक्षिप्त इतिहास ईश्वरीप्रसाद इ प्रे ८००  
 —भारत का सरल इतिहास (१०००-१७०७) चार  
 सुरजीत. १०००  
 —भारत का सुबोध इतिहास कपूर, गुरुवरगसिंह एस चाद  
 १२००  
 —भारतीय संस्कृति ओझा, गौरीशंकर हीराचंद न ३  
 हिंदु एकेडेमी ३००  
 —भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति मेहरा, उमाशंकर विनोद  
 ८००  
 —यूरोप का इतिहास त्यागी एम एस स २ रस्तोगी  
 ४००  
 —लोक-कथाएं विराज आत्माराम १५०  
 —शृंगारिक प्रवृत्तियां चतुर्वेदी, परशुराम. सा भवन, इ  
 ३००  
 —शृंगारिक प्रवृत्तियां व नवरस चतुर्वेदी, परशुराम रामप्रसाद  
 ३००  
 —साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव त्रिगुणायत, सरला सा  
 नि, का १५००  
 —साहित्य में श्रवतारवाद पांडेय, कपिलदेव चौखवा  
 ३०००  
 —हिंदी कवयित्रियां सिन्हा, सावित्री आत्माराम ८००  
 —हिंदी कविता मालवीय ३००  
 —हिंदी गद्य श्रीवास्तव, हरिमोहन राजकमल ३००  
 —हिंदी साहित्य की तांत्रिक पृष्ठभूमि उपाध्याय, विश्वभर-  
 नाथ सा भवन, इ १०००  
 मध्यदेश ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मिहावलोकन वर्मा,  
 धीरेन्द्र वि राष्ट्र ७००  
 मध्यप्रदेश राजहम  
 —का आर्थिक विकास दिवाकर, सुशीलकुमार मिश्र-बधु  
 ३२५  
 —का इतिहास हीरालाल ना प्र मभा २००  
 —का इतिहास और नागपुर के भौमले शुक्ल, प्रयागदत्त  
 हि ग्र २५०  
 —का भूगोल वावर भोपाल ०७५  
 —की आदि ज्ञानियां शुक्ल, प्रयागदत्त गंगा १५०  
 —के हिंदी-साहित्य में रत्नकान आनंद पु, को ३००  
 मध्यभारत अभिनदन ग्रथ मत्स्यदेव देहानी १०००  
 मध्यम व्यायोग मोती १००  
 मध्यमा शर्माम्ब प्रश्नोत्तर न २०१२ से २०१८ तक  
 विनोद ६००  
 —इतिहास प्रदानन न २०१२ से २०१८ तक विनोद  
 ६००

- मध्यमा कृपिशास्त्र प्रश्नोत्तर स २०१२ से २०१८ तक  
 विनोद ६००  
 —भूगोल प्रश्नोत्तर २०१२ से २०१८ तक विनोद ६००  
 मध्यमार्ग वालजाक ववई प्र २२५  
 मध्यमा हिंदी प्रश्नोत्तर स २०१४ से २०१८ तक विनोद  
 ६००  
 मध्ययुग का इतिहास ईश्वरीप्रसाद इ प्रे १०००  
 —मे भारत चौबे, खोरखनाथ रा वेनीप्रसाद  
 मध्ययुगीन काव्य साधना तिवारी, रामचंद्र विश्वविद्यालय  
 ४००  
 —प्रेममाख्यान पांडेय, श्याममनोहर मित्र १०००  
 —भारतीय संस्कृति यूसुफ हुसैन भा प्र मंदिर ५००  
 —वैष्णव संस्कृति तुलसीदास भटनागर, रामरतन हिं सा  
 स ७५०  
 —हिंदी साहित्य का लोक तात्विक अध्ययन सत्येन्द्र विनोद.  
 १५००  
 —हिंदी साहित्य में नारी-भावना पांडेय, उपा हिं सा. स  
 १०००  
 मध्य शताब्दी विश्वनाथ, सपा दि प्रे २००  
 —सिद्धांत कौमुदी विश्वनाथ शास्त्री, टीका मोतीलाल  
 ५५०  
 मन का मीत शर्मा, नरेन्द्र पैरामाऊट ४५०  
 —की अद्भुत वाते बहादुरमल्ल विश्वेश्वरानंद २००  
 —की अपार शक्ति एलेन, लिलि छात्रहितकारी ०६२  
 —की अपार शक्ति सुरेशचंद्र वेदालकार. गोविंदराम.  
 १२५  
 —की उडान पाठक, अनसूयाप्रसाद राष्ट्र पु भ. एवं हिं  
 प्रचा पु १५०  
 —की पीर चौधरी १५०  
 —की वाते गुलावराय. आत्माराम ३५०  
 —की मनुहार याज्ञिक, श्यामसुंदरलाल हिं सा परि, म  
 —की मौज गौड़ राजेशसिंह सा भवन, इ २५०  
 —की मौज शर्मा, हरिशंकर गयाप्रसाद २५०  
 —की यात्राएं जुएलसन, रिचर्ड आत्माराम ५००  
 —की रानी सरसेना, गभूदयाल नवयुग ग्र कु ५००  
 —की शक्तियां तथा जीवन-गठन की साधनाएं विवेकानंद,  
 स्वामी स ४ श्रीरामकृष्ण ०५०  
 —के गीत बलदुवा, बालकृष्ण गंगा १००  
 —के चमत्कार जयवतराम आत्माराम २००  
 —के जीते जीते विष्णु प्रभाकर सस्ता ०४०  
 —के बचन माम, मामरसेट सा प्र ५००  
 —के मोन प्यारेलाल 'आवारा' आदर्श पु म २५०  
 —के मोड प्यारेलाल 'आवारा' रूपसी ३००  
 —के हारे हार जैन, यादवचंद्र नवयुग प्र ५००  
 मनन उपाध्याय, हरिभाऊ मस्ता १५०  
 —माला गीता ०१६  
 मन नहीं टिकता क्या करे ? अभयदेव, आचार्य श्रीअरविंद  
 ०१६

मनपसद भोजन शकुतलादेवी. राजकमल ३.२५, (पा)

१००

मनबहलाव की कहानिया. सतराम. हिं भवन ० ६५

मन-मयूर अन्नपूर्णादेव रा वेनीप्रसाद ४००

मनमोहन का जाल शेक्सपियर, विलियम. रा. वेनीमाधव  
० ६२

मन रो दिया इन्दुवाली अजय ३ ५०

—लुभाने वाली कहानिया छात्रहितकारी १००

मनस्तत्व शल्य, यगदेव हिंदु एकेडेमी. ८००

मनहर खेल वर्मा, तारकेश्वरप्रसाद ग्रथ भ ० ६२

मनीषा गुरुदत्त भा सा सदन (पा.) १००, —सा  
सदन, दे ३००

मनीषा मिश्र, शिवकुमार मानकचद २ ७५

मनु का राजधर्म पाडेय, श्यामलाल गगा ६००

—की वेटिया गुप्त, छेदीलाल भा पु म २ ५०

मनुष्य और देवता वाजपेयी, भगवतीप्रसाद सा सदन, दे  
३ ७५

—का परम कर्तव्य गोयदका, जयदयाल गीता १००

—का वचन चट्टोपाध्याय, देवीप्रसाद सस्ता १ २५

—का विकास भार्गव, ज्योतिलाल गगा १००

—का विराट रूप आनदकुमार राजपाल ४ ५०

—की कहानी जयचंद्र विद्यालकार स २ हिं भवन ० ७५

—की मर्यादा मिश्र, जगन्नाथप्रसाद ग्रथमाला २ ७५

—के रूप. यशपाल विप्लव ६.५०

—कैसे पैदा हुआ अरुण भा सा प्र १ ५०

—जन्मा चट्टोपाध्याय, देवीप्रसाद सस्ता १ २५

—जीवन का लक्ष्य रामावतार शाम्ब्री हिं सा सम्मे. १ ५०

—जीवन की उपयोगिता गुप्त, केदारनाथ छात्रहितकारी.  
१ २५

—जीवन की सफलता गोयदका, जयदयाल गीता. १००

—वनो दयाल फकीर शिव सा ० ६२

—शरीर और स्वास्थ्य टडन रानी नद ब्र एव नद स.  
४.००

—शरीर की श्रेष्ठता. खत्री, देवीप्रसाद. छात्रहितकारी  
० ५०

—ही अपने भाग्य का निर्माता है एलेन, जेम्स छात्र-  
हितकारी ० ६२

मनुष्यानंद शर्मा, पाडेय वेचन 'उग्र' रणजीत ४००

मनुस्मृति दयानंद, स्वामी देहाती ४ ५०

मनुस्मृति दर्शनानंद, स्वामी प्रभात प्र ५००

—भाषा टीका भा, जनार्दन हिं पु ए ४ ५०, ५००

—भाषा टीका सहित. श्यामलाल ४ ५०

मनुहार डालमिया, दिनेशनदिनी श्रीअरविंद १ ५०

मनोकामना. राजेद्रनिह. आर्मी ४ ५०

मनोज गौड, जनार्दन नवयुग प्र ४ २५

मनोनुशाननम् अ भा अगुव्रत ० ४०

मनोरजक उद्योग. ठाकुर, सूर्यदेव कान्ति १.००

—कथाए. आनदकुमार राजपाल. १ २५

मनोरजक कथाएं शर्मा, रामकृष्ण सा प्र १ ५०; —

हिं सा स. ० ७५

—कहानिया क्षेमचंद्र 'सुमन' .. श्री भा भारती. ५.००

—खेल चौहान, वामुदेव सिंह गगा १ २५

—खेल. शिरालकर स्वरूप ० ७५

—पहेलिया मक्तवा ० ७५

—लोक कथाए चत्ता, नदलाल २ भा आत्माराम. १ २५  
(प्र)

—लोक कथाए जैन, श्रीचंद्र कि घर, ग्वा ० ५० (प्र.)

—व्यायाम चौहान, वासुदेव सिंह गगा १ २५

मनोरजन और काम (लडकियो के लिए) दि लायब्रेरी.

० ६२

—और काम (लडको के लिए) दि. लायब्रेरी ०.६२

—कहानिया प्र विभाग १००

मनोरम कश्मीर दर, मोहनकृष्ण आत्माराम. ५.००

मनोरमा शर्मा, बनारसीदत्त 'सेवक' चौधरी. २ २५

मनोरमा (कायाकल्प का सक्षिप्त संस्करण) प्रेमचंद सरस्व.  
प्रे ३००

मनोविज्ञान गेरट ? एलाइड ७.००

मनोविज्ञान. चौवे, सरयूप्रसाद सशो स. ४ आगरा बुक.

७ ५०

मनोविज्ञान. निर्मला गेरजग सा. केद्र ६००

मनोविज्ञान पाडेय, जगदानंद स ३ तारा ८ ५०

मनोविज्ञान मन, नारमन एल राजकमल. १२.५०, १७ ५०

मनोविज्ञान वुडवर्थ अपर १२ ५०

मनोविज्ञान शर्मा, टी. आर सा सगम, लु ५.००

मनोविज्ञान सिन्हा, यदुनाथ सशो स ५ १९६२. लक्ष्मी ना  
८ ००

—एव जीवन शुक्ल, लालजीराम तारा ७ ५०

—एव शिक्षा मे साख्यिकी आत्रेय, गतिप्रकाश. तारा. ३ ५०

—एव शिक्षा मे साख्यिकी सिंह, एम पी लक्ष्मी ना. ४ ५०

—और आरोग्य शुक्ल, लालजीराम नद. स १ ५०

—और चिंतन. शुक्ल, लालजीराम नद म. ७ ००

—और जीवन शुक्ल, लालजीराम नद. स एव सा. सेवक.  
७ ००

—और शिक्षा. अग्रवाल, पद्मा मनोविज्ञान ३ ५०

—और शिक्षा चौवे, सरयूप्रसाद लक्ष्मी ना १२ ५०

—और शिक्षा मे मापन एव मूल्यांकन अग्रवाल. रामनारायन.  
विनोद. ११ ००

—और नफल जीवन मैडर, ए ई रूपकमल २.५०

—का इतिहास पाडेय, रामइकबाल लोकभारती. ८ ००

—का इतिहास शर्मा, जे डी .. विनोद १० ००

—का व्यावहारिक रूप लाल, आर एस रा. वेनीप्रसाद  
५ ००

—की भूमिका जायसवाल, सीताराम . रा वेनीप्रसाद  
५.००

—की रूपरेखा पटेल. नित्यानंद सा. नगम, लु. ६.००

—के प्रयोग सतोषकुमार तारा. ३.००

- मनोविज्ञान के सिद्धांत पालीवाल, टी आर रस्तोगी ४००  
 —नया मानसिक प्रक्रियाएँ शर्मा, शंभूप्रसाद कि महल ७५०  
 —परिचय पाडेय, जगदानंद तारा ५५०  
 —परिचय शुक्ल, लालजीराम नंद स ७००  
 —मीमाना विद्येश्वर, आचार्य आत्माराम ८००  
 मनोविद्या मन्कार, जे के दुकलेड ४००  
 मनोविज्ञानपर्यु और फ्रायडवाद की रूपरेखा मसीह मोतीलाल ५००  
 —और मानसिक क्रियाएँ अग्रवाल, पद्मा मनोविज्ञान ४५०  
 मनोवैज्ञानिक प्रयोग पाडेय, जगदानंद ग्रंथमाला १०००  
 —प्रयोग परिचय जयप्रकाश गर्ग व्र २५०  
 मन्व भंडारी की कहानियाँ यादव, राजेन्द्र राजपाल २५०  
 मन्वन्तर मकमेना, शंभूदयाल नवयुग ग्रंथ १५०  
 ममता गुरुदत्त भा सा सदन ३००, — —हिंद पा १००  
 ममता व्याममुदरलाल चौधरी ३००  
 ममता हरिप्रसाद 'प्रेमी' राजपाल २५०  
 —के वधन माम, सामरसेट कि महल ३००  
 —जीत गई थानी योगराज बाल सदन  
 ममोया चार्ट न्यू लिट ० ३७  
 मम्मी विंगटेगी द्वारकाप्रसाद अभिज्ञान  
 मयगाना जैन, ऋषभचरण ज्ञान प्र ३००  
 मयगणपराजयचरित हुरिदेव भा ज्ञानपीठ ८००  
 मयूग अशोकाध्याय, रासालदास स ३ सा सेवक १२५  
 मयूग बाजोधी, शंभुनाथ, अनु ना प सभा ३००  
 मयूग पत वर्मा, रामकुमार सा भवन, इ  
 —फिर नाच उठे आकारनाथ 'दिनकर' कि महल २५०  
 मरघट प्यारेलाल 'आवारा' रूपसी २५०  
 —की जागीर गौड, ब्रजविहारीनाल आदर्श पु म २००  
 मरण-ज्वार चतुर्वेदी, मागनलाल हि प्रचा पु ३००  
 मरणोत्तर जीवन विवेकानंद, स्वामी स ३ श्रीरामकृष्ण ०५०  
 मरगनी औरत श्रीवामनव, जी पी हि पु ए २७५  
 मरने के बाद प्रजकिशोर 'नारायण' प्रचा पा १००  
 —मे पहले आनंद, मुल्कराज हिंद पा १००  
 मरभक्त गुरु, अरविंद मैट्रोपोलिटन ११००  
 मरहम बनाना रामनारायण देहाती १२५  
 मराठी और उमका साहित्य माचवे, प्रभाकर राजकमल २२५  
 —रा भक्ति साहित्य देशपांडे, श्री जी चौखवा १०००  
 —री प्रतिनिधि ग्रन्थ कहानियाँ गुप्ता, एस एस, मया आनागम  
 —के नरे एकाकी वमनदेव, मया नीलाम ४००  
 —भापा न मरन परिचय देशपांडे, भी. गो नंद व एव नंद १५०  
 —सो रा नामात्मिक चर्य कोलने, वि भि हि ग्र २ ५.५०

- मराठी साहित्य का इतिहास गोडवाले, ना व गयाप्रसाद ३००  
 —साहित्य का इतिहास शरसोदे, कृष्णलाल 'हम' हिंदु एकेडेमी ४५०  
 —सीखो हार्डीकर, श्रीनिवास बालाजी सा नि, का १४०  
 —से हिंदी शब्दसंग्रह वैशपायन, प ग र, मया अनाथ ६००  
 —हिंदी दीपिका भोसले बबई हि भा १०६२, भा २०५०  
 —हिंदुस्तानी शब्द कोश जोशी, श्रीपाद, सपा हिंदु प्रचा सभा ४५०  
 मराठी और अंग्रेज केलकर, नरसिंह चिंतामणि आदर्श हि मराठी का इतिहास डफ, ग्रांट आदर्श हि २५०० [१०००  
 —का इतिहास सरदेसाई, सखाराम अपर ६००  
 —का नवीन इतिहास सरदेसाई, गो सा  
 मराली कलक्टरसिंह 'केसरी' पु म ५००  
 मरीचिका शर्मा, रामानंद कन्याकुमारी  
 मरुकुज मथुरादास त्रिकमजी नवजीवन १२५  
 मरु प्रदीप शुक्ल, रामेश्वर 'अचल' सा भवन, इ ४००  
 मरुभूमि महेशचंद्र सरल सरल  
 —मे खोई नदी द्विवेदी, प्रभाकर कल्याणदास २५०,  
 — —वि ग्रंथ कु २२५  
 मर्म कथा व्यास, विनोदशंकर हि सा कु २००  
 मर्यादा मिश्र, रामगोविंद अशोक पु म ३७५  
 मर्यादाराम की कहानियाँ गंगा १५०  
 मर्यादित, उन्मुक्त और असीमित व्यक्तित्व और रामायण मेला लोहिया, राममनोहर नव हिंद १००  
 मल मूत्र का सदुपयोग सर्वोदय १५०  
 —मूत्र, रक्तादि परीक्षा गुप्त, शिवदयाल स ३ मेडिकल ३००  
 मलय दास, श्रीकृष्ण राजकमल २००  
 मलयानिल पिल्ले, नीलकंठ राजहस २००  
 मलयालम की कहानियाँ श्रीकृष्ण गोपालन ज्ञानपीठ ०७५  
 —साहित्य का इतिहास भास्करन नायर, के हि समि ४००  
 मलिक मुहम्मद जायसी और उनका काव्य पाठक, शिवसहाय ग्रंथम १६००  
 मलेरिया जैन, आनंदप्रकाश सर्वोदय ०३७  
 मलेरिया मनमोहन धूप मोतीलाल २२५  
 —और कालाजार चिकित्सा (एलोपैथिक) भट्टाचार्य, रा व स २.मेडिकल १७५  
 मल्ल-मल्लिकार्जुन जैन, यादवचंद्र एस चाद ३७५  
 मल्लयुद्ध आर जी देहाती १२५  
 मवेशियों का चारा चतुर्वेदी, जगपति छात्रहितकारी. ०७५  
 मवेशियों की घरेलू चिकित्सा शर्मा, सुरेशप्रसाद मेडिकल ०७५  
 —के कृमि रोग चतुर्वेदी, जगपति छात्रहितकारी ०५०

- मवेशियो के छूत के रोग. चतुर्वेदी, जगपति छात्रहितकारी  
० ५०
- के विविध रोग चतुर्वेदी, जगपति छात्रहितकारी ० ५०
- के साधारण रोग चतुर्वेदी, जगपति छात्रहितकारी  
मशाल गुप्त, भैरवप्रसाद नीलाभ. ३ ५० ० ५०
- मशाल पथिक चौधरी २ २५
- मशीन वर्क रानी देहाती १ ००
- बुड वर्किंग गुप्ता, कालीचरण देहाती ६ ००
- शाप ट्रेनिंग गुप्ता, कालीचरण देहाती १० ००
- शाप प्रैक्टिस आनदस्वरूप देहाती १५ ००
- मशीनो की दुनिया बेकर, बेरिल हिंद पा १ ००
- मलसन. पाडेय, कातानाथ 'चोच' कल्याणदास. २.२५
- मसाले की खेती जोशी, शकरराव विनोद  
मसालो की खेती रामेश्वर अशात देहाती २ ००
- की खेती सान्याल, चारुचंद्र गगा ० ६२
- मसूरी वाली वेढव बनारसी आनद पु, वा २.००
- मस्तनाथ चरित्र चेतनाथ, पीर देहाती २ ५०
- मस्तराम का चिट्ठा सारस्वत, उमादत्त 'दत्त' हि प्रचा  
म १ ५०
- की चिट्ठिया त्रिवेणीप्रसाद कला-नि १ २५
- महकते मोती शर्मा, हरिशकर गयाप्रसाद १ ५०
- महके आगन चहके द्वार मिश्र, कन्हैयालाल 'प्रभाकर' भा  
ज्ञानपीठ ४.००
- महत्व के गुमनाम पत्र वेढव बनारसी आनद पु, वा  
१ ५०, — —रामप्रसाद १ २५
- महत्वपूर्ण शिक्षा. गोयदका, जयदयाल गीना १ ००
- महफिल गुप्त, भैरवप्रसाद नीलाभ ४.००
- महर्षि अगस्त्य अवधनदन सस्ता ० ४०
- कर्वे पंडित, प्रभाकर सदाशिव ज्ञानमंडल २ २५
- दयानंद सुदर्शनसिंह 'चक्र' विश्वेश्वरानंद ० ७५
- दयानंद सरस्वती देहाती ३ ००
- दयानंद सरस्वती का भ्रातृवश तथा स्वसृष्ट श युधिष्ठिर  
मीमांसक भा प्राच्य ० ४०
- दयानंद से पूर्व का भारत. आत्माराम अमृतसरी गोविंद-  
राम २ ००
- श्री स्वामी दयानंदजी का प्रामाणिक जीवन चरित  
मुखोपाध्याय, देवेन्द्रनाथ, सग्रा २ भा आर्य सा ८.००  
(प्र.)
- महल और खडहर अज्ञात प्रकाश पा १ ००
- और मकान शर्मा, यज्ञदत्त सा प्र. ३ ००
- महाकवि अकबर वतन इ प्रे १ २५
- अश्वघोष और उनका काव्य हरिदत्त शास्त्री सा नि.,  
का ५ ००
- और उनका आधुनिक कवि (प्रश्नोत्तर) भारतभूषण  
'सरोज' रीगल २ ५०
- कालिदास तिवारी, रमाशकर चौखवा ८ ००
- कालिदास . अभिज्ञान शाकुंतलम् त्रिपाठी, बाबूराम  
रतन ८ २५

- महाकवि कालिदास और उनकी शकुंतला त्रिपाठी, बाबूराम  
रतन ३ ००
- कीट्स का काव्य-लोक यत्नेंद्रकुमार आत्माराम ७ ५०
- घनानंद रामवाशिष्ठ विनोद ३ ५०
- चंद्रवरदायी और पदमावाती समय दीक्षित, रामप्रकाश  
पु भ., आ ३.५०
- चच्चा अन्नपूर्णादेव आनंद पु, वा २ ५०
- तिलक का 'कालिदास'. दीनानाथ 'शरण' सा सगम, प  
२ ७५
- देव तिवारी, भोलानाथ. कि महल २.५०
- नददास (प्रश्नोत्तर) भा, जयवशी रीगल २ ५०
- निराला उमाशकर सिंह बनिया आदर्श पु म २ ५०
- निराला शर्मा, राजकुमार स ३. त्रिवेणी. ५ ००
- निराला व्यक्तित्व और कृतित्व टडन, प्रेमनारायण,  
सपा हि सा भ १० ००
- प्रसाद विजयेन्द्र स्नातक. एस चाद ३ ५०
- प्रसाद एक विवेचन काश्यप, सोमदत्त भा संस्कृत  
२ ५०
- विहारी शर्मा, रामगोपाल 'दिनेश'. हि सा स. २.५०
- भवभूति पाडेय, रमा. सा रतन भ १ ५०
- भवभूति और उनका रामचरित त्रिपाठी, कृष्णकांत.  
सा. नि, का २ ७५
- भास एक अध्ययन उपाध्याय, बलदेव. चौखवा ४.००
- भूषण. दीक्षित, भगीरथप्रसाद सा भवन, इ २ ५०
- मतिराम त्रिभुवन सिंह हि प्रचा पु १०.००
- माघ उनका जीवन तथा कृतिया शर्मा, मनमोहनलाल  
जगन्नाथ नवयुग प्र २० ००
- माघ की महत्ता त्रिपाठी, शेषमणि रा वेनीमाधव.  
० ६२
- महाकवियों की अमर रचनाए शर्मा, चक्रधर चौखवा. २ ००
- महाकवि रत्नाकर और उद्धव शतक. सक्सेना .. रामप्रसाद  
२ ५०
- वर्द्ध स्वर्थ का काव्य लोक यत्नेंद्रकुमार आत्माराम ७ ५०
- वर्मा और 'अतीत के चलचित्र' शर्मा, राजनाथ विनोद.  
—शूद्रक तिवारी, रमाशकर चौखवा. [३.००
- साड पाडेय, कातानाथ 'चौवे' चौधरी २ ७५
- सूरदास वाजपेयी, नददुलारे आत्माराम ४ ००
- हरिऔध शुक्ल, गिरिजादत्त 'गिरीश' स ३ रा  
वेनीमाधव. ४ ००
- हरिऔध और 'प्रियप्रवास' शर्मा, देवेन्द्र विनोद ६ ००
- हरिऔध का प्रिय-प्रवास धर्मेंद्र ब्रह्मचारी शास्त्री  
रा वेनीप्रसाद १ २५
- महाकाल नागर, अमृतलाल भा भ. ३ ००
- महाकाव्य विवेचन रागेय राघव विनोद ३ ००
- महाकाव्यों की बाल-कथाए विद्यालकार वीरा ० ७५
- महाकौशल के साहित्यकार ब्रजभूषणसिंह 'आदर्श' यादव  
महाजन का पजा अजयकुमार गगा. १ ५०
- महाजनी बहीखाता प्रणाली की रूपरेखा मोतीलाल ०.७५

- महाजनों की कहानिया गजानन, महादेव ड प्रे १५०  
 महात्मा अक्षर अनन्य कृत प्रेमदीपिका सीताराम हिंदु  
 एकेडेमी १००  
 — उमा शर्मा, पांडेय वेचन 'उत्र' भा भ २००  
 — कबीर भारतभूषण 'मरोज' हिं ना स २५०  
 — कबीर रत्नचंद्र विश्वेश्वरानंद ०७०  
 — कबीरदान प्रकाशवती नारायण कलानि १००  
 — कर्ण भट्ट, पातीराम ना नि, का  
 — गाधी (चित्रावली) प्र विभाग १०००  
 — गाधी गोविंददाम, नेठ एस चाद २५०  
 — गाधी जैन, आनंदप्रकाश विनोद  
 — गाधी पाटे, गोरखनाथ राष्ट्रीय सा स ०५०  
 — गाधी पांडेय, रघुवंश ग्रथमाला २२५  
 — गाधी बभानी, सीता कृष्णा ब्र ३००  
 — गाधी मिश्र, रामविशोर कला नि १००  
 — गाधी मेहरोत्रा, राजेद्र ना नि, व ०७५  
 — गाधी सन्सेना, शकरसहाय शिवलाल १००  
 — गाधी मत्यकाम विद्यालकार राजपाल ०७५  
 — गाधी का समाजवाद सीतारामैया, पट्टाभि मातृ-भाषा  
 २५०  
 — गाधी की दिव्य वाणी लूणिया, जीतमल हिं ना म  
 — गाधी मे क्या मोखें बालबधु हिं सा भ १००  
 — गीतमबुद्ध उपाध्याय, गंगाप्रसाद नद ब्र एव नद म  
 १५०  
 — ग्वीसेप मेजिनी लाजपतराय ना प्र मभा १००  
 — जी और महागज भवेरी, वि जी ज्ञानमडल १५०  
 — जी के १०५१ नुमये पीटीगम, महात्मा परि न  
 श्यामलाल २५०  
 — टालस्टाय के विचार महाय, शीतल, अनु हिं सा सम्मे  
 ०३७  
 — बुद्ध मेहरोत्रा, कृष्णमूर्ति मा रत्न भ १००  
 — बुद्ध हरेद्रदेव नागयण राष्ट्रीय ना म ०५०  
 — धर्मवेङ्कर भट्टतिरि, पी एन विश्वेश्वरानंद ०५०  
 — विदुर गीता ०१६  
 — हैनिमन कृत हिंदी अर्गेनन शर्मा, सुरेशप्रसाद स २.  
 मंडिकन ४००  
 महादेव गोविंद नानडे मिश्र, रामनारायण ना प्र मभा  
 ३००  
 महादेवभाई का पूर्वजन्त परीत्र, नरहरि नवजीवन ०८३  
 — ती उपरी देमाई, महादेव हरिभाई नवजीवन भा १  
 ५००, भा २ ५०० ना ३ ६००  
 — ती उपरी परीत्र, नरहरि मपा २ भा अ भा नर्व  
 ५०० (प्र)  
 महादेवी और उनका 'आधुनिक कवि' गुप्त, सुरेशचंद्र  
 हिं ना म ३५०  
 — और उनकी दीपशिखा गुप्त, शान्तिस्वरूप अगोक प्र  
 ५५०  
 — और मोरल टडन, लक्ष्मीनारायण .. हिं सा भ ३५०

- महादेवी और नीहार टडन, लक्ष्मीनारायण हिं सा भ २५०  
 — का वेदना भाव जयकिशन प्रसाद विनोद ३५०  
 — की रहस्य साधना विश्वभर 'मानव' कि महल ३५०  
 — वर्मा गुर्द, शचीरानी आत्माराम ३५०  
 — वर्मा बाली, तारकनाथ विनोद २५०  
 — वर्मा भाटी, देगराजसिंह अशोक प्र २५०  
 — वर्मा सिनहा, लक्ष्मीसहाय नद ब्र एव नद स २५०  
 — वर्मा और 'आधुनिक कवि' बाली, तारकनाथ विनोद  
 २५०  
 — वर्मा और स्मृति की रेखाए शर्मा, राजनाथ विनोद  
 १००  
 — विचार और व्यक्तित्व नागर, शिवचंद्र कि महल  
 ३५०  
 — साहित्यकला और जीवन-दर्शन गुप्त, रामचंद्र सरस्व  
 पु स ३५०  
 महानगर तथा उनका प्रशासन गुरमुखनिहाल सिंह कि महल  
 १७५  
 महानता की सच्ची कहानिया श्रीवास्तव, हिमाशु सन्मार्ग  
 ०७५  
 महानाग की ओर चावलि सूर्यनारायण मूर्ति एस चाद.  
 १५०  
 महान् आविष्कारक एडिसन विराज, अनु राजपाल २५०  
 — गणितज्ञ रामानुजन और डा गणेश प्रसाद कपूर,  
 श्यामनारायण सा नि, का २००  
 — गुप्त राजवंश पाथरी, भगवतीप्रसाद सा केद्र १२५०  
 — नागरिक कैसे बने? श्रीवास्तव, हिमाशु राजधानी ३५०  
 — परिवर्तन दौरा २००  
 — पश्चिमी शिक्षाशास्त्री पांडेय, रामशकल विनोद ४५०  
 — पाश्चात्य शिक्षा-शास्त्री पाल, एस के गर्ग ब्र ४००  
 — बनो कल्याणदास १००  
 — भारतीय नारग, ब्रह्मवती आत्माराम २५०  
 — मनीषी मिश्र, जगन्नाथप्रसाद आत्माराम ३००  
 — विभूतिया मिश्र, देवकुमार ग्रथमाला १२५  
 — वैज्ञानिक जैन, रमेशचंद्र विनोद १५०  
 — शिक्षा शास्त्री रस्क, आर आर विश्वविद्यालय  
 महापरिनिव्वानसुत्त धर्मरक्षित, भिक्षु ज्ञानमडल ३५०  
 महापाप टालस्टाय ज्ञान प्र २००  
 महापुरुषों की बाललीला आनंद, मत्यपाल सा सगम, लु  
 १५०  
 महापुराण पुण्यदत्त  
 महापुरुष रघुवीरचरण 'मित्र' भा सा प्र १००  
 — चरितावली (मस्कृत) भारद्वाज, शिवप्रसाद सूर्य प्र  
 ३००  
 — का वचपन राजपाल ०७५  
 — की कथाए आनंदकुमार राजपाल १२५  
 — की कहानिया वोग २००  
 — की कहानिया श्रीभा, भालचंद्र पु भ, रा भा ३.  
 ०.८८, भा ४ १००

- महापुरुषो की कहानिया पाठक, रामकिशोर. भा २ पु भ, रा ०.८७
- की कहानिया गिवनदन सिंह भा १ पु. भ, रा ० ६२
- की जीवन गाथाए विवेकानन्द, स्वामी स ६ श्रीरामकृष्ण १५०
- की जीवनी वसु, वीरेन्द्रकुमार ग्रंथ भ १ २५
- की भाकिया राजपाल ० ७५
- की दिव्य वाणिया मिश्र, रासदास 'विजय'. हि प्रचा म ० ५०
- के गीत निरकारदेव 'सेवक' आत्माराम १ ००
- के छीटे अरुण आत्माराम १ २५
- के दर्शन कौशल, रामस्वरूप, शारदा म ३ २५
- के बीच पाडेय, जगदेव साहित्यवाणी १ ५०
- के सस्मरण राजपाल ० ७५
- के सस्मरण अरुण आत्माराम ३ ५०
- के साथ गोविन्ददास, सेठ हिंद पा १ ००
- महाप्रयाग गोस्वामी, सीताराम मयूर २ ५०
- महाप्रस्थान के पथ पर सान्याल, प्रबोधकुमार सरस्व प्रे ३ ००
- महावध भगवत भूतबलि. भा. २-७ भा जानपीठ ६६ ००
- महावली भीम देवदत्त शास्त्री विश्वेश्वरानन्द १ ५०
- हनुमान ओझा, राजवल्लभ सा भवन, इ १ २५
- महावीर दल शिक्षावली गुप्त, सीताराम 'विनोद' २ भा न्यू लिट १ ००
- महाभागवत् चरित विनायक, बालकराम २ भा मानस सध १ ०० (प्र.)
- महाभारत आत्माराम. १ ००, रगीन २ ००
- महाभारत. ओझा, प्रफुल्लचंद्र 'मुक्त'. ग्रंथमाला. १ ००
- महाभारत. गोविन्ददास विनीत श्यामलाल ७ ००
- महाभारत चंद्रभान चंद्र देहाती ० ७५
- महाभारत चौहान, सबलसिंह श्यामलाल. ८ ००
- महाभारत त्रिपाठी, सूर्यकांत 'निराला' गंगा ८ ००
- महाभारत शर्मा, चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद, टीका १० न्व. रा वेनीप्रसाद २० ००
- एक अध्ययन बुद्धप्रकाश त्रिवेणी. ३ ५०
- कथा राजगोपालाचार्य, चन्द्रवर्ती सस्ता ५ ००
- की आठ नारियां कटारा, कुमुम भा प्र मंदिर १ २५
- की कथा भा भ. १ ००
- की कथा मुनेश्वरप्रसाद कला-नि. १ २५
- की कहानिया जगेंद्र, अध्यायक गयाप्रसाद ० ७५
- की कहानिया देवदत्त शास्त्री स २. विश्वेश्वरानन्द १ ००
- की कहानिया राजदहादूर सिंह आत्माराम. १. २५
- की कहानी. दागडरुण नेमनल १ ००
- की नामानुक्रमिका गीता २ ५०
- की नामानुक्रमिका मोरेनन्द, एम. मोतीचान ७३ २०
- की श्रेष्ठ कहानिया व्यास, दाननन्द भाग्योदय. ३. ००
- के आर्जुन बालक राव. रामनेलादन मगध १. १२
- के कुट्ट आदर्श पाद. गीता ० २५

- महाभारत के पशु-पक्षियों की कहानिया शर्मा, राजेंद्र. भा १ नेमनल १ ५०
- के श्रीकृष्ण देवदत्त शास्त्री विश्वेश्वरानन्द २ २५
- के भूवित-रत्न इन्द्रचंद्र शास्त्री सरता २ ५०
- खिलभाग हरिवंश (हरिवंश पुराण) गीता ११ ५०
- परिचय गीता १ ७५
- भाषा श्यामलाल २ ००
- भाषा बडा श्यामलाल ८ ००
- महिमा शर्मा, हरिगकर रामप्रसाद २ ००
- शिक्षा-मुधा ब्रह्ममुनि, स्वामी आर्य सा १ ५०
- हिंदी टीका गीता न्व १ ११ ००, ख २ ३, ६ १२. ५० (प्र), ख ४ १५ ००, ख ५ ११ ५०
- महाभारतीय कथाए विचित्र माहनी. १ ००
- सुनीति-कथा मिश्र, रामदहिन ग्रंथमाला १ ५०
- महाभियान सावल, रामलाल श्री भा भारती ३ ००
- महामत्र राजपाल १ ००
- महामंत्री महतो, मोहनलाल 'वियोगी' राजपाल ४. ००
- चाणक्य रणवीर राजकमल. (पा) १ ००
- महामति चाणक्य राजदूत बने चतुर्वेदी, वरसानेलाल. हि सा. स ४ ३७
- महामना. रामबालक शास्त्री नद व एव नद स. १ २५
- मालवीय मालवीय, रामेश्वर सरता. ०. ४०
- मालवीय व्यास, वजमोहन माधना सदन ५. ००
- श्री प मदनमोहन जी मानवीय जी के लेख और भाषण वामुदेवशरण काशी हिंदू ५ ००
- महामात्य चाणक्य धूमकेतु वीरा. ४ ५०
- माधव. आचार्य, गुणवन्तराय वीरा ५ ००
- महामानव महतो, मोहनलाल 'वियोगी' छात्रहितकारी ४ ००
- निराला शरतेदु नवयुग पु भ. २ ००
- महामाया अनिलकुमार हिंदिया ० ५०
- महामाया ठाकुर, रवीन्द्रनाथ चौधरी २ ००, — — प्रभात प्र. २ ००, — — स्टार (पा) १ ००
- महामर्त्य. दोस्तोवस्की नेमनल ८. ००
- महामृत्युञ्जय मंत्र का अनुष्ठान विद्यानन्द विदेह, स्वामी. वेद-मस्थान ० २५
- महायात्रा गाथा (ग्रंथग गन्ता) राणेश राघव कि. महल १२ ००
- गाथा (रैन और चडा) राणेश राघव कि महल महारथी अश्वनी, मोहनलाल मोहन' इ प्रे. १. २५
- गर्जुन भट्ट नानाभाई हि प्र म. ० ७५
- महाराज चन्द्रनाथ बुद्धा गुप्त, भगवानन्दान गिदलाल १० ५०
- नदकुमार की पानी भट्ट, पानीराम ना नि., का. १ ८५
- नदकुमार की पानी गेन, चट्टी चरण आदर्श हि. ८ ५०
- ननारचन्द्र राजेश्वरप्रसाद नारायणसिंह आत्माराम. ४. ००

महाराज रणजीतसिंह कोहली, मीताराम हिंदु एकेडेमी ६५०  
 —रणजीतसिंह जसवतसिंह स २ नेचर ०२५  
 महाराणा अमरसिंह भट्ट, पातीगम सा नि, का १००  
 —उदयसिंह देमाई, रमणलाल वमनलाल वीरा ५५०  
 —का महत्त्व प्रमाद, जयशकर भा भ ०५०  
 —प्रताप आत्माराम १००  
 —प्रताप कामता प्रमाद ना साधना ०७५  
 —प्रताप गुप्त, राजेश देहाती १५०  
 —प्रताप ठाकुर, केगवकुमार आदर्श हि १२५  
 —प्रताप न्यादरसिंह 'विचैन' देहाती ०७५  
 —प्रताप प्रेमचंद सरस्व प्रे ०७५  
 —प्रताप नाटक राधाकृष्णदास ना प्र सभा ०७५  
 —प्रताप सिंह पाठक, चंद्रशेखर हि प्रचा पु २५  
 —गर्जनसिंह शर्मा, सुरेन्द्र रामप्रसाद २००  
 —हम्मिर सिंह सूर्यदेवसिंह, ठाकुर हि प्रचा पु १५०  
 महारानी मेहता, यशोधरा वीरा ५५०  
 महारानी कुमारदेवी धूमकेतु वीरा ५००  
 —भामी शातिनारायण राजपाल ४००  
 —भामी वीरागना लक्ष्मीबाई द्विवेदी, गौरीशकर 'शकर'.  
 वदेल १००  
 —पद्मिनी शर्मा, देव देहाती १५०  
 —लक्ष्मीबाई श्यामनारायण प्रसाद नद म १००  
 महारामायण आरभ खड व सिद्धि खड गिवव्रतलाल शिव  
 सा २००  
 महाराष्ट्र ओष्ठा, प्रफुल्लचंद्र 'मुक्त' ग्रथमाला १००  
 महाराष्ट्र माचवे, प्रभाकर राजहंस १७५  
 —की लोक-कथाए माचवे, प्रभाकर भा २ आत्माराम  
 १५०  
 —की लोक-कथाए व्यास, श्रीकांत भा १ आत्माराम १५०  
 —केशरी गिवाजी अग्निहोत्री, ताराचरण रामप्रसाद  
 ०६४  
 —जीवन-प्रभात दत्त, रमेशचंद्र इ प्रे २००  
 —प्रभात आष्टे, हरिनारायण ना नाधना ३५०  
 —प्रभात का इतिहास शुक्ल, मदनमोहन चैतन्य २५०  
 महावय कौमल्यायन, भदत आनंद, अनु हि मा सम्मे  
 ५.५०  
 महावीर चरित भवभूति सन्ना ०४०  
 —चित्रावती लुगिशा, जीतमन हि ना म  
 महावीरप्रमाद द्विवेदी टडन, प्रेमनारायण ग्रथमाना ०५०  
 —द्विवेदी दत्तदेव कृष्ण रीगन २५०  
 महावीर भीमसेन भट्ट, नानाभाई हि प्र म ०७५  
 —वर्धमान जैन, जगदीशचंद्र हि प्र म १२५  
 महामेना प्रयोपध्याय, ताराशकर राजरमल ५००, (पा)  
 १५०  
 महामेरा गुने शर्मा, कृष्णचंद्र निन्नु भा ज्ञानपीठ २२५  
 महामेरी मनुष्या भा, जगदीश 'विमल' हि पु ए ०७५  
 —वृंश भा, जगदीश 'विमल' हि पु ए १५०  
 —एरन्तुंग, इतिहा कि महल ५००

महिलाओं की जानकारी गुप्त मन्मथनाथ छात्रहितकारी  
 ४००  
 —के लिए रचनात्मक कार्यक्रम—सूचना पुस्तक आ भा  
 काग्रेस ०५०  
 —से केदारनाथ नवजीवन ०३५  
 —से गांधी, मोहनदास करमचंद सा साधना ५००  
 —से पार्वती कुवरि गगा २५०  
 महिला काशीदाकारी रानी देहाती ४००  
 —मजरी सत्यकाम शास्त्री देहाती ६००  
 —मडल केडिया, वैजनाथ हि पु ए १५०  
 —मणिमाला सतराम श्री भा भारती १५०  
 महिलामोद द्विवेदी, महावीरप्रसाद प्रभात पब्लि १५०  
 महिला रत्न शकुतलादेवी, ऋषि एस चाद १५०  
 —शासन पाराशर, चिरजीलाल दि पु स २००  
 —हारमोनियम गाड्ड सगीत १५०  
 महीम डकैत गुप्त, योगेन्द्रनाथ इ प्रे ३००  
 महुआ आम के जगल अवस्थी, राजेन्द्र 'तृपित' ववई प्र  
 २५०  
 महुए का पेड मार्कडेय स २ नया सा प्र ३००  
 महुवर अजगर बनारसी चिनगारी २५०  
 महुद्रनाथ की सर्वश्रेष्ठ कहानिया उपेन्द्रनाथ 'अस्क' नीलाभ  
 महौषध पंडित कौसल्यायन, भदत आनंद आत्माराम  
 ३००  
 मा अग्रवाल, सूर्यनारायण नेशनल १२५  
 मा उपेन्द्रनाथ 'अस्क' नीलाभ १००  
 मा गोर्की, मैक्सिम अर्चना (पा.) १००, — —ज्ञानमडल  
 सक्षिप्त स १५०, — —प्रकाश पा १००, — —  
 भा प्र मडल १५० — —सरस्व प्रे ५००  
 मा तरुणभाई, सपा सर्वोदय सा ०७५  
 मा दलेहा, ग्रेजिया भालोटिया.  
 मा भट्टाचार्य, वीरेन्द्रकुमार प्रचा पा १००, — —हि  
 प्रचा. पु ३००  
 —और वच्चा चोपडा, वोधराज इ प्रे २७५  
 —मा आचल भटनागर, गाति शकुन १२५  
 —की नहायता लूयरा विमना हि प्रचा पु ०६७  
 माभी, पतवार और किनारा शुक्ल, कमल हिदिया ३००  
 माडुक्योपनिषद् शकरभाष्य सहित गीता १००  
 मा ने पुकारा है उपाध्याय भगवतीस्वरूप सूर्य प्र १००  
 —वाप और वच्चे माकारेको, अ म पीपुस २७५  
 —वाप गये वाराणसी बालकृष्ण नेशनल ०७५  
 —यह कौन ? दुबे, रामेश्वर दयाल राजपाल १००  
 —वह एक कहानी शुक्ल, अमरनाथ विशा प्र म ०.७५  
 मास भक्षण की भ्राती केवलराम नव सा प्र ५५०  
 मा सारदा अपूर्वानंद, स्वामी श्रीरामकृष्ण ४५०  
 न शर्मा, विजयभरनाथ 'कौशिक' गगा ७००  
 माडकेल रामवालक, शान्ती नद न १२५  
 माओ मे तुग राहुल माकृत्यायन कि महल ६००  
 —त्से-तुग. ग्यावली भा २. पीपुल्स. ३.००

- माओ रानी शर्मा, राजेश बाल सदन.  
 माखन मिश्री माहेश्वरी, द्वारिकाप्रसाद रा बेनीमाधव  
 —मिश्री. शर्मा, जगन्नायणदेव काशी पु १.५० [० ७५  
 —मिसरी निरकारदेव 'सेवक' इ प्रे २००  
 माखनलाल चतुर्वेदी कौशिक, ऋषि जैमिनी 'बरुआ' भा  
 ज्ञानपीठ ६००  
 —चतुर्वेदी शर्मा, रामाधार नद ब्र एव नद स ३५०  
 —चतुर्वेदी हरिकृष्ण 'प्रेमी' राजपाल २००  
 माघ माहात्म्य वसल, रघुवीरशरण देहाती १५०  
 —माहात्म्य भाषा. श्यामलाल १००  
 माटी का लडका धर्मपाल शास्त्री ओरिएटल ०७५  
 —की गध जोशी, शाति राजकमल २००  
 —की मूरत जागी तिवारी, रामचंद्र सस्ता ०४०  
 —के पुतले शुक्ल, कमल. साहनी ४००  
 —के बोल मनोज यादव  
 —खाई-जनावरा सर्वदानद. हिंदु एकेडेमी ५००  
 —हो गई सोना स २ मिश्र, कन्हैयालाल 'प्रभाकर' भा  
 ज्ञानपीठ २००  
 माडर्न आर्ट ज्योमेट्री स ११ सिधस, आर सी रा  
 बेनीप्रसाद १५०, भा २ १००  
 —इंगलिश रीडर कुजी माथुर, आर. एन विनोद २००  
 —कशीदाकारी सहगल  
 —कास्टमेटिक इडस्ट्री कालीचरण देहाती ६००  
 —थ्योरी एड प्रैक्टिस टाइपराइटिंग रानडे, एम एन नद  
 स ४२५  
 —प्रेक्टिकल हिंदी इंगलिश टीचर रीगल ६००  
 —बीबी डे, सतीश देहाती २.५०  
 —ब्लैकस्मिथ गाइड भगवतराय देहाती ८२५  
 —भारतवर्ष का इतिहास गुप्ता, पी डी .. गुप्ता ब्रा ३००  
 —मेडिकल ट्रीटमेंट गुजराल, एम एल मोतीलाल २०००  
 —लाडी व डाइक्लीनिंग गुप्ता, कालीचरण देहाती ४५०  
 —शकुंतला कशीदाकारी शकुंतला देहाती ४५०  
 —स्माल स्केल इडस्ट्रीज दुबे, सुरेशचंद्र रतन एड क ८००  
 —हाई स्कूल बुक कीर्पिंग सिधल, आर पी गयाप्रसाद  
 —हिंदी कोप प्रयात प्र ६०० [३००  
 —हिंदी ग्रामर सुबोध ग ४५०  
 माडवाडी गीत संग्रह मोहनलाल मारवाडी देहाती ८५०  
 माता घोष, अरविद. श्रीअरविद ०७५  
 माता चतुर्वेदी, माखनलाल भा भ ५००  
 माताए हो तो ऐसी शिवनदन प्रसाद पु भ, रा ०५०  
 माता का प्रसाद पाठक, सुरेश्वर ग्रथमाला १५०  
 —के लिए उदयोगी बाते श्यामलाल अखतर सर्वोदय ०७०  
 —के हत्यारे ओमीलाल 'इलाहावादी' ३ भा विद्या भवन,  
 इ ५.०० (प्र)  
 —पिताओ से भगवानदीन, महात्मा अ. भा सर्व ०४०  
 —पिता की समस्या लेडाल, आर मंडानरड राजकमल  
 १२५  
 —भूमि त्रिपाठी, जयशंकर, कौशावी २००

- माता माटेसरी के विचार और विधि. कनल, एस पी.  
 आत्माराम ७५०  
 मातृ-कला. वर्मा, मुकुदस्वरूप रा बेनीप्रसाद ०.७५  
 मातृत्व और बाल सगोपन श्रीखडे, मालती साथी ३००  
 मातृभक्ति नाटक तुलसीदास 'गैदा' श्री भा भारती. २५०  
 मातृभाषा का अध्यापन भूदेव शास्त्री. लक्ष्मी ना ३२५  
 —की महत्ता अमीरअली 'मीर', सैयद हि सा सम्मे ०२५  
 —शिक्षण श्रीवास्तव, आर एस गयाप्रसाद एव लायल.  
 ५००  
 मातृवाणी श्रीमाताजी श्रीअरविद भा १ ३००, भा २  
 ०.५०, भा ३ ०३७  
 मातृ-शिशु-विज्ञान. कमलादेवी प्रभात प्र १००, — —  
 साधना म १२५  
 मात्रिक छंदो का विकास शिवनदन प्रसाद वि राष्ट्र  
 माथे की बिदिया चट्टोपाध्याय, अनिता अशोक पा १००  
 मादल का दर्द व्यास, श्याम लोक चेतना २.५०  
 मादा कैक्टस लक्ष्मीनारायणलाल राजकमल १७५  
 मादाम क्यूरी बनर्जी, गीता पीपुल्स १५०  
 माधवजी सिधिया चौहान, रामगोपाल सिंह रतन ३.००  
 —सिधिया वर्मा, वृंदावनलाल मयूर ६००  
 माधवनिदान दीनानाथ शास्त्री २ भा श्री भा. भारती  
 १२००  
 माधवनिदान वसरीलाल, वैद्य भा ३ परीक्षा-परिशिष्ट.  
 श्री भा भारती ६००  
 माधव मिश्र-निबध-माला शर्मा, चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद  
 इ प्रे. ३५०  
 माधवानल कामकदला माधवी कि महल ०७५  
 माधवी नदा, गुलशन. सहगल. ४५०  
 —ककण. दत्त, रमेशचंद्र इ प्रे १५०  
 माध्यम मै शभूनाथ सिंह हि प्रचा पु २७५  
 माध्यमिक अकार्वनिक रसायन घोष, एस गयाप्रसाद  
 ७५०  
 —अकार्वनिक रसायन शास्त्र (अधातु) मोतीलाल ३७५  
 —अर्थशास्त्र सरीन कृष्णा ब्र ८५०  
 —आकिक भौतिकी त्रिवेदी, कृपाशंकर स. २ आगरा बुक  
 ५००  
 —आर्थिक एव व्यापारिक भूगोल सोलकी, एम एल लक्ष्मी  
 ना ६५०  
 —आर्थिक और वाणिज्य भूगोल निन्हा, अत्रधेनकुमार  
 नाँवल्टी ४००  
 —उच्च बीजगणित पाडेय, जे. पी . कृष्णा ब्र ३५०  
 —एशिया गौड, कृपाशंकर हि प्रचा पु ५५०  
 —कलन परमानंद प्रसाद मोतीलाल ३००  
 —कलन वागेश्वरी प्रसाद बुकलेड ३५०  
 —कलन विकनभगत नाँवल्टी ३५०  
 —कार्वनिक रसायन श्रीवास्तव एस. चाद ६००  
 —कार्वनिक रसायन शास्त्र वोकडिया, एम एम. सद्यो  
 स ३ आगरा बुक ४५०



- माध्यमिक कृषि गणित एवं सान्त्विकी राजेन्द्रसिंह आगरा  
 बुक ५००
- कृषि जनु विज्ञान चौधरी, एम एम भा भा प्र  
 ६००
- कृषि भौतिक शास्त्र एवं जलवायु विज्ञान गर्मा, ओ डी.  
 रतन ७००
- कृषि भौतिकी तथा जलवायु अध्ययन कुलश्रेष्ठ, वी एल  
 नशो न २ आगरा बुक ८५०
- कृषि वनस्पति विज्ञान चौधरी, एम एम भा भा प्र  
 १०००
- कृषि विज्ञान मिश्र, गगामहेश रा वेनीमाधव ८००
- कृषीय भौतिक विज्ञान तथा जलवायु अध्ययन सिंह, आर  
 एन गयाप्रसाद १०००
- गणित पाठ्य, जे पी कृष्णा ब्र ४००
- गति विज्ञान परमानंद प्रसाद सशो स मोतीलाल  
 ५५०
- ज्यामिति कला. श्रीवास्तव, एन एन. गुप्ता ब्रा २७५
- ठोस ज्यामिति वैजनाथ प्रसाद मोतीलाल २.५०
- ठोस ज्यामिति रस्तोगी, जगदीशशरण सशो स २  
 आगरा बुक १२५
- त्रिकोणमिति घोपाल, पी एन. बुकलेड ४००
- त्रिकोणमिति भा, ताराकृष्ण बुकलेड ५००
- नागरिक शास्त्र पकज भारतीय रा वेनीप्रसाद भा १  
 १४१, भा ० ३४४
- निदेशक ज्यामिति वैश्य, जे डी नद स ४५०
- न्यायिक ज्यामिति मिन्हा, तेजनारायण मोतीलाल २००
- प्रतियोग्य भूगोल गौड, कृपाशकर हि प्रचा पु ३५०
- प्रयोगत्मक कृषि भौतिकी मिश्र, जी एल रतन २७५
- प्रयोगत्मक भौतिक विज्ञान घोष, वी एन . नशो न  
 रा वेनीप्रसाद ४००
- प्रयोगत्मक भौतिकी कुलश्रेष्ठ, वी एल आगरा बुक  
 ८००
- प्रयोगत्मक भौतिकी छोकर, एन एम रतन ४५०
- प्रयोगिक कृषि न्यायन-शान्ति सिंह लक्ष्मी ना २५०
- प्रयोगिक प्राणशास्त्र जगदीशचंद्र मूना नशो स २.  
 वेनीप्रसाद ५००
- प्राकृतिक आधिक भूगोल दुब, रामनाथ . कि महल  
 १०००
- प्राकृतिक पुरी, डी ग्रान एम चाड ६००
- प्राकृतिक कृषि भौतिकी इन्द्रप्रकाश वेदीनाथ  
 ८५०
- प्रायोगिक भौतिक विज्ञान चटर्जी एन चाड ५२५
- प्रायोगिक भौतिकी नैन के नी लक्ष्मी ना ५००
- प्रायोगिक न्यायन त्रिपाठी, प्रो. एम चाड २००
- प्रायोगिक न्यायन माह, जगदीश न ५ मोतीलाल  
 ३२५
- प्रायोगिक न्यायन शान्ति सिंह देव प्रकाश व

- माध्यमिक वहीखाता. गुप्ता, रूपगम सशो स १५ आगरा  
 बुक ७५०
- बीजगणित घोपाल.. बुकलेड ३७५
- बीजगणित भा ताराकृष्ण मोतीलाल ५००
- बीजगणित पाठ्य, जे पी कृष्णा ब्र ३५०
- बीजगणित लाल, आर एस गयाप्रसाद ३००
- बीजगणित सरलीकृत वामू, के पी रा वेनीप्रसाद ५००
- वैकिक विजयेद्रपाल सिंह लक्ष्मी ना. ६००
- भारत भूमि, गौड, कृपाशकर हि प्रचा पु ६००
- भौतिक विज्ञान वसु. . एस चाड भा १ ६००,  
 भा २. ७००
- भौतिकी अग्रवाल, वी के २ भा सा भवन, आ.  
 ७०० (प्र)
- भौतिकी कुलश्रेष्ठ, वी एल सशो. स १२ २ भा  
 आगरा बुक ७०० (प्र)
- भौतिकी सिंह, आर एन गयाप्रसाद भा १ ८००,  
 भा. २
- रसायन गणित भार्गव, पृथ्वीनाथ नद ब्र एव नद स  
 १७५
- रसायन शास्त्र बकोरे, ग. वि.. कृष्णा ब्र ८५०
- रसायन शास्त्र बोकडिया, एम एम . आगरा बुक. ७५०
- रसायनिक गणना साहू . स ३. मोतीलाल ३००
- रसायनिक गणना शम्भुदयाल अपर २२५
- रसायनिक गणनाए तुली . एस चाड २००
- रेखा गणित अग्रवाल, रमेशचंद्र रामप्रसाद २५०
- वनस्पति विज्ञान सक्सेना, रघुवीरप्रसाद गयाप्रसाद  
 १०००
- वनस्पति विज्ञान साराभाई, के पी आगरा बुक.
- वाणिज्य अकगणित लाल, के एस मोतीलाल ५२५
- वाणिज्य अर्थशास्त्र तैला... कृष्णा ब्र. ६.००
- विश्व भूगोल गौड, कृपाशकर हि प्रचा पु ५५०
- विश्व भूगोल सिंघल, सतीशचंद्र रा वेनीप्रसाद ७५०
- व्याकरण विचार मोलकी, प्रेमसिंह कल्याणमल भा ०  
 ०६०, भा ३ ०७५
- यस्य-विज्ञान. लक्ष्मणसिंह एशियन ४००
- यमतल त्रिकोणमिति वनवारीलाल . नशो स २.  
 आगरा बुक ३२५
- यनाजशास्त्र अग्रवाल, के डी एम चाड ३००
- समाजशास्त्र तोमर रामबिहारी सिंह श्रीराम मेहरा  
 २५०
- समाज अर्थशास्त्र सचदेव, टी एन एस चाड ४५०
- समाज रसायन शास्त्र प्रन्नोत्तरी (कार्बनिक) गर्ग, पी एन  
 गयाप्रसाद ३००
- समाज रसायन शास्त्र प्रन्नोत्तरी (भौतिक तथा अकार्बनिक)  
 गर्ग, पी. एन गयाप्रसाद ३००
- साहित्य नाटक गुप्त, राजेंद्र एम चाड, २२५
- सूत्रो मे शिक्षा पी एम चाड ६००
- संज्ञा विज्ञान परि न परमानंद प्रसाद मोतीलाल ५००

- माध्यमिक हिंदी व्याकरण द्विवेदी, शालग्राम . मिश्र-वधु ३००
- मानक हिंदी कोश वर्मा, रामचंद्र, सपा ५ भा हिं सा सम्मे. भा १-३ २५०० (प्र)
- हिंदी व्याकरण वर्मा, रामचंद्र चौखवा २००
- मानचित्र दुवे . कि महल ३००
- मानचित्र-कला डिक, फिलिस आत्माराम ४००
- चित्रण एव प्रयोगात्मक भूगोल सक्सेना, उमेशकिशोर लक्ष्मी ना ६५०
- प्रवेशिका. वशिष्ठ, रामस्वरूप आत्माराम ३००
- विज्ञान स ६ रणजीत तीर्थ रस्तोगी ७००, २ भा ४०० (प्र)
- मानदंड वनफूल राजपाल ३५०
- मानराज विलास मेनारिया, मोतीलाल, सपा. ना प्र सभा ५५०
- मानव गुरुदत्त भा सा सदन ५००, (पा) २००
- मानव मिश्र, उग्रनारायण ज्ञानोदय १००
- इतिहास की रूपरेखा. शर्मा, एस आर लक्ष्मी ना
- और अंतरिक्ष डेविस एस चाद
- और उसकी दुनिया नैयर . ओरिएट ७००
- और धर्म इन्द्रचंद्र, शास्त्री सस्ता ३००
- और संस्कृति दुवे, श्यामाचरण रजकमल ७५०
- का विकास मकतवा ०८७
- का विनाग मिचनर, जेम्स ए एस चाद ३७५
- की उत्पत्ति और क्रमिक विकास नैस्तुर्ख, माइखेल आत्माराम १५००
- की कहानी गुप्त, रामेश्वर २ भा स ४ श्री भा भारती १६००
- की परख सेन, देवीदयाल आत्माराम ३००
- के मूल मे भगवतीशरण सिंह नद स एव विद्या म, वा. १५०
- जीवन गाथा या जीवन गीत आनदस्वामी. गोविंदराम. १००
- ज्योति उमाकात नेशनल २००
- मानवता की नव-रचना सोरोकिन, पी ए अ. भा सर्व.
- की लाश नगत, एस पी नवीनतम [२५०
- की विजय घिल्डियाल, रमाप्रसाद 'पहाडी', सपा. प्रकाशगृह १५०
- के आधार चतुर्वेदी, राजेश्वरप्रसाद श्रीराम मेहरा १००
- के भरने मावलकर, गणेश वासुदेव सस्ता १५०
- के दीये मेघारणी, भवेरचंद सस्ता
- के प्रहरी जवाहरलाल नेहरू टडन, पी डी ड. प्रे ५५०
- के हितैषी सर्वोदय १२५
- मानव धर्म पोद्दार, हनुमानप्रसाद गीता. ०२०
- धर्म विद्यानंद विदेह, स्वामी वेदसस्थान ०.२०
- धर्म की आख्यायिकाए भट्ट, नानाभाई हि प्र. म १.२५

- मानव धर्म प्रकाश दयाल फकीर शिव सा. ० ७५
- निर्माण शर्मा, शंभूलाल कृष्णा ब्र. १५०
- पानी की गहराइयो मे. भट्ट, सूर्यनारायण सरस्व प्र म २००
- प्रकृति और आचरण ड्युई, जान आत्माराम ६.००
- प्रताप देवराज 'दिनेश' आत्माराम २००
- भूगोल गौड, कृपाशकर सशो. स २ केदारनाथ १२.५०
- भूगोल तिवारी, शिवकुमार सशो स २ केदारनाथ ५५०
- भूगोल मिश्र, युगुलकिशोर स ४ रा वेनीमाधव १५०
- भूगोल मेहरोत्रा . राष्ट्रीय प्र मंदिर एव लक्ष्मी ना १०५०
- भूगोल के सरल सिद्धांत चौहान, वी एस स ४. रस्तोगी ५००
- भूगोल के सिद्धांत करन, म प स. ३ कि. घर, का १२५०
- भूगोल के सिद्धांत ब्लाश, वाइडल डी ला शिवलाल. १२५०
- भूगोल के सिद्धांत भटनागर, एम एस सुरेश ६००
- भूगोल के सिद्धांत विश्वनाथ कि महल ७५०
- मन द्वारकाप्रसाद ज्ञानपीठ ४७५
- मनोविज्ञान द्वारकाप्रसाद नीलाभ ६००
- , मशीन और मत्यु दत्त भारती पजावी पु ४००
- मिति रिपुदमन सिंह रामा प्र ५००
- मूल्य और साहित्य धर्मवीर भारती भा ज्ञानपीठ २५०
- या दानव सरयूप्रसाद, आर्य एस चाद २७५
- विकास की भलक नेहरू, रामेश्वरी सा केद्र २.५०
- शरीर दीपिका वर्मा, मुकुदस्वरूप. रा वेनीप्रसाद ६००
- शरीर रचना विज्ञान वर्मा, मुकुदस्वरूप २ भा काशी हिंदू ७०० (प्र)
- शास्त्र की रूपरेखा माथुर, कृपाशकर. केदारनाथ १०००
- सघर्ष शर्मा, शंभूलाल यग मैन ६२५
- सघर्ष श्यामदत्त यग मैन ३००
- संस्कृति की कहानी पाठक, आत्माराम. रा वेनीप्रसाद १८०
- सभ्यता का विकास शर्मा, रामविलास विनोद ५००
- समाज मलैया, के सी राजकमल ११०
- समाज राहुल सास्त्रत्यायन आधुनिक पु ३७५
- समाज का विकास. शर्मा, सत्यप्रकाश... कृष्णा ब्र ५००
- समाज का सरल अध्ययन वर्मा, ओमप्रकाश कल्याणमल, ३००
- हंस शर्मा, राजेंद्र एस चाद ३००
- हृदय की कथाए मोपासा हि ग्र २ २५०
- मानवी ओमप्रकाश 'दीपक' भा पु म २५०
- मानवी गोपालशरण सिंह, ठाकुर इ प्रे २५०
- मानवीय क्रांति धर्माधिकारी, दादा अ भा. सर्व ०.२५

- मानवी या देवी चटर्जी, कालीचरण गंगा १५०  
 मानवीनि विज्ञान ज्ञानमंडल २००  
 मानन एण महत् रोगनपुरी मानस सघ १००  
 —का कथा-जिल्प श्रीवर सिंह आनंद पु, वा ४५०  
 —ग नामात्रिक दर्शन वैजनाथ सिंह सस्ता ३००  
 —दी महिलाए शर्मा, रामानंद कन्याकुमारी ८००  
 —की की राम कथा चतुर्वेदी, परशुराम कि महल ३५०  
 —की नमी भूमिका शुक्ल, केसरीनारायण, अनु हि सा भ ३५०  
 —के विपरे प्रसून व्यामविहारी 'विरागी' राष्ट्र प्र म २००  
 —गंगा उमादत्त विजेश्वरानंद २००  
 —तरंग द्विवेदी, भैरवप्रसाद मानस सघ ख १ १५०, ख २ २००  
 —दर्शन श्रीकृष्णलाल आनंद पु, वा ४००  
 —पचनत्व त्रिपाठी, विजयानंद मानस सघ ० ७५  
 —पीतूप अजनीनदनशरण, सपा  
 —प्रमग त्रिपाठी, विजयानंद मानस सघ ३५०  
 —मजरी ओभा, प्रफुल्लचंद 'मुक्त', सपा स ३ ८ वेनीमाधव ० ५०  
 —माधुरी मिश्र, बलदेवप्रसाद सा रत्न भ ८००  
 —मीमामा रजनीकांत शास्त्री कि महल ४०० (अप्रा)  
 —मुक्ता अग्रवाल, मुरलीधर, सपा १२ ख मानस-मुक्ता न १-८ ६ ६०  
 —मे उतित गौण्डव मिश्र, बलदेवप्रसाद क मु हि ० २५  
 —मे रामकथा मिश्र, बलदेवप्रसाद वगीय ३५०  
 —रहस्य गीता १ २५  
 मानवी वर अमचंद्र 'नुमन', सपा राजकमल १ ७५  
 मानवीवर्ण प्रेमचंद ८ भा मरस्व प्रे एव हस ३०० (प्र)  
 —तीर कैलाज वर्मा, रामचंद्र, अनु ना प्र सभा ३००  
 मानवी व्याकरण त्रिपाठी, विजयानंद मानस सघ २००  
 —यका-नमाधान गीता ० ५०  
 —शास्त्र और नमाज चतुर्वेदी, सीताराम हि सा कु ३००  
 मानवीत आरोग्य शुक्ल, लालजीराम नद व्र एव नद स ४००  
 —चिन्ता शुक्ल, लालजीराम नद व्र एव नद स ४००  
 —दर्शन गीता १ ००  
 —रघुचर्य कर्मयोग फकीरचंद देहाती १२ ००  
 गंगा के चमत्कार मन्यकाम विद्यानकार राजपाल २ २५  
 —गंगाका वर्मा, दत्तानंद महल २ ५०  
 —गंगी भद्र, उदयशंकर आत्माराम २ ००  
 —गंगी गुरु गिरारामशरण सा मदन, चि १ ००  
 —गंगे न गंगे द्विवेदी प्रभात पवित्र. ५ ००  
 —गंगे की लपटेना मिश्र, ए एन कि पर, का ० ३७  
 —गंगे गीत गी दानमिह प्रणाची नर्वोदय ० ५०

- मापन (मेजरमेट) शिक्षण-विधि टडन, तेजनारायण, सपा हि सा भ १५०  
 मामा जी दिल्ली से आए गोस्वामी, ललित आत्माराम १ ००  
 मायनी सैड, जार्ज मानवीरोवर सा ४ ००  
 माया खत्री, दुर्गाप्रसाद लहरी ४ ००  
 माया कशीदाकारी माया देहाती २ ५०  
 मायाजाल गुरुदत्त ओरिएटल ५ ००  
 मायावर्ग ब्रजमोहन काशी हिंदू २ ००  
 मार मार कर हकीम श्रीवास्तव, जी पी हि पु ए २ ५०  
 मारवाड गौरव. मिश्र, चंद्रप्रकाश बसल १ २५  
 —राज्य का इतिहास गहलोत, जगदीशसिंह स २. हि सा म, जो ५ ००  
 मारवाडी गीत संग्रह ४ भा हि पु ए ० २५ (प्र)  
 मारवा थाट अक गर्ग, लक्ष्मीनारायण, सपा संगीत २ ५०  
 मारिफुन्नगमात नवावअली, राजा संगीत भा १ ६ ००, भा २ ६ ००, भा ३ १ २५  
 मार्कंडेय पुराण अग्रवाल, वासुदेवशरण हिंदु एकेडेमी ८ ५०  
 —पुराण एक अध्ययन शुक्ल, बदरीनाथ चौखवा ४ ५०  
 मार्केट रिपोर्ट्स एव साराश लेखन सहाय, विशभर रामप्रसाद २ ००  
 मार्क्स की पूजी एगेल्स, फ्रेडरिक पीपुल्स ३ ००  
 मार्क्स के भारत-सवधी लेख मार्क्स, कार्ल पीपुल्स १ १२  
 मार्क्सवाद यशपाल विप्लव ४ ००  
 मार्क्सवाद और रामराज्य करपात्री, स्वामी गीता ४ ००  
 —और साहित्य राय, महेन्द्रचंद्र कल्याणदास ५ ५०  
 —के ऐतिहासिक विकास की कुछ विशेषताए लेनिन पीपुल्स ० २५  
 —क्या है? वर्न्स, एमिल पीपुल्स १ २५  
 मार्गदर्शिका देसाई, नारायण अ भा सर्व ० ५०  
 मार्मिक रहस्य श्रवणकुमार दिव्य, अनु आत्माराम २ ००  
 मालती-माधव भवभूति सस्ता ० ४०  
 मालतीमाधव नाटक भवभूति रत्नामश्र १ ७५  
 मालती माला शर्मा, मालती ना प्र सभा ० ५०  
 मालवा गोकर्णी, मैक्सिम धारा २ ५०  
 —की लोक कथाए परमार, श्याम आत्माराम १ ५०  
 मालविकाग्निमित्र कालिदास. सहगल १ २५, — —सस्ता ० ४०  
 मालविकाग्निमित्र मिश्र, ठाकुरदत्त कि महल १ ५०  
 मालविकाग्निमित्र शास्त्री, पी डी, अनु आत्माराम ३ ००  
 —भापा सीताराम रा. वेनीप्रसाद  
 मालवी एक भापा शास्त्रीय अध्ययन उपाध्याय, चिंतामणि मगल ३ ००  
 —और उमका साहित्य परमार, व्याम राजकमल २ २५

- मालवीय जी के लेख मालवीय, पद्मकांत, सपा नेशनल ८.००  
 —जी जीवन-भलकिया मालवीय, पद्मकांत, सपा नेशनल.  
 ८.००  
 —जीवनचरित चतुर्वेदी, सीताराम स २ अ भा विक्रम  
 ८००  
 —श्रद्धा सुमनावली शर्मा, फतहचंद 'आराधक', सपा  
 मालवीय साहित्य श्रद्धाजलि समारोह समिति, १५ एफ  
 दिलशाद कालोनी, शाहदरा-३२  
 मालवी लोकगीत : एक विवेचनात्मक अध्ययन उपाध्याय,  
 चिंतामणि मंगल १६००  
 माला गुप्त, सोमनाथ आल्माराम ०.७५  
 मालाकार ठाकुर, रवींद्रनाथ राजकमल १०००  
 मालापती घिल्डियाल, रमाप्रसाद 'पहाडी' प्रकाशगृह  
 ४५०  
 मालिक. गोर्की, मैक्सिम चौधरी ३२५  
 मालिन. साधुशरण हि प्रचा पु. ५००  
 मालिनी. ठाकुर, रवींद्रनाथ कि महल २००  
 —के वनो मे श्रीनिधि आत्माराम ६००  
 माली ठाकुर, रवींद्रनाथ आनंद पु, वा, — —प्रभात प्र.  
 २.००  
 मासिकधर्म एव गर्भपात चौवे, प्रियकुमार मेडिकल १००  
 मास्को विश्वविद्यालय के छात्र मिकुकोवा, म पीपुल्स ०.६४  
 —से मारवाड. देवेशदास इ प्रे २.००  
 मास्टरजी जैन, आनंदप्रकाश आत्माराम १५०  
 मास्टर मैन रेडी मैग्निट, कैप्टेन इ प्रे २७५  
 —साहव जैन, ऋषभचरण. ज्ञान प्र ३५०  
 —साहव ठाकुर, रवींद्रनाथ आनंद पु, वा; — —इ प्रे  
 ०.५०, — —चौधरी १५०, — —प्रभात प्र  
 २.००  
 —सिलविल चिरजीत आत्माराम ३००  
 माही मार्कंडेय नया सा प्र ३५०  
 मिक्चर शर्मा, सुरेशप्रसाद स ७ मेडिकल २५०  
 मिट्ठी रेखाए. गोविंदसिंह चिनगारी १५०  
 मिट्टी प्यारेलाल 'आवारा' रूपमी ५५०  
 —और फूल शर्मा, नरेंद्र भा भ २००  
 —का कलक शर्मा, यादवेद्र 'चंद्र' सहगल ३००  
 —का कलश दुवे, शिवनाथ विश्वेश्वरानंद १२५  
 —का काम सर्वोदय १.७५  
 —का काम कादरी, मुहम्मद असगरअली रामप्रसाद १५०  
 —का काम. मनमोहन सरल. . आत्माराम २००  
 —का घर नवसेना, वीरेन्द्रकुमार नवयुग ग्रं कु  
 —का पुतला पाणिगामी, कालिदीचरण. पूर्वोदय २.००  
 —का प्रारंभिक अध्ययन जयरामसिंह हि प्रचा पु २७५  
 —का माधो गौट, जनार्दन नव मा प्र ३२५  
 —का गिल्प चंद्रिकाप्रसाद जिज्ञानु श्री प्रभाकर १.५०  
 —का शेर श्रीदान्तव, जी. पी रामप्रसाद ०.५०  
 —का निदूर उपाध्याय रवींद्र. मनोरमा ३५०  
 —की और रामधारी सिंह 'दिनकर'. उदयाचल. ४००

- मिट्टी की कला ठाकुर, सूर्यदेव कला-नि. भा १.०६२; भा.  
 २.०८८; भा ३.०.८८; — —नागरी प्र. २ भा ४  
 —की गाडी. सिन्हा, सत्यव्रत. स ३ परिमल ३.००  
 —की माया वक, पर्ल. एस सुभाष. २५०  
 —की लोथ हरिप्रकाश वसल ४००  
 —के गुरु व्यथितहृदय नवचेतना १००  
 —के देव. त्रिवेदी, पद्मा हि ग्र र. ३.५०  
 —के मानव त्रिपाठी, जयशंकर कौशावी १५०  
 —के मीनार रमेश भारती. नवयुग प्र ११००  
 —, खाद और पानी जोशी, हेमचंद्र परिमल. १.००  
 —बोल उठी भा, रमेशचंद्र चौधरी ३००  
 —मीनार प्रताप चौधरी ४००  
 —से रुपया गुप्तवधु सर्व-मुलभ  
 मिडवाइफरी (दाईगरी) वसतीगानी. देहाती ३५०  
 मितव्यय वर्मा, रामचंद्र. ना प्र सभा ३००  
 मित्र के नाम पत्र. ठाकुर, रवींद्रनाथ. स २ शिवलाल  
 ३५०  
 मित्रता महेंद्र, पृथ्वीचंद्र ग्रथालय २.००  
 —और वलिदान भारतभूषण 'सेवक' पुष्पी ०.७५, — —  
 सुरेद्र २००  
 मित्र बनाने की कला टीअर, सी एच राजकमल २५०  
 —लाभ (हितोपदेश से) स ५ रा वेनीमाधव १.५०  
 —लाभ रामकृष्ण आचार्य विनोद. २.००  
 मित्रो का सर्कस शिवमूर्तिसिंह 'वत्स' २ भा एस 'चांद  
 १०० (प्र)  
 —की बाते सिद्धगोपाल वाचस्पति गोविंदराम १२५  
 मित्रो और अन्य कहानिया गुप्त, भैरवप्रसाद, सपा धारा २.५०  
 मिथिला की लोक कथाए दिनेश्वरलाल 'आनंद' ग्रथ भ.  
 भा १.०८४, भा २ १२५; भा ३ १.५०  
 —की लोक-कथाए शिवमूर्तिसिंह वत्स २ भा. आत्माराम  
 १५० (प्र)  
 मिया कल्लन चेट्टी, रामचंद्र रामप्रसाद १७५  
 मिरजा जगी चगताई, अजीमवेग छात्रहितकारी १.००  
 मिरातुल-शुरुज नजीर अहमद सा अकादमी. ५.००  
 मिर्च. वेदी, रामेश आत्माराम १००  
 —का मजा. रामधारी सिंह 'दिनकर' उदयाचल. ०.७५  
 —की खेती रामेश्वर अशात देहाती १२५  
 —के गुण तथा उपयोग. युक्ल, अमोचंद्र देहाती ०.६२  
 —मिठाई वलय, मतराम नेयानन ०.७५  
 मिर्जा गालिव कौल, गोपालकृष्ण. मन्ता ०.४०  
 —गालिव रजिया नज्जाद उहीर पीपुल्स १.५०  
 —गालिव रमूल अहमद 'अवोध'. राष्ट्र. प्रचा नमि १.२५  
 मिल का मालिक श्रीवास्तव, उमाशंकर नवयुग ग्रं कु.,  
 ०.७५  
 —जुलकर काम करे हृदयचंद्र दिव्यालरार मन्ता ०.४०  
 —जुल काम करे मित्र, शिवप्रकाश प्रभात पवित्र १.०५  
 मिलन ठाकुर रवींद्रनाथ. हिंदू पा १००  
 मिलन वैश्य, मोहनलाल अचध ३०५

- मिलन हिकमतुल्लाह खा नीलाभ ३५५  
 —यामिनी हरिवंशराय 'वच्चन' राजपाल ३५०  
 मित्तनाहुति तागडी अन्नपूर्णा भा ग्रथमाला ५००  
 मिला जुला काम रानी देहाती १००  
 मिलिंग मशीन कालीचरण देहाती ४५०  
 मिलिंद और गीतमनद राकेग कि घर, ग्वा १७५  
 —गोत्मानद गोत्मानद, एक अध्ययन अगवाल, उपा लायल १५०  
 मिश्र का रावण गोर्की, मैक्सिम चौधरी २००  
 —जी और उनका 'चक्रव्यूह' नाटक त्रिपाठी, जयशंकर कौशाबी १००  
 मिश्रवधु-विनोद मिश्रवधु भा १ गगा ५००  
 मिन मनूरी कपूर, रामप्रकाश हिंद पा १००  
 मिमिरजी अन्नपूर्णानंद आत्माराम १५०  
 मिमेज वारेन जाँ, जार्ज बर्नार्ड राजपाल २५०  
 मिस्टर उनसठ शीकत थानवी आनंद पु, वा ३००  
 —तिवारी का टेलीफोन गौड, मरयूपडा चौधरी २००  
 मिस्त्री डिजायन बुक रामप्रवतार 'वीर' देहाती २५५०  
 मित्त और हृदय देश का परिचय इ प्रे ०५०  
 मोड शर्मा, रामगोपाल 'रुद्र' अभिज्ञान ३००  
 मोठा जहर सोमनाथ 'अकेला' कन्हेयानाल २२६  
 —पेट—कटवा फल सुदर्शन हि ग्र २ ३००  
 मोठी कहाविया प्रशांत औरिएटल ०७५  
 —ताने रघुनाथ सिंह, ठाकुर बसल १२५  
 —निदिया गनी आ मदनविहारी गरण 'दीप' आनंद पु, वा १००  
 —लगन शिवकुमार हि प्रचा पु (पा) १००  
 —हमी श्रीवास्तव, जी पी हि पु ए २७५  
 मोठे गीत, चतुर्वेदी, देवीदयाल 'मस्त' आत्माराम १५०  
 मोना अग्रवाल, राजागम हि प्रचा पु २००  
 मोनाथी मोनी, रमणाल प्रवई प्र १५०  
 मोनागाजार (फि.मी. - स्मरण) सआदत हमन 'मटो' राजकमल ३५०, (पा) १००  
 मोनू गंग, किशोर म ३ रानी १५०  
 मोमामा दर्शन शायं मुनि देहाती ६००  
 —शंभू शर्मा, श्रीराम, सपा संस्कृति ४००  
 मोमासिका जिवनाथ कि महल २५०  
 मोर रामनाथ 'मुमन' भा ज्ञानपीठ ६००  
 —रामिम नेमका, मन्ननाल ज्ञानोदय २५०  
 —रामिम चटर्जी, नदलाल इ प्रे ५००  
 —रामिम चतुर्भुज म ४ साधना म १५०  
 —री शायी मातृ-भाषा २००  
 —जीवनी और महलन राजपाल १५०  
 —नती 'मीर' की गजने वृन्देद्र महल ०५०  
 —नाथ प्रदिन रशीद नवयुग प्र ८५०  
 —नाथ गीताराम हि महल १५०  
 —नाथ री रीद शीरत पानथी महल ३२५  
 मोरा, एत अध्ययन पनाथी अवनम रामप्रसाद ३००

- मीरा की काव्य कला भाटी, देशराजसिंह अशोक प्र २५  
 —के पद सकसेना, वीरेद्रकुमार नवयुग प्र कु  
 —दर्शन श्रीवास्तव, मुरलीधर सा भवन, इ २५०  
 —प्रेम दीवानी ठाकुर, रामचंद्र बोरा ५००  
 मीरावाई श्रीकृष्णलाल हि सा सम्मे १५०  
 —और उनकी पदावली सटीक भाटी, देशराजसिंह अशोक प्र ५००  
 —की पदावली चतुर्वेदी, परशुराम, सपा हि सा सम्मे ३००  
 मीरा वावरी रतूडी, वीरेद्रमोहन उमेश २००  
 —वृहत् पद संग्रह पञ्चावती 'शवनम', सपा रामप्रसाद ६००  
 —माधुरी मीरावाई सशो स २ हि सा कु ५६२  
 मीरा वालकृष्ण नेशनल १००  
 मीरा रतन रा वेनीमाधव १००  
 मीरा सत, गोकुलचंद्र औरिएटल १७५  
 —की भूमिका शर्मा, विनयमोहन शिवलाल  
 —के गीत मीरावाई देहाती ०५०  
 —के पद मेहता, बलवर्तसिंह सस्ता ०४०  
 —के मधुर गीत शर्मा, यज्ञदत्त सा प्र २५०  
 —पदावली चतुर्वेदी, वरसानेलाल सा सगम म २५०  
 —पदावली मीरावाई प्रभात प्र २५०  
 मीरावाई न्यादरसिंह 'वेचैन' देहाती ०७५  
 मीरावाई प्रभात हि ग्र २ १५००  
 मीरावाई सिन्हा अहल्या कला-नि ०७५  
 —का जीवन-चरित्र देवीप्रसाद, मुशी वगीय १५०  
 —की पदावली चतुर्वेदी, परशुराम, सपा हि सा सम्मे ३००  
 मीरा भजनावली मीरावाई देहाती ०७५  
 —मदाकिनी नरोत्तदास स्वामी गयाप्रसाद २००  
 —माधुरी रसाल गंग ब्र १५०  
 —सगीत भजनामृत रामप्रवतार 'वीर' देहाती २५०  
 —सुधा-सिंधु आनंदस्वरूप स्वामी सा मस्थान १३००  
 —स्मृति ग्रथ सुकुल, ललिताप्रसाद वगीय १५००  
 मीरी विटिया बरदले, रजनीकांत रणजीत २००  
 मील के पत्थर रामवृक्ष वेनीपुरी मस्ता २२५  
 मुडकोपनिपद, शंकरभाष्य सहित गीता ०४५  
 मुडे-मुडे मतिभिन्ना श्रीसन्ध ववई प्र २५०  
 मुशी जी और उनकी प्रतिभा चतुर्वेदी, सीतागम राजकमल ३००  
 —प्रेमचंद जोशी, प्र न व्हीनस १५०  
 —प्रेमचंद मदान, इन्द्रनाथ राजकमल १००  
 मुह देखने के शीशे बनाना कालीचरण देहाती २५०  
 मुकद्दमो से बचो सौली, गुरचरणसिंह मा सगम, लु ०६  
 मुकुट ठाकुर, रवीन्द्रनाथ इ प्रे ०३१, — चौधरी १  
 मुकुट वाल्म्यायन, नित्यानंद स ४ हि भवन १५०  
 मुकुल चौहान, मुभद्रामुमारी हस २५०  
 —गुच्छ अर्जुन सिंह कला-नि २००

- मुकुलम् नथमल, मुनिश्री आदर्श सा ३००  
 मुक्तक काव्य परपरा और विहारी त्रिपाठी, रामसागर अशोक-  
 प्र १६००  
 मुक्तकी गोपालदास 'नीरज' आत्माराम. १५०  
 मुक्तधारा ठाकुर, रवीन्द्रनाथ प्रभात प्र २००  
 मुक्तनारी काकोडकर, चद्रकांत आनंद पु, वा २२५  
 मुक्ता सत्यकाम विद्यालकार हिंद पा १.००  
 —के माने विश्वमोहन कुमारसिंह ग्रथमाला ३००  
 मुक्ताफल व्यथितहृदय श्रीराम मेहरा १२५  
 मुक्तावती ठाकुर, बलभद्र. हि भवन ८००  
 मुक्ताहार भारिल्ल, विज्ञान नवयुग ग्र कु ३००  
 मुक्तिका जगन्नाथप्रसाद 'मिलिंद' गयाप्रसाद २००  
 मुक्ति का रहस्य मिश्र, लक्ष्मीनारायण हि प्रचा पु २५०  
 —की खोज हिमागु गुल्लूप्रसाद ५२५  
 —के पथ पर दत्त भारती बवई प्र ३५०  
 —के वधन पत, गोविंदवल्लभ भा भ ४००  
 मुक्तिदान द्विवेदी, सिद्धविनायक हि प्रचा पु १७५  
 मुक्तिदूत भट्ट, उदयगकर आत्माराम २००  
 मुक्तिदूत वीरेन्द्रकुमार स ४ भा ज्ञानपीठ. ५००  
 मुक्तिपथ जोशी, इलाचंद्र हि भवन ५२५  
 मुक्तिपथ भट्ट, उदयगकर अवध १.५०  
 मुक्ति मंत्र अश्रवाल प्रि ०.७५  
 —मंदिर वास्वानी, टी एल गगा २५०  
 —रहस्य एक ग्रध्ययन रीगल १००  
 मुखमरोवर के हस मटियानी, शैलेश आत्माराम ४.००  
 मुखाकृति विज्ञान तिवारी, कृष्णगोपाल कल्याणदास ३७५  
 मुखिया ओमीलाल 'इलाहाबादी' विद्या भवन, इ ५००  
 मुगलकालीन भारत ठाकुर, उपेन्द्र मोतीलाल ५००  
 —भारत रामसिंह रस्तोगी ७००  
 —भारत. राय, हरिहरप्रसाद ग्रथमाला ४००  
 —भारत (१५२६-१८०६) श्रीवास्तव, आशीर्वादीलाल सशो  
 स ४ शिवलाल १२५०  
 —भारत का इतिहास सेठी. . एस चाद ६००  
 —भारत की एक भूलक गोविंददास, सेठ एस चाद १५०  
 मुगल दरबार बजरत्नदास, अनु ४ भा ना प्र सभा  
 ५५० (प्र)  
 —वादगाहो की सनक. चतुरसेन, आचार्य राजहस १७५  
 —भारत तिवारी हसकुमार ग्रथमाला १००  
 —भारत नाहर कि महल ४०० (अप्रा)  
 —भारत श्रीनिवासाचारी. रा वेनीप्रसाद ३००  
 —शासन पद्धति सरकार, जदुनाथ शिवलाल ६२५  
 —साम्राज्य का धय और उसके कारण इद्र विद्याचस्पति  
 हि ग्र २ ७५०  
 —साम्राज्य का पतन सरकार, जदुनाथ  
 —साम्राज्य की जीवन सज्या राजेन्द्रप्रसाद नारायणसिंह  
 आत्माराम ०.००  
 मुगलों की महजादियां मुगरीमोहन न २ रगभूषि १५०  
 मुजरिम सागर दानूपुरी. देहाती २५०

- मुजरिम सोमनाथ 'अकेला'. कन्हैयालाल ४५०  
 मुझ से सब अच्छे विडला, घनश्यामदास सस्ता  
 मुझे आपसे कुछ कहना है विद्यार्थी, रामप्रसाद 'गवी'  
 गयाप्रसाद २००  
 —जला डालो. सेठ, जवाहरलाल 'पागल' आनंद पु, वा.  
 ३७५  
 —जीने दो चट्टोपाध्याय, अनिता सहगल ५००  
 —प्यार से नफरत है गरतेदु आदर्श पु म १००  
 —भूल जाना हेमराज 'निर्मम' इ पब्लि एव दि पु स.  
 ४००  
 —सहारा दो सोमनाथ 'अकेला' सुभाष ३००  
 मुट्टी भर फूल. शरीप मनोरमा २५०  
 मुर्दारिस की रामकहानी कपूर, कालिदास. इ प्रे ३००  
 मुद्रण-कला पाडेय, छवीनाथ वि राष्ट्र ७५०  
 मुद्रा रावर्टसन, डी एच एस चाद ६००  
 —, अधिकोषण, विदेशी विनिमय, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा  
 राष्ट्रीय आय श्रीवास्तव. . प्रकाश बुक ८५०  
 —अधिकोषण विदेशी विनिमय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार  
 श्रीवास्तव, एस एन. किशोर पब्लि ८५०  
 —एव अधिकोषण मित्तल, एस सी सा भवन, आ ५६२  
 —एव अधिकोषण सहाय, विशभर कि महल ७५०  
 —एव वैकिंग मित्तल, एस सी सा. भवन, आ ८.७५;  
 भा १ ४५०  
 —और बैंक पाडेय, सुधाकर हि प्रचा पु ६००  
 —और बैंक के सिद्धांत हि प्रचा पु. ४५०  
 —और बैंक परिचय पाडेय. हि प्रचा. पु. १७५  
 —और बैंकिंग मालीराम सशो स ४ आगरा बुक ७५०  
 —और विनिमय राधारमण रा. वेनीप्रसाद २००  
 —की रूपरेखा पाटनी रस्तोगी. ६००  
 —की रूपरेखा वैश्य, एम सी रतन ७५०  
 —तथा बैंकिंग जैन, दी एल लक्ष्मी ना  
 —तथा बैंकिंग हुक्कू, विश्वनाथ लक्ष्मी ना २५०  
 —तथा बैंकिंग सिद्धांत वाजपेयी, एस आर कि घर,  
 का  
 —, बैंकिंग, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय आय एव राजस्व.  
 गोयल रस्तोगी १०००  
 —, बैंकिंग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय आय एव राजस्व.  
 स ८ जैन, रघुवीरसिंह रस्तोगी ६००  
 —, बैंकिंग एव अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गोयल रस्तोगी ८.००  
 —, बैंकिंग तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत सशो स २.  
 गर्ग ५५०  
 —, बैंकिंग तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा राष्ट्रीय आय जैन,  
 रघुवीरसिंह न. ८ रस्तोगी ५००  
 —, बैंकिंग तथा विदेशी विनिमय कान्तल, भारतभूषण.  
 सशो न ४ केदारनाथ ५.२५  
 —, बैंकिंग तथा विदेशी विनिमय राजवाडे, एस जी. न  
 १९६४. मानकचंद्र ७.२५  
 —, बैंकिंग परिचय कपूर, अमरनाथ. भा भवन. ६.००

- मुद्रा, वैकिंग, विदेशी विनिमय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, राष्ट्रीय  
 आय तथा राजस्व केदारनाथ ६५०  
 —, वैकिंग, विदेशी विनिमय एवं अंतर्राष्ट्रीय का सरल  
 अध्ययन नारायण वुरुलेंड ८५०  
 —, वैकिंग, विनिमय और विदेशी व्यापार भटनागर,  
 बालकाप्रसाद नरस्व स ७५०  
 मुद्राराक्षस ड प्रे १००  
 मुद्राराक्षस गुप्त, सुरेशचंद्र हि सा स २००  
 मुद्राराक्षस बलदेव शास्त्री एस चाद २००  
 मुद्राराक्षस भारतेन्दु हरिश्चंद्र हि भवन २००, — —  
 हि पु ए २७५  
 मुद्राराक्षस मिश्र, ठाकुरदत्त कि महल १५०  
 मुद्राराक्षस. रागेय राघव राजपाल २००  
 मुद्राराक्षस विशाखदत्त सस्ता ०४०  
 — एक अध्यायन लक्ष्मीकांत 'मुक्त' रीगल १२५  
 —नाटक भारतेन्दु हरिश्चंद्र विनोद १५०  
 —(भारतेन्दु हरिश्चंद्र) ब्रजरत्नदास रा वेनीमाधव १७५  
 मुद्रा विनिमय अधिकोपण तथा राजस्व शर्मा, कृष्णकुमार  
 आगरा बुक ७५०  
 —विनिमय तथा वैकिंग २ भा किशोर पब्लि २२५ (प्र)  
 —, विनिमय तथा वैकिंग का सरल अध्ययन कन्सल,  
 भारतभूषण आगरा बुक ३७५  
 —शास्त्र प्राणनाथ विद्यालकार ना प्र सभा ३००  
 —शास्त्र और वैकशास्त्र केदारनाथ प्रसाद पु भ ६००  
 —, साख तथा वैक-व्यवस्था. श्रीवास्तव . नद ब्र एव  
 नद स ३००  
 मुद्राहीन रमेश चौधरी, ए 'आरिगपूडि' भा सा सदन  
 ५.५०  
 मुद्रिका अवस्थी, सद्गुरुशरण विश्वविद्यालय १००  
 मुन्ना और राजू पूनम अदीव आत्माराम १००  
 —के गीत निरकारदेव 'सेवक ड प्रे २५०  
 —मुन्नी । पटो लिस्सो पाडेय, रमाकांत 'विजय' म २  
 भा सगम, मो ०६०  
 मुन्नी का साप काका मिश्र, दयाशकर ददा' आत्माराम  
 १.२५  
 मुन्नु किमान की दुनिया हरीश हि प्रचा पु ०६७  
 —के मित्र कुलभूषण हि प्रचा पु १२५  
 मुन्ने की परेशानी गन्ना, शशिप्रभा नेशनल १५०  
 मुन्नों के गीत रामपाल शास्त्री औरिएटल ०७२  
 मुन्स की अन्न श्रीराम आत्माराम १००  
 मुमताज प्यारेलाल 'आवारा' चौधरी ४००  
 मुग्धले फल इन भान्नी शारदा म ३५०  
 —कृत गोविन्द हि आदर्श पु म २५०  
 मुग्धी विष्णु प्रभात मन्ना ०.८०  
 मुग्धी रादशाह भागवीय, हर्षदय एस चाद ०५०  
 मुग्गी हाप हीरो वर्मा, नेशचंद्र भा ज्ञानपीठ २००  
 मुग्गी और मोगी उद्यम ना सगम, पु १००  
 मुग्गी-गान्ध प्रभात प्र २००

- मुर्गी पालन. कालीचरण देहाती १२५  
 —पालन एवं व्यवसाय पचीरी, शीतलप्रसाद स ३ जवाहर,  
 २००  
 मुर्गे जैन, आनन्दप्रकाश आनन्द पु, वा २००  
 —की करामात जयप्रकाश नवयुग प्र १५०  
 मुर्दा जी उठा गुप्त, विजयकुमार आत्माराम १००  
 मुर्दों का टीला रागेय राघव कि महल  
 —के शहर मे शर्मा, विनोदशकर रूपसी १००  
 मुलतानी लोक कथाए सत्यप्रिय 'शात' आत्माराम १५०  
 मुसकगाहटे गुलाम अहमद 'फुरकत' आत्माराम २००  
 मुसद्मे हाली अल्ताफ हुसैन राम-कला ३००  
 मुसलमान पाडे, चद्रवली नद ब्र एव नद म २५०  
 मुसाफिर ठाकुर, रवीद्रनाथ कन्हैयालाल ४५०  
 मुसाहिवजू वर्मा, वृ दावनलाल मयूर १५०  
 मुसोलिनी के अंतिम दिन रश्मि अशोक पु म २२५  
 मुस्कराहट कैद है शकर सुल्तानपुरी नवचेतना ५५०  
 मुस्कान का मूल्य श्रीवास्तव, रुद्रप्रसाद 'प्रवीण' पृष्णी  
 ०७५ — —सुरेद्र २००  
 मुस्कराइए राजरजना.  
 मुस्लिम कवियत्रिया और उनकी गायरी हसराम रहवर, सपा  
 रामप्रसाद २००  
 —कालीन भारत महाजन, विद्याधर एस चाद १२००  
 —त्योहार और सस्कार जोशी, श्रीपाद गाधी हिंदु १.५०  
 —भारत की ग्रामीण व्यवस्था मोरलैंड आदर्श हि १०००  
 मुहणोत नैगसी की ख्यात दूगड, रामनारायण, अनु २ भा  
 ना प्र सभा. ६५०  
 मुहव्वत एक खतरे सी वाजपेयी, प्रेमचंद्र आदर्श पु म. १००  
 —सोती है गुलाम अस्वास रूपसी १५०  
 मुहम्मद शाह रगीले की दिल्ली मुहम्मद उमर भा प्र  
 मदिर १५०  
 मुहावरा कोश तिवारी, भोलानाथ कि महल  
 —कोप हि प्रचा म ३००  
 —चाटं देवेद्र आर्य हि सा स ०६०  
 —मीमासा गुप्त, ओमप्रकाश वि राष्ट्र ६५०  
 मुहावरे और कहावतें बालमुकुद अर्श मलसियानी आत्माराम  
 ५००  
 —और लोकोक्तिया राज किशोर १००  
 —और लोकोक्तिया जोशी, गिरीशचंद्र हि पु ए १७५  
 मुहावरे का मेला व्याम, श्यामसुंदर वमल १२५  
 मुहूर्त चिन्तामणि भापा टीका श्यामलाल २५०  
 मूग और मोठ राधा मुधा नेशनल ०७५  
 मूगफली की बेटी त्रिपाठी, गयादत्त रा वेनीमाधव  
 —की बेटी रामेश्वर अशांत देहाती १००  
 मूगे का द्वीप व्याम श्रीकांत, अनु राजपाल १५०  
 मूठ की लडाई मिन्हा, योगेन्द्रनाथ अभिज्ञान १५०  
 मूक नपस्वी म ४ मन्वरवाल, कचनलता हि भवन ३५०  
 —प्रश्न शिरोमणि श्यामलाल ०५०  
 मूरखराज टाल्मटाय पूर्वोदय ०६०, — —मस्ता ०.४०

- मूरत और चित्र. उपाध्याय, भगवतशरण हस ० ५०  
 मूर्ख-मडली. राय, द्विजेद्रलाल गगा. २५०  
 मूर्खराज को राज मिला शकरदयाल सिंह पारिजात ०.३७  
 मूर्ख सौदागर मुक्तिदूत, आचार्य नारायण प्र १००  
 मूर्खों की दुनिया. पाडे, नारायणदत्त सस्ता १००  
 मूर्त्ति राजेद्रसिंह आर्मी २५०  
 —कला का इतिहास कादरी, मुहम्मद असगरअली  
 रामप्रसाद २५०  
 —निर्माण कला शीरी ए अली २ भा कि महल.  
 १७५ (प्र)  
 —पजा का प्राचीन इतिहास ज्ञानसुंदर, मुनि श्री आत्मानंद  
 ५००  
 मूल गणित अग्रवाल, लक्ष्मीनारायण. यग मैत्र ४००  
 —गमायण गोपाल साहनी ० ७५  
 —गयायण सटीक हरिदत्त शास्त्री सा रत्न भ ० ३७  
 मूलाधार वाणिज्य अकगणित मोतीलाल २५०  
 मूली के गुण तथा उपयोग दीक्षित, रामसनेही देहाती  
 ० ७५  
 मूल्य और मूल्यांकन भटनागर, रामरतन एस चाद  
 ७५०  
 —, मुद्रा और योजनाकरण पाडेय, विश्वभरनाथ मोतीलाल  
 ५७५  
 मृगजल शेवडे, अनंतगोपाल आत्माराम ५००  
 मृगतृष्णा नानकसिंह हिंद पा १.००  
 मृगतृष्णा बक, पर्ल एस अपर एव प्रभात पब्लि ५ ७५  
 मृगतृष्णा. शकर सुल्तानपुरी पुष्पी १००, — सुरेद्र.  
 ३००  
 मृगनयनी गौड, ज्ञातिस्वरूप. रतन २००  
 मृगनयनी स. २ चौधरी, रामखेलावन... हिं सा. भ  
 १.५०  
 मृगनयनी. वर्मा, वृदावनलाल मयूर. ५.००  
 —(प्रश्नोत्तरी) शर्मा, रामगोपाल 'दिवेश'. रतन. ०.५०  
 —मे कला और कृतित्व सत्येद्र कि घर, ग्वा. २५०  
 —या मृगछाला त्रिमुवनपति सिंह अशोक पु म. ३.५०  
 — समीक्षा. श्रीलाल 'भानु' शारदा प्र (पा) १.००  
 —समीक्षा माथुर, हरस्वरूप सा नि, का १७५  
 —समीक्षा. सिधल, ओमप्रकाश हि. सा स १५०  
 मृच्छकटिक मोहन राकेश, अनु राजकमल ४५०  
 मृच्छकटिक रागेय राघव राजपाल. ३.००  
 मृच्छकटिक शूद्रक सस्ता ० ४०  
 —भाषा सीताराम रा वेनीप्रसाद. ०.६२  
 मृच्छकटिकम् शूद्रक दि प्रे १२.००  
 मृणाल. पाडेय, सत्यप्रसाद नव सा प्र. ५५०  
 मृणालिनी चट्टोपाध्याय, वकिमचंद्र. भाग्योदय. (पा.) १.००,  
 — श्री प्रभाकर २.००, — हिं पु ए १.५०,  
 — हिं प्रचा पु १५०, — हिं. प्रचा पु  
 २.२५, — सा सदन, चि २५०  
 मृण्मयी. मुखोपाध्याय, दामोदर श्री प्रभाकर. ३००

- मृतको का वात्तिलाप, शेष, अरविद श्रीअरविद. ० ७५  
 मृत्तिका उद्योग बोस, हरीद्रताश्रु-हिं समि ८.००  
 मृत्ति तिलक रामगारीसिंह दिनकर' उदयाचल. २००  
 मृत्यु जोशी, शेखर धारा  
 —और उसके बाद गौड, गगाप्रसाद 'नाहर' पु भ. ५००  
 —और मृत्यु के पश्चात. स ३ सहाय, चतुर्भुज साधन.  
 ० ७५  
 —की मीनार शर्मा, कृष्णचंद्र 'भिक्षु' हिं प्रचा पु ४००  
 मृत्युञ्जय रवींद्र द्विवेदी, हजारीप्रसाद हि. ग्र र ६००  
 मृत्युदंड की प्रथा और इतिहास. वर्मा, परिपूर्णानंद रामप्रसाद.  
 ६२५  
 मृत्यु मे जीवन अरुण. आत्माराम. १००  
 मृत्युलोक. मिश्र, अनंत 'प्रबुद्ध' राष्ट्रीय प्र मडल एव राष्ट्रीय  
 सा. स १२५  
 मृदग-तबला प्रभाकर भगवानदास मृदगाचार्य, सुगीत  
 भा १ २००, भा २ २५०  
 मृदा-भूगर्भ विज्ञान तथा मृदा-भौतिकी सिंह, अरि. एन  
 गयाप्रसाद ३५०  
 मेढकी का व्याह. वर्मा, वृदावनलाल मयूर. १.००  
 मेहदी और महावर मालवीय, उमाकांत सा भवन, इ  
 ३५०  
 —के गुण तथा उपयोग दीक्षित, रामसनेही देहाती ० ७५  
 —पिस गई विश्वेश्वरप्रसाद सर्व-मुलभ.  
 मेगास्थनीज का भारत-विवरण मिश्र, योगेंद्र, सपा ग्रथमाला  
 २००  
 मेघदूत कालिदास राष्ट्रीय प्र मडल एव राष्ट्रीय सा स  
 ३००, — सस्ता ० ४०, — सहगल. १.२५,  
 — हिंद पा १००  
 मेघदूत पाडेय, मधुसूदन पु भ, रा १.००  
 मेघदूत ससारचंद्र, सपा. मोतीलाल ५००  
 मेघदूत सक्सेना, शभूदयाल. नवयुग ग्र कु. २.५०  
 मेघदूत. सत्यकाम विद्यालकार राजपाल २००  
 मेघदूत सुकुल, ललिताप्रसाद, सपा. वगीय. ५.००  
 — एक अनुचितन सूरिदेव, रजन. कला-नि. ६००  
 — एक पुरानी कहानी द्विवेदी, हजारीप्रसाद. हिं ग्र र  
 ३५०  
 —(पूर्वमेघ). साधुराम. आत्माराम. २५०  
 —(मूल सहित) अग्रवाल, वासुदेवशरण. राजकमल ४.५०  
 —(राजस्थानी अनुवाद). मनोहर प्रभाकर. कल्याणमल.  
 २००  
 मेघदूतम् कालिदास रा वेनीप्रसाद पूर्वमेघ २.००; उत्तरमेघ  
 १७५  
 मेघदूतम् शर्मा, शेषराज चौखंबा ५५०  
 मेघनाथ. चतुर्भुज सं ४ साधना म २५०  
 मेघनाद चतुरसेन, आचार्य प्रभात प्र २.५०  
 मेघनाद विराज नेशनल १५०  
 —वध. गुप्त, मैथिलीशरण, अनु सा. सदन, चि. ६.००  
 मेघपुष्प. वाजपेयी, लक्ष्मीचंद्र. विनोद ३.५०



- मेघमाना वाजपेयी, करगोंद्र नव सा प्र ५५०  
 मेघमाना शुक्ल, ज्यामविहारी 'तरल' ना नि, का २५०  
 मेघ विनोद मेघ मुनि मोतीलाल ६००  
 मेघ पत्र टिकी हुई कहानिया बर्षी, रमेश भा जानपीठ ३५०  
 मेजर की पत्नी श्रीवास्तव, हिमाशु चौधरी ४००  
 मेमोरी ट्राउंग कादरी, मुहम्मद असगरअली २ भा कि  
 महल ०७५ (प्र)  
 मेग उत्कल प्रवाम पाठक, अनसूयाप्रसाद राष्ट्र पु भ ३५०  
 —गाव जोशी, श्रीपाद कि महल ०६२  
 —जीवन गाधी, मोहनदास करमचद मातृ-भापा १२५  
 —जीवन तथा ध्येय विवेकानंद, स्वामी स ३ श्रीरामकृष्ण  
 ०.५०  
 —जीवन-विकास अण्णासाहब अ भा सर्व ०५०  
 —जीवन-सघर्ष मेहता, वेद राजपाल ४००  
 —देश आसिमी, अहमद 'नदीम' सा भवन, इ  
 २.००  
 —देश. देव, एस डी. आर्मी २२५  
 —देश, मेरे देशवामी दलाई लामा आत्माराम ७५०  
 —देश है यह वत्स्य, मत्तगम नेशनल १००  
 —धर्म गाधी, मोहनदास करमचद नवजीवन २००  
 —निर्माण और विकास भट्ट, नानाभाई अ भा सर्व  
 २२५  
 —पहला प्यार तुर्गनेव राजपाल २५०  
 —प्रणाम वर्मा, परिपूर्णादिद रामप्रसाद १५०  
 —प्रारंभिक जीवन गाधी, मोहनदास करमचद रा वेनीसाधव  
 १२५  
 —बचपन गोकर्ण, मैक्सिम पीपुत्स १५०  
 —बचपन ठाकुर, रवींद्रनाथ इ प्रे २००, —  
 विश्वभारती २३०  
 —बचपन नहाय, शिवपूजन ना साधना ०७५  
 —बाप ! मेरा दुश्मन शाह, शभूनाथ हिदिया ३००  
 —पेटा मेरा दुश्मन अहमद अन्वास, राजा नीलाभ ३७५  
 —युग मेडिया, कन्हैयालाल आदर्श सा २२५  
 —राम गाधी, मोहनदास करमचद मातृ-भापा १५०  
 —वर्तमान जीवन सावलकर, गणेश वामुदेव मस्ता ४००  
 —वर्ष २ प्रे १५०  
 —समर्पित पकान मेहता, नरेश नेशनल ३००  
 —समाजवाद गाधी, मोहनदास करमचद नवजीवन ०.४०  
 —सिद्धांत एक है चतुर्वेदी, भगवन्तराज विनोद ०८०  
 मेरी अग्नि परीक्षा गाधी, मोहनदास करमचद मातृ-भापा  
 १५०  
 —सपना तथा बर्षी, पद्मलाल पुन्नालाल उ प्रे ८५०  
 —संस्कृतवाग्य शुभाशय ना रत्न भ ३००  
 —सामन्तया समाप्रसाद आर्य ना २००  
 —सामन्तया चतुर्वेदी आचार्य चतुर्वेदी १६००  
 —सामन्तया ज्याममुद्रादान उ प्रे ०००  
 —सामन्तया सुधी, रमेश भात माणिलाल नवजुग प्र  
 ६५०

- मेरी कहानी नेहरू, जवाहरलाल सस्ता सपूर्ण १०००,  
 सक्षिप्त २५०  
 —कहानी सुनो विश्वनाथ राजपाल ०६०  
 —कालिज डायरी वर्मा, धीरेन्द्र सा भवन, इ १५०  
 —काश्मीर यात्रा सतोपकुमार चौधरी २५०  
 —केदार-प्रदरी यात्रा कपूर, वैजनाथ छात्रहितकारी १००  
 —कौन मुनेगा त्यागी, महावीर राजपाल २५०  
 —गंगा यात्रा धर्मदनाथ, आचार्य प्र विभाग १२५  
 —गुडिया कुछ तो बोल धर्मपाल शास्त्री राजपाल ०७५  
 —जीवन कहानी केलर, हेलेर बोरा २००  
 —जीवन-यात्रा बजाज, जानकीदेवी सस्ता २००  
 —जीवन यात्रा राहुल साकृत्यायन कि महल भा १  
 ६५०, भा २ ८००, भा ३ ७५०  
 —जीवन यात्रा—मैत्री यात्रा देव, शकरराव अ भा सर्व  
 १००  
 —तेतीस कहानिया मटियानी, शैलेश आत्मागम ६००  
 —दुनिया नीलाभ ३२५  
 —पति-विजय देसाई, रमणलाल वसंतलाल बोरा ६००  
 —पसद गुरुदत्त भा सा सदन २५०  
 —पोथी पाठक, अनसूयाप्रसाद राष्ट्र पु भ ०७५  
 —वाल कहानिया ठाकुर, रवींद्रनाथ आदर्श पु भ ०६२  
 —विल्ली गौड, कृष्णदेवप्रसाद कत्याणदास १००  
 —भव वाघा हरो (विहारी) रागेय राघव विनोद ३००  
 —मुक्ति की कहानी टालस्टाय सस्ता १५०  
 —यादों के चिनार कृष्णचंदर राजपाल ३००  
 —यूरोप यात्रा राहुल साकृत्यायन कि महल १७५  
 (अप्रा)  
 —राजस्थान यात्रा जैन, अक्षयकुमार श्रीराम मेहरा २००  
 —राय गाधी, मोहनदास करमचद अ भा सर्व २५०  
 —विदेश यात्रा जयप्रकाश अ भा सर्व ०.६२  
 —समर-नीति विवेकानंद, स्वामी स ३ श्रीरामकृष्ण  
 (पा) ०६५  
 —हजामत अन्नपूर्णादिद आनंद पु, वा एव हिं प्रचा पु  
 २५०  
 मेरे अनेक ससार बक, पर्ल एम राजपाल ४००  
 —असहयोग के साथी राहुल साकृत्यायन कि महल २५०  
 —अंगुण चित्त न धरो त्रिवेदी, रश्मिकांत साम्कृतिक  
 —कथा गुरु का कहना है विद्यार्थी, रामप्रसाद 'रावी'  
 भा १-२ भा जानपीठ ६००  
 —गीत गोस्वामी, ललित २००  
 —गीत तुम्हारे हैं साहिर लुधियानवी राजपाल २००,  
 —हिंद पा १००  
 —गुरुदेव विवेकानंद, स्वामी स ७ श्रीरामकृष्ण १००  
 —जीवन के अनुभव मतराम हिं प्रचा पु ४५०  
 —जीवन के विचार-स्तंभ गोविंददास, मेठ एम चाद  
 ३५०  
 —जीवन मेरे प्राण मुखोपाध्याय, फातुनी स २ राष्ट्रीय  
 प्र. मंदिर ५.००

- मेरे जेल के अनुभव (दक्षिण अफ्रीका). गाधी, मोहनदास करमचंद नवजीवन ०.७५
- देश की कथा मुखोपाध्याय, देवनारायण. इ प्रे १ ००
- दोस्त का वेटा कृष्णचंदर आत्माराम ३ ००
- नाटक ठाकुर, रवींद्रनाथ सहगल ३ ५०
- निबन्ध गुलाबराय गयाप्रसाद ५ ००
- पशु-मित्र एदर, वोरिस पीपुल्स ० ६६
- प्रभु, कैसा प्रभात एडर्सन, मेरियन आत्माराम २ ००
- बचपन की कहानी सहगल, नयनतारा ज्ञानमंडल. ६ ००
- बापू हुकुमचंद्र 'बुखारिया'. भा ज्ञानपीठ २ ५०
- योरोप के अनुभव राजेन्द्रप्रसाद ग्रथमाला ० ३७
- राम का फैंसला गौड़, सरयूपडा चौधरी १ ५०
- विश्वविद्यालय गोर्की, मैक्सिम पीपुल्स १ ३७
- सस्मरण मावलकर, गरेश वासुदेव सस्ता २.५०
- सपनों का भारत गाधी, मोहनदास करमचंद नवजीवन २ ५०
- समकालीन गाधी, मोहनदास करमचंद सस्ता ५ ००
- सर्वश्रेष्ठ एकाकी वर्मा, रामकुमार त्रिवेणी ३ २५
- साहित्य में प्रश्लीलता तथा-गौन समस्याये प्रत्युत्तर त्रिवेदी रश्मिकांत सांस्कृतिक ६ ००
- मेले के मोती रघुवीरशरण 'मित्र' भा सा प्र ० ५०
- मेवाड टाँड जेम्स सहगल (अप्रा)
- १८वीं सदी पारे, रामगोविंद स्वरूप १ ५०
- उद्धार पाडेय, चंद्रशेखर इ प्रे ० ७५
- का अरुणोदय दसोई, रमणलाल वसंतलाल बोरा २.००
- की १८वीं सदी रामगोविंद भोपाल १ ५०
- की अमर कथाए मीतल, प्रभुदयाल सा सस्थान ० ७५
- गौरवगाथा गुप्त, राजेश देहाती २ ५०
- पतन राय, द्विजेन्द्रलाल स २ राष्ट्रीय प्र मंदिर १ ५०
- हि प्र र १ ५०
- महिमा शर्मा, हरिशंकर गयाप्रसाद १ २५
- राज्य का केंद्रीय शक्तियों से संबंध गहलोत, जगदीशमिह हि सा म, जो २ ००
- मैं अकेली नदा गुलशन अशोक पा १ ००, — —सहगल २ ५०
- इनका ऋणी हू इद्र विद्यावाचस्पति सस्ता २ २५
- इनसे मिला शर्मा, पद्मसिंह 'कमलेश'. आत्माराम भा १. ३ ००, भा २ ३ ५०
- इनसे मिला था कपिल ज्ञानपीठ
- और मेरी मोटर हाडा, राजेन्द्रलाल कि महल २ ५०
- और वह घायल कन्हैयालाल ४ २५
- क्या कर सकता हू? लक्ष्मीनारायण नेशनल ० ६०
- गणित हू बोहरा, गोपीकृष्ण. नवयुग ग्र कु भा १ ० ४४, भा २. ० ५६
- गद्दा नहीं बनूंगा काशीप्रसाद 'उन्मेष', सा भवन, इ १ ५०
- चंबू क्या बालकृष्ण रणजीत ०.७५

- मैं छोटानागपुर में हू कामताप्रसाद सिंह 'काम'. पारिजात. २ ५०
- जरूर रोजगी. बलवत सिंह. किताबिस्तान. ३.००
- तदुरुस्त हू या विमार? लूई कूने आरोग्य एव सस्ता. ० ५०
- तुम्हें प्यार करती हू बाजपेयी, प्रेमचंद्र आदर्श पु म. १.५०
- दिल्ली हू त्यागी, रामावतार स. २ वसल १.००
- दुल्हन बनूंगी साधना प्रतापी दि पु स ४ ००; — — नवयुग प्र ३ ५०
- धरती पजाव की. नरेन्द्र बीर सा सगम, लु ४ ००
- न मानू गुरुदत्त भा सा सदन. ३.००; — —हिंद पा. १ ००
- निरोग हू या रोगी लुईकूने हि पु. ए. ० ६२
- ने कहा व्यास, गोपालप्रसाद. आत्माराम ५ ००
- ने देखा. उपाध्याय, भगवतशरण कि महल ५.००
- नेहरू से मिला माड, तिवीर. राजकमल ३ ५०
- पतिवरता हू उमाशंकर सिंह सा साधना. २ ००
- पागल हू पालीवाल, हरिदत्त 'निर्भय'. शारदा साधना. २ २५
- पूछता हू यश राजपाल २ ००
- पृथ्वी हू मिश्र, सुरेशचंद्र. फ्रैंक १ २५
- बुरी नहीं हू सोमनाथ. पजाबी पु २ ००
- बैगुनाह हू गोविंदसिंह सुभाष ३ ५०
- भी इसान हू शेखर ग्रथालय १ ५०
- भूल नहीं सकता काटज, कैलाशनाथ. सस्ता २ ५०
- मतवाला सागर श्रीमाली, वीरवाला नवयुग ग्र कु १.००
- मरुगा नहीं जैन, यशपाल हि ग्र र २ ५०
- , मेरा दोस्त, मेरे साथी वर्मा, रजनीकांत राजरजना. २ ००
- लिखूंगा गीत माहेश्वरी, द्वारिकाप्रसाद. त्रिवेणी २.००
- वकील कैसे बना मावलकर, गरेश वासुदेव. सस्ता.
- विद्यार्थी हू शर्मा, स्वामीनाथ. प्रभात प्र २ ५०
- सागर हू मिश्र, सुरेन्द्रचंद्र. फ्रैंक १ ५०
- हवा हू व्यथितहृदय शिक्षण १ ८०
- हार गई भडारी, मन्नू राजकमल एव हि प्रचा. पु. ३ ५०
- हारी आस्टिन, जेन बबई प्र ३ ७५
- हू पर्वत श्रीमाली, वीरवाला नवयुग ग्र. कु. १.००
- मैकवेथ शुक्ल, शत्रुघ्नलाल, रूपा उमेश २ ००
- मैकवेथ शेक्सपियर, विलियम राजपाल २.००, — —रा वेनीमाधव १ ००
- मैकवेथ (पद्यात्मक अनुवाद) हरिवशराय 'वचन' राजपाल. ३ ००
- मैक्सिम गोर्की इ. प्रे ३.००
- गोर्की अरुण, अनु आत्माराम ३ ००
- मैटल पालिश. कालीचरण. देहाती. २.५०

मैत्री-सुलोक विविध चौदे, गोरखनाथ रा. वेनीमाधव.  
३००

उत्तम मुद्राराक्षस प्रचा पा १००

दत्त दगल वर्मा, चद्राल 'चद्र' चद्र कार्या १००

श्री श्याम भावे, विनोवा अ भा सर्व ०५०

प्रेय पन गोविदवल्लभ आत्माराम ६५०

विन लोकोगीता ना अध्वयन तेजनाथगणालाल. विनोद  
१०००

विनी लोको गीत रामइक्वाल निह 'राकेज', सपा हि सा  
नम्मे ५००

—व्याकरण भा, अधयनाल पु. भ ०७५

विनीशरणा गुप्त भटनागर, रामरतन कि महल २५०

—गुप्त विनयकुमार अगोक प्र २५०

—गुप्त और उनकी विष्णुप्रिया सदानंद सिंह कमल प्र  
२.२५

—गुप्त और विष्णु प्रिया शर्मा, जी पी कि घर, ग्वा  
३००

—गुप्त कवि और भारतीय मन्कृति के आत्माता. उमाकात  
नेशनल १५००

—गुप्त व्यक्ति और काव्य पाठक, कमलाकात रणजीत  
२५००

मनुष्यन प्राफ मन्कृत ग्रामर नत, गोकुलचद्र औरिएटल  
१००

मैत्री-सुलोक आफ मू पालिश कालीचरण देहाती ०.५०

मैत्री आचल फणीश्वरनाथ 'रिगु' राजकमल ३५०, (पा)  
२००

मैत्री. दानी, योगनाज. राजहम १७५

मैत्री-सुलोक विद्या अभियान वर्मा, एम पी. भा प्र मदिर  
३.५०

मैत्री-सुलोक विद्या के चमत्कार युक्ता देहाती ६००

मैत्री-सुलोक शिक्षा-पद्धति वैश्य, पञ्चरानी हि प्रचा पु

मैत्री-सुलोक एनेन जेम्स कल्याणदास ०७५ १२५

मैत्री-सुलोक उजन शर्मा, कल्याणद देहाती ०२५

—मैत्री-सुलोक शर्मा, कल्याणद देहाती ०२५

—मैत्री-सुलोक शर्मा कल्याणद देहाती ११००

—मैत्री-सुलोक शर्मा, कल्याणद देहाती ६००

—मैत्री-सुलोक शर्मा, कल्याणद देहाती १२५

—मैत्री-सुलोक शर्मा देहाती ६००

—मैत्री-सुलोक शर्मा, कल्याणद देहाती ०२५

मैत्री-सुलोक शर्मा, कल्याणद देहाती ४५०

—मैत्री-सुलोक शर्मा कल्याणद देहाती ६००

—मैत्री-सुलोक शर्मा कल्याणद देहाती ४५०

मैत्री-सुलोक शर्मा कल्याणद देहाती १.००

मैत्री-सुलोक शर्मा कल्याणद देहाती. १५०

मैत्री-सुलोक शर्मा कल्याणद देहाती १५०

मैत्री-सुलोक शर्मा कल्याणद देहाती १.००

मोड नूरउद्दीन, शाहिद सुरेद्र. २००

मोड प्यारेलाल 'आवारा' सुभाष. २.७५

मोतियो का काम रानी देहाती ०५०

—की भील कृष्णचदर हि प्र र १.५०

—वाले दुगल, कर्नारसिंह भा ज्ञानपीठ २.५०

मोती उपेद्रनाथ 'अस्क' नीलाभ १००

मोती चतुरसेन, आचार्य राजपाल २.००, — —हिंद पा  
१००

मोती और पत्थर सियारामशरण प्रसाद कला भा (पा)

—का मोल पाडेय त्रिपुरेश्वर ज्ञानपीठ ०७५ [१००

—महल वर्मा निहालचद हि प्रचा पु. ६००

मोतीलाल नेहरू गोयल, जगदीश शिवलाल. १५०

—नेहरू छत्रलानी एस चाद ०००

—नेहरू छाजेड, गातिलाल. नेशनल १५०

—नेहरू व्यास, नरोत्तम हि प्रचा पु ०७५

—नेहरू सिरोठिया, शकुतला कि महल १५०

—नेहरू एक जीवनी गोविददास, सेठ मध्यप्रदेश मोतीलाल  
नेहरू जन्म शताब्दी समारोह समिति २५०

मोती वाले हाथ. गगाधर, मधुकर राजकमल. ३००

मेनोग्राम्ज रानी देहाती ०७५

मोपासा की श्रेष्ठ कहानिया मोपासा प्रभात प्र. ३००

मोम के मोती पनिकर, रजनी शारदा म ३५०

मोमवती का व्यापार कालीचरण देहाती २५०

—का व्यापार वर्मा, चद्राल 'चद्र' चद्र कार्या ०२५

—शिक्षा गुप्ता, जी आर भा कला १५०

मोमिन जीवनी और सकलन राजपाल १५०

मोर के पैर कोहली, द्रोणवीर राजकमल १.२५

मोरभाल परमार, श्याम प्रचा पा १००

मोरा राय, दिलीपकुमार नवभारत. ५००

मोरालिन मोनरो विकल, रूपा पुष्पी ०७५

मोरी घरती मैया जैन, श्रीचद्र गयाप्रसाद २५०

मोर्चे का तमगा नुरेद्रपाल नीलाभ

—पर नाटक चतुर्भुज साधना म १५०

मोर्चे चाटं न्यू लिट ०२५

मोल का दूध इद्रसेन सिंह 'भावुक' औरिएटल ०७५

मोह सुरेश सुरेद्र २५०

मोहन माला गाधी, मोहनदास करमचद नवजीवन १२५

—राकेश यादव, राजेद्र, सपा राजपाल २५०

—राकेश की कहानिया कमलेश्वर राजपाल २५०

—विनोद (मोहनसिंह) मिश्र, कृष्णविहारी, मया ना प्र  
सभा १५०

मोहना मोहना जनवतमिह स २ नेचर ०२५

मोहन्वत का पैगाम भावे, विनोवा अ भा सर्व २५०

—, मनोविज्ञान और मूछदाटी प्रभात पल्लि ३५०

—, मनोविज्ञान और मूछदाटी वर्मा, केगवचद्र अपर.  
३५०

मोहमाया. प्यारेलाल 'आवारा' कल्याणदास ४००

मोहन्ने की बुआ. अग्रवाल, विदु. राजकमल (पा) १००

- मोहिनी. गार्गी, परितोप. आत्माराम १.५०  
 —सूरत-सावरी सूरत त्रिवेदी, रश्मिकात सांस्कृतिक ५००  
 मोहेजोदडो काला, सतीशचंद्र ना प्र सभा ३७५  
 मौखिक प्रश्नोत्तर. गौतम, मनमोहन हि सा स ०.७५  
 मौजी जीवन नोसोव प्रभात प्र ५००  
 —शकर जगन्नाथ प्रभाकर नेशनल ०.७५  
 मौत और जिदगी द्वारिकाप्रसाद सन्मार्ग ३५०  
 —का फूल. वीरा. एस चाद १७५  
 —की खोज मिश्र, जगदीशचंद्र. त्रिवेणी ३२५  
 —की जिदगी. ओम्हा, प्रफुल्लचंद्र 'मुक्त'. ज्ञानपीठ १.२५  
 —की जिदगी सकमेना, शभूदयाल नवयुग ग्र कु. ४००  
 —की मौत कृष्णचंद्र बर्बई प्र ०.९०  
 —की मौत गोविंदसिंह चिनगारी १५०  
 —की रोशनी सरोज चिनगारी १५०  
 —की वादिया जयप्रकाश नवयुग प्र १५०  
 —के खिलाडी चित्तरजन श्रीराम मेहरा १५०  
 —के मुह मे पाडेय, रघुवश ग्रथमाला ०.७५  
 —के मुह मे सूर्या कमलानी १००  
 —भी भुक गई गुप्त, तनसुखराम सूर्य प्र १००  
 —भी हार गई. शर्मा, राजेद्र बसल २५०  
 मौन की अजेय शक्ति परमानंद, स्वामी कि महल. ०.७५  
 —की वाटिका मे एलेन, लिली छात्रहितकारी ०.५०  
 मौर्यकालीन भारत त्रिपाठी, कमलापति ना. प्र सभा २.५०  
 मौर्यराज नद ब्र एव नद स १००  
 मौर्य-विजय गुप्त, सियारामशरण सा सदन चि ०.४०  
 मौलश्री गुक्ल, कमल औरिएटल ६००  
 मौलाना शौकत थानवी कि महल २५०, — —नवयुग  
 प्र ३५०  
 मौलाना आजाद पन्नालाल. सा. भवन, ड १५०  
 —दाऊद कृत चदायन गुप्त, परमेश्वरीलाल हि प्र र  
 २०००  
 —रूम उनका काव्य जगदीश वाचस्पति हि पु ए १५०  
 —हाली और उनका काव्य इ प्रे १५०  
 मौलिकता तामस्कर, गोपाल दामोदर इ प्रे ०.३१  
 मौली धिल्डियाल, रमाप्रसाद 'पहाडी' प्रकाशगृह ३००  
 मौसम और मौसम की भविष्यवाणी गौड, सुरेशचंद्र हि प्रचा  
 पु १५०  
 —की कहानी. राजपाल २००  
 —के बारे मे सौ सवाल मक्तवा ०.७५  
 मौसरे भाई पाडेय, कातानाथ 'चोच' स २ सा सेवक  
 ३००  
 म्याऊ काका हाथरसी सगीत २००  
 म्यूजिक टीचर. रामश्रवतार 'वीर' देहाती ३५०  
 —मास्टर शर्मा, नदलाल सगीत २००

## य

- यरवडा के अनुभव. गाधी, मोहनदास करमचंद. नवजीवन  
 १००  
 यजुर्वेद. सस्कृति ६.००  
 —भाष्य-विवरण दयानंद, स्वामी भा प्राच्य १६००  
 —भाष्य-संग्रह युधिष्ठिर मीमांसक, सपा भा. प्राच्य ४.००  
 —मूल. आर्य सा २२५  
 —मूल गोविंदराम २५०  
 —शतकम्, दयानंद भाष्य गोविंदराम १००  
 यज्ञ का शाप महेद्र, रामचरण ज्ञानमंडल एव भा प्र. मंडल.  
 १.००  
 यज्ञोपवीत-रहस्य विद्यानंद विदेह, स्वामी वेदसस्थान. ०.०६  
 —शका—समाधान चौधरी, जे पी चौधरी ०.५०  
 यतिभग. वद्योपाध्याय, ताराशकर वोरा ३००  
 यथार्थ और कल्पना. विराज राजपाल ४५०  
 —समाजवाद रामतीर्थ, स्वामी श्री प्रभाकर २००  
 —से आगे वाजपेयी, भगवतीप्रसाद औरिएटल. ५.५०  
 यमुना की कहानी विष्णु प्रभाकर सस्ता ०.४०  
 ययाति खाडेकर, वि स. देशमुख १०.००  
 ययाति पन, गोविंदवल्लभ सा सदन, दे  
 ययाति बनवारीलाल सेवक रा वेनीप्रसाद. १.००  
 यवन राजवशावली देवीप्रसाद मुसिफ इ प्रे ०.३१  
 यश की धरोहर चतुर्वेदी, बनारसीदास, सपा. आत्माराम  
 ३५०  
 यशपाल और हिंदी कथा साहित्य तिवारी, सुरेशचंद्र सरस्व  
 प्रे ४००  
 —का औपन्यासिक शिल्प प्रवीण नायक. सरस्व. पु स  
 ६००  
 —की 'दिव्या' पाडेय, रत्नाकर उदय ७००  
 —की श्रेष्ठ कहानिया राजकमल (पा) १.००  
 —के उपन्यास शर्मा, स्नेहलता कौशावी. ४००  
 यशवत सिंह बजरत्नादास हि प्रचा पु १.००  
 यशस्तिलक सोमदेव सस्ता ०.४०  
 यशस्वी भोज देवराज 'दिनेश' आत्माराम. २००  
 यशोधरा. उपाध्याय, विश्वंभरनाथ रतन. २५०  
 यशोधरा गुप्त, मैथिलीशरण सा. सदन, चि. ३००  
 —का काव्य रूप विदेश्वर सिंह ग्रथालय २.००  
 —का काव्य सौंदर्य मिश्र, दूगाशकर सं ३. हि सा. भ.  
 २५०  
 —जीत गई (गीतम वृद्ध) रागेय राघव विनोद. ३.००  
 —परिशीलन गुप्त, शिवस्वरूप. नवयुग पु भं. २.००  
 —सरल अध्ययन त्रिपाठी, गंगाचरण रस्तोगी ३.००  
 यह कचन सी काया शर्मा, पाडेय वेचन 'उग्र'. आत्माराम.  
 २५०  
 —कयो है. गुरुदत्त. औरिएटल.  
 —दुनिया. मदाकिनी ३ भा आत्माराम. ३.००

- यह दुनिया भगवन्ना चाँधरी, रामपद ? शारदा म ४००  
 —देश है धीर जवानों का भा, रमेशचंद्र राजधानी ४५०  
 —यह दोस्त हमारा दुग्मन है रणदिवे, एम वी विविध १५०  
 —बर्डी है वगीधर 'राजू' कन्हैयालाल २००  
 —बस्ती यह लोग शर्मा, हरिदत्त महगल एव सहयोग ३५०  
 —बस्ती है गहीदो की बहोरे, रवींद्रनाथ 'अज्ञात' मजु ३५०, — —वीणा कमल ३५०  
 —भी होता है रमेश चौधरी, ए 'आरिगपूडि भा सा सदन ३.७५  
 —मजिल अनजानी भारद्वाज, कृपाशंकर अशोक पा १००  
 —मुहू और ममूर को दाल किरण रामप्रसाद १.२५  
 —नोग आनंद, मुरेद्र आनंद प्र ३६०  
 —नोग यह दुनिया प्रकाश 'भारती' भा सा सदन ३५०  
 —नोग, ये बस्ती रेड्डी, बालगौरी एस चाद ४००  
 —नन है पंडित, प्रकाश, सपा हिंद पा १००  
 —नोने का देश उपाध्याय, भगवतगरण हम ०५०  
 गही मेरी मातृभूमि है रामायणगरण राष्ट्रीय प्र मडल एव राष्ट्रीय मा म ३००  
 —हमारे गाव है शंकर मुन्नानपुरी नवचेतना  
 —है वर का बाप वरेरकर मामा लोक चेतना ३००  
 यातकी नामरफील्ड, अर्नाउड हि ममि ११००  
 यातायात का मरल अध्ययन मिश्रा ए पी गयाप्रसाद ५००  
 याता चौधरी, तमला आत्मागम ३००  
 याथा नान मुन्जी बर्डी प्र ४००  
 —आविष्कार की कहानिया प्रयाग १००  
 —के आविष्कारों की कहानिया गत, गोकुलचंद्र ओरिएटल ०७५  
 —के पय पर भडारी, चारुचंद्र अ भा नर्व ०५०  
 —के पल्ले राहुल नाट्यव्ययन मा मदन, दे ६००  
 —त्रिवरण वर्मा, जगन्मोह ना प्र मभा ६००  
 याथी तनीन जिज्ञान राजपाल २००  
 याथी बग्गी, पद्मनाभ पुन्नालाल उ प्रे २००  
 —ता पंचिय श्रीमान्त्र, हिमानु चौधरी एव राजधानी ३५०  
 याद दत्त, पले एम हिंद पा १००  
 याद शर्मा, मनोहर त्रिभु' अतिन प्र म ३५०  
 —येप त्त त्त कामनाप्रसाद मिश्र 'नाम' पारिजात प्र १५०  
 यादों के गच्छर विरम, नरकिशोर नरयुग प्र ३५०  
 यासा कुप्रिन राजरजता (पा) २००  
 यासा कुप्रिन, अलेक्जेंडर ३ भा पूर्वोदय २५० (प्र)  
 यासा वर्मा महादेवी भा भ २०००  
 यासिनी दत्त, गोविंदनन्धम गंगा ४००  
 यासिनी की मनी कश्नचंद्र नेपनल २२५  
 या और देवरा मुन्चननिह नदयुग प्र २००  
 —और महत्त्व द्विवेदी, यासिप्रिय. उ. प्रे ३२५

- युग की आवाज आनंद, सत्यपाल सा संगम, लु ४३७  
 —की पुकार महावीरप्रसाद सा केद्र ०७५  
 —की प्यास महेंद्र, पृथ्वीचंद्र ग्रथालय ४००  
 —गीत पाठक कल्लू नद व्र एव नद स १००  
 —चरण चतुर्वेदी, माखनलाल भा भ २००  
 —चारण दिनकर सिन्हा, सावित्री नेशनल १०.००  
 —चितन देवडा, शरद रूपा ६००  
 —छाया चौहान, गिवदानसिंह, सपा राजकमल २५०  
 —जीन अजायब चित्रकार सा मगम, लु ०७५  
 —दीपक खुशदिल, एम समाज १००  
 —देवता शर्मा, यादवेद्र 'चंद्र' राजहस ४००  
 —द्रष्टा कवीर वाली, तारकनाथ विनोद २५०  
 —धर्म उपाध्याय, हरिभाऊ सस्ता २००  
 —धर्म तेरा पथ नगराज, मुनिश्री आदर्श सा १००  
 —निर्माता द्विवेदी वीरा २५०  
 —निर्माता पत्रकार नोबल, आइरिस राजपाल ३००  
 —पथ पत, मुमिन्नानदन भा भ ५००  
 —पुरुष अमरनाथ ज्ञानलोक ०७५  
 —पुरुष त्रिपाठी, कमलापति नद व्र एव नद स २००  
 —पुरुष गाधी मनोहरलाल, एस सा केद्र ६५०  
 —पुरुष नेहरू के सकल्प पाठक, शैलेन्द्रकुमार राजधानी ३२५  
 —पुरुष राम जैन, अक्षयकुमार आत्माराम ५००  
 —प्रदीप राय, विध्याचल 'अचल' नारायण प्र १२५  
 —प्रभात तरुणभाई सर्वोदय सा ०७५  
 —बदल रहा है चतुर्वेदी, सीताराम अ भा विक्रम १००  
 —भारती त्रिपाठी, रामवरण हि सा मृजन १००  
 —युग का प्रकाश जनक अरविंद दाम ०७५  
 —युगीन भारत सरकार, जटुनाथ शिवलाल ३००  
 युगलायुरीय चट्टोपाध्याय, वकिमचंद्र श्री प्रभाकर ०५०  
 —राधारानी चट्टोपाध्याय, वकिमचंद्र हि पु ए ०७५  
 युग वाणी पत, मुमिन्नानदन राजकमल ३००  
 —सदेश अवस्थी, शम्भुदेवी न्यू लिट ०३७  
 —सदेश शर्मा, पृथ्वीनाथ म ३ हि भवन ३७५  
 —स्रष्टा प्रेमचंद द्विरेफ, परमेस्वर हि प्रचा पु ५००  
 युगात पत, मुमिन्नानदन भा भ १००  
 युगाधार द्विवेदी, सोहनलाल अवध २२५, — —इ प्रे ३५०  
 —गाधी रामनाथ 'मुमन' साधना सदन २५०  
 युगागध्य 'निगला' मिश्र, गंगाधर राष्ट्र प्र म १०००  
 युगोस्नाविया की कहानिया मोतीलाल २००  
 युद्ध गुप्त, मैथिलीशरण मा सदन, वि ०७५  
 —और प्रेम अब्दुल रज्जाक प्रचा पा १००  
 —और याति गुरुदत्त २ भा भा सा सदन एव राजधानी ६०० (प्र)  
 —और याति टाल्स्टाय इ प्रे ५००, — —प्रभात प्र ६००, — —हिंद पा मदिप्त १००  
 —कला विरनी, आर्थर विश्वविद्यालय. ६००

- युद्ध की कहानिया. जैन, कमलेंदु. सा. रत्न भं. ० ७५  
 —की ज्वाना प्रभोजित कौर विद्या प्र भवन. ३.२५  
 —के मोर्नों से वर्मा, वृ दावनलाल मयूर २ ५०  
 युद्धनीति श्रीर अहिमा जर्मा, सूर्यदेव. आर्य ना १.२५  
 युद्ध, जानि आर समाजवाद पीपुल्स ० ५०  
 युधिष्ठिर वसु, जतिभूषण ३ प्र. १ ७५  
 —, श्रीद्वारा कि महल १ ५०  
 युवक काग्रेस सूचना पुस्तक अ भा काग्रेस ० ७५  
 —मनोविज्ञान बहादुरमल्ल विन्वेश्वरानन्द २.००  
 युवको के लिए अतिरिक्त परिचय त्रिज एन चाद. १.५०  
 यूक्रेन की लोक कथाए वर्मा, जुभा २ भा हि भवन.  
 १ ३० (प्र)  
 —की लोक-कथाए श्रीकृष्ण . आत्माराम १ २५  
 यूगोस्लेविया अचस्थी, राजेन्द्र 'तृपित'. बर्बई प्र २ ५०  
 यूनान की लोक-कथाए. वर्मा, सत्यभूषण बाल मदन.  
 यूनानी इतिहासकारों का भारत वर्णन पाथरी, भगवतीप्रसाद  
 सा केंद्र २ ७५  
 —चिकित्सा विधि मन्साराम मोतीलाल ५.००  
 —चिकित्सा नागर मन्साराम मोतीलाल १० ००  
 —राजनीतिक विचार रामचन्द्र बुरुलेड १० ००  
 यूरी गागरिन. विर्दी, आर एन पैरागाउट १ ५०  
 यूरोप के हुनर और व्यापारिक गृह-द वर्मा, चहुलाल 'चंद्र'  
 चंद्र कार्या १ ५०  
 यूरोप टिकका, आर एन रन्तोगी  
 यूरोप तिवागी, शिवकुमार न २ केदारनाथ ६ ००  
 —का आधुनिक इतिहास सूच एन चाद १०.५०  
 —का आधुनिक इतिहास सत्यकेतु विद्यालकार मजो. न  
 ४.००  
 —का इतिहास (१९४८ से १९६०) गुप्ता, एन एन.  
 लायल. ४ ५०  
 —का इतिहास (प्रश्नोत्तर) गुप्ता, एन. एन गयाप्रसाद ४ ५०  
 —का इतिहास निवेदी, आर के २ भा. लायल. ३ ०० (प्र)  
 —का इतिहास जर्मा, गोपीनाथ  
 —का इतिहास नेजी आर आर .. मुरजीव १२ ००  
 —का नवीन इतिहास जर्मा, श्री एन .. रन्तोगी भा १

- ये आवाग कुने. खगदिल, एम समाज ३ ००  
 —और वे. जैनेन्द्रकुमार पूर्वोदय ३ ७५  
 —कीर्ति-मनभ वच्छावत, मानिक. गार्दर्ज पु भ १ ५०  
 —कोठवालिया नागर अमनलाल राजकमल ६ ५०  
 —खट्टे मीठे वेर ओभा, नद्रमाल कि महल ० ७५  
 —जाने अनजाने गुप्त, छेदीलाल राजपाल २ ५५  
 —नेरे प्रतिस्व वा-म्यायन, सच्चिदानन्द हीरानन्द 'अजेय'  
 राजपाल. २ ५०  
 —ये नेताजी रावल, रामनिह सग्ना. ०.४०  
 —भी इन्मान है गोविन्दसिंह सुभाष ३ ००  
 —मर्द ये औरते सआदन हमन 'मटो' हिद पा १ ००  
 —महान कंसे बने. राष्ट्रधनु राजपाल १ ००  
 —रग-विग्गे फूल पाट्ये विष्णुवान ना मगम, मो ०.७५  
 —रणावाकुरे वर्मा, सावित्रीदेवी आत्माराम १ ५०  
 —रेखाए, ये दायरे विष्णु, प्रभाकर हि ज न ४ ००  
 —जरीफजादिया वाजपेथी, प्रेमचन्द्र पुष्पी १ २५  
 —सपने ये राते कौजल रामराण (पा) १ ००  
 यो भी तो देखिये वियोगी, हरि मन्ता १ २५  
 योग का इतिहास शिवचतन्यानन्द देहानी १ २५  
 —के आधार घोष, अरविन्द श्रीअरविन्द २ ५०  
 —के चमत्कार रामनाथ 'सुमन' नाथना मदन ३.००  
 —चिकि ना और गुगम चिकित्सा सुदुक्ते. हि ग न ०.५०  
 —दर्शन व्यासदेव देहानी ६ ००  
 —दर्शन जर्मा, श्रीराम, नपा मस्तुनि ४.००  
 —दीक्षा राय, अनिलदरग श्रीअरविन्द १ ००  
 —प्रदीप घोष, अरविन्द श्रीअरविन्द  
 —फिनामफी और नवीन नाथन महाय, चतुर्भुज १ ५५  
 नाथन १ ७५  
 —मनोविज्ञान आश्रेय, शान्तिप्रसाद. नाग  
 —माया त्रिपाठी, रामनाथ प्रभात प्र ३ ००  
 —मार्ग ब्रह्मभुनि, स्वामी. आर्य ना ० ६२  
 —वासिष्ठ छ हो प्रकरण २ व द्यामलाल. १२ ००  
 —वासिष्ठ और उनके निदान आश्रेय भीमलाल नाग  
 १० ००  
 —वासिष्ठ रामादरग चघन व मिह हि प्रचा. ५ ०.००

योजना की सिद्धि हमारी समृद्धि शकर मुल्तानपुरी  
 नवयुग पु भ ० ७५  
 दोहा नहीं कामगार र्गर्जात मिह ना मगम, लु १ ००  
 योग्य के पत्र वर्मा धीरेन्द्र सा भवन, ड ० ६३  
 योग्य अमेरिका के फारमूले कालीचरण देहाती ० ५०  
 योग्य का इतिहास लूथरा, आर के यूनिवर्सिटी १० ००  
 —का भूगोल कुलश्रेष्ठ, क प स २ कि घर, का ० ००  
 —की लोक क्याए हमराज 'रहवर' नवयुग प्र १ ००  
 योग्य स्वास्थ्य साधन वर्मा, विश्वमित्र कल्पवृक्ष १ ००  
 यौन जीवन गुप्त, मन्मथनाथ सरस्व प्रे १५ ००  
 —ज्ञान व्यास, दीनानाथ गंगा ३ ७५  
 —मनोविज्ञान जिज्ञासा ३ ००  
 —मनोविज्ञान एलिम, हैबलारु राजपाल १० ००  
 यौन सम्बन्धों विकार एवं व्याधिया जिज्ञासा ३ ००  
 यौवन की आधी लुई, पीयरे राजपाल ४ ००  
 —के दिन मोगविया, अलदरों नुरेद्र २ ००

र

रग और रूप निदनाथकुमार आत्माराम २ ००  
 —और व्यंग्य शतुर्वेदी, वरसानेलाल विनोद १ ००  
 —का पत्ता अमृता प्रीतम राजपाल ३ ००  
 रगनाथ रामायण गोनवृद्ध, राजा वि राष्ट्र ६ ५०  
 रग विरग पक्षी. मतीश शकुन १ ५०  
 —विरगी चिडिया. गर्ग, किशोर स ३ रानी २.५०  
 —विरगी परिया चौहान, मनहर उमेश २ ००  
 —दिग्गी मछलिया कि महल १ ००  
 —बोन्ते हैं शक्तिपाल केवल औरिएटल ४ ००  
 रगभूमि. प्रेमचंद गंगा १३ ५०, — — सरस्व प्रे १५ ००  
 —मे दो राम राय, रामवृक्ष 'विधुर' साहित्यवाणी १.००  
 रगमच गुप्त, मन्मथनाथ राजपाल ७ ००  
 रगमच नदविशोण एन चाद ३ ००  
 —के मेन गणेशदत्त 'इंद्र' मानवचंद ० ८७  
 रगमाला जायमवाल, नीताराम ३ भा नरन्व प्रे ० ५०  
 (प्र)  
 रग मे भग गुप्त, मैथिलीशरण ना मदन, चि ० ३८  
 —रगीने भजन देहानी ३ ००  
 —राग बनगीरमिह 'रग' विनोद ० ००  
 रगन्ट वनु, वरेन पीयुन्न ४ ००  
 रगमन्थ नरमनाथराजपाल, नया रा धेनीप्रसाद ३ ००  
 रगन्ट इंद्रनाथ 'प्रदत्त' नीनाथ ३ ५०  
 रगनाथी दाम जे नी देहानी ० ५०  
 रगना. विरजीत आत्माराम २ ००  
 रगनाथ गणप रघुनाथि 'मिनाथ गोम्वरुगी', नया. राजकमन  
 (पा.) १ ००

रगीन डोरे चतुर्वेदी, देवीदयाल 'मस्त'. इ प्रे २ ००  
 —पर्दा चतुर्वेदी, हीरादेवी इ प्रे. १ ५०  
 —शर्वत चतुर्वेदी, देवीदयाल 'मस्त' आत्माराम १ ५०  
 —सपने चतुर्वेदी, देवीदयाल 'मस्त' ज्ञान मडल प्र ४.००  
 रगीनिया शकील बदायूनी स्टार (पा) १ ००  
 रगो से मोह वर्मा, भगवतीचरण भा भ ५ ००  
 रजना महेंद्रसिंह भाग्योदय २.००  
 रभा गुप्त, भैरवप्रसाद धारा  
 रक्त और रग मडल, अनूपलाल ज्ञानपीठ ५ ००  
 —कमल. लक्ष्मीनारायणलाल राजकमल २ ५०  
 —करवी. ठाकुर, रवीन्द्रनाथ प्रभात प्र २.००  
 —का बदला अवस्थी, जगमोहननाथ न्यू लिट १ ५०  
 —किरण पांडेय, युगलकिशोर प्रभात प्र ५ ००  
 —की प्यास चतुरसेन, आचार्य चौधरी २ ५०  
 —की रेखा चतुर्वेदी, शील कि महल २ ५०  
 — के आसू. हर्षनाथ चौधरी ६ ००  
 — के छीटे हरेश्वरीप्रसाद दि पु स २ ५०  
 —गान नानकसिंह पजावी पु २ ५०, — — स्टार (पा) १ ००  
 —चदन शर्मा, नरेद्र भा. भ २ ००  
 —तिलक दीक्षित, रामाश्रय अ भा ग्राम १ ००  
 —दान हरिकृष्ण 'प्रेमी' राजपाल ३ ५०  
 —मडल खत्री, दुर्गाप्रसाद २ ख लहरी ८ ००  
 —मदिर कुशवाहा 'कात' गुल्लूप्रसाद एव चिनगारी. १ ५०  
 —राग देवेशदास भा ज्ञानपीठ. ३ ००  
 —सगम खरे, दिनेश. आत्माराम. ३ ००  
 —सध सरोज चिनगारी २.५०  
 रक्तार्चन ज्वालाप्रसाद 'केशर' चिनगारी ३ ५०  
 रक्षा वधन न्यादरसिंह 'वेचैन' देहाती ० ७५  
 —वधन वसल, रघुवीरशरण स २ वसल ५ ००  
 —वधन शर्मा, विश्वभरनाथ 'कौशिक' विनोद ३ ००  
 —वधन हरिकृष्ण 'प्रेमी' स २६ हि भवन १ २५  
 —वधन-आलोक मल्लिनाथ नाँवली २ २५  
 रघुकोश मोतीलाल ३ ००  
 रघुनाथ रूपक गीतारो खारंड, महतावचंद्र, सपा ना प्र सभा २.५०  
 रघुवग १-५ सर्ग मोतीलाल ३ ००  
 रघुवग इद्र विद्यावाचस्पति राजपाल ३ ००  
 रघुवग कालिदान मस्ता ० ४०, — — सहगल १ २५  
 रघुवग देवदत्त शास्त्री, अनु कि महल २ ००  
 रघुवग मिश्र, ठाकुरदाम कि महल ० ७५  
 रघुवग रामकृष्ण आचार्य सर्ग २, ५, १३. विनोद १ ५०  
 (प्र)  
 रघुवग ६ वा सर्ग जगदीशलाल शास्त्री, टीका मोतीलाल १ २५  
 —त्रयोदश सर्ग सटीक भाटी, देशराजमिह हि सा स १ ००

रघुवश भाषा. सीताराम रा. वेनीप्रसाद ० ५०  
 रघुवशम् कालीदास  
 रघुवशम्. चडिप्रसाद 'हृदयेश'. रा. वेनीमाधव. सर्ग १३.  
 १.७५, सर्ग १४. १.५०  
 रघुवशम् शुक्ल, रामकृष्ण सर्ग ३, ५, ८ रा वेनीमाधव  
 १ ५० (प्र)  
 रघुवशम्. शुक्ल, रामचन्द्र रा वेनीमाधव सर्ग. २ १ ७५,  
 सर्ग ६ १ ५०  
 रचना और निवध. हि प्रचा स १ ५०  
 —और प्रवध शिवनदनप्रसाद सिंह पु. भ, रा. ३ ००  
 —की और. शर्मा, रामजीवन गयाप्रसाद ० ७५  
 —चन्द्रोदय. रामलोचनशरण पु. भ ५ ००  
 —तथा व्याकरण सुकुल, चद्रमीलि. हि सा सम्मे १.७५  
 रचनात्मक कार्य किधर ? अ भा सर्व ० ६२  
 —कार्यक्रम. गाथी, मोहनदास करमचद नवजीवन. ० ३७  
 —ज्यामिति सुशीला रा. वेनीप्रसाद. २.००  
 —निवध. कुलदीपनारायण सिंह. सा भवन, इ ३ ५०  
 —शिक्षा शर्मा, वेणीमाधव नद व्र. ३ ५०  
 रचना निकुञ्ज शर्मा, नारायणप्रसाद पचोली. यग मन २ ५०  
 रचनानुवाद चद्रिका शर्मा, हरिदत्त आगरा बुक १ २५  
 रचना रत्नाकर त्रिपाठी, रगनाथ आदर्श पु. भ ३ ००  
 —रत्नाकार. हरिदत्त शास्त्री... रा. वेनीप्रसाद १ ७५  
 —रत्नावली शर्मा, गोकुलचद्र. गयाप्रसाद. २ ००  
 —रहस्य (वृहद्). भगवतीलाल. हि प्रचा पु. १ ८७  
 —रहस्य श्रीवास्तव, रामचन्द्र २ भा गयाप्रसाद. १ ७५  
 —विकास. वलवीर सरन... सशो स. ६. रतन १.२५  
 —विकास. राय, गंभूनारायण अशोक पु. म. १ ७५  
 —विहार गोयल, मुखलीमनोहर सगो. स ३. कल्याणमल.  
 १.७५  
 रजकण. महतो, मोहनलाल 'वियोगी'. ग्रथमाला १ ५०  
 रजत-कण. टडन, हरिहरनाथ सा रत्न भं १ ५०  
 रजत जयती ग्रथ ववई हि. ३० ००  
 रजतपट के प्रणय गीत भानुशाली, सी. वी, सपा हि प्रचा  
 पु (पा.) १ ००  
 रजतरश्मि. वर्मा, रामकुमार भा ज्ञानपीठ. २ ५०  
 रजत शिखर. पत, नुमिजानदन भा भ. ५ ००  
 रजनी. भाग्योदय. (पा) १ ००  
 रजनी कपिलदेव सिंह 'सुहृद्'. हि पु. ए. १.६२  
 रजनी काकोडकर चिनगारी १.५०  
 रजनी. चट्टोपाध्याय, बकिमचद्र ज्यामलाल २.००, —  
 श्री प्रभाकर. २ ००. — हिद पा. १.००; —  
 हि पु ए १ ५०, — हि प्रचा पु. १ ५०  
 —कशीदाकारी गुप्त, मिथिलेशकुमारी, सपा. भाग्योदय.  
 १.००  
 —गधा जेवेद्र. ए प्रे. २ ५०  
 —गंधा. राय, विदेही. आदर्श पु. भं २ ००  
 —गंधा. शर्मा, मजदत्त सा. प्र ५ ००  
 —मै प्रभात का बकुर. श्रीमन्नारायण आत्माराम. ४ ००

रजवाडा. देवेगदास. आत्माराम. ६.००  
 रजाकार पतन. गोस्वामी, सीताराम. मयूर १ ५०  
 रजिया. धर्मद्व कि. महल. १ ५०  
 रज्जव वानी. वर्मा, ब्रजलाल उपमा. २० ००  
 रण-चडी. पाठक, विष्णुनाथ रा. वेनीप्रसाद. १.५०  
 रणजीत चरित सतराम स. ३ हि भवन १ ५०  
 रण वाकुरा दुर्गादास शर्मा, सुरेन्द्र रामप्रसाद २ ००  
 रणवाकुरा राजकुमार सकसेना, शम्भूदयाल नवयुग प्र कु  
 रणभेरी दुग्गल, वैकुण्ठनाथ इ प्रे १ ००  
 —वज उठी सूद, शिवदत्त गिरिधर १ ५०  
 रत्नसेन विराज नेशनल १ ५०  
 रतन हिंदी व्याकरण. वासुदेव शास्त्री. . मूर्य प्र ३ २५  
 रतिनाथ की चाची नागार्जुन कि महल. २.५०  
 रति रहस्य या सभोग रहस्य (भाषा टीका सहित) श्यामलाल.  
 १ ००  
 —विलाप चट्टोपाध्याय, ताराशकर वीरा ५ ०० [२ ५०  
 रत्नकरण्डश्रावकाचार समतभद्र, स्वामी. भा ज्ञानपीठ २ ००  
 रत्नप्रबोधिनी शर्मा, गरेश. मूर्य प्र १० ००  
 रत्नमाला अनजान देश मे गुप्त, योगेन्द्रनाथ. इ प्रे. ० ५०  
 (प्र)  
 रत्नराशि खरे, नर्मदाप्रसाद गयाप्रसाद १.५०  
 —प्रभा. कानडे, एम ह्वी, टीका. मिश्र-वधु. १.१२  
 रत्न विज्ञान स्वामी, पी डी कि. महल  
 —समुच्चय चतुर्दशी जगपति, संपा छात्रहितकारी. १ २५  
 —हिंदी व्याकरण तथा रचना वृहदवल मयमी गोगल  
 २ ००  
 रत्नाकर श्यामनुदरदास, सपा २ भा. ना. प्र सभा ४ ००  
 —: उनकी प्रतिभा और कला भट्ट, विष्णुभरनाथ. दि पु न  
 १ २ ५०  
 —और उनका उद्धवगतक भाटी, देशराजसिंह. अशोक प्र  
 २ ५०  
 —और उनका उद्धवगतक. लल्लनराय नद. व्र एव नद न  
 ४ ००  
 —और उनका काव्य जायनवाल, उपा हि. प्रचा. पु ५ ००  
 —का काव्य. लल्लनराय एस चांद ४.००  
 रत्ना की बात (तुलसीदास) रागेय रागव चिनोद ३ ००  
 रत्नावली गुप्त, मैथिलीशरण ना नदन, चि १ ०५  
 रत्नावली. भारद्वाज, रामदत्त गगा. ३ ५०  
 रत्नावली. मिश्र, टाकुरदन कि. महल १ ५०  
 रत्नावली. रत्नजान आनंद पु, को. ३ ००  
 रत्नावली शर्मा, जगन्नाथप्रसाद.. विद्या भं, बा १ २५  
 रत्नावली. हर्षिप्रसाद 'हरि'. भा ज्ञानपीठ २.००  
 रत्नावली. हर्ष. सस्ता ० ५०  
 रत्नावली हर्ष. हि. ना नर्मो. ० ६२  
 रत्नावली नाटिका हर्षवर्धन ना वेनीप्रसाद २ ००  
 रत्न के गुप्तारे बनाना. जालीनगर. देहानी. १ २५  
 —नेटैम्स उद्वेदी. कालीचरण, देहानी १ ५०  
 रत्न शर्मा, पूनदेवरदाय. दि राट २ ५०



- रत्न की मोहरें बनाना कालीचरण देहाती २५०  
 —स्टाप का व्यापार वर्मा, चट्टाल 'चंद्र' चंद्र कार्या ०५०  
 रत्नी की मुख्य फमले नर्वोदय ०३७  
 रत्न का टाउन, कम्पनीलाल 'यात्री' राजहस १७५  
 रत्नगी के रूप जैन, जगदीशचंद्र प्रतिमा २५०  
 —रत्न्य गुप्त, गौरीगकर हि पु ए ५५०  
 रत्ना चट्टोपाध्याय, जरत्चंद्र अर्चना प्र (पा) १००, —  
 हि प्र २ १५०  
 —का देव गुप्त, कमल अनुपम ३००  
 —या देहाती समाज चट्टोपाध्याय, जरत्चंद्र श्यामलाल  
 २५०  
 रत्न्य रास वर्मा, रामकुमार रा वेनीमाधव १००  
 रत्निक का हाम्य विनोद ठाकुर, रवींद्रनाथ चौधरी एव  
 राजधानी २००  
 —के थ्रेण्ट नाटक ठाकुर, रवींद्रनाथ राजधानी ४००  
 —के नर्वथ्रेण्ट नाटक ठाकुर, रवींद्रनाथ चौधरी ४००  
 —जीवन प्रसंग कलाथी, मुकुलभाई बोरा २००  
 रत्निकनाथ और लोक साहित्य सेन, सुकुमार हि प्र २  
 ०७५  
 रवि और देव थानी, योगराज वाल सदन १.५०  
 रविवाचु वर्मा, लोकेन्द्र उमेज २००  
 रवि-विचार काटवे, ह ने नागपुर प्र. २००  
 रविशकर के आर्केस्ट्रा रविशकर संगीत ५००  
 —महागज बोरा ०७०  
 रवींद्र कथा ठाकुर, रवींद्रनाथ राजपाल २००  
 —कथाकुज ठाकुर, रवींद्रनाथ हि प्र २ २५०  
 —कविता कानन त्रिपाठी, सूर्यकांत 'निराला' हि प्रचा पु.  
 ०६७  
 —की चुनी हुई कहानिया ठाकुर, रवींद्रनाथ. इ प्रे. १५०  
 —की बाल-कथाए श्रीवान्तव, हिमाशु ज्ञानपीठ १००  
 —की गधु कथाए ठाकुर, रवींद्रनाथ आदर्श पु भ २५०  
 —की थ्रेण्ट कहानिया ठाकुर, रवींद्रनाथ श्यामलाल २००  
 —गीताजलि मातृ-भाषा १००  
 —चतुर्दशी ठाकुर, रवींद्रनाथ जवाहर २५०, —  
 प्रभात प्र २००  
 —दर्शन का परिचय गवाकृष्णान्, नर्वपल्ली रजन ६००  
 —द्वादशी ठाकुर, रवींद्रनाथ राजपाल २००  
 रवींद्रनाथ शिवनाथ नद प्र ७००  
 —की कहानिया ठाकुर रवींद्रनाथ ना अकादमी ८००  
 —के नाटक ठाकुर रवींद्रनाथ भा २ ना एकादमी ६६०  
 —ठाकुर पुणेति, रावेध्याम प्रथमाला १००  
 —ठाकुर गध, गजयप्रभा कि. महल १५०  
 —ठाकुर दिगु प्रभात मन्ना ०४०  
 रवींद्र प्रतिभा. उपनानी, कृष्णा शिवनाथ १५०  
 —शास्त्र-भाषा श्रीवान्तव, हिमाशु ज्ञानपीठ १.००  
 —शास्त्र के तीन रवींद्र भ्रम ना भवन, इ ३५०  
 —श्रेण्ट नाटक ठाकुर, रवींद्रनाथ राजधानी (पा) १००  
 —श्री. प्रोफेसर, रावेध्याम संगीत ०००

- रवींद्र साहित्य जैन, धन्यकुमार, अनु २८ भा रवींद्र सा म  
 १८० (प्र)  
 —सुभाषित और सूत्रिया शरण सहगल ४५०  
 रवींद्रा शिल्प कला शमा ३५०  
 रश्मि चंद्रप्रकाश अग्रवाल प्रि ०७५  
 रश्मि वर्मा, महादेवी मा भवन, इ ३००  
 रश्मिवध पत, सुमित्रानन्दन राजकमल २५०  
 —की आलोचना मत्स्यपाल 'निराला'. रीगल ५००  
 —की टीका विश्वभर 'अरुण' प्रदीप २५०  
 रश्मि माला अथवा जीवन-संदेश-गीताजलि मंगलदेव शास्त्री  
 हि सा सम्मे ३७५  
 रश्मिया स्वरूप १५०  
 रश्मिया भटनागर, महेंद्र भोपाल १७५  
 रश्मिरथी रामधारी सिंह 'दिनकर' उदयाचल ५००  
 —आलोक मल्लिनाथ नांवट्टी २००  
 —. विवेचन मित्र, दुर्गागकर हि सा भ २००  
 रश्मि-समूह वर्मा, वृंदावनलाल मयूर १२५  
 रश्मिहार ठाकुर, रवींद्रनाथ प्रभात प्र २००  
 रस अलंकार और छंद का संक्षिप्त परिचय केला, ओमप्रकाश  
 भा प्र ०५०  
 —अलंकार और दोष जैन, कुन्दलाल सा नि., व ०७५  
 —अलंकार और पिंगल वर्मा, श्यामलाकांत आनंद पु, वा  
 ०७५  
 —, अलंकार और पिंगल श्रीवास्तव, रामस्वरूप मालवीय  
 १२५  
 —, अलंकार तथा दोष दीक्षित, रामप्रकाश पु भ., आ  
 ०७५  
 —अलंकार पिंगल उपाध्याय, गयाप्रसाद सरस्व पु स १.७५  
 —अलंकार पिंगल पाडेय, शम्भुनाथ सशो स ७ विनोद  
 २५०  
 —और रसास्वादन शर्मा, हरद्वारीलाल हि सा सम्मे  
 ४५०  
 —कलम उपाध्याय, प्रयोध्यासिंह 'हरिऔध' स ३ हि सा  
 कु ४५०  
 —का सिरका वर्मा, केशवचंद्र भा भ. १५०  
 रसखान उपाध्याय, देवेन्द्रप्रताप आनंद पु, वा ५००  
 रसखान वालकृष्ण नेगल १००  
 —और उनका काव्य पाडेय, चंद्रजेवर, मया हि सा सम्मे  
 ०७५  
 —और घनानंद अमरसिंह, सया ना प्र मभा ३००  
 रसखानि मित्र, विश्वनाथप्रसाद नद म एव वाणी-वितान  
 ०००  
 रस गगावर का शास्त्रीय अध्ययन गुप्त, प्रेमवरूप भा  
 प्र मद्रि १२००  
 —गागर भगवदत्त 'शिशु' भा भ २००  
 —, छंद, अलंकार कुमुम, आचार्य अजोकर प्र १५०  
 —छंद-अलंकार तिवारी, मयानीप्रसाद लोक चेतना ०५०  
 —छंद अलंकार-परिचय दिनकर प्रभात पब्लि. १.३७

- रस छद्म और अलंकार. भूपण स्वामी हिं सा स ० ७५  
 —छद्मालंकार रमाल गर्ग व ० ७०, भा २ २००  
 रसज्ञ रजन द्विवेदी, महावीरप्रसाद म १० सा रत्न. भ  
 १ ७५  
 रस तरंगिणी सदानंद स ६ मोतीलाल १०००  
 —तरंगिणी भाषा विद्याधर देहाती ८००  
 —दोष अलंकार शर्मा, अद्विकाचरण रत्न ० ६२  
 —धारा सतराम, सपा विश्वेश्वरानंद ० ७५  
 —पद्धति नामवरसिंह अर्चना प्र, आ  
 —प्रबोध भारतजीवन ० ६२  
 —भरी कहानिया चौहान, मनहर आर्य बुक एव आशा प्र  
 २००  
 —भरी कहानिया सुदर्शन ३ भा वीरा १०० (प्र)  
 —मीसासा शुक्ल, रामचंद्र ना प्र सभा ६००  
 रसरत्न गिवप्रसाद सिंह, सपा ना प्र सभा १०००  
 रसरत्नसमुच्चय धर्मानंद. मोतीलाल १०.००  
 रत्न रत्नाकर शर्मा, हरिगकर रा वेनीप्रसाद ५००  
 रसराज मतिराम, चौखवा. ७ ५०  
 —महोदधि ५ भा श्यामलाल ८००  
 रसवती रामधारी सिंह 'दिनकर' उदयाचग २ ५०  
 रसवती सतराम विश्वेश्वरानंद २००  
 रसवती सूर्य भानु स ३ वसल १ ७५  
 रस विलास देव बनारस मर्कण्डाइल २ ५०  
 —शास्त्र अत्रिदेव विद्यालंकार हिं सा राम्मे. ७ ००  
 —साहित्य और समीक्षाए उपाध्याय, अयोध्यासिंह 'हरिग्रोध'  
 हिं प्रचा पु ४००  
 —सिद्धांत नगेंद्र नेशनल २०००  
 —सिद्धांत और कहानी कला मिश्र, दुर्गाशकर हिं प्रचा  
 म २ २५  
 —सिद्धांत की वार्शनिक व नैतिक व्याख्या वाली, तारकनाथ  
 विनोद ८००  
 —सिद्धांत स्वरूप विश्लेषण. दीक्षित, आनंदप्रकाश  
 राजकमल ११००  
 रसामृत यादवजी त्रिकमजी मोतीलाल ५००  
 रसायन की कहानी राजपाल २००  
 —की भाषा तुली एस चाद १००  
 —दीपिका सत्यप्रकाश एस चाद ६ ५०  
 —परिचय श्रीवास्तव, नदलाल गयाप्रसाद. ३ २५  
 —प्रवेश उपाध्याय, देवनाथ कि महल २ २५  
 —प्रवेशिका भा, जगबहादुर रामप्रसाद ० ५०  
 —प्रवेशिका वर्मा, फूलदेवसहाय नद ब्र. एव नद स  
 ३ ००  
 —मे नोबेल पुरस्कार-विजेता फार्वर, एडुगर्ड हिं समि  
 ६ ००  
 —शास्त्र का सरल अध्ययन तिवारी, कृपाशकर २ भा  
 सुरेश ४ १२ (प्र)  
 —शास्त्र की भाषा शिवहरे, श्यामबाबू विनोद १.००  
 —सार. श्यामसुंदराचार्य. नद. ब्र. ८.००

- रसायनिक तत्ता विश्लेषण श्रीवास्तव, गोरखप्रसाद. काशी  
 हिंदू ६.००  
 रसिक प्रिया केशव मातृ-भाषा ४ ००  
 —प्रिया मिश्र, विश्वनाथप्रसाद कल्याणदास ६ ००  
 —विनोद शेखर कवि भारतजीवन ० ७५  
 —शतक (ब्रज भाषा) रसिकविहारीलाल हिं भा भ  
 २.५०  
 रसीली कहानिया आनंद, राजकुमार गिरिधर २ ५०  
 —कहानिया विश्वनाथ राजपाल ० ५०  
 रसोइया वाजपेयी, श्रीराम न्यू लिट ० ३७  
 रसोई शिक्षा गुप्त, मजूरानी देहाती ० ७५  
 रहस्य की कहानिया पो, एडगर एलन हिंद पा १ ००  
 रहस्यमय काल ज्ञानमडल १ ००  
 —काल मिश्र, जगदीशचरण भा प्र मडल. १ ००  
 —द्वीप, दर्ने, जूले इ प्रे १ ००  
 रहस्यमयी जैन, ऋषभचरण ज्ञान प्र. २ ५०  
 रहस्यमयी हेगर्ड, राइडर राजपाल ५ ००  
 रहस्य-रोमांच की कहानिया पो, एडगर एलन. राजपाल  
 ३ ००  
 रहस्यवाद चतुर्वेदी, परशुराम वि राष्ट्र ५ ००  
 रहस्यवाद भटनागर, रामरत्न कि महल २.५०  
 —और हिंदी कविता गुलाबराय सरस्व पु स ४ ००  
 रहिमन नीति दोहावती शिवब्रतलाल शिव सा ० ७५  
 —विलास ब्रजरत्नदास, सपा रा वेनीमाधव २ ५०  
 रहीम गोविंददास, सेठ ग्रोरिएल २ ००  
 रहीम बालकृष्ण नेशनल १ ००  
 —के दोहे माधव सस्ता ० ४०  
 —सतसई (दोहावली) विश्व भर 'ग्ररुण' विनोद १ ५०  
 राइट बबु फ्रीमैन, मे व्नेकर एस चाद १ ००  
 राइफल मुहम्मद सादिक 'सफ़री' हिं समि ४ ००  
 —से निगानावाजी गुरवर्धसिंह स २ आर्मी १.५०  
 राई और पर्वत रागेय राघव राजपाल ३ ००  
 —से पहाड शुक्ल, शत्रुघ्नलाल, रूपा उमेश. २ ००  
 राउल वेल और उमकी भाषा रोड, महाकवि मिश्र. ५ ००  
 राकेट की कहानी राजपाल २ ००  
 —कैसे बना ? वर्मा, रमेशचंद्र हिं भवन  
 —या आकाशवाण चतुर्वेदी, जगपति आदर्श पु म १ ५०  
 राकेश ताश शमा १ ७५  
 राक्षस का मंदिर मिश्र, लक्ष्मीनारायण हिं प्रचा पु  
 २ ५०  
 राख और अगारे चौधरी ३ ५०  
 —और चिनगारी वर्मा, भगवतीचरण भा भ १ ५०  
 —और सिद्ध वाजपेयी, प्रेमचंद्र आदर्श पु म १ ००  
 —की दुलहन रघुवीरचरण 'मित्र'. भा सा प्र ६.००  
 —की परते शुक्ल, कमल सहगल. ३ २५  
 —हुए सपने रस्तोगी, विनोद हपसी (पा) १ ००  
 राखी और रोमांस. वाजपेयी, प्रेमचंद्र आदर्श पु म.  
 १.००

- गन्धी की लाज वर्मा, वृंदावनलाल भयूर १२५  
 गगन श्रक भट्ट, विज्वभरनाथ, नया संगीत २५०  
 —श्रीर त्वाग. शुक्ल, कमल श्रीरिएटल ५००  
 —होप वमत संगीत १००  
 —रग नीरज भा प्र मदिद  
 —रग मनोहर प्रभाकर कल्याणमल १५०  
 रागिनी गोपालसिंह 'नेपाली' गगा, राष्ट्रीय प्र मडल एव  
 राष्ट्रीय ना स १००  
 राजकन्या धूमकेतु बोरा ५५०  
 राजकलश अमरवहादुर सिंह 'अमरेश' गगा ६५०  
 राजकीय अर्थशास्त्र हजेला, तिलकनारायण स १६६२  
 सरम्ब स १३५०  
 —व्यय प्रवध के सिद्धात गोरखनाथ सिंह वि राष्ट्र १५०  
 राजकुमार वेन, अनु श्रीअरविद ० ३७  
 —भोज जैन, अरुपभचरण ज्ञान प्र १००  
 —सागर सुदर्शन हिं ग्र २ १५०  
 राजकुमारियो की कहानिया सकसेना, शभूदयाल २ भा  
 नवयुग ग्र कु १०० (प्र)  
 राजकुमारो की कहानिया सकसेना, शभूदयाल २ भा  
 नवयुग ग्र कु १०० (प्र)  
 राजगिरी शिक्षा रामअवतार 'वीर' देहाती ४५०  
 राजगुरु हरनामदाम 'सहराई' लहरी ४००  
 राजघाट की नन्निधि मे भावे, विनोदा सस्ता ० ६२  
 राजनिलक मिश्र, शिवसागर आत्माराम ५५०  
 राजदर्शन (प्लेटो से गांधी तक) (प्रश्नोत्तर) शुक्ल,  
 उमेशचन्द्र सशो स ३ मालवीय ५७५  
 —का रत्नाभ्ययन वेपर, सी एल कि महल ४००  
 —के नवरत्न अर्गल, मरला लायल ५००  
 राजदुनागी वैश्य, चदभूपण इ प्र १२५  
 राजदूत बनें, जुले नेशनल ४००  
 राजद्रोही राजन् कन्हैयालाल ५००  
 राजधानी नत्ने, अमृतधर अमृत ३५०  
 —के अचल ने हाडा, राजेंद्रलाल कि महल २५०  
 —नरु पट्टुच गोयल नरेद्र प्रकाश पा १००  
 —द्रिन्नी वमल, रघुवीरशरण स २ वसल १२५  
 —मे हाडा, राजेंद्रलाल, साहनी ३००  
 राजनय राघवेंद्र सिंह हिं समि ३००  
 राजनीति और इतिहास के निवध माहनी, पी आर प्रकाश  
 बुक ७००  
 —श्रीर दर्शन वर्मा, विश्वनाथप्रसाद वि राष्ट्र १४००  
 राजनीतिक चिन्तन का इतिहास गैटेल लक्ष्मी ना १५००  
 —उर्गन का इतिहास सवाईन एन चाद  
 —चौत-अष्टाए हनिमोहनलाल आत्माराम १२५  
 —विनायक देवान्नाथ ५००  
 —विनायक देवान्नाथ ७००  
 —विनायक देवान्नाथ ५ भा पु भ, आ  
 —विचारो का इतिहास रामसिंह २ भा स २ रस्तोगी  
 ३०० (प्र)

- राजनीतिक विज्ञान के सिद्धात मजुमदार, विमानविहारी  
 बुकलेड ७००  
 —सगठन एव विश्व के प्रमुख मविधान सरन, पी रस्तोगी  
 १२५०  
 —सिद्धात तथा राज्य सरचना शर्मा, आई डी गुरदास  
 १०००  
 राजनीति के मूल तत्त्व लास्की एलाइड २१००  
 —के मूल सिद्धात मातृ-भापा २००  
 —के सिद्धात मेहरोत्रा, जी पी रामचन्द्र १२५०  
 —के सिद्धात शर्मा, महादेवप्रसाद कि महल ७००, —  
 हिं सा सम्मे ८००  
 —दर्शन के नव रत्न अर्गल, राजेश्वर गयाप्रसाद ८००  
 —दर्शन के प्रमुख विचारक माथुर, पी एन . गयाप्रसाद  
 २५०, — लायल भा १ २५०, भा २ २५०,  
 सपूर्ण स ५००  
 —दर्शन के मूलाधार मुकर्जी, के पी. सा सदन, दे ० ७५  
 — परिचय सूर्यवली सिंह नद ब्र. एव नद स २५०  
 —प्रवेशिका लास्की, हेरल्ड सस्ता १००  
 —मे चाद. श्रीदीच्य, एस एल पापुलर ७००  
 —विज्ञान आशाराम बुकलेड १०००  
 —विज्ञान लाहिडी, सुधीर विश्वभारती २००  
 —विज्ञान के सिद्धात कपूर, अनूपचद एस चाद १२५०  
 —विज्ञान के सिद्धात कुलश्रेष्ठ, के के २ भा विनोद  
 ६०० (प्र)  
 —शास्त्र आशीर्वादम्, ए डी २ भा अपर ६२५ (प्र)  
 —शास्त्र भा, मनोरजन नावली ५५०  
 —शास्त्र प्राणनाथ विद्यालकार स २ ज्ञानमडल ४५०  
 —शास्त्र मत्यकेतु विद्यालकार सशो स ५ सरस्व स  
 भा १ ७००, भा २ ६००, सपूर्ण. १२००  
 —शास्त्र के मूल सिद्धात केशवप्रसाद सिंह अर्चना प्र, आ  
 —शास्त्र के मूल सिद्धात गुप्ता, ए एल यूनिवर्सिटी  
 १०००  
 —शास्त्र के मूल सिद्धात मलिक, योगेद्र आत्माराम १२००  
 —शास्त्र के मूल सिद्धात श्रीवास्तव, इकवालनारायण रतन  
 भा १-२ ७०० (प्र) सपूर्ण, १३००  
 —शास्त्र के सिद्धात गुप्ता, पी डी कि महल ५००  
 —शास्त्र के सिद्धात गुप्ता, राजनारायण कि महल  
 ५००  
 —शास्त्र के सिद्धात माथुर, के वी एल भा २  
 शिवलाल ६००  
 —शास्त्र के सिद्धात राय, हरिहरप्रसाद भा. भवन  
 १२५०  
 —शास्त्र के सिद्धात सभरवाल, हृदयनारायण . किशोर  
 पट्टिन एव प्रकाश बुक भा १ ६२५, भा २ ५००  
 —शास्त्र प्रवेशिका दुवे, सत्यनारायण शिवलाल ६००  
 —शास्त्र प्रवेशिका वर्मा, कन्हैयालाल नद ब्र एव नद म  
 ० ५०  
 —सिद्धात चौबे, गोरखनाथ रा वेनीप्रसाद. ४५०

- राजनीति से दूर. नेहरू, जवाहरलाल. सस्ता २००  
 राजपथ. वाजपेयी, भगवतीप्रसाद. जिज्ञासा ६००  
 राजपूत-जीवन-सध्या. दत्त, रमेशचन्द्र. इ. प्रे २००  
 —नदिनी चौधरी १७५  
 —बच्चे चतुरसेन, आचार्य चौधरी. २.५०  
 राजपूताने का इतिहास गहलोत, जगदीशसिंह ५ भा हि. सा.  
 म., जो. भा १ १५००, भा २. १०००  
 राजपूती कथाए. मीतल, प्रभुदयाल सा सस्थान ०७५  
 राजभक्त गोपीचंद्र व सुदामा शिवब्रतलाल शिव सा १.००  
 राजमुकुट. पत्त, गोविंदवल्लभ. गंगा. २००  
 राजमोहन की स्त्री चट्टोपाध्याय, बकिमचन्द्र. श्री प्रभाकर  
 २००  
 राजयोग. मिश्र, लक्ष्मीनारायण. भा भ. १२५  
 राजयोग. विवेकानंद, स्वामी. मातृ-भाषा २.५०; —  
 श्रीराम कृष्ण ३००  
 राजरूपक रामकर्ण, सपा. ना. प्र सभा ६.२५  
 राजर्षि. ठाकुर, रवीन्द्रनाथ इ. प्रे २००, — —कल्याणदास  
 ३.००; — —प्रभात प्र २००; — —श्यामलाल.  
 २५०; — —हि. प्रचा म २५०  
 —टडन शर्मा, राजकुमार त्रिवेणी ७००  
 —टडन-स्मृति-ग्रंथ अमरनाथ, सपा. ज्ञानालोक २५०  
 —पुरुषोत्तमदास टडन. चतुर्वेदी, जगपति इ. प्रे १.५०  
 राज लक्ष्मी. वाजपेयी, ओमप्रकाश रामा प्र २.००  
 राजवाडे लेख संग्रह जोशी, लक्ष्मणशास्त्री, सपा. शिवलाल.  
 राज विज्ञान परिचय महराना, जी के . भा. प्र. मंदिर  
 ६.५०  
 —शास्त्र के मूल सिद्धांत. शर्मा, वृजमोहन. दि पु स.  
 भा १ ७००; भा. २ ५.५०, संपूर्ण. ११५०  
 —शास्त्र के सिद्धांत सरन, पी २ भा. रस्तोगी ६.२५ (प्र)  
 —सन्यासी ठाकुर, रवीन्द्रनाथ. कि महल. २.००  
 —सन्यासी. धूमकेतु वीरा ५५०  
 —सपत्ति केद्रीय ०.७५  
 राजसत्ता और क्रांति लेनिन. पीपुल्स ०.३१  
 राजसिंह चट्टोपाध्याय, बकिमचन्द्र प्रचा. पा १.००, —  
 श्री प्रभाकर २५०, — —हि प्रचा पु ३००  
 राजसिंह चतुरसेन, आचार्य प्रभात प्र ३.५०  
 —या मेवाड-गौरव. चट्टोपाध्याय, बकिमचन्द्र. हि. पु. ए  
 २.५०  
 राजसी. देवेशदास. भा ज्ञानपीठ. २.५०  
 राजस्थान गुप्त, शोभालाल. राजहंस. १.७५  
 राजस्थान. टांड, जेम्स भा १. ख. १. राजपूत कुलो का  
 इतिहास मगल १०००  
 राजस्थान मजुमदार, विजयरत्न ग्रंथमाला १००  
 —और गुजरात के दौरे के कुछ अनुभव. लोहिया, राममनोहर.  
 नवाहंद. ०.३५  
 —का इतिहास टांड, जेम्स. आदर्श हि. २५.००  
 —का पिंगल साहित्य मेनारिया, मोतीलाल हि ग्र २  
 ६.५०

- राजस्थान का लोक-संगीत. सामर, देवीलाल... भा. लोक-कला.  
 ३००  
 —की रस गाथाए. मनोहर प्रभाकर. कल्याणमल १५०  
 —की ललित ललनाये. शिवब्रतलाल शिव सा १.००  
 —की लोक कथाए मेनारिया, पुरुषोत्तम आत्माराम १२५  
 —की लोक कथाए व्यास, श्रीकांत कि महल. १.५०  
 —की लोक कथाए व्यास, श्रीमतकुमार नवयुग ग्र कु. १.००  
 —की लोक गाथाए शर्मा, अद्विकेश भा भ २.००  
 —की वीरागनाए वर्मा, शकुंतला विनोद ०.५०  
 —के जैन शास्त्र भडारो की ग्रंथ सूची कासलीवाल, कस्तूर-  
 चंद्र, सपा जैन सा. भा १ ५००; भा. २. ८.००,  
 भा ३ ७.००, भा ४ १५.००  
 —के पांच निर्माता गुप्त, श्यामलाल एस. चाद. २५०  
 —के लोकानुरजन सामर, देवीलाल... भा लोक-कला.  
 १.५०  
 —न्याय पचायत संहिता गुप्त, गोपीनाथ. कल्याणमल.  
 ५००  
 —पचायत कानून मालालिह नवयुग ग्र. कु २.००  
 —परिचय गुप्ता, देवकरण रा बेनीमाधव ०.६२  
 —बिक्री-कर अधिनियम १९५४ अग्रवाल, एम. एल. सा.  
 भवन, आ ३१२  
 —भूमिसुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम गहलोत,  
 सुखवीरसिंह हि सा म., जो २५०  
 —मे जागीरदारी उन्मूलन गहलोत, सुखवीरसिंह... हि. सा.  
 म, जो ५००  
 —मे प्रशासन तथा स्थानीय स्वराज्य. आधुनिक सा १.००  
 —मे भूमि सुधार कानून. गहलोत, सुखवीरसिंह. हि सा. मं.,  
 जो ०५०  
 —रा दूहा नरोत्तमदास स्वामी नवयुग ग्र कु.  
 —साक्षर होगा. शर्मा, शंभुलाल दत्तबधु १२५  
 —साहित्य : परपरा और प्रगति शर्मा, सरनार्मसिंह 'अरुण'.  
 हि सा स २००  
 —स्वर लहरी. भा १ भा लोक-कला. ३००  
 राजस्थानी कहावते. सहल, कन्हैयालाल एस चाद. ८.५०;  
 — —भा भ ५००  
 —कृषि कहावते. गहलोत, जगदीशसिंह स. ५ हि. सा. म.,  
 जो २००  
 —भाषा और साहित्य. मेनारिया, मोतीलाल. हि. सा. सम्मे.  
 ६.००  
 —लोक गीत गहलोत, जगदीशसिंह. स. २ हि. सा. म., जो.  
 ५००  
 —लोक-गीत पारीक, सूर्यकिरण हि सा. सम्मे. २००  
 —लोक-नाट्य सामर, देवीलाल... भा. लोक-कला २००  
 —लोक-नृत्य सामर, देवीलाल... भा लोक-कला. २.००  
 —लोकोत्सव. वर्मा, गीडाराम. भा लोक-कला २००  
 —वातालार्थ गहलोत, जगदीशसिंह हि सा म, जो २.००  
 —साहित्य एक परिचय नरोत्तमदास स्वामी नवयुग ग्र. कु.  
 ०.७५

जन्म केना, भगवानदान हिंदु एकेडेमी १७५  
 जन्म गौरी, ए पी ना भवन त्रा ६२५  
 जन्म ब्रजकिशोर सिंह विन्वविद्यालय ७५०  
 जन्म भटनागर, क प . कि घ- ना २००  
 जन्म हजेल, निनकनारायण १९६३ नवी स नरस्व स  
 २५०  
 —की सरल रूप-रेखा भातीराम. आगरा बुक २७५  
 —की मन्द व्यास अस्याना, बी एन गर्ग ब्र २७५  
 —के मून मिश्रा वाजपेयी, एम आर कि घर, का  
 —के मिश्रा गिरिजा प्रसाद रामप्रसाद ७५०  
 —के मिश्रा जैन ग्धुवीरनिह न ४ रस्तोगी २५०  
 —के मिश्रा रावन, प्यारेलाल रतन १०००  
 —के मिश्रा एव भारतीय विन व्यवस्था गुप्त, जी पी  
 न ८ नामप्रसाद ७५०  
 —के मिश्रा एव भारतीय विन व्यवस्था गोयल रस्तोगी  
 ३००  
 —के मिश्रा और भारतीय राजस्व वेला, ओमप्रकाश  
 भा प्र २००  
 — राष्ट्रीय आय, रोजगार और आर्थिक प्रणालिया  
 ब्रजकिशोर सिंह विश्वविद्यालय ७००  
 —मिश्रा एव नीति गुप्ता, बी एन लक्ष्मी ना ४५०  
 गजा ठाकुर, रवीन्द्रनाथ प्रभात प्र २००  
 —चल बना, राजा चिरजीवी हो स्काफ, एल्विन एच  
 एम चाद ४५०  
 राजाजी जमीदार, नि छ नाहिव्यालय १००  
 राजाधिराज मुर्गी, कन्ह्यानाल माणिलाल कि महल  
 ६००, — — हि ७ र ६००  
 राजा प्रजा गुप्त, मैथिलीनगर सा नदन, वि ०७५  
 —देवा द्वे नुरेज 'मन्म' राष्ट्र प्र म १५०  
 —भोज दवाज 'दिनेग' मन्ना ०४०  
 —भोज नेड सिन्धेस्वरनाथ हिंदु एकेडेमी १०००  
 —भोज दाम्य ननगम नेशनन १००  
 —गणितमण्डल गुणित्व और व्यक्तित्व मियारामगररा  
 प्रसाद कना भा  
 —गणमोहन राय अतिरविनय सिन्धेस्वरनाथ ०७५  
 —गणमोहन राय गौहान, मनहर मन्ना ०४०  
 —गणमोहन राय से गोपीजी देनाई मगतभार्त नवजीवन  
 २००  
 —रिचर्ड टिनीप मेस्मिप्र, विन्विम न देनीमाधव  
 ०३७  
 —रिचर्ड टिनीप हि प्रचा पु ३००  
 —रिचर्ड टिनीप ननुनान, मना उमेज २००  
 —रिचर्ड टिनीप, विन्विम न देनीप्रसाद. ०३७  
 —रिचार्ड नरेदेगाट, गो न मिश्राल राज न ३५०,  
 गानगरा म ३५०  
 —रिचार्ड प्रेमवद ट १००  
 रिचार्ड के मीरटे नरवीर, जशीरनिह न ३ हि ना म,  
 जो. ० ५०

राजिने रा दूहा नरोत्तमदान स्वामी नवयुग न कु ०७५  
 राजेन्द्रप्रसाद आनद सा सगम, लु ०६२  
 राजेन्द्रवाद् का वचपन वेदी नरेज सस्ता ०४०  
 —का व्यक्तित्व चौधरी, वाल्मीकि आत्माराम ५००  
 — व्यक्तित्व-दर्शन चतुर्वेदी, बनारसीदास सस्ता  
 १५००  
 राजेन्द्र यादव की कहानिया मोहन राकेश राजपाल. २५०  
 राजो और मिस फरिया सभादत हसन 'मटो'. सरस्व प्रे  
 ६५०  
 राज्य का सैद्धांतिक और व्यावहारिक स्वरूप लास्की  
 एन चाद ७५०  
 —कृति घूमकेतु चोरा ४००  
 —प्रबंध-शिक्षा गुक्ल, रामचंद्र ना प्र सभा १.२५  
 —विज्ञान और शासन गार्नर लक्ष्मी ना. १६००  
 —विज्ञान के मूल सिद्धांत सूद २ भा लक्ष्मी ना  
 ६५० (प्र )  
 —विज्ञान के सिद्धांत साहु, शिवनदन बुनलेड ६२५  
 राज्यश्री प्रसाद, जयगकर भा भ १५०  
 —आलोक मल्लिनाथ नाँवली १००  
 राणा जगवहादुर प्रेमचंद सरस्व प्रे. ०७५  
 —जगवहादुर वर्मा, जगन्मोहन ना प्र सभा ३००  
 —प्रताप हरीश नया सा प्र ४००  
 —प्रताप सिंह राय, डी एल स २ राष्ट्रीय प्र मंदिर  
 १२५  
 —प्रताप सिंह राय, द्विजेंद्रलाल. हि ग्र र २.२५  
 —सागा वर्मा, मनु हि प्रचा पु १२५  
 रात अधेरी है महेंद्रनाथ. नेगनल ४००  
 —और दिन पाठक व्यामवदन 'श्याम राष्ट्रीय प्र मडल  
 एव राष्ट्रीय ना म ०७५  
 —और प्रभात वाजपेयी, भगवतीप्रसाद हिंद पा १००  
 —और राही श्रीवास्तव, हिमागु चौधरी ४००  
 —का पछी गोविंदसिंह कन्हैयालाल ५५०  
 —का बाजार गोविंदसिंह गमा २००  
 —की आज्ञे मिहीकी, मौकत मन्मी २००  
 —सो गई चौहान, मनहर उमेज ५००  
 —, चोर और चाद बलवतसिंह राजकमल (पा) १५०  
 —बाकी है गोविंदसिंह गुलुप्रसाद ३५०  
 —बाकी है वाल्यायन, कृष्ण लुनकमल ३२५  
 —बीती राव, बालकृष्ण इ प्रे ३००  
 —बुलाती है प्यारेलाल 'आवाग' रूपसी ३००  
 —रानी लक्ष्मीनारायणलाल राजपाल २५०  
 —रोती ग्ही वर्मा, अरुणकुमार दीपक प्र ३००  
 —रोती है हरदन वल्हा गमा ३००  
 —हो गई गोविंदसिंह आदर्श पु म २५०  
 गदा बद्योगव्याय, तानाकर राजपाल ४००  
 राणाकृष्ण चतुर्मेन, आचार्य राजहन १२५  
 गदाकृष्ण राजेश्वरप्रसाद नागायणनिह आत्माराम २५०  
 राणाकृष्ण का विश्वदर्शन. जोशी, शांति राजकमल ५.००

राधारानी चट्टोपाध्याय, वकिमचंद्र कि महल. ०.७५,  
 — श्री प्रभाकर ०.५०; — हि. प्रचा पु.  
 १२५  
 राधावल्लभ सप्रदाय . सिद्धांत और साहित्य विजयेद्र स्नातक  
 नेशनल. १८००  
 राधा सुधा शतक हठी. भारतजीवन ०.३१  
 राधास्वामी मत प्रकाश वचनसार शिवब्रतलाल. शिव सा  
 १.००  
 —योग. शिवब्रतलाल. शिव सा ५००  
 राधिकारमणप्रसाद सिंह शर्मा, पद्मसिंह 'कमलेश' वसल.  
 ६००  
 राघेव्याम रामायण ग्लेज हि प्रचा पु १०००  
 राना वेनीमाधव अमरवहादुर सिंह 'अमरेश' गगा ५००,  
 — प्रभात पब्लि १५०  
 रानी कशीदाकारी रानी देहाती ४००  
 —केतकी की कहानी श्यामसुंदरदास, सपा ना प्र सभा  
 ०.५०  
 —घोडी बालवधु हि प्रचा. पु ०.६७  
 —तिष्यरक्षिता. चतुर्वेदी, सत्यदेव हि सा. सृजन ४.००  
 —दुर्गावती मयूर.  
 —दुर्गावती. चतुर्वेदी, देवीदयाल 'मस्त' इ प्रे १२५  
 —नागफनी की कहानी परसाई, हरिशकर राजकमल  
 (पा) १.००  
 —बहू ओमीलाल 'इलाहाबादी' राष्ट्र प्रचा, इ ४५०  
 —विटिया. जहूरवखश गगा. ०.७५  
 —सारधा (सचित्र) प्रेमचंद सरस्व प्रे.  
 राबिनहुड व्यास, श्रीकांत, अनु राजपाल १५०  
 —की कहानी शर्मा, श्यामसुंदर आदर्श पु भ ०.५०  
 राबिन्सन क्रूसो पाडे, रगनाथ फ्रैक १.००  
 —क्रूसो व्यास, श्रीकांत, अनु राजपाल १५०  
 —क्रूसो. स्वदेशी, आचार्य अ. भा नव-लेखक ०.४०  
 राम उपासना रामकृष्ण देहाती ४५०  
 —कथा. वुल्के, कामिल हि सा. परिपद २०००  
 —कथा मजरी गोकुलचंद्र शास्त्री रा वेनीमाधव १२५  
 रामकाव्य की परंपरा मे 'रामचंद्रिका' का विशिष्ट अध्ययन  
 गुप्ता, गार्गी एस चाद  
 रामकुमार वर्मा—कला और कृपाण का कलानात्मक अध्ययन  
 चतुर्वेदी, राजेश्वरप्रसाद लायल २५०  
 —वर्मा तथा कला और कृपाण राकेश कि घर, ग्वा  
 ३५०  
 रामकृष्ण उपनिषद् राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती, अनु हिंदु  
 टाइम्स २५०  
 रामकृष्णचरितामृत इ प्रे १५०  
 रामकृष्ण सच—आदर्श और इतिहास तेजसानंद, स्वामी.  
 म २ श्रीरामकृष्ण (पा) ०.७५  
 रामगढ़ की रानी वर्मा, वृ. दावनलाल मयूर २००  
 रामचंद्र शुक्ल (सिद्धांत और अध्ययन). पाडेय, गभूनाथ  
 सरस्व पु-स ३५०

रामचंद्र शुक्ल शुक्ल, चंद्रगेखर. वाणी-वितान ८.००  
 —शुक्ल, एक समीक्षा जयनाथ 'नलिन' वसल ३००  
 रामचंद्रिका. पुरुषोत्तमदास कि महल २५० (अप्रा.)  
 —(वेशव) भगवानदीन 'दीन', लाला ना' प्र सभा  
 ३००  
 रामचरित विद्यानंद विदेह, स्वामी वेदसस्थान १.५०  
 —चितामणि उपाध्याय, रामचरित ग्रथमाला २.५०  
 —(पद्मपुराण का कथा भाग) श्री भा दिगवर ४००  
 रामचरितमानस चौबे, गभूनाथरायण, सपा ना प्र सभा  
 ८७५  
 रामचरितमानस तुलसीदास, गोस्वामी  
 रामचरितमानस तुलसीदास, गोस्वामी इ. प्रे ३००,  
 — रा वेनीप्रसाद ६००, — वाणी-वितान  
 ६.५०, — सा. रत्न भ सक्षिप्त १२५  
 रामचरितमानस भट्ट, रामेश्वर, टीका इ प्रे. ६.००  
 रामचरितमानस श्यामसुंदरदास, सपा इ. प्रे. १२००  
 —और साकेत. गुप्त, परमलाल. नेशनल ५००  
 —का काव्यशास्त्रीय अनुशीलन पाडेय, राजकुमार अनुसंधान  
 १६००  
 —का काशिराज सस्करण तुलसीदास, गोस्वामी सर्वभारतीय  
 १५००, ८००, ६५०  
 —की भूमिका गौड, रामदास हि. पु. ए ५५०  
 —मे लोकवार्ता रावत, चंद्रभान सरस्व. पु स ३५०  
 रामचरित्र चौधरी, जगलाल नावट्टी १००  
 रामचरित्र मिश्रवधु अवध १५०  
 रामचरित्र रघुनाथ 'रसाल'. राजकमल ३५०  
 रामचरित्रमानस तुलसीदास, गोस्वामी रत्नाश्रम २.००  
 रामचर्चा प्रेमचंद हंस २५०  
 राम जीवन की भाकिया. सत, गोकुलचंद्र ओरिएटल.  
 १.५०  
 रामभरोखा भैयाजी बनारसी चौधरी २५०  
 रामतीर्थ-सदेश रामतीर्थ, स्वामी ३ भा. सस्ता. ११२  
 राम दर्शन भल्ला, मुल्कराज. दिश्वेश्वरानंद ०.५०  
 राम दीन का साहस प्रकाशचंद्र साधना म १.००  
 रामदूत व्यास, श्रीमत्कुमार नवयुग अ कु २.५०  
 रामधारीसिंह दिनकर गुप्त, मन्मथनाथ राजपाल २००  
 रामधुन बापू की प्रार्थना सूर्यब्रह्मी सिंह काशी पु १००  
 रामनरेश त्रिपाठी और पथिक जैन, फूलचंद्र 'सारग'. कि घर,  
 ग्वा ३५०  
 रामनाम गाधी, मोहनदास करमचंद नदजीवन ०.५०  
 राम-नाम : एक चिंतन भावे, विनोवा अ भा सर्व  
 ०.३०  
 राम नाम की महिमा गाधी, मोहनदास करमचंद स ५  
 हि सा म १००  
 रामप्रसाद त्रिभुवन गुप्त, मन्मथनाथ कि महल ०.४०  
 रामभक्ति मे रसिक सप्रदाय. भगवतीप्रसाद सिंह विश्व-  
 विद्यालय १५००  
 —शाखा पाडेय, रामनिरजन. नवहिंद. २०.६०

रामभक्ति माहित्य मे मयुर उपासना मिश्र, भुवनेश्वरनाथ  
 'माधव' वि राष्ट्र १० २५  
 राम रहीम राधिकारमणप्रसाद सिंह, राजा स ५ अशोक  
 प्रे. १० ००  
 रामराज के पथ पर चत्ता, नदलाल साहनी ० ६२  
 रामराज्य कपूर, ए. एस देहाती १ ५०  
 रामराज्य मिश्र, बलदेवप्रसाद हि सा भ ५ ००  
 रामराज्य राजवहादुर लमगोडा वगीय १ ००  
 —श्रीर मावसवाद राहुल सास्कृत्यायन पीपुल्स १ २५  
 —की श्रीर शर्मा, राजेंद्र बसल १ ००  
 —की कथा. यशपाल विप्लव ३ ००  
 रामललानहछु—तुलसीदास शर्मा, वामदेव रा वेनीमाधव  
 रामलाल द्विवेदी, मन्नन ड प्रे १ ७५ [० २५  
 रामलीला प्रेमचंद हम १ ००  
 रामलीला राधाकृष्ण पु भ २ ००  
 —नाटक न्यादरसिंह 'वेचैन' देहाती ० ७५  
 —नाटक शर्मा, जगदीश ६ भा देहाती १ २५ (प्र)  
 रामवशिष्ठ पत्रावली पाठक, अनसूयाप्रसाद राष्ट्र पु भ  
 रामविजय मिश्र, ठाकुरदत्त कि महल १ ५०  
 रामाशा-प्रश्न तुलसीदास, गोस्वामी गीता ० ३७  
 —प्रश्न—तुलसीदास शर्मा, वामदेव रा वेनीमाधव ० ७५  
 रामानंद की हिंदी रचनाए बडधवाल, पीतावरदत्त, सपा ना  
 प्र सभा २ ५०  
 —संप्रदाय तथा हिंदी साहित्य पर उसका प्रभाव श्रीवास्तव,  
 बद्रीनारायण हि सा परिपद ८ ००  
 रामानुज सान्याल, नलिनिमोहन राष्ट्रीय सा स ० ५०  
 रामानुजन श्राव्दी, वजीरहसन पीपुल्स १ ५०  
 रामायण आत्माराम १ ००, रगीन २ ००  
 रामायण. श्रीभा, प्रफुल्लचंद्र 'मुक्त' ग्रथमाला १ ००  
 रामायण पुष्पदत्त. भा ज्ञानपीठ २ ५०  
 रामायण वाशिष्ठ राधेश्याम श्यामलाल ४ ००  
 —अरण्यकांड श्रीवास्तव, रामचंद्र 'चंद्र', टीका रामप्रसाद  
 १ ५०  
 —कथा रघुनाथ सिंह हि प्रचा पु ४ ५०  
 —कालीन समाज व्याम, शातिकुमार नानूराम सस्ता  
 ४ ५०  
 —की अत कथाए भीतादेवी. २ भा प्रभात पब्लि २ ००  
 —की आठ नागिया कटारा, कुमुभ भा प्र मंदिर ० ७५  
 —की कथा. मुनेश्वरप्रसाद कला-नि १ ७५  
 —की कहानिया राजवहादुर सिंह आत्माराम ० ००  
 —की बाल कथाए मिन्हा, अनुराधा आदर्श पु भ १ ००  
 —के कुछ आदर्श पात्र गीता ० ३७  
 —के गीत राधेश राजकमल १ ००  
 —गीता मटिन सुटाना नाइज श्यामलाल ६ ००  
 —दशम अक्षयुनि, स्वामी आर्य मा १ २५  
 —(शान्ति) त्रिपाठी, सूर्यकांत 'निराला' गंगा २ ००  
 रामायण भाषा टीका हि प्रचा. पु चूद् २५ ००, मध्यम  
 १०.००, नूतन रायत साइन्स १०.००

रामायण भाषा टीका बहुत बडी तुलसीदास, गोस्वामी  
 श्यामलाल २२ ००  
 —मजरी—सुदर कांड क्षेमेद्र. सा नि, का २ ००  
 —मध्यम टीका सहित श्यामलाल १० ००  
 —(विनय खड) त्रिपाठी, सूर्यकांत 'निराला' राष्ट्र प्र. म  
 २ २५  
 —सग्रह वाल्मीकि रा वेनीप्रसाद १ ५०  
 —सुदरकांड, भाषा टीका हि प्रचा पु ० ५०  
 रामायणतार त्यागी क्षेमचंद्र 'सुमन' राजपाल २ ००  
 रामू काका मिश्र, दयाशकर. साहनी ० ५०  
 रामेश्वरम्. सोमसुंदरम्, पूर्ण सस्ता ० ४०  
 राय पिथौरा (पृथ्वीराज चौहान) वाजपेयी, भगवतीप्रसाद  
 श्री भा भारती ३ ००  
 राय अरुणा की कहानिया अय्यर, रामनाथ गंगा १ ५०  
 रायरेखा आचार्य, गुणवतराय वीरा ५ ००  
 रायल कशीदाकारी. शमा २ ५०  
 रायसीना की लपटे भगवदत्त 'शिशु' राजहस ३.००  
 राय हरिहर आचार्य, गुणवतराय वीरा ३ ५०  
 रावण महाकाव्य वर्मा, हरदयालुसिंह आत्माराम ६ ००  
 —वध भट्टि सस्ता ० ४०  
 रावणायन पालीवाल, हरिदत्त 'निर्भय' शारदा साधना.  
 ७ ५०  
 राववहादुर मौलियर गंगा ३ ००  
 रावहम्मीर भा, रमेशचंद्र सुभाष २.००  
 रावी की कहानिया विद्यार्थी, रामप्रसाद 'रावी' रामप्रसाद  
 ० ५०  
 राशनकांड शुक्ल, महावीरप्रसाद अरुध १ ००  
 राष्ट्र और शिक्षालय. शर्मा, वेणीमाधव नद व्र २ ५०  
 राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त 'अभिनदन ग्रथ' अग्रवाल,  
 वासुदेवशरण . हि प्रचा पु ३ ० ००  
 राष्ट्र की प्रथम पूजा ठाकुर, रवींद्रनाथ साधना म १ ००  
 —की सपति गाय सर्वोदय १ ५०  
 —के लिए ब्रजकिशोर 'नारायण' कला-नि २.००  
 —गीतावली द्विवेदी, गगानारायण रा वेनीप्रसाद ० ७५  
 —तपस्वी महाराणा प्रताप देहाती १ ५०  
 —ध्वज रघुवीरशरण 'मित्र' भा सा प्र २ ००  
 —नायक शर्मा, वेणीमाधव नद व्र एव नद स ० ८१  
 —निर्माण विजय, ओमशरण विजय प्र  
 —निर्माण और योजनावे दि लायब्रेरी ० ६२  
 —निर्माण और हमारे कर्तव्य रामगोपाल 'मुशील' स २  
 राष्ट्रीय प्र मंदिर ३ ००  
 —निर्माता तिलक कृपाशकर कि महल ३.००  
 राष्ट्रपति और राष्ट्रपति-भवन चौधरी, वाल्मीकि आत्माराम  
 ६ ००  
 —भवन की डायरी चौधरी, वाल्मीकि आत्माराम  
 ७ ६४  
 —राजेंद्र जोशी, वावूराव. हि प्र म. ० ७५  
 —राजेंद्र प्रसाद. सहाय, शिवपूजन ग्रथमाला. २.५०

- राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद के भाषण (१९५२-५३) प्र विभाग.  
३५०
- राष्ट्रपिता. नेहरू, जवाहरलाल. सस्ता. २.००
- बापू. कपूर, रामप्रकाश. नद. ब्र. ०.६४
- बापू न्यादरसिंह 'बैचैन'. देहाती. ०.७५
- बापू हरिदास 'सहयोगी' नद. ब्र एव नद. स ०.६२
- राष्ट्रपुरुष सत्यकाम विद्यालकार राजकमल ३.००
- राष्ट्रभारती रामलोचनशरण, सपा. पु. भ २५०
- राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता रामधारी सिंह 'दिनकर'  
उदयाचल. ३००
- और हिंदी भटनागर, राजेन्द्रमोहन. विनोद २००
- का इतिहास वाजपेयी, किशोरीदास हिमालय. ४००
- का प्रथम व्याकरण. वाजपेयी, किशोरीदास. हिमालय  
४.००
- का सवाल. नेहरू, जवाहरलाल. नवजीवन. ०.३७
- की कुछ समस्याए वाजपेयी, नददुलारे. राजपाल. २.५०
- की शिक्षा मुकुर्जी, एस एन आचार्य बुक ६००
- के अनमोल रत्न नाँवल्टी २५०
- के पुजारी त्रिपाठी, रामप्रताप. रामप्रसाद. २.२५
- पर विचार. पाडे, चद्रवली. ना. प्र. सभा. ५.५०
- पाठमाला तिवारी, रमाकांत. रा. वेनीमाधव २२५
- रचना वेदप्रकाश शास्त्री. स ८ गुप्ता प्र १२५
- रजत जयती ग्रथ राष्ट्र. पु भ २०.००
- विचार-संग्रह. चितले, कै. श दा... स ३. अनाथ २.५०
- सौरभ. शर्मा, रामस्वरूप... एस चाद ३००
- हिंदी-मराठी कोष. वर्मा, कृष्णलाल... हिं. ग्र. र ७.००
- हिंदी : समस्याए और समाधान बि. राष्ट्र. १५०
- हिंदुस्तानी गाधी, मोहनदास करमचंद नवजीवन. १५०
- राष्ट्रमंडल राजकुमार हिं प्रचा पु. ०.५०
- राष्ट्रमाता कस्तूरबा जोशी, बाबूराव हिं प्र म ०.७५
- राष्ट्रमूर्ति राजेन्द्र बाबू मल्लिक, गोपालकृष्ण. आनद पु., वा  
३५०
- राष्ट्र रत्न नेहरू हरिदास 'सहयोगी' नद ब्र एव नद स  
१.००
- , राज्य और समाज की समस्याए भारतीय दृष्टि  
मे मीतल, सुरेद्र हिंदु एकेडेमी.
- सघ और विश्व शांति. यादवेदु, रामनारायण मानसरोवर  
सा. २.५०
- राष्ट्रीय अनुशासन शर्मा, हरिदत्त. सहयोग. ४.००
- अनुशासन योजना शर्मा, हरिदत्त सहयोग ४००
- आंदोलन एव भारतीय संविधान त्यागी, एम एस स ७  
रस्तोगी. ५५०
- राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास गुप्त, मन्मथनाथ स. २  
शिवलाल. १२५०
- एकता अनंत, अ अ आर्य बुक २.५०
- एकता और नैतिकता की शिक्षा शर्मा, मुकुददेव नद ब्र.  
३००
- एकतामाला—दैनिक जीवन. नागर, धनश्याम.

- राष्ट्रीय एकाकी योगेन्द्रकुमार 'लल्ला' गिरिधर ४००
- एकाकी. योगेन्द्रकुमार 'लल्ला', सपा आर्टस ४.००
- गायन भार्गव, ज्योतिलाल. गगा ०.३७
- गीत. मिश्र, गगाधर राष्ट्र प्र. म २.००
- झंडा तथा उनका प्रयोग. आनदराव, डी एल न्यू लिट.  
०.५०
- झंडे का रहस्य. मातृ-भाषा १.१२
- राष्ट्रीयता गुलाबराय. गयाप्रसाद ५००
- राष्ट्रीय धर्म. रामतीर्थ, स्वामी श्री प्रभाकर २००
- विकास की सरल रूपरेखा लालबहादुर आगरा बुक  
भा १. २.५०, भा २ ३००
- संगीत अक पत्की, ज दे, सपा संगीत. २.५०
- सुरक्षा के स्वर श्रीवास्तव, हिमाशु सन्मार्ग ३५०
- हारमोनियम गाडड रामश्रवतार 'वीर' देहाती २५०
- रास और रासान्तयी काव्य ओझा, दशरथ, सपा. ना प्र  
सभा २०००
- रासपचाध्यायी (नददास) टडन, प्रेमनारायण हिं सा. भ  
२५०
- तथा भवरगीत (नददास कृत) सुधीद्र. विनोद.  
२००
- रासमाला फार्बस, अलेक्जेंडर किन्लाक.
- रास लीला : एक परिचय गोविंददास, सेठ... एस चाद  
२.५०
- रासायनिक गणनाए, बहल... एस चाद २५०
- गणनाए मेहता, एम एल. नाँवल्टी. २५०
- गणित वर्मा, इन्द्रजीत आगरा बुक २५०
- प्रतिक्रियाए तथा समीकरण. मेहता, एम. एल... नावल्टी  
२.००
- विश्लेषण श्रीवास्तव, रामकृष्ण. गयाप्रसाद. २५०
- रासो साहित्य विमर्श गुप्त, माताप्रसाद. सा. भवन, इ.  
५.००
- रास्ते का मोड शर्मा, श्रीराम 'राम'. एस. चाद ५५०
- , मोड और पगडडी श्रीवास्तव, कृष्णकिशोर रामप्रसाद  
१.७५
- राह अनेक मजिल एक रावेश्याम 'प्रगल्भ' शकुन १५०
- राह का पत्थर गुप्त, विध्याचलप्रसाद ज्ञानपीठ २.७५
- के दीपक रागेय राघव ग्रथमाला २००
- न रुकी रागेय राघव राजपाल. ३००
- राहवीती. यशपाल विप्लव ३५०
- राही शुक्ल, अमरनाथ विद्या प्र म ४००
- मजिल और रास्ता. आदिल रशीद अशोक पा १.००,  
सहगल २५०
- राहुकेतु-विचार काटवे, ह. ने. नागपुर प्र. ३.५०
- राहुल यात्रावली. राहुल साकृत्यायन. कि. महल ३.००
- राहें प्यार की. महेद्र वाकलीवाल. रूपसी १५०
- रिक्शावाला वाजपेयी, प्रेमचंद्र. आदर्श पु म १५०
- रिक्शावाला राधाकृष्ण प्रसाद पु. भ ५००
- काव्य. शर्मा, विजयकुमार. त्रिवेणी. १५०



निर्मिम्भ चनुवेंदी, राजनागयण कल्याणदान १.५०  
 निर्मिम्भ निवानी, हनुकुमार ग्रथमाला १.७५  
 निर्मिम्भ निरखान्देव 'निवक' इ प्रे २००  
 निर्मिम्भ वर्मा, राजकुमार कि महन ४००, — — मा  
 भवन, इ ६००  
 निम्बत के अनेक टग देवराज 'दिनेज' आत्माराम ३००  
 निम्न आफ टायनेट मोन भगवतराय देहाती १०१०  
 गीगल निबध माला गिगिगल यन्त्रा 'गिगीज'. गीगल १५०  
 रीजतल लीडर्स नैन, इ वी मेडिकल २५०  
 रीठा के गुण तथा उपयोग दीक्षित, रामसनेही देहाती ०८७  
 रीट की हनु विष्णु प्रभाकर, मया मन्ता १५०  
 —की हड्डी (विष्णु प्रभाकर) मिश्र, दुर्गाकर हि ना भ  
 १५०  
 नेता टडन, प्रतापनागयण हिंद पा १००  
 रीनिकालीन कवियों की प्रेमव्यजना वचननिह ना प्र  
 मभा ८५०  
 —नाहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जोगी, गिदलाल  
 ना नदन, दे १२५०  
 रीतिकव्य की भूमिका नगेद्र नेगनल ५५०  
 रीति शृंगार ना, सदन, चि ५००  
 रत्नमयी मंगल राधेश्याम देहाती २५०  
 रुचि-भुरुचि अकिमचंद्र परिमल १५०  
 रदिन तुर्गेनेव चौधरी ३५०, — — प्रभात प्र ३००  
 रट्ट प्रणीत काव्यालकार वामुदेव  
 रुद्र-तरंग रामरुद्रप्रसाद मिह अगोक प्रे २००  
 रुद्राष्टाध्याई विशालमणि नारायण व्यामलाल १००  
 रुद्रभुन गुडिया बालकृष्ण रणजीत ०७५  
 रूपया कमाने का मर्गान गुप्त, राधाकृष्ण हि पु ए २५०  
 —रुहा है? वर्मा, मदनलाल विनोद २००  
 —रुम्हे 'म गया वर्मा, भगवतीचरण मोतीलाल २५०  
 —रुग्ना दीक्षित, जगदीश 'आनद' यग मैन ०६२  
 —, रूप और गेडी न्स्तोगी, विनोद नवयुग प्र ६००  
 —ही रूपया चौधरी ०७५  
 रूपये का अवमूल्यन मक्मेना पी डी गुप्ता त्रा १००  
 रूपयान उमर नय्याम गुप्त, मैथिलीचरण, अनु ना  
 नदन, चि १००  
 रूपयाने नरमद मालवीय, पन्नकात नेशनल.  
 रूपे मुनन देवद ननारनी कल्याणदान ३५०  
 रुचिकर टा टग ०.७५  
 रूपरेट्ट ना टग पत्तिल, डेम्प्टर एन चाद २५०  
 रूप तथा गृह्य वाचिन आत्माराम ०५०  
 रूप पादित न्गीद म्दार (पा) ०००  
 —रूपे रंजित रंजित मि म्दान २५०  
 —रूपे राजा नन्देवा, मन्तो नद मा प्र २०५  
 —रूपे प्याम प्रमी, नन्देवा रंजी ३६०  
 —रूपे रूप प्रमाय दान मदन ०७५  
 —रूपे रूपया वर्मा परिगुर्गातर. नरममद ०१०  
 —रूपे रूपया वर्मा, नन्देवा 'रंजित'. दिवेरी ५५०

रूप और स्वरूप विडला, घनश्यामदास सस्ता ०७५  
 रूपक कथा-कृज शर्मा, ननिनविलोचन. अगोक प्रे ०६२  
 —रत्नावली वर्मा, रामचंद्र सा रत्न माला ३५०, नक्षिप्त  
 २५०  
 —रहस्य व्यामसुदरदास. इ प्रे ३००  
 —विक्रान वेदमित्र 'वती' सा रत्न-माला ०५०  
 रूप का नौदागर चरण पजावी पु ०००  
 —किरण सुरज मिश्रा पु भ ४००  
 —की ज्वाला रागेय राघव कि महल ३.००  
 —की राख भा, रमेशचंद्र चिनगारी १५०  
 —छाया रागेय राघव कि महल २५०  
 —तरंग शर्मा, रामविलास विनोद २००  
 —दर्शन हरिकृष्ण 'प्रेमी' आत्माराम ६००  
 —दर्शिका हान्दार, असितकुमार चन्द्रलोक १०.००  
 रूपनारायण पाडे स्मृतिग्रथ टडन प्रेमनारायण, मया हि  
 सा भ. ५००  
 रूप निघट्ट वैद्य, रूपलाल, संपा ना प्र सभा १.५०  
 —वमत न्यादरसिंह 'वैचैन' देहाती ०७५  
 रूपमती जगदीशकुमार 'निर्मल' वीरा ५००  
 रूपमती नदा, गुलशन, अनु सहगल. ४.००  
 रूपमती नवीन 'मृदुल' कि महल ०७५  
 रूप-रग. भटनागर, रामरतन लोक चेतना २००  
 रूपरेखा दे, नैलेन्द्रनाथ. २ भा रा वेनीमाधव १.५० (प्र)  
 रूपरेखा हरिकृष्ण 'प्रेमी' आत्माराम ५००  
 रूपलक्ष्मी अंबपाली शर्मा, कृष्णचंद्र भिक्वु' सा भवन, इ  
 १५०  
 रूप, श्रम, सिक्के बाजपेयी, प्रेमचंद्र आदर्श पु म १५०  
 —सौंदर्य वर्मा, सावित्रीदेवी. राजकमल (पा) १००  
 रूपहले वादल खांडेकर, वि स देशमुख ५००  
 रूपांतर पाडेय, श्यामनारायण इ प्रे २००  
 —आलोक मल्लिनाथ नाँवल्डी १२५  
 रूपावरा वास्त्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद 'अज्ञेय', सपा भा  
 ज्ञानपीठ १२००  
 रूपा और लल्ली चौहान, मनहर उमेश २००  
 रूपाजीवा लक्ष्मीनारायणलाल राजकमल. ६००  
 रूपायन भटनागर, रामरतन माथी. ३००  
 रूपी राहुल साकृत्यायन. प्रचा पा. १००  
 रूप का आर्थिक विकान अगवाल. कि महल ५००  
 —का पचायती राज्य हि पु ए १२५  
 —का नविवान गैद, डी एन.. रतन १५०  
 —का साम्राज्यवाद रामस्वरूप विद्यार्थी ०५०  
 —की कहानिया घोष, अरुण इ प्रे २००  
 —की कहानिया जगन्नाथ प्रभाकर नवयुग प्र १००  
 —की चिट्ठी ठाकुर, रवीन्द्रनाथ इ प्रे १.५०  
 —की प्रसिद्ध कहानिया मिश्र, आनदीप्रनाद इ प्रे १५०  
 —की यात्रा मालवीय, हर्षदेव एस चाद ४००  
 —की लोक-कथाए वर्मा, सत्यभूपण बाल सदन १२५  
 —की लोक-कथाए हसरज 'रहवर' आत्माराम. १.२५

- रूस की श्रेष्ठ कहानिया प्रभात प्र. भा १ १.७५;  
भा २ २.२५  
—की सर्वश्रेष्ठ कहानिया ठाकुर, बलभद्र सन्मार्ग २५०  
—की साहित्यिक यात्रा. चतुर्वेदी, बनारसीदास आत्माराम  
४००  
—, फ्रास तथा स्विट्जरलैंड का सविधान मोतीलाल १३१  
—मे छियालीस दिन जैन, यशपाल सस्ता १५०  
—मे युगातर विशभरनाथ जिज्जा हि. पु ए २२५  
रूसी क्रांति के अग्रदूत राजेश्वरप्रसाद नारायणसिंह  
आत्माराम ४००  
—प्रारम्भिक पाठ्यक्रम पतापोवा, नीना पीपुल्स भा १  
२१२ भा २ २७५  
—युवको के बीच बजाज, रामकृष्ण सस्ता. २५०  
—लोक-कथाए वर्मा, शुभा हि भवन  
—लोक-साहित्य. राजेद्र ऋषि, वीर आत्माराम ४.००  
—व्याकरण पूल्किना, ई म पीपुल्स २१६  
—साहित्य. शुक्ल, केसरीनारायण नद ब्र एव नद स.  
४५०  
—सोना. पेट्रोफ, ब्लाडीमीर भा भ ३२५  
—हिंदी शब्दकोश पीपुल्स ४६२  
—हिंदी शब्द कोष राजेद्र ऋषि वीर. प्र. विभाग ३५००  
रेगने वाले श्रीवास्तव, आनदस्वरूप ग्रथमाला १७५  
रे इन्सान इन्सान बन ! हरिकृष्ण जौहर चौधरी ३५०  
रेका रामपाल सिंह मोतीलाल ६००  
रेखा. आदिल रशीद पजाबी पु २२५, — — स्टार (पा)  
१००  
रेखा वर्मा, भगवतीचरण राजकमल ६००  
रेखाए और चित्र उपेन्द्रनाथ 'अशक' नीलाभ ४००  
—बोल उठी देवेद्र सत्यार्थी आत्माराम ३००  
रेखा कशीदाकारी गुप्त, मिथिलेशकुमारी, सग्रा भाग्योदय  
१.००  
रेखा-चित्र चतुर्वेदी, बनारसीदास स २. भा ज्ञानपीठ. ४००  
रेखाचित्र. टडन, प्रेमनारायण हि सा भ १७५  
रेखाचित्र मुशी, लीलावती. कि महल ३००  
रेखाये और रेखाये. हर्षनाथ. भा पु म. ३५०  
रेड स्कवायर के देश मे फिशर, लुई. एस. चाद. ३००  
रेडार परिचय हि समि ५५०  
रेडियम वर्मा, रमेश चिनगारी. १५०  
—के अक्षर वक्शी, स्वरूपकुमारी राष्ट्रीय प्र मंदिर. २००  
रेडियो खाडिलकर, रा र. ना प्र सभा १००  
—का साधारण ज्ञान वेदप्रकाश देहाती १२५  
—गाइड माथुर, ए बी देहाती ६००  
—नाटक खन्ना, हरिश्चंद्र आत्माराम ६५०  
—नाट्य शिल्प सिद्धनाथकुमार स २ भा ज्ञानपीठ ३००  
—मास्टर प्रसाद, के देहाती २५०  
—वार्त्ता-शिल्प सिद्धनाथकुमार भा. ज्ञानपीठ २.००  
—शब्द कोष नरेन्द्रनाथ. देहाती १२५  
—सर्विसिंग. नरेन्द्रनाथ देहाती १०.००

- रेणु. खत्री, श्यामसुंदर. ज्ञानमडल ५.००  
रेणु शर्मा, श्रीराम 'राम'. नवयुग प्र ४७५  
रेणुका रामाधारी सिंह 'दिनकर' उदयाचल ३.००, — —  
पु भ ५००, — — रामलोचन (पा) १००  
रेत और भाग. खलील जिन्नान राजपाल २००  
—का महल कृश्नचंदर नेशनल ४००  
—की आग माधवसिंह 'दीपक' हिंदिया २७५  
—की दीवार. शर्मा, राजेद्रकुमार आत्माराम १.५०  
—के फूल सुहैल अजीमावादी ग्रथमाला १००  
—के महल प्यारेलाल 'आवारा' रूपसी ३२५  
—, शून्य, हवा पाडे, विनोदचंद्र राजकमल २७५  
रेती के फूल रामधारी सिंह 'दिनकर' उदयाचल २.७५  
रेवेका मोरियर, दाफनी दु नेशनल ८.००, — — सस्ता  
५००  
रेल का टिकट कौसल्यायन, भदत आनद आत्माराम २५०  
—का डिब्बा पाडेय, वेकटेशचंद्र कल्याणदास १२५  
—की पटरिया तिवारी, रामेश्वरनाथ अर्चना प्र, आ.  
रेलगाडी की कहानी रायचौधरी ओरिएट १.५०  
—के डिब्बे करण आत्माराम २००  
—कैसे बनी ? चतुर्वेदी, जगपति हि भवन १००  
रेलवे ट्रेन लाइटिंग नरेन्द्रनाथ देहाती ६.००  
रेवा चंद्रगुप्त विद्यालकार राजपाल ३००  
रेवातट समय (पृथ्वीराज रासो का सत्ताईसवा समय) शुक्ल,  
गोवर्धननाथ, सपा भा प्र मंदिर १५०  
रेवा प्राण अस्थी, लीला एस. चाद २५०  
रेशम ओमप्रकाश सर्वोदय ०७५  
—का कीडा दि ल.यन्नेरी ०६२  
—की कहानी ओमप्रकाश सर्वोदय ०६२  
—की गाठे कवठेकर, श्रीदत्त रघुनाथ सरस्व प्रे १५०  
—की गुडिया कुसनूरकर, चंद्रकांत गायत्री. २००  
—कीडा पालन प्रमोदविहारी जवाहर ०७५  
रेशमा गोविंदसिंह कन्हैयालाल २५०  
रेशमी शर्मा, पाडेय वेचन 'उग्र' गगा २.२५  
—गाठ मिश्र, जयदेव हि ग्र र १००  
—टाई वर्मा, रामकुमार भा भ ३००  
—धागे गोविंदसिंह कन्हैयालाल ३७५  
—पत्रो का पड्यत्र बसल, रतनलाल विनोद. ४००  
—साडी सकसेना, नरेन्द्रमोहन 'नादान' आनद पु, वा २५०  
रैदास रामायण श्यामलाल २००  
—रामायण वक्शीदास देहाती २.५०  
रैन अर्धेरी गुप्त, मन्मथनाथ राजपाल ६००  
—और चदा रागेय राघव कि महल  
रैनबसेरा सकसेना, शभूदयाल. नवयुग ग्र कु १.७५  
रैफरीजरेटर गाइड नरेन्द्रनाथ देहाती ८२५  
रोक-फसलों की खेती. व्यास, नारायण डुलीचंद सस्ता १७५  
रोग दानव से युद्ध वर्मा, इन्द्रसेन शिवलाल १५०  
—लक्षण सग्रह स ४ मेडिकल ०.१६  
रोगी की सेवा और पथ्य. शर्मा, सुरेशप्रसाद मेडिकल. ३.००

- नेगी चिकित्सा लहरी ०.७५  
 —पश्चिमी कन्नड़, रामदयाल हि पु ए २२५  
 —मन् मृगी, नरजनारायण. हिंदु एकेडेमी. १२००  
 —मुथुसा पाडे, महेंद्रनाथ छात्रहितकारी २५०  
 नेगी की अक्कू चिकित्सा वर्मा, जानकीशरण आरोग्य  
 = ००, — छात्रहितकारी ७५०, — भा भ.  
 = ००  
 —नी नर्त चिकित्सा लुई कूने छात्रहितकारी २००  
 —नी नर्तन चिकित्सा प्रणाली लुई कुने छात्रहितकारी  
 ६००  
 —नी नरन चिकित्सा मोदी विठ्ठलदास. परि स ४  
 आरोग्य ८००, — छात्रहितकारी ४००  
 —नी नरल प्रकृतिक चिकित्सा हीरालाल निरोगी ७००  
 नेचक और नरल खेल जौहरी, राजकुमार जान भारती  
 २५०  
 —क्याए धानी, योगराज आत्माराम १५०  
 —क्याए शर्मा रामकृष्ण. ना प्र ०७५  
 —कहानिया प्रघात औरिएटल ०७५  
 —कहानिया हसराम 'रहवर', सपा साहनी ३००  
 —लोक क्याए छात्रहितकारी १००  
 रोडियो की वर्मा खरे, नर्मदाप्रसाद लोक चेतना २००  
 रोटी पाठक अननूयाप्रनाद राष्ट्र पु भ १००  
 रोटी शर्मा, बनारसीदास 'सेवक' चौधरी २५०  
 —शोर रोमाम प्रनाथ चिनगारी ३५०  
 —का मवाल ओपाटकिन, प्रिस मस्ता ३००  
 —घेटी मेहता, रमेग देहाती २००  
 —, रूप और रूपया वाजपेयी, प्रेमचंद्र आदर्श पु म १.००  
 —रोली और प्यार नुरेज पुष्पी ०७५, — नुरेद्र  
 नेडे और पत्वर देवराज राजकमल २२५  
 रोने नैना प्यारेलाल आबारा' कन्याणदान २७५  
 रोना ने आनु मेरिल्ल, हेनेन. एम चाद ५००  
 रोम का इतिहास उनाय्यात्र, अवय रा वेनीप्रनाद १५०  
 —का इतिहास प्राणनाथ विद्यालकार ना प्र सभा ३००  
 —नी गरी भोगाविया, अलदटी पुष्पी १.२५, — नुरेद्र  
 ३५०  
 —ने उतर मे न्काफ, एन्विन एच एम चाद ४००  
 रोमाकर मन्-क्याए मुस्तागजे ० भा हि प्र. र  
 ३.५० (प्र)  
 रोमा उनाय्यात्र, हरिओम नवयुग पु म. २७५  
 रोमियो इन्विट केन-नियर विनियम राजपाल २००,  
 — इतिहास १००  
 रोमन, इतिहास और रोमन ओन्तेनान्क राजकमल ५००  
 रोमन रोमन राजकमल प्रनाथ नीलाभ ०००  
 रोमन का आचार शर्मा, चहानन 'चंद्र' नदर कार्या १००  
 रोमनी की मयानी. श्रीमान्क, नी पी ना नायना ०.०५  
 रोमनपाठ शर्मा, दुर्गाप्रनाद = न लहरी विविष्ट न.  
 ०००  
 — रोनी नन्दराम मिह अलोक प्रे. १२५

रौबिन्सन कूमो चद्रगुप्त विद्यालकार यूनिवर्सिटी ०५०

## ल

- लका के मोती वर्मा, रामचंद्र नद स. ०७५  
 —दहन लक्ष्मीनारायण मिह 'ईग' ना प्र सभा २००  
 —महाराजिन ओकार शरद न्यू लिट ३००  
 —मे सीता जोशी भोनाल १००  
 —मे सीता जोशी, रामेश्वर स्वरूप १००  
 —यात्रा धर्म रक्षित कि महल १५०  
 लगडी भिन्न निवव सग्रह रोशनलाल सुरीरवाला भा प्र  
 मदिर ४.००  
 लदन की लडकिया इदिरा पुष्पी. १००  
 —पेरिस की संर शुक्ल, बेणी इ प्रे २००  
 —रहस्य. रेनाल्ड्स ४ ल चिनगारी ४०० (प्र)  
 लवे दिन की यात्रा रात मे ओ नील, यूजीन नीलाभ ३७  
 —दिन जलती राते नगर, सत्यप्रकाश राजकमल २२५  
 लबोदर त्रिपाठी शुक्ल, गिरिजादत्त 'गिरीश' स २. सा  
 सेवक ३५०  
 लकडी का काम लाडली मोहन आत्माराम २००  
 लकडी का घोडा इ प्रे ०७५  
 लकडी के दाम निकालने की जत्री ड. प्रे २००  
 लकीरें श्रीवास्तव, ओम्प्रकाश नीलाभ २.५०  
 —वोलती हैं वाजपेयी, प्रेमचंद्र आदर्श पु म १५०  
 लकडवधधा. श्रीवास्तव, जी पी ज्ञानमडल एव भा प्र मड  
 १५०  
 लक्ष्मलस शर्मा, गरोगदत्त गयाप्रसाद १००  
 लक्ष्मण-शक्ति श्रीवास्तव, राजाराम इ. प्रे ०७५  
 —शतक समाधान कवि भारतजीवन ०२५  
 लक्ष्मी गुप्त हरगोविंद म २ गृहपति ३००  
 लक्ष्मी घोष, गिरिजाकुमार गया ०७५  
 लक्ष्मी त्रिपाठी, रामनरेश ड प्रे १००  
 —कगीदाकारी लक्ष्मी देहाती ३५०  
 —का स्वागत उपेन्द्रनाथ 'अरक' नीलाभ. १००  
 लक्ष्मीनारायण मिश्र और जगद्गुरु शर्मा, देवेन्द्र विनोद  
 ३५०  
 —मिश्र के नाटक मिश्र, उमेज ना भवन, ड ४००  
 —मिश्र—चक्रव्यूह एक अध्ययन देवीप्रसाद कुमुम लायल  
 १.२५  
 —मिश्र—चतुर्भुज एक अध्ययन. देवीप्रसाद कुमुम लायल  
 १२५  
 लक्ष्मीबाई मन्वन्वाल, कचनलता कौशात्री १२५  
 लक्ष्मी मेवामदन पाठक. अननूयाप्रनाद राष्ट्र पु म १  
 —हरण नर्मा, जगदीश देहानी १२५  
 लक्ष्मीन शुक्ल, यमुनलाल. गारदा म  
 लपटकिया प्र विभाग ०७५  
 लखनऊ वाली गौड़ सरयूपडा सा. साधना. २.००

लखमा की आखे रागेय राघव. विनोद ३००  
 लगन गोविंदसिंह चिनगारी ३००  
 लगन रजीत राही मजीत ४५०  
 लगन वर्मा, वृदावनलाल. गगा २००, — — मयूर. १२५  
 लघु इतिहास प्रवेश हि भवन ५००  
 —उद्योग मार्गदर्शन भडारी, पी. एम सा प्र मदिर ८००  
 —उपन्यास और कहानिया चेखव, अ प पीपुल्स २४४  
 —कथाए राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती सस्ता १५०  
 —काव्य-प्रदीप शुक्ल, रामबहोरी हि भवन १५०  
 —कोशिनी वेदप्रकाश 'टोरी' नवीनतम  
 लघुतर शब्दसागर त्रिपाठी, करुणापति, सपा. ना प्र. सभा  
 ६.००  
 लघु शब्दसागर. त्रिपाठी, करुणापति, सपा ना प्र सभा  
 ११.००  
 —सिद्धात कौमुदी गीता ०७  
 —सिद्धात कौमुदी (सधि प्रकरण) त्रिपाठी, बाबूराम रतन  
 २२५  
 —सिद्धात कौमुदी (सधि-प्रकरण) रामकृष्ण आचार्य  
 विनोद १५०  
 —सिद्धात कौमुदी वरदराज, आचार्य रा बेनीमाधव भा १  
 ०.६०, भा २ १२५  
 —सिद्धात कौमुदी. विश्वनाथ शास्त्री मोतीलाल २००  
 —सिद्धात कौमुदी श्रीधरानंद मोतीलाल १२००  
 लज्जा जोशी, इलाचंद्र भा भ. ३००  
 लडकियो के खेल घोष, गिरिजाकुमार गगा एव प्रभात पब्लि  
 १००  
 लडखडाती दुनिया नेहरू, जवाहरलाल सस्ता ३००  
 लडखडाते कदम गोविंदसिंह सुभाष ३२५  
 —कदम भटनागर, महेद्र प्रबुद्ध, भोपाल एव स्वरूप १००  
 —कदम श्रीवास्तव, जगदीशप्रसाद सुरेद्र २००  
 लडाई के बाद वरेरकर, मामा विद्या प्र म ५५०  
 लता ब्रोअर गुलावदास हिंद पा १००  
 —कडाई कला लतारानी देहाती २५०  
 लहाख के आचल मे विष्णुदत्त कविरत्न प्रेम प्र २५०  
 —यात्रा की डायरी सज्जनसिंह, कर्नल सस्ता २५०  
 लपटे ब्रह्मदेव 'मधुर' चिनगारी. २५०  
 लपटे सागर बालूपुरी देहाती ३००  
 लपटट पिगसन की डायरी वेढब बनारसी आनंद पु, वा  
 ४००  
 लवडधोधो भट्ट, बदरीनाथ. गगा २००  
 ललकार गोविंदसिंह चौधरी ३५०  
 ललारी और नाई जैन, हरजसराय राजहस. १२५  
 ललित कथाए चतुर्वेदी, सत्यदेव हि सा सृजन १२५  
 —कला की धारा हालदार, असितकुमार चंद्रलोक ७५०  
 —निवध विश्वनाथ सिंह. . अर्चना प्र, आ ३००  
 —विक्रम वर्मा, वृदावनलाल मयूर १.७५  
 —विक्रम (वृदावनलाल वर्मा) शर्मा, अविकाचरण रतन  
 ललितागी. जैन, यादवचंद्र. सहगल. ३.७५ [२.५०

ललिता. वैश्य, रामजीदास. गगा. ३००  
 ललिता शर्मा, यज्ञदत्त सा प्र ३००  
 लल्लेश्वरी भट्ट, शभूनाथ सस्ता ०.४०  
 लवग. कुशवाहा 'कात' चौधरी ४५०  
 लव-कुश शिवसिंह 'सरोज' गगा १००  
 लवलीना. राँबिन शा 'पुष्प' ज्ञानोदय २००  
 लव स्पेशलिस्ट बाजपेयी, प्रेमचंद्र आदर्श पु म. १.५०  
 लहर. प्रसाद, जयशकर भा भ १.५०  
 — एक अध्ययन टडन, लक्ष्मीनारायण स २ हि सा. भ.  
 १७५  
 — और चट्टान विश्वभर 'मानव' कि महल २५०  
 — और चाद चौहान, देवीसिंह उदय ३५०  
 — और धारा ठाकुर, कमलेश ऐडी. २००  
 — पथी श्रीराम अधार सिंह विश्वविद्यालय. १.२५  
 — पुकारे गोपालदास 'नीरज'. आत्माराम ३००  
 लहराते आचल पडित, प्रकाश. राजपाल २००, — —  
 हिंद पा. १००  
 लहरे मीतल रूपकमल २५०  
 लहरे. राजेद्रसिंह आर्मी ३००  
 — और प्रवाह ऋषिकुमारी. प्रचा पा १००  
 — और लकीरे प्यारेलाल 'आवारा' रूपसी. ३.२५  
 — तीन, फूल एक प्यारेलाल 'आवारा' रूपसी ३.२५  
 —, माभी और किनारा सुशील रूपसी १५०  
 लहरो की गोद मे. मनोहर प्रभाकर कल्याणमल. २००  
 — की छाती पर ठाकुर, बलभद्र हि भवन ७५०  
 — के बीच मेलविल, हरमन राजपाल ३.००  
 — के राजहस मोहन राकेश राजकमल ३५०  
 — मे तीन साल जयप्रकाश नवयुग प्र २५०  
 — से पूछिए. प्यारेलाल 'बेदिल'. एस चाद ६००  
 लहलहाती खेती बदरीनारायण सिंह हि प्रचा पु. १००  
 लहसुन के गुण तथा उपयोग दीक्षित, रामसनेही. देहाती  
 ०.६२  
 — प्याज वेदी, रामेश आत्माराम. २५०  
 लहू पुकारेगा साधना सदन ३००  
 लाइट मशीन गन-ब्रेन गुरुवर्सासिंह आर्मी ०.७५  
 लाखो मामा मालवीय, हर्षदेव एस. चाद. ०५०  
 लाख ओमप्रकाश सर्वोदय ०६२  
 — की कहानी ओमप्रकाश सर्वोदय ०६२  
 — की खेती. त्रिपाठी, गयादत्त रा बेनीमाधव. ०३७  
 — की खेती रामेश्वर अशात देहाती ०.८७  
 — के प्लास्टिक बनाना कालीचरण. देहाती ०५०  
 लागत खाता सहाय, रघुवीर मोतीलाल ३००  
 — खाते की भूमिका मनमोहन प्रसाद. बुकलेड ८.५०  
 — लेखा विधि बाजपेयी, ओमप्रकाश कि महल. ३००  
 लागल भुलनिया के धक्का रामनारायण 'मधुर'. अमरावती.  
 १.२५  
 लाज. मुशी, कन्हैयालाल माणिकलाल. पैरामाऊट. २.५०;  
 — — रूपकमल. २.५०

- लाज राजन्. कन्हैयालाल ३५०  
 लाजवती वैदी, राजेन्द्रनिह नीलाभ ३७५  
 लानी ग्जीन राही मजीत २५०  
 लाटरी का टिन्ट शीकृत धानवी महगल २.५०  
 लाट नाहन गर्मा, विनोदचक्र चिनगारी १५०  
 लाठी एव शस्त्र शिक्षा 'गुप्त' 'मुमन'. भाग्योदय २५०  
 —शिक्षा जानड, यज्ञदत्त मातृ-भापा १२५  
 —शिक्षा मोहनलाल देहाती १००  
 लाटने का बलिदान प्रयात वात नदन ०७५  
 लाटने गीत मेघराज मुकुल आगा पव्लि १२५  
 लाभदायक तुर्गे तरकीबे व हुनर कालीचरण देहाती ०५०  
 नामाओं का देय भा, अवधनारायण ग्रथमाला ०६२  
 ला मेग चने का दाना जैदी, कुदसिया आत्माराम २००  
 लायमन नआदत हसन 'मटो' सहगल ३५०  
 लारेंन गीता विद्यानद सरस्वती म ३ माधन ०५०  
 लाल और पीला अहमद अय्याम, गवाजा नीलाभ ३७५  
 —बनेर ठाकुर, रवीन्द्रनाथ राजकमल २००, ११०  
 —किला उपाध्याय, कृष्णमोहन आनद पु, वा १००  
 —किला देवराज 'दिनेश' सस्ता ०४०  
 —किले की ओर कुशवाहा 'कात' चिनगारी ४५०  
 —किले की नर गर्मा, यज्ञदत्त रामप्रसाद १२५  
 लालकृष्ण गोविन्दसिंह गुल्लूप्रसाद ४००  
 लाल कोठी गोविन्दसिंह कन्हैयालाल ५००  
 लालच मे जान गई यादव, वैजनाथ राष्ट्र प्र म १००  
 लाल चीन रामवृक्ष वेनीपुरी ग्रथमाला ३००  
 —चीन के बाले कारनामे पाराशर, चिरजीलाल दि पु. स  
 ७००  
 —चनरिया गोविन्दसिंह कन्हैयालाल ६००  
 —टोरी अविचल दास १५०  
 —तारा गोविन्दसिंह कन्हैयालाल ४००  
 —तुपट्टा गोविन्दसिंह कन्हैयालाल ३००  
 —धरती. अमृतनाथ हसन २५०  
 —पजा गी, दुर्गाप्रसाद लहरी ३००, — —प्रचा पा.  
 १००  
 —पन्ने जैन, आनदप्रकाश वोग १७५  
 —पनी नोमर, अजितनारायणसिंह राष्ट्र प्र म २००  
 —पन्ना. ध्यान, हसन अनुपम ३००  
 —पानी चतुरमेन आचार्य चौपरी २५०  
 —पन्ना भा, अयोध्याप्रसाद ग्रथमाला १७५  
 —पुणे की टटनी पाटे, विनोदचक्र राजकमल ६००  
 पान्नापुर पान्नी व्यक्ति और विचार पाठक, शैलेन्द्र.  
 एन चाद २५०  
 पान्ना दास गोविन्दसिंह कन्हैयालाल २५०  
 —पिरिया गोविन्दसिंह कन्हैयालाल ६००  
 —पान्ना पद्मीनारायण गगा ०७५  
 पान्नादे धानपुरा नेशनल १००  
 पान्ना देव पुण्यलाल 'पान' चिनगारी ६००  
 —पान्ना लहरी २००

- लाल सरोवर. टालटाय सर्वोदय ०७५  
 लालसा स्टोन, ईरविंग सा सदन, दे ६००  
 लाल हथेली गोविन्दसिंह चिनगारी २५०  
 —हथेली गोविन्दसिंह कन्हैयालाल. ३७५  
 —हाथी शिवमूर्तिसिंह बत्स नेशनल १००  
 लाला जी ने भार्जी खरीदी वर्मा, लक्ष्मीकात सा भवन, इ  
 —लाजपतराय देवराज 'दिनेश' सस्ता ०४०  
 —लाजपतराय सत्यप्रकाश इ पव्लि १००  
 —हरदौल व्यास, कृष्णानन्द 'वेआस' वेआस २५०  
 लाली रामध्यान सिंह 'रौद्र' कन्हैयालाल ३००  
 लावण्यमयी दीपक शारदा म ३५०  
 लावनी ब्रह्मज्ञान काशीगिर बनारसी परमहंस श्यामलाल  
 २००  
 —ब्रह्मज्ञान बनारसी बडा बनारसीदास देहाती ४००  
 लावारिस गोविन्दसिंह आदर्श पु म २७५  
 लिंकन-वाणी वात्स्यायन, सच्चिदानन्द हीरानन्द 'अज्ञेय'  
 इ प्रे २७५  
 लिंविस्टिक सर्वे आफ मानभूम ऐड सिंहभूम विश्वनाथ  
 प्रसाद वि राष्ट्र ४५०  
 लिखने की स्याही बनाना कालीचरण देहाती ०५०  
 लिख-लिख भेजत पाती गोपालदास 'नीरज', सपा आत्माराम  
 २००  
 लिच्छवियों के अचल मे जैन, जगदीशचन्द्र नेशनल ३५०  
 लिजा तुर्गेनेव मित्र २५०  
 लिपि विकास मेहरोत्रा, राममूर्ति सा रत्न भ ०७५  
 लिली त्रिपाठी, सूर्यकांत 'निराला' गगा २५०  
 लीक पर आनद, जगमोहनलाल, अनु आनद प्र १५०  
 लीला गुप्त, मैथिलीगणरा सा सदन, चि २००  
 —कमल जानकीवल्लभ शास्त्री मगध २५०  
 लुडकते पन्थर गुरुदत्त ओरिएटल ६००  
 लूवर बरवैक वीटी, जान वाई. एस चाद १५०  
 लेखक का नपना विद्यार्थी, रमेन्द्रप्रसाद सिंह विद्यार्थी  
 —की वीवी गौड, सरयूपडा चौधरी २५०  
 लेखन कला गर्ग, दमयती रीगल ४००  
 —कला वाजपेयी, किशोरीदास रा वेनीमाधव १५०  
 —कला और आदर्श निवध चतुर्वेदी, सीताराम कल्याणदास  
 ४००  
 लेखनी उठाने से पूर्व भारतीय कि महल २००  
 —बेला मित्र, वीरेन्द्र भा जानपीठ ३००  
 लेख प्रवध. शिवनदनप्रसाद सिंह पु भ, रा भा १ १२५;  
 भा २ १५०  
 लेखाकर्म के सिद्धांत बल्लुआ, पन्नालाल . रा वेनीमाधव  
 ७००  
 लेटी चैटरली का प्रेमी लारेंस, डी एच राजरजना (पा)  
 ३००  
 लेडीज दम्ती कडाई कृष्णमोहन देहाती २५०  
 लेडी डाक्टर लक्ष्मीनारायणलाल पुष्पी (पा) १००,  
 — —मुरेद २००, (पा) १००

- लेडी डेजी क्रास और लोपस्टिच रानी देहाती ० ७५  
 लेथ वर्क (खराद गाइड) कालीचरण देहाती ७ ५०  
 लेन-देन चट्टोपाध्याय, शरदचंद्र इ. प्रे ३ ५०, — —  
 कन्हैयालाल ५ ००  
 लेनिन मदान, इन्द्रनाथ राजकमल १ ००  
 लेनिन राहुल साकृत्यायन पीपुल्स ३ ५०  
 —और गांधी यशपाल ज्ञान प्र. १० ००  
 —की जीवन भाकी पीपुल्स ० ३७  
 —की स्मृतिया पीपुल्स ० ३७  
 —के सस्मरण जेटकिन, कलारा. पीपुल्स १ २५  
 —विषयक सस्मरण पीपुल्स ० ५६  
 लेफ्टिनेंट चगताई, अजीमबेग छात्रहितकारी १.७५; — —  
 पुष्पी १.००, — —सुरेद्र २ ५०  
 लैप पोस्ट बाजपेयी, प्रेमचंद्र आदर्श पु. म. १ ५०  
 लैला प्रेमचंद्र. सरस्व प्रे. १ ००  
 लोई का ताना (कबीर) रागेय राघव विनोद ३ ००  
 लोक अर्थशास्त्र. रस्तोगी  
 —अर्थशास्त्र. गौड, ए पी. सा भवन, आ ११.२५  
 —अर्थशास्त्र बाजपेयी, एस. आर कि घर, का.  
 —अर्थशास्त्र सुदरम्.. रतन १३ ००  
 —अर्थशास्त्र हैलन, योगेशचंद्र. केदारनाथ ८ ००  
 —कथाए आनदकुमार. राजपाल. १ २५  
 —कथाए. कोहली, द्रोणावीर. राजकमल १ २५  
 —कथाओं की कुछ प्ररुढिया सहल, कन्हैयालाल रामप्रसाद.  
 ३ ००  
 —कथाओं मे हास्य चौधरी १ २५  
 —कथा-कोश शर्मा, नलिनविलोचन वि राष्ट्र ० ३२  
 —कला निबधावली ३ भा भा लोक-कला. ३.०० (प्र ),  
 भा. १-२ अप्रा.  
 —गाथा-परिचय शर्मा, नलिनविलोचन वि राष्ट्र ०.२५  
 —गीत सग्रह गैरोला, वाचस्पति न्यू लिट ० २५  
 —गीतो की सामाजिक व्याख्या श्रीकृष्णदास सा भवन, इ.  
 ४.००  
 —जीवन और साहित्य शर्मा, रामविलास विनोद. ३ ५०  
 —तत्र का जन्म विवेकप्रसाद सर्व-सुलभ.  
 —तत्र का लक्ष्य इन्द्रचंद्र शास्त्री सस्ता ४ ५०  
 —तांत्रिक विकेद्रीकरण क्या है ? जोशी, सुमनेश ... यग  
 मैन. ३ ००  
 —तांत्रिक समाजवाद मेहता, अशोक अ भा सर्व १ ५०  
 —धर्मी नाट्य परपरा परमार, श्याम हि प्रचा पु. ५ ००  
 —नाटक श्रीवास्तव, सूर्यदेवनारायण भा प्रौढ ३ ००  
 —निर्माण केद्रीय ० ७५  
 —नीति भावे, विनोवा सशो स अ भा सर्व २ ००  
 —नीति और राष्ट्रीयता वर्मा, कन्हैयालाल नद. अ एव  
 नद स. १ ५०  
 —परलोक भट्ट, उदयशकर राजकमल ३ ५०  
 —परलोक का सुधार. गीता. भा. १-२. ० ३७ (प्र ), भा.  
 ३-५. ०.५० (प्र.)

- लोक परलोक सुधार विद्यार्थी, दीवानचंद देहाती १ २५  
 —प्रशासन (प्रश्नोत्तर). कौशल, शकुतला सशो स २.  
 मालवीय ४ ७५  
 —प्रशासन. चतुर्वेदी स. २ रस्तोगी ८ ००  
 —प्रशासन वेदप्रकाश सिंह आत्माराम. १० ००  
 —प्रशासन शर्मा, बृजमोहन दि पु स ७.५०  
 —प्रशासन के सिद्धांत. निगम, सालिगराम कि महल  
 ७.५०  
 —प्रिय उर्दू गजले पंडित, प्रकाश, सपा हिंद पा १ ००  
 —प्रिय साहित्य सामग्री की व्यवस्था भा प्रौढ ५ ००  
 —प्रिय हिंदी कवि शर्मा, विजयकुमार त्रिवेणी. ६ ००  
 —भाव या आत्मबल भगवानदीन, महात्मा अ. भा सर्व  
 ०.५०  
 लोकमान्य. रामबालक शास्त्री. हि प्रचा. पु २ ००  
 —तिलक चतुर्वेदी, राजेश्वरप्रसाद विनोद ३ ००  
 —तिलक. देशपाडे, पाडुरग गणेश सस्ता २ ५०  
 —तिलक देशपाडे, भी गो. राष्ट्र प्रचा. समि ३ ००  
 —तिलक पाडे, नारायणदत्त हि पु म. ०.७५  
 —तिलक. शर्मा, श्रीराम आत्माराम १.५०  
 —तिलक सवसेना, शकरसहाय शिवलाल ०.७५  
 —तिलक और उनका युग इद्र विद्यावाचस्पति सस्ता ४ ५०  
 —लिकन वुड, लार्ड चार्न एस. चाद ४ ५०  
 लोक-रहस्य चट्टोपाध्याय, बकिमचंद्र श्री प्रभाकर. २.००  
 लोकल रेडियो सेट वेदप्रकाश देहाती १ २५  
 लोक लाज खोई. सुरेद्रपाल नीलाभ ५ ००  
 —विजय सतराम विश्वेश्वरानंद ३ २५  
 —वित्त हिवस एस चाद ७ ५०  
 —वित्त. हैलन, योगेशचंद्र केदारनाथ ६ ५०  
 —वित्त की अर्थनीति टेलर एस चाद  
 —व्यवहार. सतराम डी. वी तारापोरवाला. ६ ००  
 —शाही कैसे लाये ? परीख, हरिवल्लभ. अ भा. सर्व. ०.३०  
 —सपर्क सिद्धांत और साधन राजेद्र पजाव यू  
 —साहित्य आकार-साहित्य-सूची शर्मा, नलिनविलोचन.  
 वि राष्ट्र ० ५०  
 —साहित्य एक निरूपण बोडा, रामचंद्र नवयुग ग्र कु  
 ३ ००  
 —साहित्य की भूमिका उपाध्याय, कृष्णदेव सा भवन, इ  
 ७ ५०  
 —साहित्य विज्ञान सत्येद्र शिवलाल. १५ ००  
 —स्वराज्य जयप्रकाश अ भा सर्व ० ५०  
 लो कहानी सुनो गोयलीय, अयोध्याप्रसाद भा ज्ञानपीठ २ ००  
 लोकायतन पत, मुमित्रानदन राजकमल २५ ००  
 लोकायन उपाध्याय, चितामणि. मगल ४ ००  
 लोकास्ट हार्डसिंग टैविनक मित्तल, एच आर देहाती ५ २५  
 लोको का युद्ध. वेल्स, एच जी राजपाल ४ ००  
 लोकोक्तिया व्यथितहृदय रा वेनीमाधव ० ६२  
 —और मुहावरे वहादुरचंद शास्त्री. स. १४ हि भवन. १.३७  
 —तथा मुहाविरे श्यामसुंदर सिंह. कालेज. ०.४०

- लोकोक्ति रत्नमाला हरिदत्त शास्त्री, गयाप्रसाद ०७५  
 लोकोक्ति रत्न कामुदी शिवदास कवि भारतजीवन ०५०  
 लोको गाड्ड रत्ता, हरिचन्द आत्माराम १०००  
 लोकोमोटिव वाक्त्र मेटिंग रत्ता, हरिचन्द. आत्माराम ७५०  
 लोकोमोटि फिटर गाड्ड रत्ता, हरिचन्द देहाती १५००  
 लोटा राम. गुप्त, विद्याचलप्रसाद साधना म २५०  
 लोपामुद्रा. मुग्गी, क मा नवयुग प्र ६५०, — — राजकमल ५००  
 लोफर अग्रवाल, युगल पुष्पी ०७५, — — सुरेन्द्र २५०  
 लोभ का फल और दूसरी कहानिया कौशल, रामस्वरूप आत्माराम २००  
 — बुगी बला बालकृष्ण नेशनल ०७५  
 लो, भाई ! पचो ! ! लो ! ! ! वर्मा, वृ दावनलाल मयूर ०७५  
 लोमड़ी का माम वर्मा, केशवचन्द्र कि महल २००  
 — नयानी गर्ग, किशोर स २ रानी १५०  
 लोमहर्षिणी मुग्गी, कन्हैयालाल माणिकलाल राजकमल ५००  
 लोरिया वर्मा, लक्ष्मीदेवी गगा ०७५  
 लोरी और प्रभाती सकसेना, शम्भूदयाल नवयुग प्र कु ७००  
 लोहरी शिक्षक विश्वकर्मा, बाबूलाल श्री प्रभाकर १५०  
 लोहासिंह काश्यप, रामेश्वरसिंह राष्ट्रीय प्र मडल ३००  
 लोहिया वर्मा, रजनीकांत रश्मि १५०  
 — लोकमभा मे वर्मा, रजनीकांत रश्मि १००  
 — सिद्धांत और कर्म केलकर, इद्रुमति नर्वहिद १०००  
 लोहे की कहानी जनक अरविंद विद्या प्र भवन १२५  
 — की दीवार के दोनो और यशपाल विप्लव ७००  
 — के पल श्रीवास्तव, हिमाशु ज्ञानपीठ ७२५  
 लौकिक सस्कृति साहित्य कीथ, ए वी चौखवा लीट के बुद्ध घर को आये गर्मा, जगदीश देहाती १२५  
 लौटती लहरो की वासुरी अग्रवाल, भारतभूषण राजपाल ३००  
 लौटरी का टिकट चैतव, एन्टन रामलोचन (पा) १००  
 लौटे हुए मुमाफिर कमलेश्वर हिंद पा १००  
 लोह कपाट जगमघ कि महल ३५०  
 लोहित्य और नीलाचल बरवा, हेम असम एव हिं प्रचा पु ३५०

## व

- वचना श्रीवास्तव, प्रतापनारायण जिज्ञाना ७००  
 वचिता मिश्र, उमेशचन्द्र ३ प्रे ३५०  
 वदना प्रोभा, चन्द्रमुनी 'मुमा' ३ प्रे २००  
 वरप. श्रीवास्तव, प्रतापनारायण एम चाद १०००  
 — ई चोन हन्किष्णु 'प्रिमी' आत्माराम २५०  
 वदे महापुरुषने चर्याविदम् पालीवाल हरिदत्त 'निर्भय' भारता साधना ३५०

- वदेमातरम् बहोरे, रवीन्द्रनाथ 'अज्ञात' वीणा कमल ४००  
 वदेमातरम् सुखतनकर औरिएट १७५  
 वदे वाणी विनायकौ रामवृक्ष वेनीपुरी आत्माराम ३००  
 वध्या शर्मा, विश्वभरनाथ 'कौशिक' विनोद ३००  
 वश-वल्लरी. गुप्त उर्मिलाकुमारी हिं. सा स ३७५  
 वशानुक्रमविज्ञान इ प्रे १५०  
 वशीरव डालमिया, दिनेशनदिनी नद ब्र एव नद स १००  
 वक-सहार गुप्त, मैशिलीशरण सा सदन, चि ०५०  
 वक्तृत्व-कला माथुर, कृष्णगोपाल मिश्र-वधु २५०  
 वक्रोक्ति और अभिव्यजना वर्मा, रामनरेश ज्ञानमडल ४५०  
 वग्धराज वच्छराज बालकृष्ण. नेशनल ०७५  
 वचन साहित्य परिचय अ भा सर्व ४००  
 वचनिका रघुवीर सिंह राजकमल १०००  
 वज्रघोष राजबहादुर सिंह सा सदन, दे २००  
 वट-पीपल रामधारी सिंह 'दिनकर' उदयाचल. ३००  
 वतन की राह मे जनक अरविंद दास ०७५  
 — के गीत नसीर फरीदी, शाह विनोद ४००  
 वत्कल सकसेना, शम्भूदयाल नवयुग प्र कु १५०  
 वत्सराज जगन्नाथ प्रभाकर रणजीत १.५०  
 वत्सराज भा, रमेशचन्द्र चौधरी २५०  
 वत्सराज मिश्र, लक्ष्मीनारायण स न हिं भवन १७५  
 वदेही-वनवास उपाध्याय, अयोध्यासिंह 'हरिऔध' हिं सा. कु ३५०  
 वधु या प्रियतमा मैत्रा, अनिलचन्द्र पारिजात प्र वन उपवन के पक्षी चतुर्वेदी, जगपति कि महल २.००  
 — और समुद्र २ भा एस चाद  
 — कुसुम वद्योपाध्याय, अनादिधन इ प्रे ०५०  
 — के मन मे सिन्हा, योगेन्द्रनाथ आत्मागाम २५०  
 — के वासी भा, अयोध्याप्रसाद ग्रथमाला ०७५  
 वनचर. तरणभाई सर्वोदय सा ३००  
 वन-पाखी गुरुवचनसिंह प्रचा पा १००  
 — महोत्सव सर्वोदय १५०  
 वनमाला भारद्वाज, कृष्णदत्त औरिएटल १५०  
 वनमाला सरस्वती सदन 'कैफ' प्रचा पा १००, — — हिं प्रचा पु ३००  
 वनराज के राज मे विराज आत्माराम ४००  
 वनलक्ष्मी सिन्हा, योगेन्द्रनाथ हम २७५  
 वन वाटिका के पक्षी चतुर्वेदी, जगपति कि महल २.००  
 वनवास श्रीवास्तव, राजाराम इ प्रे १००  
 वनवासी गुरुदत्त हिंद पा १००  
 वन-वैभव गुप्त, मैशिलीशरण सा सदन, चि ०५०  
 — सपदा तिवारी, रामचन्द्र सस्ता ०४०  
 वनस्थली सच्चिदानन्द सिंह अभिज्ञान १००  
 वनस्पति की कहानी चतुर्वेदी, जगपति कि महल २००  
 — विज्ञान जोशी, शकरराव. न्यू लिट १५०  
 — विज्ञान टडन, सतप्रमाद रा वेनीप्रसाद १.२५  
 — विज्ञान. लासन... एस चाद. १०.५०

- वनस्पति विज्ञान विद्यार्थी, आर. डी. श्रीराम मेहगा. ३००  
 —विज्ञान. सारभाई. . रत्न  
 —विज्ञान परिचय. राय, एस के स. ५. भा भा प्र १.८७  
 —शास्त्र अग्निहोत्री, रमेगचंद्र मिश्र-बधु भा १ ४००,  
 भा २ ३००  
 —शास्त्र. दत्त, ए सी. . अर ६०० (प्र)  
 —शास्त्र धर्मनारायण कि. महल ७५०  
 —शास्त्र मक्सेना अपर  
 वन हमारी मपति है सच्चिदानंद सिंह अभिज्ञान. ०.७५  
 वन्य-जातियों की लोक-कथाएँ अवस्थी, राजेद्र 'तृपित'.  
 आत्माराम. १५०  
 वरदान प्रकाश 'भारती' भा सा सदन ३००  
 वरदान प्रेमचंद सरस्व प्रे. ३००, — —हस २५०  
 वरदान प्रेमनाथ 'परदेशी' ग्रथमाला १७५  
 —के फल शिरीष जवाहर २५०  
 वरमाला पत, गोविंदवल्लभ गंगा १५०  
 वरागचरित्र श्री भा दिगवर. ७००  
 वरातचरित जटासिंह नदि भा ज्ञानपीठ ३००  
 वरुण के बेटे नागार्जुन कि महल ३००, — —रूपसी  
 (पा) १००  
 वर्कशाप गार्ड कल्याणदास २५०  
 —गार्ड (फिटर ट्रेनिंग) देहाती ३००  
 —प्रैक्टिस गर्मा कृष्णानंद देहाती १०.००  
 वर्ग सघर्ष कृपलानी, जे. वी अ भा सर्व ० ६२  
 वर्ग गीतिका मत, जाता बाल सदन १००  
 —, जाति और धर्म फूलचंद्र सिद्धातशास्त्री भा ज्ञानपीठ  
 ३००  
 —व्यवस्था गांधी, मोहनदास करमचंद नवजीवन १५०  
 वर्तमान आर्थिक स्थिति कुमारप्पा, जे सी अ. भा सर्व.  
 २.००  
 —भारत विवेकानंद, स्वामी. म. ५ श्रीरामकृष्ण ० ५०  
 —यूरोप का मद्रिप्त इतिहास जगतनारायण कि महल  
 १५०  
 वर्तमान गर्मा, अनूप भा ज्ञानपीठ ६००  
 वर्मा एलोपैथिक गार्ड वर्मा, रामनाथ म ६ मोतीलाल  
 १०००  
 —एलोपैथिक चिकित्सा वर्मा, रामनाथ मोतीलाल  
 १०.००  
 —एलोपैथिक योग रत्नाकर वर्मा, रामनाथ मोतीलाल.  
 १३००  
 —जी और मृगयनी दीक्षित, श्यामसुंदरनाथ लक्ष्मी ना.  
 २.७५  
 —जी और 'ललित विक्रम' चौहान, रामगोपाल सिंह. विनोद  
 १.५०  
 वर्ग के व्रत और त्योहार दाम. रामदास. देहाती ४५०  
 वर्धा न के गुरु गुरु, रामेश्वर 'रत्न'. भा भवन. ३ ३००  
 वर्धा न है. भारतदाम जे राजकमल. ० ६०  
 —वर्तार. रामसेवक भारतजीवन ०.२५

- वल्कल की कविताएँ दीक्षित, रत्नमयीदेवी, अनु. सा  
 अकादमी २.५०  
 वल्लरी नरोत्तमदास स्वामी नवयुग प्रं कु. १५०  
 वशिष्ठ और वाल्मीकि लोहिया, राममहोहर नवहिंद. ० १  
 वसंत चतुर्वेदी, सीताराम. स २. अ भा विक्रम १००  
 —और पतझड़ वाजपेयी, उमाशंकर 'उमेश' गंगा २५०  
 —फिर आयेगा निर्मम भारतेदु भवन ६.५०  
 —मजरी तुर्गनेव ज्ञान प्र. ३५०  
 वसती भूमि के हजार मील. याग शुभ्रो राष्ट्रीय प्र मंदिर.  
 ४००  
 वसीयत श्रीकृष्ण सस्ता ० ४०  
 वसुधरा वाजपेयी, गुलावरत्न अशोक पु म ४५०  
 वसुनदि श्रावकाचार वसुनदि, आचार्य, भा ज्ञानपीठ ५००  
 वसुमति. दिवाकर भारतजीवन ० २५  
 वस्तु चित्रण. टडन, आर एन म. ५ भा भा. प्र २.५०  
 वस्तुचित्रण कला प्रवेश रामावतार चेतन स २. हि भवन  
 १५०  
 वस्त्र-विज्ञान व्होरा, आशागानी आत्माराम ६५०  
 —शिल्प पांडेय, कृष्णकांत हि प्रचा पु २५०  
 वस्त्रोत्पादन कला श्यामनारायणलाल २ भा. हि प्रचा पु  
 २५० (प्र)  
 वह ठाकुर, रवींद्रनाथ चौधरी २२५  
 —कौन था ? जेफर, जैक स्टार (पा) १००  
 —कौन थी ? इदिरा 'नूपुर' चंद्रलोक ३५०  
 —कौन थी ? ड्यूमा, अलेक्जेंडर. ज्ञान प्र ५००  
 —कौन थी ? ड्यूमा. अलेक्जेंडर. अपर. ३ ७५, — —  
 प्रभात पब्लि ३ ७५  
 —जो मैंने देखा भट्ट, उदयशंकर. अवध भा. १ ३५०,  
 भा २ ०२  
 —जो होना था जैन, गदवचंद्र एम. चांद ४००  
 —पत्र बधु या मेहता, नरेंद्र हि अ २ १२५०  
 —पागल चतुर्वेदी, नर्मदेश्वर, अनु. सा भवन, उ १.५०  
 —फिर नहीं आई वर्मा अगवतीचरण राजकमल. २२५  
 —भाग गई नोमनाथ 'अकेला' वर्मा ३००  
 —मा थी ? नुथीर 'वीरज' अशोक पा १.००  
 —नपेर या उपाध्याय, श्याममोहन आनंद पु, वा. १.००  
 वही देश है. मिश्र, गंगाधर राष्ट्र प्र म १२०  
 वाच्य विच्छेद वाटिका वर्मा भूदेव 'चितक' भा प्र. मंदिर  
 ० ७५  
 वाग्विलास द्विवेदी, महावीरप्रसाद पु न ३.००  
 वाङ्मय-दिग्दर्श. मिश्र. विश्वनाथप्रसाद. नद म. ७.००;  
 — —मयो न ४. हि सा कु. ७००  
 —द्विवेक नित्यानंद... दाम १००  
 वाङ्मयगर्भव वर्मा, पांडेय रामावतार. ज्ञानमंजु  
 नरुमदी अश्वप्रसाद 'गुप्त'. भा. प्र मंदिर २.००  
 वाङ्मयप्रदीपक श्री. ट. आनंदप्रसाद नेज्जत ३.००  
 वाङ्मय वनना मीनो जैन, आनंदप्रसाद आत्माराम ३.००  
 —विज्ञान. हरिदास महयोगी. नद अ. एव नद. म २२५



वाणिज्य अयंगर. अग्रवाल, अमरनारायण कि महल  
 ५५०  
 —अयंगर देरात्री, नत्यदेव लक्ष्मी ना ५५०  
 —अयंगर मित्तल, सतीशचंद्र रतन १७५  
 —अयंगर के मूल आधार केदारनाथ ८००  
 —अयंगर के मूल आधार गौड, कृपाशंकर केदारनाथ.  
 ४६४  
 —अयंगर परिचय तैला . कृष्णा व्र. ५००  
 —एक औद्योगिक मन्त्रियम दिवाकर, सुशीलकुमार स. २.  
 रा वेनीमाधव ५००  
 —के मूल तत्व मन्मेना, एस सी आगरा बुक १०००  
 —गणित पटेल, ए जी सरदार ३००  
 —प्रणाली महरोना, वी एन यूनिवर्सिटी ६००  
 —भूगोल सन्मेना, शंकरमहाय रा वेनीमाधव ७००  
 —भूगोल प्रवेशिका दुबे कि महल २००  
 —नेल और अपठिन शिवध्यानसिंह गयाप्रसाद ३५०  
 —विधान राठी, एस एस केदारनाथ ३००  
 —विधि रोहतासी, के वी फ्रैंक ८००  
 —विधि की रूपरेखा कामताप्रसाद नाँवल्डी. १०२५  
 —विधि की सकलित समस्याए कामताप्रसाद नाँवल्डी  
 १००  
 —विधि के तत्व मनमोहन प्रसाद बुकलेड १०००  
 —व्यवसाय प्रवेशिका चतुर्वेदी, शिवसहाय हिं पु ए १००  
 —शब्द कोष गंग, कातानाथ कि महल १५०  
 —नन्त्रियम. सक्सेना, एम भी रस्तोगी ५००, ७५०  
 वाणिज्यिक पत्ररचना मजुमदार, एम बुकलेड २५०  
 —विधि शुभल, मेहरचंद एम चांद भा १७५०, भा २  
 ३७५  
 वाणी पत, मुमिजानदन भा ज्ञानपीठ ४००  
 वाणीप्रकाश नद म १५०  
 वाणी प्रकाश रामवालक शास्त्री नद २ १००  
 —त्रिनाथ भा १ भजभारतीम् रामवालक शास्त्री हिं  
 ना मम्मे ०५०  
 जान, गठिया तथा लकवा रोग चिकित्सा मिश्र, सरस्वती  
 प्रसाद मेडिकल १००  
 जानाथन चतुर्वेद, आचार्य नाथना सदन ३००  
 जानाथन राम-मून रामगुनील सिंह, अनु सुभाष ५००  
 जान विनाद और ध्यानान प्रवेशिका तिवारी आदर्श पु  
 म २५०  
 —नमीशा रतन, कन्हैयालाल आत्मराम ०७५  
 जान गीत एक भद्र विरवभरनाथ, मया मगीत ३००  
 जान की चतुर्वेद विद्यानराम राजपाल ३५०  
 जानकी नौगाथा, निन्त्रियम राजकमल. ३००, (पा) १००  
 जानकी रामगुमान हिं पा १००  
 जान नामे गुन्दन भा ना सदन ८००  
 जानकी मेडिको गार्ड नरेन्द्र, देहाती. ८२५  
 जान की रानी श्रीमान्दव, भगवतीप्रसाद भा प्र मंदिर  
 ०.५५

वायु महापुराण त्रिपाठी, रामप्रताप, अनु हिं  
 १२००  
 —महासागर की खोज फारेस्टर, फ्रेक एच  
 २००  
 वायुयान सक्सेना, काति राजकमल २००  
 —की कहानी राजपाल २००  
 वाराणसी से लदन जैन, महेंद्र राजा चौधर  
 वार्ड न चार आदर्श पु म. २५०  
 वार्ता साहित्य एक वृहत् अध्ययन टड्डन, ह  
 प्र मंदिर १५००  
 वार्निश एड पेट इडस्ट्री कालीचरण देहाती  
 —वनाना कालीचरण देहाती ०५०  
 वापिक प्रार्थनाए श्रीमाताजी श्रीअरविंद  
 वालिशितया ताजवर सामरी नेशनल.  
 वालीवाल कैसे खेले इद्रसिंह 'भूकप' जिज्ञार  
 वाल्तेयर देवीप्रसाद पीपुल्स. १५०  
 वाल्मीकि शर्मा मुकुन्ददेव नद व एव नद  
 —तुलसी भये सफडिया, भगवानदास मा  
 —रामायण श्री रामायण १०००  
 —रामायण आनंदकुमार राजपाल ३००  
 —रामायण विश्ववधु, आचार्य, सपा ७२  
 विश्वेश्वरानद. १००० (प्र)  
 —रामायण केवल भापा श्यामलाल १०  
 —रामायण सार वर्मा, धीरेन्द्र भा भ २  
 वाल्मीकीय चित्रावली रामायण श्री रामाय  
 —रामायण भापा हिं प्रचा पु २०००  
 —सूदर कांड श्री रामायण ३००  
 वासती द्विवेदी, सोहनलाल अवध २००,  
 २३१  
 वासना दास्तोवस्की राजपाल ३५०  
 वासना का जहर सूर्या कमलानी कि मह  
 वासना के स्वर उपेन्द्रनाथ 'अस्क' हिंद पा  
 वासना भरी वाहे अग्रवाल, युगल आदर्श  
 वासना भरे आचल, अग्रवाल युगल पुष्पी  
 सुरेन्द्र २००  
 वासवदत्ता द्विवेदी, सोहनलाल इ प्रे ४५  
 वासवदत्ता वर्मा, भगवतीचरण भा भ ३  
 वासवदत्ता सुवधु मस्ता ०.४०  
 वाह रे आसू गुकदेव सिंह 'सौरभ' सन्मा  
 —रे पाजामा जहूरवन्शा मिश्र-वधु ०७  
 —रे मैं वाह ! मृगी, कन्हैयालाल माणिक  
 ४५०  
 —रे हम जहूरवरज मिश्र-वधु ०.७५  
 वाह्य प्रयोग औपचिया मेडिकल १००  
 विध्यप्रदेश के आदिवाणियों के लोक गीत  
 मिश्र-वधु २५०  
 —के लोकगीत जैन श्रीचंद राजपाल ०

- विध्याचल की वेटी. मनोहर प्रभाकर. कल्याणमल १ २५  
 विध्या बाबू नौटियाल, सतोषनारायण आत्माराम. २ ५०  
 विकट भट गुप्त, मैथिलीशरण सा सदन, चि ०.२५  
 विकलाग. त्रिपाठी, वाल्मीकि प्रत्यूष ६.००  
 विकार. गुरुदत्त भा. सा सदन. २.५०, (पा) १ ००  
 विकास गोविंददास, सेठ हिं. सा सम्मे ०.७५  
 विकास श्रीवास्तव, प्रतापनारायण गगा १० ००  
 —और सर्वोदय पाडेय, विद्यासागर. सा सगम, ग्वा २ ५०  
 —कार्यों में जनसहयोग किंग, क्लेरेस. नेशनल. ४ ५०  
 —की और. वर्नवाल, वी मगध ० ६२  
 —की कहानी वर्मा, रमेशचंद्र... रामप्रसाद. २ ५०  
 —के तीन चरण अमरबहादुर सिंह 'अमरेश' गगा १ २५  
 विकासवाद पत, दयानंद हिंदु एकेडेमी २ २५  
 विकासात्मक बाल मनोविज्ञान सिन्हा, राजेश्वरीप्रसाद भा.  
 भवन. ५ २५  
 —मनोविज्ञान. जायसवाल, महेन्द्रप्रसाद दि पु स ६ ००  
 —मनोविज्ञान. पाडेय, जगदानंद तारा  
 विकृत छाया गुरुदत्त भा सा सदन ५ ००  
 —मनोविज्ञान अग्रवाल, पद्मा मनोविज्ञान ६ ००  
 —रेखाए. सोलकी, कोमलसिंह कि घर ग्वा ४ ००  
 विकृतिया. भटनागर, महेन्द्र प्रबुद्ध. ० ७५  
 विकेदित अर्थरचना एक विचार सत्र का विवरण अ. भा.  
 सर्व ० ५०  
 विक्रम और उर्वशी मिश्र, ठाकुरदत्त कि महल १ ५०  
 —की कहानिया पाडेय, रघुवश ग्रथमाला ० ७५  
 विक्रमाक देव चरितम् महाकाव्यम् भारद्वाज, विश्वनाथ शास्त्री.  
 भा. १ काशी हिंदू ८ ००  
 विक्रमादित्य भट्ट, उदयशकर स ५ हिं. भवन. १.१२  
 विक्रमादित्य मिश्रवधु. गगा ५.००  
 —(सवत्-प्रवर्तक). पाडेय, राजवली चौखवा १० ००  
 —साहसक. गुरुदत्त भा. सा. सदन. ६ ००  
 विक्रमोर्वशी कालिदास सस्ता. ०.४०, — — सहगल.  
 १ २५  
 — मालविकाग्निमित्र. विराज राजपाल ३ ००  
 विक्रय कला चौधरी. मोतीलाल ५ ६२  
 —कला, विक्रय संगठन तथा विज्ञापन व्होरा... रामप्रसाद  
 ४.५०  
 —कला व्यापार संगठन एत्र विपणि वृत्त. जैन, कौशलचंद्र  
 रा वेनीमाधव ६ ००  
 —तत्त्व गुप्त, केदारराम नाँवली ४ ५०  
 —शास्त्र सार मोतीलाल. २.००  
 विचार अध्ययन अनुभूति. अमरनाथ जानालोक. ३ ००  
 —और अध्ययन सियारामशरण प्रसाद कला भा २ ५०  
 —और अनुभूति नगेंद्र नेशनल ४ ५०  
 —और भाकिया घोष, अरविंद श्रीचरविंद ० ७५  
 —और निष्कर्ष वानुदेव एस. चाद ७ ५०  
 —और वितर्क द्विवेदी, हजारीप्रसाद सा. भवन, इ. ४.००  
 —और विवेचन. नगेंद्र नेशनल. ४.५०

- विचार और विश्लेषण. नगेंद्र. नेशनल ५ ५०  
 —और समस्याए. शरण. नव सा प्र. ६ ००  
 —और समीक्षा मिश्र, अखिलेश जानालोक  
 —के प्रवाह उपाध्याय, देवराज मगल ५ ००  
 —चित्र शर्मा, सुरेद्र. रामप्रसाद ० ६४  
 —तरंग अरवस्थी, सद्गुरुशरण इ प्रे ३ ५०  
 —तरंग शर्मा, दीवानचंद राजपाल २ ५०  
 —दर्पण शिवब्रतलाल. शिव सा १ ००  
 —दर्शन केदारनाथ २ भा. नवजीवन १.५० (प्र)  
 —धारा वर्मा, धीरेद्र सा. भवन, इ. ३ ५०  
 —धारा वर्मा, सुरेद्र रामप्रसाद १.५०  
 —पोथी भावे, विनोबा सस्ता १ ००  
 —प्रवाह द्विवेदी, हजारीप्रसाद हिं ग्र र ५ ५०  
 —विंदु नरोत्तमलाल 'नरेद्र' अगोक प्र २.५०  
 —वल्लरी जैनेदकुमार, सपा राजकमल २ ५०  
 —विज्ञान शर्मा, हरद्वारीलाल हिंदु एकेडेमी ४ ००  
 —विमर्श पाडे, चंद्रवली हिं सा सम्मे. ३ ५०  
 —विमर्ष अरवस्थी, सद्गुरुशरण स २. रा वेनीप्रसाद  
 १.५०  
 —सागर निश्चलदास, स्वामी व्यामलाल ५ ००  
 विचारो का प्रभाव एलेन, जेम्स छात्रहितकारी ०.५०  
 विचित्र जतु कि महल. १ ००  
 —जीव-जतु इ प्रे. १ ००  
 —जीव-जतु. दीक्षित, कन्हैयालाल. गगा. ० ७५  
 —दुनिया. भा, अयोध्याप्रसाद ग्रथमाला ० ६२  
 —देश मे. बालवधु ग्रथमाला. १ ००  
 —नकाव पोग. गुप्त, गणेशप्रसाद. कन्हैयालाल २ ००  
 —प्रवध ठाकुर, रवींद्रनाथ इ. प्रे एव चौधरी २.००  
 —योगी मौर्य, द्वारिकाप्रसाद गगा २ ७५  
 —लोक मे. बालवधु ग्रथमाला १ ००  
 —बधू रहस्य ठाकुर, रवींद्रनाथ इ प्रे २ ००  
 —सन्यासी माणिकचंद्र दि पु न. ५.००  
 —सन्यासी. मानिकचंद्र 'चित्रकार' लहरी ५ ००  
 विजडावाग पाडेय, रामजयश्री ग्रथमाला १ ७५  
 विजन के फूल खरे, इद्रबहादुर लोक चेतना. ३ ००  
 विजय श्रीवास्तव, प्रतापनारायण गगा १० ००  
 —के आठ स्तभ एलेन, जेम्स छात्रहितकारी १ २५  
 —के आलोक मे. नथमल, मुनिश्री आदर्श ना ० २५  
 —घोष नीरज. शिवलाल २ ००  
 विजयनगर-साम्राज्य का इतिहास उपाध्याय, वानुदेव. ग्रथमाला  
 ४ ००  
 विजयनी तांगडी, अन्नपूर्णा. भा ग्रथमाला ४ ००  
 विजय पर्व. वर्मा, रामकुमार रा वेनीमाधव. २ ००  
 —पर्व एक अध्ययन लायल. १.२५  
 —पर्व एक अध्ययन (रामकुमार वर्मा). भटनागर, महेन्द्र  
 कि घर, ग्वा. १ २५  
 —पर्व एक अध्ययन मिश्र, दुर्गाशंकर हिं. ना भ १.२५  
 —यात्रा. विल्डियाल, रामप्रसाद 'पहाड़ी' प्रकाशगृह १.५०

- विजय यात्रा नथमल, मुनिश्री आदर्श सा १.७५  
 —योग विद्यानंद विदेह, स्वामी वेदसस्थान ०५०  
 विजयवेलि अयवा कुरुप गोविंददास, सेठ एस चाद. ३००  
 विजया अभिाम ड प्रे १००  
 विजया. चट्टोपाध्याय शरत्चंद्र अर्चना प्र (पा) १००,  
 —गंगा ४००, —नवयुग पु भ ३२५,  
 —पुष्पी १०५, —प्रभात प्र ३००,  
 —सन्मार्ग ३००, —हि ग्र २१५०  
 —श्रीर वारुणी सकसेना, शभूदयाल नवयुग ग्र कु ३००  
 विजया प्रताप बलदेव शाम्ब्री श्री भा भारती २२५  
 —भारत उपाध्याय, भगवतशरण छात्रहितकारी ०.६२  
 —शेखर सीताशरणमिह पु भ १००  
 विजेता-आलोक मल्लिनाथ नाँवली १५०  
 ✓ विज्ञान और जीवन मनमैना, अविभाप्रसाद विनय १.००  
 —श्रीर वैज्ञानिक वर्मा, फूलदेवसहाय नाँवली १५०  
 ✓ —श्रीर व्यावहारिक ज्ञान कॉनेट, जेम्स वी आत्माराम ७७०  
 ✓ —श्रीर सभ्यता तिवारी, रामचंद्र आत्माराम ५००  
 —कला-विनोद तिवारी, हरिप्रसाद ४ भा इ प्रे ०७५ (प्र)  
 —का अद्भुत मसार फ्रीमैन राजकमल २००  
 —का रहस्य २ भा ग्रथमाला ०६२ (प्र)  
 —का सक्षिप्त इतिहास डैपियर, सर मैट्रोपोलिटन ६२५  
 —का अनोखी दुनिया राजकमल भा १ ३००, भा २ ३.२५, भा ३ ३५०  
 —की एक भलक. टडन, नतप्रसाद रा वेनीमाधव ०७५  
 —की कहानिया इ प्रे १००  
 —की कहानिया मनमोहन सरल आत्माराम ५००  
 —की कहानिया रत्नप्रकाश 'शील' शकुन १५०  
 ✓ —की कहानी, पानी की जवानी अब्दुल रज्जाक सर्वोदय ना ०७५  
 ✓ —की कहानी, मिट्टी की जवानी अब्दुल रज्जाक सर्वोदय ना ०७५  
 ✓ —की कहानी, नरज की जवानी अब्दुल रज्जाक सर्वोदय ना ०७५  
 —की कहानी, हवा की जवानी अब्दुल रज्जाक सर्वोदय ना ०७५  
 —की जान पहिचान शिवनदनप्रसाद मिह २ भा पु भ, ना ०७५ (प)  
 —की रत्न कलात्मक उ प्रे १००  
 —की प्रगति श्रीज्ञानव, भगवतीप्रसाद ज्ञानमंडल ३५०  
 —की ज्ञान चतुर्वेदी, नरेन्द्रप्रसाद शिवदान १.७०  
 —की विनयिता जोशी, बाबाय मानकचंद १०५  
 —की रत्न कलानिया जैन, धामीराम ज्ञान मंडल प्र १०५  
 —की रत्न कलानिया चतुर्वेदी, जगपति आदर्श पु म १७०  
 —की रत्न कलानिया जेम्स, नतमन ०६५

- विज्ञान के चमत्कार श्रीवास्तव, भगवतीप्रसाद परि स २, ज्ञानमंडल ३००  
 —के चमत्कार—टेलीविजन शौकतराय राय १६०  
 —के चमत्कार—वायरलेस शौकतराय राय १५०  
 —के नये चरण त्यागी, वी एन अपर एव प्रभात पब्लि ५००  
 —के पथ पर पुरुषोत्तमदास स्वामी नवयुग ग्र कु २००  
 —के पथ पर वीरेन्द्रनारायण ज्ञानपीठ ०७५  
 —के मनोरजन शरण सहगल ०६५  
 —के महारथी चतुर्वेदी, जगपति छात्रहितकारी २००  
 —गीत मिश्र, अवध भूषण राष्ट्रीय प्र मंदिर ०६२  
 —गीता केशव मातृ-भापा ३००  
 —चर्चा शर्मा, हरिशकर गयाप्रसाद. ०७५  
 —जगत् राजपाल ३००  
 —जगत देवेन्द्रकुमार, अनु हिंद पा १००  
 —, जनतंत्र और इस्लाम हुमायून कविर अमिताभ. ५००  
 —प्रकाश शर्मा, पद्यमनकृष्ण सरस्व प्रे ०६२  
 —प्रवेशिका माताप्रसाद कि महल ३२५  
 —मजूपा गौड, ब्रजविहारीलाल आदर्श पु म २५०  
 —रहस्य रामतीर्थ, स्वामी श्री प्रभाकर २००  
 —वाटिका त्यागी, भारतभूषण. गयाप्रसाद २५०  
 —विहार सक्सेना, अविभाप्रसाद विनय ०७५  
 —शिक्षण बहादुरसिंह, कुवर. कि महल ३५०  
 —शिक्षण. रावत पु भ, आ २००  
 —शिक्षण रावत, एम एस गयाप्रसाद ५.००  
 —शिक्षण रावत, डी एस विनोद ४००  
 —शिक्षण लाहिडी, रामरेणु, सपा सर्वोदय सा. १.००  
 —शिक्षण श्रीवास्तव, रघुनाथप्रसाद रा वेनीमाधव. ३००  
 विज्ञानाचार्य जगदीशचंद्र वसु कपूर, श्यामनारायण सा नि, का २००  
 विज्ञापन तथा विक्रयकला के आधारभूत सिद्धांत शर्मा, एन के आगरा बुक ५००  
 विटामिन द्वारा स्वास्थ्य जिज्ञासा १५०  
 —द्वारा स्वास्थ्य है हीरालाल निरोगी १००  
 —, हीनता-जनित रोग सुरेन्द्रनाथ अवध २२५  
 विटामिन्स चौधे, प्रियकुमार मेडिकल १७५  
 विडवना गुरुदत्त भा सा सदन ६००  
 वितरण एव राजस्व निगम, दुर्गादियाल कि महल ५००  
 —राजस्व एव भारतीय वित्त समस्या (प्रश्नोत्तर) पारागर, उमाशकर आगरा बुक ४५०  
 वित्त की लहरे मिश्र, लक्ष्मीनारायण आत्माराम २००  
 वित्त व्यवस्था (प्रश्नोत्तर) मित्तल, सतीशचंद्र लायल ५.००  
 विनीय व्यवस्था शर्मा, हरिशचंद्र सा भवन, आ विदर्भ देग की लोक-कवाए प्यारेलाल आत्माराम १२५  
 विदा शर्मा, नरेन्द्र परामाळ्ट २५०  
 विदा हृदिकृष्ण 'प्रेमी' स ४ हि भवन १७५  
 विदाई शर्मा, जगदीश. देहाती १.२५

- विदिशा की देवी जगदीशकुमार 'निर्मल' आनन्द पु., वा  
५००
- विदुरनीति गीता ०५६
- विदुरनीति द्विवेदी, राजेन्द्र देहाती १५०
- विदुषीरस अलकार पिंगल. प्रयाग ०.७५
- विदेश की जानकारी शिवनदनसिंह पु भ, रा ३८७
- मे सहकारिता निगम .. आगरा बुक ५.००
- विदेशी राज्यो की शासन विधि सत्यकेतु विद्यालकार.  
सशो स. सरस्व स ७५०
- लोक-कथाए गुप्त, सुरेशप्रसाद ग्रथ भ १००
- विद्वान् द्विवेदी, महावीरप्रसाद इ प्रे १२५।
- विदेशो के महाकाव्य गोपेश, अनु सा भवन, इ. ६५०
- मे शांति के प्रयोग साइक्स, मार्जरी अ भा. सर्व.  
०.७५
- मे शिक्षा. चौवे, सरयूप्रसाद रा बेनीमाधव. १२००
- मे सहकारिता उपाध्याय, कृष्णकुमार. कि महल.  
१७५
- विद्यादान गुरुदत्त उमेश. ३००; — —भा सा सदन.  
(पा) १००
- विद्याधर राजकुमार भटनागर, महेन्द्र स्वरूप ०५०
- विद्यापति (प्रश्नोत्तर) उर्प्रति, मुरारीलाल विनोद २५०
- विद्यापति भटनागर, रामरतन कि महल २५०
- विद्यापति मिश्र, जनार्दन, सपा रा बेनीमाधव १५०
- प्रश्नोत्तरी वाण्ये, कैलाशचन्द्र. सरस्व पु. स १.५०
- विद्यापति शिवप्रसाद सिंह हिं प्रचा पु ५.००
- विद्यापति सूर्यवली सिंह नद. स ३५०
- , एक तुलनात्मक समीक्षा. जयनाथ 'नलिन'. वसल.  
११००
- और उनकी पदावली भाटी, देशराजसिंह. हिं. सा. स.  
१८००
- और उनकी पदावली सटीक. शर्मा, कृष्णदेव अशोक प्र.  
५.००
- और चडीदास रामावतार विश्वेश्वरानन्द १३१
- का अमर काव्य. जुयाल, गुणानन्द सा नि, का २५०
- का अमर काव्य शर्मा, राजनाथ रतन ४००
- का अमर काव्य की टीका. उर्प्रति, मुरारीलाल विनोद  
१.५०
- की काव्य-साधना भाटी, देशराजसिंह हिं सा. स ५.००
- की पदावली (सटीक) रामवृक्ष बेनीपुरी पु भ ४७५
- के सुभाषित चौधरी ५५०
- के सुभाषित भा, कमलनारायण 'कमलेश' राजधानी.  
५५०
- ठाकुर मिश्र, उमेश हिंदु एकेडेमी ४००
- पदाभूत विद्यापति छात्रहितकारी ०७५
- पदाभूत का सरल अध्ययन द्विवेदी, केदारनाथ रीगल  
२००
- पदावली ख १ वि राष्ट्र, ७५०
- पदावली कंभूर, शुभकार गंगा. १५.००

- विद्यापति पदावली. कुमुद विद्यालंकार... सशो स २ रीगल.  
—पदावली बहुगुना. प्रभात पब्लि २.०० [१० ००
- पदावली श्रीवास्तव, रामचंद्र 'चंद्र', टीका. रामप्रसाद.  
५.५०
- पदावली सटीक. जोशी, जीवनप्रकाश हिं सा. स १० ००
- पद्य-संग्रह राय, सतीशचंद्र हिं सा. सम्मे ० ३७
- वैभव. जुयाल, गुणानन्द विनोद २२५
- वैभव. बडसूवाला, वीरेन्द्रकुमार एस चाद  
विद्यापीठ सकसेना, शम्भुदयाल नवयुग ग्र कु ० ६२
- विद्यार्थियो से. गाधी, मोहनदास करमचद नवजीवन २००,  
— —सा साधना. ५००
- विद्यार्थी और अगुव्रत हर्षचदजी, मुनिश्री आत्माराम २००
- क्या करे. गाधी, मोहनदास करमचद. मातृ-भाषा १५०
- जीवन गुलाबराय गयाप्रसाद १५०
- जीवन. नारायण स्वामी. सन्मार्ग. १५०
- जीवन. मुखराज. युनिवर्सिटी. ० ७५
- जीवन मे सफलता शिवानन्द, स्वामी योग वेदात.
- मित्रो से. केदारनाथ नवजीवन ० ३५
- विलोचन शर्मा, जयविजय नारायण सिंह रा. बेनीमाधव.  
१५०
- शिष्टाचार रामचंद्र भारती. देहाती. १५०
- विद्यालय व्यवस्था शर्मा, मुकुददेव नद ब्र २७५
- व्यवस्था शर्मा, वेणीमाधव. नद. स २.७५
- सगठन. शर्मा, ए आर गयाप्रसाद. ७.५०
- सगठन एव सचालन सिंह, बी डी विनोद ६.००
- विद्यालयो मे मापन एव मूल्यांकन रावत, डी एस गयाप्रसाद  
६००
- विद्याविनोदिनी पोइम कुजी पाठक, आर एन. विनोद १००
- विद्या सागर. जसवतसिंह स २. नेचर. ० ७५
- सुदर—भारतेदु हरिश्चंद्र. उपाध्याय, अवध. रा बेनीमाधव  
० २५
- विद्युत् विज्ञान. हचिन्सन एस चाद  
—विशेषज्ञ निकोला टैसला वैकहार्ड, आर्थर जे. एस चाद  
२००
- विद्योत्तमा अवतरे, शकरदेव नद ब्र एव नद स. १५०
- विद्रूप शर्मा, पृथ्वीनाथ आत्माराम ३००
- विद्रोहिणी अवा भट्ट, उदयशकर आत्माराम २००,  
— —राजकमल. २००
- विद्रोही आत्माए खलील जिब्रान. नवयुग प्र २५०, — —  
दोरा २७५
- वानपुर गोस्वामी, वासुदेव गोस्वामी. १ २५
- सरदार. पथिक चौधरी. २००
- सुभाष कुशवाहा 'कात' गुल्लप्रसाद एव चिनगारी ५५०
- विधवा पाडेय, रामाचार्य राष्ट्र प्र म. ०.७५
- विधवा शर्मा, जगदीश देहाती १ २५
- कुमारी वरेरकर, मामा विद्या प्र म ४५०
- विधाता का विधान श्रीवास्तव, प्रतापनारायण गंगा ३५०
- की भूल. गर्ग, पन्नालाल. कि. महल. २.००

विधिवत् मचिन्ध्रवाक्य प्रतिक्रमण नथमल, मुनिश्री. अ भा  
अग्रगुणत ० ६३  
विधि-विधान नहरी ३५०  
विनय पत्रिका. तुलसीदास, गोस्वामी रा वेनीप्रसाद ३५०  
—पत्रिका द्विवेदी, देवनारायण ज्ञानमडल  
—पत्रिका पोद्दार, हनुमानप्रसाद, अनु गीता १००  
—पत्रिका भगवानदीन 'दीन', लाला रा वेनीप्रसाद.  
३५०  
—पत्रिका भट्ट, रामेश्वर, टीका इ प्रे ४००  
—पत्रिका (सटीक) रामलोचनशरण, सपा पु भ ७००  
—पत्रिका (प्रश्नोत्तर) शर्मा, रामगोपाल 'दिनेश' विनोद  
२५०  
—पत्रिका अनुशीलन गुप्त, शिवस्वरूप नवयुग पु. भ १५०  
—पत्रिका की भूमिका गगा ० ७५  
—पत्रिका दर्शन चतुर्वेदी, तपेशकुमार विनोद २५०  
—पत्रिका प्रश्नोत्तरी अग्रवाल, कृष्णस्वरूप सरस्व पु स.  
१५०  
—पत्रिका-समीक्षा पाठक, दानवहादुर हि सा स ४६२  
विनाश के वादल श्रीवास्तव, प्रतापनारायण हिंद पा. २००  
विनाशाय च दुष्कृताम् सा सदन, दे  
विनिमय का मिह्रात. मेहता, जे के एस चाद १५०  
—, वितरण, मुद्रा, वैकिंग तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के  
मिह्रात परमार, एस एल गर्ग व्र ७.५०  
विनीता मायूर, वसंतकुमार हिदिया ६५०  
विनोद और व्यंग अकबर भा भ ४००  
विनोत्रा सिरोठिया, शकुंतला कि महल ० ७५  
—श्री भूदान सुरेश रामभाई सस्ता ० ४०  
—की ज्ञान गगा मे दरवार, ज्ञानवती अ भा. सर्व एव  
रजन २५०  
—की पाकिस्तान यात्रा चौधरी, चारु अ भा सर्व. २५०  
—की बोध कथाए भावे, विनोवा सस्ता १.५०  
—के जगम विद्यापीठ मे दिवाण, कुदर सस्ता २५०  
—के पत्र वजाज, रामकृष्ण, मपा सस्ता ४००  
—के पत्र भावे, विनोत्रा अ भा सर्व २००  
—के पत्र वजाज परिवार के नाम वजाज, जमनालाल  
मन्ता ४००  
—के पावन प्रमग सुरेशराम सस्ता ० ४०  
—के विचार भावे, विनोवा २ भा सस्ता ४००  
—नगित पाडेव, रामाचार्य राष्ट्र प्र म २५० (अप्रा)  
—चिन्ध्र अ भा सर्व ० ४०  
—चिन्ध्रवली लुगिया, ज्ञानमल म ६ हि ना म १००  
—जीवन दर्शन तरुणभट्ट सर्वोदय ना १५०  
—नवाद तपोला राजेंद्रसिंह अ भा सर्व ० ३७  
—के नाद मान दिन श्रीमन्नारायण मन्ता ० ७५  
विनोदान्धवन शर्मा, बालकृष्ण 'नवीन' ना नदन, चि  
१०५  
विनिमय वृत्त कृष्णगुप्त, सुरेंद्रदन आगरा वृत्त. २००  
विरचना. श्रीवास्तव, प्रतापनारायण. जिज्ञासा ३.००

विपथगामी श्रीगोपाले आचार्य नवयुग अ कु ४.००  
विप्रदास चट्टोपाध्याय, शरत्चंद्र प्रभात प्र ३००, — —  
श्यामलाल. ३००, — —सन्मार्ग ५००  
विप्लव और विहार शिवसिंह 'सरोज' गगा २५०  
विभूतिया हि प्रचा स ० ७५  
विभेद राधाकृष्ण प्रसाद ग्रथमाला १००  
विमर्श और निष्कर्ष शर्मा, सरनामसिंह 'अरुण' हि सा. स  
१२.५०  
विमला ठाकुर, केशवकुमार स २. सा सेवक ३००  
विमाता अवधनारायण पु भ. ४००, — —रामलोचन  
(पा) १००  
विमाता सुशील, एच एल पुष्पी ० ७५, — —सुरेंद्र  
२५०  
विमान शर्मा, गिरधारीलाल 'गर्ग' ग्रथमाला १५०  
—और वैमानिकी गुप्त, चमनलाल हि समि ४५०  
विरजानद-प्रकाश भीमसेन शास्त्री भा प्राच्य २००  
विरहिणी-व्रजागना गुप्त, मैथिलीशरण, अनु सा सदन,  
चि ० ४०  
विराग काव्य धन्यकुमार श्री भा दिगवर १००  
विराज बहू चट्टोपाध्याय, शरत्चंद्र अर्चना प्र (पा) १००,  
—कि. महल २००, — —चिनगारी: २.००,  
नवयुग पु भ २००, — —प्रभात प्र २००, — —  
श्यामलाल ३००, — —सुभाष. २.२५, — —हिंद  
पा १००, — —हि भवन ३००  
विराट् ज्वग, स्टीफेन सस्ता १५०  
विराम चिन्ह शर्मा, रामविलास विनोद ६००  
—चिन्ह शुक्ल, रामेश्वर 'अचल'. हि प्रचा. पु. ३००  
विरुढक रागेय राघव लक्ष्मी ना ३.००  
विरोध परिहार राजेंद्रकुमार श्री भा दिगवर १५०  
विलक्षण जतु चतुर्वेदी, जगपति कि महल २.००  
विलपवी अनिलकुमार दि पु स २००  
विलायती उल्लू श्रीवास्तव, जी पी हि पु ए २२५  
विलामिनी उपाध्याय, भगवतशरण ग्रथमाला १२५  
विनामी चट्टोपाध्याय, शरत्चंद्र प्रभात प्र २००  
विलुप्त जतु चतुर्वेदी, जगपति कि महल २००  
विलुप्त जतुओ की कहानी सत्यनारायण प्रसाद कि महल  
विलुप्त वनस्पति चतुर्वेदी, जगपति कि महल २००  
विलोम गति गुरुदत्त भा सा सदन ६००  
विवर्त जैनेन्द्रकुमार पूर्वोदय ४२५  
विवाह और काम विज्ञान एकसनर, एम जे रणजीत २५०  
विवाह और नैतिकता रसल, वर्ड्ड राजकमल ५२५  
—और प्रेम ओझा, गोपेशकुमार हि प्रचा. म. ३५०  
—और प्रेम स्टोप्स मेरी राजकमल (पा) १००  
—और विवाहित जीवन उपाध्याय, गगाप्रसाद गोविंदराम.  
२५०  
—का वधन अत्रे, आचार्य रणजीत २.५०  
—की मजिलें जोशी, जीवनप्रकाश सन्मार्ग ५.५०  
—पद्धति. भैयाराम, टीका मोतीलाल. २.००

- विवाह यत्र तथा अन्य प्रहसन. टडन, ए आर. इ प्रे. ३.२५  
 —विज्ञापन. भट्ट, बदरीनाथ. गगा. २.००  
 —विभ्राट श्रीवास्तव, प्रतापनारायण हिंदिया २.७५  
 —सबध—विच्छेद तथा उत्तराधिकार अ भा. काग्रेस  
 ०.१२  
 —समस्या स्त्री जीवन. गाधी, मोहनदास करमचंद मातृ-  
 भाषा १५०  
 —से पहिले रामन्ता शास्त्री. साहित्यवाणी २५०  
 विवाहित आनंद हरनामदास स्टार (पा) १००  
 विविध कथाए. सत, शाता बाल सदन १५०  
 —पूजा सग्रह श्री आत्मानंद. ३००  
 —प्रसंग प्रेमचंद हस ख १ ७५०, ख २. १२५०,  
 ख ३ १२५०  
 —प्रसंग. विवेकानंद, स्वामी श्रीरामकृष्ण. १.१२  
 विवेक गुरुदत्त. ओरिएटल. ६००  
 —और साधना केदारनाथ नवजीवन ४००  
 —कला द्रुम शिवव्रतलाल शिव सा. १५०  
 —चूडामणि. गीता ० ३१  
 —या विनाश रसल, बटैड राजकमल २.७५  
 विवेकानंद चरित मजुमदार, सत्येन्द्रनाथ स ३. श्रीरामकृष्ण  
 ६.००  
 —जी के उद्गार. विवेकानंद, स्वामी. स ३. श्रीरामकृष्ण.  
 (पा) ० ६५  
 —जी के सग मे. चक्रवर्ती, शरच्चंद्र. स. ३ श्रीरामकृष्ण  
 ५ २५  
 —जी के सान्निध्य मे विवेकानंद, स्वामी. श्रीरामकृष्ण  
 ०.६०  
 विवेचन. सहल, कन्हैयालाल साहनी ३००  
 विवेचना जोशी, इलाहचंद्र. हिं. सा सम्मे ४००  
 विवेचनात्मक गल्प-विहार. चौहान, सुभद्राकुमारी, सपा इ.  
 प्रे २००  
 —प्रतिक्रमण नयमल, मुनिश्री आदर्श सा ० ६२  
 विशाख गुप्त, प्रकाशचंद्र राजकमल १५०  
 विशाख प्रसाद, जयशंकर. भा भ १.५०  
 विशाल जीवन नागर, सत. कल्पवृक्ष २००  
 —भारत के अमूल्य रत्न स्वरूप. १.५०, २००  
 —भारत के रत्न भटनागर, महेन्द्र. भोपाल. १५०  
 —भृगु संहिता पद्धति मित्तल, भगवानदास. भृगु ज्योतिष  
 १०.००  
 विशाली की आखे जीवत दि पु स १२५  
 विशिष्ट कहानिया पाडेय, सुधाकर, सपा हिं प्रचा. पु.  
 १७५  
 विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान. युग, सी. जी .. चौखवा  
 २००  
 विश्व अर्थव्यवस्था : एक परिचय ब्राउन, ए जे राजकमल.  
 ७५०  
 —इतिहास त्रिपाठी, रामप्रसाद हिं. समि. १४.५०  
 —इतिहास. मेगनिस... एस चाद

- विश्व इतिहास का दिग्दर्शन. चतुर्वेदी, ओमप्रकाश. श्रीराम  
 मेहरा २००  
 —इतिहास की भूलक (प्रश्नोत्तर) गुप्ता, एन एन  
 गयाप्रसाद. ४००  
 —इतिहास की भूलक नेहरू, जवाहरलाल सस्ता सपूर्ण.  
 २०.००, सक्षिप्त ६.००  
 —इतिहास की भूलक भट्ट, चंद्रशेखर... एस चाद ३५०  
 —इतिहास की भूलक (प्राचीन इतिहास की भूलक). गुप्ता,  
 एन एन लायल ४००  
 —इतिहास की भाकी चतुर्वेदी प्रभात पब्लि. ६.२५  
 — इतिहास की भूमिका, शर्मा, रामशरण २ भा ग्रंथमाला.  
 १०५०  
 —इतिहास की रूपरेखा गुप्ता, एन एन गयाप्रसाद. ३५०  
 —इतिहास की रूपरेखा गुप्ता, लक्ष्मीनारायण ख १.  
 लायल ३००  
 —इतिहास की रूपरेखा चौधरी. आर. के मोतीलाल  
 १०.७५  
 —इतिहास की रूपरेखा. धाभाई, उदयलाल. यग मैन  
 ३००  
 —इतिहास की रूपरेखा. शर्मा, गोपीनाथ... लक्ष्मी ना.  
 ५००  
 —इतिहास की रूपरेखा शर्मा, प्यारेलाल नद. ब्र. ६५०  
 —इतिहास-कोष भडारी, चंद्रराज १२ भा ज्ञान मंदिर  
 एव हि सा म भा १-२. १२५० (प्र)  
 —इतिहास दिग्दर्शन धर्मभानु .. लक्ष्मी ना ४००  
 —इतिहास-प्रवेश मिश्र, योगेद ग्रंथमाला. १७५  
 —एव भारत का भूगोल सोलकी, एम एन लक्ष्मी ना.  
 २.७५  
 —और व्यक्ति जगतनारायण. नारायण प्र ०.६२  
 —कथा साहित्य श्रीरजन साधना सदन ३००  
 विश्वकर्मा प्रकाश रामअवतार 'वीर'. देहाती ७५०  
 विश्वकवि कालिदास व्यास, सूर्यनारायण ज्ञान मंडल प्रे.  
 ३.५०  
 —रवींद्र पाडे, नारायणदत्त हिं प्र म ०.७५  
 —रवींद्रनाथ मिश्र, उमेशचंद इ प्रे ५००  
 विश्व का आधुनिक भूगोल भार्गव, देवदत्त सरस्व प्रे  
 ३७५  
 —का इतिहास शर्मा, श्यामदत्त... यग मैन ६२५  
 —का इतिहास. शर्मा, हरिशंकर, यग मैन ३७५  
 —का नवीन भूगोल भूकनी, पूरनसिंह हिं. प्रचा. पु २७५  
 —का भूगोल केला, ओमप्रकाश भा प्र २.५०  
 —काव्य की रूपरेखा जैन, प्रकाश .. अपोलो १०.००  
 —का सुबोध इतिहास, उपाध्याय, तेजराम स्टुडेंट्स-स्टोर्स.  
 ३५०  
 —की कहानियां मनमोहन सरल .. आत्माराम  
 —की कहानी. प्रभात पब्लि ३००  
 —की कहानी. भा. भ १.००  
 —की कहानी. भारतीय नद. ब्र. एव नद. स. १.५०

- विश्व की प्रतिनिधि लोक-कथाएँ श्रीकृष्ण . आत्माराम.  
 —की प्रमुख गानन पद्धतियाँ नरन, पी रस्तोगी २००  
 —की प्रमुख गानन प्रणालियाँ गुप्ता, ओ पी केदारनाथ  
 ७५० में २००  
 —की प्राचीन नभ्यताएँ गोयल, श्रीराम भा १.  
 विश्वविद्यालय २०.००, २५.००  
 —की महान् आत्माएँ मिश्र भोषान ३५०  
 —की महान् महिनाएँ गुर्द, गचीगानी मैट्रोपोलिटन ५.००  
 —की न्पररेखा. राहुल नाट्ट्यायन कि महल २००  
 —की लोक-कथाएँ प्रभात पब्लि १२५  
 —की लोक-कथाएँ रमेगचद्र 'प्रेम' ६ भा एस चाद १२५  
 (प्र)  
 —की विभूतियाँ उपाध्याय, हरिभाऊ हि. प्र म २००  
 —की नभ्यताएँ पाटेल, विमलचद्र २ भा साधना सदन  
 २०० (प्र)  
 —के त्योहार माहेस्वगी, रमेशकुमार आत्माराम २५०  
 —के धर्म प्रवर्तक गधुनाथ सिंह ज्ञानमंडल ६५०  
 —के नेता राय, हर्गिहप्रसाद ज्ञानपीठ १३७  
 —के प्रमुख नविधान कपूर, अन्पचद एस चाद १३५०  
 —के प्रमुख नविधान भाटिया, आर एल यूनिवर्सिटी  
 १०००  
 —के प्रमुख नविधान राय, हरिहरप्रसाद भा भवन १३००  
 —के प्रमुख नविधान वीरकेश्वरप्रसाद सिंह पु भ, रा  
 ४१०  
 —के भाग्यवानों की कुडलियाँ मित्रल, भगवानदास भृगु  
 ज्योतिष ६००  
 —के महत्त्वपूर्ण प्राचीन तथा मध्यकालीन राजनीतिक  
 विचारक गुप्ता, ओ पी केदारनाथ ५००  
 —के महान् ग्रंथशास्त्री हेल्शोनर एनाड्ड २००  
 —के महान् ग्रंथशास्त्री वर्मा, सुरेन्द्रकुमार आदर्श हि ३००  
 —के महान् ग्रंथशास्त्री चन्दा प्रवध १०००  
 —के महान् शिक्षा शास्त्री जयजयराम वर्णित राजपाल  
 ३१०  
 —के महान् शिक्षा शास्त्री श्रीवास्तव, आर एन गधाप्रसाद  
 एवं लादन ५००  
 —के महानुन्य जैन, अन्पचद कुमार शिक्षण १५०  
 —जाति गोपाध्यायगमिन्द्र ठाकुर, इ प्रे १७५  
 —गुरादगं चपू सुरेन्द्रनाथ गान्धी चीन्हा १०००  
 —ज्ञान की प्रवर्तक सुरेन्द्रकुमार विद्यालया, नया हिंद पा  
 २००  
 —ज्ञानशास्त्र दर्शनशास्त्र, सुरेन्द्रप्रसाद विद्या प्र भवन  
 ७१०  
 —दर्शन शास्त्रशास्त्र नमननन रमा ३५०  
 —दर्शन शास्त्रशास्त्र स्वामी श्री प्रभाकर २००  
 —दर्शनशास्त्र दर्मा सादरिया विहाजीलाल वि राष्ट्र.  
 १३५०  
 —धर्म शास्त्रशास्त्र नमननन रमा ३५०  
 —धर्म शास्त्रशास्त्र श्री आत्मानंद  
 ०६०

- विश्व पथिक रवीन्द्रनाथ भट्टाचार्य, विवेक मैट्रोपोलिटन ४.००  
 —परिचय ऋषिकेश पारिजात ३००  
 —परिचय ठाकुर, रवीन्द्रनाथ अमिताभ २५०, — —  
 इ प्रे १००  
 —परिचय माधुर, गिरीगचद्र रामप्रसाद ३५०  
 —प्रपच शुक्ल, रामचद्र ना प्र सभा ५५०  
 —प्रेम. गोविंददास, सेठ एन चाद ३००  
 —वधुत्व. रामतीर्थ स्वामी श्री प्रभाकर २००  
 —भारती गुप्त, बच्चीलाल मयूर १५०  
 —भारती. सक्सेना, वीरेन्द्रकुमार नवयुग प्र कु  
 —भूगोल. जैन, पुरुषोत्तम एस चाद ६५०  
 —भूगोल ममोरिया, सी वी आगरा बुक  
 —भूगोल मिश्रल... सुरेण. ३००  
 —भूगोल की रूपरेखा त्रिपाठी, वैदेहीवल्लभ नद व ३२५  
 —भूगोल की रूपरेखा सिंह .. कि महल ४००  
 —भूगोल परिचय त ७ जैन, पुरुषोत्तम भा भा प्र  
 ३००  
 विश्वमित्रा धर्मेन्द्र कि महल २५०  
 विश्व रचना की कहानी सक्सेना, शभूदयाल नवयुग प्र कु  
 १००  
 —राजनीति-पर्यवेक्षण वर्मा, विश्वनाथप्रसाद ज्ञानपीठ  
 ५.५०  
 —राजनीति में भारत उपाध्याय, तेजराम स्टुडेन्ट्स स्टोर्स  
 —विजेता सिकंदर शभू 'विकार' सध्या २५०  
 विश्वविद्यालय संगठन एवं स्वास्थ्य शिक्षा माधुर रस्तोगी  
 ६२५  
 विश्व-वेदना गुप्त, मैथिलीशरण सा सदन, वि ०५०  
 —शांति और अशुभ्रत मिश्र, अनन आत्माराम १००  
 —शांति और उसका मार्ग तुलसी, आचार्यश्री जैन श्वेतावर  
 ०.१०  
 —शांति का आर्थिक मार्ग गांधी, मोहनदास करमचद  
 नवजीवन ०४०  
 —शांति का नदेश विवेकानंद, स्वामी मन्मार्ग २५०  
 —शांति के पथ पर वर्मा, यजदत्त हि प्रचा पु ०२५  
 —शांति क्या नभव है? लासडेल, कैवलिन अ भा सर्व  
 १२५  
 —सद्भावना के लिए शिक्षा. मसानी, आर पी नद व एव  
 नद म ३००  
 —सभ्यता का इतिहास राय, उदयनारायण साधना सदन  
 २००  
 —सभ्यता का विकास पाराशर, चिरजीलाल दि पु स  
 १५००  
 • सभ्यता का अधिष्ठ इतिहास मिन्हा, वी पी मोतीलाल.  
 ११००  
 —सभ्यता की एक भलक नद म  
 —सभ्यता की अधिष्ठ भाकी अग्रवान, विमलादेवी.  
 नद म ७००  
 —साहित्य बटनी, पद्मलाल पुन्नानाल-गगा. ४.५०

विश्व साहित्य की रूपरेखा उपाध्याय, भगवतशरण राजपाल  
१२००

—साहित्य के ज्योति-पुज जैन, जगदीशचन्द्र. हिं. ग्रं २ ३.५०

—साहित्य में रामचरितमानस. राजबहादुर. मानस सघ.

११२

—सुदरी. शुक्ल, शत्रुघ्नलाल. शारदा म २.००

—स्थिति नथमल, मुनिश्री आदर्श सा ०.५०

विश्वामित्र मिश्र, जगन्नाथप्रसाद. राजकमल. ० ७५

विश्वामित्र मुशी, कन्हैयालाल मारिकलाल नवयुग प्र २००

—और दो भाव-नाट्य भट्ट, उदयशंकर आत्माराम ३००

—की खोज शर्मा, यादवेन्द्र 'चंद्र'. विद्या प्र म २००

विश्वास चतुर्वेदी, सीताराम अ भा विक्रम १००

विश्वास गुरुदत्त भा सा सदन ३००, (पा) १००

—का बल वाजपेयी, भगवतीप्रसाद एस चाद ५५०

—की वेदी पर श्रीवास्तव, प्रतापनारायण औरिएटल. ५ ७५

विश्वासघात स ६ आर्य सा. ०.५०

विश्वासघास गुरुदत्त भा सा सदन ६०० (जन्त)

विश्वासघात शर्मा, यज्ञदत्त पजाबी पु २५०, — — स्टार  
(पा) १००

विश्वास बडा है सपने से पाडेय, रत्नाकर रामप्रसाद ३.५०

विषकन्या. गोविंदसिंह चौधरी ३५०

विषकन्या त, गोविंदवल्लभ आत्माराम. ४००

विष-परीक्षा प्रशांत बाल सदन. ० ७५

विषपान महतो, मोहनलाल 'वियोगी' छात्रहितकारी ३.००

विषपान हरिकृष्ण 'प्रेमी' आत्माराम २.००

विषमुखी. श्रीवास्तव, प्रतापनारायण गंगा ६५०

विषवृक्ष, चट्टोपाध्याय, बकिमचंद्र इ प्रे २०० — — भाग्योदय.

(पा) १००, — — राजपाल २००, — —

श्री प्रभाकर २००, — — हिं पु ए. १५०; — —

हिं प्रचा पु. २५०, — — हिं प्रचा पु १५० — —

हिंद पा. १००

विषाद गुप्त, सियारामशरण. सा. सदन, चि ० ४०

विषाद शर्मा, श्रीराम सरस्व प्रे ३००

—मठ रागेय राघव कि. महल ३५० (अप्रा)

विषैला समाज (आत्मकथा) प्रियवदा देवी आदर्श हिं ३ २५

विष्णु उपासना रामकृष्ण देहाती ४५०

—धर्मोत्तर में चित्रकला. मालवीय, वी. एन. इ प्रे २००

—धर्मोत्तर में मूर्तिकला मालवीय, वी एन इ प्रे ४००

—प्रिया गुप्त, मैथिलीशरण सा सदन, चि २५०

विष्णु सहस्रनाम मूल हिं पु ए ० ५०

विष्णुसहस्रनाम शांकरभाष्य गीता ०.८७

विश्रुतचरितम् दडी रा वेनीप्रसाद. १ २५

विसर्जन महतो, मोहनलाल 'वियोगी' छात्रहितकारी २००

विसर्जन श्रीवास्तव, प्रतापनारायण. जिज्ञासा ८००

विस्मिल की शायरी मातृ-भापा २ २५

विस्मृत यात्री राहुल साकृत्यायन कि महल ५ ७५

विस्मृति के गर्भ में राहुल साकृत्यायन कि. महल ३००

—के फूल वर्मा, भगवतीचरण भा भ ४००

विहान. भटनागर, महेन्द्र प्रबुद्ध एव स्वरूप ० ५०

वीचिया लीलावती नेशनल १ ५०

वीणा शर्मा, यज्ञदत्त. अशोक पा १.००

—ग्रथि पत, सुमित्रानंदन भा भ ३००

वीणापाणि के कपाउड में वर्मा, केशवचंद्र भा ज्ञानपीठ  
३००

वीना की पुकार शर्मा, सत्येन्द्र प्रेम प्र ३.००

वीनिस का व्यापारी. शेक्सपियर, विलियम यूनिवर्सिटी १ ५०

वीर अभिमन्यु. त्रिपाठी, चंद्रदीप नारायण हिं पु. ए ० ६४

—अभिमन्यु न्यादरसिंह 'वेचैन' देहाती ० ७५

—अर्जुन देवदत्त शास्त्री विश्वेश्वरानंद १ ५०

—काव्य तिवारी, उदयनारायण भा भ ६.००

—कुवर सिंह रतूडी, वीरेन्द्रमोहन उमेश २००

—कुणाल शिवमूर्तिसिंह 'वत्स' उमेश २००

—खालसा जसवर्तसिंह स ३ नेचर ० २५

—चंद्रसिंह गढवाली राहुल साकृत्यायन कि महल ७ ५०

—छत्रसाल पथिक चौधरी २००

वीरता की अमर कहानिया सत, गोकुलचंद्र औरिएटल ० ७५

—की कहानिया. गुप्ता, बजनाथ. इ पब्लि ० ७५

—की कहानिया सक्सेना, शंकरसहाय शिवलाल १००

वीर दुर्गादास कामता प्रसाद सा. साधना ० ७५

—दुर्गादास राठीर. चौधरी. ३ ५०

—पचरत्न रामेश्वर अशांत. देहाती ३ ५०

—पुत्रिया राजपाल ० ७५

—बच्चे. वसीधर स ३ नव-ज्योति प्र १००

—बालक. आत्माराम ०.७५

—बालक गीता ०.२५

—बालक. कमलेश आदर्श पु भ १ २५

—बालक चत्ता, नदलाल आर्य बुक १००

—बालक रघुवीरशरण 'मित्र' भा सा. प्र १००

—वालाए कामता प्रसाद सा साधना ० ७५

—बालिकाए गीता. ० २०

—भारत जोशी, भवानीदत्त प्रभात पब्लि. २००

—भूमि मेवाड शर्मा, सुरेन्द्र रत्नाश्रम १ ७५

—रस का शास्त्रीय विवेचन बटेकृष्ण नद व्र एव नद स  
३.५०

—राजपूत नाथमाधव छात्रहितकारी. १.७५

—राधाचरण न्यादरसिंह 'वेचैन' देहाती ० ७५

—लाल पद्मधर (खड काव्य) तन्मय बुखारिया त्रिवेणी  
१ ५०

—विक्रम नागार्जुन. पु भ १.००

—विदुषी स्त्रिया शर्मा, लालताप्रसाद प्रभात प्र १ २५

—वैरागी परमानंद, भाई राजपाल २००

—शिवाजी. जोशी, श्रीपाद विश्वेश्वरानंद २ ७५

—शिवाजी मरहटा देहाती १ ५०

—सतान सक्सेना, गभूदयाल नवयुग प्र. कु. ० ५०

—सतसई वियोगी हरि सा भवन, ड १ ५०

—सतसई. सूर्यमल्ल मिश्रण भा भ ५ ०



- वीरगिह देव चरित्र केजव मातृ-भाषा ४५०  
 वीर निपाही ना सदन, दे ३००  
 —निपाही व्यास, श्रीकांत, अनु राजपाल १५०  
 —निपाही शर्मा, रामकृष्ण सा प्र १५०  
 —सुल्ताना. न्यादरगिह 'वैचैन' देहाती ०७५  
 —स्काउट वदा, पी पी हि प्रचा पु ०६४  
 —हकीकतराय न्यादरगिह 'वैचैन' देहाती. ०७५  
 वीरागना गुप्त, मैथिलीशरण, अनु सा सदन, चि २००  
 वीरागना श्रीखडे, मालती मायी. ३००  
 —चेन्नम्मा वर्मा, जी बालचद श्री सरस्वती २००  
 —लक्ष्मीबाई ठाकुर, केशवकुमार आदर्श हिं १००  
 वीरो का वचन इद्रसेन सिंह 'भावुक' ओरिएटल.  
 —की कहानिया कहैया, कुवर हिं ग्र २ १००  
 —की वाणी द्विवेदी, रामवचन 'अरविद' सुलभ २००  
 —की वीरता जमवतसिंह स २ नेचर ०२५  
 —की मच्ची कहानिया जहूरवल्श छात्रहितकारी १५०  
 वीरिंग कैल्कुलेशन. चोपडा, एन एस देहाती २२५  
 —गाडड चोपडा, एन. एस देहाती. ४५०  
 बुद्धो विल्सन फरस. एस चाद. १००  
 वृत और विकास द्विवेदी, शांतिप्रिय भा. ज्ञानपीठ २.५०  
 वृ दावनलाल वर्मा बटुक, आचार्य अशोक प्र २५०  
 —वर्मा उपन्यास और कला मिश्र, शिवकुमार कि. घर, का  
 ६२५  
 —वर्मा एक विवेचन काश्यप, सोमदत्त भा सस्कृत. २५०  
 —वर्मा और उनकी मृगनयनी मिश्र, शिवकुमार. कि घर,  
 का ३१२  
 —वर्मा और 'भामी की रानी' शर्मा, राजनाथ विनोद.  
 ३.५०  
 —वर्मा और भुवन विक्रम. राकेज कि घर, ग्वा ४.००  
 —वर्मा, व्यक्तित्व और कृतित्व शर्मा, पद्मसिंह 'कमलेश'.  
 न २ वमल ५००  
 —वर्मा नाहित्य और समीक्षा. सियारामशरण प्रनाद.  
 ना प्र १२५०  
 वृक्ष दि लायब्रेरी ०.६२  
 —विज्ञान वर्मा, प्रवासीलाल स ३ ज्ञानमडल ५.००  
 —विज्ञान निकित्ता पाराशर, राधाकृष्ण स २ मेडिकल.  
 २५०  
 वृन्माला विज्ञानमणि नारायण ज्यामलाल ०.३७  
 वृन्मालाकार कौमुदी परमेश्वरगनद वास्त्री. श्री भा भारती.  
 ४५०  
 वृद्ध-गहार गुप्त, मैथिलीशरण, अनु मा सदन, चि. ५.००  
 वृहत् कथा मजरी कवीर 'मजुल', अनु कि महल  
 —मौजुरन्न भाडागान ज्यामलाल २.५०  
 —दर्शनानी कौश तिवागी, भोनानाथ कि महल १५.००  
 —वृन्माला अग्रवाल, जे के . रा वेनीप्रनाद भा १  
 ५००, भा २. ७००  
 वृत्तान्तगिह नरह देवगिह. हि पु ए. ३५०  
 वृत्त स्पर्गाय चंद्रिका गुनात्र कवि भारतजीवन ०५०

- वृहद् शिक्षा सिद्धांत उमाशकर शास्त्री. हि प्रचा. पु ३००  
 वे मालवीय, हर्षदेव एस चाद ०.५०  
 वे और हम राधिकारमणप्रसाद सिंह, राजा अशोक प्रे.  
 ४००  
 वे क्रांति के दिन त्यागी, महावीर. हिंद पा १००  
 वे जीते कैसे है ! शर्मा, श्रीराम हिं ग्र २ २५०  
 वे जो शहीद हो गए माणिक, हरिदाम चौधरी. २.००  
 वेणी-सहार भट्टनारायण इ प्रे १२५, — —सस्ता ०४०  
 वेणी सहार मिश्र, ठाकुरदत्त कि महल. १५०  
 वेणी-सहार-नाटक. द्विवेदी, महावीरप्रसाद गगा १५०  
 वेणु लो, गूजे धरा चतुर्वेदी, माखनलाल. भा. ज्ञानपीठ.  
 ३००  
 वेणुवन रामधारी सिंह 'दिनकर' उदयाचल ३.००  
 वेणु-शिल्प उपेद्र महारथी त्रि राष्ट्र ११००  
 वेतवा के किनारे सरस्व प्र म २००  
 वे तीनों भा, अयोध्याप्रसाद ग्रथमाला १३७  
 वेद का राष्ट्र गान शारदा म १२५  
 —नवान्तिक विश्ववधु, आचार्य विश्वेश्वरानंद. ०.५०  
 वेदना विदेश्वर ग्रथमाला ०७५  
 वेदना श्रीवास्तव, प्रतापनारायण. एस चाद. ६५०  
 वेद परिचय वेदानंद सरस्वती, स्वामी गोविंदराम ०.३७  
 —मे आभूषण रायगोविंदचद. चौखवा  
 —रहस्य. घोष, अरविद श्रीरविद. भा २ ३.००, भा.  
 १,३  
 —विद्या. अग्रवाल, वासुदेवशरण रामप्रसाद. ५.००  
 —विद्या-निदर्शन. भगवतदत्त आत्माराम १२.५०, — —  
 भा प्राच्य. १२५०  
 —व्याख्या ग्रथ विधानद विदेह, स्वामी  
 —सदेश देवव्रत धर्मेदु. शारदा म ०.७५  
 —सार विश्ववधु, आचार्य विश्वेश्वरानंद १५०  
 वेदांगप्रकाश भा १-११. आर्य सा  
 वेदात राजगोपालाचार्य, चकवर्ती. स २. हिंदु टाइम्स २००  
 —छदावली भोले बाबा ५ भा देहाती. २५०  
 —दर्शन दर्शनानंद, स्वामी. देहाती ६.००  
 —दर्शन शर्मा, श्रीराम, सपा. सस्कृति ४.००  
 —दर्शन सतदास, स्वामी इ प्रे ५००  
 —धर्म. दिवेकानंद, स्वामी छात्रहितकारी २.००  
 —सिद्धांत और व्यवहार सारदानंद, स्वामी स २  
 श्रीरामकृष्ण (पा) ०.५०  
 वेदार्थविमर्ग विश्ववधु, आचार्य विश्वेश्वरानंद. ०५०  
 वे दिन वरुशी, पदुमलाल पुन्नलाल जवाहर २५०  
 वे दिन महतो, मोहनलाल 'वियोगी' रा वेनीप्रसाद ०७५  
 वे दिन वे लोग भा, रमेशचंद्र वि. ग्र कु  
 वेदी के दीप लक्ष्मीनायण 'कुगवाहा' सा नि, व १२७  
 —के फूल रामनाथ 'सुमन'. साधना सदन १००  
 —के फूल की कुजी वर्मा, गिवराम. रीगल ०७५  
 वेदों के गतक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद व अथर्ववेद  
 गोविंदराम (पा) १०० (प्र.)

- वेदो मे आयुर्वेद रामगोपाल शास्त्री भा. प्राच्य १०.००  
 वेदोपदेश वेदानद तीर्थ, स्वामी आर्य सा १००  
 वेनिस का सौदागर शेक्सपियर, विलियम राजपाल. २.००;  
 — — हिंद पा १००  
 वे महान् कैसे बने राजपाल १००  
 वे महान कैसे बने भा, रमेशचंद्र. नारायण प्र २.००  
 वेला हुई अवेर मटियानी, शैलेश आत्माराम २००  
 वेलिक्रिसन रुकमणीरी दीक्षित, आनंदप्रकाश, सपा विश्व-  
 विद्यालय. ५००  
 वेलि क्रिसन रुकमणी री. पृथ्वीराज, महाराज. हिंदु एकेडेमी.  
 १५००, मूलपाठ ०३७  
 वेश्या विजयचंद्र प्रगतिशील २५०  
 वे सपनो के देश से लौट आये मेहता, भानुशकर हि प्रचा  
 पु १२५  
 वे सफल कैसे हुए केशवसागर, अनु हिंद पा १००  
 वे सफल कैसे हुए बोल्टन, साराह के राजपाल ३.००  
 वैचारिकी गुट्टू, शचीरानी आत्माराम. १०००  
 वैजयंती. सावल, रामलाल. श्री भा भारती. २.००  
 वैज्ञानिक अद्वैतवाद गौड, रामदास ज्ञानमंडल २२५  
 — अनुसंधान और आविष्कार राव, रवींद्रप्रताप. विश्व-  
 विद्यालय ३.००  
 — आविष्कार. चतुर्वेदी, जगपति. २ भा कि महल. २००  
 (प्र.)  
 — आविष्कारो की कहानिया शकर सुल्तानपुरी. नवयुग पु  
 भ. ०७५  
 — उद्यान शास्त्र श्रीवास्तव, स. द रामप्रसाद ३.००  
 — कहानिया टाल्स्टाय छात्रहितकारी ०३७  
 — खाद. चतुर्वेदी, जगपति छात्रहितकारी ०.५०  
 — चाद चटर्जी, बसंतकुमार सहगल (अप्रा)  
 — पशुपालन व चिकित्सा श्री प्रभाकर ३००  
 — भौतिकवाद राहुल साकृत्यायन आधुनिक पु २५०  
 — मालिश सत्यपाल सस्ता  
 — रश्मिया बाबूलाल प्रेम कि घर, ग्वा १००  
 — रहस्य गुप्ता, मुकदीलाल. लक्ष्मी ना १८१  
 — वरदान धर्मपाल शास्त्री आर्य बुक २५०  
 — विकास की भारतीय परंपरा. सत्यप्रकाश. बि राष्ट्र  
 ८००  
 — विभूतिया ओमप्रकाश आर्य बुक २००  
 — साहित्य भृगुनाथनारायण सिंह २ भा. अशोक प्रे ०५०  
 (प्र)  
 — सूर्य किरण चिकित्सा हीरालाल स. २ निरोगी. १००  
 बैज्ञानिकी राय, जगदानंद इ प्रे २००  
 वैज्ञानिको की जीवन भांकी मेहरोत्रा, रामेश्वरप्रसाद कि.  
 महल  
 वैतालिक गुप्त, मैथिलीशरण सा सदन, चि ०४०  
 वैत्तिक व्यवस्था. पाटनी रस्तोगी ६००  
 — व्यवस्था भटनागर, नदलाल स २ रस्तोगी १०००  
 — व्यवस्था हैलन, योगेशचंद्र. केदारनाथ. ६.५०

- वैदिक अध्यात्म-सुधा. ब्रह्ममुनि, स्वामी. आर्य सा. ०६२  
 — इडेक्स. मैकडोनेल, ए ए... चौखवा ४००० ?  
 — इतिहास-विमर्श वैद्यनाथ शास्त्री आर्य सा ८.००  
 — उपदेशमाला. अभयदेव, आचार्य श्रीअरविद १.२५  
 — ऋषिवाद कर्मानंद, स्वामी श्री भा. दिगंबर ०.३७  
 — गृहस्थाश्रम विश्वनाथ विद्यालकार. गोविंदराम. ५००  
 — छंदोमीमासा युधिष्ठिर मीमांसक भा प्राच्य. ४५०  
 — देवशास्त्र. सूर्यकांत शास्त्री श्री भा. भारती ३०.००  
 — धर्म वेदानंद, स्वामी गोविंदराम २००  
 — धर्म : आर्य प्रश्नोत्तरी राजपाल. ०६२  
 — धर्म एव दर्शन. कीथ, आर्थर वेरीडील भा. १ मोतीलाल  
 २५००  
 — धर्म एव भारतीय संस्कृति मिश्र, रामदास 'विजय'. हि.  
 प्रचा म २५०  
 — धर्म और विकास गगाप्रसाद आर्य सा. १.००  
 — धर्म प्रवेशिका प्रयाग १२५  
 — धर्म शिक्षा चौधरी, जे पी. १००  
 — पदानुकम-कोष विश्वब्रधु, आचार्य, सपा १५ ख.  
 — पशुयज्ञ-मीमासा. विश्वनाथ विद्यालकार आर्य सा  
 १००  
 — बालशिक्षा विद्यानंद विदेह, स्वामी. वेदसंस्थान भा १-२  
 ०.५० (प्र), भा. ३०७०  
 — भारत सेन, दिनेशचंद्र. ग्रथमाला १.००  
 — भाषानुशीलन मिश्र, गगाधर राष्ट्र प्र म ४००  
 — मनुस्मृति सत्यकाम सिद्धांतशास्त्री देहाती ४५०  
 — मनोविज्ञान ब्रह्ममुनि, स्वामी आर्य सा ०३७  
 — माइथोलौजी (वैदिक पुराकथाशास्त्र) मैकडोनेल, ए ए.  
 चौखवा १५००  
 — यज्ञ-रहस्य नारायणस्वामी गोविंदराम ०३७  
 — योगपद्धति. विद्यानंद विदेह, स्वामी वेदसंस्थान ०.३७  
 — वर्ण व्यवस्था चौधरी, जे. पी चौधरी १२५  
 — वाङ्मक का इतिहास भगवदत्त आत्माराम एव भा  
 प्राच्य १०००  
 — विज्ञान और भारतीय संस्कृति चतुर्वेदी, गिरिधर शर्मा बि.  
 राष्ट्र ५००  
 — विनय अभयदेव, आचार्य ३ भा श्रीअरविद ३.५० (प्र.)  
 — व्याकरण पाडेय, उमेशचंद्र चौखवा १५०  
 — सध्या रहस्य नारायणस्वामी गोविंदराम ०३७  
 — संस्कृति का विकास जोशी, लक्ष्मणशास्त्री हिं. ग्र. र  
 ५.००  
 — सत्सग विद्यानंद विदेह, स्वामी वेदसंस्थान ०३७  
 — साहित्य द्विवेदी, रामगोविंद. भा ज्ञानपीठ ६.००  
 — साहित्य और संस्कृति लोहनी, भास्करानंद. आचार्य  
 भास्करानंद ३००  
 — साहित्य का इतिहास. राजकिशोर सिंह विनोद ४.००  
 — साहित्य की रूपरेखा पाडेय, सत्यनारायण . सा नि,  
 का ३७५  
 — साहित्य परिशीलन. रजनीकांत शास्त्री. कि. महल. ३.००

- वैदिक निद्रात व्याख्यान माला नित्यानन्द, स्वामी गोविंदराम  
०००
- मिद्रातो पर—वहिनो की वाते सिद्धगोपाल वाचस्पति  
न १० गोविंदराम १२५
- गूढित मुधा देवव्रत धर्मदु शारदा म ० १६
- स्त्री शिक्षा. विद्यानन्द विदेह, स्वामी वेदपस्थान ० ४०
- स्वर्ग-मीमामा युधिष्ठिर मीमांसक परि स भा प्राच्य  
४.००
- वैद्य जीवन ध्यामलाल ० ७५
- वैद्यगज (घरेलू डाक्टर) रामनारायण देहाती २५०
- वैद्यगनी (नेडी टाक्टर) रामनारायण देहाती २५०
- वैभव, विलास और मनुष्य वीरा एम चाद २००
- वैयक्तिक राजेद्रकिगोर ज्ञानपीठ ३००
- वैरागी चट्टोपाध्याय, अरतचंद्र प्रभात प्र २००, — —  
ध्यामलाल २००, — —सुरेद्र २२५
- वैरागी शर्मा, परमानन्द ड प्रे २००
- वैराग्यशतकम्—भर्तृहरि-विरचित बालमुकुद . रा वेनी-  
माधव २००
- वैराग्य नदीपिनी—तुलसीदास शर्मा, वामदेव रा वेनीमाधव  
१३१
- नदीपिनी मटीक गीता ० १२
- वैराग्य की रात मलिक, सत्यवती मोतीलाल १५०
- माहात्म्य भाषा ध्यामलाल १००
- वैरागी धूमकेतु वीरा ५५०
- श्री भागी मिश्र, योगेन्द्र नाँवट्टी २००
- श्री दत्तक पुत्री कौशिक, शिवकुमार आत्माराम ६५०
- श्री नगर बधु चतुरसेन, आचार्य २२४ चतुरसेन ६००  
(प्र), — —हिंद पा २००
- मे वात मिश्र, लक्ष्मीनारायण रा वेनीमाधव २००
- वैशेषिक दर्शन दर्शनानन्द, स्वामी देहाती ३५०, — —  
प्रगत प ४००
- वैशेषिक दर्शन शर्मा, श्रीराम, नपा संस्कृति ४००
- वैश्या पुत्र जैन, नपभवरण ज्ञान प्र ३००
- वैश्याय प्रमं चतुर्वेदी, परशुराम राजकमल ३५०
- वैश्याय मनोविज्ञान राय, विनयकुमार नद स ७००
- वैश्याय किमे दे ? श्रीमोलाल 'इलाहावादी' विद्या भवन, इ  
० ५०
- वैश्याय यज्ञान विन्व ३००
- वैश्याय रामक—राजमार्ग वैक, अलेखमाद्र पीपुत्स १६६
- वैश्याय मे रागा रात्र नाह्यायन जि महन ५००
- वैश्याय विचारकी विद्या वैजनाद हि पु ए २२५
- विनोद मिश्र हि ना भ १००
- वैश्याय शुक टागुर, खोदनाय ड प्रे १२५, — —कि  
मन्त्र २००
- वैश्याय वैश्याय अगवादीन 'शिन', लाला न २ मा भवन  
० ७५
- वैश्याय शक्ति अग्रवाल, मुनिरादेरी अग्रवाल पु  
—वैशिका. इटारा, कुटुम प्रचा पा १.००

- व्यजना और नवीन कविता त्रिपाठी, राममूर्ति ना. प्र सभा  
५००
- व्यक्ति और राज सपूर्णानन्द हि पु ए १६२
- और वाङ्मय माचवे, प्रभाकर साहनी ७००
- और ममाज गोस्वामी, पी प्रकाश बुक ६७५
- व्यक्तिगत शर्मा, पाडेय बेचन 'उग्र' गगा २००
- आचरण श्रीप्रकाश म भा काग्रेस ० १६
- और सामुदायिक विकास वैजनाथ सिंह ब्रिटिश ७५०
- यौन समस्याये जिज्ञामा ३००
- व्यक्तित्व ग्रेहम, जे एम राजकमल २००
- व्यक्तित्व तोमर, रामबिहारीसिंह श्रीराम मेहरा १०००
- प्रकृति एव मापन अग्रवाल, रामनारायण विनोद ५००
- विकास पाडेय, जगदानन्द मगध ० ५०
- व्यक्ति दर्शन जमीदार, नि छ साहित्यालय १००
- प्रकार और अन्य मनोविश्लेषण प्रमोद कुमार ज्ञानपीठ  
२२५
- विवेक त्रिवेदी, रेवाशकर, व्या चौखवा १६००
- व्यतीत जैनेन्द्रकुमार पूर्वोदय ३५०
- व्यभिचार चतुरसेन, आचार्य प्रभात प्र ४००
- व्यर्थ वस्तुओं का उपयोग दि लायन्नेरी ० ६२
- व्यवधान गेवडे, आनन्दगोपाल प्रभात पब्लि ५००
- व्यवसाय प्रणाली गर्ग, के एन गयाप्रसाद २२५
- प्रदीपिका मोतीलाल ६००
- व्यवस्था त्रिपाठी, शकरदयालु कि महल ५००
- व्यवस्था एव प्रवध सक्सेना, एस सी सा भवन, आ.  
१३ ७५
- मगठन और प्रवध बुक्ल, मेहरचद एस चाद, १३५०
- व्यवसायिक मगठन रैलन स ५ रस्तोगी ५००
- मगठन एव प्रशासन अग्रवाल, रमेशचंद्र स २ आगरा  
बुक १०००
- मगठन और प्रवध रैलन स ४ रस्तोगी ५५०
- मगठन तथा औद्योगिक नियंत्रण नवलकिशोर सिंह भा  
भवन ६५०
- व्यवहार और सभ्यता शर्मा, गरुडदत्त 'इंद्र' सस्ता १५०
- गरुड प्रवेशिका वैद्य, चट्टीलाल रा वेनीप्रसाद  
भा १०५०, भा २०७५, भा ३०६२
- भानु दयानन्द, स्वामी भा प्राच्य ० २५
- शुद्धि जाजू, कृष्णादास अ भा सर्व ० ३७
- व्यवहारिक अकेशरण कुभट, जे आर आगरा बुक ४००
- अध्यात्म वर्मा, विश्वमित्र कल्पवृक्ष १००
- भूगोल रामचंद्र गयाप्रसाद २५०
- मनोविज्ञान राय, रामकुमार चौखवा ४५०
- मनोविज्ञान की स्पर्श्या शर्मा, रामनाथ केदारनाथ
- सांख्यिकी वाजपेयी, श्रीमप्रकाश आगरा बुक ४००
- व्यवहन मनोविज्ञान चौबे, मरयूप्रसाद आगरा बुक ५००
- मनोविज्ञान पाडेय, रामशकल लक्ष्मी ना ६००
- मनोविज्ञान भारद्वाज, ध्यामबिहारीलाल सरस्व प्रे  
६००

- व्यस्यक शिक्षा समाधान. राय, जगदबाशरण. पु भ., रा ३ ७५
- व्याकरण आदि नवीन आदर्श हिंदी व्याकरण तथा रचना विधि अर्जुनदेव शास्त्री साहनी १.००
- चंद्रिका शर्मा, मूलचद स १६ कल्याणमल ० ५०
- चंद्रोदय रामलोचनशरण पु भ २ २५
- चार्ट नदा, जगमोहन हिं सा स ० ७५
- ज्योत्स्ना त्रिपाठी, करुणापति. हि प्रचा पु भा १ ० ६२, भा २. १ २५, भा ३ १ ३१
- दर्पण. सहाय, शिवपूजन अशोक प्रे २ ००
- पत्र प्रबोध शर्मा, यशपाल गयाप्रसाद १.००
- प्रदीप रामदेव स ६. हि भवन. २ ००
- प्रदीप सरकार एम के .. ओरिएटल भा १ ४.००, भा. २ ५ ५०
- प्रवेश. प्रयाग १ ७५
- प्रवेश कृष्णचंद्र विद्यालकार एस चाद ० ३७
- बोध कि महल ० ६२
- शिक्षा जैन, मनोहरलाल कृष्णा ब्र ० ५०
- व्याख्यान माला अच्युतानंद सरस्वती, स्वामी, सग्रा गोविंद-राम २ ५०
- व्याधि विज्ञान आशानंद पचरत्न. २ भा मोतीलाल १६ ००
- व्यापार दस्तकारी शर्मा, शिवानंद देहाती २ ५०
- पद्धति अग्रवाल, आर के . कृष्णा ब्र ३ ७५
- पद्धति. दयाल... आशा पब्लि ४ ७५
- पद्धति वर्मा, आर सी... यग मैन ३ ५०
- पद्धति एव बाजार समाचार तिवारी, चंद्रमाप्रसाद... नद ब एव नद स २ ००
- परिचय पाडेय, मुधाकर हि प्रचा. पु १ ७५
- प्रणाली एव पत्र-व्यवहार चितामणि . बुकलेड ४ ५०
- प्रणाली एव यत्र सक्सेना, सुरेशचंद्र आगरा बुक भा १ ३ ५०, भा २ ४ ००
- प्रणाली एव सगठन सेठ, वी के डी कि घर, का. भा. १ ३ ५०, भा २ २ ७५
- व्यवस्था एव पद्धति बहुगुणा, सुरेद्रदत्त लक्ष्मी ना ३ ५०
- व्यवस्था एव पद्धति बहुगुणा, सुरेद्रदत्त . २ भा लक्ष्मी ना ६ ५०
- सगठन अग्रवाल, ज्ञानचद कि घर, का ५ ००
- सगठन गुप्ता, रूपराम स ४ आगरा बुक १०.००
- सगठन गोलवलकर, पु ल स ३. रामप्रसाद १०.००
- सगठन शुक्ल, गौरीशकर 'पथिक' हि पु ए ३ ५०
- सगठन और पत्र व्यवहार सिन्हा, अवधेशकुमार नाँवली १ ५०
- संचालन और बाजार सूचनाए नाँवली आनंदकुमार भा १ ३ ७५; भा २ ४ ५०
- व्यापारिक एव औद्योगिक सगठन रेलन .. रस्तोगी ६ ००
- एव औद्योगिक सन्नियम. पालविया, सी. एम... श्रीराम मेहरा. ६ २५

- व्यापारिक क्रियाशीलन, प्रशासन और प्रबोध भडारी, के. सी... लक्ष्मी ना १५ ००
- ढग तथा पत्र व्यवहार सक्सेना, पी डी २ भा गुप्ता ब्रा ३ ५० (प्र)
- तथा औद्योगिक सगठन एव प्रबोध बहुगुणा, सुरेद्रदत्त लक्ष्मी ना १० ००
- पत्र-व्यवहार बाठिया, कस्तूरमल सा भवन, इ १.१३
- पद्धति और यत्र अग्रवाल, अमरनारायण कि महल भा. १ ४ ००, भा २ ३ ७५
- पद्धति कार्यालय प्रबोध और सहकारिता भा, मायाकात नावली १ ५०
- भूगोल सक्सेना, शकरसहाय म ३ रा वेनीमाधव ३.५०
- रीतिया, कार्यालय प्रणाली तथा सहकारिता अग्रवाल, अमरनारायण कि महल १ ५०
- सन्नियम कन्सल, भारतभूषण कि महल ५ ००
- सन्नियम गुप्ता, रूपराम आगरा बुक ६ २५
- सन्नियम (प्रश्नोत्तर) गुप्ता, रूपराम आगरा बुक २ ००
- सन्नियम शुक्ल, एस एम . सशो स ३. सा भवन, आ ६.२५ से ७ ५०
- सन्नियम सक्सेना, एस सी रस्तोगी ४ ५०, ७ ००
- व्यापारी का वेटा गोर्की, मैक्सिम प्रभात प्र. ४ ५०
- व्यामोह व्याम विमल सूर्य प्र २ ५०
- व्यायाम और शारीरिक विकास अशोककुमार सिंह नद ब्र. २ ५०
- करो, स्वस्थ रहो नेवटिया, राधाकृष्ण सस्ता १ ५०
- शिक्षण छगाणी, शिवकरण नवयुग ग्र कु १.७५
- शिक्षा शकरानंद, स्वामी भाग्योदय २ ५०
- शिक्षा सतराम सत देहाती २ ५०
- व्यावर्तन श्रीवास्त्व, प्रतापनारायण जिज्ञासा ८ ००
- व्यावसायिक शिक्षा के प्रारंभिक सिद्धांत सक्सेना, एस सी. सा भवन, आ ५ ६२
- सगठन अष्ठाना, पद्माकर. सा. भवन, आ ७ ५० से १२ ५०
- सगठन. केदारनाथ प्रसाद पु. भ ६ ००
- व्यावहारिक अर्थशास्त्र देराश्री, सत्यदेव लक्ष्मी ना ६ ००
- काम-विज्ञान शर्मा, टी आर अर्चना प्र (पा.) १ ००
- कृषि विज्ञान शर्मा, रामप्रसाद सशो स भा भा प्र २.००
- चर्मकला कालीचरण देहाती ०.५०
- जीवन मे वेदात विवेकानंद, स्वामी स २. श्रीरामकृष्ण. १ १५
- ज्ञान सतराम विश्वेव्वरानंद २ ७५
- मनोविज्ञान अग्रवाल, पद्मा. मनोविज्ञान ५ ००
- मनोविज्ञान गुप्ता, रामेश्वरदास कि महल ६.००
- मनोविज्ञान. त्रिपाठी, आर आर गयाप्रसाद ८ ७५

- व्यावहारिक मनोविज्ञान त्रिपाठी, त्रिवेणीप्रसाद रा वेनीमाधव  
४७७  
—मनोविज्ञान पाडेय, जगदानन्द तारा ५५०  
—मनोविज्ञान भाटिया, हमराज राजकमल ३५०, ५००  
—मनोविज्ञान वात्स्यायन केदारनाथ ४५०  
—मनोविज्ञान शर्मा, रामनाथ केदारनाथ ७५०  
—मनोविज्ञान शर्मा, सुरेशचन्द्र विनोद ६००  
—यौन ज्ञान जिज्ञामा ३००  
—वृहत् लेखा-कर्म अग्रवाल, जे के रा वेनीप्रसाद. १०००  
—वेदात रामतीर्थ, स्वामी श्री प्रभाकर २००  
—व्याकरण और हिंदी रचना शर्मा, माधवप्रसाद कृष्णा ब्र  
१५०  
—समाजशास्त्र और सामाजिक समस्याए शर्मा, रामनाथ  
केदारनाथ १०००  
व्यास मिश्र, जगन्नाथप्रसाद राजकमल ०७५  
व्रजभापा सूरकोश टडन, प्रेमनारायण, सपा १० ख हि  
सा भ ४०००  
व्रणशोध विमर्श अग्निहोत्री, अवधविहारी मेडिकल ३००  
व्रतपरिचय गीता १७५  
व्रतोत्सव मजरी व्रजरत्नदास गयाप्रसाद २५०  
—विधान ओझा, रामेश्वरप्रसाद रा वेनीप्रसाद ०६४

श

- शकरदेव रजनीकांत सस्ता. ०४०  
शकर सर्वस्व शर्मा, हरिश्चकर गयाप्रसाद १२००  
शकराचार्य रामनाथक शास्त्री हि प्रचा पु १५०  
शकराचार्य विष्णु प्रभाकर सस्ता ०४०  
शकराचार्य ग्रथावली भा ३ मोतीलाल ११७५  
शक घननि रामगोपाल परदेसी, सपा प्रगति प्र १००  
शकनाथ रामगोपाल परदेसी प्रगति प्र ०५०  
—स्वर रामगोपाल परदेसी, सपा प्रगति प्र १००  
शकी माटू पापाण युग से नेहत् युग तक प्रथम पुष्प शर्मा,  
ब्रह्मनायक 'वितल' रामा प्र १५०  
शकर कन्या मुशी, कन्ट्र्यालान माणिकलाल नवयुग प्र  
२००, — रूपकमल २५०  
शक और हकीकत श्रीकुमार शकर ग्रथालय ३७५  
शकरालीन भारत जायनवान, प्रशांतकुमार साधना सदन  
४५०  
शक-विजय भट्ट, उदयशकर राजकमल २०५  
शकानि विप्रमादित्य अग्निहोत्री, राजीवजीवन छात्रहितकारी  
०००  
शकॉन वदाग्रनी जीवनी और नकलन राजपाल १५०  
शकॉन आन्माग १००  
शकॉन काग्निशान श्री भा भान्नी ०००, — मा  
गल न १५०, — गन्ना ०४०, — हिंद पा  
१.००

- शकुतला गुप्त, मैथिलीशरण सा सदन, चि ०५०  
शकुतला लक्ष्मणसिंह, राजा राष्ट्रीय प्र मडल एव राष्ट्रीय  
सा स १५०, — गगा १५०  
शकुतला वत्स्य, सतराम नेशनल ०७५  
—कशीदाकारी गुप्त, मिथिलेशकुमारी, सपा भाग्योदय.  
१००  
—की नई कशीदाकारी गावा, सुमित्रादेवी राजपाल  
१५० (प्र)  
—चरितम् वर्दाचार्य, वे रा वेनीप्रसाद १००  
—नाटक लक्ष्मणसिंह, राजा, अनु इ प्रे १२५, —  
नवयुग पु भ १५०, — रत्नाश्रम २००, —  
रा वेनीमाधव १२५, — विनोद १.५०, —  
हि सा सम्मे १५०  
- नाटक (प्रश्नोत्तर) शर्मा, रामगोपाल 'दिनेश' विनोद  
१५०  
शक्ति गुप्त, मैथिलीशरण सा सदन, चि ०४०  
शक्ति नरेन्द्रसिंह सा सगम, लु ४००  
—और इजन कृष्णागोपाल आत्माराम २००  
—दायी विचार विवेकानन्द, स्वामी स ५ श्रीरामकृष्ण  
(पा) ०६५  
—पुत्र शिवाजी गोयल, सीताराम भा सा सदन १५०,  
२५०  
—पूजा मुखर्जी, वी 'गुजन' आत्माराम १५०  
—, वर्तमान और भविष्य टेलर, शेरउड. हि समि  
४००  
—शखनाद मिश्र, लक्ष्मीचन्द्र नवयुग प्र कु ५००  
शतकत्रयम् भर्तृहरि मित्र ३००  
शतदल नारायणप्रसाद श्रीअरविद २५०  
—और दीप मार्कंडेय सिंह 'चित्ता' हि सा सृजन १००  
शतधारा फुकन, नीलमणि असम ३००  
शतपद चौपाई त्रिपाठी, विजयानन्द मानस सघ २७५  
शतरज ठाकुर, रवीन्द्रनाथ श्यामलाल २००  
—का खेल ज्विग, स्टीफेन हि अ र २५०  
—की मुसीबत वसल, रतनलाल विनोद १००  
—के खिलाडी (सचित्र) प्रेमचन्द्र सरस्व प्रे  
—के खिलाडी हरिकृष्ण 'प्रेमी' आत्माराम २००  
—के मोहरे जयनाथ 'नलिन' अवध २००  
—के मोहरे नागर, अमृतलाल भा ज्ञानपीठ ६००  
शतरूपा सहाय, पाडेय नर्मदेश्वर अशोक प्र २००  
शत्रुघ्न कुमार की आत्मकथा सुदर्शनसिंह 'चक्र' मानस सघ.  
३००  
शनि की दिशा काचनमाला देवी इ प्रे २००  
—विचार काटवे, ह ने नागपुर प्र २५०  
शपथ हरिकृष्ण 'प्रेमी' आत्माराम २५०  
शवनम कुगवाहा 'कात' गुल्लूप्रसाद २५०  
शवरी. चतुर्वेदी, नीताराम अ भा विक्रम १५०  
शवरी गोविन्दान, मेठ एम. चाद १५०  
शवरी मायादेवी. कौशावी २००

शबरी रेड्डी, बालगीरी राजपाल २.००  
 —मडल बहुगुना, शभूप्रसाद. मानस सघ. ०.७५  
 शब्द कल्पद्रुम देव, राधाकात. ५ भा मोतीलाल १६४.७५  
 —गुजार शिवव्रतलाल शिव सा १००  
 —दश गुप्त, जगदीश भा भ ३.००  
 —दोध भगतसिंह हेमकुट १२५  
 —रचना प्रदीप शिवप्रसाद शास्त्री अशोक प्र. १.५०  
 —सार शिवव्रतलाल. शिव सा ०.७५  
 शब्दार्थपारिजात कोष शर्मा, चतुर्वेदी द्वारिकाप्रसाद रा  
 वेनीमाधव ६००  
 शब्दों का खजाना. जयत वाचस्पति नेशनल १२५  
 शमा कशीदाकारी शमा. ४५०  
 —जनती रही गुप्त, विंध्याचलप्रसाद. सुभाष ३००  
 —बुझ गई. शकर सुल्तानपुरी सुरेद्र २२५  
 —बुझ गई सोमनाथ 'अकेला' कन्हैयालाल'. २५०  
 शरच्चद्र चितन व कला. मदान, इन्द्रनाथ. हि भवन २.५०  
 शरणागत वर्मा, वृदावतलाल मयूर १.२५  
 शरणागति-रहस्य गीता ०.८७  
 शरणार्थी वासतीदेवी. नेशनल. ०.७५  
 शरत की कहानिया चट्टोपाध्याय, शरत्चद्र. कि महल.  
 २५०  
 —की सूक्तिया जैन, रामप्रकाश भा. ज्ञानपीठ २००  
 —के नाटक. चट्टोपाध्याय, शरत्चद्र. सहगल ६.००  
 —के नारी-पात्र चतुर्वेदी, रामस्वरूप. भा ज्ञानपीठ ४.५०  
 —के लतीफे साहा, महादेव. हि प्रचा पु. २२५  
 शरत्चद्र विष्णु प्रभाकर पीपुल्स १.५०  
 —व्यक्ति और कलाकार जोशी, इलाचद्र अशोक प्रे ३००  
 —: व्यक्ति और साहित्यकार गुप्त, मनाथन्मथ. नेशनल.  
 ६००  
 शरत ग्रथावली. चट्टोपाध्याय, शरत्चद्र. २ भा. रूपकमल  
 १०.०० (प्र)  
 —पत्रावली शरत्चद्र कन्हैयालाल ३००  
 —प्रतिभा सेनगुप्त, सुबोधचद्र  
 —साहित्य चट्टोपाध्याय, शरत्चद्र ३६ भा  
 शरदचद्र गुप्त, मन्मथनाथ कि महल ३०० (अप्रा)  
 शरद् व्याख्यान माना. चट्टोपाध्याय, शरत्चद्र. चौधरी १.५०  
 शरदरु होम्ज की जामुनी डायल, कानन हिंद पा. १००  
 शराफत शर्मा, जगदीश देहानी १.२५  
 शराव जी दूकान प्रेमचद्र. नरेस्व. प्रे ०.५०  
 —उठी करे. गांधी, मोहनदास करमचद्र नन्ना ०.३०  
 —उठी ज्यो ? कुमारपा. भागनन् नवजीवन ०.६२  
 —उठी लेनी ही चाटिये गांधी, मोहनदास करमचद्र.  
 नवजीवन. ०.८५  
 शरावी शर्मा, पाठेय सेनन डी अ. लाराम ३.५०  
 —श शिव. मंग शरती मन्मथ ५०  
 शरीर और मन की रक्षा योग, रामन्मथ नवजीवन ०.५०  
 —शरीर रक्षा-रक्षा सुप्त, चन्द्रमणि ३. प्रे ०.७५  
 —शरीर स्वास्थ्य गिरिशंकाय. गीता २.००

शरीर और स्वास्थ्य. वैनीचरण महेद्र. गयाप्रसाद (अप्रा)  
 —और स्वास्थ्य विज्ञान रघुनाथ प्रसाद कला-नि २२५  
 —प्रदीपिका वर्मा, मुकुन्दस्वरूप रा वेनीप्रसाद ५००  
 —वीवी. चगताई, अजीमवेग छात्रहितकारी १७५, —  
 सुरेद्र २२५  
 —यत्र सक्सेना, मुनीश. राजकमल. २००  
 —रचना, त्रिया और स्वास्थ्य विज्ञान, माथुर, एल पी  
 गयाप्रसाद २.७५  
 —विज्ञान. कादरी. कि महल भा. १०५०; भा  
 २-३. ०.७५ (प्र)  
 —विज्ञान. भावे, विनोवा. अनाथ. २८०  
 —विज्ञान साहा, कुसुमकुमारी स २ राजकमल ३००  
 —विज्ञान और आरोग्य-शास्त्र महत्व के प्रश्नोत्तर कारणे,  
 जी ह्री मिश्र-वधु २.००  
 —विज्ञान और तात्कालिक चिकित्सा. गुप्त, केदारनाथ.  
 छात्रहितकारी १२५  
 —विज्ञान और स्वास्थ्य. टडन, रानी नद स. २५०  
 —विज्ञान और स्वास्थ्य-कला मेहरोत्रा, आर कि महल  
 ०.७५  
 —विज्ञान की रूपरेखा. श्री खटे, मालती. साथी ३.००  
 —श्रम गांधी, मोहनदास करमचद्र नवजीवन ०.२५  
 —सर्वांग लक्षण मित्तल, भगवानदास. भृगु ज्योतिष १५०  
 —स्वास्थ्य-विज्ञान त्रिपाठी, नागेद्रपति ग्रथमाला २००  
 शर्वत का व्यवसाय वर्मा, चट्टलाल 'चद्र' चद्र कार्या. १.००  
 —विज्ञान गुप्ता, हूकमचद्र देहानी २५०  
 शर्वरी डालमिया, दिनेशनदिनी एन चाद. ७.००  
 शर्वाणी शर्मा, अनूप भा भ ७५०  
 शल्य विज्ञान की कहानी. चतुर्वेदी, जगपति. कि महल  
 २.००  
 शबरी अछूत. मिश्र, गौरीशंकर. ड प्रे. १.००  
 शव माधन. मिश्र, बलदेव प्रसाद. ज्ञानमडल २५०  
 शवेतार. हस १.५०  
 शशाक ठाकुर, रवीन्द्रनाथ कि महल २००  
 शशाक चट्टोपाध्याय, राखानन्दन चिनगारी ५००  
 शशाक. गुप्त, रामचद्र, अनु ना प्र नभा. ४५०  
 शशिमाना-कथा. दयान व म हि  
 शशीगुप्त. शर्मा, राजनाथ रतन ३५०  
 शहशाह शर्मा, जगदीश देहानी १.२५  
 शह कौर मात यादव, राचेंद्र. भा ज्ञानपीठ ८००  
 शहवृत्त के गुण तथा उपयोग शीदिन, राममनेरी देहानी.  
 ०.५०  
 शहद श्रीमप्रसाद नवजीवन ०.६२  
 शहद देवी नरेय अन्मनन ३००  
 —श्रीम शीर्ष नवजीवन. रावत, ड नि रावन ८.००  
 —का लोभी नृसिंह रजत नान्नी प्र  
 —श्री लेनी रावन, ड नि नन्ना. ०.८०  
 —के गुण तथा उपयोग पाठेय महेन्द्रनाथ. छात्रहितकारी  
 ०.७५

शहद मे हुँके कि शगव मे व्यामचद्र. आदर्श पु म १००  
 शहद वा आदमी युगल ना भवन, इ १००  
 —मे घुमना आर्जना उषेन्द्रनाथ 'अस्क' नीलाम १०००  
 —मे हुँके गौड, जनार्दन शारदा म ५५०  
 शहीद आनंद, मुल्कराज हिंद पा १००  
 शहीद ओमीलाल 'इलाहवादी' राष्ट्र प्रचा, इ २७५  
 शहीद व्यामविहारी 'विरागी' राष्ट्र प्र म २५०  
 —की नमाधि त्रिभुवनपति सिंह अगोक पु म ४५०  
 —गुदीराम घोस गुप्त, मन्मथनाथ कि महल ०४०  
 —यतीन्द्र मुकर्जी गुप्त, मन्मथनाथ कि महल ०४०  
 शहीदाजलि लोकपालमिह हि मा परि, म २००  
 शहीदों की टोली भातृ-भापा ३००  
 शातला अग्रर, के वी ज्ञानपीठ ७००  
 शाता कगीदानागी शानादेदी देहाती १२५  
 शाति और एजना का मनीहा सनसेना, शभूदय ल नवयुग  
 प्र कु २००  
 —की और एनेन, जेम्स चौधरी १००  
 —की और टारे रेजिना. राजकमल १००  
 —की विजय लाल, एन रामा प्र १५०  
 —के नूतन क्षितिज वील्म, नेम्टर एन चाद ५००  
 —के पय पर तुनी, आचार्यश्री आदर्श सा पहली मजिल  
 १७०, दूसरी मजिल २००  
 —के पय पर नरेन्द्रपाल मिह सा सगम, लु ६००  
 —के महारथी मेयर, एडिथ पैटर्मन एस चाद १५०  
 —दूत देवदत्त 'अटल' आत्मराम १५०  
 —दूत अमर वापू कानिम अली, सैयद हि प्रचा पु  
 २२५  
 —दूत नेहर् रतुडी, वीरेन्द्रमोहन उमेश २००  
 —निरेतेन की यात्रा प्यारेलाल नवजीवन ०३५  
 —प्रिय नेहर् मेहरोत्रा, ज ना गगा १५०  
 —यात्रा भावे, विनोवा मन्ता १५०  
 —, नषर्प और प्रे-राणा पाटेय एन पी सहगल ५००  
 —मेना भावे, विनोवा अ भा नर्व ०७५  
 शाक और नरकाणियों की गेती हरिदास 'महयोगी' नद व  
 गय नद व १०५  
 —रूपि-दर्शन राय, रामनागर कला नि ६२५  
 —रत्नाकर मुजीरा देवानी ०२५  
 शाहना का नैतिक आधार गांधी, मोहनदान करमचद  
 नवजीवन ०२५  
 शाहोपावन के निदान एनम् विपिया शर्मा, पी पी.  
 एनियन ४५०  
 शाही सा शहना नौतन धानवी ना नाम, लु २५०  
 —सा शहना नाद, शिरोर हिंद पा १००, —  
 नि शहना ०५०  
 शाहना शिवादी, शलकर प्रचानी हि प्रचा पु २००  
 शाहना और वर गौडिना, नेठ एन नाद ०५०  
 शाहना मे शहना शहना मिह पाणिजान ३००  
 शाहना प्यारेलाल प्राचाराग' रूपती ३००

शायरी के नये दौर गोयलीय, आयोध्याप्रसाद भा ज्ञानपीठ  
 भा १-५ ३०० (प्र)  
 —के नये मोड गोयलीय, आयोध्याप्रसाद भा ज्ञानपीठ  
 भा १-५ ३०० (प्र)  
 शारदा विल पाठक, चंद्रशेखर हि प्रचा पु ०३१  
 शारदीया डालमिया, दिनेशनदिनी गगा १५०  
 शारदीया माथुर जगदीशचंद्र सस्ता १५०  
 शारदोत्सव ठाकुर, रवीन्द्रनाथ प्रभात प्र २००  
 शारीरिक और आध्यात्मिक ब्रह्मचर्य सहाय, चतुर्भुज स ३  
 साधन २२५  
 —शिक्षण अग्रवाल, रौनकीराम २ भा इ. प्रे  
 २५० (प्र)  
 —शिक्षा छागणी, शिवकरण नवयुग प्र कु ५००  
 —शिक्षा शिरालकार भोपाल एव स्वरूप १५०  
 —शिक्षा के सिद्धांत एव तत्वज्ञान मोहन, वी एम स २  
 मैट्रोपोलिटन ४५०  
 शाला प्रवध, स्वास्थ्य शिक्षा एव सामाजिक सगठन (प्रश्नोत्तर).  
 सिधल, वी एल गयाप्रसाद २००  
 —प्रवध, स्वास्थ्य शिक्षा एव समाजिक सगठन सिधल, वी  
 एल लायल २००  
 शावक कहानिया मिश्र, शारदा हि प्रचा पु ०६७  
 शासकीय आलेखन कला यादव, मुरलीधर कि महल २५०  
 शासन-पथ-निदर्शन टडन, पुरुषोत्तमदास आत्मराम ६००  
 —पद्धति प्राणनाथ विद्यालकार ना प्र सभा ३००  
 —पर दो निवध लॉक, जॉन हि सभि ४५०  
 —मुक्त समाज की ओर मजूमदार, धीरेन्द्र अ भा सर्व  
 ०५०  
 —मे नागरी पाडे, चंद्रवली हि सा सम्मे १२५  
 —व्यवस्था की प्रारभिक पुस्तक सक्सेना, लाडलीप्रसाद  
 रामप्रसाद ०५०  
 —शब्द कोश राहुल, साकृत्यायन हि सा सम्मे १५००  
 (अप्रा)  
 शान्त्रार्थ पानीपत २ भा श्री भा दिगवर ०७५ (प्र)  
 शान्त्रीय कठ सगीत रामअवतार 'वीर' देहाती २५०  
 —समीक्षा के सिद्धांत त्रिगुणायत, गोविंद एस चाद  
 भा १ ८००, भा २ १०००  
 शान्त्री शाहव शुक्ल, वदगीनारायण गगा ३००  
 शाहजहा राय, द्विजेन्द्रलाल राष्ट्रीय प्र मदिर १७५, —  
 हि प्र १७५  
 शाहजादा खुमरो सोमेस्वर सिंह इ प्रे २२५  
 शाहनामा रामचंद्र गयाप्रसाद ५००  
 शाह वरकत उल्ला वी हिंदी को देन लक्ष्मीधर शास्त्री इ  
 प्रे १५००  
 —वादशाद गोमोल युनिवर्सिटी ३५०  
 शाहवार मोती शिवव्रतलाल शिव ना १२५  
 शाही कमन्दद अनानकर, वावूराव आनंद पु, वा ३००  
 —जादगर्नी शिवव्रतलाल शिव सा १.५०  
 —डाकू शिवव्रतलाल शिव सा १७५

- शाही दृश्य गर्ग, माखनलाल गुप्त. ना. प्र. सभा ३००  
 —पति परायण शिवव्रतलाल शिव सा १२५  
 —भिखारी शिवव्रतलाल शिव सा १६२  
 —भूत शिवव्रतलाल शिव सा. १००  
 —लकडहारा न्यादरसिंह 'वेचैन' देहाती ०.७५  
 —लकडहारा वर्मन, शिवव्रतलाल सहगल ३५०  
 —लकडहारा शिवव्रतलाल. शिव सा २६२  
 शिजिनी हिं प्रचा स. ०७५  
 शिकस्त सोमनाथ 'अकेला' पुष्पी २००  
 शिकागो वक्तृता. विवेकानन्द, स्वामी स ८ श्रीरामकृष्ण  
 ०६५  
 शिकायते और शिकायते उपेद्रनाथ 'अस्क' . नीलाभ  
 शिकार नगेद्रकुमार ग्रथ भ १००  
 शिकार भटनागर, श्यामराय हिंद पा १००  
 —और जीवन रौलिंस, मारजौरी किनन आत्माराम ६००  
 —की कहानिया बालकृष्ण नेशनल २००  
 शिकारियों की सच्ची कहानिया शाडिल्य, शिववार्थसिंह.  
 पु भ २५०  
 शिकारी. वनफूल हिंद पा १००  
 —औरत पुष्पी १२५.  
 —कहानिया. चौधरी, नरेद्र २ भा सा साधना ०५० (प्र)  
 —कुत्ता. डायल, कानन अपर एव प्रभात पब्लि ४००  
 —के शब्द चित्र तुर्गनेव इवान. पीपुल्स २.८१  
 —पक्षी. चतुर्वेदी, जगपति कि. महल २००  
 शिक्षक और उनका प्रशिक्षण सिन्हा, शत्रुघ्नप्रसाद. ज्ञानपीठ.  
 ३.५०  
 शिक्षण अभ्यास मिश्र, हरीकृष्ण सा नि, का. ०.६३  
 — इसका मनोविज्ञान. मिश्र, योगेद्रनारायण ज्ञानपीठ  
 शिक्षण कला (प्रश्नोत्तर) पाठक, दानवहादुर मालवीय.  
 ४७५  
 —कला (प्रश्नोत्तर) भारद्वाज, दिनेशचद्र. विनोद ५००  
 —कला माथुर, एस एस सशो स विनोद ७००  
 —कला. मिश्र, आत्मानन्द गर्ग ब्र ७००  
 —कला शर्मा, मुकुन्ददेव नद ब्र ५००  
 —की गतिशील विधिया मुनेश्वरप्रसाद मगध ५५०  
 —के आधार चतुर्वेदी, सीताराम नद ब्र ५००  
 —निर्देशिका सर्वोदय २००  
 —प्रविधि. बी एस . राजकमल ३००  
 —मनोविज्ञान जफर, एम डी रा. वेनीप्रसाद २००  
 —मार्ग-प्रदर्शिका भा १ ज्ञानपीठ ६२५  
 —विचार भावे, विनोबा अ भा सर्व २५०  
 —विचारधारा. वर्मा, वैद्यनाथप्रसाद २ भा. दि पु स  
 ४०० (प्र)  
 —विधान. जायसवाल, सीताराम नद ब्र एव नद स ३२५  
 —विधि. देव, वीरेनचद्र स ३ साधना म १५०  
 —विधि बालकृष्ण हिं. सा स ३००  
 —विधि. ब्रजनन्दन प्रसाद दि पु स ३२५  
 —विधि. वर्मा, सर्वमंगला. मगध. ५००

- शिक्षण विधि के सिद्धांत, शर्मा, मुकुन्ददेव. नद ब्र ३.५०  
 —विधि के सिद्धांत शर्मा, वेणीमाधव. नद स. ३.५०  
 —विधिया उमरावसिंह गयाप्रसाद ४००  
 —विधिया भारद्वाज, दिनेशचद्र. विनोद ५००  
 —विधिया सिन्हा, तारकेश्वरप्रसाद दि पु स १५.००  
 —विधियों की रूपरेखा चौधरी, रामखेलावन स ३. हिं सा  
 भ १२००  
 —सिद्धांत माथुर, एस एस स २ विनोद ६००  
 —सिद्धांत एव स्वास्थ्य शिक्षा माथुर, एस एस रस्तोगी.  
 ५००  
 —सिद्धांत और पाठन विधिया निरजन कुमार रा वेनी-  
 माधव २७५  
 —सिद्धांत के मूल आधार रोस एस चाद ५००  
 शिक्षा कृष्काया, न क पीपुल्स ०६४  
 शिक्षा. जाकिर हुसैन राजकमल ३००  
 शिक्षा ठाकुर, रवीन्द्रनाथ सन्मार्ग २००  
 शिक्षा विवेकानन्द, स्वामी स ४ श्रीरामकृष्ण ०८५  
 शिक्षा श्रीमातीजी श्रीअरविद १५०  
 —अनुसंधान की रूपरेखा पाडेय, कामताप्रसाद पु भ, आ  
 —ऐसी हो गाधी, मोहनदास करमचद सस्ता ०३०  
 —और शिक्षा के सिद्धांत व्यामाचरण कि महल. २५०  
 —का आदर्श गाधी, मोहनदास करमचद प्रभात प्र २००  
 —का माध्यम गाधी, मोहनदास करमचद नवजीवन ०२५  
 —का रोग और उसका इलाज होम्स, एडमड. रा वेनी-  
 प्रसाद १००  
 —का विकास. मशहवाला, किशोरलाल नवजीवन १२५  
 —का स्वरूप वर्मा, उषा. साधना म ६००  
 —की ओर जैन, यादवचद्र यग मैन १६०  
 —की कुछ समस्याए लिविंग्टन, रिचर्ड हिं ग्र र २००  
 —की दार्शनिक मीमासा चौवे, कल्पनाथ नद. स ६००  
 —की पुनर्रचना सैयदैन, के जी राजकमल ७००  
 —की रूपरेखा रसल, बर्ट्रैंड राजकमल ६२५  
 —की समस्या गाधी, मोहनदास करमचद नवजीवन २५०  
 —की समस्याए माथुर, बी एस ड पब्लि ३५०  
 —के आधार स्तंभ चौधरी, रामखेलावन २ भा हिं ना  
 भ ३७५ (प्र)  
 —के क्षेत्र में प्रयोग और समस्याए शर्मा, डी बी ..  
 गयाप्रसाद  
 —के तात्त्विक सिद्धांत (प्रश्नोत्तर) द्विवेदी, चद्रदत्त पु भ,  
 आ ५२५  
 —के दार्शनिक आधार मिह, एम पी. कि महल २५०  
 —के सामान्य सिद्धांत एव बाल मनोविज्ञान व्यामाचरण  
 कि महल ३००  
 —के सिद्धांत जैन, एम. एन गिवलाल ४००  
 —के सिद्धांत एव तत्त्व वावर, एम एन गयाप्रसाद ७५०  
 —के सिद्धांत और अ धुनिक विकास चौवे, सरयूप्रसाद  
 लक्ष्मी ना. ३००  
 —के सिद्धांत और इतिहास. चौधरी, गभूजरण, मगध ६००



- शिक्षा के निम्नलिखित और विकास निरजनकुमार रा वेनीमाधव २७५
- के निम्नलिखित और शिक्षा मनोविज्ञान टडन, रानी नद ब्र एव नद न २५०
- के निम्नलिखित तथा शिक्षा में आधुनिक प्रगति श्यामाचरण कि महल २५०
- तथा मनोविज्ञान श्यामाचरण कि महल ३००
- तथा मनोविज्ञान में मर्यादा शास्त्र देव, प्रतिभा यूनिवर्सिटी ७५०
- शिक्षात्मक अनुसंधान की प्रस्तावना टैवर्स, रावर्ट एम डब्लू कि महल १२००
- मनोविज्ञान श्यामाचरण कि महल ३००
- शिक्षा दर्शन सर्वोदय सा १००
- दर्शन भाटिया ओरिएट ४००
- दर्शन महगल, मनमोहन दि पु स ५००
- दर्शन और प्रयोग आनंद, रघुनाथ, सपा भागलपुर बुक ६५०
- दर्शन की भूमिका ड्युई, जान भा भ १०००
- दर्शन-मजूपा तारकेश्वरप्रसाद ज्ञानपीठ ६७५
- दिग्दर्शन निरजनकुमार स २ रा वेनीमाधव ७००
- निदर्शन क्रो. एस चाद १२००
- निवधमाला मृगदिल, एम समाज २२५
- परिचय केटी मेडम नेन्सी गयाप्रसाद ६००
- शिक्षापूर्ण कहानिया विष्वनाथ राजपाल ०५०
- शिक्षा-प्रणालिया और उनके प्रवर्तक चतुर्वेदी, सीताराम नद म ७५०
- शिक्षाप्रद कथाए आनंदकुमार राजपाल, १२५
- कहानिया गुप्ता, वैजनाथ इ पब्लि ०७५
- ग्यारह कहानिया गोयदका, जयदयाल गीता ०२५
- पत्र गोयदका, जयदयाल गीता ०५०
- पौराणिक कथाए महेशचंद्र सरल सरल ०.७५
- शिक्षा-मनोविज्ञान चद्रावती लखनपाल विजयकृष्ण ५६२
- मनोविज्ञान (प्रश्नोत्तर) चौधरी, रामखेलावन मालवीय ६७५, — — म ३ हि मा भ २५०
- मनोविज्ञान देव, धीरेनचंद्र न ३ साधना म १५०
- मनोविज्ञान (प्रश्नोत्तर) द्विवेदी, चंद्रदत्त पु भ, आ ३००
- मनोविज्ञान धर्मवीर केदारनाथ
- मनोविज्ञान निरजनकुमार रा वेनीमाधव २७५
- मनोविज्ञान पांडेय के पी पु भ, आ
- मनोविज्ञान पांडेय, जगदानंद ताग ६००
- मनोविज्ञान ब्रदा, पी पी हि प्रचा पु १५०
- मनोविज्ञान दानटृष्ण हि ना न ३००
- मनोविज्ञान भगवानप्रसाद मगध ६००
- मनोविज्ञान भाटिया, मनराज परि न ज्ञानमठल ५००
- मनोविज्ञान माथुर, एम एम नशो न २ विनोद १२५०
- मनोविज्ञान मोर्गेन्ट्राउट, भाटि मशो न, २ विनोद ३.००

- शिक्षा मनोविज्ञान राय, विनयकुमार नद स
- मनोविज्ञान शुक्ल, लालजीराम नद ब्र ८५०,  
भा १२ ४५० (प्र), — — नद स ८५०, भा १ ४५०, भा ३ ४००
- मनोविज्ञान एव सांख्यिकी की सरल रूपरेखा (प्रश्नोत्तर) अग्रवाल, आर पी गयाप्रसाद ३००
- मनोविज्ञान और मापन (सरल अध्ययन) शर्मा, नाथूराम रतन ६५०
- मनोविज्ञान का सरल अध्ययन शर्मा, नाथूराम रतन ३७५
- मनोविज्ञान की नई रूपरेखा रावत, डी एस विनोद ६००
- मनोविज्ञान की रूपरेखा मुकर्जी कि महल ८००
- मनोविज्ञान की रूपरेखा रौस, जेम्स एस स २ शिवलाल ५००
- मनोविज्ञान की रूपरेखा शुक्ल लालजीराम नद ब्र एव नद स २५०
- मनोविज्ञान के तत्त्व भाटिया ओरिएट ७५०
- मनोविज्ञान के मूल तत्त्व गुप्ता, ए के रस्तोगी ६५०
- मनोविज्ञान के मूल तत्त्व वर्मा, आई बी . श्रीराम मेहरा २५०
- मनोविज्ञान दीपिका जायसवाल, सीताराम सर्वोदय सा ५००
- मनोविज्ञान प्रवेशिका वात्स्यायन केदारनाथ
- मनोविज्ञान प्रश्नोत्तरी श्रीवास्तव नद ब्र एव नद स ३००
- मे अहिंसक क्रांति गांधी, मोहनदास करमचंद अ भा. सर्व १००
- मे आधुनिक प्रयोग हि सा भ २५०
- मे कला सर्वोदय २.००
- मे खेल-खिलौने दीक्षित, ब्रह्मदत्त सर्वोदय सा. ३.००
- मे गांधीवादी योजना हि सा भ २५०
- मे नये प्रयोग सूरजभान राजपाल ४००
- मे नवीन प्रयोग हि सा भ १५०
- मे मनोवैज्ञानिक क्रांति हि सा भ १५०
- मे विवेक मशरूवाला, किशोरलाल नवजीवन १५०
- शिक्षालय प्रवध और स्वास्थ्य जायसवाल, सीताराम नद ब्र एव नद स ३२५
- व्यवस्था जैन, एम एल सशो स २ शिवलाल ३००
- सगठन नवलकिशोर हि प्रचा पु १७५
- सगठन निरजनकुमार मिह रा वेनीमाधव ४७५
- सगठन गयबर्न अपर ४५०
- सगठन के सिद्धांत त्रिपाठी कि महल ५००
- सगठन तथा स्वास्थ्य (प्रश्नोत्तर) शर्मा, सी पी सशो. म २ मालवीय ४७५
- स्वास्थ्य विज्ञान बहादुर सिंह, कुवर रा वेनीमाधव ३५०
- शिक्षा विज्ञान गुप्त, लक्ष्मीनारायण गर्ग ब्र ७.५०, ७.६०
- विज्ञान रावत, डी एस रस्तोगी ५००
- विज्ञान शुक्ल, लालजीराम नद ब्र एव नद. स. ३.७५
- विज्ञान सार. चौधे, सरयूप्रसाद. दि. पू. स. १५.००

- शिक्षा विधि सामाजिक विषय शर्मा, गुलशनस्वरूप आगरा बुक १२५
- शास्त्र चौधरी, रामखेलावन स ३ हि सा भ २५०
- शास्त्र जफर, एम डी कि महल २५०
- शास्त्र जायसवाल, सीताराम नद. ब्र. एव नद स ७.००
- शास्त्र. द्विवेदी, चद्रदत्त पु भ, आ २२५
- शास्त्र. सत्यव्रत सिद्धातालकार . विजयकृष्ण ४००
- शास्त्र सैयदैन, के जी राजकमल. ६००, ६००
- शास्त्र की रूपरेखा सड, रामगोपाल रा वेनीप्रसाद २००
- शास्त्र के मूलतत्व मुनेश्वरप्रसाद दि पु स सपूर्ण १०००, भा. १ ५००, भा २ ५००
- षण्णवति कर्तव्य षट् त्रिशिका तुलसी, आचार्यश्री आदर्श सा. ०७५
- सगठन मलैया, के सी राजपाल. ६००
- समस्या शकराचार्य स्वामी रामप्रसाद ०५०
- समीक्षा. कपूर, कालीदास. इ प्रे १००
- सिद्धात चौबे, सरयूप्रसाद लक्ष्मी ना १०००
- सिद्धात जायसवाल, सीताराम रा वेनीप्रसाद ५.००
- सिद्धात देव, वीरेनचद्र स ३ साधना म. १५०
- सिद्धात. बालकृष्ण . हि सा स ३००
- सिद्धात माथुर, एस एस मशो स विनोद ७००
- सिद्धात योगेंद्रजीत, भाई सशो स २ विनोद ३००
- सिद्धात रेमत ओरिएट ६००
- सिद्धात एव तत्व (प्रश्नोत्तर). शर्मा, एम पी सशो. स २. मालवीय ५७५
- सिद्धात एव बाल मनोविज्ञान (प्रश्नोत्तर) कृष्णमुरारीलाल गयाप्रसाद २००
- सिद्धात एव बाल मनोविज्ञान. टडन, तेजनारायण, सपा हि सा भ. १५०
- सिद्धात एव बाल मनोविज्ञान श्रीवास्तव, कृष्णमुरारीलाल . लायल २००
- सिद्धात और प्रयोग जायसवाल, सीताराम नद. ब्र एव नद स ४००
- सिद्धात और बुनियादी शिक्षा (प्रश्नोत्तर) श्रीवास्तव, कृष्णमुरारीलाल लायल ११०
- सिद्धात की भूमिका जायसवाल, सीताराम नद ब्र २००; — —नद स २५०
- सिद्धात की रूपरेखा अनत, अ अ नवयुग प्र ३५०
- सिद्धात की रूपरेखा जोशी, बाबूराव गयाप्रसाद ७५०
- सिद्धात की रूपरेखा रावत, डी एस रस्तोगी ४५०
- सिद्धात की रूपरेखा विष्णु दयाल किशोर पब्लि ३७५
- सिद्धात-प्रवेशिका सिन्हा, शत्रुघ्नप्रसाद ज्ञानपीठ ५००
- सिद्धात, प्रश्नोत्तरी अनत, अ अ नवयुग प्र ३.५०
- शिखडी, शर्मा, कामेश्वर राष्ट्रीय प्र मडल एव राष्ट्रीय सा. स ३००
- शिखर वशोत्पत्ति शर्मा, हरिनारायण, सपा. ना. प्र सभा. १.००

- शिखरो का सेतु. शिवप्रसाद सिंह भा ज्ञानपीठ ३५०
- शिजिनी भदौरिया, शिवबहादुरसिंह सा. नि, का १६२
- शिप्रा जानकीवल्लभ शास्त्री कला-नि ४००
- शिमले की क्रीम मेहदीरता, वीरेद्र नीलाभ २५०
- शिला पख चमकीले माथुर, गिरिजाकुमार सा भवन, इ ३५०
- शिल्प और दर्शन पत, सुमित्रानदन रा वेनीमाधव ८००
- कथा बसु, नदलाल सा भवन, इ १२५
- कला भडार गुप्ता, जी आर भा कला भा १.४.००; भा २ ८००
- कला शिक्षा. कसरानी. देहाती ४००
- निरूपण गर्ग, सुरेशचद्र सर्वोदय सा २५०
- माला जौहरी, विद्याधरी स ४ हि भवन भा. १ ६००, भा २ ४००
- शिल्पी पत, सुमित्रानदन राजकमल ४००
- शिल्पी शुक्ल, कमल नेशनल ५००
- का प्रेम लुई, पियरे कि महल. ३००
- शिव उपासना रामकृष्ण. देहाती. ४५०
- गीतिका सक्सेना, महेशनारायण उर्मिला, द्वारा महेश-नारायण सक्सेना, नेतरहाट विद्यालय, नेतरहाट (राची) २००
- शिवनेर केसरो जैन, यादवचद्र रणजीत ५००
- शिव-पार्वती भा, गणनाथ हि प्रचा पु ०५०
- शिवपूजन-रचनावली सहाय, शिवपूजन वि राष्ट्र ख. १ ८७५, ख २ ६००, ख ३ १०००, ख. ४. ८.५०
- शिवमहापुराण भाषा श्यामलाल १०००
- शिवमहीमन मूल विशालमणि नारायण श्यामलाल ०३७
- शिवराज भूषण टडन, प्रतापनारायण हि सा भ १.५०
- शिवराज भूषण देवचद्र हि भवन. ३५०.
- शिव रात्रि-व्रत तिवारी, ब्रह्मदत्त गगा ०.५०
- शिव सकल्प शर्मा, हरिशकर रामप्रसाद ०५०
- शिव सदेश शर्मा, शिवदत्त कल्पवृक्ष १०००
- शिवस्तोत्रावली उत्पल देवाचार्य चौखवा. १०००
- शिवाजी आत्माराम १००
- शिवाजी भीमसेन विद्यालकार राजपाल. २००
- शिवाजी मिश्रवधु गगा. ३५०
- शिवाजी वर्मा, राजकुमार सा. भवन, इ १००
- शिवाजी सरकार, जदुनाथ हि ग्र र ३.२५
- का राजवश. सरकार, जदुनाथ. शिवलाल
- की नीति कथाए. देहाती ०७५
- मरहठा न्यादरसिंह 'वेचैन' देहाती ०७५
- शिवा वावनी शर्मा, हरिशकर, सपा रामप्रसाद ०५०
- वावनी और छत्रसाल दशक वरजोरसिंह 'सरल', सपा. रा वेनीप्रसाद ०५०
- शिवालक की घाटियो मे श्रीनिधि. आत्माराम ५.००
- शिवासाधना हरिकृष्ण 'प्रेमी' स ६ हि भवन २००
- शिवि और दधीचि मिश्र, दयाशकर 'दहा'. सस्ता. ०.४०

शिशु और नयी मुशी, कन्हैयालाल माणिकलाल कि महल २००  
 —गान श्रवणेश, आर वी एस चाद १.२५  
 —गान मत, जाना बाल सदन ० ७५  
 —गीत मित्र, गगाधर राष्ट्र प्र म २००  
 —जन्म चौपडा, भोमप्रकाश हेमकुट ३ २५  
 —निकेतन जोशी, लीला परिमल २ ५०  
 —पालन गुप्त, अत्रिदेव गगा ३ ७५  
 —पालन दुर्गादेवी . ड प्रे २००  
 —पालन बालमुकुद, चौधरी विद्या प्र भवन ० ७५  
 —पालन राजगोपालाचार्य, चक्रवर्ती सस्ता ० ५०  
 —पालन व्यथितहृदय रा वेनीप्रसाद ० ६२  
 शिशुपाल वध त्रिपाठी, रामप्रताप, अनु हिं सा सम्मे ८ ००  
 —वध माध मस्ता ० ४०  
 शिशुपानवत्रम् माध रा वेनीप्रसाद सर्ग १-२ २ ००  
 शिशु-प्रबोध-प्रणाली श्रीवास्तव, भागवतलाल. रा वेनीमाधव २ ००  
 —विहार तरुणभाई सर्वोदय सा ० ७५  
 —भारती द्विवेदी, सोहनलाल ड प्रे १ ००  
 —भाषा ज्ञान शिवमूर्ति सिंह रीगल ० ७५  
 —मनोविज्ञान माटमरी, मेरी प्रभात पब्लि  
 —लोरी. सकसेना, शम्भूदयाल नवयुग प्र कु ० ५०  
 —विनय माला आदित्यनारायण सिंह हिं प्रचा पु १ २५  
 —शिक्षण जोशी, हेमागिनी नद व्र एव नद स १ ५०  
 —शिक्षा जोशी, लीला कि महल २ ५०  
 —श्रीगम कथा वेरी, कृष्णचंद्र हिं प्रचा पु ० ७५  
 —गर्भरक्षण वर्मा, मुकुदम्बर रा वेनीप्रसाद २ ००  
 शिष्टता-नदाना रतिभानु सिंह 'नाहर' छानहितकारी १ ००  
 शिष्टाचार कौशल, रामस्वरूप धुनिवसिटी २ ००  
 शिष्टाचार शर्मा, शिवनाथ आदर्श पु भ ० ७५  
 शिष्टाचार नतराम विश्वेश्वरानंद २ ००  
 शिष्टाचार मन्त्रवाल, लक्ष्मणनता सस्ता ० ५०  
 —ही व्राने गुप्ता, वैजनाथ इ पब्लि ० ७५  
 —पद्धति शर्मा, अनुवंदी द्वाराकाप्रसाद  
 शीरा काठे पारनाथ 'आवारा' लखी २ ००  
 शीघ्र घोर भट्ट, रामेश्वर रा वेनीप्रसाद १ २५  
 —श्री भाषा टीका श्यामलाल १ ००  
 शीघ्र भीमा और नुरेंद्रपालसिंह नीलाभ ३ ५०  
 शीतला बट्ट ही आत्मकथा द्विवेदी, प्रभाकर चौधरी २ ५०  
 शीतल दान प्रयात बाल सदन ० ७५  
 शीतल नीलनाथ भीमट, आचार्य जैन, श्वेतावर ८ ००  
 शीतल उमा याद, उदयगज 'उदर'. लोक चिन्ता १.५०  
 शीतल निरपेक्ष मित्रान शी-प्रिनियोग पाडेय, जगदीश परि  
 म कर्तव्य प्र, आ १० ००  
 शीतल शी चौधरी, नरिनीरजन ड प्रे २ ७५  
 शीतल शर्मा 'श्री' दान ३ ५०  
 शीतल शर्मा, रामेश्वर हिं ना म ० ७५

शीशे का काम रानी देहाती ० ७५  
 —की दीवार नदा, गुलशन पजीवी पु २ ५०, — —  
 स्टार (पा) १ ००  
 शुक्रनासोपदेश भा, तारिणी रा वेनीमाधव १ ००  
 शुक्रनासोपदेश बाण रा वेनीप्रसाद १ ००  
 —(वाणभट्ट कृत) रामकृष्ण अचार्य विनोद १ ५०  
 शुक्र सप्तति मोतीलाल १ ० ००  
 शुक्र की राजनीति पाडेय, श्यामलाल गगा १ ० ००  
 —ग्रह पर मानव फाल्से, रातफ एम नेशनल ३ ००  
 —विचार काटवे, ह ने नागपुर प्र २ ५०  
 शुक्रिया शर्मा, जगदीश देहाती १ २५  
 शुक्लजी की निवध कला और चिंतामणि शर्मा, मकखनलाल रत्न ४ ५०  
 शुक्ल समीक्षा टेकचंद शास्त्री एस चाद ३ ५०  
 शुग मुग चुन मालवीय, हर्षदेव एस चाद ० ५०  
 शुचिता से आत्मदर्शन भावे, विनोबा अ भा सर्व ०.४०  
 शुद्धि सनातन है चौधरी, जे पी चौधरी १.२५  
 शुभदा चट्टोपाध्याय, शरदचंद्र इ प्रे २ ५०, — —प्रभात प्र ३ ००, — —श्यामलाल ३ ००, — —सन्मार्ग ३ ५०, — —हिंद पा १ ००, — —हिं. प्रचा म शुभमगल वरेरकर, मामा विद्या प्र म २ ०० [३ ००  
 शुद्रक पाडे, चंद्रवली मोतीलाल ४ ५०  
 शेक्सपियर की कहानिया. धर्मपाल शास्त्री राजपाल २ ००  
 —के नाटको की कथाए शुक्ल, शत्रुघ्नलाल, रूपा भा १-२ उमेग  
 —के सानेट द्विवेदी, राजेद्र आत्माराम ३ ००  
 शेखचिल्ली की कहानिया इ प्रे १ ५०  
 —की पाठशाला नारायण भक्त नारायण प्र २ २५  
 शेख फरीद वियोगी हरि सस्ता ० ३५  
 शेखर देवदत्त 'अटल' साहनी २ २५  
 — एक जीवनी वास्त्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद 'अज्ञेय' २ भा सरस्व प्रे ५ ०० (प्र)  
 शेख सादी आदित्य, शिवदानसिंह सस्ता ० ४०  
 शेनी श्रीमोलाल 'इलाहावादी' राष्ट्र प्रचा, इ ५ २५  
 शेरे ओ शाइरी, गोयलीय, अयोध्याप्रसाद भा ज्ञानपीठ ८ ००  
 —श्री सुखन गोयलीय, अयोध्याप्रसाद स २ ५ भा भा ज्ञानपीठ २ ० ००  
 —का सवार भट्टाचार्य, भवानी हिं अ २ ५ २५  
 शेरशाह गोविंददास, सेठ एम चाद २ ५०  
 शेरे पनाव वाम, शकर मस्ता. ० ४०  
 —महफिल शर्मा, राजेश अर्चना प्र (पा) १ ००  
 —हरम शर्मा, राजेश अर्चना प्र (पा) १ ००  
 शेरो की भगदड शिवमूर्तिसिंह 'वत्स' प्रभात प्र १ ००  
 शेलक्य गुप्त, कृष्णानंद, अनु सा सदन, चि १ ००  
 शेष का परिचय चट्टोपाध्याय, शरदचंद्र मुभाप ४.५०  
 शेषदान महतो, मोहनलाल 'वियोगी' ग्रथमाला २ ००

- शेषनाग की थाती धिल्डियाल, रमाप्रसाद 'पहाड़ी' प्रकाशगृह ५००
- शेष प्रश्न चट्टोपाध्याय, शरतचंद्र प्रभात प्र ४००, — — सन्मार्ग ६००, — — हिंद पा १००, — — हि प्रचा म. ४५०
- लकीरे पाडेय, राजनाथ. रा वेनीप्रसाद ४००
- शैक्षिक एव माध्यमिक शिक्षालय व्यवस्था गैड, डी एन . स २ रामप्रसाद ६५०
- मनोविज्ञान. शेरी, जी पी... प्रताप एव रामप्रसाद १०७५
- मापन तिवारी, आदित्यनारायण रा वेनीमाधव भा १. ३००, भा २. ४००
- मापन की नवीन रूपरेखा रावत, डी. एस गयाप्रसाद ६००
- सांख्यिकी तथा मापन मेहरोत्रा, प्रेमनारायण सा नि., का ६२५
- शैतान शा, जार्ज वर्नाड राजपाल. ३००
- की आख. राहुल साकृत्यायन कि महल २२५
- की खोपडी गुप्त, राजेश देहाती १२५
- की नानी. मुखोपाध्याय, कार्तिकेयचरण हि. पु ए ०७५
- की मौत टालस्टाय सहगल ०६५
- की मौत वत्स्य, सतराम नेशनल ०७५
- की शैतानी करेली, मेरी हि पु ए ४००
- शैलवधू वैष्णव, यमुनादत्त 'अशोक' आत्माराम ३००
- शैलाधीन शुक्ल, शत्रुघ्नलाल भा प्र. नि. ५००
- शैलिया जैन, फूलचंद्र 'सारंग' विनोद १५०
- शैली त्रिपाठी, करुणापति सा सेवक ३५०
- शैली शैली, पी वी. भा प्र मंदिर २५०
- और कौशल चतुर्वेदी, सीताराम हि सा कु ६००
- शैवमत यदुवशी वि राष्ट्र ८००
- शैवाल शुक्ल, रामगकर 'हृदय' हि सा. सम्मे. ३००
- शैव्या के आसू इंदिरा 'नूपुर' चंद्रलोक ३०
- हरिश्चंद्र मुखोपाध्याय, कार्तिकेयचरण हि पु ए ०.७५
- शैशव वीरेन्द्र 'मृदु' गयाप्रसाद ०७५
- शैशवाकन भा जानपीठ १२००
- शोटफायरी किताव दसाधी, वी न्यू स्केच १००
- शोभा-निवध-नवनीत दीनानाथ 'शरण' सा सगम, प ३.५०
- शोर और संगीत दुग्गल, कर्तारसिंह अभिज्ञान ५००
- शोला का काव्य-संग्रह बनवारीलाल 'शोला' क मु हि ७.००
- शोले. गुप्त, भैरवप्रसाद. धारा. ५००, — — नीलाभ ३.००, — — हिंद पा १००
- शोपण-मुक्ति और नव समाज पटवर्धन, अर्प्पा. अ भा सर्व ०६२
- शौनकीय वृहद्देवता. राय, रामकुमार, सपा . चौखवा. १५००
- शौर्यतर्ण देसाई, रमणलाल वमतलाल वीरा. ५००
- श्मशान धीमान, सीताराम. सा सदन, दे ०.७५

- श्मशान की गहनार्ई शर्मा, शीला सा नि, का २५०
- के आसू रामनरेश 'हिमाचु' कन्याकुमारी श्याम सरोज माला हीरालाल कल्याणदास १२५
- श्यामा त्रिभुवनपतिसिंह मिश्रा पु भ ३५०
- श्यामाप्रसाद मुकर्जी मधोक, बलराज ओरिएटल ६०० (अप्रा)
- श्यामा स्वप्न जगमोहन सिंह वगीय ४००
- स्वप्न श्रीकृष्णलाल, सपा ना प्र सभा २७५
- श्यामू गर्ग, किशोर स ४ रानी १५०
- की मा साने गुरुजी कि महल. ३००
- श्रद्धा और मनु प्रशांत बाल सदन ०७५
- करण वियोगी हरि सस्ता ०७५
- के फूल कृष्ण 'मजबुर' ड पब्लि ५००
- पथ के फिलिमिल प्रदीप गर्मा, रामानंद कन्याकुमारी श्रद्धेय के प्रति तुलसी, आचार्यश्री आत्माराम २२५
- श्रम अर्थशास्त्र. अग्रवाल, डी एन किशोर पब्लि १०००
- का मूल्य मिश्र, रविकमल रामप्रसाद १२५
- श्रमण भगवान महावीर. श्रीचंद रामपुरिया, सपा जैन श्वेतावर ०५०
- संस्कृति की दो धाराए—जैन और बौद्ध नथमल, मुनिश्री आदर्श सा ०१६
- संस्कृति के अचल मे बुद्धमल्लर्जा, मुनिश्री आत्माराम ३००
- श्रमदान इद्रसेन सिंह 'भावुक' ओरिएटल १५०
- श्रमदान ईगकुमार 'ईग' अनिल प्र म ०८०
- श्रमदान. भावे, शिवाजी अ भा. सर्व ०२५
- श्रमदान. गर्मा, ब्रह्मस्वरूप. सर्वोदय ०३७
- श्रमदान सत्यप्रकाश 'मिलिंद' सस्ता. ०३०
- महिमा वैश्य, जे. डी. ज्ञान भारती २५०
- श्रम मीमासा कुमारप्पा, जो काँ अ भा सर्व ०.७५
- समस्याये एव सामाजिक कल्याण सक्सेना, एस सी रस्तोगी ७०० से १२५०
- समस्याये तथा समाज कल्याण गर्मा, आर के... केदारनाथ ६००
- सामाजिक कल्याण एव मुरझा त्रिपाठी, जगदीननारायण. कि. घर, का १०००
- सिद्धांत : एक समीक्षा चतुर्वेदी, दूधनाथ सा केद्र ६.७५
- से स्वर्ग मिले व्यथितहृदय विनोद ०७५
- ही जीवन है मिश्र, यमुनाधर ग्रथम.ला १२५, १७५
- श्रयक काव्य. मिश्र, कृष्णकौर विश्वेश्वरानंद ३००
- श्रवण कुमार. चंद्रभान चंद्र देहानी ०७५
- श्राद्ध वेदा विरुद्ध है चौधरी, जे पी चाधरी १५०
- श्रावक रूपचंद जी हुकुमचंद वैद जैन श्वेतावर १२५
- संस्कृति रूप रेखा श्री आत्मानंद ५००
- श्रावकाचार श्रीचंद रामपुरिया, सपा जैन श्वेतावर ०७५
- श्री अयोध्याकांड-दर्शन. दीक्षित, कलिकाप्रसाद, टीका मिश्र-बधु. २.२५

- श्रीअरविद—अपने तथा श्रीमा के विषय मे घोप, अरविद श्रीअरविद १०५०  
 —का आश्रम और उनकी शिक्षा घोप, अरविद श्रीअरविद ०.२५  
 —का पूर्णयोग नारायणप्रसाद श्रीअरविद ०७५  
 —का महाप्रयाण सेठना, के डी श्रीअरविद १००  
 —का योग रायचौधरी, विजयकात श्रीअरविद १००  
 —का साधना-पथ घोप, अरविद श्रीअरविद ०३०  
 —की प्रेरणा श्रीअरविद ३००  
 —के पत्र घोप, अरविद श्रीअरविद भा १ ६००, भा २ ३००  
 —के पत्र (पत्नी के नाम) घोप, अरविद श्रीअरविद ०७५  
 —चरितामृत माधव श्रीअरविद  
 —वचनामृत घोप, अरविद श्रीअरविद ०५०  
 श्री कल्पसूत्र उपाध्याय, विनय विजय, टीका श्री आत्मानन्द २५०  
 श्रीकात चट्टोपाध्याय, शरत्चन्द्र इ प्रे ६००, — — प्रभात प्र ७००, — — श्यामलाल ७००, — — सन्मार्ग ८००, — — हिंदू पा १००, — — हिं प्रचा म ६००  
 श्रीकालू-उपदेश-वाटिका तुलसी, आचार्यश्री आत्माराम १२५०  
 श्रीकृष्ण कौशल, रामस्वरूप यूनिवर्सिटी २५०  
 श्रीकृष्ण चतुर्भुज म ८ माधना म. १५०  
 श्रीकृष्ण भट्ट, नानाभाई हिं प्र म ०७५  
 —उपदेश तिवारी, जगदीशनारायण हिं पु. ए १२५  
 —कथा शर्मा, चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद रा वेनीमाधव १००  
 —गीतावली इ प्रे ०७५  
 —गीतावली गीता ०३१  
 —गीतावली तुलसीदास, गोस्वामी कि घर, ग्वा १७५  
 —गीतावली शर्मा, वामदेव, सपा रा वेनीमाधव ०४४  
 —गीतावली का का-य मौदर्य राकेश लक्ष्मी ना ३००  
 —गीतावली—तुलसीदास शर्मा, वामदेव रा वेनीमाधव ०४४  
 —चरित. भवानीलाल भारतीय आर्य सा  
 —चरित सुदर्शनमिह 'चक्र' मोतीलाल १०००  
 —चरित आत्माराम १००  
 —चरित श्यामलाल ४००  
 —चरित्र अथवा रुक्मिणी मगन पाडेय, रूपनारायण हिं ना. भ ४५०  
 —वाल माधुरी गीता ०८७  
 —माधुरी गीता १००  
 —मदरग द्विवेदी, रामवचन अरविद' म ० सुलभ ५००  
 श्री गाथो-चरित-मानस महाजन, विद्याधर हिं भवन ५६२  
 श्रीगुरु गोविंदसिंहजी जसवतसिंह म ० नेचर ७५०  
 —शय दगां मिश्र, जयगम ना भवन ०८००  
 —शय गार्ह : एक परिचय धर्मपाल मैनी हिं भवन. ३.७५

- श्रीगुरु नानक देवजी जसवतसिंह स ३ नेचर ०५०  
 श्रीगोविंदवैभवम् भट्ट, मथुरानाथ गीता १००  
 श्री चद्रावली नाटिका (भारतेदु हरिश्चन्द्र) वाष्णैय, लक्ष्मी-सागर, सपा विश्वविद्यालय १५०  
 श्री चैतन्य भट्ट, पातीराम सा नि, का १००  
 श्री जगजीवनराम अभिनदन ग्रंथ पथिक, जी एस, सपा जगजीवनराम अभिनदन समिति, ३५ दर्पनारायण टैगोर स्ट्रीट, कलकत्ता २१००  
 श्री जानकी चरितामृत रामस्नेहीदास, परमहंस विश्व शांति १५००  
 श्री तुलसी मुक्तवाली वेगानी, मोहनलाल, सगा जैन श्वेतावर ०१६  
 श्रीदशमगुरु काव्य अमृतसार जसवतसिंह स २ नेचर ३००  
 श्रीदुर्गासप्तशती गीता मूल मोटा टाइप १००; सानुवाद ०७५, मूल ०५०  
 —(भाषा टीका सहित) श्यामलाल २००  
 —(मूल पाठ) श्यामलाल ०७५  
 श्रीधर पाठक तथा हिंदी का पूर्व स्वच्छदतावादी काव्य मिश्र, रामचन्द्र रणजीत १२५०  
 श्रीनिवास ग्रथावली श्रीकृष्णलाल, सपा ना प्र सभा ७५०  
 श्रीपचरत्न-गीता गीता ०२०  
 श्रीपार्वती-मगल गीता ०१२  
 श्री प्रजापति वरेरकर, मामा विद्या प्र म २५०  
 श्रीप्रेम-सुधा-सागर गीता ३५०  
 श्री बदरी-केदार यात्रा दुवे, बलराम रा वेनीप्रसाद ०३७  
 श्रीभगवत तत्त्व करपात्री इ प्रे ३००  
 श्रीभागवत सुधा-सागर गीता ८५०  
 श्रीभागवतामत (सटीक) गीता १७५  
 श्रीभीष्मपितामह गीता ०४५  
 श्रीमत्र पुष्पाजलि सूक्त विश्ववधु आचार्य विश्वेश्वरानन्द ०२५  
 श्रीमती क्यूरी लालवहादुर शास्त्री सा भवन, इ ३५०  
 —जी चगताई, अजीमवेग कि महल ३०० (अप्रा)  
 —वनाम श्रीमता चुकदर रामप्रसाद १००  
 —मजरी खडेलवाल, गणपतराय देहाती ०७५  
 श्रीमद वान भगवद्गीता उदयप्रकाश सिंह विश्व शांति १५०  
 श्रीमद्दयानन्द चित्रावली रामगोपाल विद्यालकार गोविंदरामः २५०  
 —प्रकाश सत्यानन्द, स्वामी गोविंदराम १२००  
 श्रीमद्भगवद्गीता गीता मूल साधारण भाषा टीका मोटा टाइप १२५, मझली १००, सटीक मोटे अक्षर ०.८७, श्लोक साधारण भाषा टीका मोटा टाइप ०५०, मूल. मोटे अक्षर ०३१, केवल भाषा मोटे अक्षर ०२५  
 श्रीमद्भगवद्गीता जिदल, शकरदयाल अवध १००  
 श्रीमद्भगवद्गीता बेलवलकर, एस. के., सपा काशी हिंदू १२००

- श्रीमद्भगवद्गीता वेदव्यास अर्चना प्र. (पा.) १००  
 श्रीमद्भगवद्गीता शर्मा, सुरेन्द्रनाथ रा. बेनीमाधव १५०  
 —(अध्याय २) भा, तारिणीश, व्या रा बेनीप्रसाद. १००  
 —के कुछ श्लोको पर विवेचन गीता ०२०  
 —(केवल भाषा). किशोरदास कृष्णदास, स्वामी. श्यामलाल २००  
 —तत्त्वविवेचनी गोयदका, जयदयाल, टीका गीता. ४००  
 —मृतम् धर्मद्रनाथ शास्त्री. रा बेनीमाधव ०७५  
 —रामानुजभाष्य गीता २५०  
 —शकरभाष्य गीता २७५  
 श्रीमद्भगवत् उदयप्रकाशसिंह. विश्व शांति. ५.००  
 श्रीमद्भगवत् गोविंददास विनीत श्यामलाल ६५०  
 श्रीमद्भगवत् वेदव्यास २ ख इ. प्रे. ८०० (प्र)  
 —दर्पण श्री रामायण १२००  
 —दिया कथा शर्मा, श्यामलाल. श्रीपति १.५०  
 —बाल बोधनी टीका सहित श्यामलाल १५००  
 —महापुराण गीता २ ख सटीक १५००, मूल ३००  
 —सग्रह शर्मा, चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद. रा बेनीप्रसाद ०६४  
 श्रीमद्वाल्मीकि रामायण शर्मा, चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद, अनु १० खं  
 श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण २ भा इ प्रे. १३००  
 —रामायण. गीता सटीक २ ख १७५०, केवल भाषा. ११००, केवल मूल ७५०, सुदरकाड ०७५  
 श्रीमन्महाभारतम् (मूल) गीता. भा. १-३ ६०० (प्र), भा ४ ४.५०  
 श्रीमा (श्रीअरविंद के पत्र) घोष, अरविंद श्रीअरविंद २.५०  
 —सारदादेवी गभीरानंद, स्वामी श्रीरामकृष्ण ६५०  
 श्रीमाताजी आयगर, के आर श्रीअरविंद ३००  
 —की बातचीत श्रीमाताजी भा. १-२. श्रीअरविंद. ६००  
 —की वार्ताए. श्रीमाताजी श्रीअरविंद. ०३०  
 —के प्रवचन श्रीमाताजी श्रीअरविंद. १५०  
 —के स्फुट वचन श्रीअरविंद ०.३०  
 श्रीमातृत्वप्रकाश घोष, अरविंद श्रीअरविंद १००  
 श्रीमातृमुक्तावली श्रीमाताजी श्रीअरविंद ०५०  
 श्री मानस सिद्धांत रामकुमारदास रामायणी मानस सघ. २.५०  
 श्री यशवतरावजी चह्वाण व्यक्ति और विचार अट्टावलकर, श्रीराम विद्या विकास १५०  
 श्रीयुत घनचक्कर शिक्षार्थी साधना सदन २५०  
 श्री 'रमा' जी और उनका काव्य त्रिवेदी, हरीराम हिं. साहित्यालय ०७५  
 श्री राजराजेश्वरी ग्रथावली राजराजेश्वरी प्रसादसिंह 'प्यारे' अशोक प्रे ५००  
 श्रीराजेन्द्र-अभिनदन ग्रथ सहाय, शिवपूजन. ग्रथमाला २५००  
 श्रीराधा का क्रम विकास गुप्त, शशिभूषण दास. हि प्रचा पु ८००  
 —माधव-चित्तन गीता. ३५०  
 —माधव-रस-सूधा. गीता. ०.१८

- श्रीराम चतुरसेन, आचार्य प्रभात प्र २.५०  
 —कथा मिश्र, रामदास 'विजय' हि. प्रचा म. १००  
 —कथा रामसकल सिंह अशोक पु. म. ०७५  
 श्रीरामकृष्ण-उपदेश ब्रह्मनंद, स्वामी, सग्रा स. ४. श्रीरामकृष्ण (पा) ०७५  
 —लीलाप्रसंग सारदानंद, स्वामी श्रीरामकृष्ण ख १ ६.०० ख २. १०.००, ख ३ ७००  
 —लीलामृत तिवारी, द्वारकानाथ स. ४. २ भा श्रीरामकृष्ण ५०० (प्र)  
 —वचनामृत त्रिपाठी, सूर्यकांत 'निराला', अनु श्रीरामकृष्ण भा. १ स ४. ६५०, भा २ स २ ६००, भा ३ स २ ७००  
 श्रीराम-कृष्णायन चतुर्वेदी, हृषीकेश. शिवलाल. १.५०  
 श्री रामचंद्र कि महल १५०  
 श्रीरामचरितमानस गीता मोटा टाइप बृहदाकार. भाषा टीका १५.००, मोटा टाइप भाषा टीका ७.५०, मझला साइज महीन टाइप सटीक. १६५, बडे अक्षर मे मूल पाठ ४००, पाठ भेद सहित मूल पाठ मोटा टाइप ३००, मूल मझला साइज २.००, मूल गुटका ०७५  
 श्रीरामचरितमानस गीता बालकाड मूल ०.६२, बालकाड सटीक ११२, अयोध्याकाड सटीक. ०८१, अरण्यकाड मूल ०२०, अरण्यकाड सटीक ०२५; किष्किन्धाकाड सटीक ०१२, सुदरकाड सटीक ०२५, लकाकाड मूल ०२५, लकाकाड सटीक. ०५०, उत्तरकाड सटीक. ०.५०  
 श्रीरामचरितमानस. गुप्त, माताप्रसाद, सपा. हिंदु. एकेडेमी १२५  
 —संपूर्ण. त्रिपाठी, विजयानंद. ३ भा मोतीलाल ३०.००  
 —(सिद्धांत भाष्य) रामलोचनशरण, सपा. ४ ख पु. भ ५०००  
 —मे वेदांत दर्शन वर्मा, हीरालाल मानस सघ १२५  
 श्रीरामचरित्र-दर्पण अर्थात् संपूर्ण वाल्मीकि-रामायण वाल्मीकि श्री रामायण २०००  
 श्रीरामसहस्रनामस्तोत्र गीता ०१५  
 श्रीरामावतार शर्मा—निवधावली शर्मा, रामावतार. वि. राष्ट्र. ८७५  
 श्रीलका स्नेहलता राजकमल २००  
 श्रीलक्ष्मीनृसिंहसहस्रनामस्तोत्रम् गीता ०१६  
 श्रीविष्णुपुराण गीता ४.००  
 श्री शकराचार्य उपाध्याय, बलदेव हिंदु एकेडेमी. ७५०  
 श्री शकराचार्य का आचार-दर्शन तिवारी, रामानंद हिं. सा सम्मे ५००  
 श्री शकराचार्य वाक्यसुधा अद्वैतानंद सरस्वती भा १ मिश्र-वधु १००  
 श्री शभूदयाल सकसेना व्यक्तित्व और कृतित्व महेंद्र, रामचरण ख १ नवयुग ग्र कु. ५.००  
 श्रीशुक-सुधा-सागर. गीता. २०.००

- श्री श्रीनैतन्य-चरितावली गीता ख १ ० ८७, ख २  
१ १२, ख ३ १ ००, ख ४ ० ६२, ख ५ ० ७५  
—गुमिनादन पत न्मृति चित्र राजकमल ६५०  
—हनुमान चरित मुद्रेशनसिंह 'चक्र' मानस सध ३ २५  
—हिंगीता भागवत, दीनानाथ 'दिनेज', व्या स ६ मानवधर्म  
२ ७५  
—हरिभक्ति रमाभूत सिधु रूपगोस्वामी मा नि, का  
श्रीहित चौरागी गोस्वामी, ललिताचरण नेशनल ३ ५०  
श्रुताजनि इदिरादेवी श्रीअरविद ५ ००  
श्रुताना की कडिया वर्मा, महादेवी भा भ ३ ५०  
श्रुताना चत्रवर्ती, क दक्षिणायन १ २५  
श्रुगार दर्पण नदराम कवि भारतजीवन ० ७५  
—सतसई राममहायदास भारतजीवन ० ३७  
—हाट अग्रवाल वामुदेवशरण हि ग्र २ २२ ००  
श्रेणिक विवनाथ चद्रशंकर शास्त्री रीगल ५ ००  
श्रेय और प्रेय जैनेद्रकुमार पूर्वोदय ७ ००  
श्रेयार्थी जमनालालजी उपाध्याय, हरिभाऊ सस्ता २ ००  
श्रेष्ठ कवयित्रियों की प्रतिनिधि-रचनाए स्नेही अशोक पा  
१ ००, — —महगल २ ५०  
—कहानिया घिल्डियाल, रमाप्रसाद 'पहाडी' प्रकाशगृह  
१ ००  
—कहानिया मालवीय, रामेश्वर, सपा रा वेनीप्रसाद  
१ ७५  
—गल्प शरद राजरजना (पा) १.००  
—विदेशी उपन्यास जोशी, इलाचद्र. रा वेनीमाधव  
१ ५०  
—हिंदी कहानिया चद्रगुप्त विद्यालकार, सपा रामप्रसाद  
० ००  
श्वामो के स्वर रामावतार चेतन हि भवन २ ००  
श्वेत पद्म द्विवेदी, सिद्धविनायक हि प्रचा पु १ ७५  
श्वेताश्वतरोपनिषद्, शंकरभाष्य महित गीता ० ८७

## प

- पट्टर्शन नन्मृति  
पट्टयत्रकारी श्रुमा, अनेजेडर जान प्र ३ ००  
पट्टर्शनरुम्य पाठक, रानाथ त्रि राष्ट्र ५ ००  
पट्टर्शन का रानाथ त्रिचेन गतेश लायल २ ५०  
पट्टर्शन नैन, हनुमान ना नि, व १ ३१  
पट्टर्शी चंद्रोपाध्याय, नन्चद्र हि २ २ १ ५०

## स

- सकटो के सिपाही व्यथितहृदय एस चाद १ ५०  
सकरा द्वार आद्र जीद सरस्व स २ ५०  
सकलन द्विवेदी, महावीरप्रसाद भा भ १.५०  
सकलित रचनाए लेनिन पीपुल्स २ ७५  
सकलिता राजेश्वरप्रसाद नारायणसिंह आत्माराम २ ५०  
सकल्प सब्बरवाल कचनलता एस चाद ४ ००, — —  
नद ब्र एव नद स ३ ५०  
सकल्प हसरज 'रहवर' हिद पा १ ००  
—तथा अन्य एकाकी टडन, प्रेमनारायण हि सा भ  
२ ५०  
—सिद्धि ज्ञानाश्रम, स्वामी कल्पवृक्ष २ ००  
सकेत उपेद्रनाथ 'अशक', सपा नीलाभ १ ५ ००  
सकेत वर्मा, रामकुमार श्री भा भारती २ ५०  
सक्रात वाजपेयी, कैलाश भा ज्ञानपीठ  
सक्षिप्त अलकार मजरी पोद्दार, कन्हैयालाल हि सा सम्मे  
२ ००  
—कर्मयोग इ प्रे १ ००  
—कवि परिचय मोतीलाल ० ६४  
—कादवरी बाणभट्ट रामप्रसाद ३ ००  
—केशव-चद्रिका ससारचद्र श्री भा भारती २ ००  
—गीतावली (सटीक) तुलसीदास, गोस्वामी सा रत्न. भ  
० ५०  
—जायसी सकसेना, शभूदयाल लक्ष्मी ना ३ ५०  
—जायसी का व्याख्यात्मक व आलोचनात्मक अध्ययन  
राकेश लक्ष्मी ना ४ ५०  
—तत्रारयाकम नरोत्तमदास स्वामी, सपा श्रीराम मेहरा  
१ २५  
—पद्मावत श्यामसुंदरदास इ प्रे २ ५०  
—पृथ्वीराज रासो द्विवेदी, हजारीप्रसाद सा भवन इ.  
५ ००  
—प्रायोगिक रमायन चतुर्वेदी, के सी लायल ० ८०  
—वालचरितम् मुद्गल, कृष्णचद्र हि सा स १ ५०  
—वाल मनोविज्ञान पु भ ३ २५  
—विहारी रमाशंकर प्रसाद इ प्रे २ ००  
—भारतीय इतिहास उपाध्याय, तेजराम स्टुडेन्स स्टोर्स  
३ ००  
—भाषा विज्ञान चतुर्वेदी, राजेश्वरप्रसाद आगरा बुक  
२ ००  
—मनुस्मृति देवदत्त श्यामश्री विश्वेश्वरानंद ३ ५०  
—राजस्थानी व्याकरण नरोत्तमदाम स्वामी नवयुग अ कु  
—रामचद्रिका तिवारी, जगन्नाथ गयाप्रसाद ३ ००,  
— —विश्वविद्यालय २ ००  
—रामस्वयंवर (रघुराज मिह) ब्रजरत्नदाम, सपा ना प्र  
मना ३ ००  
—वात्मीकि रामायण व्याम, एन एन ओरिएण्टल ३ ००  
—वात्मीकि रामायण (बालकांड) मोतीलाल ३ ००  
—विश्वपति पदावली दीक्षित, त्रिलोकीनारायण हि मा.  
स २ ००

- सक्षिप्त विधि शब्द कोष (अंग्रेजी-हिंदी). अग्रवाल, वेनीप्रसाद, सपा रा वेनीप्रसाद. ५.००
- विनयपत्रिका. बरजोर सिंह 'सरल' रा वेनीमाधव ० ६४
- विष विज्ञान ज्ञानमंडल ० ७५
- विष्णु पुराण शर्मा, चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद. रा. वेनीमाधव
- शल्य-विज्ञान. वर्मा, मुकुदस्वरूप नद ब्र ८ ००
- शिक्षा सिद्धांत गर्ग ब्र. १ ६२
- शिक्षा सिद्धांत उमाशंकर शास्त्री हिं प्रचा पु १ ००
- शैक्षिक मनोविज्ञान गर्ग ब्र १ ३७
- सामान्य दर्शन वर्मा, अशोककुमार मोतीलाल ४.५०
- सूर सागर टंडन, प्रेमनारायण, सपा हिं सा भ ६ ००
- सूरसागर वेणीप्रसाद. इ प्रे. ३.५०
- सूरसागर सूरदास. देहाती ० ७५
- हिंदी कोष तिवारी, भोलानाथ कि महल. ३ ००
- हिंदी व्याकरण और रचना पाडेय, अरविद. हिं अ. र. ३.००
- हिंदी व्याकरण, रस और अलंकार. उपाध्याय, अखिलेशचंद्र ... हिं प्रचा पु १.२५
- हिंदी शब्दसागर वर्मा, रामचंद्र, सपा ना. प्र सभा १८ ००
- हिंदी साहित्य मिश्र, ज्योतिप्रसाद 'निर्मल' .. हिं सा सम्मे. १ २५
- हिंदी साहित्य और साहित्यकार. पाडेय, सुधाकर हिं प्रचा. पु. ० ६७
- सक्षेप लेखन-कला भार्गव, रामेश्वरनाथ . लक्ष्मी ना. १ २५
- सक्षेपिका लेखन एव अपठित (प्रश्नोत्तर) चौहान, शिवध्यान-सिंह. सा भवन, आ १ ००
- मगठन मे वल प्र विभाग १ ००
- मगति गोपालचंद्र शास्त्री इ प्रे १ ५०
- सगम आदिल रशीद अर्चना प्र (पा) १ ००
- सगम नानकसिंह वीरा ६.००
- सगम वर्मा, वृंदावनलाल. गगा. ४ ५०; — —मयूर २.००
- सगम शेवडे, अनंतगोपाल... राजपाल. ४ ००
- और सघर्ष रागेय राघव कि. महल २ ५०
- की ओर शुक्ल, कमल नवीनतम ३ ५०
- नाटक. पाठक, कमलाकांत गर्ग ब्र ० ७५
- या विछोह यशोविमलानंद. उमेश ३.२५
- सग-साथ गोविंदसिंह सुभाष. १ ५०
- सगिनी सिन्हा, मनोरजनप्रसाद पु. भ. २ ००
- सगीत अर्चना (तान आलाप) भट्ट, वी. एन सगीत ५ ००
- अष्टछाप तैलंग, गोकुलानंद... सगीत ५ ५०
- और नृत्य उपाध्याय, भगवतशरण हस ०.५०
- कादविनी (तान-आलाप). भट्ट, वी. एन. सगीत ५ ००
- किशोर कुलश्रेष्ठ, जगदीशसहाय. सगीत १ ५०
- की कहानी जैन, रेखा सस्ता ०.४०
- गीताजलि. ठाकुर, रविंद्रनाथ. हिं. पु. ए ४.००

- सगीतज्ञ कवियों की हिंदी रचनाएँ चतुर्वेदी, नर्मदेश्वर सा. भवन. इ २ ५०
- सगीत दर्पण दामोदर, पंडित. सगीत २.००
- निवधावली गर्ग, लक्ष्मीनारायण, सपा. भा १. सगीत २ ००
- निर्देश. नदकिशोर 'मदन'. कि. महल.
- पद्धतियों का तुलनात्मक अध्ययन. भातखडे, विष्णुनारायण सगीत २ ५०
- परिचय. रामावतार सगीताचार्य ३ भा आत्माराम ३ २५
- पारिजात अहोबल सगीत ४ ००
- प्रवेशिका २ भा काशी हिंदू १.५० (प्र)
- भगवद्गीता. शिवप्रसाद... भा भ ० ७५
- मजरी मुकर्जी, मिथिलेशकुमारी स २ कल्याणमल ० ७५
- रजतजयती अक गर्ग, लक्ष्मीनारायण, सपा सगीत. ५ ००
- रत्नाकर शारंगदेव, आचार्य भा. १ सगीत ७ ००
- वाटिका रामअवतार 'वीर'. ३ भा. देहाती. ३.००
- विशारद वसंत सगीत ५ ००
- शास्त्र कुलश्रेष्ठ, जगदीशसहाय सगीत. १ ००
- शास्त्र वासुदेव शास्त्री, के हिं समि ६ ५०
- शास्त्र सक्सेना, महेशनारायण महावीर प्रसाद खरे, गरेश भवन, अहियापुर, इलाहाबाद भा. १ १ ००; भा २ २.५०
- शिक्षा गुप्त, मिथिलेशकुमारी भाग्योदय. २.५०
- सम्राट तानसेन मीतल, प्रभुदयाल. सा. सस्थान ३ ००
- सरोवर पुष्पाजलि रामअवतार 'वीर'. देहाती १० ५०
- सागर गर्ग, प्रभुलाल, सपा स ७ सगीत ६ ००
- सीकर सगीत. ५ ००
- सगीताचार्य वैजू और गोपाल मीतल, प्रभुदयाल सा मस्थान. १ ५०
- सगीने. ज्वालाप्रसाद 'केशर' चिनगारी. २.५०
- सग्राम प्रेमचंद सरस्व प्रे. ३ ००
- सघमित्रा और सिंहल विजय. रामवृक्ष वेनीपुरी. न्यू लिट १.५०
- सघर्ष चेखव हिंद पा १ ००
- सघर्ष. वीरदेव 'वीर' इ प्रे १ ७५
- सघर्ष शर्मा, विश्वभरनाथ 'कौशिक'. सा नि, का. ५ ००
- सघर्ष सिन्क्लेयर, आपटन कला-नि ५ ५०
- और प्रकाश पसारी, डी. पी हिं प्रचा पु. ३ ००
- और समीक्षा शर्मा, श्रीराम हिं अ र ३.००
- का सत्य उपेन्द्रनाथ 'अशक' नीलाभ ४ ००
- की राहे रघुमैय्या, लक्ष्मी स्टार (पा) १ ००
- के वाद विष्णु प्रभाकर स २ भा जानपीठ ३ ००
- के स्वर मेदीलाल आर्य भा. पु. म. २ ००
- नहीं, सहयोग त्रोपाटकिन, प्रिस सस्ता. २.००
- सघर्षमय जीवन म. २. हरिश्चंद्र वसल. २ ५०
- संघात प्रकाश 'भारती'. भा. सा सदन ३.००



- मन्थन प्रमरनाथ, मया जानालोक १५०  
 मन्थन. द्विवेदी, महावीरप्रसाद कौशावी २२५  
 — एक मन्थन शिवप्रसाद शास्त्री रीगल १२५  
 — (मोहनलाल वाजपेयी) मिश्र, चद्रभानु 'प्रभाकर', टीका  
 हि मा भ २५०  
 मन्थरिणी द्विवेदी, शांतिप्रिय ड प्रे २५०  
 मन्थन अन्नो के कीडे और उनकी रोकथाम सर्वोदय ०७५  
 सचिता गोपानगरवासिह, ठाकुर इ प्रे ३००  
 सचिता शर्मा, अक्षयचंद्र नवयुग ग्र कु १५०  
 मजीवन नदेश वाम्बानी, माधु टी एल हि ग्र र ०६२  
 सजीवनी गर्ग, श्रार पी कृष्णा व्र २५०  
 मजीवनी वाजपेयी, गुलावरत्न कल्याणदास ३५०  
 सजीव डे, मतीश देहाती १.२५  
 सजीवी निवास बलवर्तनिह रूपसी (पा) १००  
 सत एकनाथ जोशी, श्रीपाद सस्ता ०४०  
 —कवीर शर्मा, रामकृष्ण उमेश २००  
 —कवीर साधुराम शास्त्री इ प्रे ०७५  
 —कवीर की मानी शिवव्रतलाल शिव सा ०७५  
 —कवीर दर्शन गौड, राजेद्रसिंह सा भवन, इ २००  
 —कवि दरिया एक अनुशीलन धर्मद्र ब्रह्मचारी शास्त्री  
 वि राष्ट्र १४००  
 —काव्य चतुर्वेदी, परशुराम कि महल ७५०  
 —किरोडीमल के बोल किरोडीमल देहाती ०५०  
 —ज्ञानेश्वर चोरा ०६०  
 —ज्ञानेश्वर जोशी, श्रीपाद सस्ता ०४०  
 —ज्ञानेश्वर रामशिरके विश्वेश्वरानंद ०५०  
 मतनि नियमन स्टोप्स, मेरी राजकमल २००  
 —नियमन सही मार्ग और गलत मार्ग गाधी, मोहनदास  
 करमचंद नवजीवन ०.४०  
 —निरोध एय गर्भ विज्ञान हरीश मेडिकल २५०  
 नत तुकाराम जोशी, श्रीपाद सस्ता ०.४०  
 —तुकाराम दिवेकर, हरिरामचंद्र हिंदु. एकेडेमी ३००  
 —दर्शन दीक्षित, त्रिलोकीनारायण सा नि, का ४००  
 —नामदेव जोशी, श्रीपाद सस्ता ०४०  
 —पोतना राघवराव सस्ता ०४०  
 —आमिस सरला बहन सस्ता ०६०  
 —मत का मन्थन-मन्थन प्रमोद्र ब्रह्मचारी शास्त्री वि. राष्ट्र  
 ५५०  
 —मन मे मायना का मन्थन चौहान, प्रतापनिह प्रत्यूप  
 ३५०  
 मन्थन भटनागर, मन्थन प्रवृत्त एन लायल ३००  
 मन्थन के गुण तथा उपयोग दीक्षित, रामसनेही देहानी  
 ०५०  
 मन्थन की शाखाओं के मन्थन अज्ञान देहानी २५०  
 मन्थन गाथा ०.६०  
 —गाथा मन्थन हिंदु पा १००  
 —गाथा मन्थन हिंदु सस्ता २००  
 मन्थन, नाथप्रसाद भा जानपीठ २००

- सत विनोवा जोशी, बाबूराव हि प्र म ०७५  
 —विनोवा भावे. हरिदास 'सहयोगी' नद व्र ०.७५  
 —वेमन्ना रामकृष्ण मूर्ति, दुबूरि सस्ता ०४०  
 —वैष्णव काव्य पर तात्रिक प्रभाव उपाध्याय, विश्वभरनाथ  
 विनोद १५००  
 —सगीत अक पत्की, ज दे, सपा सगीत २५०  
 —साहित्य मजीठिया, सुदर्शनसिंह रूपकमल १६००  
 —साहित्य मिश्र, भुवनेश्वरनाथ 'माधव' ग्रथमाला ३००  
 —साहित्य की भूमिका हि प्रचा स २५०  
 —सुधासार वियोगीहरि सस्ता सक्षिप्त ६००  
 सतान निग्रह, कयो और कैसे गुप्त, मन्थननाथ छात्रहितकारी  
 ३००  
 सतिया पागल हो गई विष्णु पकज भाग्योदय २००  
 सतुलन माचवे, प्रभाकर आत्माराम ४५०  
 सतुलन वरेरकर, मामा राजपाल ४००  
 —असतुलन चौहान, मनहर उमेश ५००  
 सतुलित गोपालन मल्लिक, गोपालकृष्ण आनंद पु, वा.  
 ५००  
 सतो का वचनामृत दिवाकर, र रा सस्ता ६००  
 —की वारी गुप्त, केदारनाथ, सपा छात्रहितकारी ०६२  
 सतोप मे सुख शौकतराय राय ०५०  
 सथाल की लोक-कथाए त्यागी, भीमसेन आत्माराम. १५०  
 सदर्म-सर्वस्व उपाध्याय, अयोध्यासिंह 'हरिऔध' ग्रथमाला  
 २२५  
 सदेश तुलसी, आचार्यश्री आदर्श सा ०७५  
 —रासक द्विवेदी, हजारीप्रसाद हि ग्र र. ८००  
 सदेह बेक, जान स्टाइन आनंद प्र २.००  
 —की आग वीणानाथ. कला-नि २.००  
 सधिनी वर्मा, महादेवी लोकभारती ४.५०  
 सध्या चट्टोपाध्याय, वकिमचंद्र श्यामलाल २.००  
 —दर्पण जोशी, देवीदत्त रा वेनीमाधव. २००  
 —दीप खाडेकर, वि स देशमुख ६००  
 —मन्थन राजपाल ०७५  
 —योग विद्यानंद विदेह, स्वामी वेदसस्थान ०३०  
 —राग कृष्णराव, ए एन नेशनल ३५०  
 —विनय नित्यानंद वेदालकार गोविंदराम १००  
 सन्यामी जोशी, इलाचंद्र भा भ ७००  
 सन्यासी मिश्र, लक्ष्मीनारायण हि प्रचा पु २५०  
 —चिकित्सा शास्त्र शुक्ल, अमोलचंद्र देहाती ५००  
 —विवेचन बलदेव कृष्ण श्रीरिएटल ४००  
 —समीक्षा शर्मा, रुद्रदेव हि सा स १५०  
 सपत्तिदान-यज्ञ जाजू, कृष्णदास अ भा सर्व ०५०  
 सपत्ति-शान्त्र प्राणनाथ विद्यालकार नद. व्र एव नद म  
 २००  
 सपूर्ण गाधी वाट्मय गाधी, मोहनदास करमचंद नवजीवन  
 भा १-२ ३०० (प्र), भा ३-४ ७५० (प्र),  
 — प्र विभाग भा १-२ साधारण ३००, सजिद  
 ५५० (प्र), भा ३-१० ७५० (प्र)

- सपूर्णानन्द अभिनन्दन ग्रंथ नरेन्द्रदेव... ना प्र. सभा १५.००  
 सभवामि युगे-युगे. गुरुदत्त. सा सदन, दे ८००  
 सयम और ब्रह्मचर्य. केदारनाथ. नवजीवन ० २५  
 —और सतति-नियमन. गाधी, मोहनदास करमचंद नवजीवन.  
 ३.००  
 —वनाम भोग गाधी, मोहनदास करमचंद मातृ-भाषा  
 १.५०  
 —सम्राट् रघुवशी, वीरेन्द्रसिंह यग मैन १ ८७  
 सयुक्त राज्य अमेरिका का आर्थिक विकास अखिलेगकुमार  
 मोतीलाल. २ ००  
 —राज्य अमेरिका का शासन महेन्द्रप्रकाश कि महल.  
 ४.७५  
 —राज्य अमेरिका का सविधान गेद, डी एन .. रतन  
 २.५०  
 —राज्य अमेरिका का सविधान. भा, मनोरजन... नावल्डी.  
 ४ ००  
 —राज्य अमेरिका का सविधान मल्लिक, योगेन्द्र आत्मराम.  
 ४ ००  
 —राज्य परिचय कपूर, कालिदास आत्मराम ३.००  
 —राष्ट्र अमेरिका का आर्थिक विकास मामोरिया, चतुर्भुज...  
 सा भवन, आ ४ ५०  
 —राष्ट्र-परिवार कौल, नरेन्द्रनाथ राजकमल १ ००  
 —राष्ट्र प्रवेशिका एस्टीन, एडना आत्मराम २ ७५  
 —राष्ट्र सघ उपाध्याय, रामअभिलाप आदर्श पु भ  
 —राष्ट्र सघ और विश्व-शांति उपाध्याय, तेजराम. लोक  
 चेतना ८.००  
 —राष्ट्र सस्था. दि लायन्नेरी ० ६२  
 सयोगिता स्वयंवर मिश्र, ठाकुरदत्त कि महल. १ ५०  
 सरक्षक हरिकृष्ण 'प्रेमी'. एस. चाद. २ ५०  
 सरक्षकता का सिद्धांत गाधी, मोहनदास करमचंद नवजीवन  
 ० ३०  
 सलाप रायकृष्णदाम भा भ. १ ००  
 सवन् प्रवर्तन हरिकृष्ण 'प्रेमी' मानकचंद. २ ५०  
 सवर्त मिश्र, केदारनाथ 'प्रभात' पु भ २ ००  
 संवाद और मुनेख शिवकुमार सिंह नद. ब्र १ २५  
 —गप्तक. गोविन्दराम, नेठ एस चाद १ २५  
 समय की एक रात. मेहता, नरेय हि घ र ४ ००  
 ससर्ग. प्रकाश 'भारती' भा गा सदन ३.००  
 समार मिश्र, उग्रनाथप्रसाद प्रभात प्र १.५०  
 —और धर्म महास्वाभा, किशोरनाथ. नवजीवन. २ ५०  
 —ता अत कैसे होगा ? वर्मा, रमेशचन्द्र रणजीत २ ००  
 —ता आधुनिक भूगोल चौधरी, पी एन.. नमो न २  
 कि घर, भा ३ ००  
 —ता आधिभूगोल गौड, उग्रनाथ हि प्रचा पु ० ८७  
 —ता नवीन भूगोल वर्मा, पी सी. रणजीत ५ २५  
 —ता नवीन भूगोल श्रीमान्द, गार्दप्रसाद. रा देवीप्रसाद  
 ३ ७५  
 —ता नवीन इतिहास ३ भा इ पे. ८.०० (प्र.)

- ससार का सक्षिप्त इतिहास शर्मा, प्यारेलाल, नद. ब्र एवं नद  
 स ३.००  
 —का सरल इतिहास. चतुर्वेदी, सीताराम नद ब्र. एव नद  
 स २.००  
 —का सर्वश्रेष्ठ पुरुष पाडेय, छविनाथ हि पु ए ० ७५  
 —की आश्चर्यजनक वस्तुये चौधरी, जगलाल. नावल्डी.  
 ० ७५  
 —की चार प्रमुख शासन प्रणालिया कपूर, अनूपचंद एस  
 चाद ८ ००  
 —की तेरह श्रेष्ठ कहानिया गोपाल शेखरन्, सपा उमेश  
 ३.००  
 —की प्राचीन कहानिया रागेय राघव कि महल ६.००  
 —की प्राचीन सभ्यताए और भारत से उनका सवध शर्मा,  
 राजकिशोर आदर्श पु भ ८ ००  
 —की सर्वश्रेष्ठ कहानिया वालकृष्ण राजपाल २ ००;  
 (पा) १ ००  
 —की सर्वश्रेष्ठ कहानिया वालकृष्ण, अनु हिंद पा १.००  
 —के चिडिया घर मे गर्ग, किशोर स ३ रानी २ ५०  
 —के बालक वर्मा, तारकेश्वरप्रसाद पु भ २.२५  
 —के महान उपन्यास रागेय राघव राजपाल १० ००  
 —के महान युग-प्रवर्तक ड्र विद्यावाचस्पति आत्मराम.  
 —के महान राष्ट्र-निर्माता चौधरी ८ ५० [३ ००  
 —के महान वैज्ञानिक भार्गव, लज्जा प्रभात पब्लि. २ ००  
 —के राच्चे सपूत वर्मा, तारकेश्वरप्रसाद ग्रंथ भ १ २५  
 —के सरिमृप चतुर्वेदी, जगपति कि महल ४ ००  
 —के मर्प चतुर्वेदी, जगपति कि महल. ४.००  
 —को एशिया की देन. उपाध्याय, भगवतगण हस ०.७५  
 —को चुनौती महेन्द्र, रामचरण विश्वेश्वरानन्द २ ६२  
 —चक्र खत्री, दुर्गाप्रसाद लहरी १ ००  
 —डूब रहा है धवन, देवीप्रसाद 'विमल' अर्चना प्र (पा)  
 १ ००  
 —, भारत तथा विहार का वाणिज्य भूगोल अगवान,  
 अमरनारायण कि. महल १.५०  
 सस्कार रघुनाथ सिंह. हि पु ए २ ५०, — — हि प्रचा  
 पु ३ ००  
 सस्कार राधिकारमण प्रसाद सिंह, राजा अयोध प्रे ३.००  
 —चंद्रिका आत्मराम. . नमो न प्रार्थ ना  
 —विधि दयानन्द, म्नामी आर्य ना १ १२, — — देहानी  
 २.००  
 —मनद मध्यमाची. भा ना सदन १.०५, (पा) १ ००  
 मन्मार्गे जी राह राधाकृष्ण प्रसाद. भा जानपीठ. २ ५०  
 —के वपन प्रभयकुमार 'यौधेय' नमार्ग. ५ ५०  
 मन्मूत अनन्त रा. देवीप्रसाद. १.००  
 —अनुवाद वना आर्य दूत. २.५०  
 —अनुवाद दशिका. आटे. दामन निदानम रा. देवीप्रसाद.  
 ४.००  
 —अनुवाद पथ प्रदीपिता वर्मा, गिरदानियाता न देवीप्रसाद  
 ना. १ ० ५०; भा. २. ०.७५

- नम्बुन अनुवाद-पुस्तिका तिवारी, लल्लाराम रा वेनीमाधव १०५
- अनुवाद शिक्षा फ्रैंक १५०
- प्रानोचना उपाध्याय, बलदेव स २ हि समि ५५०
- रगिनय डिगनरी विलियम्स, मोनियर मोतीलाल ८०००
- श्रीर उनका माहित्य व्यास, नानूराम राजकमल. २२५
- श्रीर नम्बुति राजेंद्रप्रसाद स ३ मोतीलाल ४००
- रूपोजीगन एव ट्रासलेगन शर्मा, रामसुंदर सुबोध प्र २००
- रूपोजीगन एण्ड ट्रासलेगन मैन्सुअल शारदाप्रसाद त्रिद्याभूषण रा वेनीमाधव १५०
- कवि दर्शन व्यास, भोलाशकर स २ चौखवा ६००
- कवियों की अनोजी नूभ भट्ट, जनार्दन, सपा नेगनल ८००
- का भाषा शान्तीय अध्ययन व्यास, भोलाशकर स २ भा ज्ञानपीठ ५००
- काव्य कौमुदी नरोत्तमदास स्वामी गयाप्रसाद २५०
- काव्य घाग राहुल साकृत्यायन कि महल १५००
- काव्य मजूषा नत्यव्रत सिंह गयाप्रसाद १५०
- काव्य-ततिका शर्मा, शम्भूदत्त एस चाद २००
- काव्याग प्रकाश शर्मा, शिवदत्त केदारनाथ १५०
- काव्यालोक नरोत्तमदान स्वामी, सपा कल्याणमल १७५
- कुमुजनि हेमराज मोतीलाल १७५
- क्रेड उज्जयिनी चतुर्वेदी, वृजकिशोर इ प्रे ३ २५
- कोश शर्मा, पाडेय रामावतार ज्ञानमडल
- कोश गुधा—नम्बुत-हिदी शर्मा श्यामसुंदर, मग्रा सुबोध प्र ५००
- कोश गुधा—हिदी-सम्बुत शर्मा रामसुंदर, मग्रा सुबोध प्र १५०
- गद्य-मजरी शर्मागव रत्न २५०
- गद्य-मजरी पाडेय ना नि, का २ २५
- नाट्य-रार भरतिया, कातिकिशोर हि समि ४००
- नाट्य नरीक्षा उद्रपान सिंह ना नि, का ४६२
- नाट्यशास्त्र एक पुनर्विचार जयकुमार 'जलज' त्रिवेणी ५००
- निर्गम-पद-प्रदर्शन आटे, वामन शिवराम रा वेनीप्रसाद ५००
- निर्गम-मणि-माना शिवप्रसाद शान्त्री नूर्य प्र ७५०
- पद्य पाठन ही अनुभूत नरलतम विधि ब्रह्मदत्त जिजातु भा प्राच्य १०५
- प्रथम पुस्तक रामविहारीनाथ शान्त्री ना नि, का २००, द्वितीय पुस्तक ३५०
- प्रयोग वाक्येपी, दी पी हि ना न १५०
- प्रयोग वाक्येपी, भाचार्य एन चाद १००
- प्रयोग वाक्येपी भा वेनीमाधव १००
- प्रयोग वाक्येपी चौखवा
- प्रयोग वाक्येपी हि प्रभु वाच्य विवेकेश्वरानंद ० २५

- संस्कृत मुस्तावली रस्तोगी, रमेशचंद मोतीलाल १५०
- रचनानुवाद चद्रिका रामवालक शास्त्री मोतीलाल १२५
- रचना सरणि त्रिपाठी, बाबूराम विनोद भा १ २००, भा २ २५०
- व्याकरण की उपक्रमणिका ईश्वरचंद्र विद्यासागर... स ११ रा वेनीमाधव ० ८७
- व्याकरण नवीनतम्. गोविंदप्रसाद शास्त्री रा वेनीमाधव १२५
- व्याकरण प्रवेश कोकर, नवलकिशोर कल्याणमल १२५
- व्याकरण प्रवेशिका सक्सेना, बाबूराम रा वेनीमाधव ५००
- व्याकरण बोध रामवालक शास्त्री नद ब्र एव नद स १५०
- व्याकरण मे गणपाठ की परपरा और आचार्य पाणिनि कपिलदेव भा प्राच्य ८००
- व्याकरण-शास्त्र का इतिहास युविष्ठिर मीमांसक भा १ आत्माराम १०००, — भा प्राच्य परि सं २ भा १ १२००, भा २. १०००
- व्याकरण सोपानम् राय, जीवनाथ पु भ ४००
- शब्दार्थ कौस्तुभ शर्मा, चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद . रा वेनीप्रसाद १५००
- शिक्षक गोपाल शास्त्री 'दर्शन-केशरी' सा सेवक १००
- शिक्षण पद्धति चतुर्वेदी, भीताराम नद ब्र २५०
- शिक्षा गौरीशकर ३ भा विश्वेश्वरानंद १५६
- शिक्षा विद्यानंद विदेह, स्वामी वेदसस्थान भा १ ० १६, भा २ ० ३७
- शिक्षा-विधि गौरीशकर विश्वेश्वरानंद ३ २५
- संग्रह हि सा परिपद ० ६२
- सरिता पाठक, लक्ष्मणदत्त हि सा स भा १ ० ५०, भा २ ० ६२, भा ३ ० ७५
- साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास उपाध्याय, रामजी रा वेनीमाधव ८००
- साहित्य का इतिहास (प्रश्नोत्तर) अग्रवाल, शान्तिप्रसाद प्रकाश बुक ३५०
- साहित्य का इतिहास कीथ मोतीलाल २५००
- साहित्य का इतिहास गैरोला, वाचस्पति चौखवा २०००, सक्षिप्त ८००
- साहित्य का इतिहास (प्रश्नोत्तर मे) द्वारिकाप्रसाद विनोद ३००
- साहित्य का इतिहास द्विवेदी, कपिलदेव न २ रा. वेनीप्रसाद ५००
- साहित्य का इतिहास पोद्दार, कन्हैयालाल ना प्र सभा ५००
- साहित्य का इतिहास महेंद्रकुमार हि मा. म ३००
- साहित्य का इतिहास मैकडोनेल, ए ए चौखवा ७५०
- साहित्य का नवीन इतिहास आशा प्र २५०
- साहित्य का नवीन इतिहास कस्तूरिया, सत्यनारायण. आर्य बुक २५०

- संस्कृत साहित्य का सुत्रोप इतिहास. रामविहारीलाल शास्त्री  
सा. नि., का २५०
- साहित्य की प्रसिद्ध कथाएँ सुकुल, चंद्रमौलि गंगा ४.००
- साहित्य की रूपरेखा पाडेय, चंद्रशेखर... स ७. सा नि.,  
का ६००
- साहित्य में आयुर्वेद अत्रिदेव विद्यालकार भा ज्ञानपीठ  
३००
- सुधा चूडामणि शास्त्री आत्माराम १५०
- सुभाषित सौरभ उपाध्याय, मुनिदेव भा प्राच्य २००
- सुषमा. मिश्र, आद्याप्रसाद रा. बेनीमाधव १००
- सुषमा शर्मा, रामगोपाल 'दिनेश' रतन ०५०
- सूक्तिसागर नारायणस्वामी अ. भा विक्रम २१००
- सोपनम् भट्ट, हरिदत्त 'शैलेश' एलाइड २५०
- सोपनम् शर्मा, जगन्नाथराय राजकमल ०७५
- सरणि. मिश्र, केशवप्रसाद नद. ब्र. भा. १ १.००,  
भा २ १५०
- सरल प्रबन्ध-प्रकाश अनताचार्य, वी रा. वेनाप्रसाद १००
- सुधा. गुरदास २५०
- स्वयं शिक्षक सातवलेकर, श्रीपाद दामोदर. राजपाल  
भा १ २००, भा २ ३००
- स्वयं शिक्षक, प्रथम पुष्प विद्यानद विदेह, स्वामी  
वेदसंस्थान ०७०
- संस्कृतमृतम् गुप्ता, चंद्रभान गयाप्रसाद १५०
- संस्कृति और मानव शास्त्र रागेय राघव विनोद १०००
- और संस्कृतिया लल्लनजी गोपाल हिं प्रचा पु १५०
- और समाजशास्त्र रागेय राघव विनोद भा १  
१०००, भा २ ८००
- का दार्शनिक विवेचन देवराज हिं समि ६००
- के चार अध्याय रामधारी सिंह 'दिनकर'. सशो स. ३  
उदयाचल. १५००
- के पांच अध्याय वाजपेयी, किशोरीदास हिमालय १.५०
- के प्रहरी शर्मा, राजेद्र एस चाद २५०
- दर्पण सरिन, धर्मपाल आत्माराम २००
- संस्कृतिमाला गीता भा १ ०.२०, भा २ ०.२५, भा ३  
०.३०, भा ४ ०.३५, भा ५ ०.३५, भा ६ ०.३५  
भा ७ ५५; भा ८ ०.५५
- संस्कृति विहार विद्यादत्त रमण दास. २५०
- सगम सेन, क्षितिमोहन सा. भवन, इ ३००
- साहित्य का संक्षिप्त इतिहास अग्रवाल, हसरराज श्री भा  
भारती ४००
- संखलन गुरुदत्त भा सा सदन ६००, (पा) २००
- संस्मरण चतुर्वेदी, बनारसीदास स २ भा ज्ञानपीठ. ३.००
- संस्मरण वर्मा, सर्वदानद ग्रथमाना १.५०
- और आत्मकथाएँ त्रिपाठी, धूनिराम हिं प्रचा पु. १ २५
- संस्कृतला नाटक नेवाज सपा राजेद्र शर्मा मंगल १०००
- सगर-विजय भट्ट, उदयशंकर राजकमल २२५
- सगाई सक्सेना, शंभूदयाल नवयुग ग्र कु २५०
- सगुण और निर्गुण लोहिया, राममनोहर नर्वहद. ०३०

- सगुण साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वर्मा, रामनरेश.  
ना प्र सभा
- सगुण वर्मा, वृंदावनलाल मयूर ०७५
- सच और झूठ गुप्त, मन्मथनाथ हिंद पा १००
- , कर्म, प्रतिकार और चरित्र निर्माण आवाहन लोहिया,  
राममनोहर नर्वहद ०१२
- का बोलवाला विश्वनाथ दि प्रे २००
- बोलने की भूल यशपाल विप्लव ३००
- सचित्र अक्षर-ज्ञान पुरी, रामलाल आत्माराम १००
- कृष्णकला गोयल, मुरलीमनोहर कल्याणमल २००
- कृषि विज्ञान शर्मा, श्यामप्रसाद स ११. भा भा. प्र.  
४.५०
- गृह-विनोद अरुण आत्माराम ८००
- नेत्र-रोग विज्ञान (एलोपैथिक). गुप्त, शिवदयाल  
मेडिकल ८००
- बाल-भारत वर्मा, सूर्यकुमार २ भा इ प्रे १०० (प्र.)
- भारत चतुर्वेदी, श्रीनारायण. इ. प्रे १०००
- भारत रमाशंकर सिंह हि पु ए २००
- भौतिक राय, बी एन कल्याणमल ४५०
- मारवाडी गीत सग्रह हिं पु ए ५००
- रसायन गोलेछा... कल्याणमल ३५०
- रसायन. सोनी, पी एल एस चाद ३००
- रेडियो गाइड माथुर, के सी रतन एड क ७००
- वर्ण बोध एस चाद १२५
- व्यंग्य-विनोद अरुण आत्माराम ७००
- शब्द बोध शर्मा, राजेश्वरी एस चाद ०५०
- श्रावक प्रतिक्रमण नथमल, मुनिश्री आदर्श सा  
०.७५
- सूर्य नमस्कार पत, बालासाहब भा भ २००
- हरिजन समस्या गांधी, मोहनदास करमचंद मातृ-भाषा  
१.५०
- हिंदी महाभारत १० भा इ प्रे ८०००
- सचिव कार्य की रूपरेखा वर्मा, योगेन्द्रप्रसाद बुकलेड ४७५
- सचिवीय कार्य जैन, डी सी सा भवन, आ ४००
- सच्च सगहो कौसल्यायन, भद्रत आनंद, सपा हिं सा सम्मे  
१२५
- सच्चा तीर्थ अशोक सस्ता ०.४०
- दान वत्स्य, सतराम नेशनल ०८०
- सच्ची आजादी भगवानदीन, महात्मा सस्ता. २५०
- कहानिया ठक्कर ... राजपाल १२५
- घटनाएँ. प्रशांत बाल सदन ०७५
- दौलत जैन, यशपाल सस्ता ०४०
- नागरिकता लीफ मनरो राजकमल २००
- बहादुरी और दूसरी कहानिया कौशल, रामस्वरूप.  
आत्माराम २००
- मित्रता व्यथितहृदय छात्रहितकारी ११२
- शिक्षा गांधी, मो क नवजीवन २००
- सच्चे और ईमानदार बालक गीता. ०२५

मन्चे दोम्ब और बहादुर दुग्मन केनेटी, रावर्ट एफ आत्माराम  
४५०

- गुग का मार्ग केदारनाथ नवजीवन ०३०  
सजनवा घर आजा त्रिवेदी, रश्मिकात मास्कृतिक  
मजला राधाकृष्ण. २ नव रामप्रसाद २०० (प्र)  
मजला मन्नेना, शभूदयाल, नवयुग प्र कु ३००  
नजिए मजाइए वर्मा, सावित्रीदेवी हिंद पा १००  
मजीव व निर्जीववाद आदर्श पु म १००  
मज्जनता की विजय गोल्डस्मिथ, आलिवर रजन २००  
सज्जाद नबुल भट्ट, केजवराम हि पु ए १५०  
मटक सीतागम ममारचंद्र औरिएटल एव दास ३००  
मटक आनंद, मुल्कराज प्रगतिशील ३००  
—के किनारे सम्राट हनन 'मटो' नवयुग प्र ३५०  
—पर घिट्टियाल, रमाप्रसाद 'पहाडी'. प्रकाशगृह ४००  
मउके दि लायब्रेरी ०६२  
मउको की कहानी मल्लया, आशानता. आत्माराम २००  
—मे बने माये उपेन्द्रनाथ 'अश्क' नीलाभ ५००  
मनमी के बच्चे राहुल मास्कुत्यायन कि महल १.२५  
मतरगा आनल भटनागर, शांति, सपा आत्माराम २५०  
मामुज की कहानी शर्मा, राजेन्द्र नेशनल ११०  
मनप्रती दुबे, चंद्रशेखर मस्ता १५०  
मनह के नीचे नीलकी, कोमलनिह हि प्रचा पु ३००  
मनियो ना मार्ग श्रोमप्रकाश 'आरिफ' यूनिवर्सिटी १५०  
मनी चट्टोपाध्याय, शन्तचंद्र प्रभात प्र २००  
मनी यशोविमलानंद औरिएटल ०६२  
मनी माने गुन्जी म २ शिवाजी ३००  
—मनमया देवराज 'दिनेश' मस्ता ०४०  
—मन्मथी गोपालनाथ 'दया', अनु हि सा सम्मे ०५०  
—मन्मथ गौड, राजेंद्रनिह हि प्र म १५०  
—मन्मथी कर्मागत भार्गव, ज्योतिराल राष्ट्रीय ना म १.००  
—मन्मथी गीता ०५०  
—मन्मथी मुगोपाध्याय, कानिकेयचरण हि पु ए ०.७५  
—मन्मथी नवमथी, जगमोहननाथ नू निट ८७५  
—मन्मथी मुगोपाध्याय, कानिकेयचरण हि पु ए ० ७५  
—मन्मथी अनिल भा प्र मदिर १५०  
—मन्मथी गीता ०२५  
मन्मथी मन्मथी वर्माचारी रा देनीमाधव १२५  
मन्मथी श्रेष्ठ कहानिया उपेन्द्रनाथ 'अश्क'. नीलाभ १५००  
मन्मथी और व्यक्ति मल, बर्टेड रंगजीन ३००  
—मन्मथी मन्मथी त्रिपाठी, वान्मिनि प्रत्युष ५००  
मन्मथी टाकुर, केजवराम न २ ना नेवन ६००,  
—मन्मथी प्रचा म ५००  
—मन्मथी मन्मथी वमन आत्माराम ५५०  
मन्मथी मन्मथी का चौगा नूत, मन्मथीप्रसाद नीलाभ १२००  
मन्मथी मन्मथी मन्मथी, रजनी मन्मथीप्रसाद  
मन्मथी, मन्मथी मन्मथी, केदारनाथ 'प्रधान' ज्ञानपीठ  
०६२  
मन्मथी मन्मथी मन्मथी मन्मथी २००

- सत्य और स्वतंत्रता के उपासक गुलावराय लक्ष्मी ना. १७५  
—और स्वतंत्रता के उपासक, एक अध्ययन राकेश लायल  
१२५  
सत्यकाम सोक्रातेज गोयल, सीताराम भा सा सदन २.५०  
(पा) १५०  
सत्य का रहस्य आचार्य, केशवदेव श्रीअरविद ४.५०  
—का सैनिक नारायणप्रसाद २००  
—का स्वप्न वर्मा, रामकुमार कि महल २५०  
—की और राधाकृष्णन्, सर्वपल्ली राजपाल ६००  
—की खोज भगवानदीन, महात्मा अ भा सर्व १५०  
—की खोज मे राधाकृष्णन्, सर्वपल्ली शिवलाल १००  
—के प्रयोग अथवा आत्मकथा गांधी, मोहनदास करमचंद  
नवजीवन. ३००  
सत्यनारायण कविरत्न की जीवनी चतुर्वेदी, बनारसीदास.  
हि सा सम्मे ४००  
—की कथा विद्यानंद विवेक, स्वामी वेदसस्थान ०.३०  
सत्य प्रेमी हरिश्चंद्र गीता. ०३१  
सत्यवादी हरिश्चंद्र चंद्रभान चंद्र देहाती ०७५  
सत्यवान सावित्री न्यादरसिंह 'बैचैन'. देहाती ०७५  
सत्य विजय न्यादरसिंह 'बैचैन' देहाती ०७५  
—व्यापार लक्ष्मी भंडार दुबे, सुरेशचंद्र देहाती ४५०  
सत्यशासन-परीक्षा विद्यानंद, आचार्य भा ज्ञानपीठ ५००  
सत्य सनातन आर्य धर्म शिवब्रतलाल शिव सा १२५  
—हरिश्चंद्र गोविंदराम १००  
—हरिश्चंद्र. अज्ञात हि प्रचा पु १००  
—हरिश्चंद्र (भारतेदु) आ, जनार्दन, सपा पु भ. १.८०  
—हरिश्चंद्र भारतेदु हरिश्चंद्र इ प्रे ०५०  
—हरिश्चंद्र भारतेदु हरिश्चंद्र टीका गुलावराय सा रत्न  
भ १००  
—हरिश्चंद्र नाटक अशोक प म १७५  
—हरिश्चंद्र नाटक ग्रथमाला १५०  
—हरिश्चंद्र नाटक स्वरूप १००  
—हरिश्चंद्र नाटक उपाध्याय, अरुंध, सपा हि सा सम्मे  
१०० (अप्रा)  
—हरिश्चंद्र नाटक भारतेदु हरिश्चंद्र विनोद १००  
—हरिश्चंद्र नाटक मिश्र, विश्वनाथप्रसाद नद ब्र एव नद.  
स ०५०  
—हरिश्चंद्र नाटक मिश्र, शिवप्रसाद 'रुद्र'. ना प्र सभा  
३५०  
—हरिश्चंद्र नाटक (भारतेदु हरिश्चंद्र) याज्ञिक, जीवन-  
शकर रा वेनीप्रसाद १००  
—हरिश्चंद्र नाटक मिन्हा, कृष्णकुमार रवि १६०  
—ही ईश्वर है गांधी, मो क नवजीवन ०८०  
मत्याग्रह जैन, अरुणचरण ज्ञान प्र २००  
—आश्रम का इतिहास गांधी, मोहनदास करमचंद नवजीवन.  
०८०  
—गीता अमागव रत्न ४००  
मत्याग्रही गगोपाध्याय, उपेन्द्रनाथ इ प्रे १५०

- सत्याग्रही शक्ति. जावडेकर अ भा सर्व. ०.३१  
 सत्यानाशी कटेली के गुण तथा उपयोग दीक्षित, रामसनेही  
 देहाती. ०.७५  
 —के फूल जोशी, सूर्यकुमार नेशनल. २००  
 सत्यार्थ दर्पण अजितकुमार श्री भा दिगंबर २००  
 सत्यार्थप्रकाश दयानंद, स्वामी. देहाती २५०, ३२५,  
 — —मोटे अक्षरो वाला देहाती १५.००  
 —का प्रभाव वेदानदतीर्थ, स्वामी विरजानंद १.००  
 —(मोटे अक्षरो मे) भगवद्गत गोविंदराम १०.००  
 —विषय निर्देशिका उदयवीर शास्त्री, सग्रा. विरजानंद  
 २.५०  
 —(सटिप्पण). वेदानदतीर्थ, स्वामी विरजानंद १५.००  
 सत्सग के आठ वचन. शिवव्रतलाल. शिव सा. ०.७५  
 —के बिखरे मोती गीता ०.७५  
 —गीतावली विद्यानंद विदेह, स्वामी वेदसस्थान. ०.३७  
 —गुटका गोविंदराम. ०.२०, ०.३०  
 —माला व्यास, मगनलाल हरिभाई गीता. ०.२५  
 —यज्ञ विधि शिवहरे, धर्मद्व वीर. आर्य सा ०.३७  
 —सार विश्वबधु, आचार्य विश्वेश्वरानंद १.३७  
 —सुधा भीता ०.५०  
 सत्रह छोटी कहानिया. शर्मा. नलिन विलोचन. पु भ, रा  
 ३.७५  
 सदुपदेश. उदयप्रकाश सिंह. विश्व शांति १.५०  
 सदल मिश्र-ग्रथावली वि. राष्ट्र ५.००  
 सदाचार और नीति वाजपेयी, लक्ष्मीधर. रा बेनीमाधव.  
 १.५०  
 —और साहस की कहानिया विश्वनाथ राजपाल. १.००  
 —की कथाए. आनंदकुमार राजपाल १.२५  
 —की कथाए. सत, शाता बाल सदन. ०.७५  
 —की कहानिया सर्वोदय. ०.७५  
 —की कहानिया. मिश्र, देवदत्त आदर्श पु. भ. १.३७  
 —दर्पण रघुवर प्रसाद मिश्र-बधु. ४.००  
 —, शिष्टाचार और स्वास्थ्य जैन, माईदयाल हिं भवन.  
 १.००  
 —सोपान. पत, मोहनवल्लभ एस चाद २.००  
 —सोपान रामबालक शास्त्री. स ४. चौखर्बा ०.५०  
 सदाचारी बच्चे राजपाल ०.७५  
 सदा जवान रहो, चावला काशीराम देहाती. १२.००  
 —सुहागिन रूठ गई. पाडेय, सुधाकर. नद स ३.००  
 सदुपदेश सग्रह देवीप्रसाद मुसिफ इ प्रे ०.५०  
 सद्गुणी बालक सतराम इ प्रे. १.५०  
 सद्बोधशतकम् कालेलकर, काका, सपा गाधी हिंदु २.००  
 सनकी अमीर शर्मा, पाडेय बेचन 'उग्र' गगा ३.००  
 सनत्सुजातीय शकरभाष्य गीता २.००  
 सनम सोमनाथ 'अकेला' कन्हैयालाल २.७५  
 सनयात सेन शर्मा, भूदेव हिं सा सम्मे. ०.२५  
 सनसनाते सपने राधाकृष्ण राजकमल २.००  
 सनातन धर्म प्रदीप. प्रयाग. १.७५

- सनातन धर्म प्रवेशिका प्रयाग १.१०  
 —धर्म प्रवेशिका मालवीय, नरोत्तम. रा. बेनीमाधव ०.५०  
 —धर्म प्रश्नोत्तरी काशी हिंदू ०.१२  
 —धर्मोद्धार द्विवेदी, उमापति ४ भा काशी हिंदू १०.००  
 (प्र)  
 —भजन दीपिका. भगवान प्रेमी देहाती १.५०  
 —भजन पुष्पाजलि देहाती. २.५०  
 सनेह लीला श्यामलाल ०.७५  
 सनोवर की छाह विष्णुशर्मा कि महल २.५०  
 —के फूल मेहता, नरेश हिं ग्र. र ४.००  
 सन्नाटा प्यारेलाल 'आवारा' रूपसी २.७५  
 सन्मार्ग दर्शन सर्वदानद, स्वामी आर्य सा ४.००  
 सन् '५७ का विप्लव. वाजपेयी, बेनीप्रसाद आदर्श हिं ५.००  
 —५७ की ज्वाला उपाध्याय, रमाकांत. अशोक पु म ६.००  
 —सत्तावन की राज्यक्रांति शर्मा, रामविलास. विनोद १०.००  
 —सत्तावन के अमर सेनानी उपाध्याय, रमाकांत आदर्श पु  
 भ २.००  
 —सत्तावन मे छोटानागपुर नागेश्वरप्रसाद अभिज्ञान १.२५  
 सपन की गली भादानी, हरीश जुही-कुज ३.००  
 सपना. शर्मा, यादवेद्र 'चंद्र' राजपाल ४.००  
 सपना टूट गया ब्रजकिशोर 'नारायण'. हिं प्रचा. पु २.००  
 —बिक गया. वाजपेयी, भगवतीप्रसाद प्रभात प्र. ६.५०  
 सपने का अत गुप्त, भैरवप्रसाद नीलाभ ३.५०  
 —का राजा. पाडेय, छविनाथ कला-नि. १.००  
 —की रानी गोविंदसिंह चौधरी २.५०  
 —के साथी प्यारेलाल 'आवारा' रूपसी. ३.००  
 —तुम्हारे थे मार्कंडेय नया सा प्र. ३.५०  
 —बिकाऊ है. राधाकृष्ण प्रचा पा १.००  
 —, मान और हठ इंदिरा 'नूपुर'. चंद्रलोक ३.००  
 सपनों का कफन प्यारेलाल 'आवारा'. रूपसी. ३.५०  
 —का कैदी कृष्णचंदर हिंद पा. १.००  
 —का टुकड़ा कुलभूषण. वीरा २.५०  
 —का मीत आदिल रशीद रूपकमल २.५०  
 —की कलिया पुछी, ठाकुर ऐडी. ३.६०  
 —की जजीरे. परदेशी प्रचा पा. १.००  
 —की फसल. सिद्धनाथकुमार कल्याणदास एव वि अ कु.  
 १.००  
 —की सगिनी शर्मा, रामानंद कन्याकुमारी  
 —के मीत गोविंदसिंह रतन एड क ३.५०  
 सपीनजा का दर्शन पाडेय, सगमलाल गर्ग ब्र. २.००  
 सपूत अग्रवाल, शकुतला राजहंस २.००  
 सपूतो की लोक-कथाए व्यथितहृदय आत्माराम १.५०  
 सप्त ऋषि वृत्तांत शिवव्रतलाल शिव सा ०.७५  
 —एकाकी मेहरोत्रा, कृष्णमूर्ति सा रत्न भ. ०.७५  
 सप्तक. विद्यावती 'कोकिला' श्रीअरविद १.५०  
 सप्तदशी. विष्णु प्रभाकर, सपा सस्ता २.००  
 सप्तपदी. वद्योपाध्याय, ताराशकर. राजकमल. २.००  
 सप्तपर्ण. काशीराम शास्त्री, सपा. हिं सा. भं. ३.०६

मन्तपणां मेनन, दुर्गादत्त. यूनिवर्सिटी ३००  
 मन्तपणां वर्मा, महादेवी राजकमल ७००  
 मन्तपणां मिश्र, शिवकुमार, सपा कि घर, का ३००  
 मन्तम प्रतिमा लहरी १००  
 मन्तरग. ओंकारनाथ 'दिनकर' कि महल २००  
 मन्तपि मन्त मन्तानिद नद म २५०  
 —नोक जोशी, शोभाचंद्र हि अर २००  
 मन्त वैज्ञानिक मेहरोत्रा, कृष्णमूर्ति सा रत्न भ ०७५  
 —शक्तिया भावे, दिनोवा अ भा नर्व ०५०  
 मन्तशाल गोयल, सीताराम भा सा सदन ८००  
 मन्त मन्त शर्मा, कन्हैयालाल कृष्णा व्र २००  
 —नरिता भट्ट, उदयशंकर ओरिएटल (अप्रा)  
 —मगोज प्रेमचंद सरस्व प्रे १००, — —हम ०७५,  
 — - हि पु ए ०७५  
 —नरोवर लक्ष्मीनारायण शास्त्री श्री भा भारती २२५  
 —मुमन प्रेमचंद सरस्व प्रे एव हस १००  
 —मुमन शर्मा, ईश्वरीप्रसाद रामप्रसाद १००  
 —मुमन शर्मा, सच्चिदानंद जुगल किशोर ०६५  
 —स्वर टडन, प्रेमनारायण हि सा भ ५००  
 मन्त घटियाल, रमाप्रसाद 'पहाडी' प्रकाशगृह ५००  
 —अटॉ कोस का जैन, प्रकाश अपोलो ४५०  
 —की सावित्री शर्मा, रामसरन आत्माराम २००  
 —के साथी भटनागर, कणादकृष्ण आत्माराम २००  
 —के साथी विष्णु प्रभाकर श्रीराम मेहरा १५०  
 मन्त एकाकी आचार्य, पद्मनारायण नद स १५०  
 —एकाकी (पद्मनारायण आचार्य) मिश्र, दुर्गाशंकर हि  
 मा भ १७५  
 —श्रीर मुगी कैसे बने चांद मोहम्मद आधुनिक सा  
 —कपाउन्डर कैसे बने सबसेना, रामचंद्र भाग्योदय ३००  
 —कैसे हो मार्टेन, स्वेट हिंद पा १००  
 —गाहंमध्य जीवन प्रयाग १२५  
 —जीवन पाठ्य, छविनाथ नद एव विद्या म, वा  
 १५०  
 —जीवन रामतीर्थ, स्वामी अर्चना प्र (पा) १००  
 —जीवन शर्मा, रामचंद्र मोतीलाल ३००  
 —जीवन मत्यजाम विद्यालकार राजपाल २२५  
 —जीवन का रहस्य कन्फ्यूशियन आधुनिक सा १२५  
 —जीवन की भाविया पचानन रामलोचन (पा) १००  
 गन्तव्य मिश्र, उमेशचंद्र श्रीराम मेहरा १००  
 —ता रहस्य मार्टेन, स्वेट हिंद पा १००  
 —रा रहस्य विवेकानंद, स्वामी अर्चना प्र १००  
 —री रानी रामतीर्थ, स्वामी छात्रहितकारी ०३७, — —  
 प्रभात पत्र १००, — —नर्मण १००  
 —री राट पर पत्र, स्वेट विद्युत आत्माराम २००  
 —रे प्र ट नाथ एलेन, जेम्स हिंद पा १००  
 —रे राट पर ओरिएटल ६००  
 —रे राट पर श्रीरामाज विनोदी १.५०  
 —रे राट पर शर्मा, शैलीमाधव हि सा कु १५०

सफलता के शिखर मदारिया, मनमोहन. मानकचंद २५०  
 —से सात साधन एलेन, जेम्स चौधरी २००  
 —के साधन डोवसन, मेथ्यूज जवाहर १२५  
 —सोपान रामतीर्थ, स्वामी श्री प्रभाकर २००  
 सफल भाषण एव सभा दीक्षित, प्रकाश रामलोचन (पा)  
 १००  
 —मौनपालन रावत, व सि स २ रावत ७५०  
 —शिक्षण कला मुकर्जी, एल कि महल ४००  
 सफाश्री की दीक्षा गाधी, मोहनदास करमचंद गाधी हिंदु  
 ०.५०  
 सफाई एव आरोग्य विल्लोरे भोपाल ०७५  
 —विज्ञान और कला वल्लभ स्वामी अ भा सर्व १००  
 —विज्ञान और शास्त्र तरुणाभाई सर्वोदय सा १२५  
 सफेद अधिकार रॉबिन शा 'पुष्प' ज्ञानोदय २००  
 —खून शेक्सपियर, विलियम नव सा प्र ०६२  
 —चिडिया पाडे, विनोदचंद्र. राजकमल ३००  
 —पजा पाडेय, युगलकिशोर प्रभात प्र भा १-२ २५०  
 (प्र), भा ३ ४००  
 —परछाईया प्यारेलाल 'आवारा'. रूपसी. ३००  
 —पोश हरनामदास 'सहराई' कल्याणदास ३५०  
 —प्रतिमा, काले साये वैद्य, किशोरीलाल कुमार सन्ज ३००  
 —वत्सल शर्मा, यादवेन्द्र 'चंद्र' नवयुग ग्र कु १००  
 सब का साथी शर्मा, यज्ञदत्त. सा प्र ४००  
 —की बोली सुदर्शन  
 —की बोली छोटी किताब सुदर्शन वीरा ०३५  
 —के बापू जोशी, बाबूराव हि प्र म ०७५  
 —ग्रथन को रस वर्मा, हीरालाल. मानस सघ १००  
 —चलता है बब्बर, सुदर्शन नवयुग प्र १५०  
 —धर्म की बुनियादी एकता भगवानदास चौखवा १२.००  
 —रग कुट्टिचातन सरस्व प्रे ३००  
 —से अच्छा पेड भारतदास, जे राजकमल ०६०  
 —से छोटा आदमी तथा अन्य एकाकी पुरातावेकर, शंकर  
 हि सा भ २००  
 —से बड़ी सफाई रतिभानु सिंह 'नाहर' छात्रहितकारी  
 ०५०  
 —से बड़ी सेवा श्रीकृष्ण सस्ता ०४०  
 सवेरा उपाध्याय, भगवतशरण नद व्र एव नद स १.५०  
 सवेरे के फूल व्यथितहृदय लोक चेतना १२५  
 'सर्व भूमि गोपाल की' सुरेशराम सस्ता ०४०  
 सव्जी की उत्तम खेती चतुर्वेदी, जगपति आदर्श पु म ३००  
 सभा शान्त्र गाडगिल, नरहर विष्णु आत्माराम ६००  
 सभाप्य रत्नमजुपा वेलणकर, हरिदामोदर, सपा भा  
 ज्ञानपीठ २००  
 सभा शृंगार नाहरा, अग्रचंद, सपा ना प्र सभा ६००  
 सभा प्रकार के सस्ते रेडियो माथुर, जे एस देहाती १२५  
 —लुटेरे है शर्मा, महेशप्रसाद भाग्योदय २००  
 सभ्यता और मस्तिष्क द्विवेदी, हजारीप्रसाद ग्रथमाला २००  
 —का सरल इतिहास वमिष्ठ, एस एस. एस चांद. ३५०

- सभ्यता की ओर. गुरुदत्त. उमेश. ३.००; — — भा. सा. सदन (पा.) १.००
- की कहानी गोस्वामी, कन्हैयालाल. नवयुग ग्र. कुं ३.००
- की कहानी. डूरेन्ट, बिल कि. महल.
- महारोग सुदरलाल हि. पु ए. ३.५०
- सभ्य मानव का इतिहास उपाध्याय, भगवतशरण कि. महल. ३.००
- समकालीन समाजशास्त्रीय सिद्धांत. सोरोकिन, पी. ए गयाप्रसाद
- समग्र ग्राम सेवा की ओर मजूमदार, धीरेन्द्र. अ. भा. सर्व ख १-२ ३.५०, ख ३ २.५०
- नयी तालीम मजूमदार, धीरेन्द्र. अ. भा. सर्व. १.२५
- समतल त्रिकोणमिति गगराडे, पी. सी ... लक्ष्मी ना. ३.५०
- त्रिकोणमिति रे, एम... गयाप्रसाद ३.५०
- त्रिकोणमिति के प्रश्नों के हल. शर्मा, हरस्वरूप. गयाप्रसाद ३.००
- भूमिति ब्रजमोहन. रा. बेनीप्रसाद १.००
- रेखागणित महेश्वरी, भागीरथ मल.. कृष्णा ब्र. ३.००
- समन्वित पाठ्यक्रम पथ प्रदर्शिका मगध ५.००
- समय और हम जैनेन्द्रकुमार. अ. भा. सर्व १.२००, — — पूर्वोदय २०.००
- का देवता अजितकुमार ऋषि 'सरल'. सा. नि., व. ५.००
- का मोल जगन्नाथ प्रभाकर. सस्ता. ०.४०
- का सदुपयोगि केदारनाथ. नवजीवन ०.३०
- की प्रगति शम्पैत, कैथराइन वी आत्माराम २.००
- की सूक्त. उर्मिलाकुमारी हि सा स ०.७५
- के पक्ष. आदिल रशीद नवयुग प्र ५.००
- के पक्ष. पोतौव्स्की. पीपुल्स ०.३७
- के पाँच चतुर्वेदी, माखनलाल भा ज्ञानपीठ ३.००
- समयसार कुदकुद, आचार्य भा. ज्ञानपीठ. ५.००
- समरकंद की सुदरी. इ. प्रे १.५०
- समर यात्रा प्रेमचंद सरस्व प्रे. २.५०
- समरागम-सूत्रधार. शुक्ल, द्विजेन्द्रनाथ. भा १ श्री भा. भारती समर्थ गुरु श्री महात्मा रामचंद्र जी की संक्षिप्त जीवनी व उपदेश. सहाय, चतुर्भुज. साधन. १.००
- जीवन-दर्शन कुलकर्णी, म. तु. नेशनल. ४.००
- रामदास जोशी, श्रीपाद. सस्ता. ०.४०
- समर्पण. चतुर्वेदी, माखनलाल भा. भा ३.००
- समर्पण. जगन्नाथप्रसाद 'मिलिद' आत्माराम. २.००
- समर्पण तुर्गनेव प्रचा पा १.००
- समवायी-शिक्षण दुवे, मिलापचंद्र गयाप्रसाद. ५.००
- समवेत द्विवेदी, शांतिप्रिय. नद स १.७५
- समस्या. धवन, देवीप्रसाद 'विकल'. प्रभात पब्लि ३.००
- समस्याएं और हम. भट्ट, उदयशंकर. मानकचंद २.००
- समस्या का अंत भट्ट, उदयशंकर आत्माराम. ३.००
- समस्यामूलक उपन्यासकार प्रेमचंद. भटनागर, महेंद्र हि प्रचा. पु ५.००
- समस्या सुलभ गई देवराज 'दिनेश'. रामप्रसाद. ३.५०

- समाचार पत्र शब्द कोष. सत्यप्रकाश, सपा हि सा. सम्मे. १.७५
- समाचारपत्रों का इतिहास वाजपेयी, अशिकाप्रसाद. ज्ञानमंडल ६.५०
- समाज दत्त, रमेशचंद्र इ. प्रे १.२५
- अध्ययन देव वीरेनचंद्र साधना म. २.२५
- अध्ययन और उसकी शिक्षा विधि सिंह ओरिएंट २.५०
- उत्थान. खुशीदल, एम भा १ समाज. ३.५०
- और अपराध त्रिपाठी, शंभूरत्न कि. घर, का १०.००
- और राजनीति गुप्त, नरोत्तमलाल गगा ३.००
- और विज्ञान की बाते. शिवनदनप्रसाद सिंह पु. भ., रा. १.००
- और व्यक्ति गोयल, देशराज राजधानी. १.५०
- कल्याण पाडेय, छविनाथ पु. भ १.२५
- कल्याण सूर्यनारायण सिंह पु. भ. १.२५
- कल्याण शर्मा, विद्यासागर. आत्माराम ३.००
- कल्याण और सुरक्षा गुप्त, रामबाबू. किशोर पब्लि
- कल्याण तथा सुरक्षा सत्यव्रत सिद्धातालकार विजयकृष्ण. १.२.५०
- का अत्याचार चट्टोपाध्याय, शरत्चंद्र. सहगल. २.७५
- का अध्ययन आदर्श पु. भ ५.५०
- का पतन दत्त भारती पजाबी पु. ७.००
- का मनोविज्ञान गिन्सबर्ग अपर ५.७५
- की आखे गुप्त, राजेश देहाती. ३.५०.
- की जानकारी. पाठक, रामकिशोर पु. भ., रा. भा. १. ०.५०, भा. २. ०.६२, भा. ३. ०.८७, भा. ४. १.५०; भा ५ १.५०
- की नगो तस्वीरे रगभूमि. २.००
- की बाते सुदर सिंह. राष्ट्रीय प्रेस. भा १. ०.७५, भा. २. १.००
- की स्थापना मल्होत्रा, जगजीत कौर. पजाबी पब्लि. ६.००
- के खडहर. उमाशंकर सिंह 'बलियावी' सुरेन्द्र. २.००
- के देवता विश्वनाथ, सपा दि. प्रे. २.००
- के समोसे सिसौदिया, रामावतार सिंह आनंद पु, वा
- के स्तभ इन्सन. आत्माराम २.५०
- के हृदय की बातें केडिया, वैजनाथ हि पु. ए. १.५०
- को बदल डालो वाजपेयी, प्रेमचंद्र आदर्श पु. म १.००.
- दर्शन. जैतली, कैलागनाथ कि महल २.५०
- दर्शन की रूप-रेखा वैजामिन खान लक्ष्मी ना ३.००
- दर्शन की रूपरेखा मेकेन्जी, जे. एस राजकमल ७.००
- धर्म राजनीति चट्टोपाध्याय, शरत्चंद्र. चौधरी. १.५०
- मनोविज्ञान प्रदर्शिका. जयप्रकाश गर्ग ब्र. २.५०
- मनोविज्ञान. अकोलवर, वी वी विन्वविद्यालय
- मनोविज्ञान (प्रश्नोत्तर). द्विवेदी चंद्रदत्त पु. भ., रा ४.००
- मनोविज्ञान नगीनाप्रसाद कि. महल. ५.००
- मनोविज्ञान. पालीवाल, टी आर. स. २. रन्तोनी. ४.५०
- मनोविज्ञान. रामबालेश्वर सिंह मोतीलाल. १.००



- नमाज मनोविज्ञान वात्स्यायन केदारनाथ ७५०  
 —मनोविज्ञान शर्मा, एम एन रस्तोगी ८००  
 —मनोविज्ञान सहगल, मनमोहन दि पु स १५००  
 —मनोविज्ञान नुरजातजीर परि स २ १६६२ लक्ष्मी ना १२५०  
 —मे न्त्रियो का स्थान और कार्य गाधी, मोहनदास करमचंद नवजीवन ० २५  
 —वाटिका मलैया, के सी स्टुडेन्स स्टोर्स ४५०  
 समाजवाद नपूरानंद भा ज्ञानपीठ ५००  
 —और पूजावाद का अध्ययन पाडेय, वी एन नावट्टी ४५०  
 —मे सर्वोदय की और जयप्रकाश नारायण. अ भा. सर्व ० ३७  
 — हिंदूवाद लोहिया, राममनोहर नवहिंद  
 समाजवादी आंदोलन का इतिहास लोहिया, राममनोहर. नवहिंद  
 —एकता लोहिया, राममनोहर नवहिंद ० ६०  
 —टग का समाज राजकुमार हि प्रचा पु ० ५०  
 —टग का समाज श्रीमन्नागायण अ भा काग्रस ० ५०  
 —विचारधारा बन्दुआ, बालकृष्ण गगा १५०  
 समाज विकान नुवल, लालजीराम सशो स नद ब्र एव नद न ३५०  
 —विज्ञान मिटान और प्रयोग राजाराम शास्त्री प्र विभाग. ४५०  
 समाजशास्त्र अगल, आर परि स ३ १६६२ लक्ष्मी ना  
 समाजशास्त्र जन्मवर्ग, मॉरिस विश्वविद्यालय ४००  
 समाजशास्त्र शभूलाल दोषी रामप्रसाद १०००  
 समाजशास्त्र मत्स्यकेतु विद्यालकार सरस्व स १२५०  
 समाजशास्त्र नुवार, सी एन सरदार ५००  
 —का संगल अध्ययन ना, ए ए नुरेश ४५०  
 —की पृष्ठभूमि त्रिपाठी, शभूरत्न कि घर, का ४००  
 —की भूमिका वर्मा, लक्ष्मीकांत कि महल ३००  
 —की स्पर्शा (प्रश्नोत्तर) गुप्त, रामबाबू २ भा किशोर पब्लि ४५० (प्र)  
 —ती स्पर्शा तोमर न ४ दत्तवधु भा १ ८५०, भा २ ६२५  
 —ती स्पर्शा (प्रश्नोत्तर) दुवे, नगला प्रजाश दुक ५५०  
 —ती स्पर्शा शर्मा, के एन . किशोर पब्लि २५०  
 —ती स्पर्शा हैलन, जी सी २ भा रस्तोगी ८०० (प्र)  
 —के आधान त्रिपाठी, शभूरत्न कि घर, का १०००  
 —के लय चौबे, सरयूप्रसाद न वेनीमाधव २००  
 —के मय आधान शर्मा, रामनाथ केदारनाथ ६५०  
 —के मय आधान हैलन, जी सी रस्तोगी  
 —के मूल तत्व वात्स्यायन केदारनाथ भा १. ५००, भा २ ५५०  
 —के मूल तत्व शर्मा, रामनाथ २ भा केदारनाथ ५५० (प्र)  
 —के मय मय सक्सेना, एम सी विनोद ६०६


- समाजशास्त्र के मूल-तत्व सत्यव्रत सिद्धातालकार विजयकृष्ण १५००  
 —के मूल तत्व हैलन, जी सी रस्तोगी ४००  
 —के मूल सिद्धात कैलाशनाथ २ भा कि महल. ४५० (प्र)  
 —के मूल सिद्धात (प्रश्नोत्तर) वात्स्यायन विश्वविद्यालय ५००  
 —के मूलाधार त्रिपाठी, शभूरत्न कि घर, का १२००  
 —के सिद्धात यग एस चाद  
 —के सिद्धात शर्मा, रामनाथ केदारनाथ ६५० से ८००  
 —के सिद्धात सक्सेना, राजेश्वरप्रसाद २ भा पु भ, आ  
 —के सिद्धात हैलन, जी सी २ भा स ४ रस्तोगी ५०० (प्र)  
 —तथा पारिवारिक व्यवस्था सुखिया. . लक्ष्मी ना २२५  
 —तथा बाल-कल्याण सत्यव्रत सिद्धातालकार विजयकृष्ण ४००  
 —परिचय चौबे, सरयूप्रसाद रा वेनीप्रसाद. ३००  
 —परिचय धर्मवीर केदारनाथ ५००  
 —परिचय वात्स्यायन केदारनाथ ५००  
 —परिचय रामपाल सिंह स २ रतन भा १ ५००, भा २ ६००  
 —प्रश्नोत्तरी गुप्ता दत्तवधु. ४००  
 —सरलीकृत त्रिपाठी, शभूरत्न २ भा. कि घर, का समाजशास्त्रीय निवध मुकर्जी, आर. एन प्रकाश दुक. १०६२  
 —निवध वात्स्यायन केदारनाथ ८००  
 —निवध. शुक्ला किशोर पब्लि २५०  
 —विश्वकोष त्रिपाठी, शभूरत्न कि घर, का. २५००  
 समाज शिक्षण काव्यामृत सक्सेना, शभूदयाल नवयुग ग्र कु १५०  
 —शिक्षा और उसका नवीन रूप पाडे, ब्रजविहारी सा साधना २५०  
 —शिक्षा और पुस्तकालय अनुज शास्त्री दि पु स १२५  
 —शिक्षा कार्यकर्ताओं की समस्याएँ और हल भा प्रौढ. १५०  
 —शिक्षा मे मनोरजन व सांस्कृतिक कार्य. भा प्रौढ ० ७५  
 —से दूर राय चौधरी, डी के 'आनंद' राज किशोर २५०  
 —सेवा आनन्दराव, डी एल नद ब्र १५०  
 —सेवा गाधी, मोहनदास करमचंद सा साधना १००  
 —सेवा शर्मा, रामकृष्ण सर्वोदय सा ० ५०  
 —स्वास्थ्य और दुर्घटनाएँ. कृष्णनंदन प्रसाद स ३. तरुण १२५  
 समाधान त्यागी, रामावतर आत्माराम. २००  
 समाधि त्रिपाठी, कमल अग्रवाल प्रि ० ७५  
 समाधि विष्णु प्रभाकर औरिएटल २५०  
 समाधी रतन ना नगम, लु ५००  
 समानांतर तिवारी, हमकुमार ग्रथमाला २००  
 समालोचना तत्व. नित्यामद... दास १, ६०

- समालोचना समुच्चय द्विवेदी, महावीरप्रसाद रा बेनीमाधव १.५०
- समीक्षक-प्रवर श्रीरामचंद्र शुक्ल. शुक्ल, गिरिजादत्त 'गिरीश' रा बेनीमाधव ५.००
- समीक्षा और आदर्श. रागेय राघव विनोद ३.००
- की समीक्षा माचवे, प्रभाकर साहनी ५.००
- के मान-दंड. शर्मा, राजेद्र श्री भा भारती. ४.००
- के सिद्धांत सत्येद्र मुशीराम एव विनोद ३.५०
- चार्ट शर्मा, कृष्णदेव अशोक प्र ०.४०
- समीक्षात्मक निबध. विजयेद्र स्नातक नेशनल ५.५०
- निबध. सत्येद्र विनोद ८.००
- समीक्षा-दर्शन रामलाल सिंह इ प्रे भा. १ ६.००, भा २ ४.००
- समीक्षायण सहगल, कन्हैयालाल आत्माराम ३.००
- समीक्षा शास्त्र ओझा, दशरथ राजपाल ६.००
- शास्त्र. चतुर्वेदी, सीताराम. अ भा. विक्रम. २१.००
- समीक्षाशास्त्र के सरल सिद्धांत त्रिगुणायत, गोविंद. एस. चाद ४.००
- समुदाय संगठन. श्रीवास्तव, प्रेमप्रकाश नद ब्र एव नद. स समुद्र का खजाना भारतदास जे. राजकमल १.५० [१.५०
- की कहानी राजपाल २.००
- की गहराइयो मे वनें, जूले राजपाल ५.००
- की पुकार प्रिबोई, नोवीकोव पीपुल्स २.८७
- की लीला. विराज नेशनल ०.७५
- के उस पार इ. प्रे. १.००
- के किनारे. मक्तवा १.००
- के गर्भ मे. गुप्ता, सुगंध चिनगारी २.५०
- के जीवजतु सुरेश सिंह, कुवर सस्ता १.५०
- गर्भ की यात्रा वनें, जूले. इ प्रे १.७५
- समुद्रगुप्त दुग्गल, वैकुण्ठनाथ आत्माराम २.००
- समुद्री जीव-जन्तु अनंत, अ नवयुग प्र
- जीव-जतु चतुर्वेदी, जगपति कि. महल २.००
- समृद्ध समाज गैलब्रथ, जान कौनेथ आत्माराम ६.००
- सम्मेलन के रत्न दीक्षित, सिद्धिनाथ 'सत', सपा हि सा. सम्मे ५.००
- निबधमाला मिश्र, ज्योतिप्रसाद 'निर्मल', सपा. हि. सा. सम्मे २.००
- निबधमाला शुक्ल, गिरिजादत्त 'गिरीश'... हि सा सम्मे. १.५०
- सम्मोहन-विद्या सरकार, पी सी ग्रथमाला ०.७५
- सम्मोहिता. मित्रा, उषादेवी. नेशनल ५.००
- सम्यक् सबुद्ध गोयल, सीताराम भा सा सदन. १.००; १.७५
- सम्राट् अशोक अनंत बहादुर सिंह. हि सा. सृजन २.००
- अशोक न्यादरसिंह 'वेचैन' देहाती १.००
- अशोक पाडे, रघुवश. राष्ट्रीय सा स. ०.५०
- अशोक. पाडेय, रूपनारायण. गगा. ३.५०
- अशोक प्रेमचंद्र 'महेश'. एस चाद १.२५

- सम्राट् अशोक शर्मा, विश्वमित्र. उमेश २.००
- गुहादित्य शुक्ल, शत्रुघ्नलाल प्रवीर. ५.००
- चद्रगुप्त आत्माराम १.२५
- चद्रगुप्त कस्तूरिया, सत्यनारायण हि प्रचा. पु. ४.००
- चद्रगुप्त धूमकेतु वीरा ४.००
- चद्रगुप्त बालमुकुद गगा ०.२५
- चद्रगुप्त मौर्य पाथरी, भगवतीप्रसाद. सा केद्र. ४.५०
- नीरो श्री प्रभाकर ४.५०
- पचम जार्ज चतुर्वेदी, नारायण इ प्रे ३.००
- लियर शेक्सपियर विलियम राजपाल २.००
- विक्रमादित्य विराज. नेशनल २.००
- शिलादित्य शुक्ल, शत्रुघ्नलाल उमेश २.५०
- हर्षवर्द्धन कस्तूरिया, सत्यनारायण हि प्रचा पु. ४.००
- सयाना मूरख. कृष्णचंदर ववई प्र १.२५
- सेरू पाडे, नारायणदत्त सस्ता १.००
- कन्या से परीख, नरहरि नवजीवन.
- सलाह कामताप्रसाद सिंह 'काम' पारिजात. १.५०
- सरकडे का रहस्य दर, पृथ्वीनाथ कृष्णा ब्र १.००
- सरकडो के मूर्ख चैन-ची यग लोकप्रिय ३.००
- सरकार एव उद्योग सक्सेना, एस सी सा भवन, आ ५.००
- तुम्हारी आखो मे शर्मा, पाडेय वेचैन 'उग्र'. गगा २.५०;
- राजकमल (पा) १.००
- से सहयोग और समाजवादी एकता लोहिया, राममनोहर नवहिंद ०.४०
- सरकारी नौकरी विष्णु प्रभाकर यग मैन. १.८७
- सरगम कुरैशी, जमीला प्रवाल २.७५
- सरगम गोविंदसिंह कन्हैयालाल २.७५
- सरजा शिवाजी गोपालचंद्र 'देव' एस चाद १.५०
- सरदार की अनुभव-वाणी पटेल, सरदार वल्लभभाई. नव-जीवन १.००
- की सीख पटेल, सरदार वल्लभभाई नवजीवन ०.८०
- जाफरी जीवनी और सकलन. राजपाल १.५०
- पटेल पाठक, श्यामवदन 'श्याम' राष्ट्रीय सा स. ०.७५
- पटेल श्यामवदन गगा ०.७५
- पटेल के भाषण. पटेल, सरदार वल्लभभाई. नवजीवन. ५.००
- पूर्णासिंह अध्यापक के निबध प्रभात शास्त्री, सपा. कौशावी २.५०
- पृथ्वी सिंह राहुल साकृत्यायन. ज्ञानमंडल. ४.००
- भगतसिंह गुप्त, मन्मथनाथ कि. महल. ०.४०
- भगतसिंह जयप्रकाश 'भारती' गकुन १.००
- भगतसिंह न्यादरसिंह 'वेचैन' देहाती ०.७५
- भगतसिंह पथिक चौधरी. २.५०
- भगतसिंह वसल, रतनलाल विनोद १.००
- भगतसिंह शर्मा, देव देहाती १.५०
- वल्लभभाई परीख, नरहरि नवजीवन. भा १. ६.००; भा २ ५.००
- वल्लभभाई पटेल उपाध्याय, यज्ञदत्त इ. प्रे. ०.५०

- नरदाने पोयो दसाधी, वी न्यू स्केच ३००  
 नरपच कोहली, तेजामिह कोहली ३५०  
 मरुत अकगणित नद ब्र २००  
 —अक प्रकाश गगवाल न १० कल्याणमल भा १  
 ०४०, भा २०६०  
 —अग्नेजी बहीखाता रतन, एस आर रामप्रसाद ०.७५  
 —अग्नेजी शिक्षा नद ब्र एव नद म १२५  
 —अनुवाद-विधि उमिलाकुमारी हि सा केंद्र १००  
 —अर्थशास्त्र (प्रश्नोत्तर) नाँवल्डी ७५०  
 —अर्थशास्त्र फ्रेंक ३५०  
 —अर्थशास्त्र (प्रश्नोत्तर) अग्रवाल, पृथ्वीनारायण हि सा  
 भ २००  
 —अर्थशास्त्र (प्रश्नोत्तर) गुप्त, रामशरण गयाप्रसाद  
 ६.००  
 —अर्थशास्त्र दास. बुकलेड ४००  
 —अर्थशास्त्र दुवे, दयाशकर रा बेनीमाधव ६५०  
 —अर्थशास्त्र वानीप्रकाश बुकलेड २७५  
 —अर्थशास्त्र मायुर, एम सी गयाप्रसाद ३००  
 —अर्थशास्त्र परिचय (प्रश्नोत्तर) मित्तल, सतीशचन्द्र.  
 गयाप्रसाद एव लायल ३७५  
 —अर्थशास्त्र, प्रारम्भिक सिद्धांत ड्यूवेट एस चाद ४५०  
 —आगमन तर्कशास्त्र वर्मा, ए के मोतीलाल ५००  
 —आधुनिक भूगोल (प्रश्नोत्तर) नाँवल्डी ३००  
 —आधिक एव वाणिज्य भूगोल (प्रश्नोत्तर) गुप्त,  
 रामशरण गयाप्रसाद ६००  
 —आधिक और वाणिज्य भूगोल (प्रश्नोत्तर) जिंदल  
 गयाप्रसाद ६००  
 —इंटरमीडियेट नागरिक शास्त्र विशानदास २ भा  
 एस चाद ६०० (प्र.)  
 —उद्योग नियंत्रण तथा समाजवाद वनाम पूजीवाद. नाँवल्डी.  
 २.००  
 —एकाकी भोसले, बालकृष्ण, सपा बवई हि ०५०  
 —एहानिया मेद्रेकर, जेहशा बवई हि ०७५  
 —एहानिया सतराम 'विचित्र' आत्माराम १२५  
 —एगि और पशुपालन अग्रवाल, गोपालदास अग्रवाल पु  
 —एपिमान्य प्रभात प्र ३००  
 —एपिमान्य वर्मा, तोताराम स २. विनोद ४.००  
 —एगिण हेमकुट भा १ ११०, भा २ १.५०, भा ३  
 १७५; भा ४ २००  
 —एग ओमनर 'मुमन' एम चाद २००  
 —एग नन, शाना ओगिण्टल ०७५  
 —एगनर-विमान विपारी, नगेद्रपति ग्रथमाला १००  
 —एगिण अग्रगोदय द्वारकाप्रसाद देहानी ३००  
 —एगिण विमान नुरप्रसाद देहानी ३२५  
 —एगिण नी नापना श्योने पलाव यू  
 —एगिण विमान शैरी, चन्द्रमोहन रतन ०५०  
 —एगिण विमान शैरी चन्द्रमोहन. रतन २.५०  
 —एगिण विमान श्रीमानव, एम घार . कि घर, का

- सरल तर्कशास्त्र मोतीलाल ६००  
 —देशी बहीखाता रतन, एस आर रामप्रसाद ०७५  
 —नागरिक जीवन और भारतीय शासन ग्रथमाला ०७५  
 —नागरिक ज्ञान सिंह, एन पी . मिश्र-बधु १३७  
 —नागरिकता और शासन चौबे रा बेनीमाधव ०७५  
 —नागरिक शास्त्र केला भगवानदास. हि सा. सम्मे  
 ५.००  
 —नागरिक शास्त्र चौबे, गोरखनाथ रा. बेनीमाधव २००  
 —नागरिक शास्त्र बववाल, कृपाराम. २ भा एस चाद  
 ५००  
 —नागरिक शास्त्र मिश्र, नर्मदाप्रसाद मिश्र-बधु १३७  
 —नागरिक शास्त्र रस्तोगी, दयाप्रकाश सशो स २ भा  
 भा भा. प्र ३००  
 —नागरिक शास्त्र शर्मा, डी एन इ. पब्लि ३.००  
 —नागरिक शास्त्र श्रीवास्तव .. रामप्रसाद १७५  
 —नागरिक शास्त्र श्रीवास्तव, एल पी. . यग मैन भा १  
 ३००, भा २ ३५०  
 —नागरिक शास्त्र और भारतीय शासन केला, ओमप्रकाश  
 भा प्र १७५  
 —नागरिक शास्त्र और भारतीय शासन गुप्ता, पी डी  
 गुप्ता ब्रा १७५  
 —नाटक माला मिश्र, नर्मदाप्रसाद, सपा ४ भा मिश्र-बधु  
 ०७५ (प्र )  
 —निगमन तर्कशास्त्र वर्मा, ए के मोतीलाल ५००  
 —निवध पद्मनाभ, सपा भा. ग्र भ ३७५  
 —निवधमाला रघुवरदयाल रीगल २५०  
 —निवध रचना भाटी, देशराजसिंह हि सा स १५०  
 —निवध व पत्र लेखन सकसेना, कृष्णा नवयुग ग्र कु  
 १००  
 —पचतत्र २ भा. प्र. विभाग १०० (प्र.)  
 —पचतत्र धर्मपाल शास्त्री राजपाल ०७५  
 —पत्र रचना शर्मा, रामकृष्ण हि सा स ०७५  
 —पत्र लेखन शुक्ल, केशवप्रसाद स ८ हि भवन १००  
 —पत्र शिक्षक सत, गोकुलचन्द्र सशो स ओरिएण्टल. ०.७५  
 —पशु चिकित्सा प्रभात प्र ४.००  
 —पशु चिकित्सा अग्रवाल, एम एस भाग्योदय २५०  
 —पाठ्य सग्रह का आलोचनात्मक अध्ययन राकेश गया-  
 प्रसाद २५०  
 —पिंगल विद्यार्थी, पुत्तनलाल... हि सा सम्मे ०५०  
 —प्रयोगात्मक मनोविज्ञान जयप्रकाश गर्ग ब्र १५०  
 —प्रयोगात्मक मनोविज्ञान . सिद्धांत तथा प्रयोग अग्रवाल,  
 आर एन लक्ष्मी ना ५००  
 —प्रयोगात्मक रसायन सैगर, सुरेंद्रसिंह गयाप्रसाद २.००  
 —प्रवेशिका अर्थशास्त्र (प्रश्नोत्तर) भा, टी एन. नावल्डी.  
 २.००  
 —प्रवेशिका नागरिक शास्त्र (प्रश्नोत्तर) भा, टी. एन  
 नावल्डी. २००  
 —प्राकृतिक चिकित्सा. लक्ष्मीनारायण हिंद पा १.००



- सरल प्राणि शास्त्र (प्रश्नोत्तर). विद्यार्थी, आर. डी. मालवीय. ६.५०
- प्रायोगिक भूगोल नासीर... बुकलेड. ६.५०
- प्रायोगिक रसायन. रामप्रीत सिंह भा १ बुकलेड २.५०
- प्रारंभिक चिकित्सा त्रिपाठी नगेंद्रपति. ग्रथमाला. १.७५
- प्रारंभिक भारतीय अर्थशास्त्र. ड्यूवेट... एस. चाद. ४.५०
- बहीखाता. फ्रैंक ३८०
- बाजार, समाचार एव पत्र लेखन सक्सेना... गयाप्रसाद. १.५०
- बाल मनोविज्ञान. कल्याणदास १.५०
- बाल मनोविज्ञान सब्बरवाल, कचनलता. हिं भवन. १७५
- बीमा परिचय (प्रश्नोत्तर). नाँवल्टी २.५०
- बैंकिंग गर्ग, कातानाथ कि. महल ३००
- बैंकिंग. सक्सेना, शकरसहाय. रा वेनीमाधव १.५०
- भागवत बंसल, रघुवीरशरण. देहाती ३००
- भारतीय अर्थशास्त्र फ्रैंक ३.८०
- भारतीय शासन और नागरिक जीवन. लालबहादुर आगरा बुक ३.५०
- भारतीय स्थानीय स्वशासन (प्रश्नोत्तर) नाँवल्टी २५०
- भाषा-विज्ञान गौतम, मनमोहन हिं. सा. स ७००
- भाषा विज्ञान (प्रश्नोत्तरी) जगमोहनशकर प्रताप. हिं सा. भ २२५
- भौतिक भूगोल जैन, पुरुषोत्तम श्रीराम मेहरा. ४००
- भौतिक विज्ञान. कृष्णबहादुर. स २ रा वेनीप्रसाद ३.५०
- मनोविज्ञान चौबे, सरयूप्रसाद आगरा बुक ४५०
- मनोविज्ञान भाटिया, हसरज राजकमल. ३५०, ४.५०
- मनोविज्ञान शुक्ल, लालजीराम नद. स. ६००
- महाभारत बंसल, रघुवीरशरण देहाती. ३००
- महाभारत सत्यकाम विद्यालकार राजपाल १००
- माध्यमिक जीव विज्ञान विद्यार्थी, आर डी श्रीराम मेहरा ५००
- माध्यमिक भूगोल अमरबहादुर सिंह कि. महल. ३७५
- माध्यमिक भूगोल जैन, पुरुषोत्तम श्रीराम मेहरा ४००
- माध्यमिक रेखागणित. पाडेय, जे पी कल्याणमल ४.००
- माध्यमिक सामाजिक अध्ययन. वैद्य, बालचंद्र... यग मैत ४५०
- माध्यमिक सामान्य विज्ञान भारद्वाज, सत्यदेव... यग मैत. ४५०
- मुद्रा, वित्तिमय एव बैंकिंग भार्गव, दाऊदयाल गयाप्रसाद. ५००
- मैप रीडिंग शुक्ला, आर एस स ५. आर्मी. ३.५०
- यत्र-विज्ञान रामनारायणलाल. पु भ. ३००
- योगासन सरावगी, धर्मचंद्र सस्ता २.५०
- योगासन विधि गुप्त, केदारनाथ छात्रहितकारी. २.५०
- रचना विधि कृष्णचंद्र विद्यालकार शरदा-म. भा १ ०७५; भा. २. १.२५

- सरल रसायन विज्ञान. डंडन, सतुप्रसाद रा. वेनीमाधव ३५०
- राजनीति शास्त्र. त्यागी, एम-एस-भा. १ स. ८. रस्तोगी. ५५०
- राजनीति तथा ब्रिटेन और भारत की शासन प्रणालियां. केदारनाथ ७००
- राजनीति शास्त्र (प्रश्नोत्तर). नाँवल्टी ४००, ६००
- राजनीति शास्त्र गुप्त, ओ पी. सशो. स २ केदारनाथ भा १. ५.०० से ७००; भा. २. ४०० से ४.५०
- राजनीति शास्त्र दास... बुकलेड ५.५०
- राजयोग. विवेकानंद, स्वामी स २ श्रीरामकृष्ण. ०.५०
- राज्य विज्ञान बबवाल, कृपाराम. ३ भा. एस चांद: १३.५०
- रामायण. बंसल, रघुवीरशरण. देहाती ३००
- रामायण. विनोद राजपाल. १००
- रूपक मजरी विराज नेशनल. २००
- रेडियो विज्ञान विजय, रमेशचंद्र. आत्माराम ५००
- वनस्पति विज्ञान. गगवार, आर बी रतन २५०
- वस्तु-चित्रण भटनागर, ए. एस. गुप्ता ब्रा. २.००
- वाक्य रचना गुप्त, सुखपाल आर्थ बुक ०८०
- वाणिज्य प्रणाली सक्सेना. गयाप्रसाद ५००
- वाणिज्य प्रणाली एव वहीखाता सिद्धांत फ्रैंक. ३८०
- वाणिज्य भूगोल जैन, पुरुषोत्तम भा भा. प्र. ३००
- वाणिज्य विधि के तत्व मनमोहन प्रसाद बुकलेड. ३.००
- विज्ञान कौल, श्यामसुंदर रा वेनीप्रसाद. २.२५
- विज्ञान शर्मा, दीपकनाथ एस. चाद. ६००
- विज्ञान. श्रीवास्तव, भगवतीप्रसाद. ज्ञानमंडल १०६
- विज्ञान प्रश्नोत्तरी अरोडा, रामलाल गयाप्रसाद २.००
- विश्व-इतिहास. नाहर कि महल. १.५०
- व्याकरण शिक्षा और निबंध-रचना. सर्वोदय मा १००
- व्यापार पद्धति रत्न, एस आर रामप्रसाद ०७५
- व्यापार संचालन (प्रश्नोत्तर) नाँवल्टी २५०
- व्यापारिक पद्धति. गर्ग, कातानाथ. कि महल १५०
- व्यायाम दीक्षित, भद्रशकर सस्ता ०.४०
- शब्दानुशासन वाजपेयी, किशोरीदास ना. प्र सभा एव हिमालय २.५०
- शरीर विज्ञान. वाजोरिया, नारायणदास... हिं सा सम्मे १.५०
- शरीर-विज्ञान वर्मा, जानकीशरण स १८. रा वेनीमाधव. १.५०
- शिक्षा-मनोविज्ञान. चौबे, सरयूप्रसाद लक्ष्मी ना ६.००
- शिक्षा मनोविज्ञान भाटिया, हसरज राजकमल. ३००, ४.००
- शिक्षा मनोविज्ञान भारद्वाज, दिनेचंद्र. विनोद. ४.००
- शिक्षा सिद्धांत शाह, चंद्रकांत. नवयुग ग्र. कु ०५०
- शिक्षा सिद्धांत शिक्षण कला भारद्वाज विनोद. ४००
- शिवराज विजय. काकर, नवलकिशोर कल्याणमल १.२५
- संस्कृत अनुवाद रमण... इ पब्लि. ३.५०

- मरल सस्कृत प्रवेदिका चौधरी, जे पी चौधरी ३२५  
 —सस्कृत व्याकरण इन्द्र. न ३ हि भवन २००  
 —संस्कृत व्याकरण मुखोपाध्याय, सत्याशु मोहन मोतीलाल २००  
 —संस्कृत व्याकरण शर्मा, मुजनदत्त गुप्ता ब्रा १२५  
 —साज नामान मे वैज्ञानिक प्रयोग प्र विभाग ६००  
 —साधारण विज्ञान रा वेनीप्रसाद भा १-२०७५ (प्र); भा ३-४. १२५ (प्र)  
 —सामान्य ज्ञान शर्मा, सूर्यदेव आर्य सा भा १०२५; भा. २०३७, भा ३०४८, भा ४०५०  
 —सामान्य ज्ञान श्यामदत्त यग मैन २५०  
 —सामान्य मनोविज्ञान चौबे, विजयनारायण.. नद ब्र ६००  
 —सामान्य विज्ञान मलहोत्तरा, विजेनारायण स ३ कृष्णा ४ ३५०  
 —साहित्यिक निबंध गुप्त, सुरेशचंद्र एस चाद  
 —सैन्य विज्ञान भगत, जे आर आर्मी ४२५  
 —स्थिति विज्ञान पाडेय, अननप्रसाद .. नद ब्र एव नद स ४५०  
 —स्मृति चित्रण नदलाल खुत्तर कि महल ०७५  
 —स्वान्वय-योगामन नत्यानद, स्वामी प्रभात प्र २००  
 —स्वान्वय विज्ञान वैनीचरण महेंद्र ४ भा गयाप्रसाद १३७  
 —स्वास्थ्य विज्ञान विष्णुकर्मा, पी पी नद स एवं नद स भा १०६२, भा २-३०७५ (प्र)  
 —हार्डस्कूल अकगणित कटरहा, दौलतराम विश्व-वधु. ४००  
 —हार्डस्कूल बीजगणित रे . रतन  
 —हार्डस्कूल बीजगणित प्रदगिका शर्मा, एच एस रतन १००  
 —हिंदी मन्ना, के पी सिंह, सपा रा वेनीप्रसाद २५०  
 —हिंदी कोश अक्षय ५०५  
 —हिंदी-भ्रमना शिक्षक प्रभात प्र ०५०  
 —हिंदी भाषा विज्ञान मन्सेना, भुवनेश्वरीचरण पु भ, आ २२५  
 —हिंदी व्याकरण कुमार सन्ज ४००  
 —हिंदी व्याकरण शिवनारायण लाल हि प्रचा पु २.५०  
 —हिंदी व्याकरण भागर, रामचंद्रसिंह. ३ भा पु भ, आ  
 —हिंदी व्याकरण एव रचना कुट्टनपिल्ले, एन. पी हि प्रचा. पु ११०  
 —हिंदी व्याकरण रत और अनकार श्रीवान्तव, नदलाल . हि प्रचा पु १.२५  
 —हिंदी व्याकरण व रचना शोच वर्मा, कृष्णलाल हि प्रं र भा १ १००, भा २ ०६०, भा ३ ०.२१  
 —हिंदी-संस्कृत धर्मशास्त्र शास्त्री गजपान. ०७५  
 —हिंदी-संस्कृत चिन्ता प्रेमचंद, टा देहाती २५०  
 —हिंदी-संस्कृत कविता प्रेमचंद, टा देहाती २५०

- सरला कशीदाकारी गुप्त, मिथिलेशकुमारी, संग्र भाग्योदय. १००  
 —, विल्लू और जाला ह्वार्ट, ई वी. आत्माराम. २००  
 —भारतीय कशीदाकारी रानी देहाती. ५००  
 सरवर नीर न्यादरसिंह 'बैचैत' देहाती ०७५  
 सरस एकांकी नाटक वर्मा, रामकुमार, सपा स ५ हि भवन १५०  
 —कहानिया आनदकुमार आत्माराम. १५०  
 —कहानी कुज त्रिपाठी, रमाशकर, सपा रामप्रसाद २.५०  
 —कहानी संग्रह भट्ट, सरोज औरिएटल १२५  
 —गीत सत, शाता बाल सदन. ०७५  
 —पिंगल शुक्ल, रामचंद्र 'सरस' सं ६. रा वेनीप्रसाद ०.५०  
 —लोक कथाए जैन, श्रीचंद्र. औरिएटल. ०७५  
 —सुमन. गुरुभक्त सिंह 'भक्त' इ प्रे ०५०; —सा साधना. १२५  
 सरस्वती अक गणित शकरराव, के. . श्री सरस्वती भा. १ ०.५०, भा २ ०७५, भा ३. १००, भा ४. १२५  
 सरस्वतीचंद्र त्रिपाठी, गोवर्धनराम भा. प्र भ ७५०  
 सरस्वती नागरिक शास्त्र श्रीवास्तव, के एल सरस्व प्र. ४५०  
 —पूजन द्वारा विश्व शांति वर्मा, गणेशराम मिश्र-वधु ०५०  
 —बुनियादी शिक्षा मनोविज्ञान तनखीवाले, जी वाई सरस्व प्र ३००  
 —हीरक जयती विशेषाक. इ प्रे २०००, परिशिष्टाक २.००  
 मरहद कृष्णबहादुर चद्रा कि महल २००  
 सराय धिल्डियाल, रमाप्रसाद 'पहाडी'. प्रकाशगृह ६००  
 —के वाहर कृष्णचंदर राजपाल. ३००  
 सरिता रामकृष्ण शास्त्री, सपा हि भवन १५०  
 —कशीदाकारी सरिता देहाती २५०  
 सरीसृप तरुणभाई सर्वोदय सा ३००  
 सरीसृप रमेशचंद्र 'प्रेम' आत्माराम १.५०  
 सरोज सोमेश्वर सिंह इ. प्रे २.००  
 —रचनावली सहाय, शिवपूजन पु भ. १२५०  
 —सर्वेक्षण. गुप्त, किशोरीलाल हिंदु एकेडेमी सकिट डायग्राफ्स ऑफ रेडियो वेदप्रकाश देहाती ३.७५  
 सर्जना आलोक  
 सर्दी जुकाम-खासी. अल्सेकर, रेस्मस स ५ आरोग्य. १.००  
 —, जुकाम, खानी अनास्कर छात्रहितकारी ०७५  
 सर्पगंधा. वेदी, रामेश आत्माराम १७५  
 सर्वदर्शन संग्रह उमाशकर ऋषि, व्या चौखवा २५००  
 —धर्म एकता अ. भा सर्व ०.४०  
 —धर्म नमन्वय जगतनारायण नारायण प्र १२५  
 —धर्म नमभाव अ भा काग्रेस ०७५  
 सर्वभगला वरेरकर, मामा वीरा ३००  
 सर्वश्रेष्ठ एकाकी मनोत, मरनदान श्री भा. भारती २.५०

- सर्वश्रेष्ठ कहानिया प्रेमचंद सरस्व प्रे. १.५०  
 — पजावी साहित्य. अमृता प्रीतम, सपा २ भा. प्रगतिशील  
 ४०० (प्र)  
 सर्व सेवा सघ अधिवेशन. अ भा. सर्व १.००  
 सर्वांग लक्षण मित्तल, भगवानदास श्यामलाल २.००  
 सर्वार्थसिद्धि पूज्यपाद, आचार्य. भा ज्ञानपीठ १२.००  
 सर्वार्थसिद्धिसार चैनसुखदास, सपा. जैन सा. ४००  
 सर्वसिग ट्राजिस्टर रेडियो. विजय, आर. सी देहाती.  
 ७५०  
 सर्वे इजीनियरिंग बुक. रामअवतार 'वीर' देहाती १२.००  
 सर्वोत्तम आविष्कार श्रीमाताजी श्रीअरविंद ० ३७  
 सर्वोदय. गाधी, मोहनदास करमचंद नवजीवन. ०.३५, २००;  
 — सस्ता. ० ३७  
 —अर्थशास्त्र. व्यौहार राजेद्र सिंह. कला नि.  
 —और शासन मुक्त समाज. वदोपाध्याय, शैलेशकुमार. अ  
 भा. सर्व. १.००  
 —का इतिहास और शास्त्र. देव, शकरराव. अ. भा सर्व  
 ०.२५  
 —का घोषणा-पत्र भावे, विनोवा सस्ता. ० २५  
 —का सिद्धांत गाधी, मोहनदास करमचंद नवजीवन. ० ६२  
 —की वुनियाद उपाध्याय, हरिभाऊ सस्ता १.००  
 —की सुनो कहानी. मेहता, ववलभाई. ५ भा. अ. भा. सर्व.  
 १.२५  
 —के आधार उपाध्याय, गयाप्रसाद सरस्व. पु. स. १ ५०  
 —के आधार. भावे, विनोवा. अ भा. सर्व ० २५  
 —के गीत शर्मा, रामगोपाल 'दिनेश'. सा. रत्न भ  
 ० ७५  
 —दर्शन. धर्माधिकारी दादा अ. भा सर्व. ३ ००  
 —पाय. भावे, विनोवा अ. भा सर्व ०.४०  
 —यात्रा. भावे, विनोवा अ भा सर्व १.००  
 —योजना. सस्ता. ० ५०  
 —विचार. देसाई, नारायण अ भा. सर्व. ०.७५  
 —विचार भावे, विनोवा सस्ता १.१२  
 —विचार व स्वराज्य शास्त्र. भावे, विनोवा. अ. भा सर्व.  
 १.२५  
 —संदेश. भावे, विनोवा सस्ता १.५०  
 —संयोजन : संयोजन समिति की रिपोर्ट. अ भा सर्व १ ००  
 —समाज और विश्व दीक्षित, चंद्रोदय राष्ट्रीय प्र. मंदिर  
 १.००  
 —स्वस्थ्य दर्शन हीरालाल निरोगी. १०.००  
 मलमा और समदर अहमद अब्बास, ग्वाला नीलाभ.  
 मलवार की वेलें संतोपकुमारी देहाती २ ५०  
 मलाइया नकमेना, शंभूदयाल नवयुग प्र कु. २ ५०  
 मनोमी चारुण्ड, धारकर. ए प्रे. १.००  
 मज्जिम वानीन गुजरात बहुरा, गोपालनारायण. मगल  
 ०.७५  
 मरुपोगामाइट और एटीडामोडिबन. चौदे, प्रियरुमार मेडिकल.  
 १ ५०

- सवाल उठता है वाजपेयी, प्रेमचंद्र पुष्पी. १ ००, — —  
 सुरेंद्र. २.००  
 सविता चट्टोपाध्याय, शरतचंद्र. प्रभात प्र ५.००; — —  
 सन्मार्ग. ५.५०  
 सवेरा और साया विद्याभास्कर इ प्रे १ ५०  
 सवेरे की रोशनी. जोगी, श्रीपाद मस्ता. ०.४०  
 सवैये और विष्णुपद जसवतसिंह नेचर. ० २५  
 समुराल घवन, देवीप्रसाद 'विकल'. गंगा ३.००  
 समुराल शौकत धानवी नवयुग प्र २ ५०  
 सहकारिता शांतिप्रकाश अशोक प्रे ४.००  
 सहकारिता हरिदास 'सहयोगी'. सर्वोदय सा. २ २५  
 —आंदोलन और समाजवादी समाज रचना हरिदास  
 'सहयोगी' नद व एव नद. म ३ २५  
 —और पचायती राज हरिदास सहयोगी' अ भा. सर्व.  
 १ ००  
 —और पचायती राज्य नद. स ३ ००  
 —के सिद्धांत. भटनागर रस्तोगी. ६ ५०  
 —के सिद्धांत एव भारतीय सहकारिता भटनागर, नदलाल.  
 रस्तोगी. १०.००  
 सहकारी खेती गाधी, मोहनदास करमचंद नवजीवन. ० २०  
 —खेती स ५ जगदेव सिंह 'देव' राष्ट्रीय प्र मंदिर. ०.६२  
 —खेती. नाहर. छात्रहितकारी ० ५०  
 —खेती. राजकुमार हि. प्रचा पु ०.५०  
 —खेती वत्स्य, सतराम. नेशनल ०.७५  
 —खेती और भारतीय अर्थतंत्र दीपकर, आचार्य. पीपुल्स.  
 ५ ००  
 —समाज. वैजनाथ सिंह. सस्ता. १ ००  
 —समितिया एक परिचय वर्मा, जगदीशचंद्र. नवचेतना.  
 —समितिया और आधारभूत शिक्षा. भा. प्रौट. २.५०  
 सहगल सगीत गर्ग, लक्ष्मीनारायण, मपा. मगीत. २.५०  
 सहज विचार. शिवव्रतलाल. शिव मा १ ००  
 सहजीवन : सहअध्ययन एक प्रयोग अ. भा सर्व. ०.८५  
 सहजीवी गाव इजराइल का एक प्रयोग. अ. भा. सर्व. ३ ००  
 सहजोबाई के पद्य सहजोबाई देहाती ० ५०  
 —सगीत भजनामृत रामअवतार 'वीर'. देहाती. २.५०  
 सहयोग. श्रीवास्तव, प्रय.नारायण रामप्रसाद ० ६५  
 —का बल मिश्र, शिवशंकर प्रभात पट्टिन १.५०  
 —का बल. शर्मा, शिवशंकर गंगा १ ५०  
 सहन्य रसदर्पण कोमिक श्यामदान. २ ५०  
 सहन्यावाह नुरदन. अंगिमदन. ६ ००  
 महारा गोविंदसिंह चौधरी. ० १०  
 महारा शर्मा, जगदीश देहानी १ २५  
 महो रान्ता राजकुमार हि प्रचा पु १.५०  
 महेंद्रिदी के पद्य रत्नमकर सिंह हि पु. पु २.००  
 महेंद्रिदी गोविंदसिंह रत्नमकर ६.००  
 महेंद्रिदी. प्यारेनाम आगरा' रत्नम. (पा.) १ ००  
 महेंद्रिदी की चट्टानें चतुरंज, आचार्य प्रभात प्र. ३.००  
 सांख्यकारिका पाठ्य, सत्यनारायण. सा नि, सा १.००

- मान्य दर्शन दर्शनानन्द, स्वामी देहाती एव प्रभात प्र २.००  
 —दर्शन ब्रह्ममुनि, स्वामी आर्य सा ३.००  
 —दर्शन शर्मा, श्रीराम, मया सस्कृति ४.००  
 —दर्शन का इतिहास उदयवीर शास्त्री विरजानन्द ३.००  
 —दर्शन भाष्य उदयवीर शास्त्री भा प्राच्य ८.००  
 —दर्शन विद्योदयभाष्य उदयवीर शास्त्री विरजानन्द ८.००  
 —शास्त्र का इतिहास उदयवीर शास्त्री भा प्राच्य ३.००  
 —सिद्धात उदयवीर शास्त्री भा प्राच्य एव विरजानन्द १६.००  
 साग्यिकी पल्सुले, एन आर गयाप्रसाद ५.००  
 मान्यिकी रन्तीगी, के के केदारनाथ ६.००  
 साग्यिकी सम्सेना, एच सी एस चाद १.००  
 —के मूल सिद्धात एव उनके प्रयोग सिंह, एम पी किशोर पब्लि १०.००  
 —के सिद्धात एलहस, देवकीनन्दन कि महल ६.७५  
 —के सिद्धात व्होरा... लक्ष्मी ना ६.५०  
 —के सिद्धात शुक्ल, एस एम स २. सा भवन, आ. ६३७ से ११२५  
 —के सिद्धात और उपयोग सेठी, विनोदकरण हि समि ६.००  
 मान्यिकीय शर्मा, एन डी . सशो स ४ कि घर, का १०.००  
 —विधिया दीक्षित, ब्रजमोहन पु भ, आ २५०  
 —सिद्धात शर्मा, एन डी . स ३ कि घर, का १३५०  
 मान्यिकी सरल अध्ययन राधारमण रस्तोगी ५.००  
 —सिद्धात और व्यवहार बलदुआ, पन्नालाल .. रा वेनी-माधव १२५०  
 साच को आच शौकत थानवी. सहगल ३ ७५  
 साचा मानवे, प्रभाकर प्रचा पा १.००  
 साभ का मेहमान शर्मा, श्रीराम 'राम' चौधरी. ५.००  
 —का मूरज शर्मा, ओमप्रकाश दि पु. स. ४.००  
 —वी बेला नदा, गुलदान शारदा म ३५०, — —स्टार. (पा) १.००  
 —के भाषी राजकमल ३५०  
 —सकारे पाडेय, सुधाकर म २ कल्याणदास. ५.००  
 —सवेन श्याममुदर 'सुमन' भाग्योदय २.००  
 —टुई पठी घर आ नौटियान, नतोपनारायण पु भ १.००  
 नाठ गाठ रमेश चौधरी, ए 'आरिगपूडि' भा सा सदन ५.००  
 माध्य-गीत वर्मा, महादेवी भा भ २५०  
 —पुत्री मित्रा, उपादेवी रा वेनीमाधव १५०  
 माप और बदर की लडाई और दूमरी कहानिया कौशल, रामनरूप आत्मराम २.००  
 माप की मृष्टि हरिहर 'प्रेमी' न २ वसन २५०  
 माप भाष्य, जगमोहनलाल लोकप्रिय १७५  
 मावगिया गोविन्द चोघरी ३.००  
 मावरी गोविन्द आदर्श पु. म २५०  
 मावे विश्वर गडे त्रिपाठी, रामेश्वराम कृष्णा भ. ३५०

- सासो के फूल. चन्द्रदेव सिंह भा पु म २.००  
 सास्कारिक लोक गीत व्यास, कृष्णानन्द 'वेआस'. वेआस १५०  
 सास्कृतिक एकता अनन्त, अ अ आर्य बुक १५०  
 —कहानिया मनमोहन सरल. आत्मराम ४.००  
 —कहानिया राजवहादुर सिंह आत्मराम २.००  
 —जीवन गुलाबराय गयाप्रसाद. २.००  
 —निवध उपाध्याय, भगवतशरण भा ज्ञानपीठ. ३.००  
 —परपरा और साहित्य वाली, तारकनाथ प्रभात प्र. ४.००  
 —प्रश्न जगन्नाथप्रसाद 'मिलिद' गयाप्रसाद २५०  
 —वैभव उपाध्याय, भगवतशरण मानकचद २.००  
 साइस की कहानिया उमाशकर किताबिस्तान ३.७५  
 —हिंदी प्रबोधिनी गुप्त, वेदपाल .. सूर्य प्र ३.००  
 साइकिल चोर वारतोलिनि कि महल ३.००  
 —रिपेयरिंग रामश्रवतार 'वीर' देहाती. २.५०  
 साकल्य द्विवेदी, शातिप्रिय हि प्रचा. पु ४.००  
 साका. जगदीशकुमार 'निर्मल' हि. प्रचा पु. ३.००  
 साकी सोमनाथ 'अकेला' कन्हैयालाल २.७५  
 साकेत खत्री, दुर्गाप्रसाद लहरी ३.००  
 साकेत गुप्त, मैथिलीशरण सा सदन, चि ६.००  
 साकेत सिधल, ओमप्रकाश हि सा स १५०  
 — एक अध्ययन. नगेंद्र स ६ सा. रत्न भ ४.००  
 —की टीका जैन, फूलचन्द्र 'सारंग'. विनोद ५.००  
 —की टीका ब्रजभूषण अशोक प्र. ५.००  
 —के नवम सर्ग का काव्य वैभव सहल, कन्हैयालाल सा. सदन, चि २.५०  
 —(गुप्त) (प्रश्नोत्तर) भारतभूषण 'सरोज' विनोद १५०  
 —दर्शन (साकेत समीक्षा). पाडेय, त्रिलोचन. सरस्व. पु. स ५.००  
 — दर्शन श्रीलाल 'भानु' शारदा प्र. (पा) १.००  
 —दिग्दर्शन शर्मा, मखनलाल रतन ८.००  
 — प्रश्नोत्तरी मिश्र, दुर्गाशकर सरस्व. पु. स १५०  
 —मे काव्य, सस्कृति और दर्शन. सक्सेना, द्वारिकाप्रसाद. विनोद १०.००  
 —समीक्षा ब्रजभूषण अशोक प्र २५०  
 —सुधा दुवे, रामस्वरूप नारायण बुक ७.५०  
 —सौरभ. सहगल, नगीनचद रीगल १०.००, सर्ग. ६. ३.००  
 साग पात उत्पादन. गुरदत्त सिंह सा सगम, लु २.००  
 —भाजी उत्पादन और फल परिरक्षण भा, शिवानन्द रा. वेनीप्रसाद २५०  
 —भाजी की खेती व्यास, नारायण दुलीचद सस्ता ३.५०  
 सागर और मनुष्य हैमिचे, अर्नेस्ट राजपाल २.००, — हिंद पा १.००  
 —का साम्राज्य शर्मा, राजेंद्र नेशनल १५०  
 —की कहानी ओमप्रकाश भर्वादय १५०  
 —की खोज. राजपाल. ३.००

सागर की लहरो पर. उपाध्याय, भगवतशरण. भा. ज्ञानपीठ.

४००

—की सैर ओमप्रकाश. सस्ता ०.४०

—के सीप भारतभूषण आत्माराम. ३.५०

—तल की खोज. ब्रिडजे, रूथ राजपाल. २००

—पार के मोती वर्मा, सावित्रीदेवी. अरुणोदय १.५०

—लहरे और मनुष्य. भट्ट, उदयशकर राजकमल ५००;  
(पा.) २.००

—सगम गुप्त, मन्मथनाथ राजपाल ५००

—सम्राट खत्री, दुर्गाप्रसाद लहरी ३.००

—सम्राट. जयप्रकाश. नवयुग प्र. १.५०

—सेतु. शर्मा, राजेद्र राजकमल. ५.००

सागरिका गोविंदसिंह आदर्श पु म. २५०

साग सब्जी. मुखोपाध्याय, कार्तिकेयचरण हिं पु ए १७५

—, सब्जी उगाइए. २ भा सर्वोदय १.५० (प्र)

—सब्जी उगाओ लाडली मोहन आत्माराम. ३००

—सब्जी की खेती प्रभात प्र १५०

—सब्जी की खेती पाडेय, वासुदेव ज्ञानपीठ २.००

साठ वर्ष. एक रेखाकन पत, सुमित्रानदन राजकमल. ३००

साडी के छोर दाधीच, रतनलाल नवयुग प्र कु २००

सात उपन्यास सात कहानिया हरिवंश, अनु हिं प्रचा. पु. (पा)  
१००

—कहानिया (अलिफलैला से) भा भ १००

—कहानिया. पाडे, के एन आर्मी १२५

—कहानिया सुदर्शन स ७. हिं भवन ०७०

—कहा निया. हरभजनसिंह... एस चाद १७५

—गीत वर्ष. धर्मवीर भारती भा ज्ञानपीठ ३५०

—दिनो की कहानी गौड, ब्रजबिहारीलाल. आदर्श पु. म.  
१.५०

—नाटक. मेहता, रमेश देहाती. १०५०

—पुतलिया. हेमकुट १५०

—प्रधान एकाकी. बालकृष्ण. श्री भा भारती. २.२५

—प्रहसन. भट्ट, उदयशकर आत्माराम २.५०

—महामानव सूर्यकांत. श्री भा भारती. ३००

—राते मातृ-भाषा २००

—लाख मे से एक वरेरकर, मामा लोक चेतना ५००

सातवीं शादी गुप्त, मुन्नूलाल 'सूर्य'. पुष्पी. ०.७५; —  
सुरेद्र २५०

सात श्रेष्ठ एकाकी पाडेय, गंगाप्रसाद, सपा लोकभारती.  
३५०

—समुद्र पार आनंद, मुल्कराज राजपाल ६००

—समुद्र पार ब्रजकिशोर 'नारायण'. कला-नि ७००

—सागर सात गागर हरिवंश अर्चना प्र (पा.) १००

—साल आनंद, मुल्कराज. राजपाल ४००

—सौ गीत दीपक शारदा म ७००

सात्विक आहार चतुरसेन, आचार्य चतुरसेन ३००

साथी गुप्त, विजयकुमार. फ्रैंक. ०७५

साथी. ठाकुर, रवींद्रनाथ. चिनगारी. १.२५

साथी तारेश नवयुग प्र. कु १५०

सादगी श्रेष्ठता का निर्माण करती है ठाकुर, केशवकुमार.

छात्रहितकारी २२५

साध शर्मा, पृथ्वीनाथ. स २ हि भवन ०.७५

—की होली शर्मा, विश्वभरनाथ 'कौशिक' गंगा ३००

साधको के जीवन पथ पर मुशी, विजयकुमार स्वरूप. १.५०

साधन-पथ पोद्दार, हनुमानप्रसाद गीता. ०१६

साधना कृष्णगोपाल 'आविद'. अशोक पा १००

साधना. गुप्त, राजेश. कि महल. १२५

साधना ठाकुर, रवींद्रनाथ राजपाल २००

साधना. रायकृष्णदास भा. भ. १.००

साधना विद्यानंद विदेह, स्वामी वेदसस्थान १००

साधना शिवानंद, स्वामी योग-वेदात १०००

—के अनुभव सहाय, चतुर्भुज साधन ख १, ४, ६ १७५  
(प्र), ख २, ३. २२५ (प्र.), ख ७. १५०

—के पथ पर उपाध्याय, हरिभाऊ सस्ता २५०

—के फूल. द्विवेदी, राममोहन साधना सा सदन २००

—के स्वर जोशी, विपिन विपिन स्मारक समिति, इटारसी  
(म प्र) ३.००

—पथ टडन, प्रेमनारायण हिं सा भ २५०

—पथ सकसेना, शंभूदयाल नवयुग प्र कु. ३५०

—साहित्य माथूर, हरस्वरूप सा. नि., का ५.००

—सोपान साधना प्रतापी गिरिधर ३००

साधारण मनोविज्ञान रामसूरतलाल... गर्ग ब्र ७.५०

—मनोविज्ञान रामसूरतलाल... भा. १ गर्ग ब्र. ५००

—रसायन वर्मा, फूलदेवसहाय २ भा काशी हिंदू ५५०  
(प्र)

—विज्ञान अप्परापर सिंह. पजावी पब्लि ७००

—विज्ञान-भौतिक शास्त्र. भार्गव, गोपालस्वरूप रा. वेनी-  
प्रसाद. १.५०

—विज्ञान रसायन शास्त्र सत्यप्रकाश. रा वेनीमाधव १५०

साधु नागमहाश्य. चक्रवर्ती, शरच्चंद्र. श्रीरामकृष्ण १५०

—बाबा मिश्र, दयाशकर साहनी ०.५०

साधू जी. शर्मा, नरेद्र पैरामाऊट. १५०

सापेक्षवाद उपाध्याय, अवध हिं सा. सम्मे. १५०

सावरमती का सत धवन, देवीप्रसाद 'विकल'. चैतन्य ३००

सावुन. ओमप्रकाश सर्वोदय ०.५०

—विज्ञान कपूर, श्यामनारायण सा नि, का. ६००

—विज्ञान दोसी, ताराचंद्र. चंद्र कार्या २००

—शिक्षा गणपतलाल देहाती २५०

सामत वीजगुप्त वनकाम सुनील विनोद. ४५०

सामतत्र दीक्षित, एम. ए रामनाथ काशी हिंदू. २०.००

सामधेनी रामधारी सिंह 'दिनकर'. उदयाचल २.५०

सामयिक जीवन और साहित्य. भटनागर, रामरतन. साथी.  
७००

—निवधावली पाठक, रामकिशोर. पु भ, रा. २२५

सामयिका. भटनागर, राजेद्रमोहन नव कमल १००

सामर्थ्य और सीमा. वर्मा, भगवतीचरण. राजकमल ७.५०



- सामवेद देहाती ३.००  
 नामवेद मस्कृति ६००  
 —मूल आर्य सा १.५०  
 —गतकम् गोविंदराम १००  
 —स्वर्गमन-प्रकार भा प्राच्य ० २०  
 सामाजिक अध्ययन अग्रवाल, आर सी .. एस चाद भा. १  
 ४५०, भा २४००  
 —अध्ययन जोशी, वावूराव... मानकचद भा १ २ २५,  
 भा २ २७५  
 —अध्ययन. मिश्र, हरविलास यग मैन ६ २५  
 —अध्ययन यादव, वस्तीराम कि महल. ५००  
 —अध्ययन लूनिया, वी एन लक्ष्मी ना भा १ २५०,  
 भा २ ४५०  
 —अध्ययन एव नागरिक शास्त्र शिक्षण दिवाकर सिंह  
 लक्ष्मी ना ४५०  
 —अध्ययन की शिक्षण विधि पाडेय, कामताप्रसाद पु भ,  
 भा ५००  
 —अध्ययन की शिक्षा शर्मा, वेणीमाधव नद व्र एव नद  
 न. २५०  
 —अध्ययन तथा नागरिक शास्त्र का शिक्षण त्यागी,  
 गुरुसरनदास सशो न २. विनोद ४००  
 —अध्ययन तथा नागरिक-शास्त्र शिक्षण शर्मा, ए पी  
 गयाप्रसाद ५००  
 —अनुसंधान तोमर . सशो स दत्तवधु १५००  
 —अनुसंधान विश्वमित्र केदारनाथ ७५०  
 —अनुसंधान तथा सर्वेक्षण वाजपेयी, एम आर सशो  
 स २ कि घर, का १२५०  
 —एकता अनंत, अ अ आर्य बुक २५०  
 —कल्याण एव सुरक्षा हैलन, जी सी स ४ रस्तोगी.  
 ५००  
 —कल्याण और सुरक्षा वात्स्यायन केदारनाथ ६५०  
 —कारा के वदी हरदयाल मिह सन्मार्ग. ४००  
 —कुरीतिया टाल्टाय सस्ता २.५०  
 —ज्ञान तेला कृष्णा व्र ३५०  
 —ज्ञान बोरदिया, केगरीलाल रा. वेनीमाधव २६२  
 —ज्ञान यादव, वस्तीराम कि महल ५००  
 —ज्ञान नमनेना, शकरमहाय रा वेनीप्रसाद ३१२  
 —ज्ञान प्रवेशिका जैन, एम एल गयाप्रसाद भा १  
 २६४, भा २ २६२, भा ३ ३६०  
 —ज्ञान नोपान माथुर, नाथूलाल कल्याणमल २५०  
 —तथा नानृतिक मानवशास्त्र विश्वमित्र केदारनाथ ६७५  
 —नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन वात्स्यायन  
 केदारनाथ ५००  
 —नियंत्रण और सामाजिक परिवर्तन शर्मा, रामनाथ  
 केदारनाथ ७००  
 —नियंत्रण दत्तचद, अनु हि नमि ३००  
 —नियंत्रण के निदान रमल, दत्त राजकमल ६००  
 —नियंत्रण त्रिपाठी, शभूरत्न कि घर, का १०.००

- सामाजिक वधन सधी, रामस्वरूप. कल्याणमल. १००  
 —मनोविज्ञान. तोमर भा. १ दत्तवधु २.५०  
 —मनोविज्ञान. तोमर, रामविहारी सिंह श्रीराम मेहरा  
 १८००  
 —मनोविज्ञान पाडेय, जगदानद तारा १०००  
 —मनोविज्ञान यग, किवल गयाप्रसाद  
 —मानवशास्त्र तोमर . सशो स दत्तवधु १०००  
 —मानवशास्त्र सत्यव्रत सिद्धातालकार. विजयकृष्ण २५०  
 —मानवशास्त्र की रूपरेखा मुकर्जी, रवींद्रनाथ स १६६२.  
 सरस्व स. ११००  
 —मूल्य शर्मा, रामकृष्ण सर्वोदय सा ०७५  
 —रूपरेखा हिक्स, जे आर मोतीलाल ५००  
 —विघटन तोमर दत्तवधु १२५०  
 —विघटन विश्वमित्र केदारनाथ ६७५  
 —विघटन और अपराधशास्त्र कुलश्रेष्ठ, गिरीशचंद्र प्रकाश  
 बुक  
 —विघटन और अपराधशास्त्र के उपादान माथुर, अजित  
 कुमार सरस्व स ६००  
 —विचार एव विचारक दक. दत्तवधु १२५०  
 —विचारक विश्वमित्र केदारनाथ ६७५  
 —विचार-धारा मुकर्जी, रवींद्रनाथ स १६६२ सरस्व स  
 १०००  
 —विचार धाराए खरे, दिनेश दि पु स. १०००  
 —विचारो का इतिहास त्रिपाठी, शभूरत्न कि घर, का  
 २०००  
 —विचारो का इतिहास सत्यव्रत सिद्धातालकार विजयकृष्ण  
 १२५०  
 —विज्ञान. दरडा, रणजीतसिंह २ भा आशा पब्लि १०००  
 —विज्ञान प्रश्नोत्तरी राय गयाप्रसाद २००  
 —व्याधिकी त्रिपाठी, शभूरत्न कि घर, का  
 —शिक्षा शर्मा, मुकुन्ददेव नद व्र २५०  
 —शिक्षा शिवनदनसिंह पु भ, रा भा १ ०७५, भा. २  
 ०६४  
 —शिक्षा तथा समाज सेवा धर्मद्व ब्रह्मचारी शास्त्री मगध  
 ६७५  
 —शिक्षा पथ प्रदर्शिका द्विवेदी, रमाकांत कृष्णा व्र १००  
 —शिक्षा मे वयस्क मनोविज्ञान सरकार सोरींद्र मगध  
 १७५  
 —सत्याए और रीतिरिवाज रागेय राघव विनोद ८००  
 —सत्याओं का तुलनात्मक अध्ययन शर्मा, रामनाथ  
 केदारनाथ ८००  
 —सन्धार्य विश्वमित्र केदारनाथ ६७५  
 —समस्याए और विघटन रागेय राघव विनोद. ६००  
 —समस्याए तथा सुरक्षा तोमर दत्तवधु १२५०  
 —समस्याओं का अध्ययन और व्यावहारिक समाजशास्त्र  
 वात्स्यायन केदारनाथ ६००  
 —मिद्धात तोमर, रामविहारी मिह भा १ श्रीराम मेहरा  
 ५००

- सामाजिक सुरक्षा एव श्रम कल्याण मुकर्जी, रवीन्द्रनाथ सरस्व  
स ११००
- सूक्ष्मदर्शी सामाजिक व्यक्तित्व अध्ययन प्रणाली. तोमर,  
रामविहारी सिंह श्रीराम मेहरा १०००
- सामान्य अकणित. कपूर, श्यामविहारीलाल. रा वेनीप्रसाद  
२१२
- अंग्रेजी-हिंदी कोष राममूर्ति सिंह हि. ग्र र. १२.००
- अर्थशास्त्र (प्रश्नोत्तर). भाटिया, वी. एम आत्माराम  
६००
- गणित भा. १ मिश्र-बधु २२५
- ज्ञान. गर्ग, डी सी .. हि प्रचा पु ३००
- ज्ञान माथुर, राय पी पी सा सदन, दे २००
- ज्ञान वेदी, नरेश. राजकमल (पा.) १००
- ज्ञान (वृहद्). शर्मा, राजेन्द्रसिंह हि प्रचा पु ३७५
- ज्ञान-कोष सहाय, श्यामसुंदर, सपा भागलपुर बुक २००
- ज्ञान तथा विज्ञान कुमार . नद व्र एव नद स ३००
- ज्ञान परिचय पूर्णमासी सिंह कि महल १५०
- प्रशासन केंद्रीय ०५०
- बीजगणित कपूर, श्यामविहारीलाल. रा वेनीप्रसाद  
२१६
- भाषा-विज्ञान सक्सेना, वावूराम हि सा सम्मे ६.००
- भूज्ञान. श्रीवास्तव, पूरनचंद मिश्र-बधु ३७५
- भौतिक विज्ञान श्रीवास्तव, भगवतीप्रसाद. यग मै. ५.५०
- मनोविज्ञान. कोहेन, फ्लोरी मोतीलाल ३००
- मनोविज्ञान. गुप्त, आर. डी श्रीराम मेहरा ४.५०
- मनोविज्ञान. पाडेय रामशकल आत्माराम ७५०
- मनोविज्ञान पालीवाल, टी आर स २ रस्तोगी ६००
- मनोविज्ञान भाटिया, हसरज ज्ञानमडल १०००
- मनोविज्ञान मसीह सशो. स ३ मोतीलाल ८५०
- मनोविज्ञान माथुर, एस एस. विनोद ७००
- मनोविज्ञान वात्स्यायन. केदारनाथ ६००
- मनोविज्ञान शर्मा, रामनाथ. केदारनाथ ५५०
- मनोविज्ञान की रूपरेखा केदारनाथ ८७५
- मनोविज्ञान की रूपरेखा (प्रश्नोत्तर) द्विवेदी, चंद्रदत्त  
पु. भ, आ ४.००
- मनोविज्ञान की रूपरेखा शर्मा, ईश्वरचंद्र एस चाद.  
६.००
- मनोविज्ञान की रूपरेखा मिन्हा .. भा भवन ६५०
- मनोविज्ञान के तत्व चौबे, सरयूप्रसाद आगरा बुक  
५००
- रसायन शास्त्र. सत्यप्रकाश. भा भ १४००
- रोगों की रोकथाम लक्ष्मीनारायण राजपाल २००
- विज्ञान देव, वीरेन्द्र. नाथना म १००
- विज्ञान भटनागर, वीरेन्द्र कि घर, ग्वा ६००
- विज्ञान मेहरोत्रा. नार की. . श्रीराम मेहरा ६.२५
- विज्ञान हरिश्चंद्र भाग्यतीय ज्ञाना पब्लि ५.००
- विज्ञान और वागवानी. रा. वेनीप्रसाद भा. १. ० ३७;  
भा. २-४. ०.४४ (प्र.)
- सामान्य विज्ञान का अध्ययन राव, डनिस. रा वेनीप्रसाद भा.  
१-२. १.७५ (प्र), भा ३. २.७५, भा. ४००
- विज्ञान का सरल अध्ययन वर्मा, विश्वप्रकाश. कल्याणमल.  
२५०
- शल्य-विज्ञान गुप्त, शिवदयाल मेडिकल. १२.००
- शिक्षण पद्धतिया द्विवेदी, चंद्रदत्त. पु भ, आ
- शिक्षा. शर्मा, मथुरालाल गयाप्रसाद ६.००
- शिक्षा. हरिश्चंद्र भारतीय. २ भा सशो. स. २. आशा  
पब्लि. १४००
- शिक्षा की रूपरेखा शर्मा, वी. के... अपोलो ६.२५
- शिक्षा सिद्धांत. अदावत, सुबोध गर्ग व्र ३.७५
- समाजशास्त्र : समाज, सस्कृति तथा व्यक्तित्व तोमर,  
रामविहारी सिंह. श्रीराम मेहरा. १०.००
- सामुदायिक योजना. अरुनींद्रकुमार विद्यालकार. सस्ता ० ३०
- विकास दे, एस के अ. भा काग्रेस ० ३०
- विकास. दे, सुरेन्द्रकुमार कि. महल.
- विकास लालजीसिंह हि प्रचा पु. १.५०
- विकास में नये प्रयोग शर्मा, आनंदशकर कि. महल.  
५.००
- विकास में प्रौढ शिक्षा भा प्रौढ ०.५०
- विकास योजना, स्वरूप और प्रगति विदेश्वरी सिंह साधना  
म २२५
- संगठन उमरामसिंह रा वेनीमाधव ३००
- सामुद्रिक बीमा के सिद्धांत श्रीवास्तव, सतगुरुशरण गर्ग व्र  
२७५
- सामूहिक खेती और सहकारी समितिया. सर्वोदय. १५०
- प्रार्थना. भट्ट, श्रीकृष्णदत्त, सपा अ भा सर्व ० २५
- साम्ययोग की राह पर वर्माधिकारी, दादा अ भा. सर्व.  
० २५
- साम्यवाद और साम्यवादी गांधी, मोहनदास करमचंद.  
नवजीवन ० २०
- ही क्यों राहुल, साकृत्यायन कि महल १२५
- साम्यमूत्र. भावे, विनोवा. अ भा सर्व ० ३७
- साम्राज्यवाद, पूजावाद की चरम अवस्था. लेनिन पीपुल्स  
साम्राज्यवादी के कर्णधार मातृ-भापा २.५० [० ३७
- साम्राज्यों का उत्थान और पतन. उपाध्याय, भगवतशरण  
कि महल २५०
- सायकी कलीम उर्फी सुरेन्द्र. (पा) १.००
- सारंग सदावृज. सिरौठिया, शकुंतला कि. महल ० ७५
- सारधा. सेगर राजेन्द्रदेव विनोद. ५.००
- सार का सार. शिवव्रतलाल जिव सा. २.५०
- सारनाथ का इतिहास. धर्मरक्षित, भिन्. नद. व्र ६००
- सार-मचयन. शर्मा, राजनाथ विनोद ६००
- सारस्वत वरेत्कर, मामा लोक-चेतना. २.००
- सारा आकाश. यादव, राजेंद्र राजकमल. ५.००, (पा)  
१.५०
- सत्तार मेरा रमेश चौधरी, ए 'आरिंगपूडि'. पंजाबी पु.  
२.५०; — — स्टार. (पा.) १.००

साहित्य सहाय, गिवपूजन, सपा अशोक प्र १५०  
 मान्यतावती हरदयाल देहाती १२५  
 मा-रे-ग-म श्री प्रभाकर २५०  
 माने जहा ने अच्छा हिंदोस्तान हमारा योगेंद्रकुमार 'लल्ला'  
 आर्ट्स एव गिरिधर ४००  
 मान्यवाह मोतीचंद्र वि राष्ट्र ११००  
 मान्यजनित अर्थ केदारनाथ प्रसाद पु भ ५००  
 —अर्थग्राम्ण और आर्थिक पुनर्निर्माण केदारनाथ प्रसाद  
 ग्रथमाला = ००  
 —राजस्व शर्मा, वी डी केदारनाथ २५०  
 —राजस्व एव आर्थिक प्रणालिया शर्मा, वी डी... केदारनाथ.  
 २२५  
 मान्यभीम आर्य नाम्राज्य विद्यानद विदेह, स्वामी. वेदसस्थान  
 ०५०  
 मानव की आत्मे राजेद्र राजपाल ३७५  
 —भादो श्यामलाल २००  
 —भादो गोविंदसिंह कन्हेयालाल ४५०  
 —हनाये भादो हलाये अभयकुमार 'योधेय' सुभाप. ६००  
 मानवी ममा राविकारमणप्रसाद सिंह, राजा अशोक प्रे  
 ३००  
 सावित्री (चित्रो मे) श्रीअरविंद ३०००  
 सावित्री गुप्तबधु मर्व-सुलभ १००  
 सावित्री घोष, अरविंद श्रीअरविंद २००  
 सावित्री मिश्र, गौरीशंकर 'द्विजेद्र' ग्रथमाला १५०  
 सावित्री यगोविमलानंद ओरिएण्टल ०६२  
 सावित्री शर्मा, यादवेद्र 'चंद्र' विद्या प्र म ५००  
 —प्रकाश वेदानदतीर्थ, स्वामी विरजानंद १००  
 —मन्यवान पाठक, रामकिशोर पु भ, रा १००  
 —मन्यवान मुनोनाथनाथ, कार्तिकेयचरण हि. पु. ए.  
 ०७५  
 —मन्यवान शुक्ल, राजनारायण चौखवा २००  
 साह्य को जुकांम हे उपेद्रनाथ 'अदक' नीलाभ ४००  
 —प्रहादुर श्रीवामनव, जी पी. हि पु ए २५०  
 —, वीव्रो, गुलाम मित्र, विमल राजकमल ११००  
 साह्य और गोज की कहानिका टेकचंद शास्त्री. श्री भा  
 भारती. २००  
 —ता फन उमिलकुमारी हि मा स ०७५  
 —ती कहानिया अन्त, अ अ छावहितकारी १००  
 —ती कहानिया कौशल, रामस्वरूप आत्माराम २००  
 —ती कहानिया गुप्त, वैजनाथ ड पठिन ०७५  
 —ती कहानिया मनमोहन नरल आत्माराम ५००  
 —ती विजय जोगल, रामस्वरूप नूनिवमिटी २५०  
 —ती धनी केनेटी, जान बोरा २५०  
 —ती पुत्रे मित्रनाथ राजपान ०७५  
 —ती पुत्रे व्यथिनहृदय एम चाद १००  
 —ती पुत्रे उदयगिर शान्नी मुशीगम २००  
 साह्य की सा विगत नेमाल ६२५  
 —शिव मर्, विमो न ६ रानी १५०

साहसी वच्चे शर्मा, मुरारीलाल रा वेनीमाधव ०६४  
 —बालक. राजपाल ०५०  
 —बालक वैश्य, जे डी आत्माराम १००  
 —मानव कृष्णचंद्र विद्यालकार एस चाद ३००  
 —मित्र शिवमूर्तिसिंह 'वत्स' एस चाद ०७५  
 —राजपूत मौर्य, द्वारकाप्रसाद चौधरी २००  
 —वीर बालकृष्ण नेशनल २००  
 —शेखू मिश्र, दयाशंकर 'दहा' २ भा राजहस १.५०  
 (प्र)  
 —ससार जैन, अक्षयकुमार मोतीलाल १.५०  
 साहित्य ठाकुर, रवींद्रनाथ हिं ग्र र ३००  
 साहित्य शर्मा, शिवनारायण ग्रथमाला ३००  
 — अनुभूति और विवेचन ससारचंद्र एस चाद ६००  
 —और कला उपाध्याय, भगवतशरण आत्माराम ६००  
 —और कला शर्मा, हरद्वारीलाल हिं सा सम्मे २५०  
 —और जीवन चतुर्वेदी, बनारसीदास सस्ता २००  
 —और सस्कृति देवराज नद व एव नद स ३००  
 —और सिद्धांत वर्मा, श्यामलाकांत चौखवा ३००  
 —कला फुकन, नीलमणि असम १५०  
 —कला-समीक्षा गुप्त, मनमथनाथ साहनी ६००  
 —का इतिहास-दर्शन शर्मा, नलिनविलोचन वि राष्ट्र ५००  
 —का उद्देश्य प्रेमचंद हस ४००  
 —का धर्म भावे, विनोवा अ भा सर्व ०५०  
 —का परिप्रेक्ष्य रघुवश भा ज्ञानपीठ ५००  
 साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध वर्मा, महादेवी  
 लोकभारती ७५०  
 साहित्यकारो की कथाए सत, शाता बाल सदन ०७५  
 —के विनोद भा, रमेशचंद्र राजधानी २५०  
 साहित्य का साथी द्विवेदी, हजारीप्रसाद राष्ट्र प्रचा समि.  
 १५०  
 —का स्वरूप गोस्वामी, वृजलाल सा सगम, लु ६२५  
 —की आत्मा गुप्त, गणपतिचंद्र भारतेदु भवन ५००  
 —की परिधि बोडा, रामचंद्र मगल ३५०  
 —की मान्यताए वर्मा, भगवतीचरण हिंदु एकेडेमी  
 —की रेखा उपाध्याय, देवराज भा प्र मदिद, ग्रा १५०  
 —की वर्तमान धारा मिश्र, जगन्नाथप्रसाद ग्रथमाला २५०  
 —की शैली गुप्त, गणपतिचंद्र भारतेदु भवन ७५०  
 —की समस्याए चौहान, शिवदानसिंह आत्माराम १०००  
 —कुसुमाजलि फ्रेंकलिन, ई डल्ल्यू, सपा २ भा एलाइड  
 ३५० (प्र)  
 —के आलोक-स्तम्भ विश्वभर 'मानव' एस चाद. १००  
 —के चरण दूवे, लक्ष्मीनारायण चौधरी ५००  
 —के तत्त्व गुप्त, गणपतिचंद्र भारतेदु भवन ५००  
 —के पुजारी शर्मा, सुरेद्र रामप्रसाद १५०  
 —के पृष्ठ शर्मा, गजानन विनोद ५००  
 —के रूप मिश्र, चंद्रशेखर नद स ४००, — —वाणी  
 वितान २००  
 —के रूप और तत्त्व. शिवनदन प्रसाद पु भ. ३००

- साहित्य के साथी कैलाश कल्पित. रा वेनीप्रसाद २००  
 —के स्वर. भट्ट, उदयशंकर आत्माराम ३५०  
 साहित्यको के सस्मरण भार्गव, ज्योतिलाल, सपा राष्ट्रीय प्र.  
 मडल एव राष्ट्रीय सा स ४००  
 साहित्य कौमुदी सहायक हि सा भ ३५०  
 —चयन जैनेन्द्रकुमार राजपाल. २००  
 —चर्चा पाठक, अनसूयाप्रसाद राष्ट्र पु भ १००  
 —चर्चा सुकुल, ललिताप्रसाद हि पु ए १.५०  
 —चिंतन. गौड, गिरिजामोहन 'कमलेश' हि प्रचा म ४.५०  
 —चिंतन. चतुर्वेदी, नरेशचंद्र. प्रत्यूष ५५०  
 —चिंतन. मिश्र, गगाधर राष्ट्र. प्र. म भा १ २.२५,  
 भा २ २३०  
 —चिंतामणि उदयभानु सिंह. रीगल ८००  
 —जिज्ञासा सुकुल, ललिताप्रसाद आत्माराम. ३५०  
 —ज्योति टडन, प्रेमनारायण, सपा हि सा भ २२५  
 —तथा साहित्यकार. उपाध्याय, देवराज मंगल ५००  
 —तरंग अवस्थी, सद्गुरुशरण इ प्रे ५००  
 —दर्पण. शालिग्राम शास्त्री, व्या मोतीलाल १०००  
 —दर्पण प्रश्नत्तोरी देवदत्त शास्त्री मोतीलाल ०७५  
 —दर्पण (षष्ठ परिच्छेद भा टी) मोतीलाल ३००  
 —दर्शन. चतुर्वेदी, सत्यदेव, सपा हि सा सृजन ४५०  
 —दर्शन जानकीवल्लभ शास्त्री कला-नि ४००  
 —दिग्दर्शन. अग्रवाल, स्वर्णलता कृष्णा ब्र. ४५०  
 —देवता चतुर्वेदी, माखनलाल भा. भ. ८००  
 —निवधावली राहुल साकृत्यायन कि महल ५००  
 —निर्माण वाजपेयी, किशोरीदास हिमालय २००  
 —पथ चतुर्वेदी, परशुराम मा भवन, इ ४००  
 —परिचय कुमुद विद्यालकार रीगल १५०  
 —परिचय खत्री, एस पी हि प्रचा पु. ३००  
 —परिचय मिश्र, रामदहिन ग्रथमाला ०५०  
 —परिचय शर्मा, विनयमोहन, सपा हि ग्र र २००  
 —परिचय लेखक और कवि. अमरनाथ ज्ञानालोक  
 —परीक्षण. चतुर्वेदी, सत्यदेव, सपा हि सा. सृजन. ३००  
 —पुष्प अग्निहोत्री, सपा. एलाइड ५५०  
 —पूर्णिमा मिस्त्री, लक्ष्मीप्रसाद 'रमा' हि साहित्यालय  
 —प्रबोध. गुप्ता, सोमनाथ एस चाद. १५० [२००  
 —प्रवाह गौड, कृष्णदेवप्रसाद कल्याणदास ६००  
 —प्रवेश अग्रवाल, हमराज सा सगम, लु ३७५  
 —प्रवेश. मिश्र, ज्योतिप्रसाद 'निर्मल', सपा हि सा सम्मे.  
 २.००  
 —प्रवेग. शर्मा, सूर्यदेव आर्य सा. भा १-२ ०४८ (प्र),  
 भा. ३-४ १०० (प्र)  
 —भारती ओमप्रकाश एन चाद २००  
 —मूल्यांकन अमरनाथ ज्ञानालोक ३५०  
 —मे नयुक्ता मोर्चा अमृतराय हन १७५  
 —मे नयुक्ता तथ्य. अरणा. आत्माराम ३.००  
 —रामायन नव ना. म ६००  
 —रूप द्विवेदी, रामश्रवण. भा भ ६००

- साहित्य लहरी. गातम, मनमोहन रीगल ५००  
 —लहरी मीतल, प्रभुदयाल, सपा सा सस्थान ६००  
 —वार्त्ता. शुक्ल, गिरिजादत्त 'गिरीग' एस चाद ५.५०  
 —विज्ञान . साहित्य-सिद्धांतों का वैज्ञानिक विवेचन. गुप्त,  
 गणपतिचंद्र. भारतेदु भवन २०००  
 —विवेचन क्षेमचंद 'मुमन'... आत्माराम ७००  
 —विवेचन के सिद्धांत क्षेमचंद 'सुमन' . आत्माराम ३५०  
 —विवेचना कपूर कि महल १५०  
 —शास्त्र मुगीराम. श्री भा भारती ७५०  
 —शास्त्र का पारिभाषिक शब्दकोष द्विवेदी, राजेन्द्र  
 आत्माराम. ८००  
 —शास्त्र के सिद्धांत मिश्रा, सरोजिनी यग मैन १२००,  
 —शास्त्रीय समाधान अवतरे कल्याणदास ६०० [१५००  
 —शिक्षा बख्शी, पदुमलाल पुन्नालाल . हि ग्र र २००  
 —, शिक्षा और सस्कृति राजेन्द्रप्रसाद आत्माराम ५५०  
 —शिरोमणि शर्मा, वी. एल हि पु ए १७५  
 —, शोध और समीक्षा शर्मा, विनयमोहन एस चाद ५५०  
 —सगम कृष्णचंद्र, सपा अनुपम ३००  
 —सचय ओप्रकाश, सपा राजकमल २५०  
 —सतरण पाडेय, गगाप्रसाद रा वेनीमाधव २००  
 —सदर्भ द्विवेदी, महावीरप्रसाद गगा ४००  
 —, सदर्भ और मूल्य मिश्र, रामदरश. एस चाद ४००  
 —सदीपिनी पाडे, चंद्रवली नद ब्र एव नद स २.५०  
 —समालोचन सत्यप्रकाश 'मिनिद' सूर्य प्र २५०  
 —समालोचना वर्मा, रामकुमार म = हि भवन १७५  
 —समीक्षण सत, धर्मचंद ओरिएटल २७५  
 —समीक्षाजलि सुधींद्र विनोद ५००  
 —समीक्षा गुलावराय. आत्माराम २००  
 —समीक्षा दीक्षित, त्रिलोकीनारायण रा, वेनीमाधव ११०  
 —समीक्षा पाडेय, इंदुप्रकाश रा वेनीप्रसाद ४००  
 —समीक्षा भनोत, सरनदाम श्री भा भारती ४५०  
 —समीक्षा. मुद्राराक्षस नेशनल ६००  
 —सम्राट तुलसीदास मिश्र, गगाधर नद ब्र , नद म एव  
 राष्ट्र प्र म ६००  
 —सरिता जैनी, मोतीलाल ३ भा गयाप्रसाद १२५ (प्र)  
 —सरिता मडल, नपा नांवल्ली १७५  
 —सरिता रत्नकांत आनंद पु, को. २५०  
 —सरिता सहाय, शिवपूजन, नपा ग्रथमाला. १७५  
 —सरोवर तिवारी, गोपीनाथ गयाप्रसाद ८००  
 —सरोवर शर्मा, देवकीनन्दन गयाप्रसाद भा १. १.००,  
 भा. २ १००; भा ३. १२५, भा ४ १२५  
 —साधना और मधर्ष गगा, रणवीर एन चाद  
 —साधना और नमाज मिश्र, भगीरथ श्रवण ४५०  
 —साधना की पृष्ठभूमि. भा, बुद्धिनाथ 'कैरव' नशा नं  
 जानसीठ  
 —साधना के नोपान मिश्र, दुर्गाशंकर नमा प्र. १७००  
 —साधिकायें. कैलाश कल्पित न्यू लिट  
 —सिद्धांत. द्विवेदी, रामश्रवण. वि. राष्ट्र ५००

- साहित्य, मित्रात और समीक्षा शर्मा, सरनामसिंह 'अरुण'  
श्रीराम मेहरा ७५०
- मुधा चारुदेव शास्त्री विश्वेरानन्द २३७
- मुधा फणनीकर, वि रा. . ववई हि २५०
- मुमन भट्ट, बालकृष्ण गंगा ३००
- मुमन शरण नव सा प्र ४.००
- नेवा वीरेंद्रनारायण कला-नि २५०
- नोपान लक्ष्मीकांत 'मुक्त' . श्री भा भारती २५०
- सौदर्य मिश्र, रामदहिन ग्रथमाला १५०
- स्रष्टा पत, मोहनवल्लभ हि प्रचा पु १५०
- स्वल्प और समन्याए टडन, प्रेमनारायण, सपा हि  
ना भ ५००
- साहित्यानुशीलन चौहान, शिवदानसिंह आत्माराम ६.००
- साहित्यायन देव, हिरिशचन्द्र 'चातक' भा प्र मदिर, आ  
८००
- साहित्यालकार मिश्र, रामदहिन ग्रथमाला ०५०
- साहित्यालोचन (प्रश्नोत्तर) भारतभूषण 'सरोज' विनोद  
२५०
- (प्रश्नोत्तर) शर्मा, राजेन्द्र . रीगल २५०
- के सिद्धात वोरा ३.००
- के सिद्धात यादवेदु रा ना लक्ष्मी ना ३००
- प्रश्नोत्तरी मिश्रा, सरोजनी सरस्व पु स २२५
- मिद्धात गौतम, मनमोहन हि सा स २५०
- सिद्धात शर्मा, प्रभुनारायण विनोद १५०
- मिद्धात श्रीलाल 'भानु' शारदा प्र (पा) १००
- साहित्यालोचना समीक्षा बालवधु हि सा भ १७५
- साहित्यावलोकन शर्मा, विनयमोहन सा भवन, इ ३००
- साहित्यिक निवध अग्रवाल, पुरुषोत्तमदास सरस्व प्र म  
६००
- निवध कमलेश, सपा प्रवृद्ध. ८००
- निवध कृष्णलाल 'हम' हि प्रचा पु ५.७५
- निवध गुप्त, गणपतिचन्द्र अगोक प्र ८००
- निवध जोशी, जीवनप्रकाश नवयुग प्र
- निवध भारतभूषण 'सरोज' हि सा केंद्र. ७५०
- निवध राय, वैजनाथ आदर्य पु भ २००
- निवध शर्मा, राजनाथ स ७ विनोद ८००
- निवध श्रीलाल 'भानु' शारदा प्र
- निवध मधी, कमला चैतन्य ४००
- निवध निधि इन्द्रपाल सिंह सरस्व पु स १२५
- निवध प्रदीप शर्मा, शिवदत्त सा प्र १२५०
- निवध मणि शर्मा, पद्मनिह 'कमलेश' भा प्र नि.  
५.००
- निवध मन्मथ शर्मा, रामगोपान 'दिनेश', सपा सरस्व. पु.  
म ३००
- निवधप्रान्ती प्रमोद ब्रह्मचारी शान्ती . ग्रथमाला २.७५
- साहित्यिक चन्द्रावती टडन, प्रेमनारायण, सपा हि.  
सा भ ३५०
- सप्त पाशेय, रामप्रसाद रा वेनीप्रसाद १००

- साहित्यिकवाद भारतभूषण 'सरोज' अशोक प्र एव हि. सा.  
२.२५
- शब्दावली टडन, प्रेमनारायण, सपा. हि सा भ.  
केन्द्र १०.००
- सस्मरण अग्रवाल, महावीरप्रसाद रा वेनीप्रसाद १.२५
- सस्मरण गोर्की, मैक्सिम पीपुल्स ३५०
- सस्मरण वाजपेयी, किशोरीदास हिमालय २००
- साहित्यिका तिवारी, हसकुमार ग्रथमाला २२५
- साहित्यिको के पत्र वाजपेयी, किशोरीदास हिमालय २.००
- के सस्मरण टडन, प्रेमनारायण ग्रथमाला २५०
- के सस्मरण मिस्त्री, लक्ष्मीप्रसाद 'रमा' हि साहित्यालय  
२००
- से भावे, विनोवा अ भा सर्व १००
- साहिर की शायरी साहिर लुधियानवी स्टार (पा) १००
- लुधियानवी जीवनी और सकलन राजपाल १५०
- साहिरा गोविंदसिंह कन्हैयालाल ३२५
- साहिल इशरत रहमानी शमा ४५०
- की ओर सोमनाथ 'अकेला' भा ग्रथमाला ३२५
- सिंगापुर से वरेरकर, मामा लोक चेतना २००
- सिंचाई और विजली अरुनीन्द्रकुमार विद्यालकार सस्ता  
०.३०
- के साधन और तरीके जगदेवसिंह 'देव' राष्ट्रीय प्र  
मदिर ०६२
- सिडरेला कृष्ण 'विकल' रामप्रसाद १००
- सिद्धात धर्मपाल शास्त्री राजपाल ०७५
- की कहानी सकसेना, प्रहलादचन्द्र नवयुग ग्र कु ०५०
- जहाजी की यात्राए मिश्र, रमेशचन्द्र फ्रैंक ०७५
- सिद्धर का जन्म श्रीवास्तव, हिमाशु राष्ट्रीय प्र मदिर एव  
हि प्रचा मदिर ३५०
- का दान महावीरप्रसाद सा केन्द्र १००
- की राख कश्मीरीलाल जाकिर वोरा ३००
- की होली मिश्र, लक्ष्मीनारायण भा भ १५०
- सिद्धरी ग्रह की यात्रा. वर्मा, रमेश प्रगतिशील २५०
- बेला सागर बालूपुरी देहाती २२५
- सिंध की लोक-कथाए प्यारेलाल आत्माराम १२५
- सिंधी की कहानिया जोतवाणी, मोती, सपा राजधानी  
२५०
- की श्रेष्ठ कहानिया चौधरी. २५०
- सिंधु सभ्यता काला, सतीशचन्द्र हिंदु एकेडेमी ५००
- सभ्यता का आदि-केंद्र हडप्पा केदारनाथ शास्त्री  
आत्माराम ८००
- सभ्यता-समीक्षा केदारनाथ शास्त्री आत्माराम. ५.००
- सिंदेलीन शेक्सपियर, विलियम रा वेनीप्रसाद ०५०
- सिंहगढ-विजय चतुरसेन, आचार्य गंगा २००
- सिंहल के वीर राहुल साकृत्यायन कि महल १५०
- धूमकड जयवर्धन राहुल साकृत्यायन. राजपाल  
३००
- विजय. राय, द्विजेंद्रलाल हि ग्र. र. २.२५

- सिंह-शावक (कव तथा कव नायक). जौहरी, राजकुमारी.  
न्यू लिट. १०० (प्र)
- सिधिया व्यथितहृदय एस चाद १.२५  
—सेनापति राहुल साकृत्यायन कि. महल. ४००  
सिंहावलोकन यशपाल. विप्लव. भा १ ५००, भा २.  
५५०; भा ३ ५००
- मिहामन बलवीरसिंह 'रग' आत्माराम १५०  
मिहामन व्यथितहृदय कौशावी १२५  
—के लिए युद्ध वर्नियर सा केद्र. १७५  
—वत्तीसी भा भ. १००  
—वत्तीसी. वीरा. ०७५  
—वत्तीसी श्यामलाल ०.७५  
—वत्तीसी जैन, यशपाल २ भा सस्ता. ०.४० (प्र.)
- सिकदर. श्रीवास्तव, हिमाशु कल्याणदास ७००, — —  
वि. ग्र कु. ६५०  
सिकदर सुदर्शन वीरा १७५  
—श्रीर पश्चिमोत्तर भारत कल्याणदास. ३.००  
—जव चला गुप्त, विध्याचलप्रसाद जानपीठ १००  
—पोरस चैनमुख वेताव. देहाती. १५०  
—महान सुदेश शरण. हिंदिया ०६२  
सिक्के की कहानी. उपाध्याय, वासुदेव ग्रथमाला १.२५  
सिक्खों का उत्थान और पतन. शर्मा, नदकुमारदेव, ना प्र.  
सभा. ३.००
- सिख-जाति. ओझा, प्रफुल्लचंद्र 'मुक्त'. ग्रथमाला १.००  
—रहत मर्यादा जसवतसिंह नेचर. ०.५०  
सितार मालिका. शर्मा, भगवतशरण. सगीत. ५००  
—शिक्षा. भट्ट, विश्वभरनाथ, सपा सगीत. ४००  
—शिक्षा. रामश्रवतार 'वीर' देहाती. २५०  
मितारा. जैदी, कुदसिया. आत्माराम. २.००  
सितारा. ज्वालाप्रसाद 'केशर'. चिनगारी १५०  
मितारे हिंदु प्रचा. नभा. ०८७  
मितारों का मफर बर्मा, रमेशचंद्र. रणजीत २००  
—की कहानी राजपाल. २००  
—जी रोज. तीखोव, ग पीपुलम १.००  
—की दुनिया त्रिपाठी, सूर्यनारायण. रूपनी. १.५०  
—की बारात रानी, एस पी हि प्रचा पु. १२५  
—की मर. प्रेमकृष्ण पं. १२५  
—के पेत. उपेंद्रनाथ 'सदा'. नीलाम ४००  
—नका श्रीमानी, जीन्बाला. नवगुण प्र. कु १००  
—ने छागे अरमद अज्ञान, सदा राजकमल (पा)  
१.००  
—ने छागे अरमद अज्ञान राजपाल. २५०  
—ने छागे. नशा. गुनगन. नवगुण प्र ३५०; — — स्तार  
(पा) १.००
- मिहामन बलवीरसिंह 'रग' आत्माराम १५०  
मिहामन व्यथितहृदय कौशावी १२५  
मिहामन व्यथितहृदय कौशावी १२५  
मिहामन व्यथितहृदय कौशावी १२५

- सिद्ध मृत्युजय योग. पाठक, केदारनाथ. नंद व्र. १.००  
सिद्धराज. गुप्त, मैथिलीशरण सा सदन, चि. १२५  
—समीक्षा शर्मा, ब्रजभूषण. इ. प्रे. १.००  
सिद्ध साहित्य. धर्मवीर भारती कि महल १०.००  
सिद्धात और अध्ययन गुलाबराय आत्माराम. ६५०  
—कौमुदी. ४ भा मोतीलाल. २०००  
—कौमुदी वसु, एस सी मोतीलाल ७३.२५  
—कौमुदी (कारक) विभक्ति प्रकरण श्रीधरानंद. मोतीलाल.  
२.५०  
—कौमुदी प्रयोग सूची मोतीलाल भा १. १००; भा २  
१.५०  
—शिरोमणि. जोशी, केदारदत्त. काशी हिंदू ५००  
—समर. उपाध्याय, नर्मदेश्वर. इ प्रे ४००
- सिद्धातसारादि जिनेद्राचार्य भा. ज्ञानपीठ १५०  
सिद्धात-स्वातंत्र्य गोविंददास, सेठ एस चाद २००  
सिद्धातालोचन. सत, धर्मचंद्र... औरिएटल. ४.५०  
सिद्धार्थ चतुर्वेदी, सीताराम स २. अ भा. विक्रम २.००  
सिद्धार्थ शर्मा, अनूप हि प्र. र ४००  
सिद्धार्थ हेम, हरमन. आत्माराम. ३००; — — प्रभात प्र.  
२.००
- बुद्ध करुणाकर, बनारसीदास एस. चाद. २००  
सिद्धिपथ. शर्मा, जगदीशशरण. राजकमल. ४००  
सिद्धिचिनिश्चय टीका भट्ट, अकलक.. २ भा भा. ज्ञानपीठ  
३०००
- सिने सगीत. गर्ग, लक्ष्मीनारायण. भा. १. मगीत ४००  
सिपाही. शर्मा, जगदीश देहाती १२५  
—काका. सुरेद्रपाल. नीलाम.  
—की वीवी. वरेरकर, मामा. सन्ता. २५०  
सियारपाड़े. रामवृक्ष वेनीपुरी. पु. भ १.००  
सियारामशरण गुप्त. नगंद्र. नैयनल. ५.५०  
—गुप्त और उन्मुक्त. जैन, फूलचंद्र 'सांग'. कि. घर, ग्वा  
४.५०
- सिरम के गुण तथा उपयोग दीक्षित, रामननेही.  
देहाती ११२
- निराजुहोला. चतुर्भुज न. ३. नाथना म १.५०  
निराजुहोला वर्मा, नवदानंद. राष्ट्रीय प्र मंडल एवं राष्ट्रीय  
ना न २००
- निरौही राज्य का इतिहास महलोत्त, जगदीशचंद्र हि. ना  
म., जो. ३.००
- निलार्ड-स्टार्ट चौधरी ३.५०  
—स्टार्ट गार्ड गुप्ता, मू. देहाती. १.५०  
—, स्टार्ट शिक्षा ३ भा. नवगुण ०.५० (प्र.)  
—स्टार्ट शिक्षा मुभाषिनीदेवी कल्याणदास. २.००  
—प्रवेश प्रयाग. ०.६०  
—, निलार्ड स्टार्ट. टाकूर, प्रेमचंद्राणी. प्रेमचंद्राणी  
३.००  
—महान रिपेचिंग. रामप्रसाद 'श्री'. देहाती २५०  
—दिग्गज प्रयाग. १.५०

निर्वाह शिक्षा गुप्त, मिथिलेशकुमारी भाग्योदय २५०  
 निविलनाथमानी की व्यापकता लोहिया, राममनोहर  
 नवहिंद ०२५  
 — निविलनाथ और प्रमल लोहिया, राममनोहर नवहिंद  
 ०५२  
 निविलनाथ तमन्ना, रामच्यान सिंह 'रीढ़' कन्हैयालाल  
 ३००, — चिनगारी ३००  
 — गन वर्मा, रमेश चिनगारी ३५०  
 निविलनाथ नाज नदा, गुलजन सहगल ६००  
 निविलनाथ गोविंदसिंह कन्हैयालाल २५०  
 नीलचौ के भीतर कुमारप्पा, जो काँ अ भा सर्व ०५०  
 नील की कहानिया आनंदकुमार आत्मराम १५०  
 नीलकण्ठ विराज नेशनल १५०  
 नीलियों पर धूप में नहाय, रघुवीर भा ज्ञानपीठ ४००  
 नीलचौपण त्रिपाठी, मरयूप्रसाद 'मधुकर' भारतेदु सा समि  
 २००  
 नीला राय, द्विजेन्द्रलाल हिं प्र २ १५०  
 — के आम् व्यास, कृष्णानन्द 'वेआस' वेआस ३००  
 — देवी मुनोपाध्याय, कार्तिकेयचरण हिं पु ए ०७५  
 — वनवाम न्यादरसिंह 'विचैन' देहाती ०७५  
 नीलाग्रम नट्टोपाध्याय, बकिमचंद्र पुष्पी ०७५, — —  
 प्रचा पा १००, — — श्यामलाल २५०, — —  
 नन्दे २५०, — — हिं पु ए १५०, — —  
 हिं प्रचा पु १५०  
 — नगह. नीनाराम इ प्रे २५०  
 नीला-नादा रास्ता रागेय राघव कि महल ६५०  
 नीली चटान मुनी, कन्हैयालाल मारिकलाल राजकमल  
 ५००  
 नीले सादे चित्र नीहान, मुभद्राकुमारी हस २५०  
 — नादे राग्ने घवन, देवीदयाल 'विकल' हिं प्रचा पु  
 ३००  
 नील और मोती सागरमल, मुनिश्री, सपा अ भा ३५०  
 नीली और सात रामधारी सिंह 'दिनकर' उदयाचल २५०  
 नीमान शत्रु, रवीन्द्रनाथ महगल २५०  
 नीमान नन्ददेव शान्तिप्रिय गय भ  
 — के सादन वर्मा, नदमीनाथ भृगु-वधु ३५०  
 नीमा रघुनन्दन राजगल ३००  
 नीमान्द्री पीला वर्मान कि महल १५०  
 नीमा और उद्यान गुप्त विद्याचलप्रसाद गय भ २५०  
 — के पाँ मित्र जगदीशचंद्र त्रिवेणी १७५  
 नीमान्द्री निवर्तन 'दिव' आदर्श पु भ ३००  
 नीमान की शान्ति के विचारन मदनलाल देहाती ६००  
 नीमान्द्री त्रिवेणी ०६०  
 नीली नामत वर्मा निवर्तन पीपुन १५०  
 नीमान की शान्ति के विचारन वर्मान्द्री हिं प्रचा पु. ३५०  
 — नीली नामत वर्मा नन्दन नन्दवान ३००  
 — नीली नामत वर्मा नन्दन देहाती १०५  
 — नीली नामत वर्मा नन्दन देहाती १०५  
 — नीली नामत वर्मा नन्दन देहाती १०५

सुंदर कहानिया श्रीमाताजी श्रीअरविंद १५०  
 — जीवन पालीवाल, हरिदत्त 'निर्भय' शारदा साधना ०७५  
 — दर्शन दीक्षित, त्रिलोकीनाथ कि महल ५००  
 सुंदरपुर की पाठशाला का पहला घटा दुवे, जुगतराम अ  
 भा सर्व ०७५  
 — वन की चिट्ठी गुप्त, योगेन्द्रनाथ इ प्रे १५०  
 — रस लक्ष्मीनारायणलाल स २ भा ज्ञानपीठ. १५०  
 — लोक कथाए प्र विभाग ०७५  
 — विलास सुंदरदास, स्वामी श्यामलाल २५०  
 — शरीर थानी, योगराज अर्चना प्र (पा) १००  
 सुंदरसार (सुंदरदास) शर्मा, हरिनारायण, सपा ना प्र सभा  
 ३००  
 सुंदर स्वास्थ्य शर्मा, ए एम सर्वोदय ०३७  
 — हारमोनियम पुष्पाजलि रामअवतार 'वीर' देहाती ३००  
 सुंदरी की शादी प्रमोद राजा राज्यश्री १५०  
 — सुबोध सतराम इ प्रे २५०  
 सुई शिल्प शिक्षा गुप्ता, उपेन्द्रनाथदास हिं पु ए १५०  
 सुकन्या चरित्र नद व एव नद स ०५०  
 सुकवि-सकीर्तन द्विवेदी, महावीरप्रसाद गगा ३००  
 — समालोचना हरिदत्त शास्त्री श्री भा भारती २५०  
 — समीक्षा त्रिपाठी, जगदीशनारायण कि घर, का ५००  
 — सरोज द्विवेदी, गौरीशंकर 'शंकर' गगा ६००, — —  
 बुदेल भा १ १००, भा २ ३००  
 सुकुल की बीवी त्रिपाठी, सूर्यकांत 'निराला' भा भ १२५  
 सुख के वेटे वेदप्रकाश शास्त्री. स. २ गुप्ता प्र ११५  
 सुख और सफलता के साधन सतराम राजपाल २००,  
 — — हिंद पा १००  
 — की अचूक कुजी जगतनारायण नारायण प्र १००  
 — की कुजी जैन, यशपाल सस्ता ०४०  
 — की खोज खाडेकर, वि स देशमुख ४५०  
 — की साधना रसल, वर्डेड राजकमल ५.२५  
 सुखद-निद्रा कपूर, शामजी रूपकमल १२५  
 सुखदा जैनेन्द्रकुमार पूर्वोदय ४००  
 सुखदा शर्मा, रामसुंदर सुबोध प्र १७५  
 सुखदास प्रेमचंद सरस्व प्रे १००  
 सुख दुख थापा, रत्ना सा सदन, दे १५०  
 — मार्ग महेंद्रलाल इ प्रे ०५०  
 — शांति के उपाय नारदानद, स्वामी स ३. हिं प्रचा म  
 २५०  
 सुखमागर, बडा माइज श्यामलाल. २०००  
 — मध्यम माइज रणछोडदास, अनु श्यामलाल १०००  
 मुग्धी किसान अग्रवाल, हसराम नेशनल भा १ ०७५;  
 भा २ ०६५  
 — कौन (हिंदुस्तान हमारा) शर्मा, जगदीश देहाती. १२५  
 — जीवन चतुरसेन, आचार्य गगा २५०  
 — जीवन मैत्रीदेवी गीता ०५०  
 — जीवन का रहस्य सतराम राजकमल (पा) १००  
 — मानव राजेश्वरप्रसाद गयाप्रसाद १.५०





- सुमन वनन ब्रजनारायण इ प्रे २.७५  
 —ने मी गोविंदमिह आदर्श पु म ४००  
 —होती है शाम होती है सुमन, गगावर वगीय. ३७५  
 —होने तक गगावर, मधुकर पारिजात. ३००  
 —नानाम पाडेय, राजनाथ लोक चेतना ५००  
 सुतोव चरंजारव इविटि, जी जी . पापुलर ३००  
 —प्रथमान्त्र के मिहान्त ड्यूवेट, केवलकृष्ण एस चाद ८००  
 —टुपि शास्त्र चौहान, हरियररा मिह रा वेनीप्रसाद ३००  
 —गगिन गुप्ता, ज्वालाप्रसाद नवयुग प्र कु ६००  
 —ग्रन्थ, विद्वेनी विनिमय एव अंतराष्ट्रीय व्यापार यादव, जी एन एम चाद ८००  
 —ज्ञान महाभारत जर्म्मा, रामसुदर सुबोध प्र २००  
 —चाद रामायण जर्म्मा, रामसुदर सुबोध प्र २००  
 —भारताय अर्थशास्त्र ड्यूवेट, केवलकृष्ण एस चाद ७००  
 —शिक्षा मनोविज्ञान मनेश्वरप्रसाद दि पु म ४००  
 —शिक्षा-शास्त्र प्रश्नोत्तरी विनोद विहारीस्वरूप कलानि ३५०  
 —नन्दन व्याकरण उद्र स १४ हि भवन ३००  
 —नन्दन व्याकरण की उपकर्मिका शर्मा, रामसुदर सुबोध प्र १५०  
 —नन्दन व्याकरण कामुदी जर्म्मा, रामसुदर, सपा. सुबोध प्र ३३०  
 —हिरी निवध शर्मा, बर्मेट सशो स २. वर्मा २५०, ४५०  
 —हिरी व्याकरण जैन, फूचदर 'सारंग' विनोद १००  
 —हिरी व्याकरण रामदव म. १३ हि भवन २००  
 —हिरी व्याकरण राय, मिहासन 'सिद्धेश' सशो स आदर्श पु भ २५०  
 —हिरी व्याकरण जर्म्मा, रामसुदर सुबोध प्र २००  
 सुभद्रा मिहानी, रामचन्द्र . नेदानल ५००  
 —और नानय मिश्र ठाकुरदन कि महल १५०  
 —परिणाम गुप्त, धीरेन्द्रकुमार आत्माराम २५०  
 सुभागी प्रेमचंद हन १००  
 सुभाषचंद्र बोस प्रष्ठाना, नन्धदेवनारायण राष्ट्रीय सा स ०५०  
 सुभाष चिन्तामणी नृसिंहा, जीनमल हि सा म  
 —सुभाषी सुंद, सुवर्णातीलाल नवयुग प्र कु ०७५  
 सुभाषित आनन्दकुमार पन्ना पा १००  
 —सुभाषी सुवर्णदेव जाल्पी मन्ता २५०  
 सुभाषिता (० समस्तितार मे) भा भ. १००  
 सुभाषिता चिह्नकुमार 'दिन' ज्ञानदा म ०५०  
 सुभाषिता चन्द्र गोविन्द एव भा ना सदन ३००,  
 —सुभाषिता चन्द्र (ना) १००  
 सुभाषिता चन्द्र गोविन्द एव भा ना सदन (पा) २.००  
 —सुभाषिता चन्द्र विभाषिता एव चाद ०००  
 —सुभाषिता चन्द्र विभाषिता एव चाद प्र २००

- सुमन सचय सूर्यकांत, सपा हि भवन २.७५  
 —सौरभ (सटीक) लक्ष्मीनारायण शास्त्री श्री भा भारती. २००  
 सुमनाजलि अवस्थी, केदारनाथ हि पु ए २००  
 सुमनाजलि शर्मा, अनूप हि प्र २ २५०  
 सुमना गोपालशरण सिंह, ठाकुर इ प्रे २००  
 सुमना राममूर्ति 'अचल' एम चाद २५०  
 सुमित्रानन्दन पत गुर्द, जचीरानी अत्माराम ६५०  
 —पत नगेद्र स ६ सा रत्न भ ३५०  
 —पत भटनागर, रामरतन कि महल ३५०  
 —पत भाटी, देशराजसिंह अशोक प्र ३००  
 —पत विश्वभर 'मानव' कि महल ६००  
 —पत (प्रश्नोत्तर) शर्मा, राजनाथ विनोद २५०  
 —पत हरिवशराय 'वचन' सपा राजपाल २००  
 —पत और आधुनिक कवि वाली, तारकनाथ विनोद. ४००  
 —पत और 'उत्तरा'. वाली, तारकनाथ विनोद ३००  
 —पत और उनका आधुनिक कवि उर्पति, कुदनलाल प्रभात प्र ४००  
 —पत और 'रश्मिबध' शर्मा, देवेद्र विनोद ४७५  
 —पत कला, काव्य और दर्शन गोपालदास 'नीरज' आत्माराम ३००  
 —पत (सपा वचन) मिश्र, दुर्गाशंकर, टीका हि सा भ ३००  
 सुयेनचाग का भारत भ्रमण वर्मा, जगमोहन हि पु ए १५०  
 सुरक्षा दि लायन्नेरी ०६२  
 सुरदाव के पर मेहरोत्रा, शांति इ प्रे ३५०  
 सुर भारती के प्रतिभा पुत्र मिश्र, नरेशचंद्र रा वेनीमाधव २००  
 सुरीली वामुरी आरजू राम-कला ३००  
 सुख और स्वाह स्तावाल रणजीत १०००  
 सुलगती आग राजेश्वरप्रसाद सिंह नीलाभ ४००  
 —परछाड्या रमेश 'भारती' सन्मार्ग ४५०  
 सुलगते हृदय शर्मा, नरेद्र पैरामाऊट २५०  
 सुलभ-चाद जोशी, बालमुकद तुलसी ०७५  
 —देहाती नुस्वे शर्मा, सुरेशप्रसाद मेडिकल १२५  
 —नागरिक शास्त्र और भारतीय सविधान मेहता, इट्टु .. गयाप्रसाद २००  
 —विज्ञान भा, जगवर रा वेनीप्रसाद ५००  
 सुलेमान का राजाना कुलभूपण वीरा १५०  
 सुवर्णदाम गाधी, मोहनदास करमचंद नवजीवन ०४०  
 सुवर्ण-रेखा यत्री, दुर्गाप्रसाद, लहरी ३००  
 सुव्यवस्थित गृह मुखिया, एम पी... शिवलाल २५०  
 सुशीला कामन्दिच वर्क सुजीवादेवी देहाती ३००  
 सुष्मा नयीदाकारी सुष्मा रानी देहाती १२५  
 सुश्रुत वागीरमथान धारोकर, भास्कर गोविंद सशो स २ श्री भा भारती १०००  
 —सहिता-शरीर स्वान शर्मा, जे. डी मोतीलाल. ५.००



- सूरदर्शन कृष्णलाल 'हम'. रा वेनीमाधव. ५.००  
 सूरदाम अग्रवाल, रामनारायण. विनोद २००  
 सूरदास गुप्त, दामोदरदास हि मा. स २५०  
 सूरदाम. वडुधवाल, पीतावर अवध १००  
 सूरदास भटनागर, रामरतन कि महल. २५०  
 सूरदास राधिकारमणप्रसाद सिंह, राजा अगोक प्रे २७५  
 — (प्रश्नोत्तर) लक्ष्मीकांत 'मुक्त' ओरिएण्टल २२५  
 सूरदास वर्मा नवयुग पु भ २५०  
 सूरदाम वर्मा, ब्रजेश्वर हि सा. परिपद ८००  
 सूरदाम शर्मा, मुकुन्ददेव नद ब्र एव नद स ०७५  
 सूरदास (प्रश्नोत्तर) शर्मा, वासुदेव विनोद २५०  
 सूरदाम शुक्ल, रामचंद्र नद ब्र ३.७५  
 — ग्रा लोक मल्लिनाथ नाँवली १२५  
 — आलोचनात्मक अध्ययन कृष्णचंद्र शास्त्री सूर्य प्र १२०  
 — एक अध्ययन (प्रश्नोत्तर) भारतभूषण 'सरोज' रीगल २५०  
 — और उनका अमरगीत गुप्त, दामोदरदास, सपा हि सा. म १२५०  
 — और भगवद्भक्ति शर्मा, मुशीराम सा भवन, इ २५०  
 — की वार्ता हरिराय सा सस्थान १५०  
 — के भजन सूरदास देहाती ०५०  
 — प्रश्नोत्तरी मित्र, दुर्गाशंकर सरस्व पु स २५०  
 — मदनमोहन मीतल, प्रभुदयाल सा सस्थान २००  
 सूर निर्णय. परीस, द्वारकादास स २ सा सस्थान ५००  
 — पचरत्न. भगवानदीन 'दीन', लाला.. स ७ रा वेनीमाधव २५०  
 — पचरत्न टीका (सपूर्ण) योगेद्रनाथ . हि. सा भ ३५०  
 — पदावली चतुर्वेदी, वरसानेलाल सा सगम, म २५०  
 — पदावली शुक्ल, गिरिजादत्त 'गिरीज', सपा हि सा सम्मे ०७५  
 — पदावली सूरदाम प्रभात प्र २५०  
 — परिचय अरोडा, शिवनाथ रामा बुक. १५०  
 सूरपूर्व ब्रजभाषा और उनका साहित्य शिवप्रसाद सिंह परि न २ हि प्रचा पु १२५०  
 सूरप्रभा गुप्त, दीनदयालु, सपा हि सा भ १५०  
 सूरप्रभा (दीनदयाल गुप्त) शर्मा, योगेद्रनाथ हि सा भ ०५०  
 — और सूरदान मिश्र, दुर्गाशंकर मालवीय ३३७  
 सूर-वानरुष्ण-पदावली मीतल, प्रभुदयाल, सपा ना सस्थान १५०  
 — भीमागा गौड़, गनेशदत्त भा प्र मंदिर २५०  
 — भीमागा वर्मा, ब्रजेश्वर ओरिएण्टल ४८५  
 — नुराजप्रती (नमिन) शर्मा, भूदेव गयाप्रसाद २००  
 — रामचरित्नावली गीता ०८०  
 — रामचरित्नावली मीतल, प्रभुदयाल, सपा सा सस्थान १५०  
 — रामायण सूरदाम भारतजीवन. ०५०

- सूर रामायण, विस्तृत भूमिका, मूल पाठ टडन, प्रेमनारायण, सपा हि. सा भ. १.५०  
 — विनय-पत्रका गीता ०८७  
 — विनय पदावली (सूरदास) टडन, प्रेमनारायण. हि सा भ १५०  
 — विनय पदावली मीतल, प्रभुदयाल, सपा सा. सस्थान १५०  
 — शतक सूरदास नद ब्र एव नद स ०५०  
 — सकलन सक्सेना, वीरेन्द्रकुमार नवयुग ग्र कु  
 — सगीत गर्ग, लक्ष्मीनारायण २ भा सगीत १५० (प्र)  
 — सगीत भजनामृत रमअवतार 'वीर' देहाती २५०  
 — सग्रह मिश्र, बलभद्रप्रसाद. हि सा सम्मे ०५०  
 — सग्रह की टीका अग्रवाल, विनोदकुमार विनोद १.७५  
 — सग्रह की टीका द्विवेदी, केदारनाथ रीगल २००  
 — सदभं वाजपेयी, नददुलारे इ प्रे २००  
 — समीक्षा. नरोत्तमदास स्वामी नवयुग ग्र. कु २००  
 — समीक्षा भटनागर, रामरतन मुशीराम ३००  
 — सरोवर. शर्मा, हरवशलाल. वसल २५०  
 सूरसागर जगन्नाथदास 'रत्नाकर', सपा ८ भा ना. प्र सभा ८२५  
 सूरसागर वाजपेयी, नददुलारे, सपा ना प्र सभा २५००  
 सूरसागर सूरदास प्रभात प्र ५००  
 — के सौ रत्न मीतल, प्रभुदयाल, टीका. सा सस्थान २.००  
 — शब्दावली सक्सेना, निर्मला हिंदु एकेडेमी १२००  
 — सार वर्मा, धीरेन्द्र सा. भवन, इ ५५०  
 सूर साधना और साहित्य त्रिलोकीनाथ प्रेमी आदर्श पु भ. २.५०  
 — सारावली मीतल, प्रभुदयाल, सपा सा सस्थान ३५०  
 — सारावली एक अप्रामाणिक रचना टडन, प्रेमनारायण. हि सा भ १२५०  
 — सारावली, विस्तृत भूमिका, मूल पाठ टडन, प्रेमनारायण, सपा हि सा भ ३५०  
 — साहित्य द्विवेदी, हजारीप्रसाद हि ग्र २४०  
 — साहित्य और सिद्धांत शर्मा, यज्ञदत्त आत्माराम ३००  
 — साहित्य की भूमिका भटनागर, रामरतन रा वेनीमाधव  
 — सुपमा वाजपेयी, नददुलारे, सपा ना प्र सभा १५०  
 सूरसाखा की प्रेमकथा परशुराम राजरजना २००  
 सूर्य मन्तवा ०८७  
 — और चंद्रग्रहण अवस्थी, वी डी राजकमल १२५  
 — का परिवार मन्तवा ०८७  
 — का स्वागत दुष्यंतकुमार राजकमल ३५०  
 — किरण चिकित्सा कल्पवृक्ष ५००  
 — किरण चिकित्सा जिज्ञासा १५०  
 — की कहानी कि महल ०७५  
 — की कहानी वैष्णव, यमुनादत्त 'अगोक' रा वेनीप्रसाद नूर्यप्रसाद मुशील जाना हि प्रचा पु ४.०० [१२५  
 नूर्य, चंद्र तारे चतुर्वेदी, जगपति आदर्श पु म १५०

- सूर्य नमस्कार. पत, बालासाहब छात्रहितकारी. २००  
 —पुराण बडा श्यामलाल २५०  
 —लोक हैगर्ड, राइडर गगा. १०.००  
 —सारिणी गोरखप्रसाद ना प्र सभा २५०  
 सूर्योदय का देश कालेलकर, काका नवजीवन. २५०  
 —के देश मे शर्मा, हरिदत्त सहयोग  
 सृजन के पीडित क्षणों मे खरे, पुरुषोत्तम लोक चेतना  
 १५०  
 सृष्टि का इतिहास चतुर्वेदी, जगपति कि. महल ४.००  
 —का इतिहास लेखराम गोविंदराम २००  
 —की कथा सत्यप्रकाश हि सा सम्मे १.५० (अप्रा)  
 सेदुर की डिविया. चौधरी, रामखेलावन हि सा भ. ३००  
 सेक्स का स्वभाव गुप्त, मन्मथनाथ आत्माराम ३००  
 —की समस्याए लक्ष्मीनारायण. हिद पा १००  
 सेगाव का सत अग्रवाल, श्रीमन्नारायण गगा १५०  
 सेठ गोविंददास और 'शशिगुप्त'. राकेश विनोद ३.००  
 —गोविंददास नाट्यकला तथा कृतिया महेंद्र, रामचरण  
 एस चाद ५००  
 —वाकेमल नागर, अमृतलाल कि महल २५०  
 सेतुबंध चतुर्वेदी, बनारसीदास सस्ता २.००  
 सेतुबंध रघुवंश राजकमल ४५०  
 सेनापति कर्ण (पूर्वार्द्ध) मिश्र, लक्ष्मीनारायण कि महल  
 ४.००  
 सेफटी माचिस बनाना कालीचरण देहाती. ०.५०  
 सेब का वृक्ष गाल्सर्वदी गगा २२५  
 सेब के गुण तथा उपयोग दीक्षित, रामसनेही. देहाती ०५०  
 सेमल के फूल. मार्कडेय नया सा. प्र १.५०  
 सेल्फ इगलिश टीचर. रा वेनीमाधव एव रा वेनीप्रसाद.  
 १.५०  
 —उर्दू टीचर रा. वेनीप्रसाद १५०  
 —संस्कृत टीचर रा. वेनीप्रसाद १५०  
 —हिंदी टीचर रा वेनीमाधव १५०  
 —हिंदुस्तानी टीचर रा वेनीमाधव १५०  
 सेवा और त्याग वाजपेयी, गुलावरत्न कल्याणदास ३००  
 —करे सो मेवा पावे जैन, यशपाल सस्ता १.००  
 —कुज. सतराम विश्वेश्वरानंद १.५०  
 —के पुजारी भट्ट, कुष्णादत्त अ. भा सर्व. ०६०  
 सेवाग्राम विद्यार्थी, प्रभुदयाल पु भ ३००  
 —चित्रावली न्यू लिट १२५  
 सेवादल मैनुअल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी  
 सेवा. धर्म उपाध्याय, हरिभाऊ, अनु साधना सदन २.५०  
 सेवापथ गोविंददास, सेठ हि भवन १५०  
 सेवापथ मधुर सा साधना ३००  
 सेवामूर्ति ठक्करबापा जोशी, वावूराव सस्ता. ०४०  
 सेवासदन प्रेमचंद सरस्व. प्रे. ५००, सक्षिप्त ३०० —  
 हस ५.००, — — हि पु ए. ४००  
 —आलोक गर्ग, पदमचंद लक्ष्मी ना १५०  
 —: एक अध्ययन डडन, प्रेमनारायण... हि. सा. भ. १.५०

- सेवासदन विवेचन. बलदेवकृष्ण. रीगल. २००  
 सेवेस्तोपोल का घेरा. टाल्स्टाय प्रभात प्र ३००  
 सैट्टीपयूगल पप्स बसल, रामेश्वरदयाल आत्माराम ३.००  
 सैया मोरा मान रे त्रिवेदी, रश्मिकात सास्कृतिक  
 सैकडरी प्रायोगिक भौतिकी. जैन, के सी लक्ष्मी ना २५०  
 सैक्सो की लडाई अरुण आत्माराम १.२५  
 सैद्धांतिक स्पष्टता की आवश्यकता श्रीमन्नारायण अ. भा.  
 काग्रेस. ०५०  
 सैनिक कानून हिंदी प्रधान, के के किशोर पब्लि. २००  
 सैनिक का प्रेम. शिह येन आधुनिक सा. १५०  
 —गीत मिश्र, गगाधर राष्ट्र प्र म. २००  
 —मानचित्र विज्ञान. वर्मा, एम. पी... भा प्र मंदिर ४५  
 सैन्य विज्ञान वर्मा, एम पी स ३. भा प्र. मंदिर. ३.५०  
 —विज्ञान के सामान्य सिद्धांत सगठन तथा शास्त्रास्त्र यादव  
 आर एस विनोद ४००  
 सैरघी. गुप्त, मैथिलीशरण सा सदन, चि. ०५०  
 सैर सपाटे सत, गोकुलचंद्र औरिएटल ०७५  
 सैलानी मिश्र, रामदास 'विजय' हि प्रचा म. २.५०  
 सोठ बेदी, रामेश आत्माराम. १७५  
 सो क्या जाने पीर पराई मीरा महादेवन. राजकमल. २.७५.  
 (पा.) १००  
 सोच-विचार. जैनेंद्रकुमार पूर्वोदय ५.००  
 सोजे वतन. प्रेमचंद हस १००  
 सोत्तरा सिद्धांत कौमुदी प्रश्नावली २ भा मोतीलाल.  
 १.५० (प्र.)  
 सोन चिरैया सक्सेना, गिरिजा सा. भवन, इ. ३००  
 सोनजुही और बौने राविन शा 'पुष्प' आत्माराम १५०  
 सोनपरी जहूरवख्श. राजहस १.२५  
 सोना वर्मा, वृदावनलाल मयूर. ३००  
 —और खून. चतुरसेन, आचार्य. कि महल, ७.५०; —  
 राजपाल भा. १५.००; भा २ ७००; —  
 राजहस भा. १. उत्तरार्द्ध ६.००; भा २ ८.००  
 —और चादी पाठक, श्यामवदन 'श्याम' राष्ट्रीय प्र मडल  
 एव राष्ट्रीय सा स १.२५  
 —और यमुना उर्मिलाकुमारी हि सा स. ०७५  
 सोनिया और सात बौने गर्ग, किशोर स २ रानी १५०  
 सोने का कगन कल्याणदास १००  
 —का कगन. भा, रमेशचंद्र वि ग्र कु १००  
 —का कगन श्रीकृष्ण सस्ता ०४०  
 —का घटा शर्मा, यादवेद्र 'चंद्र' नवयुग अ कु.  
 —का भरना इ. प्रे १००  
 —का नीवू किरण. राजकमल १२५  
 —का पेड इ प्रे. ०७५  
 —का बकरा. गुप्त, मन्मथनाथ राजहस १५०  
 —का महल, वर्मा, निहालचंद. हि प्रचा पु ८००  
 —का हिरन. धवन, देवीप्रसाद 'विकल' नवीनतम  
 —की कला जिज्ञासा १.००  
 —की कला. हीरालाल. सं. २. निरोगी. १.००

- सोने की कहानिया शर्मा, विश्वमित्र. राजहंस १.५०  
 —की गान महेन्द्र रामचरण ज्ञानमडल एव भा प्र  
 मजा १ २५  
 —की गान मित्र, आनंदीप्रसाद इ प्रे १ ५०  
 —की चाली मधी, कमला हि सा स ० ७५  
 —की चित्रिया मत, गोकुलचंद्र ओरिएटल ० ७५  
 —की टाल राट्ट माकृत्यायन कि महल ५ ००  
 —की मछनिया अशोक कला-नि १ ७५  
 —की राग गंधर्वीशरण 'मित्र' भा सा प्र ४ ००  
 —की नटूकची कृष्णचंद्र वरई प्र १ २५  
 —के उडे बालटप्पा नेशनल ० ७५  
 —के दात मंगारचंद्र राजपाल २ ५०  
 —के मुगध भोपटकर, प्रभदाम हि सा भ ४ ००  
 मोप मेकर्म गाट्ट गहगरा, सुरेशचंद्र देहाती ६ ००  
 मोपान हन्विजराय 'वच्चन' भा भ ५ ००  
 मोम देवता की घाटी शर्मा, कृष्णचंद्र 'भिकखु' राजपाल  
 ४ ००  
 मोमनाथ चतुरसेन, आचार्य चतुरसेन एव चौधरी ८ ००  
 मोमनाथ शर्मा, रामगोपाल 'दिनेश' श्रीराम मेहरा  
 २ ००  
 मोमनाथ श्रीनारायण, ठाकुर गंगा ३.००  
 —महालय चतुरसेन, आचार्य श्री भा भारती ६ ००  
 मोमा नन्द्याम विशालकार राजपाल ३ ५०  
 मोयाडीन और विमारी गमेश्वर अशात देहाती ० २५  
 मोया ह्या आदमी अवस्थी, राजेद्र हिंद पा १ ००  
 —गुआ गहर चतुरसेन, आचार्य राजपाल ४ ००  
 मोरठ तेरा बहता पानी मेघाणी, भवेरचंद्र राष्ट्र प्रचा समि.  
 ३.००  
 मोतह अगमन प्यारेलाल 'आवारा' चौधरी ३ ५०  
 —नाग गोविंदसिंह कन्हैयालाल ३ ००  
 मोरियत अर्थव्यवस्था वनर्जी, जयतानुज विद्यार्थी ० २५  
 —ग्राउटे येजोव, अ पीपुल्स १ ३७  
 —छात्रवान न्हून पचेनिकोवा पीपुल्स ० ६६  
 —जन शिक्षा का स्वप्न चौहान, नरेन्द्रसिंह विनोद  
 ४ ००  
 —भूमि गहन माकृत्यायन २ भा कि महल ५ ०० (प्र)  
 —मय एगिमा गहन माकृत्यायन कि महल ५ ००  
 (मम.)  
 —मन नि गारपी ० ६०  
 —मन ता गारित विमान जैन, दगमन नमप्रसाद ८ ००  
 —मन ता गारित विमान टउन दी नी गर्ग ब्र ६ ५०  
 —मन ता गारित विमान भागन का आर्थिक विकास चतुर्वेदी,  
 गणेश ५ ५०  
 —मन ता गारित विमान बोम १ ००  
 —मन ता गारित विमान पीपुल्स १ १६  
 —मन ता गारित विमान मिमन्ती, योगीश पीपुल्स ० १६  
 —मन ता गारित विमान पीपुल्स १ ५६  
 —मन ता गारित विमान पीपुल्स ० २५

## सोवियत संघ का आर्थिक विकास (१९१७-१९४७).

- कुलश्रेष्ठ, एन एल लक्ष्मी ना  
 —सघ का आर्थिक विकास देराश्री . गयाप्रसाद ३ ००  
 —सघ का आर्थिक विकास मामोरिया, चतुर्भुज . सशो.  
 स २ सा भवन, आ ४ ००  
 —सघ का शासन महेन्द्रप्रकाश कि महल ३ ७५  
 —सघ का शासन-विधान पीपुल्स ०.७५  
 —सघ की खनिज सपदा अत्रोपोव, प पीपुल्स ०.३७  
 —सघ की लोक-कथाए वारान्निकोव, प अ नेशनल २.०  
 —सघ की शासन प्रणाली विमलेश बुकलेड ३ ७५  
 —सघ दिल की आवाज वर्मसेर, आर्द्रे पीपुल्स ० २५  
 —सघ दुनिया का छठा भाग मिखाइलोव, न न पीपुल्स  
 ० १२  
 —सघ मे जन-न्यायालय शेनिन, ल पीपुल्स ० ३७  
 —सघ मे मकान-निर्माण तूतचेको, से पीपुल्स ० ७५  
 —सघ मे श्रम-सुरक्षा देमेटयेवा, अ पीपुल्स ० ०६  
 —सघ मे स्त्रियों का स्थान विल्शाई, व पीपुल्स ० २५  
 —सघ मे स्वास्थ्य सुरक्षा विनोयादोव, न पीपुल्स ० ३१  
 —समाजवादी गणराज्य सघ का संविधान साहनी, पी आर  
 लक्ष्मी ना. ४ ५०  
 —सामूहिक फार्म का इतिहास आदर्श पु. म २ ००  
 सोहनी. ठाकुर, रवीन्द्रनाथ रूपसी २ ००  
 सोहम् चमत्कार शर्मा, शिवदत्त कल्पवृक्ष ० ५०  
 सोहराव बहुगुणा, सुरेन्द्रदत्त कृष्णा ब्र. २ ५०  
 —रुस्तम सुदर्शन इ प्रे १ ००  
 सोहाग गीत विद्यावती 'कोकिल' भा भ २ ५०  
 सोहागदान उमाशकर सिंह पुष्पी ० ७५, — सुरेद्र २ ००  
 सोहाग-बिंदी द्विवेदी, गणेशप्रसाद इ प्रे १ २५  
 सोहिनी मित्रा, उपादेवी. सरस्व प्रे ३ ००  
 सौंदरनद अश्वघोष सस्ता ० ४०  
 सौंदर्य और शृंगार सामग्रिया. वर्मा, चदूलाल 'चद्र' चद्र कार्या  
 १ ५०  
 —का जादू बुकेशियो, जियोवानी पुष्पी ० ७५, —  
 हरेद्र २ ००  
 —का सौदा श्रीवास्तव, रुद्रप्रसाद 'प्रवीण' पुष्पी १ ५०,  
 — सुरेद्र ३ ५०  
 —की रेखाए वाइल्ड, आंस्कर आत्माराम ५ ००  
 —तत्त्व दासगुप्त, एस एन भा भ ७ ००  
 —तत्त्व और काव्य-मिद्धात वारलिंगे, सुरेद्र नेशनल ६ ५०  
 —प्रतियोगिता शर्मा, गोपाल लोक चेतना १ ५०  
 —प्रमाधनो के फारमूले कालीचरण देहाती ० ५०  
 —शास्त्र शर्मा, हरद्वारीलाल सा भवन, इ ३ ००  
 —शास्त्र की पाञ्चात्य परंपरा राजेद्रप्रताप सिंह नया सा  
 प्र ६ ००  
 मौफ के गुण तथा उपयोग दीक्षित, राममनेही देहाती १ २५  
 मौ अज्ञान एक मुजान भट्ट, बालकृष्ण गंगा १ ५०  
 मौ आदर्श निवध नक्सेना, मुनीश. राजकमल ५ ००  
 मौगात ठाकुर, रवीन्द्रनाथ. कन्हैयालाल. २ ५०

- सौ गीत विद्यापति के नागार्जुन रामलोचन (पा) १००  
 सौदरानन्द-महाकाव्य रामदीन गंगा १.५०  
 सौदा ओमप्रकाश कन्हैयालाल २५०  
 सौदागर की बेटी गुप्त, राजेश देहाती १२५  
 सौदा जीवनी और सकलन राजपाल १५०  
 सौ वर्ष क्यों और कैसे जीये शकरानन्द, स्वामी भाग्योदय  
 २५०  
 सौभाग्यवती ठाकुर, ज्योतिर्मयी स. ४ सा सेवक ४००  
 सौ महत्वपूर्ण औषधिया लहरी. ०७५  
 सौराष्ट्र की लोक-कथाएँ वर्मा, प्रवासीलाल आत्माराम  
 १५०  
 सौवर्ण पत्त, सुमित्रानन्दन भा ज्ञानपीठ ३.५०  
 सौ शायर दो हजार शेर प्रगतिशील ४००  
 सौ शिखर लहरी ०७५  
 सौसन. गोविन्दसिंह पुष्पी २५०  
 सौ साल जिओ नेवटिया, राधाकृष्ण सस्ता १५०  
 स्कन्दगुप्त प्रसाद, जयशंकर भा भ २.५०  
 स्कन्दगुप्त शर्मा, लगन्नाथप्रसाद नद ब्र. ०६४  
 — एक अध्ययन टडन, प्रेमनारायण स ६ हि. सा भ  
 २५०  
 —समीक्षा शर्मा, कृष्णादेव अगोक प्र २५०  
 स्काउट खेल, नाद और गाने मिश्र, रामाशंकर पकज १५०  
 —गाइड के गाने और निनाद कृष्णानन्दन प्रसाद, सग्रा स ५  
 तरुण. १२५  
 —गाने नाद व गाठे सर्वोदय. १००  
 —ड्रिल वाजपेयी, श्रीराम न्यू लिट १५०  
 —बच्चों की कहानिया सतराम हि भवन १००  
 —मास्टरी और द्रुप संचालन वर्मा, जानकीशरण स ६  
 तरुण ११२  
 —शिक्षक, ड्रिल तथा द्रुम सगठन जौहरी राजकुमारी न्य  
 लिट २००  
 —शिक्षा सर्वोदय १००  
 —शिक्षा मिश्र, रामाशंकर पकज २००  
 स्काउटिंग गाइडिंग की उत्पत्ति और प्रसार कृष्णानन्दन प्रसाद  
 स ३ तरुण ०७५  
 —सग्रह पारीक, जे एल नवयुग ग्र कु ०६२  
 स्कूटर और आटो साइकिल गाइड कृष्णानन्द देहाती ४५०  
 स्कूल प्रवध कौच्छड, सतवत सा सगम, लु ४४०  
 —प्रवध सहगल, मनमोहन .. दि पु स ८००  
 —से पूर्व बच्चों का लालन-पालन क्रान्तोर्गोस्कार्मा, एल  
 राजकमल ३००  
 —स्वास्थ्य-विज्ञान चौबे, सरयूप्रसाद लक्ष्मी ना ५.००  
 —स्वास्थ्य विज्ञान (प्रश्नोत्तर) द्विवेदी, चन्द्रदत्त पु भ.,  
 आ ३००  
 —स्वास्थ्य विज्ञान रावत. पु भ, आ ४००  
 स्कूली लड़के नोसोव, न पीपुल्स ११६  
 स्टार्च डैक्स्ट्रीन स्टार्च प्रोडक्स कालीचरण देहाती ०५०  
 स्टालिन रामइकबाल सिंह 'राकेश'. ग्रथमाला २.००

- स्टीफेन ज्वीग की महान कहानिया ज्वीग, स्टीफेन रणजीत  
 ४५०  
 स्टीम इंजीनियर्स गाइड कपूर, एच सी. देहाती १०००  
 —व्वायलर्स और इंजन. कपूर, एच सी देहाती ८२५  
 स्टुअर्ट काल का सर्वैधानिक इतिहास सुरेश्वरप्रसाद कि  
 महल २५०  
 स्टुडेंट मॉडल डिक्शनरी सुबोध ग्र अंग्रेजी-हिंदी, हिंदी-अंग्रेजी  
 ७५० (प्र)  
 —मॉडल पॉकेट डिक्शनरी सुबोध ग्र अंग्रेजी-हिंदी ३५०,  
 हिंदी-अंग्रेजी ३५०  
 —प्रैक्टिकल डिक्शनरी रा वेनीप्रसाद संस्कृत-हिंदी-अंग्रेजी  
 २५०, अंग्रेजी-हिंदी-संस्कृत १५०  
 स्टूडेंट्स इंग्लिश-संस्कृत डिक्शनरी आप्टे, वी एस. मोतीलाल  
 ४००  
 —प्रैक्टिकल डिक्शनरी (अंग्रेजी-हिंदी) रा वेनीप्रसाद ८००  
 —प्रैक्टिकल डिक्शनरी (हिंदी-अंग्रेजी) रा वेनीमाधव  
 —संस्कृत-इंग्लिश डिक्शनरी आप्टे, वी एस मोतीलाल  
 ६००  
 —हैन्डी डिक्शनरी (इंग्लिश-हिंदी) रा वेनीप्रसाद १७५  
 —होम डिक्शनरी. रा वेनीप्रसाद हिंदी-इंग्लिश २५०,  
 इंग्लिश-हिंदी २५०  
 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया गुप्त, गिरिराजप्रसाद रामप्रसाद  
 ०३१  
 स्टेन्सिल काटना और छपाई कालीचरण देहाती ०५०  
 स्टैंडर्ड हिंदी-इंग्लिश टीचर प्रभात प्र ६००  
 स्तनपोषी जतु चतुर्वेदी, जगपति कि महल २००  
 स्तालिन साकृत्यायन राहुल पोपुल्स ३००  
 स्तोत्ररत्नावली गीता ०५०  
 स्त्रिया और उनकी समस्याये गाधी, मो क नवजीवन १०  
 —और ग्रामोद्योग कुमारप्पा, जो काँ अ भा सर्व. ०२५  
 —यह करे गाधी, मोहनदास करमचंद सस्ता ०३०  
 स्त्रियों का ओज चतुरसेन, आचार्य चौधरी ३००  
 —का स्वास्थ्य और रोग गुप्त, अत्रिदेव गोविंदराम  
 ३००  
 —का स्वास्थ्य और शैर्दर्य अवध ०७५  
 —की नागरिक शिक्षा. भा प्रौढ २००  
 —की समस्याये. गाधी, मोहनदास करमचंद साधना-सदन  
 १५०  
 —की स्थिति चद्रावती लखनपाल विजयकृष्ण ४००  
 —के खेल और व्यायाम मातृ-भाषा ३.००  
 —के रोग और उनकी चिकित्सा चतुरसेन, आचार्य चौधरी  
 १७५  
 —के रोग और चिकित्सा युट्टवीरसिंह. गंगा. ३७५  
 —के लिये कर्तव्य-शिक्षा गीता ०३७  
 —के व्यायाम शर्मा, गणेशदत्त 'इंद्र' गंगा ३५०  
 स्त्री और पुरुष टाल्स्टाय सस्ता १००  
 —का हृदय भट्ट, उदयशंकर हि सा. सम्मे १.५०  
 —पुरुष. लक्ष्मीनारायण हिंद पा १.००

- ग्रंथी पुस्तक मय्यादा मजहबाला, किशोरलाल नवजीवन १७५  
 —गुप्त नहजीवन घर्माधिकारी, दादा अ भा सर्व  
 —भवनमाना सत्यकाम शान्त्री देहाती ३००  
 —रोग और उनकी चिकित्सा ठाकुर, ज्योतिर्मयी हि प्रचा  
 म ०७५  
 —रोग चिकित्सा ऋषिकुमार देहाती १२५  
 —रोग चिकित्सा धीर, केवल हि प्रचा पु (पा) १००  
 —रोग चिकित्सा शर्मा, सुरेशप्रसाद स ३. मेडिकल ४५०  
 —रोगों की चिकित्सा मुखर्जी, कुलरजन आरोग्य ३५०  
 —विनोदिनी ठाकुर, ज्योतिर्मयी स २ विनोद ६००  
 —शक्ति भावे, विनोवा अ भा सर्व १००  
 —शिक्षा नेन, माधना देहाती २५०  
 —नमाज ठाकुर, ज्योतिर्मयी हि प्रचा पु २.५०  
 —गुबोधिनी सन्तूलाल देहाती ७००  
 —गौरव्य और स्वास्थ्य वर्मा, बुद्धिसागर गगा ६००  
 —गान्धिका परिपद् शब्दावली वर्मा, रामचन्द्र, सपा ना प्र  
 भा ०५०  
 —ग्यायी प्रेम स्टोप्न, मेरी राजकमल ३००  
 —भाव और सामाजिक साहित्य जानकीवल्लभ शास्त्री  
 अशोक प्रे  
 —नमाज व्यवस्था कुमारप्पा, जो काँ अ भा सर्व २५०  
 —रिपतप्रज्ञ-दर्शन भावे, विनोवा अ भा सर्व १००, —  
 मस्ता १२५  
 —नदण भावे, शिवाजी अ भा सर्व ०२५  
 —न्यति विज्ञान खन्ना, एम एल एम चाद २५०  
 —विज्ञान मिश्रा, एस के रा वेनीमाधव ४७५  
 —विज्ञान रजनिप्रसाद बुकलेड ५००  
 —विज्ञान वर्मा, आर एस अपर ४५०  
 —विज्ञान मरन बुकलेड ४५०, कुजी ४००  
 —विज्ञान मुशीलकुमार एस चाद ३५०  
 —विज्ञान का नफल अध्ययन अरोडा, दीवानचद स ४  
 वेदाग्नाय २.५०  
 —विज्ञान के हल वर्मा, आर एम अपर ४००  
 —विज्ञानक अकार्षनिक रमायन शान्त्र नाह मोतीलाल ५००  
 —गार्भिक रमायन साहू, जगदीश मोतीलाल ५.००  
 —प्रायोगिक रमायन राय, आर वी बुकलेड ५००  
 —प्रायोगिक रमायन शास्त्र नाह मोतीलाल ५००  
 —रोगोपेक्षा ताल होटल नेत्रेयोव, मत्वेई पीपुलस ०५०  
 —रोगी स्वप्न मनोपक्षाना प्रेमी चैनन्य. २५०  
 —राष्ट्र गुरुदत्त भा ना नदन ०५०, (पा) १००  
 —राष्ट्रवेदा सत्यरवाल, कचननता राजपाल ३५०  
 —रान हरिदासर कि महल १५०  
 —रोग शर्मा, योगप्रकाश दि पु न ४००  
 —रोग रत्नी, श्री एम नाद ३००  
 —रामन ज्योतिर्मयी प्रचाला १००  
 —, रा १ श्री मो राजर्षी, भगवतीप्रसाद प्रभात प्र  
 ५००  
 —रा मय्यो गोविन्दान, सेठ एस चाद १७५

- स्नेह लता मिश्र, राघवेंद्र. नेशनल ४००  
 —सुरभि चन्द्रदेव सिंह भा पु म २००  
 —सौरभ श्रीकृष्ण सरल कि घर, ग्वा २००  
 —स्पर्द्धा तथा अन्य एकाकी गोविन्ददास, सेठ एस चाद २५०  
 —स्पर्द्धा कपूर, मस्तराम 'उमिल'. हि अ र १००  
 —स्विनोजा नीति स्विनोजा, वैष्क हि समि ६५०  
 —स्पेन की लोक-कथाए श्रीकृष्ण. आत्माराम १५०  
 —स्मरण-यात्रा कालेलकर, काका नवजीवन ३५०  
 —शक्ति फिल्ड, हावर्ड एल राजकमल १२५  
 —स्मरणजलि कालेलकर, काका, सपा सस्ता १५०  
 —स्मरणजलि वजाज, जमनालाल अ भा सर्व १५०  
 —स्मारिका अ भा हि २००  
 —स्माल स्केल इडस्ट्रीज कालीचरण देहाती १२००  
 —स्मृति पाडेय, रामाचार्य राष्ट्र प्र म ३०० (अप्रा)  
 —स्मृति हरीश करण गिरिधर १००, — — दिशा १५०  
 —कण गोविन्ददास, सेठ एस चाद ४००  
 —की रेखाए वर्मा, महादेवी भा भ १५०  
 —की रेखाए सहायक प्रताप स २ हि सा भ १२५  
 —के हस्ताक्षर देवदत्त शास्त्री चौखवा ५००  
 —चित्रण विश्वनारायण स ६ भा भा प्र ०५०  
 —चित्रण योगेन्द्रकुमार 'लल्ला' केदारनाथ १००  
 —चित्रण श्रीवास्तव, वेनीप्रसाद आगरा बुक १००  
 —चित्रण कला का प्रवेश रामावतार चैतन स. २ हि  
 भवन ०.७५  
 —चित्रण के सिद्धांत शर्मा, डी आर गुप्ता ब्रा १००  
 —मे पालीवाल, हरिदत्त 'निर्भय' शारदा साधना १५०  
 —विज्ञान श्रीचद, मुनिश्री 'कमल' जैन श्वेतावर ०५०  
 —शेष गाडगिल, नरहरविष्णु आत्माराम ३००  
 —स्याद्वादसिद्धि सूरि, वादीभसिंह भा ज्ञानपीठ १५०  
 —स्याम सदेसी चतुर्वेदी, अमृतलाल सा भवन, इ ३००  
 —स्वतंत्र-चिंतन इगर्सोल, कर्नेल हि अ र १५०  
 —स्वतंत्रता और शिक्षा भारद्वाज, श्याम अमिताभ १५०  
 —और साहित्य पाडेय, रत्नाकर उदय १०००  
 —का जन्म हृदयनाथ मोटा गगा २५०  
 —की और उपाध्याय, हरिभाऊ सस्ता ४५०  
 —के आलोक मे मिश्र, अनिरुद्ध ग्रयालय २००  
 —के वाद का सर्वश्रेष्ठ उर्दू साहित्य कृष्णचदर . प्रगतिशील  
 १०००  
 —के वाद की सर्वश्रेष्ठ उर्दू कहानिया कृष्णचदर, सपा  
 प्रगतिशील ४००  
 —के वाद की सर्वश्रेष्ठ उर्दू शायरी फैज अहमद 'फैज'.  
 प्रगतिशील ४००  
 —के वाद की सर्वश्रेष्ठ पचास कहानिया कृष्णचदर..  
 प्रगतिशील १०००  
 —के वाद की सर्वश्रेष्ठ हिंदी कविताए नीरज ..  
 प्रगतिशील  
 —के वाद की सर्वश्रेष्ठ हिंदी कहानिया विजयचद, सपा  
 प्रगतिशील ४००

- स्वतंत्रता के बाद सर्वश्रेष्ठ उर्दू हास्य-व्यंग्य. फिफ्ट तौसवी.  
प्रगतिशील ३.५०  
—पुकारती प्र प्रसारन १००  
स्वतंत्र दिल्ली रिजवी, अतहर अब्बास. हिं समि ४००  
—भारत मिश्रबधु गगा ५००  
—भारत विशालमणि नारायण श्यामलाल १५०  
—भारत का संविधान सत्यकेतु विद्यालकार. स १९६३  
सरस्व स ६.००  
—भारत की ऐतिहासिक कहानिया. रामलोचनशरण पु. भ  
१००  
—भारत के लिए नया इतिहास. मुक्तिदूत, जनार्दन रा  
वेनीप्रसाद १३०  
—भारत में शिक्षा हुमायुन कविर राजपाल ५५०  
—भारत में शिक्षा की प्रगति बशीधर सिंह... गयाप्रसाद  
५.००  
स्वदेश ठाकुर, रवींद्रनाथ ज्ञानमंडल एव भा प्र मंडल  
३००  
—और साहित्य (शरत्) साहा, महादेव, अनु हिं प्रचा  
पु. ० ९७  
—की कथा शर्मा, योगेन्द्रनाथ ५ भा हिं प्रचा. पु ०.५०  
(प्र.)  
—की सीमा पर ड्यूमा, अलेक्जेंडर अवध १५०  
—विदेश यात्रा सतराम... इ प्रे. १७५  
स्वदेशाभिमान में बलिदान माणिक, हरिदास हिं पुंए.  
१.००  
स्वप्न त्रिपाठी, रामनरेश हिं प्र. म ०.७५  
स्वप्न चंद्रप्रकाश अग्रवाल प्रि. ० ७५  
—और सत्य गुप्त, ब्रजमोहन भा भ ३५०  
—और सत्य जौहरी, भगवतशरण गयाप्रसाद ३००  
—और सत्य प्यारेलाल 'आवारा'. आदर्श पु म २५०  
—का देवता. शर्मा, सरनामसिंह 'अरुण' कृष्णा ब्र १२५  
—की गोद वाजपेयी, भगवतीप्रसाद भा अ नि  
—खिल उठा. शर्मा, यज्ञदत्त राजपाल. ७.००  
—जाल प्यारेलाल 'आवारा' रूपसी २५०  
—द्रष्टा मुन्शी, कन्हैयालाल माणिकलाल कि महल.  
५००; — —नवयुग प्र ५५०  
—पूर्णा धुन्ना, सुरेद्र मोहन राज पब्लि १५०  
—भग माचवे, प्रभाकर सा भवन, इ २.००  
—भग. हरिकृष्ण 'प्रेमी' आत्माराम २.००  
—भग होमवती आत्माराम २००  
—भग अध्ययन शर्मा, श्रीगणेश रीगल. ० ७५  
—भग-आलोक मल्लिनाथ नाँवली १५०  
स्वप्नमयी विष्णु प्रभाकर राजकमल २००  
स्वप्नलोक का रहस्योद्घाटन अदावाल, सुबोध. गर्ग ब्र  
१ २५  
स्वप्नवासवदत्त ससारचंद्र, टीका श्री. भा. भारती ३००  
स्वप्नवासवदत्तम् शर्मा, पी पी, सपा रा वेनीप्रसाद २.२५  
—भास कृत भा, तारिणीश. रा. वेनीमाधव २२५

- स्वप्नवासवदत्ता. उपाध्याय, भगवतशरण राजपाल. २००  
स्वप्नवासवदत्ता. गुप्त, मैथिलीशरण, अनु. सा सदन, चि  
१००  
स्वप्नवासवदत्ता जगदीशलाल शास्त्री, टीका मोतीलाल  
१.७५  
स्वप्नवासवदत्ता दीक्षित, सुरेद्रनाथ, अनु सुबोध प्र. १ ७५  
स्वप्नवासवदत्ता भास इ प्रे १००, — —सस्ता ० ४०;  
— — हिं सा सम्मे ० ७५  
स्वप्नसिद्धि की खोज में. मुन्शी, कन्हैयालाल माणिकलाल.  
राजकमल  
स्वभाव और सुख दुःख. विद्यानंद विदेह, स्वामी वेदसंस्थान.  
० २०  
स्वय डॉक्टर बने. धीर, केवल. प्रचा. पा. १.००  
स्वयवर. पाडेय, विनोदचंद्र विश्वविद्यालय २००  
स्वयवर सत्येद्र शरत्. हिंद पा. १००  
स्वयवरा गोविंदसिंह. आदर्श पु म २००  
स्वयसिद्धा बधोपाध्याय, माणिकलाल. सन्मार्ग ३५०  
स्वय सेवक से राष्ट्रपति. श्रावास्तव, हिमाचु मगध ० ६२  
स्वर-पाथेय खरे, नर्मदाप्रसाद रा वेनीमाधव २५०  
—बोध. भगतसिंह हेमकूट १२५  
—मालिका. भातखडे, विष्णुनारायण संगीत २.००  
स्वरमेल-कलानिधि रामामात्य संगीत १.००  
स्वरवितान ठाकुर, रवींद्रनाथ विश्वभारती. ३००  
स्वराज में अछूत कोई नहीं गाधी, मोहनदास करमचंद्र  
सस्ता ० ३०  
स्वराज्य चौबे, गोरखनाथ सा भवन, इ १.००  
—और उसकी समस्याए मजूमदार, धीरेद्र सर्वोदय सा  
१००  
—की माग वेरी, श्रीराम हिं पु ए १ ६२  
—क्या है? परलीकर, निमली, अनु गूजरात. ० ६०  
—शास्त्र भावे, विनोवा. सस्ता ० ५०  
स्वरूप दर्शन वर्मा, हीरालाल मानस सध. १.००  
स्वरोदय पालीवाल, हरिदत्त 'निर्भय' शारदा साधना ३५०  
स्वर्ग का दीपक शर्मा, राजेद्र विद्या प्र म. १५०  
—का फूल आदिल रशीद अर्चना प्र (पा) १००  
—की भलक. उपेन्द्रनाथ 'अश्क' नीलाभ २००  
—की दीवार पारागर, चिरंजीलाल दि. पु. स ५.५०  
—के खडहर रस्तोगी, विनोद उमेश २७५  
—पर चढाई माधव नेगनल ० ७५  
—पुरी. खत्री, दुर्गाप्रसाद लहरी ३००  
—में गाधी. देवदत्त 'अटल'. राजहंस १००  
—में नर्क मिश्र, शिवदत्त. कल्याणदास ४५०  
—यात्रा. टडन, प्रतापनारायण एम चाद. २००  
स्वर्गीय संगीत. अकरम इलाहाबादी पजावी पु २५०,  
— —स्टार (पा.) १००  
—संगीत उपाध्याय, अयोध्यासिंह 'हरित्रीव' नद. न.  
१ २५, — —विद्या म, वा १ २५  
स्वर्ग-अभियान. भा, अयोध्याप्रसाद ग्रथमाला .५०



- स्वर्ग किर्ण पंत, मुमित्रानदन भा ४.००  
 —गाछ गोविंदसिंह कन्हैयालाल ३२५  
 —दुर्ग जान श्री हिंद दि प्रे ४००  
 —धूलि पत, मुमित्रानदन राजकमल ५००  
 —नदी का राजा गर्ग, किशोर स ५ रानी १५०  
 —पथ महेद्र, रामचरण गीता ०७५  
 —पाटुका शर्मा, परमानंद विश्वेश्वरानंद. १२५  
 —मजपा मोतीलाल ५००  
 —रश्मिया भटनागर, महेद्र भोपाल १६२  
 —रेखा काश्यप, रामेश्वरसिंह ग्रथमाला १००  
 —सूत्र नागर, मत कल्पवृक्ष ३००  
 स्वर्णिम अतीत लहरी, मोहन, अनु हि प्रचा पु ३००  
 स्वर्णोदय मिश्र, केदारनाथ 'प्रभात' ज्ञानपीठ १२५  
 स्वस्तिका ब्रजकिशोर 'नारायण' राजपाल २००  
 स्वस्ति-योग विद्यानंद विदेह, स्वामी वेदसस्थान ०८०  
 स्वस्थ कैसे रहे ? वर्मा, जानकीशरण आरोग्य एव तरुण  
 २२५  
 —कैसे रहे हीरालाल जिज्ञासा २००  
 —जीवन. शर्मा, सूर्यदेव आर्य सा १२५  
 —रहना सीखे सरावगी, धर्मचंद प्रचा पा १००  
 —शिक्षा तथा मनोरंजक क्रियाए त्रिलोचनसिंह पजाबी  
 पट्टिल ५००  
 —मतान हीरालाल निरोगी ३००  
 स्वानन ममर सेनानी मोहनसिंह जुगल किशोर ३००  
 स्वातन्त्र्य संग्राम रघुवशी, वीरेद्रसिंह यग मैन २६४  
 —संग्राम के महारथी परमानंद शास्त्री श्री भा भारती  
 ३००  
 स्वाधीनता और राष्ट्रीय साहित्य शर्मा, रामविलास हि प्रचा.  
 पु ४००  
 —का सिंहनाद नेहरू, मोतीलाल राजकमल १०००  
 —के अग्रदूत ओभा, भालचंद्र अभिज्ञान ११२  
 —के पुजारी वसंत, रघुवीरशरण देहाती ३००  
 —संग्राम की कहानी वसंत, रघुवीरशरण स २ वमल  
 १२५  
 स्वामीन भानु ! जय हो ! विवेकानंद, स्वामी न ३  
 श्रीरामकृष्ण १५०  
 स्वाध्याय वेदान्तनीय, स्वामी विरजानंद ०५०  
 —और प्रवचन आर्य सा १५०  
 —बुधनाजनि २ भा आर्य सा १५०  
 —प्रायना, मोन, मन तथा भजन ग्रंथ लुगिया, पीतमल  
 ति ना म १००  
 —मोदी वेदान्तनीय, स्वामी विरजानंद ६००  
 —मुम्न. राजपाल ३००  
 स्वामिनिनी चतुर्वेदाचार्य, शरत्चंद्र जान प्र ०००  
 स्वामिनी मुर्मुरे स्वता ०००  
 स्वामिन पित्त भोवनाथ विन श भा नरं ०३५  
 स्वामी चतुर्वेदाचार्य, शरत्चंद्र उ. प्रे ०७५, —  
 विरजानंद १२५. — प्रभात प्र १५०

- स्वामी दाहूदयाल वियोगी हरि. सस्ता ०३५  
 —नारायण गुरु की जीवनी सत्यन् अ भा सर्व ०.२५  
 —नित्यानंद, जीवन और कार्य कुलश्रेष्ठ, महेद्र विश्वेश्वरानंद  
 २५०  
 —रामतीर्थ रामकृष्ण विश्वेश्वरानंद. ०७५  
 —रामतीर्थ के पत्र रामतीर्थ, स्वामी श्री प्रभाकर २.००  
 —विवेकानंद प्रेमचंद सरस्व प्रे ०७५  
 —विवेकानंद महीपसिंह विश्वेश्वरानंद ०७५  
 —विवेकानंद श्रीवास्तव, ओकारनाथ सस्ता ०४०  
 —विवेकानंदजी की कथाए विवेकानंद, स्वामी स ३  
 श्रीरामकृष्ण १६०  
 —विवेकानंदजी से वार्तालाप विवेकानंद, स्वामी. स. २.  
 श्रीरामकृष्ण १३७  
 —शकराचार्य भा, जगदीश 'विमल' ग्रथमाला ०५०  
 —सियाराम के सदुपदेश कृष्णकुमार, सपा अ भा सर्व  
 १००  
 —हरिदास जी मीतल, प्रभुदयाल सा सस्थान ३.००  
 —हरिदास जी की वाणी मीतल, प्रभुदयाल, सपा. सा  
 सस्थान १००  
 स्वार्थ और सिद्धि पाडेय, सुधाकर कल्याणदास ४.५०  
 स्वावलंबन ठाकुर, केशवकुमार आदर्श हि २५०  
 स्वावलंबन माहेश्वरीसिंह 'महेश' ग्रथमाला २००  
 —और समाज सेवा रामजीलाल शास्त्री विनोद. ०.५०  
 स्वास्थ्यक स्वच्छता और स्वास्थ्य विज्ञान हरिदास 'सहयोगी'.  
 नद ब्र. २००  
 स्वास्थ्य एव योगासन शकरानंद, स्वामी भाग्योदय २.५०  
 —और जल-चिकित्सा गुप्त, केदारनाथ छात्रहितकारी.  
 २५०  
 —और जीवन चाद मोहम्मद आधुनिक सा ३.००  
 —और भोजन शिवब्रतलाल शिव सा १००  
 —और व्यायाम. चौधरी २५०  
 —और व्यायाम ठाकुर, केशवकुमार छात्रहितकारी २५०  
 —और सद्बृत्त गुप्त, अत्रिदेव नद ब्र २००  
 —और सौंदर्य विद्यानंद विदेह, स्वामी वेदसस्थान ०५०  
 —कला और गृह प्रवच. प्रयाग ३५०  
 —कला, गृह प्रवच, पाक तथा सिलाई शिक्षा प्रश्नोत्तरी  
 रीरल १५०  
 —की बातें गुप्ता, वैजनाथ इ पट्टिल ०७५  
 —के लिए भोजन भागव, ज्योतिलाल राष्ट्रीय प्र मडल  
 एव राष्ट्रीय सा स २००  
 —के लिए शाक तरकागिया पाडेय, महेद्रनाथ छात्रहितकारी  
 २००  
 —कैसे पाया ? मोदी, विदुलदास, सपा स २ आरोग्य  
 १५०, — छात्रहितकारी १५०  
 —जीवन गयाप्रसाद ०८७  
 —तथा गृह विज्ञान ठाकुर, प्रेमकुमारी प्रेमकुमारी २५०  
 —परिचय भट्टाचार्य, देवेन्द्रनाथ नद ब्र ०५०  
 —परिचय वर्मा, मुकुंदस्वरूप. रा वेनीप्रसाद २५०

- स्वास्थ्य प्रकाश काश्यप, अर्जुन रा वेनीप्रसाद १५०  
 —प्रदीप काले, जी. वी गयाप्रसाद ०७५  
 —प्रदीपिका वर्मा, मुकुदस्वरूप रा वेनीप्रसाद १५०  
 —बोध. नथमल, मुनिश्री अ भा अणव्रत ०.३७  
 —बोध शर्मा, रामनारायण ६ भा लक्ष्मी ना ०५० (प्र)  
 —रक्षा. चतुरसेन, आचार्य राजपाल १००  
 —रक्षा वर्मा, मुकुदस्वरूप नद व एव नद स भा १  
 ०६२; भा २-३ ०७५ (प्र)  
 —रक्षा. शर्मा, ए एम सर्वोदय. ०५०  
 —विज्ञान कृष्णा व्र ०५०  
 —विज्ञान भारद्वाज, दिनेशचन्द्र. सशो. स २. विनोद ३००  
 —विज्ञान. वर्मा, मुकुदस्वरूप काशी हिंदू ७००  
 —विज्ञान साहा, कुसुमकुमारी स २ राजकमल ३५०  
 —विज्ञान पथप्रदर्शक गुरुदास गुरुदास २००  
 —शिक्षा दयाशकर देहाती ४००  
 —शिक्षा शेरी, जी पी सशो स विनोद ८.००  
 —शिक्षा और प्राथमिक चिकित्सा बशीधर सिंह गयाप्रसाद  
 —सलाप गुप्त, कृष्णानंद सा सदन, चि १००  
 —साधन गांधी, मोहनदास करमचंद सा साधना २००  
 —साधन गौड, रामदास हि पु ए ४००  
 —, स्वच्छता तथा समाज सेवा राजेद्रप्रसाद गयाप्रसाद  
 ०७५  
 स्विटजरलैंड का शासन महेद्रप्रकाश कि महल २.५०  
 —का सविधान गैद, डी एन .. रतन १५०  
 —का सविधान लाल, के एस नाँवल्डी. १५०  
 —की शासन प्रणाली विमलेश बुकलेड ४००  
 स्विस परिवार राबिसन वाएस, रुडाल्फ इ प्रे २५०  
 स्वेच्छा से स्वीकार की हुई गरीबी गांधी, मोहनदास  
 करमचंद नवजीवन ०३५  
 स्वेज नहर. राजकुमार हि प्रजा पु १८७

## ह

- हडियाभर खून नानकसिंह प्रभात प्र २५०  
 हस १ राव, बालकृष्ण... हस ६५०  
 —और गीता मदान, इद्रनाथ राजपाल ०७५  
 —चुगे ज्यो सीप से मोती श्रीवास्तव, हिमाशु. वि ग्र कु  
 ३५०  
 हसता कौन रोता कौन कपूर, यदुनदन वसल २५०  
 —जीवन मिश्र, भुवनेश्वरनाथ 'माधव'. ग्रथमाला २००  
 हसती बोलती तस्वीरे. शौकत, थानवी, छात्रहितकारी  
 १.५०  
 हसते-हसते मनोरजन सहाय गगा १००  
 —हसते कैसे जिंए ? मार्टेन, स्वेट सुबोध प्र. २२५  
 हसना मना है विजय निर्वीध कल्याणमल ०७५  
 हस-मयूर वर्मा, वृ दावनलाल मयूर २.२५  
 —माला. शर्मा, नरेद्र. भा भ २५०

- हस-हस गाने गाये हम भटनागर, महेद्र कि घर, ग्वा. ०.५०  
 हसा जाई अकेला मार्कडेय स ३ नया सा प्र ३००  
 —बाई मातृ-भाषा २००  
 हसिए और हसाइए निशिकात राजकमल (पा) १.००  
 हसिनी याद की भादानी, हरीश सूर्य प्र म. २.५०  
 हसो की रानी प्रभात पब्लि. १.२५  
 हसो और सीखो पुरुषोत्तमलाल कमल-कुज प्र १००  
 —और सीखो विश्वनाथ राजपाल ०.५०  
 —बच्चो अरुण भा सा प्र ०७५  
 —हसाओ द्विवेदी, सोहनलाल इ प्रे १५०  
 —हसाओ पाडेय, रमाकात 'विजय' सा. सगम मो. १.००  
 हक के गुलाम वरेरकर, मामा विद्या प्र म २२५  
 हकायके हिंदी रिजवी, अतहर अब्बास ना. प्र सभा. ३.००  
 हजरत उमर विष्णु प्रभाकर सस्ता ०.४०  
 हजार बीमारिया लहरी ०७५  
 हठयोग रामचारक, स्वामी गगा ४५०  
 हठीली राजकुमारी साहू, किशोर कि महल १७५  
 हडताल तथा धोखाधडी गातसवर्दी हिंदु एकेडेमी. २२५  
 हडताले गांधी, मोहनदास करमचंद नवजीवन ०३०  
 हडोल्फ आइकमैन. कार्तिककुमार 'विकल' सुरेद्र २००  
 हड्डियो का दान गुप्त, वीरेद्रकुमार नेशनल १.५०  
 —के ढाचे, गोविंदसिंह सुभाष ३५०  
 हत्यारा जैन, ऋषभचरण ज्ञान प्र ३००  
 हथकडिया महेद्रसिंह भाग्योदय  
 हथियारो की सिखलाई तथा अच्छी निशानाबाजी गुरवसिंह  
 आर्मी ५५०  
 हथेली पर हिमालय गोविंदसिंह सुभाष १५०  
 हथौडे और चोट द्वारकाप्रसाद अगोक पा १.००  
 हनुमान उपासना रामकृष्ण देहाती ४५०  
 —ज्योतिष भाषा टीका व्यामलाल ०५०  
 —वाहुक गीता ०१०  
 हफीज जालधरी : जीवनी और सकलन राजपाल १.५०  
 हफते मे नागरी लिखावट. जोशी, श्रीपाद हिंदु प्रचा सभा  
 ०३७  
 हम अच्छत नही, निर्बल नही लक्ष्मीनारायण गगा. १५०  
 —आजाद कैसे हुए जोशी, वावूराव २ भा. मानकचंद.  
 ०६२ (प्र)  
 —आजाद हुए हरिकृष्ण 'प्रेमी' वसल १२५  
 —इनसे सीखे ! सुरेशकुमार अगोक प्रे भा. १०६२;  
 भा २ ०.७५  
 —इस्क के वदे है श्रीवास्तव, रामानुजलाल नेगनल २७५  
 —एक है. धर्मपाल शास्त्री राजपाल १००  
 —एक है भटनागर, कणादकृष्ण आत्माराम १५०  
 —और वह. वर्मा, दयानंद भा ज्ञानपीठ २००  
 —और हमारा समाज. न्होरा, आशारानी. आत्माराम  
 १००  
 —और हमारे बालक चतुर्वेदी, राजेश्वरप्रसाद. शिवलाल.  
 १.५०

- स्वर्ग किन्ना पत, गुमिदानदन भा भ ४.००  
 —गाठ गोविन्दनिह कन्हैयालाल ३ २५  
 —दुर्ग जान ओ' हिंद दि प्रे ४००  
 —वृत्ति पत, नमिदानदन राजकमल ५००  
 —नदी का राजा गर्ग, किशोर स ५ रानी १५०  
 —पत्र महेंद्र, रामनरण गीता ०७५  
 —पाटुका शर्मा, परमानन्द विश्वेश्वरानन्द १ २५  
 —मज्जा मोतीनाल ५००  
 —रश्मिया भटनागर, महेंद्र भोपाल १ ६२  
 —रेखा काश्यप, रामेश्वरनिह ग्रथमाला १००  
 —सूय नागर, मत. कल्पवृक्ष ३००  
 स्वर्गम अतीत लहरी, मोहन, अनु हि प्रचा पु ३००  
 स्वर्गोदय मिश्र, केदारनाथ 'प्रभात' जानपीठ १ २५  
 स्वस्तिका ब्रजकिशोर 'नारायण' राजपाल २००  
 स्वस्ति-योग विज्ञानद विदेह, स्वामी वेदमस्थान ० ६०  
 स्वस्थ कैसे रहे ? वर्मा, जानकीररण आरोग्य एव तरुणा  
 २ २५  
 —वैभे रहे हीरानाल जिज्ञासा २००  
 —जीवन शर्मा, सूर्यदेव आर्य सा १ २५  
 —रहना मीमे नरावगी, वर्मचंद्र प्रचा पा १००  
 —शिक्षा तथा मनोरञ्जक क्रियाए त्रिलोचननिह पजावी  
 पट्टिन ५००  
 —गतान हीरानाल निरोगी. ३००  
 स्वातंत्र्य गमर सेनानी मोहनसिंह जुगल किशोर ३००  
 स्वातंत्र्य संग्राम रघुवशी, वीरेंद्रनिह यग मैत्र २ ६४  
 —संग्राम के महारथी परमानन्द शान्ती श्री भा भारती  
 ३००  
 स्वाधीनता और राष्ट्रीय माहित्य शर्मा, रामविलास हि प्रचा.  
 पु ४००  
 —ता निहनाद नेहरू, मोतीनाल राजकमल १०.००  
 —के अग्रदूत ओभा, भालचंद्र अभिज्ञान १ १२  
 —के पुजारी बनन, रघुवीरररण देहाती ३००  
 —संग्राम की कहानी नगल, रघुवीरररण म २ वमल  
 १ २५  
 स्वाधीन भारत ! जय हो ! विवेकानन्द, स्वामी न ३  
 श्रीरामकृष्ण १ ५०  
 स्वाध्याय. वेदान्तदीर्घ, स्वामी विज्ञानद ० ५०  
 —और प्रयत्न आर्य सा १ ५०  
 —रूपमाज्ञा २ भा आर्य सा १ ५०  
 —प्रायता, योग मत तथा भारत उग्रह नृनिग्या, जीतमल  
 हि मा न १ ००  
 —सुरेश वेदान्तदीर्घ, स्वामी विज्ञानद ६००  
 —सम-संसार ३००  
 स्वार्थिताति की नदीनाथ, भालचंद्र जान प्र ०००  
 स्वार्थिताति की नदीनाथ ००  
 स्वार्थिताति की नदीनाथ हि मा न ० ३५  
 स्वामी राष्ट्रीयज्ञान संग्राम २ प्रे ० ३५, —  
 शिकारी. १ २५, — —प्रमान प्र १ ५०

- स्वामी दादूदयाल वियोगी हरि. सस्ता ० ३५  
 —नारायण गुरु की जीवनी. सत्यन् अ भा सर्व. ० २५  
 —नित्यानन्द, जीवन और कार्य कुलश्रेष्ठ, महेंद्र विश्वेश्वरानन्द  
 २ ५०  
 —रामतीर्थ रामकृष्ण विश्वेश्वरानन्द ० ७५  
 —रामतीर्थ के पत्र रामतीर्थ, स्वामी श्री प्रभाकर २.००  
 —विवेकानन्द. प्रेमचन्द सरस्व प्रे. ० ७५  
 —विवेकानन्द महीपसिंह विश्वेश्वरानन्द ० ७५  
 —विवेकानन्द श्रीवास्तव, ओकारनाथ सस्ता ० ४०  
 —विवेकानन्दजी की कथाए विवेकानन्द, स्वामी स. ३  
 श्रीरामकृष्ण १ ६०  
 —विवेकानन्दजी से वार्तालाप विवेकानन्द, स्वामी स २.  
 श्रीरामकृष्ण १ ३७  
 —शकराचार्य भा, जगदीश 'विमल' ग्रथमाला ०.५०  
 —सियाराम के सदुपदेश कृष्णकुमार, सपा. अ भा सर्व  
 १ ००  
 —हरिदास जी मीतल, प्रभुदयाल सा सस्थान ३.००  
 —हरिदास जी की वाणी मीतल, प्रभुदयाल, सपा. सा.  
 सस्थान १ ००  
 स्वार्थ और सिद्धि पाडेय, सुधाकर कल्याणदास ४.५०  
 स्वावलम्बन ठाकुर, केशवकुमार आदर्श हि. २ ५०  
 स्वावलम्बन माहेश्वरीसिंह 'महेश' ग्रथमाला २००  
 —और समाज सेवा रामजीलाल शास्त्री विनोद ०.५०  
 स्वास्थिक स्वच्छता और स्वास्थ्य विज्ञान हरिदास 'सहयोगी'  
 नद व्र २००  
 स्वास्थ्य एव योगासन. शकरानन्द, स्वामी भाग्योदय. २.५०  
 —और जल-चिकित्सा गुप्त, केदारनाथ छात्रहितकारी.  
 २ ५०  
 —और जीवन चाद मोहम्मद आधुनिक सा ३ ००  
 —और भोजन शिवब्रतलाल शिव सा १ ००  
 —और व्यायाम. चौवरी २ ५०  
 —और व्यायाम ठाकुर, केशवकुमार छात्रहितकारी २ ५०  
 —और सद्वृत्त गुप्त, अत्रिदेव नद व्र. २ ००  
 —और सौंदर्य विद्यानन्द विदेह, स्वामी वेदसस्थान ०.५०  
 —कला और गृह प्रवध. प्रयाग ३ ५०  
 —कला, गृह प्रवध, पाक तथा सिलाई शिक्षा प्रश्नोत्तरी  
 रीरल १ ५०  
 —की बातें गुप्ता, वैजनाथ इ पब्लि ० ७५  
 —के लिए भोजन भार्गव, ज्योतिलाल राष्ट्रीय प्र मडल  
 एव राष्ट्रीय सा स २ ००  
 —के लिए शाक तरकागिया पाडेय, महेंद्रनाथ छात्रहितकारी  
 २ ००  
 —कैसे पाया ? मोदी, विट्ठलदास, सपा स २ आरोग्य  
 १ ५०, — —छात्रहितकारी १ ५०  
 —जीवन गयाप्रसाद ० ६७  
 —तथा गृह विज्ञान ठाकुर, प्रेमकुमारी प्रेमकुमारी २.५०  
 —परिचय भट्टाचार्य, देवेंद्रनाथ नद व्र ० ५०  
 —परिचय वर्मा, मुकुन्दस्वरूप रा वेनीप्रसाद २ ५०

- स्वास्थ्य प्रकाश काश्यप, अर्जुन रा वेनीप्रसाद १५०  
 —प्रदीप काले, जी वी गयाप्रसाद ०७५  
 —प्रदीपिका वर्मा, मुकुदस्वरूप रा वेनीप्रसाद १५०  
 —बोध नथमल, मुनिश्री अ. भा अणव्रत ०३७  
 —बोध शर्मा, रामनारायण ६ भा लक्ष्मी ना ०.५० (प्र)  
 —रक्षा. चतुरसेन, आचार्य राजपाल १००  
 —रक्षा वर्मा, मुकुदस्वरूप नद ब्र. एव नद स भा १  
 ०६२, भा २-३ ०७५ (प्र)  
 —रक्षा शर्मा, ए एम सर्वोदय ०५०  
 —विज्ञान कृष्णा ब्र. ०५०  
 —विज्ञान. भारद्वाज, दिनेशचन्द्र. सशो स २ विनोद ३००  
 —विज्ञान वर्मा, मुकुदस्वरूप काशी हिंदू ७००  
 —विज्ञान साहा, कुमुमकुमारी स २ राजकमल ३५०  
 —विज्ञान पथप्रदर्शक गुरुदास गुरुदास २००  
 —शिक्षा दयाशकर देहाती ४००  
 —शिक्षा शेरी, जी पी सशो स विनोद. ८००  
 —शिक्षा और प्राथमिक चिकित्सा बशीधर सिंह गयाप्रसाद  
 —सलाप गुप्त, कृष्णानंद सा सदन, चि १००  
 —साधन गाधी, मोहनदास करमचंद सा साधना २००  
 —साधन गौड, रामदास हि पु ए ४००  
 —, स्वच्छता तथा समाज सेवा राजेन्द्रप्रसाद गयाप्रसाद  
 ०७५  
 स्विटजरलैंड का शासन महेन्द्रप्रकाश कि महल २.५०  
 —का सविधान गैद, डी एन . रतन १५०  
 —का सविधान लाल, के. एस नाँवल्टी १५०  
 —की शासन प्रणाली विमलेश बुकलेड ४००  
 स्विस परिवार राबिसन वाएस, रुडाल्फ इ प्रे २५०  
 स्वच्छता से स्वीकार की हुई गरीबी गाधी, मोहनदास  
 करमचंद नवजीवन ०३५  
 स्वैज नहर. राजकुमार हि प्रजा पु १८७

## ह

- हडियाभर खून नानकसिंह प्रभात प्र २५०  
 हस. १ राव, बालकृष्ण .. हस ६५०  
 —और गीता मदान, इन्द्रनाथ राजपाल. ०७५  
 —चुगे ज्यो सीप से मोती श्रीवास्तव, हिमाचु. वि अ कु  
 ३५०  
 हमता कौन रोता कौन कपूर, यदुनदन वसन २५०  
 —जीवन मिश्र, भुवनेश्वरनाथ 'माधव'. प्रथमाला २.००  
 हमती बोलती तस्वीरे शीबत, धानवी, छात्रहितकारी  
 १.५०  
 हमने-हमने मनोरजन सहाय गंगा १००  
 —हमने कैसे जिंते ? माडेन, स्वेट. नुवोय प्र. २२५  
 हमना मना है. विजय निर्वाण. कल्याणमल ०.७५  
 हम-मदुर वर्मा, व दावनलाल मदन २२५  
 —माया. शर्मा, नरेन्द्र भा भ २५०

- हस-हम गाने गाये हम भटनागर, महेन्द्र कि घर, ग्वा ०.५०  
 हमा जाई अकेला मार्कंडेय. स ३ नया सा प्र ३००  
 —वाई मातृ-भापा २.००  
 हसिए और हसाइए निगिकात राजकमल (पा.) १.००  
 हसिनी याद की भादानी, हरीश सूर्य प्र म. २.५०  
 हसो की रानी प्रभात पब्लि. १.२५  
 हसो और सीखो पुरुषोत्तमलाल कमल-कुज प्र १.००  
 —और सीखो विश्वनाथ राजपाल ०.५०  
 —बच्चो अरुण भा सा प्र. ०७५  
 —हसाओ द्विवेदी, सोहनलाल इ प्रे १५०  
 —हसाओ पाडेय, रमाकात 'विजय' सा. सगम. मो. १.००  
 हक के गुलाम वरेरकर, मामा विद्या प्र म २२५  
 हकायके हिंदी रिजवी, अतहर अक्वास ना. प्र सभा ३.००  
 हजरत उमर विष्णु प्रभाकर सस्ता ०४०  
 हजार बीमारिया लहरी ०७५  
 हठयोग रामचारक, स्वामी गंगा ४५०  
 हठीली राजकुमारी साहू, किशोर कि महल १७५  
 हडताल तथा धोखाधड़ी गातसवर्दी हिंदु एकेडेमी २२५  
 हडताले गाधी, मोहनदास करमचंद नवजीवन ०३०  
 हडोल्फ आइकमैन कार्तिककुमार 'विकल'. सुरेन्द्र २००  
 हड्डियो का दान गुप्त, वीरेन्द्रकुमार. नेगनल. १५०  
 —के ढाचे, गोविंदसिंह मुभाप ३५०  
 हत्याग जैन, ऋषभचरण ज्ञान प्र ३००  
 हथकडिया महेन्द्रसिंह भाग्योदय  
 हथियारो की मिखलाई तथा अच्छी निजानावाजी गुरवसंसिंह.  
 आर्मी ५.५०  
 हथेली पर हिमालय गोविंदसिंह मुभाप १५०  
 हथौडे और चोट टारकाप्रसाद अशोक पा १.००  
 हनुमान उपासना रामकृष्ण देहानी १५०  
 —ज्योतिष भापा टीता ग्यामनाल ०५०  
 —वाहुक गीता ०१०  
 हफीज जालधरी जीवनी और मकनन राजपाल १.५०  
 हफने मे नागरी लिखावट. जोशी, श्रीपाद हिंदु प्रचा मभा  
 ०३७  
 हम अछूत नहीं, निर्बल नहीं लक्ष्मीनारायण गंगा. १५०  
 —आजाद कैसे हुए जोशी, दावूगव २ भा. मानकचंद.  
 ०६२ (प्र)  
 —आजाद हुए हरिद्वार 'प्रेमी' बनल १२५  
 —इनमे सीखें ! सुरेन्द्रकुमार अशोक प्रे भा. १०६२,  
 भा २ ०.७५  
 —एक के वदे है श्रीदान्तव रामानुजान नेगनल २७५  
 —एक है परमपाल शास्त्री राजपाल १००  
 —एक है भटनागर, रमाकांत वि अन्मनाम १५०  
 —और वह वर्मा, दयानंद भा जानगीठ २.००  
 — और हमारा गंगा, धीना, आजागर्न अन्मनाम.  
 १.००  
 —और हमारे गन्धक. चतुर्वेदी, गणेश्वरप्रसाद गिबनाद.  
 १.५०





- हमारे नातिव्यक्त नमस्याये त्रिवेदी, हेचारीप्रनाद ग्रंथमाला ३००
- हमारे प्रभुन निर्माणा पांडेय रामदयाल ज्ञानपीठ भा १ १०० भा २ ०६२
- श्याम प्रतिनिधि गंगाचंद्र श्री भा भारती ३००
- श्यामिनी स्वस्थी राजेंद्र वर्मा प्र ०५०
- प्रदिशानी दीक्षित, ब्रह्मवत्त रामप्रनाद ००५
- श्यामिनी नर्मा हिप्रनाथ बनल ०००
- प्राणुनि नदि भाजर, दुर्गाप्रनाद तुलसी २००
- प्राणुनि नदि श्रीर जनकी कविताए व्यक्तिहृदय चौखवा ३१०
- श्याम चतुर्वेदी, दनाग्नीदान भा ज्ञानपीठ ३००
- प्राणु निरम नीराम ३७५
- गर्मदोगी तद्वपनि उद्र विजावाचन्पति आत्माराम ००५
- गीत नीर, राजेंद्रनिह ना भवन, ३५००
- गीत निरम 'मानव' वि महल १००
- गीत श्री-नेरम जैन, फनचंद्र 'नारंग' विनोद २००
- गीत गीत व्यक्तिहृदय रामप्रनाद ३००
- गीत गीत व्यक्तिहृदय रामप्रनाद ३००
- गीत गीत, शक्ति आत्माराम १५०
- गीत गीत, गंगाधर राष्ट्र प्र म २२५
- गीत गीत, राजेंद्र मा नि, व ०७५
- गीत गीत विमान देहाती राष्ट्रीय प्र मडल १२५
- गीत गीत कतानी गीत, रामदास नन्ता २००
- गीत गीत गीत गीत, नोहनदास करमचंद्र नवजीवन १५०
- गीत गीत गीत, परमेश्वरीप्रनाद नन्ता २००
- गीत गीत चतुर्वेदी जगति छात्रहितकारी ०५०
- गीत गीत गीत प्र प्रनाथ २००
- गीत गीत गीत राजकमल. १००
- गीत गीत गीत नन्दोदय ना ३००
- गीत गीत गीत नन्दोदय ना ०७५
- गीत गीत गीत नन्ता १००
- गीत गीत गीत 'मिन्नान १२५
- गीत गीत गीत भा राजकमल १२५ (प्र)
- गीत गीत गीत गीत ०७५
- गीत गीत गीत गीत १५०
- गीत गीत गीत गीत भूगोत्र नभा विश्व का नक्षत्र ५००
- गीत गीत गीत गीत ३०५
- गीत गीत गीत गीत १००
- गीत गीत गीत गीत १५०
- गीत गीत गीत गीत ०५० (प्र)
- गीत गीत गीत गीत ३००
- गीत गीत गीत गीत भा ना प्र २००
- हमारे नेता आनंद, सत्यपाल सा सगम, लु २००
- नेता रामनाथ 'सुमन नाथना नदन ३००
- नेहत् मदान, इन्द्रनाथ राजकमल १००
- पक्षी मिश्र, रुद्रदत्त राजपाल. ०७५
- पडोसी चत्ता, नवलाल साहनी ०५०
- पडोसी विष्णु प्रभाकर सत्ता ०४०
- पडोसी देव नैने, एल जी गयाप्रनाद १२५
- पडोसी देव रमेशचंद्र 'प्रेम' आत्माराम २५०
- पडोसी राष्ट्र मुक्तिदत्त कल्याणदास २००, — — — वि २००
- पडोसी राष्ट्र राममूर्ति सिंह अरव २५०
- पडोसी उपाध्याय, भगवतगरण राजपाल १२५
- पद्य प्रदर्शक वर्मा, परमेश्वरवीन नवयुग पु भ १२५
- पद्य पक्षी मिश्र शारदा म ०७५
- पहाड उपाध्याय, भगवतगरण ग्रंथमाला १००
- पानी के जहाज दि लायब्रेरी ०६२
- प्रतिनिधि कवि विज्वभर 'मानव' लोकभारती ६००
- प्रतिनिधि लेखक विज्वभर 'मानव' लोकभारती ६००
- प्रमुख साहित्यकार मिश्र, रामनारायण स ६ विनोद १५०
- वच्चे जगदीशसिंह नेशनल २७५
- वच्चे जोगी, हेमागिनी सा भवन, ३ १००
- वच्चे पांडेय, महेंद्रनाथ छात्रहितकारी १७५
- वच्चे शर्मा... गर्ग १००
- वच्चे सतराम, विज्वेश्वरानंद ३७५
- वच्चे १ से ६ वर्ष मुक्कल, गरौच, अनु राजकमल २५०
- वच्चे ६ से १२ वर्ष तक सक्तेना, मुनीश, अनु राज-कमल ३००
- वच्चे स्वस्थ श्रीर दीर्घजीवी कैसे हो पांडेय, महेंद्रनाथ रा वेनीमाधव २००
- चापू मदान, इन्द्रनाथ राजकमल १००
- चापू रामस्वरूप गंगा ३००
- बालक दि लायब्रेरी ०६२
- महापुरुष वेरी, कृष्णचंद्र हि प्रचा पु ०५०
- महापुरुष वाजपेयी विकास हि ना स १५०
- माननिक जिनु एनेन, लिनी छात्रहितकारी ०५०
- मुक्तिदाता गोविन्ददान, सेठ एन चाद २५०
- मुस्लिम मत आदर्शकुमारी नन्ता ०६०
- युग का इतिहास गूच, जी पी गयाप्रनाद १८८५-१९ ५००, १८७०-१९५३ ८००
- युग का एक नायक नेमैतौय पीपुल्स १८७
- युग का भन्मानुष अणुदत्त गांधी, सुभद्रा. अ भा सर्व ०५०
- युग नेता उपाध्याय, भगवतगरण हव ०७५
- युग-पुरुष पाठक, सुरेश्वर ज्ञानपीठ १००
- राष्ट्र निर्माता राजपाल १५०
- राष्ट्र निर्माता रामनाथ 'सुमन नाथना नदन ५००
- राष्ट्र निर्माता. शर्मा, भाववप्रसाद कृष्णा व ०६५

- हमारे राष्ट्रपिता व्यास, गोपालप्रसाद आत्माराम २००  
 —रीति-रिवाज जगदीशसिंह नेशनल ३५०  
 —लेखक गौड, राजेन्द्रसिंह सा भवन, इ ५.००  
 —वन्धु पशु राजेश्वरप्रसाद नारायणसिंह आत्माराम ३.००  
 —वाहन तरुणभाई सर्वोदय सा ३००  
 —वृक्ष. प्र. विभाग २५०  
 —वैज्ञानिक मेहरोत्रा, रामेश्वरप्रसाद कि महल ०.७५  
 —शरीर की कहानी ओमप्रकाश सर्वोदय १.५०  
 —शिक्षा प्रतिवेदन भिगरन, वशगोपाल... विश्व प्र  
 १२५०  
 —सगीत रत्न गर्ग, लक्ष्मीनारायण सगीत १५.००  
 —सत रघुवीरशरण 'मित्र' भा सा प्र २००  
 —सस्कार गीत वर्मा, राजरानी, सग्रा मित्र ७५०  
 —संस्कृत कवि उपाध्याय, भगवतशरण हस ०.७५  
 —समाज और राष्ट्र निर्माता मिश्र, रामदास 'विजय'. हि  
 प्रचा. म. ५५०  
 —समाज निर्माता मिश्र, रामदास 'विजय' हि प्रचा. म  
 ७५०  
 —सरदार. भावसार, सोमाभाई हि प्र म. ०.७५  
 —साथी गुप्त, विध्याचलप्रसाद यथ भ ०.७५  
 —साहित्यकार. रामसकल सिंह अशोक पु म ३००  
 —साहित्यकार. व्यथितहृदय रामप्रसाद १.२५  
 —साहित्य-निर्माता द्विवेदी, जातिप्रिय हि प्रचा पु २२५  
 —सोहल गीत और वारह सिंहनाद न्यू लिट. ०.१३  
 —स्वामी वसल, रघुवीरशरण. देहाती ३००  
 —हरिजन. विरागी छात्रहितकारी ०.५०  
 —हरिजन. व्यथितहृदय रा वेनीप्रसाद. ०.३७  
 —हिंदी कवि उपाध्याय, भगवतशरण हस. ०.७५  
 हमीरराव. स्वर्ण सहोदर कि महल १५०  
 हमीर हठ. हठी भारतजीवन ०.७५  
 हमे क्या खाना चाहिये ? पटेल, भेवरभाई अ भा सर्व  
 ३००  
 —जीने दो गोविंदसिंह सुभाष ३००  
 —वनना है पाडेय, देवेन्द्रप्रताप अभिज्ञान १२५  
 —वनाना ऐसा गाम उपाध्याय, गिदनारायण तुलसी  
 ०.५०  
 हम्मीर रातो (जोहराज). व्यामसुदरदास, नपा ना प्र.  
 सभा २७५  
 हम्मीर हठ लहरी ०.७५  
 हम्मीरहठ चंद्रशेखर ना प्र सभा ०.७५  
 हरकारा वसोपाध्याय, ताराचकर हिंद पा १००  
 हर घर किला हर गाव राजधानी. उमेश प्रभात पब्लि.  
 १२५  
 हरड बेदी. रामेन आत्माराम १७५  
 हरफन मौला शर्मा, गिदवानद देहाती. २५०  
 —मौला. शौकत गानवी नयी ०००  
 हरसिंहार के फल कपूर, रामप्रकाश नद स २२५  
 हर-हाश्नेस. जैन, रूपभचरण ज्ञान प्र. ३.००

- हरा चपा खाडेकर, वि स देशमुख १००  
 —चारा हरा रहे सर्वोदय. १५०  
 हरिऔध और उनका साहित्य. वर्मा, मुकुन्ददेव. हि. सा कु  
 ७००  
 —का 'प्रियप्रवास' त्रिपाठी, लालधर 'प्रवासी' उदय ६.५०  
 हरिऔधजी के सस्मरण हि सा कु ०.५०  
 हरिऔध. जीवन और कृतित्व वर्मा, मुकुन्ददेव नद व्र.  
 १०००  
 —, रत्नाकर और प्रसाद की काव्य साधना अग्रवाल,  
 ऊपा... गयाप्रसाद २५०  
 —सतसई. उपाध्याय, अयोध्यासिंह 'हरिऔध' हि सा. कु.  
 १००  
 हरिकृष्ण प्रेमी और भग्न प्राचीर. जैन, फूलचंद्र 'सारंग'  
 कि घर, ग्वा ३००  
 —प्रेमी और सवत् प्रवर्तन रावेश कि घर, ग्वा ३५०  
 —प्रेमी. व्यक्तित्व कृतित्व दीक्षित विश्वप्रकाश 'बटुक'.  
 वसल ६५०  
 हरिजन नौटियाल, सतोषनारायण. आत्माराम ४.००  
 हरिजन मिश्र, उग्रनारायण ज्ञानोदय ०.५०  
 हरिजन रघुवीरशरण 'मित्र' भा सा प्र ०.७५  
 हरिजन रत्नकांत. आनंद पु. को १.००  
 —बधु गांधी, मोहनदास करमचंद ग्रथमाला ०.६२  
 —सेवको के लिए गांधी, मोहनदास करमचंद नवजीवन  
 ०.३७  
 हरिदास-अक गर्ग, लक्ष्मीनारायण, सपा सगीत १.००  
 हरिद्वार सहाय, विश्वभर 'प्रेमी' सस्ता ०.४०  
 हरियाणा लोक गीत सग्रह नादान हरियानव देहाती  
 ३.७५  
 —लोकमच की कहानियां राजाराम शास्त्री भा. ज्ञानपीठ  
 २५०  
 हरियाना की लोक-कथाए राजाराम शास्त्री आत्माराम.  
 १.२५  
 —प्रदेश का लोक-साहित्य यादव, गकरलाल हिंदु एकेडेमी.  
 १२००  
 हरिराम व्यास. गोस्वामी, वामुदेव गोस्वामी १००  
 हरिलक्ष्मी चट्टोपाध्याय, शरत्चंद्र हि प्रचा पु १००  
 हरिविण पुराण. जिनसेन, आचार्य भा ज्ञानपीठ १६००  
 —पुराण. सूरि, जिनसेन भा ज्ञानपीठ भा १२००,  
 भा. २ १.५०  
 —पुराण का सांस्कृतिक विवेचन पाडे, वीणापाणि हि  
 समि. ४.५०  
 हरिश्चंद्र. श्री प्रभाकर १००  
 —काव्य. जगन्नाथदाम 'रत्नाकर' ना. प्र सभा. ०.५०  
 हरी खाद अधिक अनाज सर्वोदय. १.५०  
 —घाटी रघुवंग भा ज्ञानपीठ ४.५०  
 —वामूरी नुनहरी टेर. पत, मुमिबानदन राजान ३००  
 हरे भरे सेतो की धरती वज्रीनाथ प्रदान १००  
 हर्षट स्पेंसर की ज्ञेय मीमासा. ड. प्रे. ०.४४



- हर्ष गोविंदगन, मेठ एस चाद २२५  
 हर्ष गोविंदगन, वागुदवगण वि. राष्ट्र ६५०  
 हर्षगणित वागुभट्ट नागा ०४०  
 — गन वागुभट्ट रा वेनीप्रसाद ०६२  
 हर्षगणित चटर्जी, गौरीशंकर हिंदू एकेडेमी ७५०  
 हर्षगणित प्रेमचंद्र 'मन्त' एम चाद १२५  
 — गौरीशंकर वागुभट्ट, भगवतीप्रसाद सा केद्र ३५०  
 हर्षगणित दुग्गल वकृठनाथ आत्माराम १००  
 हर्षगणित श्री गौरी चर्मासगटी वोलियो का भाषा-वैज्ञानिक  
 ग्रंथसंग्रह तैतग, भालचंद्रराव हिं ग र  
 हलवाट्टि गणित मंगल, चंद्रभान देहाती २५०  
 हलायुग वीज भट्ट, हलायुग हिं समि २३००  
 हलायुग विद्वगण 'वच्चन' राजपाल २५०  
 हलायुग-प्रदर्शक दीपति मान्याल, चारुचंद्र गगा ०३७  
 — ह गणित तथा उपयोग दीक्षित, रामसनेही देहाती ०८७  
 — पाटी चोपान, मनहर उमेश २००  
 — पाटी पाडेय, व्यामनागण इ प्रे २७५  
 हर्षगणित जानी वाकर चरतेंदु पुष्पी ०७५, — —  
 नूरे ०००  
 हर्षगणित श्रीगण अहमद शमा २५०  
 हर्षगणित, भैरवप्रसाद धारा  
 हर्षगणित गणित, जभूदयाल नवयुग ग्र कु ०५०  
 — पाटी गणितधु नव नुनम २००  
 — हर्षगणित १७५  
 — गणित भा, अयोध्याप्रसाद ग्रथमाला ०६२  
 — गौरी धीवान्नव, जी पी हि पु ए १७५  
 हर्षगणित श्री गौरी चर्मासगटी श्रीमप्रकाश सर्वोदय १.५०  
 — गणित चतुर्वेदी, देवीदयाल 'मन्त' इ प्रे १.५०  
 — गौरी चर्मासगटी गणित राजपाल. १७५  
 — गौरी चर्मासगटी गणित 'मन्त' नव मा प्र २७५  
 — गौरी चर्मासगटी गणित राजपाल २००  
 — गणित चतुर्वेदी, देवीदयाल 'मन्त' आत्माराम १००  
 हर्षगणित गणित, भैरवप्रसाद वीणा ४००  
 — श्री गौरी चर्मासगटी गणितप्रसाद मिह, राजा अशोक प्रे

- हार्ड स्कूल कृषि रसायन शास्त्र पूरक भार्गव, पृथ्वीनाथ. नद  
 ब्र ०२५  
 — स्कूल कृषि शास्त्र वैश्य, चट्टाल. . रा. वेनीप्रसाद  
 २५०  
 — स्कूल ज्यामिति गुप्ता, पी सी एस चाद २००  
 — स्कूल ज्यामिति के हल गुप्ता, पी सी एस चाद २००  
 — स्कूल ज्योमेट्री एड मैन्सुरेशन श्रीवास्तव, प्यारेलाल रा  
 वेनीप्रसाद २००  
 — स्कूल त्रिकोणमिति सत्यप्रकाश रा वेनीमाधव. १.००  
 — स्कूल नागरिक शास्त्र वर्मा, कन्हैयालाल नद स २००  
 — स्कूल नागरिक शास्त्र श्रीवास्तव, एल पी . यग मैन्  
 ३७५  
 — स्कूल विजनेस मेथड और करसपीडेस अग्रवाल, के एल  
 रा वेनीमाधव १००  
 — स्कूल बीजगणित गुप्ता, पी सी. एस चाद २५०  
 — स्कूल बुक कीपिंग मुद्गल, भगवान सहाय गर्ग ब्र. ३००  
 — स्कूल बुककीपिंग और एकाउन्टेन्सी. गोविल, गगासहाय.  
 गुप्ता ब्र २५०  
 — स्कूल वैकिंग अग्रवाल, आर. के किशोर पट्टिल १००  
 — स्कूल भौतिक शास्त्र भार्गव, मनोहरलाल नद ब्र  
 ३५०  
 — स्कूल रचना प्रबोध कलाशनाथ प्रियदर्शी. रा वेनीप्रसाद  
 १००  
 — स्कूल रसायन शास्त्र भार्गव, गगासरन. नद ब्र.  
 ३२५  
 — स्कूल रसायन शास्त्र सत्यप्रकाश रा वेनीमाधव २५०  
 — स्कूल वैज्ञानिक गणनाए सक्सेना, कृष्णवहादुर ..  
 भा भा प्र. २५०  
 — स्कूल व्याकरण और रचना पाडेय, रामचंद्र. कि महल.  
 १५०  
 — स्कूल व्यापारिक शिक्षा गुप्त, राम गुप्ता ब्रा २००  
 — स्कूल संगीत शास्त्र शर्मा, भगवतशरण संगीत १५०  
 — स्कूल संस्कृत व्याकरण सक्सेना, वावूराम. स ८ रा  
 वेनीमाधव १५०  
 — स्कूल सरल अर्थशास्त्र तथा भूगोल के चुने प्रश्न प्रधान,  
 कमलापति कि महल १५०  
 — स्कूल सामाजिक ज्ञान. शर्मा, हरिशंकर यग मैन् ३००  
 — स्कूल हिंदी-पद्य-प्रदर्शक विद्यार्थी, वद्रीविशाल. नवयुग पु.  
 भ २७५  
 हाकी और वैडमिंटन के खेल सर्वोदय १००  
 — कैसे खेलें ड्रमिह 'भूकप' जिज्ञामा २००  
 — फटवाल अग्रवाल, पी एन सहगल १५०  
 हाजिर-जवाबी देवराज 'दिनेश' सस्ता ०४०  
 — जवाबी और विनोद आदिन्य, शिवनाथमिह रूपरामल  
 ०८५  
 हाजी वागु उम्फहानी आनंद, मलयपाल मा. सगम, लृ  
 १५०  
 हानिमताई. भा. भ १००

- हातिमताई. श्यामलाल. २.००  
 हाथ नाजिम हिकमत सा. केद्र. १.००  
 —करघा ओमप्रकाश. सर्वोदय. ०.७५  
 —कागज. ओमप्रकाश सर्वोदय ०.६२  
 —काजस फणीश्वरनाथ 'रेणु' वि. ग्र कु ३.००  
 —चक्की विनायक, एम अ भा सर्व ०.५०  
 हाथीर्न की श्रेष्ठ कहानिया. हाँथार्न, नैथेनियल राजकमल  
 ४००; — —राजकमल. (पा.) १००  
 हाथियो की खोज मे. विराज. राजपाल १५०  
 —के वन मे. व्यथितहृदय. एस. चाद १२५  
 हाथी के दात अमृतराय हस २५०  
 —के दात. जयनाथ 'नलिन'. आत्माराम. ३५०  
 —के दात. मिश्र, जगदीशचंद्र त्रिवेणी ३००  
 —दादा. बालबधु. हि प्रचा पु ०.६७  
 हाफीज का सपना. निरकारदेव 'सेवक'. सा. भवन, इ. १५०  
 हाय नागिन. जहूरबख्श राजहस १२५  
 हायर सेकडरी ज्यामिति गुप्ता, एस एन यग मैन. ३७५  
 —सेकडरी बीजगणित सरलीकृत वास्, कालीपद रा.  
 वेनीप्रसाद. ५.००  
 —सेकडरी भौतिकी. भार्गव, नरोत्तम २ भा. अपर. ६५०  
 (प्र.)  
 —सेकडरी रसायन. डे, पचानन... अपर ८.००  
 —सेकडरी वनस्पति-शास्त्र. सक्सेना अपर  
 —सेकेडरी अर्थशास्त्र. पाडेय, वी एन... नावल्टी ६५०  
 —सेकेडरी आर्थिक एव वारिण्य भूगोल सक्सेना, एस. सी  
 १९६२ स मानकचद ८००  
 —सेकेडरी जैविकी. सिन्हा, रामपूजन नागरी प्र  
 —सेकेडरी नागरिक शास्त्र भा, एम .. नावल्टी ५.००  
 —सेकेडरी रसायन विज्ञान. दर्शनसिंह. नागरी प्र.  
 —सेकेडरी रसायन शास्त्र. गभीर, आई आर. सशो. स  
 २. केदारनाथ ७.००  
 —सेकेडरी व्यापार पद्धति एव पत्र व्यवहार सक्सेना, एस. सी.  
 मानकचद भा १ ३.५०, भा. २ ५.२५, राजस्थान  
 स ५५०  
 —सेकेडरी हिंदी शब्दकोष. शर्मा, ओमप्रकाश... सूर्य प्र  
 २००  
 —सैकडरी अर्थशास्त्र ड्यूवेट एस. चाद ५५०  
 —सैकडरी प्रयोगात्मक भौतिक विज्ञान. पुरी, ए. एन  
 आत्माराम. ५.००  
 —सैकडरी भूगोल भारद्वाज, ओमप्रकाश... एस चाद  
 भा. १ ४५०, भा २ ५५०  
 हार पत, सुमित्रानदन हि सा सम्मे १०००  
 हारमोनियम ज्ञान-नागर शर्मा, नदलाल प्रभात प्र २५०  
 हारमोनियम पुष्पाजलि राजपाल २००  
 —रिपेरिंग रामअवतार 'वीर' देहानी २५०  
 हार या जीत. देवदूत राजहन. १.७५  
 —या जीत. वर्मा, अजेवर. इ प्रे. २.००  
 हारिये न हिम्मत. सव्यसाची. सस्ता ०.४०

- हारू-अल-रशीद. विष्णु प्रभाकर. सस्ता ०.४०  
 हाल का तजरवा. जयचंद्र विद्यालकार हि. भवन.  
 हाशिये. फालिया, रवींद्र, सपा दीपक पव्लि ०.७५  
 हास-परिहास अरुण. आत्माराम. ३००  
 —परिहास. वेदव बनारसी कल्याणदास. २.५०  
 —परिहास सिंह, आर. के राजपाल (पा) १००  
 हास्य : आधार और अध्ययन पाडेय, जगदीश अर्चना प्र.  
 आ.  
 —का व्यापार. अरुण आत्माराम. १२५  
 —के सिद्धांत तथा आधुनिक हिंदी साहित्य. दीक्षित,  
 प्रेमनारायण... अवध ३००  
 —कौतुक. ठाकुर, रवींद्रनाथ. इ प्रे १२५  
 —नाटक शौकत थानवी. सन्मार्ग. ३.००  
 —मदाकिनी. जैन, नारायणप्रसाद भा ज्ञानपीठ ६००  
 —रस. केलकर, नरसिंह चिंतामणि सशो. स २ सा. रत्न-  
 माला. १.५०  
 —रस. श्रीवास्तव, जी. पी गगा. २००  
 हाहाकार. चौधरी. २.००  
 हिंद मेहरा, जमुनादास हि पु ए १.२५  
 —के विधान की अंग्रेजी-हिंदुस्तानी शब्दावली. हिंदु. प्रचा  
 सभा. २००  
 —स्वराज्य गाधी, मोहनदास करमचद नवजीवन. ०७०;  
 — —सस्ता ०७५  
 हिंदी भट्ट, बदरीनाथ गगा. १.५०  
 —अंग्रेजी ग्रामर शकर रगभूमि ३.००  
 —अंग्रेजी लैटर राईटिंग रगभूमि १.५०  
 —अंग्रेजी शब्द कोष वेदप्रकाश शास्त्री. गुप्ता प्र. ३.००  
 —अभिनव भारती नगेंद्र... दि विश्व. २५.००  
 —अलकार-साहित्य ओमप्रकाश एस. चाद ६.००  
 —आदोलन माधवन, आनंदशकर अमरावती २००  
 —आलेखन किचलू, रामप्रसाद. राज किशोर. १५०  
 —आलोचना. महेंद्र, सपा सा. रत्न. भ. ४.००  
 —आलोचना : उद्भव और विकास मिश्र, भगवत्स्वरूप.  
 सा सदन, दे. १२५०  
 —आलोचना का विकास. सिन्हा, सुरेश. रामा प्र. ८००  
 —आलोचना का स्वरूप और विकास. मिश्र, रामदरश.  
 भा भवन (पा) १५०  
 —आलोचना की अर्वाचीन प्रवृत्तिया राजकमल २२५  
 —आलोचना की रूपरेखा पाडे, फूलचंद्र. गयाप्रसाद ३५०  
 —आलोचना के भिन्न-भिन्न स्रोत और उनके विकास का  
 इतिहास शर्मा, प्रभुनारायण विनोद १.२५  
 —आलोचना साहित्य का विकास. कक्कड, राजकिशोर.  
 एस. चाद  
 —उपन्यास. धवन, सुपमा राजकमल ११.००  
 —उपन्यास महेंद्र, सपा. ना रत्न भ. ५.००  
 —उपन्यास श्रीवास्तव, जिवनारायण नद व्र ८००  
 —उपन्यास, उद्भव और विकास टंडन, प्रतापनारायण.  
 हि सा भ. ५००

- हिंदी उपन्यास - एक सर्वेक्षण चतुर्वेदी, महेंद्र नेशनल ६५०  
 —उपन्यास और यथार्थवाद निभुवन सिंह हि प्रचा पु ८००  
 —उपन्यासकार श्रीलाल 'भानु'. शारदा प्र.  
 —उपन्यास का दार्शनिक विवेचन अग्निहोत्री, श्रीनारायण नरस्य पु म ८५०  
 —उपन्यास की शिल्पविधि का विकास नाग, कृष्ण लोक चेतना ६००  
 —उपन्यास की शिल्पविधि का विकास शुभल ओम अनुभवान १६००  
 —उपन्यास में कथा शिल्प का विकास टडन, प्रतापनारायण. हि मा भ १५००  
 —उपन्यास समाजशास्त्रीय विवेचन जोशी, चंडीप्रसाद अनुभवान १६००  
 —उपन्यास-साहित्य ब्रजरत्नदान हि मा कु ५००  
 —उपन्यास साहित्य का अध्ययन गणेशन, एम एन. राजपाल. १२००  
 —उपन्यास—सिद्धांत समीक्षा जर्ना, मा ला प्रभात प्र १०००  
 —उपन्यासों में चरित्र-चित्रण का विकास. राया, रणवीर. एम चाद १५००  
 —उपन्यासों में नायिका की परिकल्पना मिन्हा, सुरेग. अयोध्या प्र १२५०  
 —उपन्यासों में लोकतत्त्व जोशी, इंदिरा सरस्व प्र म [१५००  
 —उर्दू-शिल्प प्रभात प्र १५०  
 —उर्दू-शिल्प प्रभात प्र १५०  
 —एकाली. बच्चनसिंह नद न एव नद स १२५  
 —श्रीराम उनके आचार्य भट्ट, केदारनाथ श्रीराम मेहरा १०५  
 —श्रीराम उनके आचार्य जैन, फाचंद्र 'नारंग' विनोद ६००  
 —श्रीराम काल में भक्ति आंदोलन का तुलनात्मक अध्ययन हिरण्मय विनोद १०००  
 —श्रीराम प्रादेशिक भाषाओं का वैज्ञानिक इतिहास नमला, रामधेनिह राजपाल ८००  
 —श्रीराम प्रगता के वैयक्तिक-वैयक्तिक चरित्र-मागी एम चाद १०००  
 —श्रीराम प्रगती का निर्माण नद न एव नद, प्रभाकर चौधरी १२००  
 —श्रीराम प्रगती में भक्ति-भक्ति का भाग्यवत्ता नायर, के नमला १०००  
 —श्रीराम प्रगती हि मा भ ३००  
 —श्रीराम प्रगती में भक्ति-भक्ति का भाग्यवत्ता श्रीराम मेहरा १०५  
 —श्रीराम प्रगती में भक्ति-भक्ति का भाग्यवत्ता श्रीराम मेहरा १०५  
 —श्रीराम प्रगती में भक्ति-भक्ति का भाग्यवत्ता श्रीराम मेहरा १०५  
 —श्रीराम प्रगती में भक्ति-भक्ति का भाग्यवत्ता श्रीराम मेहरा १०५  
 —श्रीराम प्रगती में भक्ति-भक्ति का भाग्यवत्ता श्रीराम मेहरा १०५

- हिंदी कविता सूर्यवली सिंह नद न एव नद स. ३५०  
 —कविता की पृष्ठभूमि भटनागर, रामरतन. इ प्रे ४००  
 —कविता कुछ विचार मिश्र, दुर्गाशंकर. राष्ट्रीय प्र मंदिर १०००  
 —कविता में युगांतर सुधींद्र आत्माराम ८००  
 —कविता में राष्ट्रीय भावना गुप्त, विद्यानाथ एस चाद  
 —कवि परिचय श्रुतिकांत सा सदन, दे २००  
 —कवियों की आलोचना सिन्हा, कृष्णकुमार नाँवल्डी ४५०  
 —कवियों की रूबाइया रामगोपाल परदेशी, सपा. प्रगति प्र. १००  
 —कवियों की शैलिया विश्वभर 'अरुण' प्रदीप १००  
 —कवियों की समालोचना भाटी, देशराजसिंह हि सा स (पा.) १००  
 —कवि समीक्षा नगेन्द्र... श्री भा भारती २.७५  
 —कवि सर्वस्व. त्रिवेदी, भवानीशंकर श्री भा भारती ५००  
 —कहानिया वाजपेयी, नददुलारे, सपा विद्या म, वा. २००  
 —कहानिया श्रीकृष्णलाल. सा भवन, इ २.५०  
 —कहानिया (श्रीकृष्णलाल). मिश्र, दुर्गाशंकर हि. सा भ २.२५  
 —कहानिया (श्रीकृष्णलाल) (प्रश्नोत्तर) शर्मा, राजनाथ. विनोद ४५०  
 —कहानिया और फैशन उपेन्द्रनाथ 'अस्क' नीलाभ ४.००  
 —कहानियों का विवेचनात्मक अध्ययन. शर्मा, ब्रह्मदत्त सरस्व पु स १०००  
 —कहानी और कहानीकार. वासुदेव. परि. स. २ ज्ञानमंडल. ४५०  
 —कहानी की शिल्प का विकास लक्ष्मीनारायणलाल सा भवन, इ. १०००  
 —कहानी. पाठ और प्रक्रिया चौधरी, सुरेंद्र भा. भवन (पा) २००  
 —कहानी-माला शुवल, केशरीनारायण. नद स ३५०  
 —कहानी माला एक अध्ययन शुवल, केशरीनारायण. हि मा भ. १५०  
 —कहानी संग्रह गिरिराजकिशोर .. गुजरात भा १०२५, भा २.०५६, भा ३.०६२  
 —कहानी संग्रह वाजपेयी, भगवतीप्रसाद, सपा हि सा मम्म १५०  
 —कहानी, सिद्धांत और विवेक रस्तोगी, गिरीश रतन ५००  
 —कहानी : स्वरूप, विकास और प्रतिनिधि कहानीकार. दीक्षित, प्रकाश विनोद ५००  
 —का आधुनिक साहित्य वर्मा, नृत्यकाम एम चाद. ४००  
 —का गद्य-साहित्य तिवारी, रामचंद्र परि म २ विश्व-विद्यालय ७५०

- हिंदी कादंबरी : महाश्वेता वृतात. पाडेय, प्रद्युम्न. चौखवा.  
३००
- कादंबरी : मुकनासोपदेश भा, वधु, व्या. चौखवा ३००
- का भाषा वैज्ञानिक अध्ययन ऋषिगोपाल. भा. संस्कृत.  
६५०
- का मान मंदिर सत्येद्र गयाप्रसाद २००
- कारको का विकास शिवनाथ ना प्र. सभा ३००
- काव्य. वैश्य, गायत्रीदेवी, मग्रा यग मैन २००
- काव्य और उसका सौंदर्य श्रीमप्रकाश एस चाद. ८००
- काव्य और प्रयोगवाद खडेलवाल, रामकुमार वितोद  
२००
- काव्य-कलाप सूर्यकांत श्री भा भारती. २५०
- काव्य की अतश्चेतना रस्तोगी, राजाराम केदारनाथ.  
५००
- काव्य की प्रवृत्तिया. राजकमल २००
- काव्य की भक्तिकालीन साधना चतुर्वेदी, सत्यदेव हि.  
सा सृजन ५००
- काव्य-दर्शन. तिवारी, हीरालाल सा. रत्न माला ६२५
- काव्य धारा राहुल साकृत्यायन कि महल ८००
- काव्य धारा. शभूनाथ सिंह, सपा भा १ हि. प्रचा पु.  
२००
- काव्य धारा मे प्रेम प्रवाह चतुर्वेदी, परशुराम. कि. महल  
३७५
- काव्य पिछला दशक. शर्मा, गोविंद मंगल ८००
- काव्य प्रकाश सत्यव्रत सिंह. चौखवा. १०००
- काव्य प्रवाह. पुष्पा स्वरूप, सपा मित्र
- काव्य मथन मिश्र, दुर्गाशंकर रामा प्र १५००
- काव्य मे अन्वेषित. समारचंद्र राजकमल १२५०
- काव्य मे छायावाद दीनानाथ 'शरण' गयाप्रसाद  
५००
- काव्य मे निर्गुण संप्रदाय वडवाल, पीतावर अवध.  
७००
- काव्य मे प्रकृति. श्रीवास्तव, रामचंद्र नद. व्र एव नद  
स २००
- का य मे प्रकृति-चित्रण. गुप्ता, किरणकुमारी. हि ना  
संगे. १०००
- काव्य मे प्रगतिवाद. मन्न विजयशंकर नद व्र एव नद.  
स २५०
- काव्य मे मानव और प्रकृति. सभनेना, नाननाप्रसाद  
हि ना भ १६००
- काव्य मे शृंगार परंपरा और महाकवि बिहारी. गुप्त  
भरणचिन्म विनोद १०००
- काव्य-विमर्श दुतादराय आत्माराम. ५००
- काव्य विदेशता और मृत्यामृत गुप्त, वैशालीनारायण  
सपा. विद्या म. वा. ५००
- काव्यशास्त्र शास्त्राचार 'सनेह' ना भरत, ए. ५००
- काव्य-विमर्श पद्मनंद शास्त्री. श्री भा. भारती. ४००
- काव्य-संग्रह. भाटी, शरदाशंकर हि. ना म. ३५०

- हिंदी काव्य संग्रह वर्मा, सत्यजीवन, सपा. रा. बेनीप्रसाद.  
—काव्यादर्श मिश्र, रामचंद्र. चौखवा. ६५० [१.२५
- काव्यादर्श रणवीर सिंह ओरिएटल. ४००
- काव्यालंकार प्रवेशिका मडल, अनूपलाल हि. पु. ए  
२००
- काव्यालंकार-सूत्र विश्वेश्वर, आचार्य आत्माराम.  
१२००
- का सरल भाषा-विज्ञान खन्ना, गोपाललाल. ना प्र सभा  
३००
- का सामयिक साहित्य मिश्र, विश्वनाथप्रसाद नद व्र.  
४००, — —मगो स २ वाणी-वितान १०००
- का सामान्य ज्ञान. श्रीहरि कि महल २००
- किशोर साहित्य द्विवेदी, ज्योत्स्ना. नद व्र. एव नद.  
स ३००
- की अमर कहानियां शर्मा, जगन्नाथप्रसाद, सपा. सरस्व  
प्रे २००
- की आदर्श कहानिया. प्रेमचंद, सपा सरस्व प्रे १५०
- की आधुनिक श्रेष्ठ कहानिया गुप्त, भैरवप्रसाद, सपा.  
धारा.
- की छायावादी कविता का कला विधान वनवीरसिंह रत्न.  
नेशनल
- की नई कविता. नारायण कुट्टी, वी अनुमदान १०००
- की प्रतिनिधि कहानिया वाजपेयी, भगवतीप्रसाद, सपा  
हि सा. मम्मे. १५० (अप्रा)
- की प्रतिनिधि कहानिया वात्स्यायन, सच्चिदानंद हीरानंद  
'अज्ञेय', सपा सा सदन, चि ३००
- की प्रतिनिधि कहानिया. शर्मा, किरणचंद्र. एस चाद.  
२५०
- की प्रतिनिधि प्रेम-कविताएं गोमनदास 'नीरज', सपा  
आत्माराम.
- की महिला साहित्यकार सत्यप्रकाश 'मिर्लिद', सपा.  
रूपकमन ५००
- की श्रेष्ठ कहानिया. त्रिगुणावत, गोविंद. ना. नि., का.  
३५०
- की श्रेष्ठ कहानिया. वाजपेयी, नरद्वारे नद म ३००
- की श्रेष्ठ कहानिया. वाजपेयी, नददुनारि, सपा विद्या म,  
वा. ३००
- की श्रेष्ठ कहानिया (वाजपेयी) एक अंशमन. मिश्र,  
दुर्गाशंकर. हि. ना भ २००
- की समस्यार्थ. वर्मा, कामेश्वर नाकटी. ४५०
- की नई श्रेष्ठ कहानियां नानासमीधान एस चाद ३०००
- की नैतिक समीक्षा शर्मा, नानाप्रसाद अनुमदान. १६००
- दुष्कृत्यायन व्यास भोलाशंकर. संपन्न. ६५०
- दृष्टान्त मे मनुजोत्तमना पाडेय. स्यामनारायण रामा  
प्र १५००
- दृष्टान्त शक्तिशाली वर पुनार्थी ना प्रभात. धरुवात, सनि.  
हि. ए. ए. ६००
- दो धर्मांगिन रत्न. जैन, विनयकुमार नेशनल. ७.०६

- हिंदी के आधुनिक कवियों की जिनिक, राधेश्याम 'अधीर'.  
मगन ३००
- के आधुनिक महानव्य शर्मा, गोविंदराम हिं सा. स १०५०
  - के आलोचक गुर्दे, धन्वीरानी आन्माराम ८००
  - के कवि वाजपेयी, चंद्रभानु 'अनिद' ज्ञानालोक १००
  - के गद्य निर्माता मोमतीप्रसाद सा सदन, दे २००
  - के गद्य लेखक और उनकी शैलिया शर्मा, राजनाथ विनोद २५०
  - के गौरव-गद्य राजकमल २२५
  - के जनपद मत कालेनकर, काका .. मोतीलाल २०००
  - के निर्माता यजुर्वेदीय, गौतम छात्रहितकारी १२५
  - के पौराणिक नाटक मनादय, देवपि चौखवा १०००
  - के प्रतिनिधि कवि व्यथितहृदय रा वेनीमाधव १.२५
  - के प्रतिनिधि महाकाव्य सवनेना, द्वारिकाप्रसाद विनोद १०००
  - के प्रमुख कवि और उनकी शैलिया प्रतापचंद सरस्व. पु न १.००
  - के प्रमुख कवि और लेखक शर्मा, मनोहरलाल कालेज १००
  - के प्रमुख कहानीकार कमलादेवी आगरा बुक ०४४
  - के प्रमुख कहानीकार शर्मा, राजनाथ विनोद ३००
  - के प्रमुख गद्यकार और उनकी शैलिया प्रतापचंद सरस्व पु. न ०.५
  - के प्रमुख साहित्यकार औरिएटल. १८७
  - के प्रसिद्ध महानव्य मिहल, रोगनलाल राजपाल १२५
  - के प्राचीन कवियों की काव्य-साधना मिश्र, गंगाधर राष्ट्र प्र म ३००
  - के मध्यकालीन उदात्तव्य तिवारी, सिधाराम हिं सा स २०००
  - के मुगतमान कवियों का प्रेमकाव्य वर्मा, गुरुदेवप्रसाद हिं प्रका पु २५०
  - के लोकप्रिय प्रणय गीत भूपेद्र स्नेही अशोक पा १००, — नरगन ३००
  - के वैयक्तिक निद्रय शुभन, दल्लभ ना भवन, इ ४००
  - के शृंगार गीत गोपायदान 'नीरज', मया हिंद पा १.००
  - के श्रेष्ठ साहित्यकार नाय, निहानन 'निद्वेन' आदर्श पु म. ३००
  - के गद्यन सूर्यकांत एम चाद ३०५
  - के गद्य वर्मा जी आनन्द श्री सन्वती १५०
  - के मांश्रेष्ठ प्रेमगीत 'होमचंद्र मुमन', मया राजपाल ०००, (पा) १००
  - के श्रेष्ठ विरहगीत गोपायदान 'नीरज. न्दार (पा) १००
  - के गद्य युगांतरांगी उन्वयार 'रू' रामप्रकाश नद प्र सा नद ४००
  - के गद्य-विशेष शर्मा, राजनाथ हिं सा स ३००
  - के गद्य-विशेष शर्मा, राजनाथ हिं सा स ३००

- हिंदी के स्वच्छदतावादी नाटक दशरथ सिंह विद्या म, वा ६५०
- के स्वीकृत शोध-प्रबंध उदयभानुसिंह नेशनल १५००
  - को मराठी सतो की देन शर्मा, विनयमोहन वि राष्ट्र ११२५
  - खड़ी बोली काव्य मे विरह वर्गान मिश्र, रामप्रसाद सरस्व पु स १६००
  - गद्य मल्ल, विजयशकर विद्या म, वा २५०
  - गद्य और गद्यकार सहाय, गिवपूजन सा. साधना ६००
  - गद्य का आविर्भाव और विकास सत, धर्मचंद औरिएटल
  - गद्यकार अमरनाथ ज्ञानालोक ०७५ [२२५
  - गद्यकार वाजपेयी' अविभाप्रसाद कि घर, का ५००
  - गद्य का विकास मोहनलाल 'जिज्ञासु' श्री भा भारती ६००
  - गद्य का विकास और प्रमुख शैलीकार गुलावराय शिवलाल २.५०
  - गद्य का विकास और साहित्य, ओमप्रकाश औरिएटल २५०
  - गद्य-काव्य उद्भव और विकास पाडेय, अष्टभुजाप्रसाद सा प्र १६००
  - गद्यकाव्य और उसकी प्रगति अमरनाथ ज्ञानालोक ६००
  - गद्य की परंपरा वलदेव कृष्ण औरिएटल २००
  - गद्य की प्रवृत्तिया राजकमल २००
  - गद्य की त्परेखा (सक्षिप्त) मोहनलाल 'जिज्ञासु' श्री भा भारती २५०
  - गद्य की विकास परंपरा शर्मा, रत्नचंद दास ३००
  - गद्य की विविध विधाए दुवे, मार्कंडेय एस चाद २००
  - गद्य की विविध विधाए शर्मा, रत्नचंद दास ३.००
  - गद्य कुसुमावली टडन, प्रेमनारायण, सपा हिं सा भ १५०
  - गद्य के निर्माता—बालकृष्ण भट्ट, जीवन और साहित्य शर्मा, राजेद्र विनोद १०००
  - गद्य के युग-निर्माता शर्मा, जगन्नाथप्रसाद नद व एव नद म ४२५
  - गद्य के साहित्य रूपों का विकास कोतमिरे कि महल ८५०
  - गद्य के मोपान जोशी, जीवनप्रकाश सन्मार्ग ७००
  - गद्य गौरव प्रयाग. १८०
  - गद्य गौरव गुप्त, लीलावती रा वेनीमाधव १५०
  - गद्य निर्माण वाजपेयी, लक्ष्मीधर हिं सा नम्मे १७५
  - गद्य निर्माण की टीका शिवप्रसाद शास्त्री रीगल १५०
  - गद्य निर्माता गुप्त अमरनाथ रा वेनीप्रसाद १००
  - गद्य-पद्य-संग्रह पृथ्वीनाथ 'पुष्प' एम चाद २५०
  - गद्य-पद्य संग्रह प्रकाश राकेश गयाप्रसाद ७५०
  - गद्य पाणिजान मिश्र, दुर्गाशंकर, टीका हिं सा भ २५०
  - गद्य पाणिजान शुभन, प्रेमनारायण हिं सा नम्मे. १७५
  - गद्य प्रवेश टडन, प्रेमनारायण हिं सा भ १५०
  - गद्य भारती मल्ल, विजयशकर नद व. १७५

- हिंदी गद्य मजरी. किचलू, रामप्रसाद, सपा रा. बेनीप्रसाद. १५०
- गद्य विकास और इतिहास. मल्लिक, योगद्रकुमार मुशीराम १५०
- गद्य विकास और परपरा शर्मा, पद्मसिंह 'कमलेश' स २ बसल. २५०
- गद्य विकास और विमर्श वाली, चंद्रकांत. आत्माराम २००
- गद्य विधाए और परपरा शर्मा, पद्मसिंह 'कमलेश' स. २ बसल २.००
- गद्य शैली का विकास. मिश्रबधु राष्ट्रीय प्र. मंदिर. २००
- गद्य शैली का विकास शर्मा, जगन्नाथप्रसाद. ना. प्र. सभा ६.००
- गद्य सग्रह देव, वीरेन्द्र साधना म १००
- गद्य सग्रह. शर्मा, चतुर्वेदी द्वारकाप्रसाद रा. बेनीप्रसाद. ०.६२
- गद्य सग्रह. सहल, कन्हैयालाल कल्याणमल १.७५
- गद्य सचय अग्रवाल, महावीरप्रसाद रा. बेनीमाधव १७५
- गद्य—साहित्य का इतिहास शर्मा, जगन्नाथप्रसाद हिं भवन २.५०
- गद्य सुषमा भटनागर, रामरतन रा. बेनीमाधव २.५०
- गद्य सौपान जगदीशचंद्र एस. चाद २५०
- गद्य सौरभ. टडन, लक्ष्मीनारायण, सपा हिं सा भ १५०
- गाथासप्तशती चतुर्वेदी, नर्मदेश्वर, व्या चौखंबा. ५००
- गीतिकाव्य अग्रवाल, ओमप्रकाश सा रत्न भ. ३५०
- गीति नाट्य सिंहल, कृष्ण. भा ज्ञानपीठ ४.००
- गुजराती कोश देसाई, मगनभाई, सपा गुजरात ६००
- गुजराती प्रवेश दयानंदनारायण 'स्वामी' हिं सा. स १५०
- गुजराती शिक्षा कमलेश विनोद १५०
- ग्रामर क्रिश्चियन ब्रदर्स. एलाइड ४५०
- ग्रामर चतुर्वेदी, मोतीलाल. राज किशोर १००
- चतुष्टय जैन, कुंदलाल सा नि., ब. १.१५
- छंद प्रकाश रघुनंदन शास्त्री राजपाल. २००
- जैन भक्ति-काव्य और कवि जैन, प्रेमसागर. भा. ज्ञानपीठ.
- जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास. जैन, कामताप्रसाद. भा ज्ञानपीठ २८७
- ज्ञानेश्वरी वर्मा, रामचंद्र, अनु. स ८ हिं सा कु. ५.००
- ज्ञानोदय (व्याकरण और रचना) त्रिपाठी, जगदीश-नारायण कि घर, का १.५०
- टकरा कला अग्रवाल, गयाप्रसाद श्री विष्णु. २.५०
- टाइप राइटिंग गुप्त, गोवर्धनदास ना प्र. सभा २.००
- टाइप राइटिंग शाकल्य, श्रीकृष्ण नद. ब्र एव नद. स. १.५०
- तर्कभाषा. केशवमिश्र. चौखंबा. ६००
- तेलुगु अनुवाद हिं. प्रचा स भा. १.०.५०, भा २ ०.५६

- हिंदी दशमिक वर्गीकरण. मुखोपाध्याय, प्रभातकुमार... हिं सा. सम्मे २.००
- दशरूपक त्रिगुणायत, गोविंद. सा नि, का ६२५
- दशरूपका. व्यास, भोलाशकर चौखंबा ६००
- दासबोध वर्मा, रामचंद्र, अनु स ८. हिं सा कु ३५०
- धातु और क्रियापद त्रिपाठी, करुणापति. ना प्र सभा.
- धातु-सग्रह हार्नले. क मु हि २००
- नवरत्न मिश्रबधु गंगा १२.००, संक्षिप्त २.२५
- नवलेखन चतुर्वेदी रामस्वरूप भा ज्ञानपीठ ४००
- नाटक वच्चनसिंह. सा भवन, इ ४००
- नाटक . उद्भव और विकास. ओभा, दशरथ. राजपाल. १२००
- नाटक और रगमच उपेन्द्रनाथ 'अशक' नीलाभ.
- नाटककार जयनाथ 'नलिन'. आत्माराम ७.००
- नाटककार श्रीलाल 'भानु' शारदा प्र.
- नाटक के सिद्धांत और नाटककार महेद्र, रामचरण सरस्व पु स ४५०
- नाटक साहित्य और रगमच की मीमासा चंद्रप्रकाश सिंह, कुवर. भा ग्र भ १२५०
- नाटक साहित्य का आलोचनात्मक अध्ययन. खन्ना, वेदपाल. श्री भा भारती. १२००
- नाटक साहित्य का इतिहास. गुप्त, सोमनाथ. स ४ हिं. भवन ६००
- नाटक सिद्धांत और समीक्षा. चौहान, रामगोपालसिंह प्रभात प्र ७००
- नाटको का विकासात्मक अध्ययन. पुरोहित, शातिगोपाल. सा. सदन, दे १२.५०
- नाटको पर पश्चात्य प्रभाव त्रिपाठी, श्रीपति शर्मा. विनोद. १२.५०
- नाट्य दर्पण नगेद्र... दि विश्व २२.००
- नाट्य विमर्श गुलाबराय श्री भा भारती ३००
- नाट्य विमर्श प्रदीप जयनारायण रीगल १.५०
- नाट्य साहित्य. ब्रजरत्नदास. हिं सा कु ३७५
- निबंध. दुबे, अक्षयवर . रा. बेनीप्रसाद २.००
- निबंध. वधौतिया, रामजीलाल विनोद. ३५०
- निबंध मल्ल, विजयशकर... विद्या म., वा. २.२५
- निबंध मिश्र... बुकलेड ५००
- निबंध मिश्र, शिवकुमार. नारायण बुक ५.००
- निबंध. शर्मा, यज्ञदत्त सा प्र ४.५०
- निबंध और निबंधकार ठाकुरप्रसाद सिंह. हिं. पु. ए. २००
- निबंध और रचना. पांडेय, श्रवणकुमार... रा. बेनीप्रसाद. २५०
- निबंधकार जयनाथ 'नलिन' आत्माराम. ६.५०
- निबंधनिधि वीरा २६०
- निबंध विहार राकेश. लक्ष्मी ना. ३००, ३५०
- निबंधमाला श्यामसुंदरदास, सपा ना. प्र. सभा. भा १. २.००; भा. २. ३.००

- निर्देशी के अन्तर्गत **दोषिणी** कीजिए, गणेश्याम 'अधीर'।  
मगन ३००
- के आधुनिक महाकाव्य शर्मा, गोविंदराम हि ना म १२५०
  - के आधुनिक गुरु, अचीरानी आम्बाराम ८००
  - के कवि वाजपेयी, चंद्रभान 'अनिद' ज्ञानालोक १००
  - के गद्य निर्माता नोमतीप्रसाद ना सदन, दे २००
  - के गद्य लेखक और उनकी शैलिया शर्मा, राजनाथ विनोद २५०
  - के गौर्व-गद्य राजकमल २२५
  - के जनार्दन मन कानेरकर, काका मोनीलाल २०००
  - के निर्माता यजुर्वेदीय, गोमम छात्रहितकारी १२५
  - के पौराणिक नाटक मनाह्य, देवर्षि चौखवा १०००
  - के प्रतिनिधि कवि व्यथिनहृदय रा वेनीमाधव १२५
  - के प्रतिनिधि महाकाव्य मन्मेना, द्वारिकाप्रसाद विनोद १०००
  - के प्रमुख कवि और उनकी शैलिया प्रतापचंद सरस्व पु म १००
  - के प्रमुख कवि और लेखक शर्मा, मनोहरलाल कालेज १००
  - के प्रमुख कहानीकार कमनादेवी आगरा बुक ०४४
  - के प्रमुख कहानीकार शर्मा, राजनाथ विनोद ३००
  - के प्रमुख गद्यकार और उनकी शैलिया प्रतापचंद सरस्व पु. म ०८५
  - के प्रमुख साहित्यकार औरिएटल. १८७
  - के प्राग्द महाकाव्य मिहल, रोगनलाल राजपाल १२५
  - के प्राचीन त्रिषो की काव्य-साधना मिश्र, गंगावर राष्ट्र प्र म ३००
  - के मध्यकालीन महाकाव्य निवारी, सिपाराम हि सा स २०००
  - के युगमान कवियों का प्रेमकाव्य वर्मा, गुरुदेवप्रसाद हि प्रता पु ०५०
  - के लोकप्रिय प्रणय गीत भूपेद्र स्नेही अशोक पा १००, — — — गतगत ३००
  - के वैदिक प्रिय युग कलन ना भवन, इ ४००
  - के युगा गीत गोपालदान 'नीरज', नपा हिद पा १००
  - के श्रेष्ठ साहित्यकार गद्य, मिहामन 'मिड्रेश' आदर्श पु म. ३००
  - के मृग मन्मथ एम चाद ३०५
  - के शर्मा की बान्धव .. श्री मरन्वती १५०
  - के मन्मथ प्रेमगीत प्रेमचंद्र 'मुमन', नपा राजपाल ३०० (पा) १००
  - के मन्मथ प्रेमगीत गोपालदान 'नीरज' स्टार (पा) १००
  - के मन्मथ प्रेमगीत प्रेमचंद्र 'मुमन' गद्य प्रकाशन नद प्र म २००
  - के मन्मथ प्रेमगीत शर्मा, राजनाथ हि ना म ३००
  - के मन्मथ प्रेमगीत चतुर्वेदी परमुनाम हि ना म ३००

- हिंदी के स्वच्छतावादी नाटक दगरथ सिंह विद्या मं, वा ६५०
- के स्वीकृत शोध-प्रबंध उदयभानुसिंह नेगल १५००
  - को मराठी सतो की देन शर्मा, विनयमोहन वि राष्ट्र. ११२५
  - खडी बोली काव्य मे विरह वर्णन मिश्र, रामप्रसाद सरस्व. पु स १६००
  - गद्य मल्ल, विजयशकर विद्या म, वा २५०
  - गद्य और गद्यकार सहाय, शिवपूजन सा साधना ६००
  - गद्य का आविर्भाव और विकास सत, धर्मचंद औरिएटल
  - गद्यकार अमरनाथ ज्ञानालोक ०७५ [२२५
  - गद्यकार वाजपेयी 'अविकाप्रसाद कि. घर, का ५००
  - गद्य का विकास मोहनलाल 'जिज्ञासु' श्री भा भारती ६००
  - गद्य का विकास और प्रमुख शैलीकार गुलावराय शिवलाल २५०
  - गद्य का विकास और साहित्य, ओमप्रकाश औरिएटल २५०
  - गद्य-काव्य उद्भव और विकास पाडेय, अष्टभुजाप्रसाद सा प्र १६००
  - गद्यकाव्य और उसकी प्रगति अमरनाथ ज्ञानालोक ६००
  - गद्य की परंपरा बलदेव कृष्ण औरिएटल २००
  - गद्य की प्रवृत्तिया राजकमल २००
  - गद्य की रूपरेखा (सक्षिप्त). मोहनलाल 'जिज्ञासु' श्री भा भारती २५०
  - गद्य की विकास परंपरा शर्मा, रत्नचंद दास ३००
  - गद्य की विविध विधाए दुवे, मार्कंडेय एस चाद २००
  - गद्य की विविध विधाए शर्मा, रत्नचंद दास. ३००
  - गद्य कुमुमावली टडन, प्रेमनारायण, सपा हि सा भ १५०
  - गद्य के निर्माता—वालकृष्ण भट्ट, जीवन और साहित्य शर्मा, राजेद्र विनोद १०००
  - गद्य के युग-निर्माता शर्मा, जगन्नाथप्रसाद नद ब्र एव नद म ४२५
  - गद्य के साहित्य रूपों का विकास कोतमिरे कि महल ८५०
  - गद्य के सोपान जोशी, जीवनप्रकाश सन्मार्ग ७००
  - गद्य गौरव प्रयाग १८०
  - गद्य गौरव गुप्त, लीलावती रा वेनीमाधव १५०
  - गद्य निर्माण वाजपेयी, लक्ष्मीधर हि सा मम्मे १७५
  - गद्य निर्माण की टीका शिवप्रसाद शास्त्री रीगल १५०
  - गद्य निर्माता गुप्त, अमरनाथ रा वेनीप्रसाद १००
  - गद्य-पद्य-मग्नह पृथ्वीनाथ 'पुष्प' एम चाद २५०
  - गद्य-पद्य मग्नह प्रकाश गणेश गयाप्रसाद ७५०
  - गद्य पारिजात मिश्र, दुर्गाशकर, टीका हि सा भ २५०
  - गद्य पारिजात युगल, प्रेमनारायण हि सा मम्मे. १७५
  - गद्य प्रवेश टडन, प्रेमनारायण हि सा भ १५०
  - गद्य भारती मल्ल, विजयशकर नद ब्र १७५





- हिंदी निरूपण गतावली. प्रकाशमण्डलान्. इ प्रे २७५  
 —निरूपण विभाग राजपाल ५००  
 —निरूपण-विभाग व्यास, माधोदास . गयाप्रसाद २००  
 —नीति-शास्त्र निवारि, भोलानाथ विनोद १०००  
 —न्याय-सुभाषित विश्वेश्वर मिहानशिरोमणि, व्या.  
 चौधरी ६००  
 —पञ्च-प्रदशक हरनामदेव शान्ती माहती १२५  
 —पर-परपरा और तुलसीदास मिश्र, रामचंद्र हि सा स  
 १२५०  
 —पद्म कुमुमावली टडन, प्रेमनारायण, सपा हि. सा भ  
 १५०  
 —पद्म पाणिजात. नरोत्तमदास स्वामी, सपा २ भा ना. प्र  
 नभा ३००  
 —पद्म पाणिजात नामेना, वीरेंद्रकुमार नवयुग प्र कु  
 —पद्म पुष्पाजलि अनुशीलन उपाध्याय, विश्वभरनाथ  
 ना रत्न भ ५००  
 —पद्म प्रकाश प्रयाग १५०  
 —पद्म प्रकाश की कुजी शर्मा, तोताराम विनोद ३५०  
 —पद्म प्रकाश की टीका त्रिवेदी, भवानीशंकर रीगल ३००  
 —पद्म सप्रह देव, वीरेन्द्रचंद्र साधना म ०७५  
 —पर फारसी का प्रभाव वाजपेयी, अदिकाप्रसाद हि सा  
 सम्मे १५०  
 —पर्याय-विनोम कोप दवे, श्रीकृष्ण लोक-चेतना २००  
 —पराशरणी गिरिराजकिशोर . गुजरात भा १०५६,  
 भा २ १२५, भा ३ १५०  
 —प्रभोधिनी कृष्णचंद्र उम्मीद . सूर्य प्र ४.४०  
 —प्रभेय रत्नमाना जैन, हीरालाल चौधरी १५००  
 —प्रयोग वर्मा, रामचंद्र म ६ मा रत्न-माना १५०  
 —प्रयोगिका मोहनसिंह बर्बई हि ०५०  
 —प्रयोगिका श्रीवास्तव, वीरेन्द्र, सपा रा वेनीप्रसाद २००  
 —प्राचिन प्राय चौधरी ५००  
 —प्रेमसागर राय सप्रह द्विवेदी, गणेशप्रसाद, सपा हिंदु  
 एकेडेमी ६५०  
 —प्रेमसागर राय सुलश्रेष्ठ, कमल मा भवन, इ ७००  
 —प्रेमसागरी गीता भा १-२ ०२५ (प्र), भा ३  
 ०३१, भा ४ ०३७  
 —प्रेमसागर प्राचिन जुगलकिशोर रीगल १००  
 —प्रेमसागर सुशर्मिष्ठ नरहृ ०६५  
 —प्रेमसागर भा १-३ हेमचंद्र ०७५ (प्र)  
 —प्रेमसागर में नील तन्त्र श्रीरंजन अमर एन चाद  
 —प्रेमसागर भटनागर, रामरत्न २ भा रा वेनीप्रसाद  
 १०० (प्र)  
 —प्रेमसागर दत्तचंद्र ३ प्रे २००  
 —प्रेमसागर श्रीवास्तव द्विवेदी, गयाप्रसाद 'मुमन'  
 १००  
 —प्रेमसागर श्रीवास्तव द्विवेदी, गयाप्रसाद 'मुमन'  
 १००  
 —प्रेमसागर श्रीवास्तव द्विवेदी, गयाप्रसाद 'मुमन'  
 १००  
 —प्रेमसागर श्रीवास्तव द्विवेदी, गयाप्रसाद 'मुमन'  
 १००

- हिंदी भाषा और लिपि वर्मा, धीरेन्द्र स १२ हिंदु एकेडेमी  
 १२५  
 —भाषा और साहित्य का इतिहास चतुरसेन, प्राचार्य  
 श्री भा भारती २५००  
 —भाषा और साहित्य का परिचयात्मक इतिहास टडन,  
 प्रेमनारायण, सपा सशो स हि सा भ. २५०  
 —भाषा और साहित्य का विकास उपाध्याय, अयोध्यासिंह  
 'हरिऔध' कि महल १०००  
 —भाषा और साहित्य का विकास गौड़, राजेन्द्रसिंह सा  
 भवन, इ ५००  
 —भाषा और साहित्य की भूमिका झा, भोलानाथ रा  
 वेनीमाधव २५०  
 —भाषा और साहित्य पर अंग्रेजी प्रभाव मिश्र, विश्वनाथ  
 सा सदन दे १२५०  
 —भाषा का इतिहास (प्रश्नोत्तरी) मिश्र, चंद्रभानु 'प्रभाकर'  
 हि सा भ २५०  
 —भाषा का इतिहास वर्मा, धीरेन्द्र सशो. स. ३ हिंदु एकेडेमी  
 ८००  
 —भाषा का इतिहास (प्रश्नोत्तर) शर्मा, राजनाथ विनोद  
 २५०  
 —भाषा का उद्गम और विकास तिवारी, उदयनारायण  
 भा भ १५००  
 —भाषा का विकास रामगोपाल दिनेश कि महल ५००  
 —भाषा का विकास व्यासमुदरदास सा रत्न-माला १००  
 —भाषा का वैज्ञानिक इतिहास (प्रश्नोत्तर) द्वारकाप्रसाद  
 द्वारिकेश रीगल १५०  
 —भाषा का सरल व्याकरण तिवारी, भोलानाथ. राजकमल  
 ३५०, विद्यार्थी स २२०  
 —भाषा की ध्वनिया और उनका शिक्षण सुखिया, कुवर  
 कृष्ण रा वेनीमाधव २५०  
 —भाषा की ध्वनिया तथा उनकी शिक्षा सुखिया, कुवर कृष्ण  
 रा वेनीमाधव २५०  
 —भाषा की नींव जेक्स, एफ ए गुप्ता प्र ४८०  
 —भाषा की शिक्षण विधि सिन्हा, शत्रुघ्नप्रसाद दि पु  
 स ६५०  
 —भाषा-ज्ञान गौयल, मुरलीमनोहर कल्याणमल १००  
 —भाषा तथा नागरी लिपि. मिश्र, बालगोविंद विश्वविद्यालय  
 ३५०  
 —भाषा तथा साहित्य तिवारी, उदयनारायण. राजकमल  
 ५००, विद्यार्थी म ४००  
 —भाषा शिक्षण निरंजनकुमार रा वेनीमाधव ३५०  
 —भाषा शिक्षण (प्रश्नोत्तर) भारद्वाज, दिनेशचंद्र विनोद  
 ३००  
 —भाषा शिक्षण योगेन्द्रजीत, भाई सशो स ३ विनोद  
 ४५०  
 —भाषा मार भगवानदीन 'दीन', लाला. हि सा सम्मे  
 १७५  
 —भाषा मार की कुजी सारस्वत, श्रीनारायण. रीगल २००

- हिंदी भाषा साहित्य (प्रश्नोत्तरी) हि. सा. भं. ४.५०  
 —भाषा साहित्य का संक्षिप्त इतिहास टंडन, प्रेमनारायण, सपा हि सा. भ ४ ५०  
 —मजरी कैलाशसिंह रा वेनीमाधव २५०  
 —मदाकिनी कुलश्रेष्ठ, रमेशचंद्र विनोद २००  
 —मराठी अनुवादमाला अनाथ भा १ ० ६५, भा. २ ० ५०, भा ३ ० ७५  
 —मराठी कोष वीरा. २००  
 —मराठी-लाकोक्ति-कोष वैशंपायन, प ग र, सपा अनाथ ०.५०  
 —मराठी व मराठी-हिंदी एकत्र जोशी, श्रीपाद व्हीनस ५००  
 —मराठी व्यवहार कोष वैशंपायन, प ग र., सपा सं. ४. अनाथ ५ २५  
 —महाकाव्य का स्वरूप विकास. हि प्रचा पु शंभूनाथ सिंह. हि. प्रचा पु १२००  
 —महाकाव्यो मे नारी चित्रण व्यास, श्यामसुंदर सा. सगम, म. १२५०  
 —महाभारत. द्विवेदी इ. प्रे. ६००  
 —महाभारत. वेदव्यास इ प्रे. ख. १-८. १०००; ख. ९ ५.५०; ख १० ४२५  
 —महाभारत सचित्र त्रिपाठी, रमाकांत. हि पु. ए. ६००  
 —मुक्तक काव्य का विकास पाठक, जितेंद्रनाथ ना प्र. सभा. ५५०  
 —मुहावरा कोष. सरहिंदी, आर. जे. रा. वेनीमाधव ३००  
 —मुहावरे त्रिपाठी, रामनरेश. आत्माराम. १.००  
 —मुहावरे मिश्र रामदीहन ग्रथमाला ३.२५  
 —मुहावरे. शर्मा, ब्रह्मस्वरूप 'दिनकर' हि पु. ए. ६००  
 —मुहावरे और कहावते मोतीलाल १.००  
 —मुहावरे और कहावते पाठक, रामकिशोर पु. भ, रा २५०  
 —मूल और शाखा विरागी... भा भ ५००  
 —मे अंग्रेजी से आगत शब्दों का भाषातात्त्विक अध्ययन भाटिया, वैनायनद्र हिंदु एकेडेमी  
 —मे उच्चतर साहित्य पाडेय, राजवली सपा. ना प्र सभा २५००  
 —मे नाट्य-साहित्य का विकास मिश्र, विश्वनाथप्रसाद सा. लेखक ० ५०  
 —मे निबंध साहित्य कालदास, जनार्दनस्वरूप ना भवन, ८ १०५  
 —मे नीति शास्त्र का विकास शर्मा रामनरेश दि पु स २०००  
 —मे प्रकाश और प्रकाश राजकमल १.००  
 —मे प्रथम विद्या उर्षि विनोद. १५००  
 —मे धर्मशास्त्र का विकास शर्मा परमेश श्रीवास्तव, नैलगा. भा २ मद्रि १०००  
 —मे शिक्षा साहित्य कालदास २.५०  
 —मे शिक्षा साहित्य कालदास सिंह वि. ज. दु २५०

- हिंदी में संपूर्ण कुरान अहमद वशीर, अनु श्री प्रभाकर. ८००  
 —मे सरकारी काम-काज करने की विधि. रामविनायक सिंह हि. प्रचा. पु ३.००  
 —मेघदूत विमर्श पोद्दार, कन्हैयालाल इ. प्रे ४००  
 —यात्रा-साहित्य का उद्भव और विकास माथुर, सुरेंद्र सा प्र १५००  
 —रचना. भगतसिंह  
 —रचना उनके अग्र. टंडन, प्रेमनारायण, सपा. सं ७. हि सा भ ३.००  
 —रचना की शिक्षा. खन्ना, गोपाललाल भा. प्र मद्रि. २.००  
 —रचना कोष. मोतीलाल. ४००  
 —रचना चंद्रोदय. रामलोचनशरण पु. भ. ५.००  
 —रचना बोध कलार्थी, मुकुलभाई. वीरा २५०  
 —रचना बोध पाडेय, इंदुप्रकाश कि महल १५०  
 —रचना रश्मि गुप्ता, मिथलेश स २ गुप्ता प्र. ४२५  
 —रचना राजीव वर्मा.. नवयुग पु. भ. १५०  
 —रत्नमाला रामस्वरूप शास्त्री... भा. प्र मद्रि १५०  
 —रत्नाकर जैन, रमेशचंद्र विनोद ३००  
 —रसगगाधर चतुर्वेदी, पुरुषोत्तम शर्मा, अनु. ना प्र सभा. २४००  
 —रसगगाधर भा, बदरीनाथ... चौखवा १८.००  
 —रसमजरी भानुदत्त चौखवा ५००  
 —राष्ट्रभाषा. वर्मा, गनपत. रा वेनीमाधव. २.००  
 —राष्ट्रभाषा कोश इ. प्रे १४००  
 —रीति काव्य संग्रह गुप्त, जगदीश. सा भवन, ८ १०००  
 —रीति-परंपरा के प्रमुख आचार्य. चौधरी, नन्दशेख. सा भवन, इ २०.००  
 —रीति साहित्य मिश्र, भगीरथ राजकमल ५.००  
 —स्वाइया गोपालदास 'नीरज'. हि पा. १००  
 —रूसी वातचीत पीपुल्स १५६  
 —रूसी बोलचाल आन्दिनोव, वोरिस. नव सा प्र. ५००  
 —रूसी शब्दकोश पीपुल्स ५.७५; नक्षिप्त १३१  
 —रूसी शिक्षक चौधरी, मंगलमिह रीगल १०००  
 —रेखाचित्र कृपारकर सिंह विनोद. ५.००  
 —लघुकथा . उद्भव और विकास जयसुन्दर 'जयज' प्रिंटेर्स ७००  
 —लिटरेचर द्विवेदी, रामशंकर हि प्रचा पु ५००  
 —लेखन भगतसिंह हेमकुट भा १.०६०, भा २. ०.७५, भा ३ ० ८५  
 —लेखिकाओं की प्रतिनिधि तहानिया योगेश्वरमान लाला... आत्माराम १०००  
 —लोकोक्ति और मुहावरे. गुलाबदास मम. नाद १ ५१  
 —लोकहितजीवितम् विन्देश्वर आनंद. मंगलमम. १३००  
 —दर्शनादा वीरा ० ७५  
 —वाङ्मय का विकास चौधरी नन्दशेख श्री सा. भवन ८००  
 —यात्रिका. नरेंद्र, सपा एम चाद. १२६० ६५०, १२६१ १०.००

- हिंदी काली, मावेकान्त-कुशल, रविगकर ना प्र सभा  
८५०
- विज्ञान विद्या कलाश्री, मुकुलभाई भा १ १ १२;  
भा २ १०५, भा ३ १२५
- विश्वराम वर्मा, धीरेन्द्र, सपा १० ख ना प्र सभा.  
१-२ १२५० (प्र), ख ३
- विश्व-भाती द्विवेदी, वृष्णावल्लभ..
- वी काव्य (१६००-१८०० ई) तोमर, टीकमसिंह हिंदु  
एकेडेमी १०००
- वीर काव्य महा द्विवेदी, गणेशप्रसाद, सपा हिंदु एकेडेमी  
८००
- वेदान परिभाषा चौधवा
- याज्ञिक कामताप्रसाद 'गुरु' ना प्र सभा ६००,  
रक्षित ०५०, मन्थ १५०, प्रथम ०५०
- याज्ञिक वृष्णाचंद्र विद्यालकार शारदा म २००
- याज्ञिक दुर्गाचंद्र आत्माराम ४००
- याज्ञिक (प्रश्नोत्तरी) शर्मा, योगेन्द्रनाथ.. हि सा भ  
१००
- याज्ञिक एव काव्याग विरधरे 'सिद्ध' मानकचंद्र १५०
- याज्ञिक चंद्रिका कानागप्रसाद सिंह दि पु स २००
- याज्ञिक चंद्रिका मिश्र, रामधन यग मैन १८८
- याज्ञिक त्रयोदश रामलोचनशरण पु भ २२५
- याज्ञिक ज्ञान आदित्यनारायण हि प्रचा पु भा १  
०७८, भा २ ०६७
- याज्ञिक तथा अलकार वर्मा. नवयुग पु भ भा १  
०७५, भा २ १२५
- याज्ञिक तथा निबंध रचना गोस्वामी, शरण विहारी  
दि ना न १७५
- याज्ञिक परिचय नागर, रामचंद्र मिह भा १ अनिल प्र  
१५०
- याज्ञिक प्रभा तथा रचना. सत, गोकुलचंद्र. ओरिएटल.  
३७५
- याज्ञिक प्रवेशिका तथा रचना नत, गोकुलचंद्र.  
ओरिएटल २२५
- याज्ञिक व वादित रामप्रसाद विरागी रामप्रसाद  
१५०
- याज्ञिक दोष वर्णन मित्र, सपा. रा वेनीप्रसाद ८००
- याज्ञिक वाग्देवी, किशोरीदास हिमालय २००
- याज्ञिक वाग्देवी, किशोरीदास ना प्र सभा एव  
विद्यालय १०००
- याज्ञिक वाग्देवी, रामप्रसाद श्रीराम मेहरा ८००
- याज्ञिक वाग्देवी, रामप्रसाद पु भ, भा ३००
- याज्ञिक वाग्देवी, रामप्रसाद ५००
- याज्ञिक वाग्देवी, रामप्रसाद. न २ हि सा भ
- याज्ञिक तथा गोमनाथप्रसाद दि पु न २५०
- याज्ञिक तथा गोमनाथप्रसाद वर्मा, आई वी श्रीराम  
१००

- हिंदी शिक्षण विधान. चतुर्वेदी, सीताराम सशो स २ हि  
सा कु २००
- शिक्षण विधि उपाध्याय, एन एम कुमार सज ५७५
- शिक्षण विधि चौधरी, रामखेलावन स २ हि सा भ  
१५०
- शिक्षा के सिद्धांत वर्मा, आई वी श्रीराम मेहरा
- शुद्ध लेख मौगल, आर सी. भा १ इ पब्लि ०७५
- शुद्ध लेख शर्मा, आर आर. भा २ इ पब्लि १२५
- सकेत-लिपि अग्रवाल, ऋषिलाल श्री विष्णु. ४.५०,  
कुजी २२५
- सकेत लिपि. लाल, ई डब्ल्यू आगरा बुक. २.५०
- सकेत-लिपि वाक्याग कोप अग्रवाल, ऋषिलाल श्री विष्णु  
२.८१
- सकेत-लिपि सार अग्रवाल, ऋषिलाल श्री विष्णु. २.८१
- सक्षिप्त लेखन किचलू, रामप्रसाद राज किशोर २००
- सक्षेपण कला पांडेय, कपिलदेव नारायण बुक १२५
- सजीवनी शुवल, श्रीकृष्ण. नद व एव नद स ३५०
- सत काव्य-संग्रह द्विवेदी, गणेशप्रसाद, सपा हिंदु एकेडेमी.  
५००
- सत साहित्य दीक्षित, त्रिलोकीनारायण राजकमल ६.००
- सदेश द्विवेदी, रामवचन 'अरविंद' स ३ सुलभ १.२५,  
[२००
- संस्कृत शिक्षा देहाती २००
- संगुण काव्य की सांस्कृतिक भूमिका वर्मा, रामनरेश ना.  
प्र सभा ११००
- समाचारपत्र निर्देशिका १६५६ ओभा, वकटलाल, सपा.-  
हि समाचारपत्र ४००
- समाचारपत्र सूची भा १ १८२६-१६२५. ओभा,  
वकटलाल, सपा. हि समाचारपत्र १२५
- सार विरागी रामप्रसाद २५०
- साहित्य उपाध्याय, अरध. रा वेनीप्रसाद. ० ३७
- साहित्य पांडेय, सुधाकर हि प्रचा. पु २५०
- साहित्य वर्मा, धीरेन्द्र, सपा भा सा. परिपद. ख. १.  
१५००, ख २ १६००
- साहित्य श्यामसुंदरदास इ प्रे ३५०
- साहित्य (१६२५-१६४७) भोलानाथ हि सा परिपद  
८००
- साहित्य : एक अध्ययन (प्रश्नोत्तर) श्री जी. रीगल.  
३००
- साहित्य एक रेखाचित्र शिवचंद्र प्रताप ज्ञानपीठ ३००
- साहित्य और उमकी प्रगति विजयेंद्र आत्माराम.  
३५०
- साहित्य और उमकी प्रमुख प्रवृत्तिया शर्मा, गोविंदराम  
हि सा न ६५०
- साहित्य और उमके अग्र श्रुतिकांत ना सदन, दे २५०
- साहित्य और विहार महाय, शिवपूजन, सपा वि राष्ट्र  
ख १ ५५०, न २
- साहित्य और विभिन्नवाद वधोत्तिया, रामजीलाल विनोद  
५००

- हिंदी साहित्य और साहित्यकार पांडेय, मुधाकर नद स. ३००  
 —साहित्य का अतीत मिश्र, विष्णुनाथप्रसाद नद व एव  
 नद. स. ख. १ ७००; ख. २ ११००, — —वाणी-  
 वितान. २ ख. १८.००  
 —साहित्य का आदर्श इतिहास. शर्मा, रामगोपाल 'दिनेश'.  
 स. ४ रतन. १.५०  
 —साहित्य का आदिकाल द्विवेदी, हजारीप्रसाद स ३. त्रि  
 राष्ट्र ३.२५  
 आदर्श साहित्य का आधुनिक इतिहास त्रिपाठी, राजकिशोर  
 आदर्श पु. भ ३.००  
 —साहित्य का आधुनिक काल जयकिशन प्रसाद विनोद  
 ३ ७५  
 —साहित्य का आधुनिक युग परशुराम. श्री भा भारती.  
 १.५०  
 —साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास. वर्मा, रामकुमार  
 स. ४. रा वेनीमाधव १०००  
 —साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास वाजपेयी, नारायण-  
 प्रसाद कालेज १५०  
 —साहित्य का आलोचनात्मक सक्षिप्त इतिहास साख्यधर,  
 श्यामकुमार भा प्र मदिर. २.००  
 —साहित्य का इतिहास. राजहंस १.१२  
 —साहित्य का इतिहास अग्रवाल, मथुराप्रसाद कल्याणमल.  
 २००  
 —साहित्य का इतिहास गुप्त, सर्वाधार कृष्णा व २५०  
 —साहित्य का इतिहास चतुर्वेदी, राजेश्वरप्रसाद अशोक प्र  
 २.५०  
 —साहित्य का इतिहास. चौधरी, अनंतलाल नाँवल्डी  
 —साहाय का इतिहास (प्रश्नोत्तरी) बालबधु हिं सा. भ  
 २.००  
 —साहित्य का इतिहास. ब्रजरत्नदास मजो म. ७ हिं सा  
 कु. २००  
 —साहित्य का इतिहास भारतभूषण 'सरोज' हिं ना न  
 २५०  
 —साहित्य का इतिहास (प्रश्नोत्तर) मिश्र, महेंद्रनाथ आदर्श  
 पु. भ २२५  
 —साहित्य का इतिहास राजेश्वरप्रसाद अशोक प्र २५०  
 —साहित्य का इतिहास वर्मा, रामकुमार रा वेनीमाधव  
 महामना. ३.००  
 —साहित्य का इतिहास वाणेश, लक्ष्मीनगर स ६  
 ५००  
 —साहित्य का इतिहास (प्रश्नोत्तर) शर्मा, राजनारायण न. ११  
 विनोद २५०  
 —साहित्य का इतिहास (प्रश्नोत्तर) शर्मा राजेश. विनोद  
 २५०  
 —साहित्य का इतिहास शुक्ल, रामचंद्र ना प्र नना  
 १०००  
 —साहित्य का इतिहास. एन सुब्रह्मण्यम ना प्र नना  
 १.००

- हिंदी साहित्य का इतिहास प्रश्नोत्तरी प्रेमवत्सला 'अनामिल'  
 सन्स पु स. १७५  
 —साहित्य का उद्भव और विकास शुक्ल, रामचंद्रहोरी .. हिं  
 भवन १०००, सक्षिप्त स ७००  
 —साहित्य का नवीन इतिहास वर्मा, एस आर आर्य बुक  
 १.२५  
 —साहित्य का नवीन इतिहास. शर्मा, शिवराज आशा प्र  
 १५०  
 —साहित्य का नूतन इतिहास. बटुक, आचार्य अशोक प्र  
 ३५०  
 —साहित्य का परिचय चतुरसेन, आचार्य राजपाल ३००  
 —साहित्य का परिचयात्मक इतिहास. शर्मा, यज्ञदत्त एम  
 चाद १२५  
 —साहित्य का प्रथम इतिहास गियर्मन, जार्ज अब्राहम हि.  
 प्रचा पु ६.००  
 —साहित्य का प्रमाणिक इतिहास मिश्र, गंगाधर राष्ट्र प्र.  
 म. ६५०  
 —साहित्य का वृहत् इतिहास भा ६ रीतिकाल रीतिवद्ध  
 नगेद्र, सपा ना प्र सभा. २५००  
 —साहित्य का वृहत् इतिहास. भा १ हिंदी साहित्य की  
 पीठिका पांडेय, राजबली, सपा. ना. प्र सभा २५००  
 —साहित्य का वृहत् इतिहास भा १६ लोकसाहित्य राहुन  
 नाकृत्यायन, सपा ना प्र सभा २५००  
 —साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास. रस्तोगी राजपाल  
 ५००  
 —साहित्य का शालोपयोगी इतिहास शुक्ल, श्रीकृष्ण.  
 शिवाजी. १७५  
 —साहित्य का सक्षिप्त इतिहास प्रयाग. १००  
 —साहित्य का सक्षिप्त इतिहास गन्ना, गोपाबन्धाल उ प्र  
 २.००  
 —साहित्य का सक्षिप्त इतिहास. गुलाबराव नरम्य पु. न  
 १२५  
 —साहित्य का सक्षिप्त इतिहास. त्रिपाठी अशोक पु म  
 १५०  
 —साहित्य का सक्षिप्त इतिहास भटनागर, रामचन्द्र. नापी  
 ५००  
 —साहित्य का सक्षिप्त इतिहास भाग्यभूषण 'सरोज' हिं  
 ना न १२५  
 —साहित्य का सक्षिप्त इतिहास वर्मा, रामचंद्र ना प्र  
 रा वेनीमाधव २००  
 —साहित्य का सक्षिप्त इतिहास वाजपेयी, नारायण १ प्र  
 १००  
 —साहित्य का सक्षिप्त इतिहास वाणेश, लक्ष्मीनगर. स ३  
 महामना. २००  
 —साहित्य का सक्षिप्त इतिहास विवेकानंदराम शर्मा  
 ४००  
 —साहित्य का सक्षिप्त इतिहास बाल, राजभद्र ना प्र नना  
 १२५

- साहित्य का नक्षिप्त इतिहास स्वदेश कुमारी सूर्य प्र ११०  
 —साहित्य का सरल अध्ययन ओम्प्रकाश 'तरुण'. सशो म ५ सूर्य प्र ३००  
 —साहित्य का सरल इतिहास कमलेश म २. प्रदीप १५०  
 —साहित्य का सरल इतिहास टडन, प्रेमनारायण, सपा मनो न हि सा भ २५०  
 —साहित्य का सरल इतिहास विराज नेशनल १२५  
 —साहित्य का सरल इतिहास शर्मा, यज्ञदत्त सा प्र २५०  
 —साहित्य का सरल इतिहास शर्मा, राजनाथ सशो स विनोद १५०  
 —साहित्य का सरल इतिहास शर्मा, सरोजिनी यग मैन १५०  
 —साहित्य का सुबोध इतिहास गुलावराय स २८ सा रत्न भ ३५०  
 —साहित्य की अतर्क्याए कि महल  
 —साहित्य की आधार शिलायें वाजपेयी, अविनाशप्रसाद कि घर, का ०६२  
 —साहित्य की ऐतिहासिक चर्चा शर्मा, गगाराम इ प्रे १५०  
 —साहित्य की कहानी माचवे, प्रभाकर ओरिएटल २२५  
 —साहित्य की जनवादी परंपरा गुप्त, प्रकाशचंद्र कि महल २५०  
 —साहित्य की भक्त चतुर्वेदी, राजेश्वरप्रसाद आगरा बुक १५०  
 —साहित्य की भाषा मिश्र, यदुनदन हि पु ए २००  
 —साहित्य की दार्शनिक पृष्ठभूमि. उपाध्याय, विश्वभरनाथ मा रत्न भ ७५०  
 —साहित्य की परंपरा अग्रवाल, हमराज ओरिएटल ८००  
 —साहित्य की प्रवृत्तिया जयकिशन प्रसाद विनोद ६००  
 —साहित्य की भूमिका दिवेदी, हजारीप्रसाद हि ग्र र ६००  
 —साहित्य की परंपरा गौड, कृष्णदेवप्रसाद हि प्रचा पु १५०  
 —साहित्य की परंपरा वर्मा, रामकुमार हि सा सम्मे ०३०  
 —साहित्य का पुत्र विचार टडन, प्रेमनारायण हि सा भ ३५०  
 —साहित्य के प्रेमी वर्ष चोहान, शिवदाननिह राजमकल ३२०  
 —साहित्य के इतिहास की नक्षिप्त परंपरा राजेश्वर मशो १०६३ नायक १५०  
 —साहित्य के सभ्यता आधार पद्मनन्द. मास्य पु न १७५  
 —साहित्य के प्रथम वाद शर्मा, राजनाथ विनोद २५०  
 —साहित्य के प्रथम वाद और उनके प्रवर्तक उपाध्याय, शिवभरनाथ मास्य पु न ३५०  
 —साहित्य के इतिहास की परंपरा विवेकी, रामगुप्त भा. १५०

- हिंदी साहित्य के सहस्र वर्ष अनंत सा साधना ६००  
 —साहित्य के सितारे अनंत, अ. अ शिक्षण. १५०  
 —साहित्य के सितारे. सियारामशरण भा प्र मंदिर. २००  
 —साहित्य के स्वच्छदतावादी नाटक दशरथसिंह नद स. एव विद्या म, वा ६५०  
 —साहित्य को आर्यसमाज की देन गुप्ता, लक्ष्मीनारायण हि सा भ १२००  
 —साहित्य कोप वर्मा, धीरेन्द्र ज्ञानमंडल भा १ स २. २५००, भा २ २०००  
 —साहित्य-चिंतन इन्द्रपाल सिंह 'इंद्र' विनोद. ६००  
 —साहित्य दर्पण सत्यव्रत सिंह चौखवा १२५०  
 —साहित्य-दर्शन, शर्मा, अरुणकुमार सुभाष १५०  
 —साहित्य-दिग्दर्शन उपाध्याय, सकटाप्रसाद एस चाद ३५०  
 —साहित्य परंपरा, चिंतन तथा अनुभूति शकरदयाल सिंह पारिजात. ३००  
 —साहित्य पर सस्कृत साहित्य का प्रभाव. शर्मा, सरनामसिंह 'अरुण' रा वेनीमाधव ५००  
 —साहित्य परिचय राय, ब्रजनाथ आदर्श पु भ  
 —साहित्य परिचय शुक्ल, रामेश्वर 'अचल' हि सा सम्मे २००  
 —साहित्य-परिचय. स्वदेशकुमारी सूर्य प्र १२५  
 —साहित्य पिछला दशक टडन, प्रतापनारायण हि सा भ ४५०  
 —साहित्य प्रश्नोत्तर श्री हरि कि महल ५७५  
 —साहित्य बीसवीं शताब्दी वाजपेयी, नददुलारे. लोकभारती ६००  
 —साहित्य मजरी गुप्ता, रामेश्वरदयाल, सपा एजूकेशनल पब्लि २००  
 —साहित्य में काव्यरूपों का प्रयोग अवतारे, शकरदेव राजपाल १२००  
 —साहित्य में जीवनचरित का विकास चद्रावती सिंह इ प्रे ४७५  
 —साहित्य में निबंध शर्मा, ब्रह्मदत्त गयाप्रसाद २५०  
 —साहित्य में निबंध का विकास शर्मा, ओकारनाथ अनुसंधान १६००  
 —साहित्य में हास्य रस चतुर्वेदी, वरसानेलाल हि सा स १०००  
 —साहित्य युग और प्रवृत्तिया शिवकुमार अशोक प्र ८००  
 —साहित्य-रत्नाकर जैन, विमलकुमार नेशनल ५००  
 —साहित्य विकास तिवारी, उदयनारायण गंग ब्र. १५०  
 —साहित्य विमर्श. वाशी, पद्मलाल पुन्नालाल. हि पु ए २०५  
 —साहित्य विवेचन शर्मा, योगेंद्रनाथ 'मधुप'. हि सा भ. १२५०

- हिंदी साहित्य संग्रह शर्मा. भा. प्र. मंदिर. १५०  
 —साहित्य समस्याए और समाधान. गुप्त, गणपतिचंद्र.  
 अशोक प्र ५.००  
 —साहित्य समीक्षा सुब्रह्मण्य, गुर्ती, सपा हि सा. सम्मे.  
 २.५०  
 —साहित्य-सर्वस्व चतुर्वेदी, सीताराम हि सा कु ११.००  
 —साहित्य सार शर्मा, यज्ञदत्त सा प्र. ४५०  
 —साहित्यागो का विकास टडन, प्रेमनारायण, सपा  
 हि सा भ १५०  
 —साहित्यानुशीलन वर्मा, सत्यकाम एस चाद १००  
 —सूक्ष्मलिपि (आधुनिक प्रणाली) निगम, एन एस. किशोर  
 पब्लि २५०  
 —सेवी ससार. टडन, प्रेमनारायण, सपा. स २ हि सा. भ.  
 ७५०  
 —स्पष्ट रूप मे त्रिपाठी, लालधर 'प्रवासी'... हि प्रचा. पु.  
 ३००  
 —हमारी राष्ट्रभाषा हि प्रचा. स ० २५  
 —हास्य और हास्याकार चतुर्वेदी, वरसानेलाल. जवाहर  
 ४००  
 —हिलोर गुप्त, रामस्वरूप भा प्र मंदिर १५०  
 हिंदुई साहित्य का इतिहास गार्सा द तासी हिंदु. एकेडेमी  
 ७००  
 हिंदुओ का जीवन-दर्शन. राधाकृष्णन, सर्वपल्ली वोरा.  
 १५०  
 —की प्रबुद्ध रचनाए गोल्डस्टूकर, थि चौखवा ४००  
 —के व्रत और त्योहार कन्हैयाजू. कुवर हि प्र. म ३००  
 —के व्रत, पर्व और त्योहार. रामप्रताप शास्त्री कि. महल.  
 ३५०  
 —के व्रत, पर्व, और त्योहार सतोषकुमार प्रभात पब्लि ३००  
 हिंदुस्तान और ब्रिटेन का आर्थिक लेन देन कुमारप्पा, जे  
 सी नवजीवन ०.५०  
 —की कहानी आनंद, मुल्कराज राजकमल २.५०  
 —की कहानी नेहरू, जवाहरलाल सस्ता सपूर्ण १०००;  
 सक्षिप्त. ३००  
 —की खेती लोहिया, राममनोहर नवहिंद  
 —की पुरानी सभ्यता बेनीप्रसाद हिंदु एकेडेमी. ८.००  
 —की समस्याए नेहरू, जवाहरलाल सस्ता २५०  
 —की जानकारी शिवनदरसिंह पु भ, रा ३ ८७  
 —, चीन और उत्तरी सीमाए. लोहिया, राममनोहर.  
 नवहिंद.  
 —हमारा है रत्नप्रकाश 'शील'. शकुन. १.२५  
 हिंदुस्तानी कहानिया नाणावटी, अमृतलाल, सपा. हिंदु.  
 प्रचा सभा भा १. ० ४४, भा २ ०.८७  
 —की नीति. कालेलकर, काका. हिंदु प्रचा सभा. ०.०६  
 —के प्रचारक गाधीजी कालेलकर, काका हिंदु प्रचा सभा  
 ०.२५  
 —कोष शर्मा, हरिशकर गयाप्रसाद ६.००  
 —गद्य-संग्रह. हिंदु. प्रचा. सभा. १.२५

- हिंदुस्तानी छोटी कहानिया. नाणावटी, अमृतलाल, सपा हिंदु  
 प्रचा सभा ० ३७  
 —प्रचार क्यो हिंदु प्रचा. सभा. १००  
 —बालपोथी नाणावटी, अमृतलाल हिंदु प्रचा सभा  
 भा १ ० २५, भा. २ ० ७५  
 —मुहावरा कोष रसूल अहमद 'अबोध', सपा हिंदु प्रचा  
 सभा १५०  
 हिंदू गुप्त, मैथिलीशरण सा सदन, चि २५०  
 —आचार दर्शन. सहाय, डी. एन मोतीलाल १५६  
 —आलोचना का इतिहास मिश्र, रामदरश काशी हिंदू  
 ६००  
 —काल नाहर कि महल ३.५०  
 —गणित-शास्त्र का इतिहास दत्त, विभूतिभूषण .. हि  
 समि ३००  
 —जाति का उत्थान और पतन रजनीकात शास्त्री कि  
 महल ६००  
 —तीर्थ व्यथितहृदय रा बेनीमाधव २२५  
 —धर्म विवेकानंद, स्वामी स ३ श्रीरामकृष्ण १५०  
 —धर्म और आचार उपाध्याय, पबिकादत्त काशी हिंदू ३ ७५  
 —धर्म की बालपोथी ध्रुव, अनदशकर बापूभाई ज्ञानमडल  
 १००  
 —धर्म की विशेषताए. राजपाल ० ७५  
 —धर्म की समीक्षा जोशी, लक्ष्मणशास्त्री हि प्र र. १ २५  
 —धर्म के पक्ष मे विवेकानंद स्वामी स. ३ श्रीरामकृष्ण.  
 ० ७५  
 —धर्म रक्षक सत्यव्रत वानप्रस्थी, स्वामी स ३. नेचर ० २५  
 —धार्मिक कथाओ के भौति ऋथ त्रिवेणीप्रसाद सिंह  
 बि राष्ट्र ३००  
 —पद-पादशाही सावरकर, वीर विनायक दामोदर  
 राजधानी ६००  
 —परिवार मीमासा. हरिदत्त वेदालकर भा भ १०००,  
 — —सरस्व स १२५०  
 हिंदूप्रसाद शुक्ल, द्विजेन्द्रनाथ श्री भा भारती ३००  
 हिंदु बनाम हिंदू लोहिया, राममनोहर रश्मि. २००  
 —राजतंत्र जायसवाल, काशीप्रसाद ना प्र सभा १०००  
 —राज्यशास्त्र वाजपेयी, अबिकाप्रसाद हि. सा सम्मे.  
 ५००  
 —राष्ट्र मधोक, बलराज भा सा सदन १५०  
 हिंदूराष्ट्र के चार महापुरुष गुप्त, राजेश देहाती ३००  
 हिंदू विवाह एव परिवार की समस्याए तोमर, रामबिहारी  
 सिंह. श्रीराम मेहरा ६००  
 —विवाह मे कन्यादान का स्थान सपूर्णनिद. स. २  
 भा ज्ञानपीठ १००  
 —सगठन क्यो और कैसे ? श्रद्धानंद, स्वामी गोविंदराम  
 १००  
 —संस्कार पाडेय, राजबली चौखवा १५००  
 —संस्कृति मे राष्ट्रवाद मुकर्जी, राधाकुमुद. एस. चाद  
 ३.००

हिमालय के वीर श्यामलाल 'मधुप' अनुपम १५०  
—दर्शन गोमावी, कृष्णनारायण आत्माराम ४००

- हिम्मत वाले चद्रपाल सिंह 'मयक' इ प्रे २००
- हिरण की आखे घिल्डियाल रमाप्रसाद 'पहाडी'. न्यू लिट २२५, — — प्रकाशगृह ३००
- की चाल मित्तल, महेंद्र आत्माराम १००
- हिरन और राजा पृथ्वीकुमार सस्ता. १००
- हिरना सावरी चौहान, मनहर उमेश ४५०
- हिरोशिमा की छाया मे चतुर्वेदी, भगवतस्वरूप राजकमल ४००
- हिरौल सत, गोकुलचद्र औरिएटल १२५
- हिलोर वाजपेयी, भगवतीप्रसाद गंगा ३००
- हिस्सार की घाटी लुकनित्स्की, पावेल पीपुल्स ०२०
- हीन भाव मैकग्राईट, डब्लू जे राजकमल १२५
- हीर वेदप्रकाश प्रगतिशील २५०
- हीरक जयती नागार्जुन आत्माराम ३००
- जयती-ग्रथ श्रीकृष्णलाल . ना प्र सभा १२५०
- हीर राभा असलम, एम अशोक पा १००
- राभा भाटिया, शीला आत्माराम २००
- हीरा पन्ना. श्यामलाल २००
- हीरामन तोता रामवृक्ष बेनीपुरी पु भ १५०
- हीरे की अगूठी थानी, योगराज आर्य बुक १५०
- की कनी अमृता प्रीतम हिंद पा १.००
- की चोगी सूर्या कमलानी. कि महल १००
- की बात. टडन, प्रेमनारायण हिं सा भ १७५
- की लीग प्र विभाग १००
- मोती मिश्र, जगदीशचद्र त्रिवेणी १५०
- मोती श्रीकृष्ण लोकप्रिय. ३००
- हुकार रामधारी सिंह 'दिनकर' उदयाचल २५०
- एक समीक्षा शर्मा, शिवचद्र राष्ट्रीय प्र मडल एव राष्ट्रीय सा स १५०
- हुआ सवेरा गुवल, रमापति नद व्र एव नद स ०७५
- सवेरा श्रीवारतव, ओकारनाथ सस्ता ०४०
- हुकुम की वेगम पुष्किन, अ से पीपुल्स ०७५
- हुक्का पानी वेडव बनारसी आनद पु, वा एव कल्याणदास ३००
- हुजूर रागेय राधव. कि महल २५०, — — सा प्र. १५०
- हुमायू श्रीवास्तव, हरिश्कर श्रीराम मेहरा
- हुमायूनामा ब्रजरत्नदान, अनु ना प्र सभा ३००
- हुस्नवान् सान्याल, प्रबोधकुमार राजकमल ६००
- हुस्ना बीबी तथा अन्य कहानिया रामकुमार सरस्व प्रे. ४.००
- हृदय का काटा पाठक, तेजरानी नेशनल. ३.००
- जा भार व्यान, दीनानाथ गंगा १५०
- ही ओग. दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह ग्रथमाला २००
- की परग. चतुरसेन, आचार्य गंगा ३००, — — हिंद पा. १.००

- हिमालय के वीर श्यामलाल 'मधुप' अनुपम १५०
- दर्शन गोमावी, कृष्णनारायण आत्माराम ४००
- हिम्मत वाले चद्रपाल सिंह 'मयक' इ प्रे २००
- हिरण की आखे घिल्डियाल रमाप्रसाद 'पहाडी'. न्यू लिट २२५, — — प्रकाशगृह ३००
- की चाल मित्तल, महेंद्र आत्माराम १००
- हिरन और राजा पृथ्वीकुमार सस्ता. १००
- हिरना सावरी चौहान, मनहर उमेश ४५०
- हिरोशिमा की छाया मे चतुर्वेदी, भगवतस्वरूप राजकमल ४००
- हिरौल सत, गोकुलचद्र औरिएटल १२५
- हिलोर वाजपेयी, भगवतीप्रसाद गंगा ३००
- हिस्सार की घाटी लुकनित्स्की, पावेल पीपुल्स ०२०
- हीन भाव मैकग्राईट, डब्लू जे राजकमल १२५
- हीर वेदप्रकाश प्रगतिशील २५०
- हीरक जयती नागार्जुन आत्माराम ३००
- जयती-ग्रथ श्रीकृष्णलाल . ना प्र सभा १२५०
- हीर राभा असलम, एम अशोक पा १००
- राभा भाटिया, शीला आत्माराम २००
- हीरा पन्ना. श्यामलाल २००
- हीरामन तोता रामवृक्ष बेनीपुरी पु भ १५०
- हीरे की अगूठी थानी, योगराज आर्य बुक १५०
- की कनी अमृता प्रीतम हिंद पा १.००
- की चोगी सूर्या कमलानी. कि महल १००
- की बात. टडन, प्रेमनारायण हिं सा भ १७५
- की लीग प्र विभाग १००
- मोती मिश्र, जगदीशचद्र त्रिवेणी १५०
- मोती श्रीकृष्ण लोकप्रिय. ३००
- हुकार रामधारी सिंह 'दिनकर' उदयाचल २५०
- एक समीक्षा शर्मा, शिवचद्र राष्ट्रीय प्र मडल एव राष्ट्रीय सा स १५०
- हुआ सवेरा गुवल, रमापति नद व्र एव नद स ०७५
- सवेरा श्रीवारतव, ओकारनाथ सस्ता ०४०
- हुकुम की वेगम पुष्किन, अ से पीपुल्स ०७५
- हुक्का पानी वेडव बनारसी आनद पु, वा एव कल्याणदास ३००
- हुजूर रागेय राधव. कि महल २५०, — — सा प्र. १५०
- हुमायू श्रीवास्तव, हरिश्कर श्रीराम मेहरा
- हुमायूनामा ब्रजरत्नदान, अनु ना प्र सभा ३००
- हुस्नवान् सान्याल, प्रबोधकुमार राजकमल ६००
- हुस्ना बीबी तथा अन्य कहानिया रामकुमार सरस्व प्रे. ४.००
- हृदय का काटा पाठक, तेजरानी नेशनल. ३.००
- जा भार व्यान, दीनानाथ गंगा १५०
- ही ओग. दुर्गाशंकरप्रसाद सिंह ग्रथमाला २००
- की परग. चतुरसेन, आचार्य गंगा ३००, — — हिंद पा. १.००

- हृदय की प्यास चतुरसेन, आचार्य गंगा ४.५०; —  
 राजपाल ३००  
 —तरंग. दुलारेलाल गंगा ०.७५  
 हृदयनाथ. देसाई, रमणलाल वसतलाल ज्ञानमडल एव भा. प्र.  
 मडल ६००  
 हृदयनाद सुब्रह्मण्यम्, चिदवर सस्ता ३५०  
 हृदय परीक्षा रमेशचंद मोतीलाल २००  
 —मथन दीक्षित, सीताचरण आत्माराम. ५००  
 —मथन के पांच दिन गांधी, मोहनदास करमचंद सस्ता  
 ०.३०  
 हेनरी फोर्ड वोरा २००  
 हे वापू, हे राष्ट्र पिता तिवारी, भोलानाथ गंगा ०.३७  
 हेमला सत्ता. अजमेरी, मुशी सा सदन, चि ०.५०  
 हेमा शर्मा, राजेद्र राजकमल ३००  
 हेयर ऑयल (खुशबूदार तेल) दास, जे सी देहाती  
 २.५०  
 —फिवसर बनाना कालीचरण देहाती ०.५०  
 हेरी-में तो दर्द दिवानी त्रिवेदी, रश्मिकांत सांस्कृतिक  
 १०००  
 हैडबुक आफ् पोल्ट्री फार्मिंग कालीचरण देहाती १२००  
 —ऑफ विल्डिंग कन्स्ट्रक्शन विजय, आर सी देहाती  
 ३४५०  
 —स्टीम इंजीनियर कपूर, एच सी देहानी १८००  
 हैडलूम गाइड चोपडा, एन एस देहाती १३००  
 हैस एडरसन की कहानिया वर्मा, शुभा हि भवन  
 —एडरसन की श्रेष्ठ कहानिया विष्णुस्वरूप, अनु हि प्रचा  
 पु २२५  
 हैजा, प्लेग और चेचक जोशी, हेमचंद्र परिमल १.००  
 हैदराबाद के ऐतिहासिक कलास्थल हि प्रचा स ०.५०  
 —सत्याग्रह का रक्तरजित इतिहास शर्मा, जयदेव... आर्य  
 सा २५०  
 हैनिमेन्स क्रानिक डिजिज हैनिमेन, महात्मा एम एल बुक  
 ३.००  
 हैमलेट. शुक्ल, शत्रुघ्नलाल, रूपा उमेश. २००  
 हैमलेट शेक्सपियर, विलियम नव सा प्र. ०.५०, —  
 राजपाल २००

- हैलन कैलर या अयो की रानी ब्रुसत्री, वान वाइक आदर्श  
 पु न ३००  
 होटल डी ताज गुप्त, मन्मथनाथ एस चांद २२५  
 होटल मे खून चीधरी १५०  
 —मौडर्न सत्यकेतु विद्यालकार सरस्व स ३५०  
 —शराव औरत बाजपेयी, प्रेमचंद्र आदर्श पु म १००  
 होनहार बालक गुप्त, मनमोहन ड प्रे १५०  
 —बालक गांधी माथुर, वी एन इ प्रे १५०  
 होमियो इजेजेशन-चिकित्सा शर्मा, सुरेशप्रसाद स ५ मेडिकल  
 १७५  
 —कपरेटिव प्रिस मेटेरिया मेडिका गर्मा, सुरेशप्रसाद स ४.  
 मेडिकल ६००  
 —गीतावली त्रिपाठी, कैलाशभूषण मेडिकल २००  
 —गृह-चिकित्सा स २ शर्मा, सुरेशप्रसाद स २ मेडिकल  
 २५०  
 —टायफाइड चिकित्सा स ३ मेडिकल ०.७५  
 —थाइसिस चिकित्सा स ३ मेडिकल ०.७५  
 —न्यूमोनिया चिकित्सा स २ मेडिकल ०.७५  
 —पाकेट गाइड गर्मा, सुरेशप्रसाद स ५ मेडिकल १.००  
 —पारिवारिक चिकित्सा गर्मा, सुरेशप्रसाद स ४ मेडिकल.  
 होमियोपैथिक गाइड प्रेमचंद, डा देहाती ५०० [६.०  
 —चिकित्सा श्रीवास्तव, मनमोहनलाल कृष्णा होमियो  
 १०००  
 —चिकित्सा-विज्ञान गर्मा, बालकृष्ण मिश्र-बधु ५००  
 —चिकित्सा-सिद्धांत गर्मा, बालकृष्ण मिश्र-बधु ३५०  
 —मे इजेजेशन वर्णवाल, एम एल एम एल बुक १००  
 —मेटेरिया मेडिका स ३ मेडिकल ३७५  
 —भेषजसार गर्मा, सुरेशप्रसाद स ४ मेडिकल २००  
 होमियो शिशु-चिकित्सा गर्मा, सुरेशप्रसाद मेडिकल ०.७५  
 होम्योपैथिक इजेजेशन गाइड प्रेमचंद, डा देहाती ५००  
 होरी ('गोदान' का नाट्य रूपांतर) प्रेमचंद हम. २००  
 —और हीरा प्रयात बाल सदन ०.७५  
 होली का दिन शर्मा, यज्ञदत्त रामप्रसाद १२५  
 होलदार मटियानी, शैलेश आत्माराम. ६००  
 होवा की वेटी शम्भु 'विकल' नवीनतम २.५०  
 ह्विस्की की दोतल सोमनाथ 'अकेला कन्हैयालाल ३.००



# परिशिष्ट

प्रगिया बोनी गाइड अर्गली, फारुक देहाती २५०  
 प्रवचन श्रीराम विनोद मम्मनलाल देहाती ४००  
 प्रवाह त्रिकालज ज्योतिष न्यादरसिंह 'वेचैन' देहाती ४५०  
 प्रपट्टेट टेलरिंग फैंशन बुक कालरा, सुशीला देहाती ३२५  
 प्रभिनव मोपान त्रिविक्रमराय वच्चन राजपाल १५००  
 प्रभून नागर वैद्यक देहानी १०००  
 प्रनकार भीमामा मुगली मनोहर प्रगद सिंह भा भवन  
 ६००  
 —गुणावली नवीन स शर्मा, देवेंद्रनाथ भा भवन ३७५  
 प्रगोज माहात्म्य, सरल भापा शर्मा, जगन्नाथ देहाती १५०  
 प्रार्थन कशीशाहारी लाजवती, कुमारी देहानी ४५०  
 —वाणीक रामायण जयगोपाल देहाती मोटा टाइप, बडा  
 गाउन १२००  
 प्राधुनिक इंजीनियरिंग बुक कोकचा देहाती ८२५  
 —गणोपविद्य गाउड कोकचा, हरनारायण देहाती १५००  
 प्रायन व गेम उजन गाउड. नरेंद्रनाथ देहाती १५००  
 प्रायन व वाउ उमं गाउड नरेंद्रनाथ देहाती १५००  
 प्रायनवेदिग करैन्ट नरेंद्रनाथ देहाती २५५०  
 प्रायन माहात्म्य, सरल भापा शर्मा, जगन्नाथ देहाती १५०  
 प्रायन एमपोर्ट गाउड दुबे, सुरेशचंद्र देहाती. ८२५  
 प्रायन विद्युत् लाउनमेन व प्रायन गाइड नरेंद्रनाथ देहाती  
 २५५०  
 —प्रायन नरेंद्रनाथ देहाती ६००  
 —प्रायन प्रेम नरेंद्रनाथ देहाती १०५०  
 प्रायन पराश दर्शनानन्द, स्वामी देहाती ६००  
 प्रायन श्री कृष्णा लक्ष्मीनारायण लाल माधना सदन ४००  
 प्रायन श्री गुरु गिरिवरसिंह देहाती ६००  
 —प्रायन ए. ए. नाथ नानकसिंह. राजपाल २००  
 —प्रायन विद्युत् की प्रायनी मुक्तिबोध, गजानन माधव. भा  
 ज्ञानपीठ २५०  
 प्रायन माहात्म्य, सरल भापा शर्मा, जगन्नाथ देहाती  
 १५०  
 प्रायन नरेंद्रनाथ गाउड भवानीदास देहाती १५००  
 प्रायन मोटरकार ड्रेनिंग मैनुअल, नपूर्ण कृष्णानन्द ३ भा  
 देहाती २६७५  
 प्रायन नरेंद्रनाथ गाउड कोकचा, हरनारायण. देहाती. ५.२५  
 प्रायन नरेंद्रनाथ भा देहाती ३००  
 प्रायन नरेंद्रनाथ देहाती ३५०  
 प्रायन माहात्म्य श्रीमती मन्मथ देहानी. ६००  
 —प्रायन नरेंद्रनाथ भा देहाती १५०  
 प्रायन गाउड ज्ञान विद्युत् देहाती २२५

किसानी लोक कथाए रामेश्वर अशात देहाती ४५०  
 कुतुबन कृत मृगावती मिश्र, शिवगोपाल हिं सा सम्मे  
 कृष्ण उपामना रामकृष्ण दास रसिक देहाती ४५०  
 खराद व वर्कशाप ज्ञान कालीचरण देहाती ६००  
 गाइड आफ इडम्टीज कालीचरण देहाती ६००  
 गुमाई गुरुवानी नेशनल २०००  
 घरेलू उद्योग धवे. कालीचरण देहाती २५०  
 चतुर्मास माहात्म्य भापा जगन्नाथ देहाती १५०  
 चाद का मुह टैडा है मुक्तिबोध, गजानन माधव भा ज्ञान-  
 पीठ १०००  
 चादनी का जहर त्रिपाठी, नर्मदाप्रसाद हिं भवन ४००  
 चूर्ण रत्नाकर कोकचा, हरनारायण देहाती ३००  
 चैत्र माहात्म्य, सरल भापा शर्मा, जगन्नाथ देहाती १५०  
 चौराहा गुप्त, राजेश देहाती ३५०  
 ज्ञान वैराग्य छदावली भोले बाबा देहाती १५०  
 ज्येष्ठ माहात्म्य, सरल भापा शर्मा, जगन्नाथ देहाती १५०  
 ट्राजिस्टर रिसेवर नरेंद्रनाथ देहाती ६७५  
 —रेडियो विजय, आर सी देहाती ४५०  
 तिलहन की खेती रामेश्वर अशात देहाती ४५०  
 तुलसी के गुण तथा उपयोग कोकचा, हरनारायण देहाती  
 ३००  
 धर्मवीर हकीकत राय न्यादरसिंह वेचैन देहाती ३००  
 दुर्गा उपासना रामकृष्ण दास रसिक देहाती ४५०  
 —पुष्पावली न्यादरसिंह वेचैन देहाती १५०  
 —रतुति न्यादरसिंह वेचैन देहाती ११२  
 दृष्टात सागर हनुमान प्रमाद मपूर्ण ५ भा देहाती १०५०  
 देवी देवताओं की आरनिया जगन्नाथ देहाती ८५०  
 —वदना रामकृष्ण दास देहाती २५०  
 नयी कविता मन्कार और गित्प मिश्र, रामशकर साथी  
 ५००  
 नवजीवन तिवारी, रामचंद्र साधना सदन ४००  
 नवजीवन ज्योति प्रवेशिका पाठेय, गयाप्रमाद देहाती १०५०  
 न्याय दर्शन दर्शनानन्द, स्वामी, टीका देहानी ३२५  
 पञ्चनत्र मत्स्यकाम शास्त्री देहाती ३५०  
 परवर और फूम गिरिवरसिंह देहाती ३००  
 परफ्यूमरी मान्दर कालीचरण देहाती २५०  
 पानी के गुण तथा उपयोग कोकचा, हरनारायण देहाती  
 ३००  
 पुरुषोत्तम मास माहात्म्य, सरल भापा शर्मा, जगन्नाथ देहाती  
 १५०  
 पूजा भास्कर देहाती ८५०

पोटरिज गाइड अर्गली, फाख देहाती ४५०  
 पोष माहात्म्य, सरल भाषा शर्मा, जगन्नाथ देहाती. १५०  
 प्रकटीकल आर्मेचर वाइडिंग नरेद्रनाथ देहाती ८२५  
 —ट्राजिस्टर सर्किट्स विजय, आर सी देहाती. १०.५०  
 प्राकृतिक चिकित्सा सार. प्रसाद, के. देहाती ८२५  
 प्राचीन ब्रह्मज्ञान भजनमाला दीक्षित, रामस्नेही. देहाती  
 गुटका साइज. ४५०  
 प्रोफेटेबल होम इंडस्ट्रीज दुवे, सुरेशचंद्र देहाती ८.२५  
 फर्नीचर डिजाइन बुक रत्न प्रकाश शील देहाती १२००  
 फल व सब्जी परिरक्षण कालीचरण देहाती २.००  
 फलो की काश्त भवानीदास देहाती. ८२५  
 फाल्गुण माहात्म्य, सरल भाषा शर्मा, जगन्नाथ. देहाती १.५०  
 बडा भक्ति सागर मोहनलाल देहाती ४००  
 —योगासान सत्यकाम देहाती ४००  
 बारह मास माहात्म्य, सरल भाषा शर्मा, जगन्नाथ. देहाती  
 १५००  
 —माह के त्यौहार रामकृष्णदास रसिक देहाती ४५०  
 वृहद् हिंदी ग्रंथ-सूची महाजन, यशपाल... भा ग नि.  
 ३६००  
 बैचवर्क एड डाई फिटर. भगवत राय देहाती ८२५  
 ब्रह्मज्ञान भक्ति प्रकाश जीवादास, स्वामी देहाती २.५०  
 भवर गीत मालवीय, हरिमोहन हिं. सा सम्मे  
 भूचाल. गुप्त, राजेश. देहाती ३५०  
 भ्राद्रपद मास माहात्म्य, सरल भाषा. शर्मा, जगन्नाथ. देहाती  
 १.५०  
 मगसिर माहात्म्य, सरल भाषा शर्मा, जगन्नाथ देहाती  
 १५०  
 मधु के गुण तथा उपयोग दीक्षित, रामस्नेही देहाती. २५०  
 मनुस्मृति दयानंद, स्वामी देहाती ४५०  
 मशीनिष्ट नरेद्रनाथ देहाती २५५०  
 मस्तनाथ चरित्र मस्तनाथ देहाती ४००  
 महाभारत बतर्ज राधेश्याम खत्री, श्रीलाल संपूर्ण २२ भा  
 देहाती वडा साइज १५००  
 महाभारत भाषा जयगोपाल देहाती मोटा टाइप, वडा  
 साइज १२००  
 माघ माहात्म्य, सरल भाषा शर्मा, जगन्नाथ देहाती १५०  
 माडन एम्ब्राइडी मथुरा रानी देहाती ५५०  
 —सोप इन्डस्ट्री कालीचरण देहाती १०५०  
 मारबल चिप्स के डिजाइन. रामअवतार देहाती ६००  
 मारवाडी गीत संग्रह मोहनलाल देहाती ४५०  
 मिट्टी के गुण तथा उपयोग कोकचा, हरनारायण देहाती  
 ३००  
 मोमासा दर्शन दर्शनानंद, स्वामी, टीका देहाती ६००  
 मेवाड गौरव गाथा रघुवीरशरण देहाती ३००  
 मोटरकार इन्स्ट्रक्टर कृष्णानंद देहाती १५००  
 मोतीलाल नेहरू जोशी, रमेश साधना सदन २००  
 म्यूजिक टीचर रामअवतार वीर देहाती. ४५०  
 युग पुरुष नेहरू. गोविंददास, सेठ राजपाल २००

योग दर्शन दर्शनानंद, स्वामी, टीका देहाती. ६.००  
 योग वाशिष्ठ संपूर्ण १ जिल्द मे ६ प्रकरण सहित, सरल  
 भाषा मे. मोटे अक्षर शर्मा, रतीराम, अनु. देहाती ब. 1  
 साइज २२.००; दहेज एडीशन २५.००  
 रबड इंडस्ट्री कालीचरण देहाती ६००  
 रसखान रत्नावली याज्ञिक, भवानीशकर हिं सा सम्मे  
 रसराज मतीदधि, संपूर्ण ५ भा वैद्यक देहाती १०००  
 रसलीन ग्रथावली गुलाम नबी 'रसलीन', सैयद सपा. सुधाकर  
 पाडेय हिं प्रचा पु  
 रहदास रामायण बख्शीदास देहाती २५०  
 राजाभोज कालीदास देहाती ३५०  
 राम उपासना रामकृष्ण दास देहाती ४५०  
 रामलीला नाटक, संपूर्ण ९ भा शर्मा, जगदीश देहाती  
 १०००  
 रामायण तुलसीकृत, सचित्र, संपूर्ण आठो काड, दोहे चौपाई  
 सहित, मोटे अक्षरो मे ज्वालाप्रसाद, टीका देहाती  
 बहुत बडा साइज २५००, दहेज एडीशन ३२००,  
 बडा साइज १४००, दहेज एडीशन १६००  
 रामायण बतर्ज राधेश्याम न्यादरसिंह बेचैन देहाती ५.५०  
 रिसर्च आफ टायलेट शाप्स भगवत राय देहाती १५.००  
 रेडियो की प्रथम पुस्तक. विजय, आर सी देहाती ४५०,  
 द्वितीय पुस्तक ४५०, तृतीय पुस्तक ४५०, चतुर्थ  
 पुस्तक ४५०, पंचम पुस्तक ४५०  
 रेडियो फिजिक्स नरेद्रनाथ देहाती २५.५०  
 लाडी इन्डस्ट्री कालीचरण देहाती ६.००  
 —व ड्राइक्लीनिंग कालीचरण देहाती ४५०  
 लाला लाजपतराय. रामनाथ 'सुमन' साधना सदन ५५०  
 लोक और परलोक सुधार न्यादरसिंह 'बेचैन' देहाती. १.२५  
 लोकल ट्राजिस्टर विजय, आर सी देहाती ४५०  
 लोको शेड फिटर गाइड रत्ता, एच सी. देहाती १२.००  
 लोह दुर्ग गुप्त, राजेश. देहाती ३५०  
 वनस्पति धी निर्माण. कालीचरण. देहाती १०५०  
 वर्मा की रानी गुप्त, राजेश देहाती ३.००  
 वार्निश मास्टर दास, जे सी देहाती २५०  
 विद्यार्थी शिष्टाचार. रामचंद्र भारती. देहाती १५०  
 विष्णु उपासना रामकृष्ण दास देहाती ४५०  
 वेदात छदावली भोजे बाबा. देहाती ३००  
 —दर्शन दर्शनानंद, स्वामी, टीका देहाती ४५०  
 वैशाख माहात्म्य, सरल भाषा शर्मा, जगन्नाथ देहाती. १५०  
 वैशेषिक दर्शन दर्शनानंद, स्वामी, टीका देहाती ३५०  
 व्यापार अर्थ मार्तण्ड रतीराम. देहाती १०००  
 शशि कटिंग कला शशि प्रभा देहाती. ३७५  
 शिव उपासना. रामकृष्ण दास देहाती ४५०  
 शिव महापुराण सरल भाषा, सचित्र, मोटे अक्षरो मे शर्मा,  
 रतीराम, अनु देहाती वडा साइज. १४००, दहेज  
 एडीशन. १६००  
 गीट मेटल वक्स कालीचरण देहाती ८२५  
 श्रावण माहात्म्य, सरल भाषा शर्मा, जगन्नाथ देहाती १५०

श्रीकृष्णार्जुन सङ्गृहण देहाती ५००  
 श्रीकृष्णार्जुन गीता, १ = अर्जुन माहात्म्य सहित देहाती  
 ३००  
 — श्री राधेश्याम, सपूर्ण २० भा खत्री, श्रीलाल. देहाती  
 १२००  
 श्री दशम गुप्तमार्ग, सपूर्ण, सचित्र, मोटे अक्षर नरसिंह  
 श्याम, अनु देहाती बडा साइज १४००, बहेज एडी-  
 गत १६००  
 नन्दामिथो की सुत दृष्टिया रामनारायण देहाती ७५०  
 सपूर्ण आन्हा पत्र, ५२ लडाई मटस्लाल देहाती १२००  
 सचित्र परिवार नियोजन कोकचा, हरनारायण देहाती  
 ५२५  
 नन्दार्थप्रकाश, मोटे अक्षर मे टिप्पणी सहित दयानन्द, स्वामी  
 देहाती बहूत बडा साइज १४००, बडा साइज  
 १२००  
 नदा जवान ग्ही जार्जिंग देहाती १२००  
 ननातन भजनमाला भूपेन्द्रकुमार देहाती २५०

सप्तवार वृत्त कथा. जगन्नाथ देहाती १२५  
 सरल भागवत देहाती ३००  
 — महाभारत देहाती ३००  
 — रामायण देहाती. ३००  
 साय्य दर्शन दर्शनानन्द, स्वामी, टीका देहाती २००  
 स्टीम इन्जीनियर्स गाइड कपूर, एच सी देहाती १२००  
 — इन्जीनियर्स हैडबुक कपूर, एच. सी देहाती २०.२५  
 हनुमान उपासना रामकृष्ण दास रसिक देहाती ४.५०  
 हस्त सामुद्रिक ज्योतिष न्यादरसिंह वैचैन देहाती ८२५  
 — सामुद्रिक शास्त्र न्यादरसिंह 'वैचैन' देहाती. ४००  
 हितोपदेश सत्यकाम शास्त्री. देहाती २५०  
 हींग के गुण तथा उपयोग कोकचा, हरनारायण. देहाती  
 ३००  
 हैड बुक आफ बिल्डिंग कन्स्ट्रक्शन राम अवतार वीर देहाती  
 ३४५०  
 होम्यो पारिवारिक चिकित्सा दीक्षित, राजेश देहाती  
 ६००



